

श्रीरायचन्द्र जिनागमसंग्रहे

भगवत्सुधर्मस्वामिप्रणीत

श्रीमद्भगवतीसूत्र (व्याख्याप्रज्ञप्ति)

मूल अने अनुवादसहित

चतुर्थखंड

शतक १६-४१

प्रेरक-श्रीयुत पुंजाभाई हीराचंद

अनुवादक अने संशोधक—

पंडित भगवानदास हरखचंद दोशी

अमदावाद

प्रकाशक गोंपाळदास जीवाभाई पटेल, जैन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, अमदावाद.

मुद्रक:-रामचंद्र येसू शोडगे, निर्णयसागर प्रेम. २६-२८ बोलभाटलेन मुंबई

संपादकीय निवेदन

आ चौथो भाग १६ मा शतकयी आरंभी ४१ मा शतक सुधीमां पूरो प्रकाशित थाय छे. आ चौथा भागना अन्ते नीचेना मुद्दाओ संबंघे कहेवातुं छे.

१ संशोधन अने प्रतिओनो उपयोग. २ अनुवाद. ३ परिशिष्टो.

१ **संशोधन अने प्रतिओनो उपयोग.** आ सूत्रना संशोधनमां क, ख, ग, घ अने ङ ए पाच प्रतिओनो उपयोग करवामा आव्यो छे. अने ते सिवाय एक ताडपत्रनी प्रतिनो पण उपयोग करेलो छे. ते वधी प्रतिओना पाठान्तर न लेता तेमा जे पाठ शुद्ध जणायो ते मूकवामां आव्यो छे. आगमोनां पाठान्तर सहित शुद्ध संस्करणनी अनिवार्य आवश्यकता छे. परन्तु ते कार्यमां प्राचीन हस्तलिखित पुष्कळ प्रतिओनी तथा समय वगेरे साधनोनी जरूर होवाथी अने हाल ते वधी सामग्रीनो अभाव होवाथी पाठान्तरो आप्या सिवाय शुद्ध पाठ आपी संतोष मानवो पड्यो छे. प्रतिओनो सामान्य परिचय त्रीजा भागना निवेदनमां आव्यो छे तेथी अहीं आपवामां आव्यो नथी.

२ **अनुवाद.** भगवतीसूत्रनो अनुवाद मूल पाठने अनुसरीने करवामां आव्यो छे अने विषयने स्पष्ट करवा माटे वधारानां शब्दो [] आवा कोष्ठकमां आप्या छे. ते सिवाय कठण विषय समजाववा आवश्यक टिप्पणो आपवामा आव्या छे. वाचकनी सुगमता खातर दरेक उद्देशके प्रश्नवार सूत्रनो विभाग करी अने अनुक्रमे आंकडा मूकी तेनी नीचे तेज सूत्रना आंकडामा अनुवाद आपवामां आव्यो छे. अवान्तर प्रश्नने जुदा सूत्र तरीके न गणतां मूल प्रश्नना सूत्रमांज तेनी गणना करी छे. ते सिवाय ज्यां प्रश्न नथी परन्तु चरित्र के वर्णनात्मक भाग छे त्यां पण जुदी जुदी कंडिका प्रमाणे जुदां जुदां सूत्र गणवामां आव्यां छे. पृष्ठना प्रान्ते विषयतुं सूचन पण करेछं छे.

३ **परिशिष्टो.** अहीं वाचकोने उपयोगी थाय ते माटे जुदा जुदा सात परिशिष्टो आपवामा आव्यां छे. (१) पहेला परिशिष्टमां भगवतीसूत्रमां आवेला पारिभाषिक शब्दोकोश आपवामां आव्यो छे अने जे स्थले ते शब्द वापरवामां आव्यो छे तेनो पृष्ठाक आपेल छे. (२) बीजा परिशिष्टमां देश, नगरी अने पर्वतादिना नामो छे. (३) त्रीजा परिशिष्टमा चैत्य अने उद्यानना नामो छे. (४) चौथा परिशिष्टमा अन्यतीर्थिक अने तापसोना नामो छे. (५) पांचमा परिशिष्टमां साधु साध्वीनां नामो, (६) छठ्ठा परिशिष्टमा श्रावक-श्राविकाना नामो. (७) अने सातमा परिशिष्टमां साक्षीरूपे जे जे ग्रन्थोको निर्देश कर्या छे ते ते ग्रन्थोना नामो आप्याछे आ अनुवाद करवामा भाइश्री वेचरदासे करेला भगवतीसूत्रनी अनुवादनी कोपीनो पण उपयोग करवामा आव्यो छे माटे तेनी कृतज्ञतापूर्वक नोध लउं छुं. आ अनुवाद करवामां अने तेना प्रकाशनमा काळजी राखवा छता रही गयेला दोपोने माटे वाचको दरगुजर करशे अने सूचन करशे एवी आज्ञा राखी बिरसुं छुं.

भगवानदास दोशी



स्व पुजाभाई हीगचंद

(१८९०-१९३३)

जैनो जैन सिद्धान्त अने श्रीमद् राजचंद्रना उपदेशना प्रचार माट पोतानार्थी बनतु वचु कर्तु

चिरंजीव शेट पुंजाभाई

दहेगाम पासे आवेला हरखजीना मुवाडामां तेमना पिता वेपार अर्थे रहेता. तेमनो मुख्य धंधो घोरधारनो हतो. कौटुंबिक सर्वत्र अमदावाद साथे हतो तेथी तेमनु एक घर त्या शामळानी पोळमा पण हतुं.

नानी उम्मरमा पिता गुजरी गएल तेथी तेमनुं पाळन माता लेरी वाईए अने तेमना काकाए करेलुं. गामठी निशाळे वेसीने आंक लेखां नामुं वगेरे तेओ शीखेला. तेमने एक मोटा भाई पण हता केटलाक कुटुंबीओ अमदावाद रहेता हता. तेथी योग्य उम्मर थता वन्ने भाईओ अमदावाद आवीने रखा. मोटाभाई मीलना सूतरनो वेपार करता अने पुंजाभाईए गजीयाणीनी दुकानमा टुका पगारथी नोकरी शरु करी अने पोतानी बाहोशी तथा प्रामाणिकताने लीधे भागीदार थइ पाळळथी तेओ स्वतंत्र दुकानदार पण थइ शक्या हता. तेमना त्रण लग्न थएलां. छेल्लुं ३६-३७ वर्षनी वये साणंदमा थएलुं. छेळां पत्नी समरयत्राइथी तेमने एक पुत्र थयो, तेनुं नाम कचराभाई हतुं. पण ए भाई चिरंजीव न थई शक्यो. लगभग ए अरसामा श्रीमद् राजचन्द्रनो तेमने सहवास थयो अने ए सहवास वे एक वरस ठीक ठीक रह्यो. एने परिणामे एमनी दृष्टि समाजसेवाना रोकड धर्मस्वरूप कार्यों तरफ वळी. तेथी तेमणे फरता पुस्तकालयनी योजना, श्राविकाउद्योगशाळा, श्रीरायचंद्रसाहित्यमंदिर, मजूरशाळा अने जिनागमप्रकाशकसभौ वगेरे संस्थाओने उभी करवामा खूब फाळो आय्यो.

अमदावादीना दादाभाई नवरोजजी लईत्रेरीमा एमणे सारी सहाय्यामा पुस्तको भेट आपेला छे अने ते श्रीमद्दारायचंद्रसाहित्यमंदिर ए नामथी जुदा विभाग तरीके त्या राखवामा आवेला छे.

वळी, श्रीमद्दना सर्ववने लीधे तेओ महात्मा गाधीजीना सहवासमां वधारेमा वधारे आव्या. एना परिणामे एमणे पुरातत्त्वमंदिर उघाडवामा असाधारण फाळो आय्यो जेथी श्रीराजचंद्रज्ञानभंडार स्वपायो. आ पछी तेमणे पोते एकलाए स्थापेली अने निभावेली जिनागमप्रकाशकसभानी सस्थानुं काम गुजरात विद्यापीठने सोपी तेने फरीवार लगभग रु० त्रीश हजारनुं दान आय्युं अने ए द्वारा विद्यापीठना कार्यवाहकोए श्रीपुंजाभाई जैनग्रंथमाळा काढवी शरु करी.

तेओ सामाजिक सेवा करता कुटुंबना लोकोने भुली गया न हता. पोताना व्यवसायमां दूरदूरनां पण सगांओने रोकीने तेमणे सारी पायरीए चढावेला छे. लोभने कारणे कोई कुटुंबी काई अव्यवस्था करतो तो पण तेना तरफ तेमनी अमीदट्टि ज रहेती. एक कुटुंबीए मोटी रकमनी अव्यवस्था करेली, ए रकम एक सार्वजनिक सस्थानी हती तेथी पोताना पदरथी ए रकम भरपाई करीने ए वखते पुंजाभाईए पोतानी प्रामाणिकतानुं तेज वतावेळुं अने पेला गोटाळो करनार खजन तरफ करुणावृत्ति ज दाखवेली.

पोतानो पुत्र अकाळे काळवश थएलो होवाथी तेओए पोताना दौहित्रोने पुत्रवत् साचव्या, अने तेमना द्वारा शुद्ध देशी कापडनो पवित्र व्यवसाय करावीने तेमने सारी स्थिति उपर लावी मुक्या छे.

तेमनी छेह्णामा छेह्ठी खास नोधवा जेची प्रवृत्ति दाडी जवानी हती. उम्मरे वृद्ध अने शरीरे अशक्त होवा छता तेमणे दाडीकुचमां जवानी इच्छा महात्माजीने दर्शवेली पण महात्माजीए ज तेमने आश्रममा रहेवानो आग्रह करेलो छता तेओ महात्माजी दाडी पहोंच्या पछी एकवार दाडी जई आवेला अने देशना गरीबो प्रलेनी पोतानी दाज वतावीने ज सतोष पामेला.

महात्माजीने तेमना उपर एटलो वधो प्रेम हतो के तेओ तेमने 'चिरंजीवी' शब्दथी संबोधता. श्रीमद्दारायचंद्रभाईए तेमना उपर केटलाक कागळो लखेला ते उपरथी तेमना भक्त हृदयनी प्रतीति थई शके एम छे. स्थळसकोचने लीधे ए पत्रो अही नथी आपी शकाता.

टुंकामा श्रीपुंजाभाई आप वळे वधेला अने सामाजिक कार्योंमा ठेठ सुधी रस लेता रहेला. एमना जीवननुं थोडुं घणु अनुकरण थई शके तो पण घणु छे.^४

७२ वर्षनी पाकी वये सवत् १९८८ना आसो वद ८ ने शनिवारना २२-१०-१९३२ना रोज तेमनुं अवसान थयुं ते वखते महात्माजीए आश्रम समाचारमा जे लखेलुं छे ते आ साथे आपवामा आय्युं छे. ते द्वारा श्रीपुंजाभाईनी विशेष ओळखाण थई शके एम छे.

वेचरदास

१ गुजरातना नररत्न प्रसिद्ध साक्षर श्रीरमणभाई नीलकण्ठना हस्ते आ योजना सुधी मूकेली.

२ स० पुंजाभाईने श्रीमद्दारायचंद्रभाईनो ए आदेश हतो के श्रीजिनागमो गुजरातीभाषामा अनुवादित करीने सर्व लोक सुलभ करवा ते प्रमाणे तेमणे आ सस्थानी शरुआत करेली अने ए सस्थाने सुरक्षित राखवा जीवनपर्यंत प्रयत्न पण करता रखा

३ आ ज्ञानभंडार अमदावादमा छे, एमा जे जातनी साहित्यसामग्री एकठी कराएली छे एवी सामग्री आपणा देशना अन्य पुस्तकालयोमा घणी विरल जोवामा आवे छे. हस्तलिखित पुस्तको पण एमां सचवाएला छे

४ स० श्रीपुंजाभाईना खजन अने जीवनपर्यंतना सहचर श्रीनेमचंद्रभाईए भोकेली सामग्री उपरथी आ थोडु लखी शक्युं छे ते अर्थे तेमने धन्यवाद.

चिरंजीवी पुंजाभाई

व्यारे में पुंजाभाईने चिरंजीवी विशेषणयी लखवानु शरु कर्यु ल्यारे कोर्ट वाळके आश्रयपूर्वक मने सजाट ज्यो "पुंजाभाई तो तमारायी ए धये मोटा छे एने तमे चि० केम करी शको ?" में कंटेक आवो जकाव लख्यो हतो. "पुंजाभाई धये तो मोटा छे पण नारी उपर ते एक निर्दोष वाळक जेटत्रो निश्वास मूके छे ने नारी भक्ति पण नेटकाज भावयी करे छे" आ मान लखरुं अश्वरथः व्योवर हतु. ए विश्राम अने ए भक्तिने नारु मारी योग्यतानिषे मने शका छे. पण पुंजाभाईना निश्चाम निषे अने नेनां भक्तिनिषे मने लेटा पण शका नयी. गमे ते प्रकारनु सजट आवे ल्यारे पुंजाभाईने नारु मारी अभिप्राय वेदवाक्यरूपे कान करतो. पुंजाभाई बुद्धिगीन न हता पण बुद्धिपूर्वक तेणे नारी उपर निश्वास मूकवानो निश्चय करेले

ए पुंजाभाई जे अर्थना मे एने चि० करी संघोत्रा ए अर्थना आवे भटे न होव पण तेयी वट वयते भित्तुन अर्थनां चिरंजीवी छे.

तेने हु चिरंजीवी करी संघोवनो मरो पण मारे तेने कंटे श्रांमनवानु न हतुं. हुं तो पुंजाभाईना गुणनो पुंजागी हतो. पुंजाभाईनी नम्रता, पुंजाभाईनी धर्मपरायणता, पुंजाभाईनी सत्यपरायणता, पुंजाभाईनी उदारता मारी दृष्टि कोर्टयी आटी शकाव एती न हती. पुंजाभाईमा सर्वापणनी शक्ति हती.

पुंजाभाई रायचंद काचिने पोतातुं संरक्ष मानता. हुं पण रायचंदभाईनो पुंजागी हतो तेयी पुंजाभाई नारा तरफ आकराया हता. पुंजाभाईनी जेम हुं रायचंदभाईने गुरुपद नहोतो आपी शक्यो, तेतुं तेने दृख न हतुं. पुंजाभाई समजता हता के कोर्टने गुनपद दीतुं देवातुं नयी. छोटचुंवरु जेम छोटचुंने पोता प्रले खेंची ले छे तेम गुरु शिष्यने पोता प्रले मेंची ले छे.

पण रायचंदभाईने विरे हुं जे कंटे कहतेतो ते पुंजाभाईने बहु गमतुं अने वयारे तो ए गमतुं के जे वरुनी हुं खुनि करतो ते मारामां उतारवानो प्रयत्न करतो, आपी अमारी वचनी गाठ टिकते दिवने दृट थती गर्त.

आश्रमना आरमयी ज पुंजाभाईनो तेनी साथे निकट सवध बंधायो ने जो के ते आश्रमवासी न यथा हता आश्रमवासी नहोने वर्तना. आश्रमना घणा मंत्रोमा पुंजाभाईए भाग लीयो हतो. अमदावादनी वजारनी गुंचो पुंजाभाई वनावे. अने जे जोहये ते पुंजाभाई लयी आपे. पुंजाभाईना माणसो आश्रमनी सेवा सारु गमे ल्यारे वपराव, पुंजाभाईनी हुकान अने घर आश्रमवासीओतुं शहरमां आश्रमस्थान हतुं. सावरणीयी माडीने अनाज, धी, इत्यादि केम अने क्या ठीक मळी शके ए वतावनार पुंजाभाई पुंजाभाईनी देरमेगधी अने तेमनी सग-हयी आश्रमे घणा पैसा बचावी लीया छे. जे जमीनमा हाळ आश्रम छे ते शोयनार पण पुंजाभाई. तेनो सोदो करनार पण पुंजाभाई. आवी अनेक सेवाने सारु पुंजाभाईए कोई दहाडो उपकारना वे शक्योनी आगा सरसाये नयी करी आश्रम पोतातु छे. एम समजने पुंजाभाई छेवटनी बडी लगी बर्ला हता. पुंजाभाईना निकट संबंधमा आवता हता पुंजाभाईमा मे अवीराई नयी जोई. नयी अनिगयोकि जोई. काम विना पुंजाभाई बोले नहि. पुंजाभाई लपसपमा भाग ले ज शाना ? एनी वार्ता ते हनेगा धर्मनी वार्ता होव. सज्जनोतुं स्मरण तेमने प्रिय हतुं.

पुंजाभाईना मनमा कोईनो द्वेष में कवी अनुभव्यो नयी. कोईने विषे कटुवचन बोळता में पुंजाभाईने नामज्या नयी पुंजाभाई वेपारमां कुशळ हता, वे पैसा कमाया पण हता, धारत तो वयारे कमाई शकत पण रायचंदभाईना प्रसंगमा आख्या पडी तेमणे पोतानो पयारे सकेल्यो हतो, एवी मारी उपर छाप छे. पुंजाभाईनी शारु पहेली श्रेणीनी हती. तेने ला मुकेछुं द्रव्य दूवे बोईने पाछुं मळी शके.

आश्रमना पैसानी व्यवस्था पुंजाभाई ज करता अने लांबा काळ लगी गुजरात प्रातिक समितिना रजानची पण हता. पुंजाभाई पुण्याला हता, मुमुक्षु हता, चा युगमा एना जेवा निरुही मनुष्यो आगळीना वेटा उपर गणाय तेदखणे मळना मुस्कळ पडे.

पुंजाभाईनो स्पर्श आश्रमने पावन करनारो हतो. पुंजाभाईनो धर्म साकडो न हतो. तेना धर्ममा वचा धर्मने स्थान हतुं.

आवा पुंजाभाई चिरंजीवी ज छे. आपणे सह तेना गुणतुं चिंतवन करिये. तेना सवयने योग्य वचना प्रयत्न करीए.

(आश्रमसमाचारमां-गांधीजी)

आध्यात्मिक शोध

जीवनतंत्रना रहस्यनी जिज्ञासायांथी आध्यात्मिक शोधतुं झरण झूटे छे. ए जिज्ञासा ज आध्यात्मिक शोधनो मूळ पायो छे. आपणा देशामां जे जे महान आत्मशोधको थया छे, जेने आपणे संतो कहीये छीए तेओ ए जिज्ञासाथी ज प्रेराने जीवन अने जगतनी गूंच उकेलवा पोते करेली प्रवृत्तिनो जुदो जुदो वृत्तांत पोतपोतानी शैलीथी मूक्ती गया छे.

जेमनां बुद्धि अने मन ठीक ठीक विकास पास्यां छे एवा संस्कारसंपन्न, आरोग्यसंपन्न, तेजस्वी, आत्मशोधक मुमुक्षु लोकोंने पूर्वोक्त जिज्ञासाथी आ नीचेना केटलाक प्रश्नो थाय ते तदन स्वाभाविक छे.

आ जगत ए शुं छे ? आ वधा मोहमाया ए शुं छे ? जगतमां दुःख अने असंतोपनां कारणो कयां छे ? ते टळी शके के नहि ? टळे तो केवी रीते ? हुं शुं छुं ? हुं कयांथी, शामाटे, क्यारे अने केवी रीते आ जगतमां आव्यो छुं ? जो हुं कोई जुदो छुं तो सदाने माटे आ विश्वथी मारो छूटकारो थशे के नहि ? आ जगतनी उत्पत्ति क्यारे, केवी रीते, शामाटे अने कोने माटे कोणे करी ? शुं आ विश्व कोई वार नाश पामशे के नहि ? जो नाश पामशे तो आ वधा पदार्थो-नदी, समुद्र, पहाड, जंगलो, प्राणीओ ए वधुं कयां जशे ? हुं पोते कयां जईश ? शुं विश्वना प्रलय पछी हुं रहेवानो छुं ? जो रहीश तो कया आकारमां अने कोने आधारे ? जो नहि रहुं तो तेतुं शुं कारण ? शुं एवी कोई विशेष शक्ति छे के जे आ विश्वने फरीथी सर्जी शके ?

आ वधा प्रश्नो काई आजकालना नवा नथी पण वेदकालनी शरूआतथी एटले के ज्यारे आर्यगण संस्कारसंपन्न अने बुद्धिसंपन्न हतो स्यारथी ज चर्चाता आव्या छे. आ प्रश्नो साथे आध्यात्मिक शोधने गाढ संबंध छे.

वेदो, उपनिषदो, ब्राह्मणो, आरण्यको वगैरेमां आध्यात्मिक शोध करनारा ते ते दिव्यपुरुषोए ए प्रश्नो अने एवा बीजा अनेक प्रश्नो ऊपजावी तेनी चर्चा करेली छे. अने जेम जेम बुद्धिवल अने आत्मशोध उंडां जतां गयां तेम तेम बीजा पण अनेक शोधकोए ए प्रश्नो विषे जुदी जुदी दृष्टिथी पोतपोताना जुदा जुदा विचारो दर्शाव्या छे.

वधुमां सांख्याचार्य कृपिल, न्यायप्रवर्तक अक्षपाद, विशेषवादी महर्षि कृणाद वगैरे अनेक पुरुषोए ए प्रश्नो उपर वधारे प्रकाश आपणा प्रयास कर्यो छे. भगवान महावीरे अने भगवान बुद्धे पण जीवननी गूंच उकेलवाने जे आध्यात्मिक प्रयासो कर्या तेमां पण ए वधा प्रश्नो उपर अवश्य पोतपोतानी दृष्टिए योग्य प्रकाश नाखेलो छे.

भगवान बुद्ध विषे कहेवामां आवे छे के ते पोते बालपणथी चिंतनशील प्रकृतिना हता अने तेमनुं मन विश्वनी आ बाह्य प्रवृत्तिमा चोंटतुं न हतुं. माटे ज राजा शुद्धोदने तेमने राखवानी एवी व्यवस्था करेली के ज्यां सदा गानतान, रागरंग, विषयविलास अने अखंड स्वर्गीय सुख तेमने मळे के जेथी तेमनुं मन आ संसारमां चोंटी जाय. पण छेवटे राजा शुद्धोदनना आ वधा प्रयासो निष्फल गया अने सिद्धार्थ पोतानी छी अने पुत्रने छोडीने मधराते, पोताना चित्तमां रहेली उंडी उंडी उदासीनता अने असंतोपना कारणो शोधवा नीकळी पड्या. तेमने एवी राजशाहीमां राखेला हता के मंदवाड शुं, घडपण शुं अने मरण शुं तेनी सुद्धां तेमने खबर नहि पडेली. ज्यारे तेमणे मंदवाड, घडपण अने मरण जोयां स्यारे तेओ वधारे विह्वल वन्या अने ए दुःखोना अंतमाटे तेमणे प्रयास करवानुं पण नकी कर्युं.

भगवान महावीर पण जेमनुं नानपणनुं नाम वर्धमान हतुं, जेमना माता अने पितानुं नाम अनुक्रमे त्रिशला अने सिद्धार्थ हता, वचपणथी चिंतनशील अने संस्कारसंपन्न हता. तेमने लगती जैन साहित्यमां जे दंतकथाओ अने परंपराओ मळे छे ते उपरथी एटलुं तो तारवी शकाय एम छे के तेमनुं मन आत्मशोध तरफ वचपणथी ज वळेलुं हतुं. साथे तेमनामां मातपिता तरफ घणो सद्भाव हतो जेथी तेमणे तेमना आग्रहथी ज गृहस्थाश्रम स्वीकारेलो अने एक पुत्रीना पिता पण थया. तेमणे मातपिताना निर्वाण वाद पोताने वचपणथी ज प्रिय एवी आध्यात्मिक शोधने सबल प्रयत्नपूर्वक चालु करवानुं धारेलु छता तेओ पोताना बडील बंधुना प्रेमभर्या आग्रहथी एक वर्ष जेटलो वखत बळी राजधानीमा ज रखा पण ते दरम्यान तेमणे आध्यात्मिक शोधना साधन तरीके परापूर्वथी ज चाल्यो आवेलो सयममार्ग पोताना जीवनव्यवहारमा अमलमा मूक्यो. तेमनी पहेला श्रमणोनी परंपरामा पार्श्वनाथ नामे एक प्रख्यात युगप्रवर्तक थयेला तेमज वैदिक परंपरामां अनेक प्रकारना कर्मकांडो अने देहदंडनोनी रिवाज आत्मशोध करवामाटे चालु हतो ज.

जे साहित्य भगवान महावीरना अनुयायीओए गुंयेरुं छे ए जोनां एमनी सामेनी ए वधी श्रमणत्रादणपरंपराओनी माहिती आप-
णने मळी शके एम छे. ए परंपराओमांथी प्रेरणा मेळ्ळानि तेमणे हवे पोताना जीवननी गूंच टकेड्या अने पिच्चमां रद्देग छतां तेनाथी
यता त्रासोथी मुक्त रहेवानो मार्ग शोधवा अरंड अने उग्र प्रयत्न चाछु कर्यो. तेओ पोतानी त्रीग वर्णनी उमरे एटले के भरजुगानीमां
साधना करवा नीकळी पट्या, एथी ज एम जणाय छे के तेमने एमाटे केटली ताळवेळी हती. तेओ राजपाट, समृद्धि अने भोगविद्या-
सने ल्याग करीने कडकडता शियाळामा घर बहार नीकळी पट्या. वन्धी देह टांकमाना पण इच्छा नहि करेली.

वरीथी नीकळ्या पळी बराबर वार वर्ण सुबो तेमणे भारे साधना करी, जे साधनामां तेमने शारीरिक अने मानसिक अनेक कष्टो
सहवां पट्या, जेनो सविस्तर निर्देश जैनशागमोमां अकृत्रिम भाषामा आपणी सामे मौजुद छे. भैरवमनिकायना सिंहानादमुत्तमां जे जातनी
रोमांचकारी साधना बुद्ध भगवाने पोते वर्णवेळी छे तेथी ज साधना वा भगवान वर्धमान-महावीरनी हती. ए साधनाना परिणामे तेओए
हवे सर्वप्रकारनी स्थिरता साची मानसिक, वाचिक अने कायिक प्रवृत्तियो पर तेओ निरंतर अंगुय राखी शके तेना समर्थ थया. अने सर्व
प्रकारनी आसक्ति, तृष्णा तेमणे ते साधनाद्वारा उच्छेदी नारी. ए प्रमाणे स्थितप्रज्ञपणुं अने वीतरागभाज प्राप्त कर्या पळी अने पिच्चने
लगतुं वणुं गंभीर मनन कर्या पळी पोताना जमानाना लोको के जेओ आर्योए स्थिर करेला आदर्शथी वगा च्युत थयेला हता अने जेओनी
एवी श्रमणा हती के कर्मकांड के देहदंडमां ज सर्व सिद्धि समायेली छे, कर्मकांडमां हरेक प्रकारनी हिंसाने, असत्यने वार्मिक स्वान
छे—ते पण वेदने नामे, ईश्वरने नामे, ते लोकोनी ते श्रमणा टाळ्या अने फरी वार आर्योए शोधेला अहिंसा, सत्य, सर्वत्र वंदुमाव
अने गुणनी प्रधानताना सिद्धांतोने प्रचारमां मूक्ता देज, काळ अने प्रजाशक्तिने अनुमारे तेओ पोतानां प्रयत्नो मगध देगमां फरी
फरीने करवा लाग्या.

आ व्याख्याप्रज्ञसूत्रमां तेमनां केटलाक ते प्रवचनोनी नौधोनी संग्रह तेमना समसमथी के परवनी अनुयायीओए करेलो छे.

आ ग्रंथमा जीवनशुद्धिनी मीमांसा अने विश्वविचार ए बने मुदाओ परवे जे कांई कहेगामां आद्युं छे ते आजथी अदी हजार
वर्ष पहेंलांना सत्यना अने जीवनशुद्धिना उपासकोनी अगाध बुद्धि अने शुद्धिनुं उंडाण वनाववाने पूरुं छे.

जो के ग्रंथमा चर्चा बने मुदानी छे पण मुख्य मुद्दे तो जीवनशुद्धिनी मीमांसानो ज छे. विश्वविचारनो जे मुद्दे साचे चर्चेओ
छे तेने जीवनशुद्धिमा सहायक समजोने चर्चामां आवेले छे. जीवनशुद्धि विनाना मात्र ते मुदानी नयां ज्ञानथी ज श्रेयप्रदानि नथी एम
भगवान महावीर पदे पदे कहेरुं छे. जीवनशुद्धिना मुदाने चर्चनां पण केटलीक एवी चर्चा करवामां आवी छे जे चर्चा ते समयनी
रूढिने तोडी जीवनशुद्धिनी नवो मार्ग वतावनारी छे.

जीवनशुद्धि

आ ग्रंथमां भगवाने कहुं छे के संवर दुःख मात्रनो नाज करे छे, संवर एटले के इन्द्रियो उपरनो जय, मन उपरनो जय, वासना
उपरनो जय; द्रुंकांमां आत्ममानमां अंतरायभूत वधी वृत्तियोनी निरोध.

भगवाने कहुं छे के कोई व्यक्ति अणगार-त्यागी-याय एटले के तेने लोको श्रमण तरीके ओळखे एवो वेशा पहरे, एवी वेशाचारी
व्यक्ति जो संवरविनानी होय तो तेनो संसार घटवाने वदले वव्या ज करे छे अने ते भारेकर्मी थई आ अनादि अनंत संसारमां लांबा
काळ सुधी रखल्या ज करे छे. (मा० १ पा० ८१) भगवानना आ कथननुं तात्पर्य ए छे के मात्र वेगथी जीवनशुद्धि यती नथी, थई
नथी अने थशे पण नहि. जीवनशुद्धिमां मुख्य कारण संवर छे ए भूळवुं न जोडए.

ए ज प्रमाणे जे प्राणी असंयत छे जेमा त्यागवृत्ति जरा पण जागेली नथी तेना प्राणीओनो निस्तार नथी. एवी कोटिना प्राणीओमां
जेओ परतंत्रपणे पण इंद्रियो उपर अंकुश राखे छे, शरीर उपर अंकुश राखे छे अने भाषा उपर अंकुश राखे छे तेओ ए परतंत्रपणे
केळवायेली सहनशक्तिने लीवे भविष्यमां सारी स्थिति मेळवे छे. (मा० १ पा० ८४) आमां भगवानना कथननुं तात्पर्य ए छे के परतंत्र-
पणे पण केळवायेले संयम जीवनविकासमां थोडी धणी मदद करी शके छे, तो जे मनुष्यो ए संयमने स्वेच्छाए केळवे तेओनो विकास
सरळ रीते याय तेमां तो कहेरुं ज शुं ?

१ "जो चेत्र-इमेण वयेण पिहिस्सामि तंति हेमंते ।
से पारए आवक्खाए एवं सु आशुवन्मिथं तस्स" ॥

"जे पारगामी (भगवान महावीर) एवो संकल्प कर्यो के जीवनपर्यंत
हुं आ वदथी (देहने) टाकीश नही, तेमनो ए (सकल्प) योग्य ज कहेवाम"

[आचारांग सूत्र उपधान शुत थ० ९ गाया २]

२ जूओ आचारांग—उपधानशुत अध्यायन ९ ।

३ जूओ भगवान बुद्धना पचास धर्म संवादो ।

४ "हुं जेव्हाशुद्धिमनना" सुत्रेषु विगतस्तुह । वीतरागभयक्रोय स्थितधीमुनिरुच्यते ॥"—गीता ।

એક સ્થલે ભગવાને જીવનશુદ્ધિને લક્ષમાં રાખીને મનની સ્થિતિઓ વર્ણવી છે. તે સ્થિતિના તેમણે છ નામ આપેલાં છે, જે જૈન સંપ્રદાયમાં લેશ્યાને નામે પ્રસિદ્ધ છે. મનુષ્યની અલ્પત ક્રૂરમાં ક્રૂર વૃત્તિને કૃષ્ણલેશ્યા કહેવામાં આવી છે. જેમ જેમ એ ક્રૂરતા ઓછી થતી જાય અને તેમાં સાત્ત્વિક વૃત્તિનો ભાવ મેળાતો જાય તેમ તેમ માનવજીવનનો વિકાસ વધતો જાય છે. તે વિકાસપ્રમાણે તે ચિત્તવૃત્તિઓનાં નામ પણ જુદાં જુદાં વતાવેલાં છે. કૃષ્ણલેશ્યા કરતા જેમાં થોડો વધારે વિકાસ છે તે વૃત્તિને નીલલેશ્યા કહેવામાં આવે છે. તે પછી જેમ જેમ વધારે વિકાસ થતો જાય છે તેમ તેમ અનુક્રમે તે તે ચિત્તવૃત્તિઓને ક્ષાપોત, તેજ, પદ્મ અને શુક્લેશ્યાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ નીચેના ઉદાહરણથી આ વૃત્તિઓનો મર્મ સહજમાં સમજી શકાશે.

જેમ કોઈ એક વ્યક્તિ પોતાની જ સુખસગવડ માટે હજારો પ્રાણીઓને લાચારીમાં રાખે એટલે કે જે પ્રાણીઓદ્વારા પોતાની અંગત સુખસગવડ મેળવે છે તે પ્રાણીઓના સુખની તેને જરા પણ દરકાર નથી, તે પ્રાણીઓ જીવે કે મરે પણ પેલા સુખભોગીની સગવડો તો સચવાવી જ જોઈએ. આવા મનુષ્યની વૃત્તિને કૃષ્ણલેશ્યાનું નામ આપી શકાય.

જે મનુષ્ય પોતાની સુખસગવડમાં જરા પણ ડગપ આવવા દેતો નથી પણ તે સગવડ જે પ્રાણીઓદ્વારા મળે છે તેમની પણ અજ-પોષણન્યાયે જરાતરા સંભાલ લે છે. આ જાતની વૃત્તિને નીલલેશ્યા કહે છે.

સુખસગવડ આપનાર પ્રાણીઓની પણ જે પૂર્વોક્ત ન્યાયે થોડી વધારે સંભાલ લે તે સુખભોગીની વૃત્તિને ક્ષાપોતલેશ્યા કહી શકાય. આ ત્રણ લેશ્યાઓમાં વર્તનાર માણસને પોતે શું છે તેનું જરા પણ ભાન હોતું નથી અને તેથી જ તેનામાં વીજા પ્રસે અકારણ મૈત્રીવૃત્તિ રાખવાનો વિચાર પણ આવતો નથી.

જે માણસ પોતાની અંગત સુખસગવડને ઓછી કરે અને સુખસગવડ આપનારા સહાયકોની ઠીક ઠીક સંભાલ લે તેને તેજો-લેશ્યાવાલો કહી શકાય.

જે માણસ પોતાની સુખસગવડ જરા વધારે ઓછી કરી, પોતાના આશ્રિતોની તેમજ સંબંધમાં આવતા દરેક પ્રાણીઓની, રહેદ મોહ અને મય સિવાય સારી રીતે સંભાલ લે તેની વૃત્તિને પદ્મલેશ્યા કહી શકાય.

જે સુખસગવડને તદ્દન ઓછી કરી નાખે અને પોતાની શરીરનિર્વાહ પૂરતી હાજતોને માટે પણ કોઈ પ્રાણીઓને લેશ પણ ત્રાસ ન આપે, તેમજ કોઈ પદાર્થ ઉપર લોહપતા ન રાખે, સતત સમભાવ જલ્લવાય એવો વ્યવહાર રાખે અને માત્ર આત્મભાનથી જ તુષ્ટ રહે તેની વૃત્તિને શુક્લેશ્યા કહી શકાય.

જીવનશુદ્ધિની હિમાયત કરનારા માટે આમાંની પહેલી ત્રણ વૃત્તિ લ્યાગ્ય છે અને પાછલી ત્રણ વૃત્તિ પ્રાહ્ય છે, તેમાં પણ છેક છેલ્લી વૃત્તિ કેલ્લ્યા સિવાય પૂર્ણ વિકાસ સર્વથા અસંભવ છે એમ ભગવાન મહાવીરે પોતાની વાણીમાં ઠેકઠેકાણે કહ્યું છે.

ભગવાને કહ્યું છે કે ઉત્યાન છે, કર્મ છે, વલ છે, વીર્ય છે, પરાક્રમ છે, આ શરીર જીવને લઈને હાલે ચાલે છે, શરીરની શક્તિ શરીરની પુષ્ટિને લીધે છે, પુષ્ટ શરીર અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે અને એમાંથી પ્રમાદ જન્મે છે, એ પ્રમાદને લીધે જીવ અનેક પ્રકારની મોહજાલમાં ઘસાય છે અને અજ્ઞાન અંધકારમાં સવલ્યા જ કરે છે, માટે પ્રમાદના મૂલ્ય કારણ શરીરને જો સંયમમાં રાખવામાં આવે તો આ મોહજાલમાંથી જીવ સહેજે છૂટી શકે. (માં ૧ પાં ૧૨૦)

એક સ્થલે ભગવાન કહે છે કે માત્ર સંયમ, માત્ર સંવર, માત્ર બ્રહ્મચર્ય અને માત્ર પ્રવચનમાતાના પાલનથી કોઈ પ્રાણીનો નિસ્તાર થતો નથી. જ્યારે પ્રાણી રાગદ્વેષ ઉપર પૂર્ણ જય મેળવે છે ત્યારે જ તે સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત થાય છે અને નિર્વાણપદને મેળવે છે. (માં ૧ પાં ૧૩૭) આમાં ભગવાને જે કહ્યું છે કે કેવલ સંયમ, કેવલ સંવર અને કેવલ બ્રહ્મચર્યથી જીવનો નિસ્તાર નથી. એનો મર્મ એ છે કે જે સંયમ, સંવર અને બ્રહ્મચર્ય નામમાત્ર હોય-ખરેખરાં ન હોય એટલે કે સયમ, સંવર અને બ્રહ્મચર્ય માત્ર ડોલ હોય પણ વાસનાનો જય, ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ, વિપયવૃત્તિનો ત્યાગ અને માનસિક, વાચિક અને શારીરિક પ્રવૃત્તિની એકવાક્યતા એ વધું ન હોય એવાં કેવલ સંયમ, સંવર અને બ્રહ્મચર્ય પ્રાણીના જીવનનો વિકાસ કરી શકવાને સમર્થ નથી.

ભગવાન મનુષ્યના ત્રણ વિભાગ કરે છે. કેટલાકને એકાંત વાલ્કની કોટિમાં મૂકે છે, કેટલાકને એકાંત પંડિતની કોટિમાં મૂકે છે અને કેટલાકને વાલ્કપંડિતની કોટિના જળાવે છે. આત્મભાન વિનાના એકાંત વાલ્કનો છે, આત્મભાનવાળા એકાંત પંડિત છે અને મધ્યમ વૃત્તિના વાલ્કપંડિતકોટિના છે. (માં ૧ પાં ૧૮૯)

૧ કૃષ્ણ અને નીલલેશ્યા એટલે તામસી વૃત્તિ, ક્ષાપોત અને તેજોલેશ્યા એટલે રાજસી વૃત્તિ અને પદ્મ અને શુક્લેશ્યા એટલે સાત્ત્વિક વૃત્તિ એમ સાધ્યપરિ-માપા પ્રમાણે કહી શકાય.

બુદ્ધ ભગવાન જેને પૃથ્વગ્જન કહે છે તે આ એકાંત વાલ્ક્રોટિના છે અને જેને આર્યજન કહે છે તે એકાંત પંડિતકોટિના છે.

લોકોમાં કહેવાતી ઝંચી જાતિનો, ઝંચી પ્રતિષ્ઠા કે એવા વીંજા કોઈ એશ્વર્યવાલો, આત્મમાન વિનાનો હોય તો ભગવાનને મન તે એકાંત વાલ છે અને જાતિથી હલકો ગણાતો પણ જો આત્મમાનવાલો હોય તો ભગવાનને મન એકાંત પંડિત છે.

ભગવાન કહે છે કે હિંસા, અસત્ય, ચૌર્ય, મેયુન, પરિગ્રહ તથા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, કલ્હ, અમ્યાહ્યાન, પૈશુન, નિંદા, કપટપૂર્વક વ્યવહાર અને અજ્ઞાન એ વધા દોષોથી જીવો સંસારમાં ફર્યા જ કરે છે. જે પ્રાણિઓ અહિંસા, સત્ય, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ, ક્ષમા, સરલતા, સતોષ, અઘૈરવૃત્તિ, સ્વસ્થમાવની સ્મૃતિ વગેરે ગુણોને કેલ્લે છે, તેઓ સંસાર ઓટો કરે છે અને નિર્વાણને પામે છે. (માં ૧ પાં ૧૯૯)

ભગવાન કહે છે કે ગૃહવાસ છોડીને શ્રમણ નિર્ગ્રંથ થયા પછી પણ મનુષ્યો વિવેકની રામીને લીધે નકામા નકામા કલ્હો કરી મિથ્યા મોહના પાશમાં ફસાય છે. પરસ્પરના જુદા વેદને લીધે, જુદા જુદા નિયમોને લીધે, જુદા જુદા માર્ગોને લીધે, જુદા જુદા વારાધારને લીધે, પોતપોતાના આચાર્યોના જુદા જુદા મતને લીધે, શાસ્ત્રના જુદા જુદા પાઠને લીધે એમ અનેક પ્રકારનાં વાલકારણોને લીધે લડતા ક્ષયલતા શ્રમણ નિર્ગ્રંથો પોતાના સંયમને દૂષિત કરે છે. (માં ૧ પાં ૧૨૫)

ભગવાને કહેલી આ હકીકત તેમના પોતાના જમાનામાં પણ હતી અને આ જમાનામાં પણ તે આપણને પ્રલક્ષ જ છે. આ જાતના ઓટા કલ્હો મિથ્યામોહને વધારનાર છે એવું ભગવાન વારંવાર કહે છે.

એકે સ્થલે ભગવાનને તેમના મુલ્ય શિષ્ય ઇન્દ્રમૂતિ ગૌતમે પૂલ્યું કે, ગુણવંત શ્રમણ વા બ્રાહ્મણનો સેવાથી શું લાભ થાય છે ? ભગવાને જણાવ્યું કે હે ગૌતમ ! તેમની સેવા કરવાથી આર્ય પુરુષોએ કહેલાં વચનો સામલ્લવાનો લાભ થાય છે અને તેથી તેને—સાંમલ્લનારને પોતાની સ્થિતિનું માન થાય છે, માન થવાથી વિવેક પ્રાપ્ત થાય છે, વિવેકી થવાથી સ્વાર્થાપણું ઓલું યદે લાગભાવના કેલ્લવાય છે અને તે દ્વારા સંયમ ળીલે છે અને સંયમની ળીલવણીથી આત્મા દિવસે દિવસે શુદ્ધ તથા તપશ્ચર્યાપરાયણ થતો જાય છે, તપશ્ચર્યાથી મોહમલ્લ દૂર થાય છે અને મોહમલ્લ દૂર થવાથી અજન્મા દશાને પામે છે.

ભગવાનના ઉપર્યુક્ત કથનમાં ગુણવંત શ્રમણ અને બ્રાહ્મણ તરફની તેમની દલિનો મર્મ સમજવા આપણે પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ.

એક સ્થલે મંડિતપુત્રના પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાન કહે છે કે અનાત્મમાવમાં વર્તનો આત્મા હંમેશા કંપ્યા કરે છે, ફડફડયા કરે છે, ક્ષોમ પામ્યા કરે છે અને તેમ કરતો તે હિંસા વગેરે અનેક જાતના આર્મમાં પડે છે, તેના તે આર્મો જીવમાત્રને ત્રાસ ળપજાવનારા થાય છે. માટે હે મંડિતપુત્ર ! આત્માએ આત્મમાવમાં સ્થિર રહેવું જોઈએ અને અનાત્મમાવ તરફ કદી પણ ન જવું જોઈએ (માં ૨ પાં ૭૬)

સાતમા શતકના વીંજા ઉદ્દેશકમા ભગવાન, ઇંદ્રમૂતિ ગૌતમને કહે છે કે જે પ્રાણી સર્વ પ્રાણ, મૂત, જીવ અને સત્ત્વોની હિંસાનો લ્યાગ કરવાની ળાત કરે છે ળતાં તે, પ્રાણ મૂત જીવ અને સત્ત્વને ઓલ્લલવા પ્રયત્ન કરતો નથી—તે તે પ્રાણમૂતોની પરિસ્થિતિ સમજી તેમની સાથે મિત્રવત્ વર્તવાનો પ્રયાસ કરતો નથી તેથી તેનો, તે તે પ્રાણીની હિંસાનો લ્યાગ એ અહિંસા નથી પણ હિંસા છે, અસત્ય છે અને આસત્યરૂપ છે. અને જે, જેવો પોતે પ્રાણી છે એવા જ આ વીંજા પ્રાણીઓ છે, જેવી લ્યાગણી પોતાને છે એવી જ લ્યાગણી વીંજાને પણ છે એમ સમજીને હિંસાનો લ્યાગ કરે છે તે જ ળરો અહિંસક છે, સત્યવાદી છે અને આસત્યરહિત છે. (માં ૩ પાં ૭)

આ જ પ્રમાણે આઠમા શતકના દશમા ઉદ્દેશકમાં ભગવાન કહે છે કે કોઈ મનુષ્ય, માત્ર શ્રુતસંપન્ન હોય પણ શીલસંપન્ન ન હોય તે ઢેશથી—અંશથી વિરાધક છે. જે માત્ર શીલસંપન્ન હોય પણ શ્રુતસંપન્ન ન હોય તે ઢેશથી આરાધક છે, જે શ્રુત અને શીલ વનેથી સંપન્ન હોય તે સર્વથી આરાધક છે અને જે વન્ને વિનાનો છે તે સર્વથી વિરાધક છે. (માં ૩ પાં ૧૧૮)

આ વન્ને કથનમાં પ્રજ્ઞા અને આચાર વન્ને જીવનશુદ્ધિમાં એક સરલ્ખાં ઉપયોગી છે એમ ભગવાન વતાવે છે. પ્રજ્ઞા વિનાનો આચાર વંધનરૂપ થાય છે અને આચાર વિનાની પ્રજ્ઞા ળચ્છંલલતા પોપે છે. આ જ કારણથી બુદ્ધ ભગવાને પણ બુદ્ધપદ પામતાં પહેલ્લા પ્રજ્ઞાપારમિતા, સત્યપારમિતા અને શીલપારમિતા કેલ્લવી હતી.

કહેવાતું એ છે કે ભગવાન મહાધીર અને ભગવાન બુદ્ધ એ વન્નેએ પોતાનાં પ્રવચનોમા જ્ઞાન અને ક્રિયાને એક સરલું સ્થાન આપેલું છે.

૧ પુલ્યુજનો (મૂલ પાલ)

૨ “તહારવં ણં મતે ! સમણં વા માહરણં વા પલ્લુવાસમાણસલ્લ ક્કિલ્લા પલ્લુવાસણા”—પ્રસ્તુત ગ્રંથ માગ ૧ પૂં ૨૮૩ ।

ભગવાન, ગૌતમને કહે છે કે હે ગૌતમ ! હાથી અને કુંચવો એ વંચેનો આત્મા એક સરખો છે. (માં ૨ પાં ૨૭) એમના એ ક્રયનમાં નાના મોટા દરેક પ્રાણીઓ પ્રત્યે સરખો ભાવ રાખવાનો આપણને સંદેશો મળે છે.

જે જે કારણોથી આત્મા અનાત્મભાવમાં ફસાય છે, તે સમજાવતાં ભગવાન કહે છે કે આ જગતમાં અનાત્મભાવને પોપનારી દશ સંજ્ઞાઓ છે. પહેલી આહાર, પછી ભય, મૈથુન, પરિગ્રહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, લોક અને ઓઘ. (માં ૩ પાં ૨૭)

ભગવાને કહેલી આ સંજ્ઞાઓ કેટલી દુઃખકર છે તે તો સૌ કોઈ પોતાના અનુભવ ઉપરથી જાણે છે. આ સંજ્ઞાઓમાં ભગવાને અનાત્મભાવ પોપનારી લોકસંજ્ઞા અને ઓઘસંજ્ઞાને જળાવીને તેનાથી દૂર રહેવાનું આપણને જણાવ્યું છે.

આહારથી માંડીને લોભસુધીની સંજ્ઞાઓ દુઃખકર છે એમાં કોઈને શક નથી પણ લોકસંજ્ઞા અને ઓઘસંજ્ઞાનું દુઃખદાયીપણું પ્રાકૃત મનુષ્યના ક્ષ્યાલમાં જલદી આવી શકે તેવું નથી. લોકસંજ્ઞા એટલે વગર સમગ્ર પ્રાકૃત લોક પ્રવાહને અનુસરવાની વૃત્તિ અને ઓઘસંજ્ઞા એટલે કુલ પરંપરાપ્રમાણે કે ચાલતા આવેલા પ્રવાહપ્રમાણે વગર વિચાર્યે ચાલ્યા કરવાની વૃત્તિ. આ વંચે વૃત્તિથી દોરવાતો મનુષ્ય સત્યને શોધી શકતો નથી, નિર્ભય રીતે સત્યને વતાવી શકતો નથી. તેથી જ આ વે વૃત્તિઓ જીવનશુદ્ધિનો ઘાત કરનારી છે. આમ હોવાથી જ ભગવાને તેમને હેયકોટિમા મૂત્તી છે. અત્યારે આપણા રાષ્ટ્ર, સમાજ કે જીવનનો વિકાસ આપણામાં આ વે વૃત્તિનું પ્રાધાન્ય હોવાથી જ અટકેલો છે. એ વે વૃત્તિઓ આપણામાં એટલી વધી જડ ઘાલીને પેસી ગઈ છે કે જેને કાઢવા અનેક મહારથીઓએ પ્રયત્નો કર્યા. કૃષ્ણે ગીતામાં અને ભગવાન મહાવીરે તથા યુદ્ધે પોતપોતાનાં પ્રવચનોમાં જુદીજુદી રીતે આ વે વૃત્તિઓમાં રહેલી જીવનની ઘાતકતા આપણને પ્રત્યક્ષ થાય તેવી રીતે વર્ણવેલી છે. વર્તમાનમાં આપણા આ યુગના રાષ્ટ્રીય સૂત્રધારો પણ આપણામાં રહેલી એ સંજ્ઞાઓને કાઢવા ઘણો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.

આ રીતે ભગવાને આ સૂત્રમાં અનેક સ્થલે અનેક પ્રકારે જીવનશુદ્ધિની પદ્ધતિની સમજણ આપેલી છે. ભગવાનનું આજું જીવન જ જીવનશુદ્ધિનો જ્વલંત દાખલો છે એટલે તેમનાં પ્રવચનોમાં ઠેકઠેકાણે એ વિષે એમના મુખમાથી ઉદ્ગારો નીકળે એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે.

એમના કેટલાયે ઉદ્ગારો આધુનિક વાચનારને પુનરુક્તિ જેવાયે છાગે છતાં જીવનશુદ્ધિના એક જ ધ્યેયને વઘ્ગી રહેનારાના મુખમાંથી પોતાના ધ્યેયને અનુસરતા ઉદ્ગારો વારંવાર નીકળે એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. કેટલીયે વાર એ ઉદ્ગારોની પુનરુક્તિ જ સાધકને પોતાની વૃત્તિમાં દઢ કરે છે તેથી એ પુનરુક્તિ પણ અત્યંત ઉપયોગી છે.

વિશ્વવિચાર

ભગવાન મહાવીરે ધ્યેયરૂપ જીવનશુદ્ધિને ધ્યાનમાં રાખીને જ આ સૂત્રમાં સૃષ્ટિવિજ્ઞાનની ચર્ચાઓ અનેકરીતે કરેલી છે. એ વધી ચર્ચાઓ પણ પરંપરાએ જીવનશુદ્ધિની પોષક છે એમાં શક નથી, જો સમજનાર ભગવાનના મર્મને સમજી શકે તો.

ભગવાને આ સૂત્રમાં અનેક જગ્યાએ જણાવ્યું છે કે, પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ એ વધામાં માનવ જેવું ચૈતન્ય છે. તે વધાં આહાર કરે છે, આસોચ્છ્વાસ લે છે અને તે વધાને આપણી પેટે આયુષ્યમર્યાદા પણ હોય છે. એ વધાં એકઈન્દ્રિયવાળા જીવો છે, એટલે તેઓ માત્ર એક સ્પર્શઈન્દ્રિયથી જ પોતાનો વધો વ્યવહાર નિભાવે છે. જે પૃથ્વી-માટી પત્થર ધાતુ વગેરે, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ કોઈ રીતે ઉપઘાત પામ્યા નથી તે ચૈતન્યવાળાં છે. તેમનાં પહેલા ચારના શરીરનું કદ વધારેમાં વધારે અને ઓછામા ઓછું આગળના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું છે, અને વનસ્પતિના શરીરનું કદ ઓછામા ઓછું તો તેટલું જ છે, પણ વધારેમાં વધારે એક હજાર યોજન કરતાં કાંઈક વધારે છે. તે વધાના શરીરનો આકાર એક સરખો વ્યવસ્થિત નથી હોતો. માટી તથા પત્થર વગેરે પૃથ્વીના શરીરનો આકાર મસૂરની ઢાલ જેવો કે ચંદ્ર જેવો હોય છે. પાણીના શરીરનો આકાર પરપોટા જેવો, અગ્નિના શરીરનો આકાર સોયના મારા જેવો, વાયુના શરીરનો આકાર ધજા જેવો અને વનસ્પતિના શરીરનો આકાર અનેક પ્રકારનો હોય છે. તે વધામાં આહાર, નિદ્રા, ભય, મૈથુન અને પરિગ્રહસંજ્ઞા છે. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચારે કપાયો છે. તે વધા સ્પર્શઈન્દ્રિયદ્વારા ખોરાક મેળવે છે. ચૈતન્યવાળા પૃથ્વીના એક જીવનું આયુષ્ય ઓછામા ઓછું અંતર્મુહૂર્ત અને વધારેમા વધારે ૨૨૦૦૦ વર્ષનું છે. પાણી વગેરેનું ઓછામાં ઓછું અંતર્મુહૂર્ત અને વધારેમાં વધારે પાણીનું ૭૦૦૦ વર્ષ, અગ્નિનું ત્રણ રાતદિવસ, વાયુનું ૩૦૦૦ વર્ષ અને વનસ્પતિનું ૧૦૦૦૦ વર્ષ છે. તે વધાં વ્યારે મરણ પામે છે, ત્યારે પોતાની એ પાચ યોનિમાંની કોઈ એક યોનિમા આવવાની યોગ્યતા વરાવે છે કે શંખ કોડા વગેરે વે ઈન્દ્રિયવાળા જીવોની, જૂ માકાઢ

૧ 'પૃથિવી દેવતા' 'આપો દેવતા' હયાદિ મન્ત્રો વૈદિક પરંપરામાં પ્રસિદ્ધ છે. યજ્ઞ વગેરેમાં જ્યારે પૃથિવી, પાણી, વનસ્પતિ કે અમિ વગેરેનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે ત્યારે પ્રારંભમાં ઉક્તમન્ત્રો ધોલવામાં આવે છે મન્ત્રો ધોલનારાના કે યજ્ઞ કરનારાના ક્ષ્યાલમા એવું ભાવ્યે જ આવતું હોય છે કે તેઓ પૃથ્વી, પાણી, અમિ કે વનસ્પતિ વગેરેનો જે ઉપયોગ કરે છે તે હિંસાજનક પ્રવૃત્તિ છે કારણ કે તેઓમા એટલે પૃથ્વી વગેરેમા પણ આપણી જેવું જ ચૈતન્ય છે ધર્મ સમજીને એવી હિંસક પ્રવૃત્તિ કરનાર તે કર્મઢાઢી લોકોના ક્ષ્યાલમાં આ વસ્તુ આવે તે સારૂ ભગવાને એ પ્રસિદ્ધ વાતને પણ ઘુનોમાં સ્થલે સ્થલે જણાવી છે.

धनेडा वगेरे त्रण इन्द्रियवाळा जीवोनी, पतंगिया भमरा वींठी वगेरे चार इन्द्रियवाळा जीवोनी, पशुपक्षी वगेरे पाच इन्द्रियवाळा तिर्यंच जीवोनी के मनुष्यनी योनिमां आववानी योग्यता धरावे छे. मात्र अग्नि अने वायु, मनुष्यनी योनिमां आववानी योग्यता धरावना नथी. ए वधाने चार प्राण छे एटले के स्पर्शइन्द्रिय, शरीरबळ, आसोच्छ्वास अने आयुष्य.

जेवीं रीते पृथ्वी वगेरेना चैतन्य वगेरेनो विचार करवामां आव्यो छे तेवीं ज रीते वेइन्द्रिय-स्पर्श अने जिह्वावाळा, त्रणइन्द्रिय-स्पर्श, जिह्वा अने श्राणवाळा, चारइन्द्रिय-स्पर्श, जिह्वा, प्राण अने चक्षुवाळा अने पाचइन्द्रिय-स्पर्श, जिह्वा, प्राण, चक्षु, अने धानवाळा जीवोनी पण विचार करवामां आव्यो छे.

पाच इन्द्रियवाळा जीवोना चार विभाग करवामां आव्या छे. पशुपक्षी, मनुष्य, देव अने नारक. देवोना पण मुख्य चार भेद वताववामा आव्या छे. वैमानिक-विमानमा रहनारा, भवनपति-भवनमां रहनारा, धानव्यंतर-पराए, गुफा अने वनना जातगओमा रहनारा अने ज्योतिषी-ज्योतिर्लोकमां रहनारा सूर्य चंद्र वगेरे. तेमना आहार, रहेणीकरणी, आयुष्य, वैभवमित्रास, उत्तरोत्तर संतोष, शास्त्राप्ययन, देवपूजन वगेरे पण घणा विस्तारसाथे आ सूत्रमां वर्णवेल छे.

दाखला तरीके पहिले स्वर्गना देवो ओछामा ओछुं वेवीं नव दिवस पछी आहार करे छे एटले के मनुष्य के पशुपक्षीने रोजनेरोज आहारनी अपेक्षा रहे छे तेम देवोने ए नथी होती. पण कोई देवो वे दिवसे आहार ले छे, कोई देवो त्रण दिनमे, कोई चार दिनसे अने ए रीते कोई नव नव दिवसे आहार ले छे अने वधारेमा वधारे तेओ २००० वर्ष सुधी आहार विना चलायी ले छे. अने छेडा स्वर्गना देवो ३३००० वर्ष सुधी आहार विना चलायी शके छे. आ ज रीते नरकमां रहेल जीवोनी स्थितिने लगतुं वर्णन पण आपवामां आव्युं छे.

आ आखा सूत्रनो मोटो भाग देव अने नरकना वर्णनमा ज रोकाएलो छे.

उपर्युक्त रीत सिवाय वीजी रीते पण जीवजतुनो विभाग करवामा आव्यो छे, जेमके:—जरायुज, अंडज, पोतज, सेदज, उद्भिज अने उपपादुक. आ विभाग शाखोनी वची परंपराओमां प्रसिद्ध छे.

वधा जीवो जीवत्वनी दृष्टिए एक सरखा छे. ए हकीकत भगवाने 'एगे आया' ए सूत्रमां समजावेली छे. एमा एमनो हेतु लोकोमां सममावने जगाडवानो छे. अने जीवो एक सरखा छता तेमनी उपर वतावेली जे जुदीजुदी दशाओ याव छे ते तेमना शुभ के अशुभ संस्कारने आभारी छे. एटले मनुष्योए संस्कारशुद्धिना प्रयत्न तरफ वळुं जोईए एम भगवाननुं आ उपरथी सूचन छे. जो आपणे ए वधां वर्णनो उपरथी मैत्रीवृत्ति केळववा तरफ अने संस्कार शुद्धिना प्रयत्न तरफ न वळीए अने मात्र ए वर्णनो ज वाच्या करीए अने गोह्वा करीए तो आपणे भगवान महावीरना सदेशाने समजवा योग्य नथी एम कहेंतुं जोईए.

भगवान महावीरे आ जे वधुं कहेंतुं छे तेमा तेमनी आध्यात्मिक शुद्धि अने परापूर्वथी चाली आवेली आर्योनी परंपरा ए वे मुख्य कारणो छे. एटले आ सूत्रमां के वीजा सूत्रमां ज्या ज्यां आवां जीवने छगना वर्णनो आवे छे तेनो खरो साक्षात्कार आपणे करवो होय तो आपणा माटे केवल चर्चा के शास्त्रश्रद्धा वस नथी पण आपणी पोतानी जातनी आत्मशुद्धि अने प्रज्ञाशुद्धिने वधारेमां वधारे केळववी जोईए. प्रज्ञाशुद्धि एटले ज्या ए वर्णनो आवे छे ते वधा शाखोनी तटस्थ दृष्टिए अम्यास तथा अत्यारना विज्ञानशास्त्रनो पण ए ज रीते सूक्ष्म अम्यास. आटलुं कर्या पछी पण जो शास्त्रवचन अने तटस्थ अनुभवमा भेद मालुम पडे तो सुंझावापणु नथी. कारण के शास्त्रे वर्णवेली स्थिति देशकाळनी मर्यादाने ओळगी शकती नथी एटले देशकाळनो फेर बदलो यतां जे स्थिति २५०० वर्ष पहिलं भगवान महावीरे जेवी वतावी होय तेवी अत्यारे न होय तेमा कशी असंगति नथी. वळी आवी चर्चाओ मात्र भेद वधारवा के शास्त्रार्थना झगडा करवामाटे खपनी नथी. तेनो खप तो आगळ कक्षा प्रमाणे मात्र मैत्रीवृत्ति अने संस्कारशुद्धि माटे छे.

आथी कोई संप्रदाय वार खर्गो करतां वधारे के ओछा खर्गो कहे अथवा नारकोनी हकीकत विषे एवी भिन्नतावाळी हकीकत कहे तेनाथी कशो क्षोभ पामवानो नथी.

आपणे जाणीए छीए के आ जातना विचारो भगवान महावीरना जमानामा काई नवा न हता, कारण के आ संबंधमा वैदिक परंपरामा, सुद्धना पिटकोमा अने अवेस्ताप्रथोमा केटलीए हकीकतो आजे उपलब्ध छे. जो के ते हकीकतो आपणे त्यां लखाएली छे तेवी सूक्ष्म नथी पण आत्मवत् सर्वभूतेषुना सिद्धांतने समजवा धूरती ए हकीकतो आपणा सिवायनी वीजी वधी परंपराओमा नोंधावेली छे अने तेनो खरो उपयोग पण ते ज छे.

वनस्पतिविद्याविषे चरक अने सुश्रुतमां आपणे त्यां वर्णवेली छे तेटली ज सूक्ष्म पण वीजा प्रकारनी अनेक हकीकतो नोंधावेली छे, जे आजे पण उपलब्ध छे अने व्यवहारमा पण खरी निवडेली छे.

જેને આપણે એકેન્દ્રિય કહીએ છીએ એ જંતુઓની સ્થિતિ વિષે અભ્યારના વિજ્ઞાને ઘણી ડંડી શોધ કરેલી છે. તે જ પ્રમાણે વાકીના સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ જીવજંતુઓની સ્થિતિવિષે પણ અભ્યારે ઘણી નવી શોધો થયેલી છે.

જે ભમરીને આપણે અસંજી કહીએ છીએ તે ભમરીની કુશલતા વિષેના પ્રત્યક્ષ પ્રયોગો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જેને આપણે બે, ત્રણ, અને ચાર ઇન્દ્રિયોવાળા કહીએ છીએ તે વધાને કોઈ એપેક્ષા પાંચ ઇન્દ્રિયો છે એ આપણે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રદ્વારા જોઈ શકીએ છીએ. તદુપરાંત એ વધાં પ્રાણીઓના સ્વભાવ, પ્રવૃત્તિ, હાજતો વગેરે અનેક જાતની હકીકતોવિષે આજે ઘણું નવું જ્ઞાન આપણને મળી શકે છે. તે વધા તરફ આપણે એપેક્ષા રાખીએ અને માત્ર શાસ્ત્રવાક્ય જ ગોઠવ્યા કરીએ તો આપણી પ્રજ્ઞાશુદ્ધિ થઈ શકવાની નથી.

કદાચ કોઈને એમ લાગે કે વિજ્ઞાનના અભ્યાસથી શાસ્ત્રશ્રદ્ધા મંદ થતાં નાસ્તિકતાનો પ્રચાર થશે. પણ એ કલ્પના કે ભય વરા-વર નથી. વિજ્ઞાનથી તો શાસ્ત્રશ્રદ્ધા વધારે દૃઢ થવાનો અનુભવ છે અને એમ કહેવાનું આપણને અભિમાન રહે છે કે પ્રાચીન લોકોએ પણ પોતાના જમાનામાં કેટલા વધા વૈજ્ઞાનિક વિચારો કરેલા હતા.

કદાચ શાસ્ત્રવચનો સાથે વિજ્ઞાનનો મેદ માલમ પડે તો તેના સમન્વયની ચાવી આપણી પાસે છે. તે એક તો દેશકાલ અને વીજી કહેવાની શૈલી. દેશકાલ એટલે કે ભગવાન મહાવીરના જમાનાની કે પૂર્વપરંપરાથી જે હકીકતો ચાલી આવતી હતી તે અત્રે નોંધેલી છે એટલે એ જમાના અને આ જમાના વચ્ચેના ઘણા લાંબા ગાળામાં વિશ્વનું એટલે કે માનવસ્વભાવનું, માનવી રહેણીકરણનું અને માનવની આસપાસની પરિસ્થિતિઓનું તથા વનસ્પતિ અને જંતુ જગતનું જે પરિવર્તન આજસુધી થતું આવ્યું છે તે પરિવર્તન જ મેદના સમાધાન માટે વસ છે.

કહેવાની શૈલીનો દાખલો આ પ્રમાણે ઘટાવી શકાય: આપણે ત્યાં આ વાત પ્રસિદ્ધ છે કે ઈયલ્લામાંથી ભમરી થાય છે. જૈનપરિભાષા પ્રમાણે ઈયલ્લ કરતાં ભમરી વધારે ઇન્દ્રિયવાળું પ્રાણી છે એટલે કે ચાર ઇન્દ્રિયવાળું છે. તો એક જ જન્મમાં બે જન્મ થાય શી રીતે ? પણ જે લોકોએ એમ કહ્યું છે કે ઈયલ્લામાંથી ભમરી થાય છે, તે લોકોએ એમ જોયેલું છે કે ભમરી ઈયલ્લને લાવીને પોતાના દરમાં રાખે છે અને તેમાંથી કાલાંતરે ભમરી નીકળે છે. માત્ર આટલું જ જોનારો ઈયલ્લામાંથી ભમરી નીકળે છે એમ જરૂર કહે પણ ઈયલ્લામાંથી ભમરી ક્યાંથી આવી તેનો ખુલાસો નથી કરી શકતો એટલે તેનું તે કથન સ્થૂલદષ્ટિએ છે એમ સમજીને ધરા તરીકે સમજી શકાય શરૂં. પણ વ્યારે જંતુશાસ્ત્રની મદદથી આ વિષે વિચાર કરીએ તો તદ્દન હુદું જ માલમ પડે છે. તે શાસ્ત્ર કહે છે કે ઈયલ્લામાંથી ભમરી થતી નથી પણ ભમરી જે ઈયલ્લને દરમાં લાવે છે તે ઈયલ્લા ડહા મારીને ઇંડા મૂકે છે. અને તે ઇંડાં કાલાંતરે ઈયલ્લાદ્વારા પોપાઈને ઈયલ્લામાંથી વહાર આવે છે. ઈયલ્લ તો માત્ર તે ઇંડાનું પોષણ જ છે. આ રીતે વારીકાઈથી જોતાં ભમરીના ઇંડામાંથી જ ભમરી થાય છે પણ ઈયલ્લામાંથી ભમરી નથી થતી, છતાં ઈયલ્લામાંથી ભમરી થવાની હકીકત યોદી છે એમ સ્થૂલ દષ્ટિએ ન કહી શકાય.

જૈન પરિભાષામાં કહીએ તો ઈયલ્લામાંથી ભમરી થવાની હકીકત ઉપચાર પ્રધાન વ્યવહારનયથી ઠીક કહી શકાય. જંતુશાસ્ત્રથી સિદ્ધ થયેલી હકીકત નિશ્ચયનયથી ઠીક કહી શકાય.

આ પ્રમાણે શાસ્ત્રોમાં જે જે હકીકતો લખાયેલી મળે છે તેનો નિવેડો નયવાદની દષ્ટિથી જરૂર લાવી શકાય. અને તેથી વિજ્ઞાન અને શાસ્ત્રીય વિચારણામાં અચલામળ થવાનો સંભવ નહી રહે.

દેવ અને નરકની હયાતી વિષે તો વધી પ્રાચીન પરંપરાઓ એકસરખો જ મત ધરાવે છે. પણ તે વિષે વ્યાસુધી વનસ્પતિવિધાની પેઠે ડંડી શોધ થઈ નિર્ણય ન થાય ત્યાંસુધી આપણે એ વિષેની કોઈપણ જૂની પરંપરાને યોદી કહેવા હિમ્મત ન કરી શકીએ. દરેક પરંપરાના મૂલ્ય પુરુષે એ વિષે વિચારો દર્શાવ્યા છે. તે વિચારો વિષે તે તે પરંપરાના અનુયાયીઓએ કશી નવી શોધખોળ કરી નથી પણ જ્ઞાણે ભાગે તેના તે વિચારોનું પિષ્ટેપણ કર્યાં કર્યું છે. પણ હવે એ વિષે શોધ કરવાનો યુગ આવી ગયો છે. જો કે યાસ્ક જેવા મહર્ષિએ એ વિષે એટલે દેવ, ઇંદ્ર, સુર, અસુર વગેરે વિષે કાઈક નવો પ્રકાશ પાડવા પ્રયત્ન કર્યો છે ધરા પણ આ લોકપ્રવાહ સામે એ ઠીકઠીક પહોંચી શક્યો નથી અને માત્ર પૌરાણિક પરંપરામાં વર્ણવાયેલા રૂપકો જ વધી પરંપરાવાળાઓએ સ્વીકાર્યા છે એમ એ યાસ્કની દષ્ટિએ કહી શકાય.

વૈદિક આર્યોની દેવ વગેરે વિષે શું માન્યતા હતી તે વિષે યાસ્કને વાચવાથી યોદીઘણી માહિતી આજે પણ આપણને મળી શકે છે.

આ સૂત્રમાં અને વીજાં સૂત્રોમાં ભગવાન મહાવીરે વિશ્વવિજ્ઞાનને લગતી જે જે માહિતી આપી છે તેનો ઉદ્દેશ વિશ્વવૈચિત્ર્ય જાણવા ઉપરાંત તે દ્વારા વિશ્વ સાથે સમભાવ કેલ્લવવાનો છે. છતાં કેટલીક એવી વાતો પણ તેમાં વતાવવામાં આવી છે જેમાં માત્ર જ્ઞેયની દષ્ટિ મુખ્ય છે. તેમનો જીવનશુદ્ધિમાં સીધો ઉપયોગ હોય એવું જણાતું નથી. જેમકે—

લોકની સ્થિતિને સમજાવતાં ભગવાન મહાવીરે ગૌતમને જણાવેલું છે કે, આકાશ ઉપર વાયુ રહેલો છે. વાયુની ઉપર ઉદધિ છે. ઉદધિ ઉપર આ પૃથ્વી રહેલી છે અને એ પૃથ્વી ઉપર આ આહું વિશ્વ રહેલું છે. આ હકીકત સમજાવવા ભગવાન એક સરસ દાખલો

આપે છે. તેઓ કહે છે કે જેમ કોઈ પુરુષ મશકને ફુલાવીને તેનું મોઢું બંધ કરે, પછી મશકને વચ્ચે ભાગે ગાંઠ મારી દે, ગાંઠ માર્યા પછી મશકનું મોઢું खुलું કરી તેનો પવન કાઢી તેમાં પાણી ભરી દે, પછી ગાઠ છોડી નાખે તો જેમ તે પવનને આધારે ડપરનું પાણી નીચે ન આવતાં ઉપર જ રહે છે તેમ આ પૃથ્વી પવનને આધારે રહેલા સમુદ્ર ઉપર ટની રહી છે. (માં ૧ પાં ૧૭)

એક સ્થલે પોતાના શિષ્ય રૌહક અળગારને સમજાવતાં ભગવાન કહે છે કે જેમ કૂકડી અને ઇંટું એ વચ્ચે કયું કાર્ય અને કયું કારણ એવો ક્રમવાલો વિભાગ થઈ શકતો નથી પણ વચ્ચેને શાશ્વત માનવા પડે છે, તેમ લોક, અલોક, જીવ, અજીવ વગેરે ભાવોને પણ શાશ્વત માનવાના છે. એ વચ્ચે કશો કાર્યકારણનો ક્રમ નથી. (માં ૧ પાં ૧૬૭)

એકસ્થલે ગર્ભસ્થ જીવની સ્થિતિની ચર્ચા કરતા ગર્ભમા રહેલો જીવ શું ચાય છે, તેને શાંચ, મૂત્ર, શ્લેષ વગેરે હોય છે કે નહીં, ગર્ભસ્થ જીવે કરેલા આહારના કયા કયા પરિણામો થાય છે, તે જીવ મુશ્કી રાઈ શકે છે કે નહિ, તે કઈ રીતે આહાર લે છે, તે જીવમાં કેટલો માતાનો અને કેટલો પિતાનો અંશ હોય છે, તેનું નિસ્સરણ માયાથી થાય છે કે પગથી વગેરે હકીકતો જેમ મહર્ષિ ચરક સમજાવે છે, તે જ રીતે, પણ સંક્ષેપમાં સમજાવવામાં આવી છે. (માં ૧ પાં ૧૮૧)

એક વીજી જગ્યાએ પાણીના ગર્ભ વિષે વિચાર ચાલેલો છે. તેમાં કહેલું છે કે પાણીનો વંધાવેલો ગર્ભ વધારેમાં વધારે છ મહિના સુધી ટકી શકે છે, પછી તો તે ગભે જ. (માં ૧ પાં ૨૭૩) આ વિષે યોડી વધારે ચર્ચા ઠાણાગ સૂત્રમાં પણ આવે છે. એની સવિસ્તર ચર્ચા જોવી હોય તો વારાહીસંહિતામાં ઉદકગર્ભને લગતું આવું પ્રકરણ જોઈ લેવું જોઈએ. ગર્ભ ક્યારે વંધાય છે, કયા મહિનામાં એની કેવી સ્થિતિ હોય છે, ક્યારે ગભે છે, તે વધું એમ સવિસ્તર વર્ણવાયેલું છે. વારાહીસંહિતા એ વૈદિક પરંપરાનો વિશ્વકોપ જેવો એક મોટો ગ્રંથ છે તે ન શુભાય.

માયા-શબ્દના સ્વરૂપની ચર્ચા કરતા શબ્દોની ઉત્પત્તિ, શબ્દોનો આકાર, બોલાયેલ શબ્દ જ્યાં પર્યાવસાન પામે છે તે અને શબ્દના પરમાણુઓ વગેરે વિષે વિસ્તારથી જણાવેલ છે. (માં ૧ પાં ૨૯૧) પન્નવળાસૂત્રમાં માપાના સ્વરૂપને લગતું માપાપદ નામનું એક ૧૧ મું પ્રકરણ જ છે. તો વિશેષાર્થીએ એ વધું લાચી જોઈ લેવું.

સમુદ્રમા ભરતી અને ઓટ થાય છે તે સૌ કોઈની જાણમા છે. તે ભરતીઓટ થવાના કારણોની ચર્ચા કરતા સમુદ્રની ચારે દિશામાં ચાર મોટા પાતાલકલ્પો હોવાનું અને તે ઉપરાંત વીજા અનેક ક્ષુદ્ર કલ્પો હોવાનું જણાવ્યું છે. તે પાતાલકલ્પોમાં નીચેના ભાગમાં વાયુ રહે છે, વચ્ચલા ભાગમાં વાયુ અને પાણી સાથે રહે છે અને ઉપલા ભાગમા એકલું પાણી રહે છે. વ્યારે એ વાયુ કંપે છે, કુચ્ચ થાય છે, વ્યારે સમુદ્રનું પાણી કુચ્ચે છે અને વ્યારે એમ નથી થતું વ્યારે સમુદ્રનું પાણી કુચ્ચતું નથી. આ પ્રમાણે ભરતીઓટના પ્રશ્નને લગતું સમાધાન મૂકેલું છે. (માં ૨ પાં ૮૨) એ સમાધાનમાથી આપણે એટલું તો જરૂર તારવી શકીએ છીએ કે કદાચ વાયુના કારણથી સમુદ્રમા ભરતી ઓટ યતાં હોય.

આ ઉપરાંત સૂર્યને અને ઋતુને લગતી પણ કેટલીક ચર્ચા આ સૂત્રમાં આવેલી છે. એ ચર્ચામા જણાવેલી હકીકતોનો સ્વુલાસો વ્યારે જ મેઝ્ઝી શકીએ વ્યારે આપણે ધગોલ અને ઋતુના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનું ગંભીર રીતે પરિચીલન કર્યું હોય.

કાને જે શબ્દો આવે છે તે શબ્દોનું ગ્રહણ કર્ણેન્દ્રિય અને શબ્દના સ્પર્શથી થાય છે કે એમને એમ થાય છે? તેના ઉત્તરમા કર્ણેન્દ્રિયને શબ્દનો સ્પર્શ થયા પછી જ શબ્દનું ગ્રહણ થાય છે એમ સ્વીકારવામા આવેલ છે. (માં ૨ પાં ૧૭૧)

આ વિષે વધારે વિસ્તારવાલું વર્ણન પન્નવળાસૂત્રના પદરમા ઇન્દ્રિયપદમા છે. તેમા ઇન્દ્રિયોના પ્રકારો, આકારો, દરેક ઇન્દ્રિયની જાડાઈ, પહોળાઈ, કદ, ઇન્દ્રિયોદ્વારા થતી પદાર્થગ્રહણની રીત, ઇન્દ્રિય કેટલે વધારે દૂર કે નજીકથી પદાર્થને ગ્રહણ કરી શકે છે તે અંતરનું માપ એ વધું વીગતથી ચર્ચેલ છે.

અંધારું અને અજવાલું કેમ થાય છે તેનો પણ સ્વુલાસો ભગવાને પોતાની રીતે જણાવ્યો છે. (માં ૨ પાં ૨૪૬)

વનસ્પતિવિષે વિચાર કરતા એક જગ્યાએ તે સૌથી ઓછો આહાર ક્યારે લે છે અને સૌથી વધારે આહાર ક્યારે લે છે? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને જણાવેલું છે કે પ્રાૃત્કૃતુમાં એટલે શ્રાવણ અને માદરવા મહિનામાં, અને વર્ષીકૃતુમા એટલે આસો અને કારતકમાં વનસ્પતિ સૌથી વધારેમા વધારે આહાર લે છે. અને પછી ગરદ્, હેમંત અને વસંતકૃતુમાં ઓછો ઓછો આહાર લે છે. પણ સૌથી ઓછો આહાર ગ્રીષ્મકૃતુમા લે છે. આ ઉત્તર સાંમલી ફરીથી ગૌતમે પૂછ્યું કે હે ભગવાન! જો ગ્રીષ્મકૃતુમા વનસ્પતિ સૌથી ઓછામા ઓછો આહાર લેતી હોય તો તે વચ્ચે પાંદડાવાલી, પુષ્પવાલી, ફલવાલી, લીલીછમ અને અલંત ગોમાવાલી કેમ દેખાય છે? ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું છે કે કેટલાક ઉષ્ણયોનિક જીવો તથા પુદ્ગલો વનસ્પતિકાયરૂપે તેમાં ઉત્પન્ન થાય છે, એકઠા થાય છે, વધારે વૃદ્ધિ પામે છે, તે કારણથી હે ગૌતમ! ગ્રીષ્મમા અલ્પાહાર કરતી વનસ્પતિ પાંદડાવાલી, પુષ્પવાલી, ફલવાલી, અને આજને ઠારે એવી ગોમાવાલી થાય છે.

૧ જ પ્રકરણમાં આગળ ચાલતાં વનસ્પતિનું મૂલ, વનસ્પતિનો કંદ, વનસ્પતિની શાखाઓ, વનસ્પતિનાં વી, વનસ્પતિનાં ફલો, વનસ્પતિનાં પાંદડાં વગેરેને આહાર પહોંચવાની પદ્ધતિ પણ વતાવેલી છે. (મા૦ ૩ પા૦ ૧૨) આ હકીકત વિષે શાસ્ત્રોક્ત વનસ્પતિવિદ્યાને જાણનાર કોઈ પંડિત જો વનસ્પતિવિદ્યાવિશારદ જગદીશચંદ્ર વસુ સાથે વાતચીત કરશે તો ઘણો વિશેષ પ્રકાશ પાડી શકશે અને ભગવાન મહાવીરે જણાવેલી હકીકતની પણ કસોટી થશે.

આઠમા શતકના વીજા ઉદ્દેશકમાં આશીવિપની માહિતી આપેલી છે. આશી ઇટલે દાદ. જેની દાદમાં વિપ છે તેને આશીવિપ કહેવામા આવે છે. તેના વે પ્રકાર છે. જન્મથી આશીવિપ અને કર્મથી આશીવિપ. જન્મથી આશીવિપ ચાર પ્રકારના છે. વાંછીની જાતિના, દેડકાની જાતિના, મનુષ્યની જાતિના અને સર્પની જાતિના આશીવિપ. ૧ ચારે પ્રકારના ઘેરી પ્રાણીઓનાં ઘેરનું સામર્થ્ય વતાવતાં ભગવાન કહે છે કે વાંછીની જાતિનાં ઘેરી જંતુઓ અર્ધ ભારત જેવડા શરીરને, દેડકાની જાતિનાં ઘેરી જંતુઓ ભરતક્ષેત્ર જેવડા શરીરને, સર્પની જાતિનાં ઘેરી જંતુઓ જંતુદ્વીપ જેવડા મોટા શરીરને અને મનુષ્યની જાતિનાં ઘેરી પ્રાણીઓ મનુષ્યલોક જેટલા વિશાળ શરીરને ઘેરથી વ્યાપ્ત કરવા સમર્થ છે. આટલું કહ્યા પછી ભગવાન કહે છે કે ૧ ચારે પ્રકારના સર્પોના ઘેરનું સામર્થ્ય જે ઉપર જણાવેલું છે તે, તે ઘેરી પ્રાણીઓએ કદી વતાવ્યું નથી, વતાવતાં નથી અને વતાવવાનાં પણ નથી. (મા૦ ૩ પા૦ ૫૬) ભગવાને તો માત્ર તે તે પ્રાણીઓના વિપની શક્તિનો રહ્યાલ આપવા પૂરતી તે તે હકીકતો જણાવેલી છે. આ વિષે સર્પશાસ્ત્રના અમ્યાસી પાસે જિનપ્રવચનનો ભક્ત પ્રકાશ નલાવશે તો જરૂર ભગવાનના પ્રવચનનો મહિમા વધશે તેમાં શક નથી.

‘સ્વાર્થી મનુષ્ય પ્રાણી કેવો ઘેરી છે, તેના ઘેરનું સામર્થ્ય કેવું પ્રવળ છે અને કેટલું વધું સંહારક છે’ ૧ વધી હકીકત આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી તો સમજાય તેથી છે. વિપકન્યા અને જીવતી ઢાકણોની વાતો મનુષ્યના સર્પપેટેના ઘેરીપણાની સાવીતી માટે કહી શકાય એવી છે તો પણ અહીં મનુષ્યને જે રીતે ઘેરી તરીકે વર્ણવ્યો છે ૧ વસ્તુ તો અવશ્ય શોધને પાત્ર છે.

છઠ્ઠા શતકના સાતમા ઉદ્દેશકમાં ભગવાનને ગૌતમ પૂછે છે કે હે ભગવાન! કોઠામા અને ઢાલામા ભરેલાં અને ઉપરથી છાણથી લીપેલાં, માટી વગેરેથી ચાદેલાં ૧વા શાલ, ચોલા, ઘડં તથા જવની ઝગવાની શક્તિ ક્યાસુધી ટકી રહે ? ઉત્તર આપતાં ભગવાન કહે છે કે હે ગૌતમ ! ઓછામા ઓછું અંતર્મુહૂર્ત અને વધારેમાં વધારે ત્રણ વર્ષ સુધી ૧ વધાં અનાજની ઝગવાની શક્તિ કાયામ રહી શકે છે.

આ જ પ્રમાણે કલાય (વટાણા) મસૂર, તલ, મગ, અડદ, વાલ, કઠ્ઠી, ૧ક જાતના ચોલા, તૂવેર અને ચણા ૧ વિષે પૂર્વોક્ત પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાન કહે છે કે કલાય વગેરેની ઝગવાની શક્તિ વધારેમા વધારે પાંચ વર્ષ સુધી રહે છે અને ઓછામાં ઓછી અંતર્મુહૂર્ત રહે છે. વઠી અઢસી, કુસુંમ, કોદ્રવા, કાંગ, વંટી, વીજી જાતની કાંગ, વીજી જાતના કોદ્રવા, શણ, સરસવ, મૂલાનાં વી (મૂલકવીજાની) ૧ વધાંની ઝગવાની શક્તિ વધારેમાં વધારે સાત વર્ષ સુધી કાયામ રહે છે અને ઓછામા ઓછી અંતર્મુહૂર્ત.

આ ચર્ચા પણ આપણને અતિરસ આપે એવી છે. પણ આ વિષે કોઈ વનસ્પતિશાસ્ત્રના અમ્યાસી દ્વારા ઝહાપોહપૂર્વક પ્રકાશ નલાવી શકાય તો જ તે વધારે રસિક થાય તેવું છે.

આ ગ્રંથમા જેમ આત્માને લગતી વધી વાણુઓનો વિચાર કરવામા આવ્યો છે તેમ પુદ્ગલ—જહદ્રવ્ય વિષે પણ તેવો સ્ફુટ વિચાર અનેક જગ્યાએ વતાવવામાં આવ્યો છે.

ભગવાન મહાવીર મૂર્તિમંત જહદ્રવ્યના—પ્રયોગથી પરિણામ પામેલા, પ્રયોગ અને અપ્રયોગ વચ્ચેથી પરિણામ પામેલા અને અપ્રયોગથી પરિણામ પામેલાં ૧વા—ત્રણ વિભાગ વતાવે છે અને કહે છે કે અપ્રયોગથી પરિણામ પામેલાં મૂર્તિમંત જહદ્રવ્યો વિશ્વમાં વધારેમાં વધારે છે. ૧થી ઓછા, પ્રયોગ અને અપ્રયોગથી પરિણામ પામેલા અને સૌથી ઓછા, પ્રયોગથી પરિણામ પામેલા છે. તેમની આ ગણના આલા વિશ્વને લક્ષીને છે. અહિ પ્રયોગનો અર્થ જીવનો વ્યાપાર અને અપ્રયોગનો અર્થ સ્વભાવ સમજવાનો છે.

૧ક સ્થલે પદાર્થોના પરસ્પરના વધ વિષે કહેતાં ભગવાન મહાવીરે ગૌતમને કહ્યું છે કે વંધ વે પ્રકારના છે જે વંધ જીવના પ્રયત્નથી ત્યતો દેખાય છે તે પ્રયોગવંધ કહેવાય છે. જે વંધ જીવના પ્રયત્ન વગર ૧મને ૧મ ત્યતો દેખાય તે વીસસાવંધ કહેવાય છે.

પાછલો વીસસાવંધ અનાદિ પણ હોય છે. આકાશદ્રવ્યના પ્રદેશોનો જે પરસ્પર સંવંધ તે અનાદિ વીસસાવંધ છે. પરમાણુપરમાણુઓનો, દ્રવ્યદ્રવ્યનો અને વાદલા વગેરેનો જે પરસ્પર સવધ છે તે સાદિ વીસસાવંધ કહેવાય છે. આ વંધ ત્રણ પ્રકારનો કહેવામાં આવ્યો છે. પરમાણુપરમાણુના ઇટલે રૂક્ષ અને સ્નિગ્ધ પરમાણુના વંધને વંધનનિમિત્તક કહેવામા આવે છે, તે ઓછામા ઓછો ૧ક સમય સુધી અને વધારેમાં વધારે અસંહ્ય કાલ સુધી ટકે છે. દ્રવ્યદ્રવ્યના ઇટલે ગોલ, ચોલા, દારુ વગેરે ૧ વધા જે માજનમા ભરવામા આવે છે તેની સાથે વહુ સમય જતાં ચોટી જાય છે તે તેમના પરસ્પરના સંવંધને ભાજનનિમિત્તકવંધ કહેવામા આવે છે, તે ઓછામા ઓછો અંતર્મુહૂર્ત અને વધારેમા વધારે સંહ્યેય કાલ સુધી રહે છે અને વાદલા વગેરેના પરસ્પરના વંધને પરિણામનિમિત્તકવંધ કહેલો છે અને તે ઓછામા ઓછો ૧ક સમય અને વધારેમાં વધારે હ મહિના સુધી ટકે છે.

जे वंश जीवना प्रयत्नयी थाय छे तेना मुख्य त्रण प्रकार काळनी अपेक्षाए बतावेला छे; अनादिअनंत, सादिअनंत अने सादिसानं. आमानो छेहो सादिसातवाळो प्रकार व्यवहारमा खूब प्रचलित छे. तेना पण मुख्य चार प्रकार बताववामां आव्या छे. आलावणवंश, अह्निआवणवंश, शरीरवंश अने शरीरप्रयोगवंश. (भा० ३ पा० १०१)

आ विपे धीगतवार उदाहरण साथेनी हकीकत उपर्युक्तपाने वंशना प्रकरणमां कहेवामां आवी छे जे वांचनारने अत्यंत रसदायक नीवडे तेवी छे.

वळी, वीजे स्थळे परमाणुनुं कंपन, परमाणुना परिणाम, परमाणुनी अच्छेयता, परमाणुने मध्य होय छे के नहि ? परमाणुने परस्पर स्पर्श, परमाणुनी परमाणुदशानी स्थिति, परमाणुना कंपननो समय, शब्दपरमाणुनी शब्द तरीकेनी स्थितिनो समय वगैरे अनेक सूक्ष्म-सूक्ष्म-तम विचारो वनाव्या छे (भा० २ पा० २१६)

आना जेवी वीजी पण अनेक चर्चाओ जेने आपणे वैज्ञानिक कही शर्काए तेवी आ सूत्रमा अने वीजा सूत्रोमा अनेक स्थळे आवेली छे पण विज्ञानशास्त्रनी मदद सिवाय ए चर्चाओ वधारे समजमां आवी शके तेंतुं नथी तेवी जिनप्रवचनने वधारे समजवामाटे विज्ञाननो अम्यास अधिक उपयोगी अने आवकारदायक छे ते शक विनानी वात छे.

भगवाने जे आ वधी चर्चा करी छे ते वधी तेमनी आत्मशोधमाथी जन्मी छे एम कहेतुं जराय खोटुं नथी. जीव अने तेना भेटो अने तेनी अनेक प्रकारनी स्थितिनी चर्चा, जीवमात्रनी समानता अने भिन्नभिन्न सत्कारोयी यथेली तेनी विचित्रता बताववा करेली छे. एकंदरे जोता ए चर्चा सर्व कोईने मैत्रीभाव अने समभाव तरफ प्रेरे एवी छे अने जडद्रव्यना परिणामो अने स्थिति वगैरेनी चर्चा आपणने विद्वानुं वैविध्य बतावी निर्वेद तरफ लई जवामा साधनरूप बने तेवी छे.

आत्मशोधक मागस, एक ज पुद्रलता, संयोगवश भिन्नभिन्न परिणामो जाणी कया परिणाममा ए राग करे अने कयामां ए घृणा करे ? आ वधुं जोतां भगवानना प्रवचनमा जे जे चर्चाओ करवामां आवी छे ते वधी आत्मशोधनमाथी जन्मी छे अने आत्मशोधने पोपनारी छे ए हकीकत बारवार कहेवी पडे एवी नथी. अने उपर कक्षा प्रमाणे केटलीक चर्चाओ मात्र ज्ञाननी दृष्टिए पण करवामां आवी छे ए पण खरी वात छे.

रूढिच्छेद

व्याख्याप्रज्ञप्तिमां आवेली जीवनशुद्धि अने विश्वविज्ञाननी माहिती उपर प्रमाणे आप्या पछी श्रमण भगवान महावीरे पोताना वखतनी रूढिओने तोडवा जे प्रवचनधारा बहेवरावी छे ते विपे आपणे हवे अहीं कहेवानुं छे. ए प्रवचनधारा आ सूत्रमा तेम वीजा सूत्रमां पण ठीकठीक प्रमाणमां उपलब्ध छे. श्रीउत्तराध्ययनसूत्रमां जानिवादथी यती सामाजिक विपमताने तोडवा भगवाने स्पष्ट शब्दोमा कसुं छे के जातिविशेषथी कोई पूजापात्र थई शकतो नथी पण गुणविशेषथी ज थई शके छे. ब्राह्मणकुलमा जन्मेलो के मात्र मुखवी ॐ ॐ नो जाप करनार ब्राह्मण नथी पण ब्रह्मचर्यथी ब्राह्मण बने छे. एवी रीते श्रमणकुलमां रहेनारो के कोई मात्र माथुं मुंडावनारो श्रमण थई शकतो नथी पण जेनामा समता होय ते ज श्रमण कहेवाय छे. जंगलमा रहेवा मात्रथी कोई मुनि कहेवातो नथी पण मनन-आत्मचितन

१ "सोवागच्छल्लभूओ गुणुत्तरधरो मुणी ।
हरिएसबलो नाम आसि भिक्खु जिईदिओ ॥ १

कोहो य माणो य बहो य जेसि
मोवं अटतं च परिदग्हं च ।
ते माहणा जाइविजाविहीणा
ताडं तु खित्ताई सपाववादां ॥ १४

सन्धं ए सँमट तवोविसेसो
न थीसड जाइविसेस कोइ ।

सोवागपुत्त हरिएसवाहुं
जस्सेरिसा इहँ महाणुमाना ॥ ३७

१ चंडाळना कुलमां पैदा यएलो अने उत्तम गुणने धारण करनारो एवो
हरिकेश नामे जितेन्द्रिय सिद्ध हुतो (१)

जेथोना चित्तमा क्रोध छे, अहंकार छे, हिंसा छे, असत्य छे, चौर्य छे,
अने मूर्च्छा छे तेवा जाति अने नियामिहीन ब्राह्मणो पापक्षेत्र छे (१४)

तपनी विशेषता साक्षात् देखाय छे पण जातिनी विशेषता कशी देखाती
नथी कारण के हरिकेश साहु, चंडाळनो पुत्र होवा छता तप अने
संयमना कारणथी महाप्रभावयुक्त शकिसाली थई शक्यो छे (३७)

करनारो मुनि कहेवाय छे. मात्र कोई झाडनी छाल पहेरवाथी तापस कहेवातो नथी पण आत्माने शोधनारं तप करे ते ज तापस कहेवाय छे.^१ आ उपरांत आठ गाथामां भगवाने खास करीने ब्राह्मणतुं स्वरूप वताव्युं छे.^२

धम्मपद अने सुत्तनिपातमां भगवान बुद्धे पण ब्राह्मणतुं आ जाततुं लक्षण केटलीक गायामा वतावेळुं छे. आ उपरथी आपणे स्पष्ट जाणी शकीए छीए के ते वने महापुरूपोनी शुष्क जातिवाद सामे मोटो विरोध हतो. आने लीघे ज तेमना तीर्थोमां शूद्रो, क्षत्रियो अने स्त्रीओ ए बधाने एक सरखुं मानभर्युं स्थान मळेळुं छे.

जातिवादनी पेटे ते वखते जडमूळ घालीने वेठेली केटलीक जडक्रियाओ सामे पण भगवान महावीरे ते वखतना लोकोनी सामे विरोध उठावेलो. ए क्रियाओमां खास करीने यज्ञ, स्नान, अर्थना भान विनातुं वेदतुं अध्ययन, भापानी खोटी पूजातुं अमिमान, सूर्यचंद्रना ग्रहणने लगतुं कर्मकाण्ड, दिशाओनी पूजानो प्रघात, युद्धथी स्वर्ग मळवानी मान्यता—ए वधी जडप्रक्रियाओने लीघे समाजनी आत्म-शुद्धिनो हास यतो जाणी आ सूत्रमा अने वीजा सूत्रमां भगवाने ते ते. क्रियाओतुं खरं स्वरूप वताव्युं छे अने तेना जड स्वरूपनो चोक्खो विरोध कयौं छे.

श्रीउत्तराध्ययनसूत्रमां यज्ञना स्वरूप विपे कहेवामां आव्युं छे के वधा वेदोमां विहित करेला यज्ञो पशुहिसामय छे. ते पशुहिसा-रूप पापकर्म द्वारा जे यज्ञ करवामां आवे छे ते यज्ञ याजकने पापथी वचावी शकतो नथी तेथी ज ते खरो यज्ञ नथी पण खरो यज्ञ आ प्रमाणे छे:—“जीवरूप अमिर्कुंडमां मनवचनकायानी शुभ प्रवृत्तिरूप वाढीथी शुभप्रवृत्तितुं घी रेडीने शरीररूप छाणां अने दुष्कर्मरूप लाकडाने प्रदीप्त करीने शान्तिरूप प्रशस्त होमने ऋषिओ नित्यप्रति करे छे. खरो होम आ जै छे.”

१ “न वि मुडिण समणो न ओंकारेण वभणो ।
न सुणी रण्णवासेण कुसचीरेण न तावसो ॥ २९
समयाए समणो होइ वंभचेरेण वंभणो ।
नाणेण य सुणी होइ तवेणं होइ तावसो ॥ ३०
कम्मसुणा वभणो होइ कम्मसुणा होइ खत्तियो ।
वइस्तो कम्मसुणा होइ सुद्धो हवइ कम्मसुणा” ॥ ३१
—उत्तराध्ययनसूत्र अध्ययन-२५

२ “जो न सज्जइ आगतुं पव्वयंतो न सोअइ ।
रमए अज्जवयणम्मि तं वयं वूम माहणं ॥ २०
जायस्व जहामहं निर्द्धतमलपावगं ।
रागहोसभयाइय त वय वूम माहणं ॥ २१
तसे पाणे वियाणित्ता सगहेण य थावरे ।
जो न हिमइ तिविहेण त वयं वूम माहणं ॥ २२
कोहा वा जइ वा हासा लोहा वा जइ वा भया ।
सुस न वयइ जो उ त वय वूम माहणं ॥ २३
चित्तमंतमचित्तं वा अण्य वा जइ वा बहुं ।
न गिण्हइ अदत्तं जो तं वयं वूम माहणं ॥ २४
दिव्वमाणुस्सतेरिच्छ जो न सेवेइ मेहुणं ।
मणसा काय-वक्केण तं वयं वूम माहणं ॥ २५
जहा पोम्मं जले जाय नोवलिप्पइ वारिणा ।
एवं अलित्त कामेहिं तं वयं वूम माहणं ॥ २६
अलोद्धयं सुहाजीविं अणगारं अक्किचण ।
अससत्तं गिह्हत्थेहिं तं वय वूम माहणं ॥ २७
एवंगुणसमाउत्ता जे हवंति दिउत्तमा ।
ते समत्था उद्धत्तु परं अप्पाणमेव य” ॥ ३३
—उत्तराध्ययनसूत्र अध्ययन-२५

३ “कि माहणा जोइ समारभंता उदएण सोहि बहिया विमग्गहा ? ।
जं मग्गहा बाहिरिय विसोहिं न तं सुदिट्ठ कुसला वयति ॥ ३८

कुस च जूरं तणकट्टमग्गिं सायं च पायं उदयं फुसता ।
पाणाइं भूयाइ विहेठयंता भुजो वि मदा पकरेह पावं ॥ ३९

तयो जोइ जीवो जोइठण जोगा सुया सरीरं कारिसग ।
कम्म एहा सजमजोग सती होम हुणामि इसीण पसत्थं” ॥ ४४

—उत्तराध्ययनसूत्र अध्ययन-१२

१ मात्र मातुं मुडाववाथी श्रमण थइ शकतुं नथी, उँकारना जापथी ब्राह्मण थइ शकतुं नथी, जंगलमा रहेवाथी मुनि थइ शकतुं नथी अने डाम पहेरवाथी तापस थइ शकतुं नथी. (२९)
समतथी श्रमण थवाय छे, ब्रह्मचर्यथी ब्राह्मण थवाय छे, चित्तनथी मुनि थवाय छे अने तपथी तापस थवाय छे (३०)
कर्मथी ब्राह्मण थवाय छे, कर्मथी क्षत्रिय थवाय छे, कर्मथी वैश्य थवाय छे अने कर्मथी शूद्र थवाय छे. (३१)

२ “जे आसक्ति न राखे, शोक न करे, अने आर्यना वचन प्रमाणे रहे तेने अमे ब्राह्मण कहीए छीए (२०)
धमेला अने सरकारेला सोनानी पेटे जे शुद्ध छे अने राग, द्वेष तथा भयथी विमुक्त छे तेने अमे ब्राह्मण कहीए छीए (२१)
गतिशील अने अगतिशील प्राणीओनी स्थिति जाणीने जे मन, वचन अने शरीरथी हिंसा नथी करतो तेने अमे ब्राह्मण कहीए छीए (२२)
क्रोध, मरकरी, लोभ के भयथी जे जूटु बोलतो नथी तेने अमे ब्राह्मण कहीए छीए (२३)
सजीव के निर्जाव वस्तुनी जे थोडी के बहु चोरी करतो नथी तेने अमे ब्राह्मण कहीए छीए (२४)
जे मन, वचन ने कायाथी ब्रह्मचर्य पाळे छे तेने अमे ब्राह्मण कहीए छीए (२५)
जेम कमळ पाणीमाथी थाय छे छता पाणीथी लेगतुं नथी तेम जे कामोथी अलित्त रहे छे तेने अमे ब्राह्मण कहीए छीए (२६)
जे लोछप नथी, स्वार्थने कारणे जीवतो नथी, अक्किचन छे अने गृह-स्थोमा ससक्त नथी तेने अमे ब्राह्मण कहीए छीए (२७)
जे द्विजोत्तमो आवा प्रकरना गुणवाळा होय छे तेवो ज पोतानो अने परनो उद्धार करवाने समर्थ छे. (३३)

३ हे ब्राह्मणो, अमिमा आलभन करता तमे पाणीवडे बहारनी शुद्धिने शु शोवो छो ? तमे जे बहारनी शुद्धि शोधो छो ते साह नथी एम कुशल माणसो कहे छे (३८)

कुश, धूप, घास, लाकडा, अमि अने पाणीनो साजे अने सवारे स्पर्श करता तमे मंदो प्राण भूतोनी हिंसा करो छो अने तेथी बारवार पाप करो छो (३९)

खरो होम तो आ छे —तप ए अमि छे, जीव ए अमितुं स्थान छे, प्रवृत्तिओ ए वाढी छे, शरीर ए छाणा छे, पुण्य पाप ए लाकडा छे अने सयम ए शान्ति छे. ऋषिओ ए आवा होमने वखाणेलो छे (४४)

आ ज जातना यज्ञसुं स्वरूप जिनप्रवचनमां ठेकठेकाणे व्रतावेळुं छे. भृगवान महावीरे ते वरतना समाजमा यज्ञनिपेनी आ जातनी मान्यतानो प्रचार करीने हिसात्मक यज्ञनो छडेचोक विरोध करेलो अने तेने अटकावेलो.

भृगवानना वखतमा अने आजे पण मात्र जळखानमा घणा लोको धर्म समजे छे. गगानान, त्रिवेणीघान, प्रयागघानना माहात्म्यने लगता ग्रंथोनी परम्परा आपणा देयमा आज केठळाक वखतथी चाली आवे छे. अने भोज्य लोको गंगामा स्नान करीने पोताने पुण्य मळ्यासुं माने छे.

आ जातना स्नानना माहात्म्यनी असुरथी अत्यारना जैनी पण शेजुंजी नदीना स्नानने धर्म मानवा लाग्या छे. भृगवान कहे छे के ए स्नान तो मात्र शरीरना मळने ते पण घडीभरने माटे ज दूर करे छे पण आत्माना मळने जगपण दूर नथी करी शकतुं तेथी ते स्नान खरा पुण्यसुं कारण नथी. पण खरु स्नान करवु होय तो धर्मरूप जलाशयमा आवेल्य ब्रह्मरूप पवित्र घाटे स्नान करे तो खरेखरो शीत, विमळ अने विशुद्ध थाय छे. तथा आत्ममळनो लाग करे छे. आ ज स्नानने कुणजळ पुरयोए मर्यादान तरीके वर्णवेळु छे अने ऋषिओने तो ते ज प्रशस्त छे.^१

भृगवाने स्नाननी आ जातनी व्याख्या करीने विवेकपूर्वकना बाह्य स्नाननो निषेध कर्यो छे एम मानवासुं कारण नथी. पण जे लोको मात्र जळखानमा ज धर्म मानता अने तेथी ज आत्मशुद्धि समजता तेओने माटे भृगवाने जीवनशुद्धि माटे खरा स्नानसुं स्वरूप व्रतावीने स्नाननो खरो मार्ग खुल्लो कर्यो छे.

तेमना वखतमा लोको पुण्यकर्म समजीने वेदने मात्र कठस्थ करी राखता अने अर्थनो विचार भाग्ये ज करता. वेदना अर्थनी परम्परा भृगवानना पहेलाना समयथी तूटी गयेली होवानो पुरावो यास्काचार्य पोते ज छे, कारण के ते वैदिक शब्दोना स्पष्ट अर्थ करी शकता नथी पण तेने लगता अनेक मतमतारो साथे पोतानो अमुक मत जणावे छे एटले घणा वखतथी वेदना अर्थनो विचार करवो लोकोए माडी बाळेलो अने वेद जूनो ग्रंथ होई तेने कठस्थ करवामा अने स्वरूपक उच्चारण करवामा ज पुण्य मनासुं अने ब्राह्मणो एम मानता के वेदने भणीने, ब्राह्मणोने जमाडीने अने पुत्र उत्पन्न करीने पछी आरण्यक तपस्वी थवार्ये पण आ जातसुं जट कर्मकांड जीवनशुद्धिसुं एकात घातक छे एम समजीने उत्तराध्ययनमंत्रमा कहेवामा आय्युं छे के वेदोनुं अध्ययन आत्मानुं रक्षण करी शकतुं नथी. जमाडेल्य ब्राह्मणो आळसु थवाथी जमाटनारने लाभ देवाने बदले ऊलटा नरकमा पाडे छे अने अपुत्रस्यं गतिर्नास्ति एयो जे वैदिक प्रवाद छे ते पण बराबर नथी. कारण के उत्पन्न करेला पुत्रो पण पिताना के पोताना आत्मानुं रक्षण करी शकता नथी. आ रीते जिनप्रवचनमा वेदना शुष्क अध्ययननो विरोध करवामा आय्यो छे अने ज्ञान अने आचार उपर एक सरखो भार मूकवामां आय्यो छे.

१ “उदगेण जे सिद्धिसुदाहरति मायं च पाव उदगं कुसता ।
उदगस्व फासेण तिया य सिद्धी सिद्धिस्तु पाणा वद्वे दगंसि ॥ १४

मच्छा य कुम्मा य सिरीसिवा य मगू य उदा दगरज्ज्वाना य ।
अट्टाणमेय कुसला वयंसि उदगेण जे सिद्धिसुदाहरति” ॥ १५

—सूत्ररुताग प्रथमश्रुतस्त्व अध्ययन-७

२ “धम्मे हरए यमे सतित्तिये अणामिले अत्तपमद्वेसे ।
जहिं सिणाओ विमलो मिसुद्धो सुसीइभूलो पजहामि दोच ॥ ४६
एयं सिणाणं कुसलेण दिट्ठं महासिणाण इसीण पसत्थं ।
जहिं सिणाया विमला मिसुद्धा महारिती उत्तमं ठाण पत्ते”ति वेमि ४७

—उत्तराध्ययनसूत्र अध्ययन-१२

३ “इम वयं वैश्विओ वयंसि—

अहिज्ज वेए परिविस्स मिप्पे पुत्ते परिट्ठप्प मिहत्ति जाया ! ।
सुच्चाण भोए सह इत्थियहिं आरण्यगा होइ सुणी पसत्त्वा” ॥ ९

—उत्तराध्ययनसूत्र अध्ययन-१४

४ “वेआ अहीआ न भवति ताण”-उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन-१४

५ इमं वयं वैश्विओ वयंसि—“जहा न होइ अमुआण लोगो ।
सुत्ता दिशा निंति तमं तमेण जाया य पुत्ता न हवति ताणं

—उत्तराध्ययनसूत्र अध्ययन-१४

१ सांजे अने सवारे पाणीनो स्पर्श करता जे लोको पाणी वटे सिद्धि माने छे तेमने मते तो पाणीना स्पर्शवटे पाणीमा रहेनारा जीव माननी सिद्धि धवी जोईए ज. (१४)

जेवां के, माछलां, काचया, सर्पो, उटो (आ एक प्रकारसुं जळचर प्राणी छे) अने जळरासतो—आ यथा प्राणीओ निरंतर जीवनपर्यंत पाणीमा रहे छे तो एमसुं निर्वाण थवु जोईए पण एम थवु नथी माटे जे लोको मात्र जलस्नानथी सिद्धि थवासुं कहे छे ते सोडुं छे एम इशळ पुरयो कहे छे. (१५)

२ उरं स्नान तो आ छे धर्मरूप पाणीनो वरो होय, ब्रह्मचर्यरूप घाट होय, जो ए पवित्र, अने निर्मळ घाटे बर्मेना धरामा स्नान करवामा आवे तो स्नान करनारो विमळ, विशुद्ध अने शान्त थाय छे अने दूषणोने छोडी दे छे आ स्नानने ज ऋषिओए महास्नान कहेछ छे कारणके ए रीते नहावाथी मिश्रद्ध थएला महर्षिओ उत्तम स्थानने पामेला छे, (४६-४७)

३ वेदना जाणनाराओ आम कहे छे—वेदोने भणीने, ब्राह्मणोने जमाडीने, छोकराओने वारसो सोपीने अने चसारना भोगो भोगवीने पछी मुनि थवु ठीक छे. ९

४ पाटे करेला वेदो रक्षण करी शकता नथी १४

५ आगळ जे एम कहेवामा आय्यु छे के पुत्ररहित मनुष्योने सद्गति मळवी नथी ते बराबर नथी. कारण के थएला पुत्रो पण रक्षण करी शकता नथी अने जमाडवामा आवता ब्राह्मणो अधारामा लई जाय छे

भगवाननां जमानामां वैदिक के लौकिक संस्कृतने ज महत्त्व अपालुं, ते एटलुं वधुं के ए ज भापा बोलवामां पुण्य छे अने वीजी भापा बोलवामां पाप छे. आ हकीकतनो प्रतिध्वनि महाभाष्यनां आरंभमां आजे पण जोवामां आवे छे. तेमां संस्कृत सिवायनी वाकीनी भापाओने अपभ्रष्ट तरीके गणावी छे अने तेनो प्रयोग करनाराओने दोपी ठराववामां आव्या छे अने आ रीते ते वखतना केटलक लोको शब्दने ब्रह्म समजी तेनी ज पूजा पाळल पडेल. आ संबंधमां भगवाने पोताना सर्व प्रवचनो ते वखतनी लोकभाषामां करीने ए वखते जामेलो भापानो खोटो महिमा तोडी नाखेलो छे अने एक मात्र सदाचार ज आत्मशुद्धितुं कारण छे पण मात्र भापाथी काई वळतुं नथी एम बतावी आप्युं छे.

श्रीउत्तराध्ययनमा कहेवामां आव्युं छे के जुदीजुदी भापाओ आत्मानुं रक्षण करी शकती नथी. भगवान बुद्धे पण भापानी खोटी पूजानो प्रवाद भगवान महावीरनी पद्धति ए ज अटकाववानो प्रयास कर्यो छे.

सूर्यग्रहण के चंद्रग्रहण विषे जे मान्यता अत्यारे चाले छे तेवी ज मान्यता भगवानना जमानामां पण चालती. राहु सूर्यने गळी गयो अने ग्रहण पूरं थाय ल्यारे राहु ए सूर्य के चंद्रने छोडी दीधो एम राहुने सूर्य अने चंद्र साथे वैरभाव जाणे के न होय तेम ते वखतना लोको समजता अने एतुं रूपकात्मक वर्णन हजुसुधी वैदिक परम्परामां पौराणिक ग्रंथोमां टकी रह्युं छे. आ ग्रहण वखते धर्म मानीने जेम लोको स्नान माटे अत्यारे दोडधाम करे छे तेम ते वखते पण करता हशे एम मानवुं खोटुं न कहेवाय. कहेवानी मतलब ए छे के ग्रहणना प्रसंगने धार्मिक प्रक्रियानुं रूप आपीने लोको जेम अत्यारे धमाधम मचावे छे तेम ते वखते पण मचावता हशे. तेमनी सामे भगवाने कह्युं छे के राहु चंद्र के सूर्यने गळतो नथी तेम ते वे वच्चे कोई जातनो वैरभाव पण नथी. ए तो गगनमंडळमां राहु एक गतिमान पदार्थ छे तेम चंद्र अने सूर्य पण गतिमान पदार्थ छे. ज्यारे गतिवाळा तेओ एक वीजानी आडे आवी जाय छे ल्यारे अंशयी के पूर्णपणे एकवीजाने ढाकी दे छे अने पछी छूटा पण पडी जाय छे एटले कोई एक वीजाथी गळतो नथी. ज्यारे एक वीजाने ढाके छे ल्यारे लोको तेने ग्रहण थयुं कहे छे एटले ए ग्रहण कोई धर्ममय उत्सव नथी तेथी ए माटेनी दोडधाम पण धर्ममय नथी ज ए उघाहुं छे. (भा० ३ पा० २७९)

आ रीते ग्रहण निमित्ते चालती जडक्रियानो ग्रहणनुं स्पष्ट स्वरूप आपीने भगवाने आ स्थळे स्पष्ट खुलासो कर्यो छे. अने वधारामां शशी अने आदित्यना स्पष्ट अर्थो पण जणाव्या छे. शशी शब्दनो पौराणिक अर्थ शश-ससला-वाळो एवो थाय छे अने आदित्यनो अर्थ अदितिनी छोकरो एवो थाय छे. भगवाने आ पौराणिक परम्परा सामे जाणे के टकोर करवा खातर ज शशी अने आदित्यना तदन जुदा अर्थो बतावेला छे.

भगवान शशिनो सश्री-श्री सहित-शोभा सहित एवो अर्थ करे छे अर्थात् जे तेजवाळो, कांतिवाळो अने दीप्तिवाळो छे ते शशी-सश्री. तेने जिनप्रवचनमा ससी-सश्री कहेवामा आवे छे. अने आदित्य एटले भगवानना कहेवा प्रमाणे जेने मुख्यभूत-आदिभूत करीने काळनी गणतरी थाय ते आदित्य. काळनी गणतरीमां सूर्यनुं स्थान सर्वथी प्रथम छे माटे भगवाने कहेलो आ अर्थ व्याजवी छे अने व्युत्पत्तिनी दृष्टि ए पण बराबर छे. भगवाने आदित्यनो जे उपर्युक्त अर्थ बताव्यो छे ते मैत्रस्यपुराणमां पण उपलब्ध छे.

आ प्रमाणे शशी अने आदित्यना पौराणिक अर्थो खसेडीने तेना नवा अर्थो योज्या छे. अने तेम करीने ते वे प्रत्येनी लोकोनी गेरसमज ओछी करवा प्रयास करेलो छे.

१ “भूयासोऽपशब्दा अल्पीयास शब्दा. । एकैकस्य हि शब्दस्य बहुवोऽपभ्रंशा तद्यथा-गौरित्यस्य शब्दस्य गावी-गोपी-गोता-गोपोतलिका-इत्येवमादयो बहुवोऽपभ्रंशा । यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले । सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वायुगोविन्दु इष्यति चापशब्दैः ॥ (महाभाष्यना प्रथम सूत्रनो प्रारम्भ)

२ “न चित्ता ताय ए भासा कओ विज्ञानुसासणं ? । विसण्णा पावकन्मेहिं वाला पंडिअमाणियो ॥”

उत्तराध्ययनसूत्र अध्ययन-६

३ “आदित्यश्चादिभूतत्वात्”-मत्स्यपुराण अ० २ श्लो० ३१.

१ अपशब्दो घणा छे अने शब्दो ओछा छे. एक शब्दना भ्रष्टरूपो घणा थाय छे जेमके एक गो शब्दना ज गावी, गोपी, गोता, गोपोतलिका वगैरे घणा भ्रष्टरूपो थाय छे.

जे कुशळ माणस बहुवारने बरते यथावत् शब्दोनी प्रयोग करे छे ते वाग्योगविद अनंत जयने पामे छे अने अपशब्दने बोलनारो दोषवाळो थाय छे (भाष्यकार पतजलिना बरतमां सामान्य लोको जे शब्दो बोलता तेने अर्ही अपशब्दो कहेवामां आव्या छे अने आम कहीने तेमनो आशय ते वखतनी प्रचलित लोकभाषानी अवज्ञा करवानो अने कहेवाती संस्कृतने पूज्य स्थान आपवानो नथी ?)

२ चित्रविचित्र भापा कोइनुं रक्षण करी शकती नथी तेम शुष्क शास्त्राभ्यास पण पोताने पंडित मानता वज्ञानीओ पाप करवामां रुची रहे छे.

“हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्”—(गीता अ० २ श्लो० ३७) ए गीताना वाक्यमां एम कहैवामां आर्युं छे के श्रुने एणीने तुं स्वर्गे जईइ, एयी गीताना जमानाथी के गीताना समय पहैलेयी लोकोमां एवी मान्यता प्रसरी गयेली के उडनाग लोको स्वर्गे जाय छे. आ मान्य-ताने कीधे मोटी मोटी उडाईओमां उडनारा घणा मळी आवता अने आ रीते मनुष्यजानतो कचर वाण नीकळतो. ए अटकाववा भगवाने ए मान्यता उपर स्पष्ट प्रकाश नाख्यो छे अने कर्तुं छे के लोको युद्धयी स्वर्ग मळवानी वात कहे छे ते खोटी छे. पण खरी वात तो ए छे के उडनारा स्वर्गे ज जाय छे एम नयी पण ते पोतपोतानां शुद्धाशुद्ध कर्म प्रमाणे भिन्न भिन्न योनिओमां जन्म धारण करे छे. (भा० ३ पा० ३२)

आ हकीकत कहीने भगवाने युद्ध स्वर्गंतुं सावन छे एवी जातनी लोकोमां फेअयेली धारणा खोटी पाई अने लोकोने युद्धना हिंसामय मार्गयी दूर रहेवानी खास मळामण करी.

वळी, ते वखतनी दिशापूजननी प्रयाने लोकोमांयी दूर करवा अने तेतुं खरं स्वरूप वताववा भगवाने आ मूत्रमां दिशानी पण चर्चा करी छे. दशमा शतकना पहैला उद्वेगकती गरुआत दिशाना विवेचनयी करवामां आवी छे. भगवाने गौतमने कर्तुं छे के दिशाओ दश कहैवामां आवी छे जेना क्रमयी नाम ऐन्दी (इन्द्रना स्वामित्ववाळी), आग्नेयी (अग्निना स्वामित्ववाळी), याम्या (यमना स्वामित्ववाळी), निरृति (निरृति नामना देवना स्वामित्ववाळी), वारुणी (वरुण देवना स्वामित्ववाळी) वायव्य (वायुना स्वामित्ववाळी) सौम्या (सोमना स्वामित्ववाळी) ऐशानी (ईशानना स्वामित्ववाळी), विमला अने तमा. आ दश दिशाओने माटे पुगणप्रसिद्ध उपर्युक्त नामो जणावा उपरांत नीचेना प्रसिद्ध शब्दो पण मूकवामा आवेला छे. पूर्व, पूर्वदक्षिण, दक्षिण, दक्षिणपश्चिम, पश्चिम, पश्चिमोत्तर, उत्तर, उत्तर-पूर्व, ऊर्ध्व (उपरनी), अधो (नीचेनी) आ वयी दिशाओ जीवाजीवना आधाररूप छे तैयी उपचारयी ए दिशाओने जीवअजीवरूप कहैवामा आवी छे. दिशाने एक द्रव्य तरीके गणाववानो पद्धति वैदिक परंपरानी वैशेषिक शास्त्रमां प्रसिद्ध छे.

वैदिककालमा दिशाओनी पूजा करवानो प्रवात हतो ए हकीकत ते साहित्य उपरयी जाणी शक्य छे अने दिशाओतुं प्रोक्षण करीने जमवानी पद्धति एक व्रत तरीके अमुक परंपरामा चाल हती अने ते परंपराने मानना लोको दिशापोक्सिणो कहैवाता ए हकीकत जैनशागमोमां पण मळे छे. आ रीते वेदनी जूनी परंपरामां दिशाओतुं महत्त्व विशेष प्रसिद्धि पायेतुं हतुं अने दिशाओनी पूजानो प्रचार पण लोकोमां ठीकठीक हतो. आ जड प्रचारने रोकवा माटे ज भगवाने दिशाना माहात्म्यनी निष्प्रयोजनता वनाववा तेने आ मूत्रमां जीवाजीवात्मक कहीने बर्णवैली छे. दिशाओ मात्र आकाशरूप होई जीवाजीवरूप समस्त पदार्थना आधाररूप छे ए वात खरी छे पण एटला मात्रयी तेनी जडपूजा करवा मंडी पडतुं ते आध्यात्मिक शुद्धि के जीवनशुद्धि माटे जराय उपयोगी नयी.

भगवान बुद्धे पण दिशाओनी जडपूजाने अटकाववा पोताना प्रवचनमां वीजी ज रीते टकोर करी छे. दीधनिकायना त्रीजा वर्गना सिगाळेववादमुचमां लखेलुं छे के एक वखत बुद्ध भगवान राजगृहना वेणुवनमां रहेता हता ते वखते सिगाल नामनो एक युवक शहेरमाथी रोज सवारे बहार आवी स्नान करी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उपर अने नीचे ए छए दिशाने नमस्कार करतो हतो. राज-गृहमां शिक्षा माटे जता बुद्ध तेने जोईने बोल्या “गृहपतिपुत्र ! ते आ तुं मांडपुं छे” सिगाल बोल्यो—“हे भदंत ! मारा पिताए मरती वखते छ दिशानी पूजा करता रहेवानुं मने कबुं होवाथी हुं आ दिशाओने नमस्कार करुं छुं”. भ० बुद्ध बोल्या—“हे सिगाल ! तारो आ नमस्कारविधि आर्योनी पद्धति प्रमाणे नयी.” लारे सिगाले आर्योनी रीति प्रमाणे छ दिशाओनो नमस्कारविधि वताववा बुद्धने विनंती करी. भ० बुद्ध बोल्या—“जे आर्यश्रावकने छ दिशानी पूजा करवानी होय तेणे चार कर्मदेशयी मुक्त वतुं जोटए. चार कारणोने लईने पापकर्म करवां न वटे अने संपत्तिनाशनां छ द्वारोने तेणे अंगीकार करवो न वटे. आ चौद वातो सामळे तो छ दिशानी पूजा करवाने ते योग्य वने छे”. आ उपरात बुद्धे तेने एम कर्तुं के माई ! मात्राप ए पूर्वदिशा छे, गुरुने दक्षिण दिशा समजवी, पत्नीपुत्र पश्चिमदिशा, सगावहाला उत्तरदिशा, दास अने मजूर नीचेनी दिशा तथा श्रमणब्राह्मण उपरनी दिशा समजवी. आटलुं कशा पछी तेने ए दिशाओनी पूजानी पद्धति बुद्ध भगवाने विस्तारयी समजावी छे.

आ उपरयी एम मालम पडे छे के भगवान बुद्धना वखतमां दिशाओनी जडपूजानो प्रचार खूब थयेले होवो जोईए, जेने अटकाववा श्रीयुद्धे नवा प्रकारे दिशानी पूजानी पद्धति लोकोने समजावी अने भगवान महावीरे पूर्वोक्त प्रमाणे दिशाओने जीवाजीवात्मक

१ “पृथिव्यापक्षेजो वायुराकाशं कालो दिग्
आत्मा मन इति इव्यानि”
(वैशेषिकदर्शन प्रथम अध्याय)
२ “ददनेन दिशः प्रोक्ष्य वे फल-पुष्पादि समुच्चिन्वन्ति”
औपपात्रिक सूत्र पृ० ९०
३ जूओ दीधनिकाय-उपर्युक्तसूत्र.

१ पृथ्वी, पाणी, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा अने मन एटला इच्यो छे.

२ जे लोको पाणीथी दिशाओने अर्थ आपीने फळ, फुलने ग्रहण करे छे तेओ दिशाप्रोक्षी कहैवाय.

કહીને તે જહપૂજામાંથી લોકોને વચાવી લેવા પ્રયત્ન કર્યો, એ એકસરખી હકીકત આ સૂત્રમાં આવેલા દિશાના પ્રકરણ ઉપરથી સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકાય એવી છે. દિશા વિષે ભગવાનનું પ્રવચન તે વચતની દિક્પૂજનની રૂઢિને નાવૂદ કરનારું છે.

આ પ્રકારે ભગવાને પોતાના સમયની કુરુઢિઓને નાવૂદ કરવા અને તેને સ્થાને સુમાર્ગ પ્રવર્તાવવા પોતાના પ્રવચનમાં ઘણો પ્રયાસ કરેલો છે. આ જાતનાં ઉદાહરણો ઘણાં આપી શકાય પણ ઉપરનાં ઉદાહરણો નમુનારૂપે માત્ર ટાંકેલા છે.

ભગવાન મહાવીરે અને ભગવાન વુદ્ધે કુરુઢિને દૂર કરીને લોકોને સુરુઢિ પર ળવવા પોતાના પ્રવચનોમાં પૂર્વોક્ત કેટલીક હકીકતો વતાવેલી છે. આથી જ આ વચ્ચે મહાપુરુષો તે વચતના પ્રવચ્ન સુધારકો હતા એમ જે અલ્પારના શોધકો માને છે તે ખરેખરું છે. આર્યોએ વતાવેલા અહિસા અને સત્યમય માર્ગમાં જે કેટલોક કચરો ભરાઈ ગયેલો તેને દૂર કરવા આ વચ્ચે મહાપુરુષોએ ઘણો પ્રયત્ન સેવ્યો છે એમાં શક નથી.

કેટલીયે એવી વૈદિક માન્યતાઓ હતી જેનાથી લોકોમાં હિસા, અસત્ય, જહતા વગેરે દુર્ગુણોનો વધારો થતો અને એથી તે વચતની પ્રજા ત્રાસી પણ ગયેલી, એ પ્રજાને સન્માર્ગ વતાવવા ભગવાન વુદ્ધ અને ભગવાન મહાવીર કલ્યાણમિત્રરૂપે ન આવ્યા હોત તો અલ્પારે આપણી કેવી દુર્દશા હોત તે કોણ કહી શકે ?

જૈનશાસ્ત્રો ઉપર વૈદિક પરંપરાની અસર

વૈદિક પરંપરાઓમાં કેટલાયે સુધારા કરનારા જિનપ્રવચનમાં પણ કેટલીયે એવી માન્યતાઓ મળે છે જે વૈદિક પરંપરાની અસરને આભારી હોય. આ હકીકત સમજવા માટે આ સૂત્રમાથી જ આપણે કેટલાંક ઉદાહરણો નીચે પ્રમાણે જોઈ શકીશું.

દેવદાનવનું યુદ્ધ વેદની પરંપરામા પ્રસિદ્ધ છે. તે યુદ્ધને નિરૂક્તમા વિજલ્લીના કહાકા તથા મેઘની ગાજવીજના રૂપક તરીકે વર્ણવેલ છે. આ સૂત્રમા ઈંદ્રભૂતિ ગૌતમ ભગવાન મહાવીરને પૂછે છે કે દેવ અને અસુરોનો સંપ્રામ છે ? આનો ઉત્તર ભગવાન હક્તારમાં આપે છે. આ પછીના સૂત્રોમા દેવનાં શસ્ત્રો અને અસુરનાં શસ્ત્રોની હકીકત ભગવાને ઈંદ્રભૂતિને સમજાવેલી છે. (ભા૦ ૪ પા૦ ૬૮) દેવઅસુરના સંપ્રામને લગતા વધા પ્રશ્નો વૈદિક પરંપરામાં પ્રસિદ્ધ એવી દેવદાનવની પ્રહ્યાત લહાઈને લક્ષમા રાખીને કરવામાં આવ્યા હોય એમ માલુમ પડે છે એટલું જ નહીં પણ દેવદાનવના યુદ્ધની એ પૌરાણિક કથામાં વધારે મેલવાળી હકીકત આવે તે માટે તેમના યુદ્ધનાં કારણો સાથેની એક કથા પણ આ સૂત્રમા મૂકવામા આવેલી છે.

ત્રીજા શતકના વીજા ઉદ્દેશકમાં આ સંબંધમાં એમ કહેવામા આવ્યું છે કે દેવો અને અસુરોને જન્મથી જ વૈરનો સ્ખમાવ છે. અને તે વે વચ્ચે સંપત્તિ અને ળીઓ માટે યુદ્ધ થાય છે. વૈદિક કથાની હકીકત કરતાં દેવાસુરના યુદ્ધને લગતી આ હકીકત 'દેવો અને અસુરો પણ ળોમી અને વિપથી હોઈ પરસ્પર લહે છે' એ વસ્તુ સમજાવે છે અને લોકોને ળોમ અને વિષયના નિર્વેદ તરફ ળઈ જઈ સ્વર્ગ પણ વાછનીય નથી એ વાત સૂચવે છે અને આ જૈનકથામા એ જ મુદ્દો મેલવાલો છે. અહીં એક વસ્તુ ળ્યાલમાં રાખવાની છે કે જ્યારે વૈદિક પરંપરામા દેવ અને દાનવના સ્પષ્ટ વિમાગ છે ત્યારે જૈનપરંપરામાં અસુરોને પણ દેવ તરીકે ગણાવેલું છે.

ભગવાન મહાવીરે ત્રીજા શતકના આ જ ઉદ્દેશમા પોતાની હયાતીમા દેવેદ્ર દેવરાજ શક્ત અને અસુરેદ્ર અસુરરાજ ચમરનું યુદ્ધ થયું હતું એમ ઈંદ્રભૂતિ ગૌતમને વિસ્તાર સહિત જણાવેલ છે અને તે લહાઈમા ભગવાનના જ આશરાથી અસુરેદ્ર ચમરનું રક્ષણ થયું હતું એમ પણ સૂચવેલું છે. આ લહાઈ જંવૂદ્ધીપના મારતવર્પના સુંસુમાર નગરમા વ્યારે ભગવાન દીક્ષા ળીધા પછી અગિયારમે વર્ષે તપ તપતા હતા તે વચ્ચે થઈ હતી, અસુરેદ્ર અને દેવેદ્ર વચ્ચેને ભગવાનના મક્ત તરીકે આ કથામા જણાવેલા છે. આ સૂત્રમા આવેલી આ કથાનો ઉલ્લેખ સિદ્ધસેન દિવાકર પોતાની વૃત્તીશીઓમાની મહાવીરસ્તુતિના ત્રીજા ળોકમાં કવિત્વને ળાજે એવી સરસ રીતે કરે છે.

જેમ રામ અને પાહલોની કથા જૈનપરંપરામા જૈનદષ્ટિએ સારો ઘાટ આપીને વર્ણવાયેલી છે તેમ દેવઅસુરની આ કથા સારો ઘાટ આપીને વર્ણવાઈ હોય અને તે દ્વારા વિપયનિર્વેદ ફેલાવવાનો આધ્યાત્મિક હેતુ જૈનાચાર્યોએ સાધ્યો હોય તો તે તેમના ધ્યેયને વરાવર અતુક્લ થયું હોય એવું ળાગે છે.

આવી જ વીજી હકીકત લોકપાલોને લગતી છે. ત્રીજા શતકના સાતમા ઉદ્દેશકમાં કહેવામા આવ્યું છે કે દેવેદ્ર દેવરાજ શક્તના ચાર લોકપાલો છે. સોમ, યમ, વરુણ અને વૈશ્રમણ. આ ચારે લોકપાલો શક્તની આજ્ઞામાં રહે છે.

૧ નિરુક્તના ઉલ્લેખ માટે જુઓ પ્રસ્તુત ગ્રંથ ભાગ ૨ પૃ૦ ૪૮-૪૯ ટિપ્પણ ૨

૨ દેવાશ્ચ જૈન સમયે મવનપતિ-વ્યન્તર-જ્યોતિષ્ક-વૈમાનિક-મેદાશ્ચતુર્ધા મવન્તિ ॥૩॥

-અભિધાનચિન્તામણિ દેવકાણ્ડ ળોક ૩

૨ જૈન સિદ્ધાન્તમા દેવોના ચાર પ્રકાર છે જેમકે -મવનપતિ, વ્યન્તર, જ્યોતિષી અને વૈમાનિક

૩ આ ળોક માટે જુઓ પ્રસ્તુત ગ્રંથ ભાગ ૨ પૃ ૬૧ ટિપ્પણ ૧

जगत्मां उल्कापात, विम्बाह, धूलनो वरसाद, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, इन्द्रधनुष्य, मोटा मोटा दाहो, ग्रामदाह, नगरदाह, प्राणीक्षय, जनक्षय, धनक्षय, कुलक्षय, संव्या, गांधर्वनगर आ अने आवा वीजा ववा उत्पातो सोमनी देखरेख नीचे जगतमा आवे छे.

सोमने आधीन विद्युत्कुमार, विद्युत्कुमारी; अग्निकुमार, अग्निकुमारी, वायुकुमार, वायुकुमारी; चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र अने तारा ए वधा छे.

शक्रने वीजो लोकपाल यम छे. जगतमा कलह, महासंग्राम, मारफाड, रोगचाळा, शारीरिक दुःखो, वळगाड, एकांतरीयो, वेआंतरीयो, त्रणआंतरीयो, चौथीयो, खासी, श्वास, पांडुरोग, हरस, शूळ, मरकी आ वधा उपद्रवो यमनी सत्ता नीचे थाय छे. अंध, अक्षरीय, महाकाळ, असिपत्र, कुंभ, बाल, वैतरणी ए वधा यमना आश्रितो छे.

वरण त्रीजो लोकपाल छे. अतिवृष्टि, मंदवृष्टि, सुवृष्टि, दुर्वृष्टि पाणीना उपद्रवो, जलप्रलय अने पाणीनी रेडो ए वधुं आ वरुणनी सत्तामां छे.

लोटानी, कलईनी, तांबानी, सीसानी, सोनानी, रुपानी, रत्नानी अने हीराओनी खाणो तथा रत्न, सुवर्ण वगैरेनी वृष्टिओ, सुकाळ, दुष्काळ, सोंवाई, मौंवाई आ वधुं शक्रना चौथा लोकपाल वैश्रमणनी सत्तामा छे.

सुवर्णकुमारो, सुवर्णकुमारीओ, द्विपकुमारो, द्विपकुमारीओ, विक्रुमागे, विक्रुमारीओ, वानव्यंतरो, वानव्यंतरीओ ए वधां वैश्रमणना आश्रामां रहे छे.

आ वधुं जोतां एम मालूम पडे छे के जाणे के जगतमां चाळतुं आ वधुं तंत्र आ लोकपालोने आभारी न होय? पण आत्मवळने प्रधान माननारा अने ते उपर ज प्रवर्तनारा तीर्थकरना शासनमां आ लोकपालोनी सत्ताथी यती ए व्यवस्था घटाववी गी रीते ?

जे कोई दृश्य अने अदृश्य वनावो वने छे ते वधा आत्माए सचित करेला कर्मना परिणामरूप छे एम जिनदेव कहे छे तो आपणे रोगचाळा के दुष्काळनां कारणो आपणां कर्ममा शोधवां के लोकपालमां ?

कदाच लोकपालोने निमित्त कारण कर्णने उपर्युक्त व्यवस्था घटाववानो विचार थई आवे पण हरस, खांसी, शूळ वगैरेनां अधिष्ठायक निमित्तो शरीरनी रक्षातुं अज्ञान अने कुपथ्यादिकने कल्पवां के लोकपालोने ?

वळी, कार्यमात्रने थवानां पाच कारणो जैन परंपरा बतावे छे. जेमके—काळ, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत अने पुरुष. जगतनी वधी व्यवस्था आ कारणोनी व्यवस्थाने आधीन छे. एमा रोगो फेलावनारा, सुकाळ करनारा लोकपालोनुं स्थान क्या छे ते समजतुं मुद्केली मयुं छे. जैनपरंपरामां संतसमागम अने तेनी अवेजीमां वीतरागनुं ध्यान, स्मरण वा पूजन आदर्शने पहोंचवा सारु साधको माटे उचित मनायां छे पण रोगादिक टालवा वा धनलामादिक मुख मेळववा सोम, यम, वरुण के वैश्रमण वा इंद्रादिकतुं ध्यान, स्मरण, पूजन के प्रार्थना सम्यग्दृष्टि साधकने सारु तो सर्वथा निषिद्ध छे. ए तो दुःखना के सुखना जे जे प्रसंगो आवे तेने पोताना ज संस्कारोनुं परिणाम जाणी समपणे अनुभवे छे ल्यारे वैदिक परंपरामा तो सोम, यम, वरुण, वैश्रमण के इंद्र वगैरेने लाभ वा हानिकर्ता ठराववामा आव्या छे अने लाभ मेळववा वा हानि टाळवा ते ते सोमादिकनी पूजा प्रार्थनाना पुरातन विधानो करवामां आव्या छे जे आज पण प्रचलित छे तेथी आ सूत्रमां चर्चावेळी आ लोकपालनी हकीकत पौराणिक पद्धतिने आभारी छे एम मानवामां कशुं अनुचित नथी.

वरसाद माटे इन्द्रनी पूजा घणा जूना काळथी वेदोमा प्रसिद्ध छे एटले के वैदिक जमानामा लोको एम मानता के वरसाद मोकल्यो ए इन्द्रनी सत्तानी वात छे, तेथी ज तेओ वरसादने माटे इन्द्रने तुष्ट करवा यज्ञ करता. आ वरेम श्रीकृष्णे गोवर्धनपूजानी प्रथा पाडीने दूर करवा प्रयत्न करेले ए जाणीतुं ज छे अने जैन परंपरामा वरसाद वगैरे कारणो माटे इन्द्रादिकने तुष्ट करवाना प्रयत्नो कदी करवामां आव्या नथी, कारण के भगवान महावीर खुद इन्द्रयज्ञ वगैरे यज्ञोना विरोधी हता एमां कसो शक नथी. ए परावर्तवन टाळवा ज एमणे पुरुषार्थवाद अने कर्मवादो सिद्धात ते वखतना समाज समक्ष मूकेलो, आम छताय वरसाद मोकलनार इन्द्रने लगती ए जूनी परंपग आ सूत्रमां सचवायेली छे.

चौदमा शतकना वीजा लट्टेयकमां इन्द्रभूति गौतम भगवानने पूछे छे के देवेन्द्र देवराज शक्र ज्यारे वृष्टि करवानी इच्छावाळो होय छे ल्यारे ते केनी रीते वृष्टि करे छे ? तेना उत्तरमा भगवान गौतमने कहे छे के ज्यारे तेने वरसाद वरसाववानी इच्छा थाय छे ल्यारे ते पोतानी आंतरसभाना देवोने बोलावे छे, आतरसभाना देवो मध्यसभाना देवोने बोलावे छे, मध्यसभाना देवो वहारनी सभाना देवोने

१ वर्तमानमा जैनमंदिरोनी प्रतिष्ठा करवानी विधिमा के शास्त्रानुसारा शास्त्रिकमां माटे देवोने आभारवामा आवे छे अने तेओने संतुष्ट करव विविध प्रकारनां नैवेद्यो पण घरवामां आवे छे.

बोलावे छे अने ते बहारनी सभाना देवो इन्द्रना कहेवाथी वरसाद वरसावे छे. आ प्रकारनी वृष्टि साथे इन्द्रना संबधनी हकीकत जे जैन प्रवचनमा आवेली छे ते वेदनी पुराणी इन्द्रकथानी प्रसिद्धिनुं ज परिणाम छे. हवे ए वस्तु सिद्ध यई गई छे के वरसाद केम आवे छे अने तेनां कया कया कारणो छे ? तथा तेनी साथे इन्द्रनो केटलो संबध छे अने ए इन्द्र कोण छे ?

९ मा शतकना ३ जा उदेशकमा एकोरुक—एक साथळवाळा—एकटंगिया मनुष्योना द्वीपनी हकीकत आवे छे. ए द्वीप जंबूद्वीपमा आवेला मंदर पर्वतनी दक्षिणे चुल्लहिमवंत पर्वतना पूर्व छेडाथी ईशान कोणमा त्रणसो योजन लवण समुद्रमा गया पछी आवे छे. ते द्वीपनी लंबाई पहोळाई ३०० योजन छे अने घेरावो ९४९ योजन करता काईक न्यून छे.

आ प्रमाणे वीजा अनेक द्वीपो विपे पण तेमा जणावेछु छे ए शतकना पहेला उदेशकमा लखेछु छे के जंबूद्वीपमां पूर्व पश्चिम बधी मळीने १४५६००० नदीओ छे.

द्वीपो अने समुद्रो आ विश्वमा असख्य छे एम भगवाने कह्युं छे. ज्यारे इन्द्रभूति ए द्वीपो अने समुद्रोनां नाम विपे भगवानेने पूछ्युं स्यारे तेमणे जणाव्युं के लोकमा जेटलां सारा रूपो, सारा रसो, सारा गंधो अने सारा स्पर्शो छे ए वधा द्वीपनां अने समुद्रना नाम समजवां, जेमके क्षीरसमुद्र, इक्षुसमुद्र, घृतसमुद्र वगैरे. (भा० २ पा० ३३४)

आ उपरात चंद्र, सूर्य अने ताराओनी संख्या अने तेमा रहेनाराओनी रहेणीकरणी ए विपे पण ९ मा शतकना वीजा उदेशकमा हकीकत आवे छे. ताराओ विपे लखता तेमणे कह्युं छे के एक लाख तेत्रीस हजार नवसो पचास कोटाकोटी तारानो समूह विश्वने शोभावी रह्यो छे.

आ सूत्रमा आवेली आ वधी हकीकतो भूगोल-खगोलने लगती प्राचीन आर्य परंपरानी असरने आभारी होय एवुं लागे छे. कारण के भूगोल ने खगोल विपे आने मळती मान्यता, वैदिक—महाभारत, पुराण वगैरे के अवैदिक वधी परंपराओमां फेलायेली हती.

अत्यारनु भूगोल ने खगोलनुं विज्ञान ए संबधमा जे प्रकाश पाडे छे ते खास ध्यानमा लेवा जेवो छे.

ईश्वरने सृष्टिकर्ताने स्थाने समजनारी वधी परंपराओमा जगतनी उत्पत्तिनी पेटे जगतना प्रलयनी पण खास कल्पना चाली आवे छे.

प्रलयकालने माननारी परंपराओ एम जणावे छे के ते वखते वधा परमाणु अने जीवो सिवाय कशुं रहेवानुं नथी. ज्यारे सृष्टिनी नवी शरूआत थाय छे स्यारे ए वची रहेला परमाणुओ अने जीवो उपेयो करी ईश्वर नवी सृष्टि बनावे छे जैन परंपरामा आ संबधे एवुं मानवामा आवे छे के प्रलयकाल जेवा आरामा प्रलयना भयकर वायु वाशे, दिशाओ धूममय थशे, सूर्य उग्रपणे तपशे, चंद्र अतिशय असख्य शीतता आपशे, खराब रसवाळा, अग्निनी पेटे दाहक पाणीवाळा, झेरी पाणीवाळा, रोगजनक पाणीवाळा, मुगळधार वरसाद बर-सशे. एथी करीने भारतवर्षमा ग्राम, आकर, नगर, खेट, कर्बट, मडव, द्रोगमुख, पट्टन अने आश्रममां रहेला मनुष्यो, चोपगा प्राणीओ—गायो, घेटां वगैरे, आकाशमा उडतां पक्षीओ तेमज गाम अने अरण्यमा चालता ब्रस जीवो तथा अनेक प्रकारनां वृक्षो, गुच्छओ, लताओ, वेलाओ, घास, शेरडीओ, घरो, अनाजमात्र, अकुरो तथा तृणवनस्पतिओनो नाश थशे. वैताळ्य सिवायना पर्वतो, गिरिओ, डुगराओ, धूळना उचा टेकराओ वगैरेनो नाश थशे. गगा अने सिन्धु सिवायनी नदीओनो पण अत आवशे. अग्निना वरसादोने लीधे तपेला कडाया जेथी अने धगधगता अंगारा जेवी जमीन थशे. बहु कीचडवाळी, बहु कादववाळी जमीन थशे. जेथी एना उपर वचेला प्राणीओ पण चाली नहीं शके. ७२ निगोदो भाविसृष्टिना वीजरूप वीजमात्र वचशे अने ते वैताळ्य पर्वतनो आश्रय करीने त्या वीलोमा रहेशे. (भा० ३ पा० २१—२३)

वाइवलमां पण प्रलयकाले जे जीवो वची रहेनारा छे तेनी सख्यानी हकीकत एक कथाना रूपमा आवे छे तेनो सार आ प्रमाणे छे:—“विश्वमा भयंकर जलप्रलय थवानी आगाही नुहने प्रसु ए खमाद्वारा आपी, अने आज्ञा करी के तारे एक महान बहाण तैयार करवुं, जेथी तारा कुटुंबने अने पृथ्वी उपरना हरेक जातना पशु पक्षीओमाथी वच्चे—नर अने मादाने वचावी लेवा, नुहे आज्ञानुसार बहाण तैयार कर्युं अने तेमा पोताना कुटुंबने अने वीजा हरेक जातना पशु पक्षीमाथी वच्चेने पकडी पकडीने पूरी दीधा. जे पशुओ पकडाया हता तेमा एक सिंह अने एक सिंहण, एक वाघ अने एक वाघण, एक हरण अने एक हरणी, एक भेस अने एक पाडो, एक गाय अने एक आखलो, एक बकरो अने एक बकरी, एक घेटो अने एक घेटी हता. पक्षीओमा एक पोपट, एक मेना, एक चकलो अने एक चकली, एक मोर अने एक डेल हता. जलप्रलय थयो. आखा विश्वमांथी फक्त ए बहाणमां रहेला ज वची शक्या.”

वैदिक परंपरा अने अवेस्तानी परंपरामा पण आने मळती हकीकत नोंधाएली छे, ए ऐतिहासिकोने सुविदित ज छे.

आ प्रकारे आजथी २५०० वर्ष पहेलानी परंपरा उपर संकलित थयेला आ ग्रंथमां समसमयनी के पूर्वसमयनी वीजी केटलीये परंपराओ एक के वीजे रूपे सचवाई रहे ए तदन खामाधिक छे. आ उपरथी आपणे एटलुं ज अनुमान काढी शकीए के व्यवस्थित के

अव्यवस्थित पण लोकमां प्रचार पामेठी परंपरा दूरेक प्रकारना प्राचीन साहित्यमा मग्गी राने सचवाई रहे छे. केटलीकार तेने लीपे ज ते साहित्य लोकमान्य अने लोकप्रिय पण थई पढे छे.

आ सूत्रनुं अथलोकन करतां जीवनशुद्धिनी मांसांसा, भगवाने वनापेय विधने लगता विचारो, मन्दिरेठे अने बीजी बीजी परंपरा-ओनी असरथी नवी उपजेठी केटलीक जैन परंपराओ, आ मुदाओ विपे विचार थई गयो.

हवे भगवाननी अनेकात दृष्टि विपे योटी विचार कर्ग पठी मात्र प्रस्तुत ग्रंथना ऐतिहासिक अन्वेषण विपे नीचेता मुदा विचारवाना छे.

- (१) आगमनी परंपरा अने ग्रंथनुं नाम
- (२) बीजा आगमोमा प्रस्तुत ग्रंथनो परिचय, वर्तमान रचना थीली तथा ग्रंथनुं पूर
- (३) दिगंबर नप्रदायमां प्रस्तुत ग्रंथनो परिचय अने तेनां मार्कीनो उद्वेग
- (४) व्याख्याप्रज्ञप्तिमा आवेलां केटलीक मनांगे
- (५) व्याख्याप्रज्ञप्तिमा आवेला केटलीक विवादास्पद स्थानो
- (६) व्याख्याप्रज्ञप्तिनी टीका
- (७) व्याख्याप्रज्ञप्तिनी टीकाकार

अनेकांतदृष्टि

भगवाने ज्या ज्यां आचार के तत्त्वनुं प्रतिपादन करेलु छे त्यां तेनी वची अपेक्षाओ साथे विचार करेलो छे एटले के कोई एकर पदार्थ तेना मूल द्रव्यनी दृष्टि ए अमुक जातनी होय छे, तेना परिणामनी दृष्टि ए कोई जुदी जातनी होय छे, ते ज प्रमाणे क्षेत्र, काळ, भाव वगैरे बाहुओ लक्षमा राखीने पण विचार करवामा आवेलो छे. (भा० २ पा० २३२)

स्कन्दकता प्रश्ना उत्तरमा भगवाने तेने कए छे के, लोक मान पण छे लोक अनंत पण छे. काळ अने भावथी लोक अनंत छे अने द्रव्य अने क्षेत्रथी लोक सात छे जीव पण द्रव्य अने क्षेत्रथी सात छे अने भाव अने काळथी अनंत छे. (भा० १ पा० २३५)

परमाणुने लगनो विचार करता द्रव्य दृष्टिनो (दृश्यदृष्ट्याए) अने प्रवेशदृष्टिनो (परसदृष्ट्याए) उपयोग करेलो छे. (भा० ४ पा० २३४)
आचारनी वाचनमां समन्वयनी दृष्टि केशी अने गौतमना सपादमा सुप्रसिद्ध ज छे.

एक स्थले सोमिळ नामना ब्राह्मणे भगवानने पूछु छे के, तमे एक छो ? बे छो ? अक्षत छो ? अव्यय छो ? अने वर्तमान, भूत अने भविष्यरूप छो ? आना उत्तरमा भगवाने कए छे के, द्रव्यदृष्टि ए हुं एक छुं, ज्ञान अने दर्शननी दृष्टि ए हुं बे छुं, प्रवेशनी दृष्टि ए हुं अक्षर छुं, अव्यय छुं अने उपयोगनी दृष्टि ए हुं वर्तमान भूत अने भविष्यना परिणामवाळो छुं आ रीतनी समन्वय दृष्टि जेम भगवान महावीरे बतावेली छे तेम भगवान बुद्धे पण बतावेली छे.

सिंह सेनापतिने बुद्धे कए—मने कोई अक्रियावादी कहे के क्रियावादी कहे के उच्छेदवादी कहे नो हुं ते वची जाननो छुं. पुण्यप्रद विचारोनी क्रिया करवी, कुशल वृत्ति वधार्ये जवी, सदृच्छाने अनुमरवी एवो हुं उपदेश करुं छुं नेटत्रा माटे क्रियावादी छु. पापक्रियानो विचार न करवो, पापना विचारो मनमा न आववा देवा अने पापविचारोना नाश करवो ए वधानो हुं उपदेश आपुं छु माटे हुं अक्रियावादी छुं अने अकुशल मनोवृत्तिनो उच्छेद करवानुं हुं कहुं छु माटे उच्छेदवादी छुं.

आ प्रकारनी व्यक्तिगत के विश्वगत समन्वयनी दृष्टि जैन परंपराना अने बौद्ध परंपराना शास्त्रोना अलारे पण जळवाई रही छे. आना स्याद्वाद, अनेकान्तवाद, विमज्जवाद, ए नामो जैन परंपरामा प्रसिद्ध छे अने बौद्ध परंपरामां पण मध्यमप्रतिपदा अने विमज्जवाद जाणीतां छे.

वर्तमानमा जो आपणा आचारो आ दृष्टिथी विचाराथ तो लगभग वधा साम्प्रदायिक कल्होनो अत आवे अने आपणा शुद्धि अने जीवननो सद्द्रव्य थई ठीक प्रमाणमा विकास थई अके.

(१) आगमनी परंपरा अने ग्रंथनुं नाम

आ सूत्रना मूल कर्ता विपे विचार करवो सौथी प्रथम प्राप्त हतो पण ते विपे जैन परंपराए खुलासो कर्ग दीवो छे के मूल आगम मात्र तीर्थकरना अनुयायीओ ग्रंथे छे एटले के आगमनी अन्तरचना खुद तीर्थकरनी नथी होती पण तेमना समसमयी के परवती अनुवा-

ચીઓની હોય છે, કંઠસ્થ રહેલા જૈન આગમોમાં ટુકાલ આદિના કારણે કેટલાંય પરિવર્તનો થઈ ગયાં છે એવું સુદ જૈન પરંપરા સ્વીકારે છે અને એ એમ પણ માને છે કે અત્યારના ઉપલબ્ધ આગમો દેવર્ધિગણીની સંકલનારૂપ છે. એ સંકલના વલમી (વઠા)મા ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ પછી લગભગ હજાર વર્ષે થયેલી એમ જૈન ઇતિહાસ કહે છે એથી પ્રસ્તુત ગ્રંથના કર્તા વિષેનો નિવેદો લગભગ આવી જાય છે.

પ્રસ્તુત ગ્રંથનું નામ ભગવતીસૂત્ર જૈનસંપ્રદાયમા સુપ્રસિદ્ધ છે પણ નીચેના ઉલ્લેખો ઉપરથી તે તેનું મૂળ નામ નથી પણ તેની મહત્તા દર્શાવનારુ વિશેષણ માત્ર છે અને ટીકાકાર અભયદેવ પણ એને એમ જ માને છે.

સમવાયાગસૂત્ર અને નદીસૂત્રમાં વર્તમાનમાં ઉપલબ્ધ અંગસૂત્રોના નામ અને વિષયો જણાવ્યા છે તેમા આ સૂત્ર માટે 'વિયાહ' શબ્દ વપરાયેલો છે અને તે શબ્દનું મૂળ 'વિયાહ' ધાતુમા વતાવવામા આવ્યું છે. 'વિ' અને 'આ' ઉપસર્ગ સાથેના 'હ્યા' ધાતુથી થયેલા 'વ્યાહ્યા' શબ્દમાંથી પૂર્વોક્ત 'વિયાહ' શબ્દ નીપજેલો છે એટલે 'વિયાહ' નો અર્થ અનેક પ્રકારની વ્યાહ્યાઓ—વિવેચનો—થાય છે. ટીકાકાર પણ એ 'વિયાહ' ની સમજૂતી ઉપર પ્રમાણે આપે છે.

કેટલેક સ્થલે 'જહા પન્નત્તિ' એમ જણાવીને આ ગ્રંથના ટુંકા નામનો નિર્દેશ કરેલો છે. એ ઉપરથી અને આ ગ્રંથના ટીકાકાર અભયદેવના ઉલ્લેખ ઉપરથી એમ પણ માલુમ પડે છે કે આ ગ્રંથનું આજુ નામ 'વિયાહપણ્ણત્તિ' હોવું જોઈએ, આગળ જે 'વિયાહ' જણાવ્યું છે તે આનું ટુકું નામ છે.

'વિયાહપણ્ણત્તિ' શબ્દને વરાવર મઠતો સંસ્કૃત શબ્દ 'વ્યાહ્યાપ્રજ્ઞતિ' છે અને તેનો અર્થ—જેમાં અસંકીર્ણપણે અનેક પ્રકારની વ્યાહ્યાઓ પ્રરૂપાતી હોય તે છે. આ અર્થ જોતા આ નામ આ ગ્રંથને વરાવર બંધ વેસતું છે એથી તે અન્વર્ય છે.

'વિયાહપણ્ણત્તિ' ને વદલે કેટલેક સ્થલે 'વિવાહપણ્ણત્તિ' શબ્દ પણ મળે છે. પણ વિચાર કરતાં જણાય છે કે ધરો શબ્દ તો 'વિયાહપણ્ણત્તિ' છે અને 'વિવાહપણ્ણત્તિ' તો તેનું મઠતું પાઠાન્તર છે જે 'ધ' નો 'વ' બોલાવાથી નીપચ્યું લાગે છે. વ્યુત્પત્તિ અને વ્યાકરણશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ 'વિ' અને 'આ' સાથેના 'હ્યા' ધાતુમાંથી 'વિયાહ' શબ્દ નીપજી શકે છે એટલે તેનું વકારવાળું 'વિવાહ' રૂપ પાઠાન્તર માનીએ તો જ ચાલી શકે.

ટીકાકારે તો 'વિયાહપણ્ણત્તિ' અને 'વિવાહપણ્ણત્તિ' એ બન્ને શબ્દોને સ્વીકારેલા છે. પહેલા શબ્દનો અર્થ તે ઉપર પ્રમાણે કરે છે અને બીજા શબ્દનો અર્થ કરતા તે તેને વરાવર મઠતા સંસ્કૃત શબ્દો 'વિવાહપ્રજ્ઞતિ' અને 'વિવાધપ્રજ્ઞતિ' મૂકે છે પણ પ્રાચીન પરંપરા જોતાં 'વિયાહપણ્ણત્તિ' નામ ધરુ જણાય છે

'પણ્ણત્તિ' શબ્દને વરાવર મઠતો સંસ્કૃત શબ્દ 'પ્રજ્ઞતિ' છે. તેનો સ્પષ્ટ અર્થ 'પ્રજ્ઞાપન' થાય છે તેમ છતા ટીકાકારે તે શબ્દને મઠતા આ શબ્દો—'પ્રજ્ઞાસિ' (પ્રજ્ઞ+આસિ) અને 'પ્રજ્ઞાત્તિ' (પ્રજ્ઞ+આત્તિ) મૂકેલા છે. અને તેમ કરીને તેમણે 'વ્યાહ્યાપ્રજ્ઞતિ' ઉપરાત 'વ્યાહ્યાપ્રજ્ઞાસિ' 'વ્યાહ્યાપ્રજ્ઞાત્તિ' 'વિવાહપ્રજ્ઞાસિ' 'વિવાહપ્રજ્ઞાત્તિ' 'વિવાધપ્રજ્ઞાસિ' 'વિવાધપ્રજ્ઞાત્તિ' 'વિવાહપ્રજ્ઞતિ' અને 'વિવાધપ્રજ્ઞતિ' બંને સંસ્કૃત શબ્દો 'વિયાહપણ્ણત્તિ' અને 'વિવાહપણ્ણત્તિ' ને વદલે જણાવ્યા છે. એથી કોઈએ એમ ન સમજવું જોઈએ કે આ સૂત્રના આટલા વધા નામો છે.

નામ તો 'વિયાહપણ્ણત્તિ' એક જ છે પણ ટીકાકારે જે એને માટે પૂર્વોક્ત અનેક સંસ્કૃત શબ્દો મૂકેલા છે તેનું કારણ તેમનો આગમો પ્રત્યેનો અધિકાધિક સદ્ભાવ અને શબ્દકુશલતા માત્ર છે. જ્યાં જ્યાં આ સૂત્રના નામ માટે સંસ્કૃત શબ્દ જોવામા આવે છે ત્યાં ત્યાં વધે 'વ્યાહ્યાપ્રજ્ઞતિ' નામ જણાય છે તેથી ટીકાકારે મુકેલા ઉપલા શબ્દો આ ગ્રંથના નામ તરિકે ન સમજવા, ભગવતી શબ્દ તો આ સૂત્રની પૂજ્યતા વતાવનારુ વિશેષણ માત્ર છે પણ ધરુ નામ નથી તે ન મુલાય.

(૨) બીજા આગમોમાં પ્રસ્તુત ગ્રંથનો પરિચય, વર્તમાન રચનાશૈલી તથા ગ્રંથનું પૂર

'સમવાય નામના ચોથા અગમા અને નંદીસૂત્રમા આ સૂત્રનો પરિચય આપવામા આવેલો છે. "વિયાહ સૂત્રમા જીવો વિષે વ્યાહ્યાન છે અજીવો વિષે વ્યાહ્યાન (વિવેચનો) છે. જીવાજીવ વિષે વ્યાહ્યાન છે, સ્વસમય, પરસમય અને સ્વપરસમય તથા લોક, અલોક અને લોકા-લોક એ વિષે વ્યાહ્યાન છે. તથા છત્રીશ હજાર વ્યાકરણો—પુછાયેલા પ્રશ્નોનો નિર્ણય આપનારા ઉત્તરો—શિષ્યના હિત માટે જણાવેલા છે, જે

૧ પ્રસ્તુત સૂત્રનું નામ તો 'વ્યાહ્યાપ્રજ્ઞતિ' છે પણ સપ્રદાયમા 'ભગવતી' નામ વધારે જાણિતું છે માટે જ આ ગ્રંથના મુદ્ર પૃષ્ઠ ઉપર એ નામ મોટા અક્ષરે મુકેલ છે અને તેના કર્તાના નામનો ઉલ્લેખ પણ સપ્રદાયપ્રતિષ્ઠિ પ્રમાણે સૂચવેલો છે

૨ સમવાયાગ સૂત્ર પૃ૦ ૧૧૪

૩ નદીસૂત્ર પૃ૦ ૨૨૯

व्याकरणो अनेक प्रकारना देवो, राजाओ अने राजर्षीओ तथा अनेक प्रकारना सगयवाय्य जिज्ञासुओए श्रीजिनने पृथेय छे. जेना जवावो श्रीजिने द्रव्य, गुण, क्षेत्र, काल, पर्याय, प्रदेश, परिणाम, ययास्तिभाव, अनुगम, निक्षेप, नय, प्रमाण अने अनेक प्रकारना सुंदर उपक्रमो पूर्वक आमां आपेला छे.” आ रीते समवाय नामना चोया अंगमा प्रस्तुत ‘व्याख्याप्रज्ञप्ति’ मूत्रना अभिवेय विषयनो परिचय आपेले छे. त्यारे नन्दीसूत्रमा समवाय करता थोहुं जुहुं जणावेळुं छे एटले के नन्दीसूत्रमा समवाय अंगमा कहेली व्याकरणो मंत्रवी कगी हकीकत मळती नथी. पण मात्र तेमां “जीव, अजीव, जीवाजीव, स्वसमय, परसमय, स्वपरसमय, लोक, अलोक, अने लोकालोक संत्रवी व्याख्यानो व्याख्याप्रज्ञप्तिमा छे” एटलुं ज जणावेळुं छे.

उपर जणाव्या प्रमाणे ते वने मूत्रमा आ सूत्रना अभिवेयनी वाचनमा जेम फरक जणाय छे तेम तेना परिमाण विपे पण मेद मालुम पडे छे. ते मेद आ प्रमाणे छे: व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्रना पदोनी संख्या समवायांगमां ८४००० जणावेली छे अने नन्दीसूत्रमां तेनी संख्या २८८००० जणावेली छे. परिमाण विपेनी वीजी हकीकतो वनेमा सरखी छे. ते जेमके, जगनी अपेक्षाए व्याख्याप्रज्ञप्ति मूत्र पाचमुं जंग छे, तेमा एक श्रुतस्कंध छे, एकसो करतां वधारे अध्ययनो छे, दश हजार उद्देश्यो अने दश हजार समुद्देश्यो छे

आ सूत्रमां वर्णवायेला विषयनी अने परिमाणनी जे हकीकत उपर आपी छे तेनी सरखामणी आपणी सामेना आ मूत्रना निपय अने परिमाण साथे करतां खास फेर जणातो नथी. उद्देश्यको अने पदोनी संख्यामा फेर छे ते फेर तो प्राचीन परंपराए पण मानेले छे.

रचनाशैलीनी वाचनमां आ सूत्रमां प्रश्नोत्तरनी पद्धति छे ए हकीकत समवायांगमा तो जणावेली छे अने आ वर्तमान मूत्रमां पण ते ज शैली आपणी सामे छे. जेम आ सूत्रमां भगवान महावीर अने इन्द्रभूति गौतम वधेनी प्रश्नोत्तरनी शैली छे तेम आर्य श्यामाचार्ये रचेल पन्नवणा—प्रज्ञापना—सूत्रमा पण छे. पन्नवणा सूत्र श्यामाचार्ये रचेलुं छे ए सिद्ध वान छे. तेथी तेमानी भगवान महावीर अने इन्द्रभूति गौतम वधेनी प्रश्नोत्तरशैली श्यामाचार्ये गोठवेली छे तेम आ व्याख्याप्रज्ञप्तिमूत्रनी पूर्वोक्त प्रश्नोत्तर शैली प्रस्तुत सूत्रना संकलन करनारे उपजावो कादी छे के मूळ ज एम छे ए विपे काई कही शकतुं नथी. कारण के वणा अर्वाचीन ग्रंथोमां पण ते ते ग्रंथकारोए एवी शैली राखेली जणायाथी संदेह थयो स्वामाधिक छे.

वर्तमानमां आ मूत्रमां आवेला अनुष्टुप श्लोकोनी संख्या लगभग १५८०० छे जे आगळ जणावेली पद (विभक्त्यंत पद)नी संख्याने मळती यई शके एवी कही शकय, जतक १३८ छे अने उद्देश्यको १९२५ छे. ज्यारे प्राचीन परंपरा आमां दश हजार उद्देश्यको अने दश हजार समुद्देश्यको होवानुं जणावे छे. १९२५ उद्देश्यकोनी संख्या तो आ सूत्रना ग्रान्त भागमा ज जणावेली छे अने टीकाकारे पण तेने मान्य राखी छे. पदोनी संख्या ग्रान्त भागनी गायामा ८४००००० लखेली छे जे समवाय अने नन्दीसूत्र वनेथी जुदी पडे छे. पण अन्तनी गायामां ‘चुलसीय सयसहस्सा पदाण’ ने बदले ‘चुलसीई य सहस्सा पदाण’ आवुं वाचवाथी समवायांग सूत्रमां जणावेली पदसंख्या साथे कशो विरोध नहि आवे अने एवुं वाचवुं कंड अयुक्त छे एम नथी.

पण खूवी तो ए छे के अन्तनी जे गायामां ८४००००० पदनी संख्या लखेली छे तेनी टीका करतां आचार्य अभयदेव “चतुरशीतिः शतसहस्राणि पदानामत्राङ्गे इति सम्बन्धः” एम लखाने व्याख्याप्रज्ञप्तिमूत्रमा ८४००००० पदो होवानुं माने छे अने समवायांग सूत्रमा जे सखे आ मूत्रनी पदसंख्या वतावी छे त्यां मूत्रमा “चतुरासीई पयसहस्साई पयगणेण” आ पाठनी टीका करतां ए ज अभयदेव “चतुरशीतिः पदसहस्राणि पदाप्रेणेति” आम लखाने व्याख्याप्रज्ञप्तिमां ८४००० पदो होवानुं लखे छे. ए रीते तेमनी पोतानी ज समवाय अने व्याख्याप्रज्ञप्तिनी टीकामा जे स्पष्ट विरोध आवे छे ते तरफ तेमनुं ध्यान केम नहीं गयुं होय ? आ विरोधना परिहारनी रीत उपर वतावी छे. ए, पाठान्तरपरीक्षणनी दृष्टिए ठीक लागे एवी छे. आ उपरात आ मूत्रमा जे जातनी शैलीथी विषयो चर्चला छे ए संत्रवनुं निरीक्षण नरञ्जातमां ‘आध्यात्मिक शोष’ना मयाळा नांचे करेलुं छे जे आधुनिक वांचनार माटे पूरुं कही शकय.

(३) दिगंबर संप्रदायमां प्रस्तुत ग्रंथनो परिचय अने तेनी साक्षीनो उल्लेख

विक्रमना नत्रमा सैकामा थयेला प्रसिद्ध दिगंबरआचार्य श्रीमान भट्टकालंकदेव मुनि तत्त्वार्थसूत्र उपरना पोताना तत्त्वार्थराजवार्ति-कमां द्वादशांगनो परिचय आपता व्याख्याप्रज्ञप्तिनो पण परिचय आपे छे. तेमा तेओ नाम तो व्याख्याप्रज्ञप्ति ज जणावे छे अने तेमा “शुं जीव छे ? शुं जीव नथी ? ए प्रकारना ६०००० व्याकरणो छे” एम कही व्याख्याप्रज्ञप्तिना प्रतिपाद्य विषयनो पण उल्लेख करे छे.

गोमटसारनी ३५५ मी गायामां प्रस्तुत सूत्रनुं ‘विक्रवापण्णत्ति’ नाम सूत्रवेळुं छे अने नन्दीसूत्रमां कदा प्रमाणे तेमा २८८००० पदो छे एम पण नोबेळुं छे.

आगळ जणाव्या प्रमाणे श्वेतांबरसंप्रदायना ग्रंथोमा तो व्याख्याप्रज्ञप्तिनी साक्षी अनेक सखे आवे छे. ए ज प्रमाणे दिगंबरसंप्र-

દાયના તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિકમાં પણ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞતિની સાક્ષી આપેલી છે. તત્ત્વાર્થસૂત્રગત “વિજયાદિપુ દ્વિચરમાઃ” સૂત્રના વાર્તિકમાં એ સાક્ષીવાળો ઉલ્લેખ નીચે પ્રમાણે છે:—“एवं हि व्याख्याप्रज्ञसिद्धिदण्डकेपूक्तम्—विजयादिपु देवा मनुष्यभवमास्कन्दन्तः कियतीर्गत्या-गतीः विजयादिपु कुर्वन्ति ? इति गौतमप्रश्ने भगवतोक्तम् जघन्येनैको भवः आगत्या उत्कर्षेण गत्यागतिभ्यां द्वौ भवौ.”

[અનુવાદ:—કારણ કે વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞતિના દંડકોમાં એમ કહેલું છે કે મનુષ્યમવને પામતા વિજયાદિ વિમાનમાં રહેનારા દેવો વિજયાદિ વિમાનોમાં કેટલી ગતિ અને આગતિ કરે છે ? એ પ્રકારના ગૌતમના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન કહે છે કે આગતિની અપેક્ષા એ ઓછામાં ઓછો એક ભવ અને ગતિઆગતિની અપેક્ષા વધારેમાં વધારે બે ભવ.”]

શ્વેતાંવર સંપ્રદાયમાં ગૌતમના પ્રશ્ન અને ભગવાનના ઉત્તરવાલું આ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞતિસૂત્ર જ પ્રસિદ્ધ છે. દિગંવર સંપ્રદાયમાં એ જાતનું વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞતિસૂત્ર હોય એવું જાણ્યું નથી. એથી ઉપર્યુક્ત વાર્તિકમાં ગૌતમના પ્રશ્ન અને ભગવાનના ઉત્તરવાળા જે વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞતિસૂત્રની સાક્ષી આપેલી છે તે શ્વેતાંવરસંપ્રદાયપ્રસિદ્ધ પ્રસ્તુત વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞતિસૂત્ર હોય એમ ન કહી શકાય ? જ્યાં સુધી ગૌતમના પ્રશ્ન અને ભગવાનના ઉત્તરવાળું વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞતિસૂત્ર દિગંવર સંપ્રદાયમાં જાણીતું છે એવો નિર્ણય ન થઈ શકે ત્યાં સુધી તો રાજવાર્તિકમાં સાક્ષી તરીકે આપેલું એ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞતિ, આ વર્તમાનસૂત્ર સમજી શકાય એમ કહેવાને કશી હરકત નથી. યાજ્ઞવલ્ક્ય આમ હોય તો આ ઉપરથી એક વીજી વાત એ પણ નીકળે છે કે શ્વેતાંવરસંપ્રદાયસંમત સૂત્રો દિગંવર સંપ્રદાયને પણ સંમત હતાં એટલે વચ્ચે સંપ્રદાયમાં શાસ્ત્રીય એકતા હતી.

(૪) વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞતિમાં (ભગવતીમાં) આવેલાં કેટલાંક મતાંતરો

આ ગ્રંથમાં જે જે મતાંતરો આવેલાં છે તેના કાંઈ વિશેષ ખાસ નામો મૂલ્ય ગ્રંથમાં આપેલાં નથી. તેમ એ વિષે ટીકાકારે પણ કાંઈ સ્વલોચો કર્યો નથી. છતાં વૌદ્ધ ત્રિપિટક અને વૈદિક સાહિત્યનું વિશેષ અન્વેષણ કરવાથી એ વધા મતો વિષે જરૂરી માહિતી મળી શકે છે.

આ સૂત્રના પન્નરમા શતકમાં મંદલીપુત્ર ગોશાલકને લગતી સવિસ્તર માહિતી આપેલી છે. એ માહિતી અક્ષરશઃ ઐતિહાસિક છે એમ કહેવું કઠણ છે. પણ તે ઉપરથી ગોશાલકના સંપ્રદાયની યોગ્ય ઘણી માહિતી આપણે જાણી શકીએ એમ ઠીક. એમાં ગોશાલકને સ્વભાવવાદી કે નિયતિવાદી તરીકે વતાવેલો છે. ગોશાલકનું કથન તેમાં એમ જણાવ્યું છે કે તે, જીવોનાં સુખદુઃખ સ્વાભાવિક-નિયત માને છે. આ સૂત્રો ઉપરાંત વીજા સૂત્રોમાં પણ ગોશાલકનો મત વતાવેલો છે. સૂયગડાગ સૂત્રના પહેલાં શ્રુતસ્કંધના પ્રથમ અધ્યયનના વીજા ઉદ્દેશકમાં વીજી ત્રીજી ગાથામાં અન્ય મત વતાવતાં એમ કહેલું છે કે “કેટલાંક એમ કહે છે કે જીવોને સુખદુઃખ યાય છે તે સ્વયંકૃત નથી, અન્યકૃત નથી પણ એ વધું સિદ્ધ જ છે—સ્વાભાવિક છે.”

આવો જ મત ઉપાસક દશાગના સૌતમા અધ્યયનમાં આજીવકના ઉપાસક સદાલપુત્રે સ્વીકારેલો છે. સદાલપુત્ર કહે છે કે “उत्थान, बल, वीर्य, पुरुषकारपरक्रम नथी. वधा भावो नियत છે” એ સદાલપુત્ર આજીવકોપાસક પોતાના ધર્મગુરુ તરીકે ગોશાલકને સ્વીકારે છે. આ રીતે વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞતિ, સૂયગડાગ અને ઉપાસકદશાગમાં ગોશાલકના મતવિષે કશો ખરક જણાતો નથી. એ ઉપરથી ગોશાલક સ્વભાવવાદી-નિયતિવાદી-હતો એમ ચોક્કસ માદ્દમ પડે છે.

બુદ્ધ પિટકોમાં પણ મંદલી ગોશાલકને લગતી હકીકત આવે છે તેમાં કહેવા તેના પ્રતિપાદનને વાચવાથી માદ્દમ પડે છે કે તે અહેતુવાદી હતો દીઘનિકાયાના સામઞ્જફલ સૂત્રમાં લખેલું છે કે “प्राण भूत, जीव અને સત્ત્વના સુખદુઃખ અહેતુક છે, વલ નથી, વીર્ય નથી, પુરુષકારપરક્રમ નથી એ ગોશાલકનો મત છે” આ રીતે બુદ્ધપિટક અને જૈન સૂત્રોમાં ગોશાલકના મત તરીકે ઉપર્યુક્ત હકીકતનો એક સરખો ઉલ્લેખ આવે છે અને ટીકાકારે પણ તેને તે જ રીતે વતાવેલો છે

૧ ‘મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ’માં અર્વાચીન પંડિત ટોટરમહાજી લખે છે કે “સૂત્રોમાં ગૌતમના પ્રશ્ન અને ભગવાન મહાવીરના ઉત્તરો એવી શૈલી ઘટમાન નથી એથી એવી શૈલીવાળા સૂત્રો દિગંવર સંપ્રદાય સમત નથી” આ તેમનો ઉલ્લેખ દિગંવર સંપ્રદાયના ધુરંધર આચાર્ય મહાકલકના ઉપર્યુક્ત નિર્દેશ સામે કેટલો પ્રામાણિક માની શકાય ?

૨ “न तं संयंकुं दुक्खं कओ अन्नकड च णं । सुहं वा जइ वा दुक्खं सेहियं वा असेहियं ॥
संयंकुं न अण्णेहि वेदयति पुडो जिया । सगइअ तं तद्वा तेसि इहमेगेसि आहियं” ॥

૩ જૂઓ ભગવાન મહાવીરના દશ ઉપાસકો—૭ મો સદાલપુત્ર તથા તે પરતુ ટિપ્પણ.

૪ જૂઓ દીઘનિકાય (મરાઠી) ઘૃ૦ ૫૮.

आ सूत्रमां गोशालके वर्णवैली निर्वाणप्राप्तिनी पद्धति वताववामां आवेली छे, जेमांनी वणी रगरी दीवनिक्कायना उद्देश्य साथे अक्षरगः मळती आवे छे. आ प्रमाणे सूत्रमा नामनिर्देशपूर्वक मात्र एक गोशालकनो ज निर्देश आवे छे.

आ उपरात एक समये वे क्रिया वधानुं माननार, एक समये वे आयुष्य करवानुं तथा भोगवधानुं माननार वगैरे वीजा अनेक मतौने अत्यतीर्थिकता नाम नीचे जणाववामा आव्या छे (भा० १ पा० २१०.) (भा० १ पा० २०४) ते कोना छे ते तुरनमां कहेवु वणुं विरुट छे.

वजी आ सूत्रमा अने वीजा सूत्रमा वणुं ठेकाणे चार समवसरणोनो निर्देश करेलो छे. ए चारमानुं एक क्रियावादीनु, वीजु अक्रियावादीनु, वीजु अज्ञानवादीनु अने चोयु नियवादीनु छे एम कहेवाय छे. टीकाकारो वणुं स्थळ एम स्थळ छे के प्राचीन समयमा व्रणसोने त्रैसठ पाखडो-परमतो हता. ते व्रणसो त्रैसठनी समजण आपना ते टीकाकारो आ चार समवसरणोनो मूळ भूत गणावे छे. व्रणसोने त्रैसठनी सख्या मेळववाने जे पद्धति टीकाकार स्वीकारे छे ते पद्धति वगवर समजी शकता नथी. रगरी गिने तो आ व्रणमोने त्रैसठ पाखंडोनो इतिहास कळी शक्या एवु एके साधन उपलब्ध नथी पण ते नख्याने वदले प्राज्ञ प्रथोमा साठ पाखंडोनो उल्लेख मंजे छे. ते विषे केटलीक माहिती पण तेमा नोवेली छे. ए वधु वाचकोए बौद्ध साहित्यमाथी जोई लेखुं घटे.

आ सिवाय महावीरना तुरतना पुरोवर्ती जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथना केटलाक शिष्योए भगवान महावीर साथे अथवा तेमना केटलाक शिष्यो साथे चर्चा करेली छे जेनी नोंध आ सूत्रमा अनेक स्थळे छे. आ चर्चाओने शार्ङ्गार्थी वांचता अने भगवान महावीर साथेनुं पार्श्वनाथना ए शिष्योनुं वर्तन जोता इतिहासनुं पृथकरणपूर्वक गवेषण करनार कोई पण विवेकीने एम स्पष्ट मालुम पडये के ते वखनमां पार्श्वनाथना अने भगवान महावीरना शिष्योना रीतरिवाजोमा एटलो वधो फेर हतो के तेओ वजे एक ज परपगने स्वीकारा छना एक वीजाने ओळखी शकता पण नहि. आम छना ते वजेना शिष्यपरिवारमा भेदसहिष्णुता अने ममन्वयनी शक्ति होयाने लीचे भाग्ये ज अयडामण थप्ली. आ सववे वधारे जोवानी इच्छावाळाए उत्तराव्ययन सूत्रनु कैशीगीतमीय अध्ययन वरावर ध्यान दर्शने वाची जवुं

(५) व्याख्याप्रज्ञप्तिमां आवेलां केटलांक विवादास्पद स्थानो

(१) सातमा शतकना नवमा उद्देशकमा वजी विदेहपुत्र कोणिक साथे काशी अने कोशालना नव मल्लिकि नव लेच्छिकि अटार गणराजाओना सग्रामनी हकीकत आवे छे तेमा 'वजी' ए विदेहपुत्र कोणिकनुं विशेषण छे अने ते तेना वंशनुं सूचक छे. वजी लोकोनी साथे मल्लवशना अने लिच्छवीवशना राजाओनी लडाईना हकीकत बौद्ध ग्रंथमा पण आवे छे. आ प्रमाणे वजी शब्द एन राजवंशनी सूचक छे एमा शक नथी तेम छता टीकाकार ए 'वजी' शब्दनी अर्थ वजी-एटले वजी-वज्रवाळो-इन्द्र एम करे छे. जे अदि तदन अनंगत छे. प्यां आ हकीकत छे ते ठेकाणे मूळमा लखेलु छे के "गोयमा! वजी विदेहपुत्रे जइत्या, नव मल्लई नव लेच्छई कासीकोसलगा अटारस वि गणरायाणो पराजइत्या" (भा० ३ पा० ३०) आ वाक्यमा वजीनो अर्थ कोई पण रीते इन्द्र वटी शकनो ज नथी पण ए वजी शब्द विदेहपुत्रना विशेषणरूप छे ए हकीकत सूत्रनी ए वाक्यरचना ज वतावी आपे छे.

(२) भा० १ पा० २८० में पाने देवलोकमा देवोने पेदा थवानां कारणोनी हकीकत मूकेली छे तेमा एम जणावुं छे के "पूर्वना संयमने लीचे देवो देवलोकमां उत्पन्न थाय छे पण आत्मभाववक्त्यतानी अपेक्षाए ए देवो देवलोकमा उत्पन्न थना नथी" अहां टीकाकार आत्मभाववक्त्यतानी अर्थ 'अहंमानिता' करे छे अने तेम वतावीने आखा सूत्रनो अर्थ ते एम सगत करे छे के "आ हकीकत 'अहंमानिता' ने लीचे कहेता नथी" पण विचार करता टीकाकारनी सगति करवानी आ पद्धति वरावर जणाती नथी. कारण के २८२ में पाने आ वाक्य भगवान महावीरना मुखमा मूकवामा आपेछुं छे त्या तेनो टीकाकारे कहेलो अर्थ जरापण सगत थई शके एम नथी

विचार करतां एम जणाय छे के आत्मभाववक्त्यतानी अर्थ आत्मभावनी दृष्टि एटले स्वस्वरूपप्राप्तिनी दृष्टि एम करीए तो कशी असंगति आवे एवुं लागतुं नथी.

एवो अर्थ करीए तो तात्पर्य ए आवे के देवलोकनी प्राप्तिनुं कारण आत्मभाव नथी. आत्मभाव एटले के स्वस्वरूपनी प्राप्ति. ए तो सीधुं ज निर्वाणनुं कारण छे. एथी आत्मभाववक्त्यतानी अपेक्षाए देवो देवलोकमा उत्पन्न थना नथी एम सूत्रनो अर्थ थयो. माटे भगवान महावीरना मुखमा शोभे एवो आवो सीधो अने सादो अर्थ थई शके एम होवा छता आत्मभाववक्त्यतानी टीकाकारे अहंमानिता अर्थ कयौं छे तेनुं कारण समजी शकानुं नथी.

આત્મભાવવક્તવ્યતાનો જે જુદો અર્થ અહીં વતાવ્યો છે તે કરતાં પળ વીજો સારો અર્થ અહીં બંધ વેસે એવો કોઈ વતાવશે તો જરૂર તેનું પ્રહણ થશે.

‘અહંમાનિતા’ નો જે અર્થ વતાવ્યો છે તે અહીં ભગવાન મહાવીરના મુખમાં શોભતો નથી માટે જ એ શબ્દનો વીજો કોઈ ભાવ શોધકોએ જરૂર શોધવો જોઈએ. ભગવાન મહાવીરના મુખમાં વાક્ય છે તે આ પ્રમાણે છે:—

“અહં પિ પં ગોયમા ! એવમાઈક્ષામિ, ભાસામિ, પન્નવેમિ, પરૂવેમિ—પુવ્વતવેણં દેવા દેવલોએસુ ઉવવજ્ઞન્તિ, પુવ્વસં-જમેણં દેવા દેવલોએસુ ઉવવજ્ઞંતિ, કમ્મિયાએ દેવા દેવલોએસુ ઉવવજ્ઞંતિ, સંગિયાએ દેવા દેવલોએસુ ઉવવજ્ઞંતિ, પુવ્વતવેણં, પુવ્વસંજમેણં, કમ્મિયાએ, સંગિયાએ અજ્ઞો ! દેવા દેવલોએસુ ઉવવજ્ઞંતિ, સચ્ચે પં એસમદ્દે, ણો ચેવ પં આયભાવવક્તવ્યયાએ.”

[અનુવાદ:—(ભગવાન મહાવીર કહે છે કે) હે ગૌતમ ! હું પળ એમ કહું છું, ભાષું છું, જણાવું છું, અને પરૂવું છું કે પૂર્વના તપથી દેવો દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે. પૂર્વના સંયમથી દેવો દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે કર્મોપણને લીધે દેવો દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને સંગીપણને લીધે દેવો દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે [અર્થાત્] હે ધાર્ય ! પૂર્વ તપ, પૂર્વ સંયમ, કર્મોપણ અને સંગીપણ એ કારણોથી દેવો દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે એ હકીકત સાચી છે. આત્મભાવવક્તવ્યતાની અપેક્ષા એમ થતુ નથી ”]

(૨) ગોશાલકના ૧૫ માં શતકમાં ભગવાન મહાવીર માટે સિંહઅનગારને જે આહાર લાવવાનું કહેવામાં આવ્યું છે તે પ્રસંગના વે ત્રણ શબ્દો ઘણા વિવાદાસ્પદ છે, કવોયસરીરા—કપોતશરીર મજ્જારકડયે—માર્જારકૃતક કુક્કુડમંસ—કુક્કુટમાંસક—આ ત્રણ શબ્દના અર્થમાં વિશેષ ગોટાલો માલ્દમ પડે છે. કોઈ ટીકાકારો અહીં કપોતનો અર્થ ‘કપોત પક્ષી’ માર્જારનો અર્થ પ્રસિદ્ધ ‘માર્જાર’ અને કુક્કુટનો અર્થ પ્રસિદ્ધ ‘કૂકડો’ કહે છે. અને વીજા ટીકાકાર એ શબ્દનો લાક્ષણિક અર્થ કરે છે. આમા કયો અર્થ વરાવર છે તે કહી શકાતું નથી. શોધકોએ એ વિષે અવશ્ય વિચાર કરવો ઘટે.

(૪) વીશમા શતકના વીજા ઉદ્દેશમાં ધર્માસ્તિકાયનાં અભિવચનો—પર્યાય શબ્દો—કેટલાં છે ? એના ઉત્તરમાં ભગવાને પ્રાણાતિપાત—વિરમણ—અહિંસા, મૃપાવાદવિરમણ—સલ્લ વગેરે સદ્ગુણવાચક શબ્દોને જણાવેલા છે અને એ જ પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાયનાં અભિવચનો જણાવતાં પ્રાણાતિપાત—હિંસા, મૃપાવાદ—અસલ્લ વગેરે દુર્ગુણ વાચક શબ્દોને સૂચવેલા છે. મૂઠમાં આવેલી આ હકીકત જે રીતે ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે તેની સાથે જરાપણ બંધ વેસતી નથી આવતી. ટીકાકારે પળ આ હકીકતને સ્પષ્ટ કરવા કશું લખ્યું નથી એટલે આ મૂઠની સંગતિ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયના સ્વરૂપની માન્યતા સાથે કેવી રીતે કરવી એ પ્રશ્ન ઉભો જ રહે છે.

આ ઉપરાંત આ સૂત્રમા એવા કેટલાંએ વિવાદાસ્પદ સ્થલો છે જે વધાં અહીં લખી ન શકાય. અહીં તો માત્ર એ વાવતના યોડાં ઉદા-હરણો જ આપેલા છે.

(૬) વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞસિની ટીકા

આ સૂત્રના મૂળ શ્લોકોની સંખ્યા લગભગ ૧૫૮૦૦ જેટલી છે અને તેની આ ટીકાના શ્લોકોની સંખ્યા ૧૮૬૧૬ છે એટલે સ્ત્રી રીતે આ ટીકા એક પ્રકારના ટિપ્પણરૂપ છે. ટીકાકાર પોતે માત્ર શબ્દનો અર્થ કરીને ચાલતા થાય છે. જે સ્થલે સૂત્ર ઉદ્દાહરણ કરીને સમજાવવાનું હોય છે ત્યાં પળ તેઓ ભાગ્યે જ કંઈ પળ લખે છે. આનુ કારણ માત્ર એક જ જણાય છે કે ટીકાકારના જમાનામા આગમોના સ્વાધ્યાયની પરંપરા લગભગ નષ્ટ થઈ ગયા જેવી હતી.

વઢી ટીકાકારની પૂર્વે થઈ ગયેલા ટીકાચૂર્ણો વગેરે આ સૂત્રને સમજવાનાં જે સાધનો હતા તેમા પળ જોઈએ તેઓ અને તેટલો પ્રકાશ ન હતો એમ આ ટીકાકાર પોતે જ જણાવે છે.

આ ટીકાકાર પોતે અનેક ટેકાણે લખે છે કે આગમની પરંપરા નષ્ટ થવાને લીધે અને આગમના એવા સારા જાણકારના અભાવને લીધે આ ટીકા સશયગ્રસ્ત મનથી કરેલી છે. વઢી વાચનામા કેટલાંએ પાઠભેદો હોવાને લીધે અર્થ કરવામા ઘણી મુંઝવણ ઉભી થાય છે. આ સૂત્રમા દરેક શતકને અન્તે આપેલા ટીકાના શ્લોકોમાં ટીકાકારે આ પ્રકારની પોતાની મુશીવતો વતાવેલી છે. છતાં તેમણે આ સૂત્ર ઉપર કરેલા પ્રયત્નથી આપણે કાઈક સમજી શકીએ છીએ અને સૂત્રનો મૂળ પાઠ ઠીક સચવાઈ રહેલો છે તેથી ટીકાકારના આપણે ઘણા ઋણી છીએ એ મુલતું ન જોઈએ.

ઉપર્યુક્ત વિવાદાસ્પદ સ્થલો વતાવવામાં ટીકાકારની અવગણના કરવાનો જગય ઉદ્દેશ નથી. પણ કોઈ પણ ટીકાકાર ટીકા કરતા સાંપ્રદાયિક વૃત્તિ રાખે છે અને માત્ર શબ્દસ્પર્શી રહે છે લ્યારે તે કોટલીક ધાર મૂલના રૂરા ભાવને વનાની ચક્રનો નથી એ મૂંચવવા માટે છે.

અલ્યારે જે સૂત્રો વિચમાન છે, તેમની ટીકાઓ જોના તે ઢરેક મૂંચ ઉપર હવે નવી ટીકાઓ કરવાનો સમય આવી પડ્યો છે. પણ તે થનારી વધી ટીકાઓ પૃથક્કરણની, તુલનાની અને વિશાલ્ક્રાની દષ્ટિ મુદ્દન રાસીને જ ધર્વા જોડણ એ ન ખુલ્લાય.

સિદ્ધસેન દિવાકર કહે છે તેમ માત્ર મૂંચો ગોરુવાથી અર્થનું જ્ઞાન થઈ ચક્રતું નથી. અર્થનું જ્ઞાન નયવાદ ઉપર અવલંબે છે, એ નયવાદ ગહન છે માટે નયવાદની સમજ સાથે સૂત્રાર્થના અન્યાસી પેદા કરવા સૂત્ર પ્રયત્ન થયો જોડણ. ઢ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ, પર્યાય, વેદ, સંયોગ અને મેદ એ વધું ધ્યાનમા રાસીને આચાર અને તત્વની વિચારણા કાઢી જોડણ. મૂંચોના મર્મ સમજવાના ઢચ્છુકે કાઢી ણજાંન તરુક ન ઢલ્લું ઘટે. ંકાંત તરુક ઢલ્લતા તો અર્થનો અનર્થ થઈ જાય છે અને એ અનર્થને ઢર્ટને જ આ વધા ધાર્મિક કાઢ્યો ઉમા થાય છે

(૭) વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞસિના ટીકાકાર

ટીકાકાર અમયદેવ વિક્રમના ૧૧ મા સંકાર્થી તે ઢારમા સંકા સુધીમા હયાત હતા. તેમને ઢગતી ઢીગતનાર દંકીનત પ્રમાવક-ચરિત્રમા અમયદેવસૂરિના પ્રવંધમાં આપેલી છે. તે મૂલ ઢારાનગરીના હતા, તેમના પિતાનું નામ મંહિધર અને માતાનું નામ ઢનદેવી હતું. અને આ આચાર્યનું મૂલનામ અમયકુમાર હતું. વર્ધમાનસૂરિના શિષ્ય બુદ્ધિસાગરમૂરિ અને જિનેશ્વરમૂરિ હતા. આ અમયદેવમૂરિ એ જિનેશ્વર-સૂરિના શિષ્ય હતા. જે જમાનામા આ આચાર્ય હતા તે જમાનામા સાધુસંસ્થા ઢટ્ટ શિથિલ ઢયામા હતી. ચૈલ્વવાસીઓનું પ્રવલ્લ સૂત્ર હતું. ચૈલ્વવાસીઓ આચારમા ંટલા વધા શિથિલ થઈ ગયા હતા કે તેઓ પગારથી નોકરી કરવાની દંદ સુધી પડોંચી ગયા હતા. આ આચાર્ય અને ંમના ગુરુઓ એ શિથિલતાને ઢૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. નવચગ સૂત્રો ઉપર આમની ટીકાઓ વિચમાન છે. ઉપગત ંમણે પચા-શક ઢગેરે અનેક પ્રકરણો ઉપર વિવરણો લલેલા છે અને ઢીના કેટલાએ સ્વા પ્રકરણો પણ ઢનાલેલા છે. મૂંચો ઉપરની ઢણી રૂરી ટીકાઓ તેમણે પાટણમાં કરી છે તેમ તેઓ જણાવે છે. પ્રસ્તુત સૂત્રની ટીકા ંમણે ૧૧૨ૢ મા પાટણમા કરી છે ંમ તેઓ ટીકાને પ્રાન્તે જણાવે છે. ટીકાને છેઢે આપેલી પ્રગલ્તિ ઉપરથી ંમ માલુમ પડે છે કે તેઓ ચાઢ્રુલ્લના હતા. તેમના ગુરુના ગુરુનું નામ વર્ધમાનસૂરિ હતું. ંમના ઢીક્ષા ગુરુ તરીકે જિનેશ્વરસૂરિને પ્રવંધમા જણાવેલા છે પણ આ પ્રગલ્તિમા 'તયોવિનેયેન' આમ ઢર્સાને તેઓ જિનેશ્વર અને બુદ્ધિ-સાગર ઢત્રેને પોતાના ઢડીલ તરીકે સ્ત્રીકારે છે. આ ટીકા તેમણે નિર્ઢૃતિકુલના ઢ્રોણાચાર્ય પાસે શુલ્ક કરાધી હતી ંમ તેઓ લલે છે. આ ટીકાકાર નવાગીઢૃત્તિકાર તરીકે સપ્રઢાયમા પ્રસિદ્ધ છે. આથી ઢધારે જાણવા માટે પ્રમાવકચરિત્ર માપાન્તરની પ્રસ્તાવનામા આવેલું અમયદેવસૂરિનું ઢૃત્તાત જોઈ લેવું.

उपसंहार



सद्गत शैठ पुंजाभाईनी उदारताने लीधे आजथी वीश वर्ष पहेलां एटले १९६९ नी सालमां जिनागम प्रगट करवा माटेनी एक योजना बहार पडी हती. प्यारे योजना बहार पडी ल्यारे हुं काशीमा विद्याभ्यासने अगे रहेतो हतो. जैन आगमोने श्रद्धा अने रसपूर्वक जेवानो समय मळेलो तेथी आगमसाहित्यने लगता कामकाजनी प्रवृत्तिमा पडतुं ए ध्येय लगभग निर्णीत करेलुं हतुं. एटलामा आगमप्रकाशननी योजना मारा हायमा आवी के तुरत ज ते योजनाना मंत्री साथे पत्रव्यवहार करी काशीथी ए प्रवृत्ति माटे रवाना थयो.

आ वखते काशीनी यशोविजयजैनपाठशाळांना संस्थापक सद्गत आचार्य विजयधर्मसूरिजीनी योजनाथी जोधपुरमा जैन साहित्य संमेलन थवानुं हतुं ते प्रसंगे त्या जई आगमोना भाषान्तरनी प्रवृत्ति माटे जवानो मारो विचार तेमने जणावी तेमनी अनुमति मागी. खरी रीते अनुमति आपवानी तेमनी इच्छा न हती छता मारी उत्कट इच्छाने लीधे तेओ मने रोकी न शक्या. अमदावाद आवीने मात्र वे ज महीना रही शक्यो. एटला समयमा पण जैन संप्रदायनां छपाओए अने साधुमहाराजाओए आगमना भाषान्तरनी प्रवृत्तिनो विरोध करवा खूब बुमराण करी मुक्तुं. अगत आक्षेपोए पण मर्यादा मूकी. नने ए प्रवृत्तिमाथी खसेडवा केटलाए विचित्र उपायो करवामां आवेला पण मारे मन आगमोना भाषान्तरनी प्रवृत्ति अत्यंत पवित्र हती तेथी ते माराथी छोडी शकाय एम न हतुं, पण अमदावादनुं ए वखतनुं वातावरण एटलुं वधुं गरम हतुं के त्या रहीने काम करबु घणुं कठण हतुं. एथी वच्चे एकाद वरस एक मुनि जे अत्यारे पं०न्यास छे तेमने भगवतीसूत्र शीखवा माटे मारवाड-पालीमां रबो.

त्यार पछी तुरत ज मुंबईमां आवीने घणुं करीने १९७१ मां फरीथी नवेंसरथी कामनी शरुआत मे एकले एकला हाथे करी अने लगभग त्रण चार वरस पछी मूळपाठ, मूळनी संस्कृत छाया, मूळनुं गुजराती भाषान्तर, संस्कृत टीका, टीकानुं भाषान्तर, उपयोगी टिप्पणो अने शब्दकोप साथे भगवतीसूत्रनो प्रथम भाग प्रकाशित थयो. त्यार पछी वळी प्रकाशनसंस्थाना मंत्रीनी साथेना मतभेदने कारणे ए काम मारे फरीथी छोडी देबु पड्युं पण पाळुं छेवटे मंत्रीए पोतानी हठने छोडी. आचार्यश्री जिनविजयजीने वच्चे राखीने हुं फरीवार ए काम पर चढ्यो अने राजकोटमा १९७९ नी सालमा वीजो भाग तैयार करीने प्रकाशित कर्यो. पहेला भागनी पद्धतिए ज वीजो भाग तैयार थयो छे पण तेमां केटलाक खास टिप्पणो वधारवामा आव्या छे अने शब्दकोप पुस्तक पूरुं थये छेवटे आपवानी वारणाथी जतो कर्यो छे. आ दरम्यान मारे हाथे आ सूत्रनुं अने तेनी टीकानु सपूर्ण भाषान्तर तैयार थई गएलुं पण ते वधुं काचा खरडा जेवुं हतुं अने तेमा क्यांय टिप्पणो नहि थएलां एटले ए लखाण प्रेसमा आपी शकाय तेवुं न हतुं. पण पाळळथी प्रस्तुत कार्य माटे ए वधुं लखाण पं० भगवानदासने सोपवामां आव्युं.

आ वखते गूजरात विद्यापीठना पुरातत्त्व मंदिरमा मारी योजना थई अने आगमसंस्थाना मंत्रीनी संमतिथी तेमा हुं जोडावो. पुरातत्त्वमंदिरने उधुं करवामा पण सद्गत पुंजाभाईए घणी उदारता वतावी हती एथी ज ए संस्थामा जोडावाने मंत्रीए मने खुशीथी संमति आपेली. त्यां जोडाया पछी त्यांना सन्मतिकर्तना सपादनना खुब वोजावाळा कामथी मने जराय अवकाश नहि मळतो तेथी ज आ सूत्रना वाकीना भागोतुं काम हुं नही करी शक्यो. काम तो करवानु ज हतुं एटले श्रीपुजाभाईए उक्त आचार्यश्री द्वारा ते काम पंडित भगवानदासने सोधुं. १९८५ मा आ सूत्रनो वीजो भाग प्रकाशित थयो. काम सत्वर करवानुं होवाथी तेमा अने प्रस्तुत चोया भागमां टीकाना अनुवादने जतो कर्यो पण टीकाना अगल्यान अशने नीचे टिप्पणमा आप्यो छे. पूरो शब्दकोप आपवानी धारणा अतिविलंबने कारणे छोडी देवामा आवी छे अने आ वर्षमा चोयो भाग प्रकाशित थाय छे.

आ चोयो भाग पण १९८८ मां ज मुद्रित थई गएलो पण प्रस्तावनाने कारणे तेने एक वर्ष मोडो बहार पडवामां आव्यो छे. आचार्य काका कालेलकरश्रीनो आग्रह हतो के प्रस्तावना मारे ज लखवी. प्रस्तावना लखवानो समय आवता मारे राष्ट्रीय वडतने कारणे विसापुरनी यात्रा करवी पडी तेथी त्याथी आव्या वाद प्रस्तावना लखी शकाई. एथी तैयार थएला आ भागने प्रकाशित करता वळी एक वरस विलंब थयो.

હવે તો જૈન સંપ્રદાયનું વાતાવરણ ઘણું વધાર્યું ગઈ છે. આગમના ભાષાંતર માટે યારે ઝગઝગાત કરેલી ત્યારે જૈન સંપ્રદાયના આગેવાનોએ મારી સામે સખત વિરોધ કરેલો પણ હવે તો રુટ જૈન સંસ્થાઓ પણ આગમનાં ભાષાંતરો ત્રહાર પાડે છે. મારી અને એમની ટવમાં ફેર છે. પણ આગમોના ભાષાંતર કરવાની પ્રવૃત્તિ સામે હવે વિરોધ તદ્દન ઝમી ગયો છે એ અત્યંત આનંદની વાત છે.

આ કામને અગે આચાર્યશ્રી જિનવિજયજી, સદ્ગત ગ્રેઠ પુજાભાઈ તથા સદ્ગત મંત્રી ગ. મનસુરત્લાલભાઈ (શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના ભાઈ) નો મારા તરફનો સદ્ભાવ હું ભૂલી શકું તેમ નથી.

૧૯૭૦-૭૧ માં સૂત્રના ભાષાંતરની ઝરુઆત થઈ અને ૧૯૮૯ માં આ સૂત્રના ભાષાંતરનું કામ પૂરું થયું, ઇટલા ડાંવા ગાળામાં ગ્રાહકોએ જે ધૈર્ય રાખ્યું છે તેને માટે વન્યવાદ થટે છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તકના ચારે ભાગમા આવેલા ટિપ્પણોનું હાર્દ સમજાય એ માટે ટિપ્પણોમા વપરાયલા ગ્રંથોની અને ટિપ્પણીય ઝદ્દોની યાદીનું એક મોટું પરિશિષ્ટ આ ભાગ સાથે જોડ્યું છે.

સદ્ગત શ્રીપુંજાભાઈની યોજનાનુસાર પુંજાભાઈ જૈન ગ્રંથમાળા સંવંધર્મસમભાવને પ્રચારવા જૈન આગમોને પ્રકાશિત કરે અને દીર્ઘજીવી થાય એ જ અંતિમ ઇચ્છા.

કાર્તિક શુ. ૧૫, ૧૦ }
અમરેલી }
(કાઠીયાવાડ) }

વેચરદાસ

प्रस्तावनाने नवमे पाने बीजोनी उगवानी शक्ति विपे जे चर्चा लखेली छे
तेनुं आधुनिक दृष्टि स्पष्टीकरण नीचे प्रमाणे छे:

बीजोनी उगवानी शक्तिनो टकाव

छाणथी के माटीथी चांदिल कोठामां, डालामां के माटीना बीजा कोई ठाममां साचवी राखेलां बीजोने हवा, मेज वगेरे लगवाने संभव छे वा अन्य कोई विघातक शक्ति ते बीजोने निर्जीव—उगवानी शक्ति रहित—करी शके छे तेथी ए बीजो वगडे छे, सडे छे अने नष्ट थाय छे अने जे सावीत रहे छे तेमनी पण उगवानी शक्ति वधारे वखत टकी शकती नथी.

बीजोनी उगवानी शक्तिना संबंधमां भगवाने जे उपर्युक्त हकीकत जणावेली छे ते तेमना समयनी बीजोनी रक्षा करवानी व्यवस्थाने आश्रीने समजवानी छे.

प्रयोगात्मक विज्ञानना आ युगमां गमे ते ऋतुमां वायु, मेज वगेरे विघातक शक्तिओ बीजोने लेश पण हानि न पहुँचाडे एवी रीते बीजोने साचववानी सगवडो थई छे तेथी ते जल्दी वगडतां नथी तेम तेमनी उगवानी शक्ति पण वधारे वखत सुधी टकी रहे छे.

उपर्युक्त केटलांक बीजोनी उगवानी शक्तिनो टकाव अने तेना समयनी वावत अत्यारनुं खेतीवाडीनुं विज्ञान नीचेनी माहिती आपे छे:

बीजोनी जात	उगवानी शक्ति ७५ टकाथी वधारे केटला वर्ष सुधी	उगवानी शक्ति १० टकाथी ओछी केटला वर्ष पछी
चोखा	४	६
घउं	६	१०
तल	६	८
मग	११	
अडद	९	
कळथी	७	९
सुवेर	७	९
चणा	१०	१२
अळसी	७	९

वेचरदास

स्पष्टीकरण माटे, विवेचन माटे, अवतरणांना स्थळ माटे, तुलना माटे, मतान्तर वताववा माटे अने
अध्याहृत भाववाळा पाठनी पूर्ति माटे उपयोगमां लीधेला ग्रंथी अने ग्रंथकारोनां नाम.

पुस्तकोनां नाम	पृष्ठ	पुस्तकोनां नाम	पृष्ठ
अनुयोगद्वार	४४. *२ १८३, ४ ३२.	तत्त्वाधीनिगमसूत्र	४, ३६, ३७, ८०, १३९, २१९. २ १५,
अभयदेव	१९.		३७, ७९, १४१, ३२९. ३ ३६०. ४ २७.
अमरकोप	२ ४१, ४२.	तीर्थकल्प	२ १४३.
अवचूर्णि	१७८, २०५, २१९. २ ५४, १६२.	तंदुलवैचारिक	१८५.
आचाराग	२ १७५. ३ ३६९. ४ १, ३०२.	देशीनाममाला	८२.
आवश्यकनिर्युक्ति	४, ५, ६, १५, १६, ४८	धर्मसागरपट्टावली	२ १३८.
आवश्यकनिर्युक्तिअवचूर्णि	१३, १४. २ ७३, १९६.	नमस्कारमंत्र	३.
आवश्यकसूत्र	२ ११, ३७. ३ १७२	नाट्यशास्त्र(भरत)	४३.
उत्तराध्ययन	२ ९२, ९९ ३ ३.	निरुक्त(यास्क)	२ ४२, ४८, ४९, १२२, १३०, १७१.
उपासकदशाग	३३. २ १०४ ३ ९.	निशीयचूर्णि	२ १८२.
ऋग्वेदभाष्य	२४७.	नेमिचंद्रसूत्रि	२ ६१.
औपपातिकसूत्र अथवा		नंदीसूत्र	२ ३६, ३७. ३ ५९, ७३. ४ ११७, २१४
उववाह्यसूत्र	४, १९, २३, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१. २ २. ३ ३०, १६६, १६७, १७३, १७६, १७७, १७८, १७९, २२२, २२३, २२६, २२७, २३९, २४५, २४६, २५७, ३२७, ३६०, ४०१, ४०२. ४ २७७.	पातंजलयोगदर्शन	२ ३१३, ३३०.
कर्मग्रंथ	३४, ५१, ६४, ६५, ७९, ८२, ९४ २ १९.	पालीव्याकरण (कच्चायन)	२ १५३.
कर्मप्रकृति	२ २७६.	पंचप्रतिक्रमणसूत्र	१.
कल्पसूत्र	६, १५, २०. २ ४०, १७५,	पंचसप्रह	२ २७८, २८६
खरतरगच्छपट्टावली	२ १३९.	पंचांगक	६२, २५५, २५६, २५७.
गच्छाचारपयन्ना	२ १००.	पिंडनिर्युक्ति	३ ६
चूर्णि	१७८, ३१२. २ ८१. ३ ३४८, ३८१, ४ १५२, २११, २५६	प्रवचनसारोद्धार	३५, ३७, ४०, २५८. ३ १७२.
जंबुद्वीपप्रज्ञप्ति	२ ३६, १४५ ३ १२५	प्रश्नव्याकरण	२ ५३.
जीवविचार	२ ४२	प्रज्ञापना अथवा पन्नवणासूत्र	४, ५३, १३१, १३३, २२६, २६२, २६८, २९१, २९२, २९६. २ ४, ९, १०, १३, १५, १९, २०, २२, २३, २४, ४०, ४९, ५२, ५३, ५४, ७३, ९०, ९२, ९९, १०४, १०६, १०७, १३३, १५८, १९१, २६१, २८६, ३१४, ३३८. ३ १, १०, ४८, ५१, ५२, ५७, ७१, ७४, ७५, ७७, ७८, ७९, ९२, १०५, १०८, १११, ११२, १९०, १९१, १९२, १९५, २०८, २१३, २३६, २८९, २९०, २९१, ३०४, ३०५, ३११, ३२४, ३३५, ३३८, ३८२, ३८८, ४००. ४ ७, २१, २७, ३९, ५५, ५९,
ज्ञाताधर्मकथा	२ ५, १२, १०४, १४५.		

पुस्तकोंनां नाम

पृष्ठ

पुस्तकोंनां नाम

पृष्ठ

७९, ८०, ८१, ८२, ८९, ९०, ९६, ९९,	ललितविस्तर	२ ३९.
१२७, १२९, १३०, १३१, १३२,	वाराहीसंहिता	२ ४०, ११०.
१३३, १३४, १३६, १३७, १३८,	विशेषावश्यक	३, ४, ५, ६, ८, ३९, ४०, ४२, ४३, ५१, ५२, ६२,
१६३, १७८, १८६, १९८, २०१,		२०९, २१९, २२०, २२९. २ ३, ११, २४.
२०३, २१४, २१५, २२०, २३५,	वेदान्तसिद्धान्तादर्श	२ ४२.
३११, ३१२, ३१३, ३१६, ३३१,	शतपथब्राह्मण	२ ४१.
३३२, ३३३, ३४७, ३६०, ३६३.	सन्मतितर्क	५२.
म्राकृतसर्वस्व (मार्कण्डेय) २ १८२.	समवायागसूत्र	९. २ ३, १०, ११, ३७, १९५.
बृहत्कल्पवृत्ति २ १००.	समेतशिखररास	२४४, २७६.
बौद्धपर्व २ ५६.	सरस्वती	२ ४१.
भगवतीशतक ४८.	सिद्धसेनादिवाकर	२ ६१.
मञ्जिमनिकाय २ ५५, १०५, १२१, १२२, १२९, २७२,	सूयगडाग अथवा सूत्रकृतांगसूत्र	२ ५३, ३२९. ४ ३०२.
३०६.	सूर्यप्रज्ञप्ति	२ १४५.
मनुस्मृति २ ३१३.	संयारापौरुपी	३.
मेघमाला २७६.	स्थानांगसूत्र अथवा ठाणांगसूत्र	२ ६८, २७५. २ ४, ११, १२, १३,
रत्नाकरावतारिका १ ४०.	१०४.	
रायपसेणी अथवा राजप्रश्नीय २ १०, ४३, १०६, ११०. ३ ५९,	स्याद्वादरत्नाकर	४०.
१७३, १७४, १७५, २००, २०५,	हेमचंद्रसूरि	२ ६१, १४४, १७५, १८१.
२२१, २४३, २४५, २४६, ३२२,	हैमकोप	१९, २०, ३५. २ २, ३७, १०५, १०६,
३२५, ३६०. ४ १२, १३, ५१, ७८.	१२२.	

वेचरदास

जे खास शब्दो उपर टिप्पण छे तेनां थळ अने साक्षीभूत ग्रंथ, ग्रंथकारनां नाम

(भाग-१) व्याख्याप्रज्ञ- सितुं पृष्ठ	जे शब्द उपर टिप्पण छे ते शब्द	टिप्पण माटे साक्षीभूत ग्रंथ वगोरे	व्याख्याप्रज्ञ- सितुं पृष्ठ	जे शब्द उपर टिप्पण छे ते शब्द	टिप्पण माटे साक्षीभूत ग्रंथ वगोरे
६	अडार लिपि	कल्पसूत्र, विशेषावश्यक, आव- श्यक निर्युक्ति.	२७	उद्योतिष्कोनो वर्णक	औपपातिकसूत्र
३२	अन्तःपुरनिर्गम	औपपातिकसूत्र	३६	ज्ञान	तत्त्वार्थमूत्र
५१	अनुभागबंध	कर्मग्रंथ	२७६	तुंगियानगरी,	समेतशिखररास,
३९	अवग्रह-ईहा वगोरे	विशेषावश्यक, रत्नाकरावतारिका, स्याद्वादरत्नाकर.	८६	द्रोणमुख	अभयदेवटीका २ १०६
४०	अवग्रह	प्रवचनसारोद्धार	९	द्वादशागी	समवायागसूत्र
१३९	अवधिज्ञान	तत्त्वार्थसूत्र	३७	धर्मव्यान	तत्त्वार्थसूत्र
१९	अवसर्पिणी	हेमकोप अमिधानचिन्तामणि	२५५	धूमागार	पंचाशक
२७	असुरोनो वर्णक	औपपातिकसूत्र	८६	नगर	अभयदेवटीका २ १०६
५	आचार्य	विशेषावश्यक, आवश्यकनिर्युक्ति.	८६	निगम	अभयदेवटीका २ १०६
४७	आवाचिकमरण	भगवतीसूत्र	३	नैपातिकपद	विशेषावश्यकसूत्र
८६	आश्रम	अभयदेवटीका	८६	पत्तन	अभयदेवटीका २ १०६
९४	आहार	कर्मग्रंथ	३५	पूर्व	अभिधानचिन्तामणी कोप
२२६	आहारपद	प्रज्ञापनासूत्र	५१	प्रदेशबंध	कर्मग्रंथ
२७५	उदकगर्भ	स्थानांगसूत्र	१३	प्रसेनजितनो पुत्र	आवश्यकनिर्युक्ति अवचूर्णि
५	उपाध्याय	विशेषावश्यक	४३	भंते	विशेषावश्यक
३४	ऋषम	कर्मग्रंथ	२७	भवनवासीनो वर्णक	औपपातिकसूत्र
३७	औपग्राहिक	प्रवचनसारोद्धार	२९२	भाषा	प्रज्ञापनासूत्र
८६	कर्वट	अभयदेवटीका २ १०६	२५६	मिक्षुप्रतिमा	पंचाशक
१	काळादि अष्टप्रकार	पंचप्रतिक्रमणसूत्र, रत्नाकरावता- रिका.	८६	मंडव	अभयदेवटीका २ १०६
२७८	कुत्रिकापण	अनुवादक	२०	महावीर	कल्पसूत्र
८६	खाण	अभयदेवटीका	२९०	महातपमूर्तीर	विशेषावश्यकसूत्र
८६	खेट	अभयदेवटीका	१३, १७	राजगृह	आवश्यकनिर्युक्ति अवचूर्णि
१६	गणधर	आवश्यकनिर्युक्ति	१९	राजगृहनो वर्णक	औपपातिकसूत्र
१८५	गर्भ	तंदुलत्रैचारिक	८६	राजधानी	अभयदेवटीका
२१९	गंगआचार्य	विशेषावश्यक	३१	राजनिर्गम	औपपातिकसूत्र
२५८	गुणरत्नसंवलसर	प्रवचनसारोद्धार	२४४	विपुलपर्वत	समेतशिखररास
८६	ग्राम	अभयदेव टीका २ १०६	२७	वैमानिकोनो वर्णक	औपपातिकसूत्र
१४	चिह्नणा	सुलसाचरित्र गुजराती	२७	व्यतरोनो वर्णक	"
३०	जननिर्गम	औपपातिकसूत्र	२५	शरीरनो वर्णक	"
१५	जंबूस्वामी	कल्पसूत्र	२४७	शिक्षा	ऋग्वेदभाष्य
४१	जमाळि	विशेषावश्यक	३७	शुक्लव्यान	तत्त्वार्थमूत्र
२६६	जीवाजीवाभिगम	जीवाभिगमसूत्र	५१	शैलेत्री	विशेषावश्यकसूत्र
			४५	समथ	अनुयोगद्वारसूत्र
			२५२	समुद्वात	प्रज्ञापनासूत्र
			५	साधु	आवश्यकनिर्युक्ति

व्याख्याप्रज्ञ- तितुं पृष्ठ	जे शब्द उपर टिप्पण छे ते शब्द	टिप्पण माटे साक्षीभूत ग्रंथ वगैरे	व्याख्याप्रज्ञ- तितुं पृष्ठ	जे शब्द उपर टिप्पण छे ते शब्द	टिप्पण माटे साक्षीभूत ग्रंथ वगैरे
२६	साधुओनो वर्णक	औपपातिकसूत्र	१११	दिग्दाह	वाराहीसंहिता
४	सिद्ध	प्रज्ञापना	१७१	दुन्दुभि	यास्कतुं निरुक्त
१५	सुधर्मस्वामी	कल्पसूत्र	१२२	देव	मज्झिमनिकाय, अभिधानचिन्ता- मणिटीका.
८६	संनिवेश	अभयदेवटीका	१२९	देवेन्द्र	मज्झिमनिकाय, यास्कतुं निरुक्त.
३७	संवर	तत्त्वार्थसूत्र	४०	धन	कल्पसूत्र
३४	संस्थान	कर्मग्रंथ	१३	धरणेन्द्र	प्रज्ञापनासूत्र
३४	संहनन	कर्मग्रंथ	३२९	नरकपृथ्वीओ	सूत्रकृतांगसूत्र, तत्त्वार्थसूत्र, पा- तंजलयोगदर्शन.
५१	स्थितिबंध	कर्मग्रंथ	४३	नाटक(वत्रीश प्रकारु)	राजप्रश्नीय, भरततुं नाट्यशास्त्र, जीवाभिगम.
	(भाग-२)				
३	अग्निभूति	विशेषावश्यक	४२	निवर्तनिक	अनुवादक
२७२	अभिज्ञिय	मज्झिमनिकाय	२७६	निपेक	कर्मप्रकृति, पंचसंग्रह.
१११	अभ्रवृक्ष	वाराहीसंहिता	१०८	नैरयिक	जीवाभिगमसूत्र
११२	अमोघ	"	१०६	पत्तन	अभिधानचिन्तामणि
१८२	अर्धमागधी	प्राकृतसर्वस्व, निशीथचूर्णि.	१११	परिवेप	वाराहीसंहिता
४८	असुर	यास्कतुं निरुक्त	१९	पर्याप्ति	कर्मग्रंथ
४९	असुरकुमार	प्रज्ञापना	५५	पूरण	मज्झिमनिकाय, बौद्धपर्व
२६१	आहारउद्देशक	प्रज्ञापनासूत्र	१५३	पूर्व (सख्या वाचक)	पालीव्याकरण (कच्चायन)
३९	इन्द्र	ललितविस्तर	१८१	पैशाची भाषा	प्राकृतव्याकरण
२०	ईशान	प्रज्ञापनासूत्र	१३५	प्रज्ञापना अने तेनो कर्ता	प्रज्ञापनासूत्र धर्मसागरनी पट्टा- वली, खरतरगच्छनी पट्टावली.
१९१	उत्करिकाभेद	प्रज्ञापनासूत्र	१११	प्रतिसूर्य	वाराहीसंहिता
११२	उदकमत्स्य	वाराहीसंहिता	१८३	प्रमाण	अनुयोगद्वारसूत्र
१११	उल्कापात	"	४०	प्राणामा	सरस्वती (मासिक)
७३	क्रिया	प्रज्ञापनासूत्र	३१३	ब्रह्मलोक	पातंजलयोगदर्शन, मनुस्मृति.
१९५	कुलकर	समवायांगसूत्र, आवश्यकनिर्युक्ति.	२७२	मनाम (मणाम)	मज्झिमनिकाय
३०६	केवलकम्प	मज्झिमनिकाय	७३	मंडितपुत्र	आवश्यकनिर्युक्ति
१७६	गर्भापहार	परिशिष्टपर्व	९९	मन्न	उत्तराध्ययन, प्रज्ञापनासूत्र
१११	ग्रहयुद्ध	वाराहीसंहिता	१८१	मागधीभाषा	प्राकृतव्याकरण
"	ग्रहशृंगाटक	"	२४	मौर्यपुत्र तामलि	विशेषावश्यकसूत्र
"	ग्रहापसव्य	"	१२२	यम	निरुक्त (यास्क)
"	गान्धर्वनगर	"	४०	रत्न	वाराहीसंहिता, जीवाभिगम.
४	चमर	प्रज्ञापनासूत्र	१६	राजप्रश्नीय उपाग ?	नन्दीसूत्र
६१	चमरनो उत्पात	सिद्धसेननी वत्रीशी	४७	रुद्र	शतपथब्राह्मण, वेदान्तसिद्धा- न्तादर्श.
२	चैत्य	औपपातिकसूत्र, अभिधान- चिन्तामणि, अमरकोष, शब्द- स्तोममहानिधि, शब्द- चिन्तामणि.	८३	लवण समुद्र	जीवाभिगमसूत्र
१४५	चैत्यनी व्युत्पत्ति	अनुवादक	९०	लेख्या	प्रज्ञापनासूत्र
१४३	चंपानगरी	तीर्थकल्प, परिशिष्टपर्व, महावीरचरित्र.	१२२	वरुण	निरुक्त (यास्कतुं)
२७२	जल्ल	मज्झिमनिकाय	११	वायुभूति	आवश्यकमन्त्र, समवायांगसूत्र.
२४	ताम्रलिपी	प्रज्ञापनासूत्र	८७	वायुतुं वहन	अनुवादक
	दानामा-प्राणामानो विपर्याप्त	महावीरचरिय (नेमिचंद्र) महावीरचरित्र (हेमचंद्र)			

व्याख्याप्रज्ञ- सितुं पृष्ठ	जे शब्द उपर टिप्पण छे ते शब्द	टिप्पण माटे साक्षीभूत ग्रंथ वगैरे	व्याख्याप्रज्ञ- सितुं पृष्ठ	जे शब्द उपर टिप्पण छे ते शब्द	टिप्पण माटे साक्षीभूत ग्रंथ वगैरे
१०४,५	वाराणसी	स्थानांगसूत्र, ज्ञातासूत्र, उपासक- दशांगसूत्र, पञ्चवणासूत्र, अ- भिवानचिन्तामणि, समेत- शिखररास, मञ्जिमनिकाय.	३ १७२ ३० ४१ ६५ ५९ ३३३	ब्राह्मणतुं स्वरूप वैतालीश दोप महाशिलाकंटक मिश्रपरिणत लब्धि व्यजनावग्रह वलयमरण	उत्तराव्ययनसूत्र प्रयचनसारोद्धार टीकाकार " " नन्दीसूत्र अनुवादक टीकाकार
१० १२ १३ ५२	वैक्रिय समुद्रवात वैरोचनेन्द्र शक्नेन्द्र शवर	समवायागसूत्र प्रज्ञापनासूत्र जीवाभिममसूत्र सूत्रकृतांग, प्रश्नव्याकरण, प्रज्ञा- पना. निरुक्त (यास्कतुं) प्राकृतव्याकरण अनुवादक मञ्जिमनिकाय निरुक्त (यास्कतुं) वाराहीसंहिता पञ्चवणासूत्र अमरकोष	८ ७० ६६ ३८० ३५६	सर्वोत्तरगुण प्रत्याख्यान साकारबोध सामायिक चारित्र स्थविर संस्थान (भाग-४) अधिकरण अवग्रहना पांच प्रकार आकर्ष आलोचन इच्छाकार एजना करण कालिकश्रुत कुशील चारण दर्प दश गुण (आलेचना योग्य साधुना)	टीकाकार " अनुवादक टीकाकार " अनुवादक टीकाकार " टीकाकार नन्दीसूत्र अनुवादक " टीकाकार अनुवादक प्रज्ञापना अनुवादक
४२ १८१ ३४४ ५६ १२२ १११ १०६ ४१	शिव शौरसेनी भाषा सक्किया सुसुमारगिरि सोम संव्या संवाध स्कंद	भगवतीटीका पिंडनिर्युक्ति प्रज्ञापनासूत्र टीकाकार " नन्दीसूत्र टीकाकार टीकाकार प्रज्ञापनासूत्र चूर्णिकार टीकाकार राजप्रश्रीय अनुवादक पञ्चवणासूत्र टीकाकार	२ ५ २५७ २७५ " ३५ ९३ ११७ २४० ११८ २७४ " ८९ २४० " " ३६ २१३ ३०१ १५	अधिकरण अवग्रहना पांच प्रकार आकर्ष आलोचन इच्छाकार एजना करण कालिकश्रुत कुशील चारण दर्प दश गुण (आलेचना योग्य साधुना) निदा निर्ग्रन्थ पुलाक बकुश मद्रुक श्रेणि समवसरण खम	टीकाकार " अनुवादक " " " टीकाकार नन्दीसूत्र अनुवादक " टीकाकार अनुवादक प्रज्ञापना अनुवादक " " " " सूत्रकृतांगसूत्र, आचारांगसूत्र. अनुवादक
९ ६ १९५ ५६ ३४३ ७३ ३५६ ३९३ ७९ ३८१ ३६७ २४३ ३६७ ९२ १९७	अपश्चिम मारणांतिक- संलेखना आधाकर्म वगैरे दोप आमन्नणी आशीविप उन्माद ऋजुमति औदयिकभाव कपोतपक्षी कायिकी गोशालकनो सिद्धांत दिशाचर धात्री निमित्त प्रयोग पासव्या	भगवतीटीका पिंडनिर्युक्ति प्रज्ञापनासूत्र टीकाकार " नन्दीसूत्र टीकाकार टीकाकार प्रज्ञापनासूत्र चूर्णिकार टीकाकार राजप्रश्रीय अनुवादक पञ्चवणासूत्र टीकाकार	२ ५ २५७ २७५ " ३५ ९३ ११७ २४० ११८ २७४ " ८९ २४० " " ३६ २१३ ३०१ १५	अधिकरण अवग्रहना पांच प्रकार आकर्ष आलोचन इच्छाकार एजना करण कालिकश्रुत कुशील चारण दर्प दश गुण (आलेचना योग्य साधुना) निदा निर्ग्रन्थ पुलाक बकुश मद्रुक श्रेणि समवसरण खम	टीकाकार " अनुवादक " " " टीकाकार नन्दीसूत्र अनुवादक " टीकाकार अनुवादक प्रज्ञापना अनुवादक " " " " सूत्रकृतांगसूत्र, आचारांगसूत्र. अनुवादक

४

टीकामां के टिप्पणमां समञ्जती माटे सूकेला यंत्रो-कोठाओ अने आकृतिओ

भा० १

यंत्रो							व्याख्याप्रज्ञप्तिसुं पृष्ठ
अवग्रह यंत्र	३९
इन्द्रिय यंत्र	२६९
गणधर यंत्र	१७
दिशासुं यंत्र	७१
प्रतिमा यंत्र	२५६
भाषाना मेदोसुं वृक्ष	२९४
भाषाविचार कोष्टक	२९३

भा० २

अप्रदेश सप्रदेशनी स्थापना	२३६
आहारनो कोठो	२६८
इंद्रनी गतिनो कोठो	६९
कर्मनो कोठो	२७८
कृष्णराजिनी आकृति	३१०
देवना आहारनो कोठो	२६४
वायुनी आकृति	८८
लेश्यासुं यंत्र	९१
लोकपालसुं यंत्र	१६

वेचरदास

विषयानुक्रम.

शतक १६ उद्देशक १ पृ० १-४.

हथोडावती एरण उपर घा करता वायुकाय उत्पन्न थाय अने तेतुं वीजा पदार्थना स्पर्शधी मरण थाय ? हा थाय. पृ० १—वायुकायतुं शरीररहित के शरीररहित भवान्तर गमन थाय ?—सगरीमां अग्निकाय केटला काळ सुधी रहे ?—सांडसावती लोड्डं उंचुं नीचुं करनार पुरुपने क्रियाओ.—लोड्डाने तपावी एरण पर मूकनारने क्रियाओ.—अधिकरणी अने अधिकरण—जीवने अधिकरणी अने अधिकरण कहेवाचुं कारण. पृ० २—नैरयिकादि दंडकने आश्रयी अधिकरणी अने अधिकरण.—जीव साधिकरणी के निरधिकरणी ?—आत्माधिकरणी, पराधिकरणी के उभयाधिकरणी ?—जीवोने अधिकरण आत्मप्रयोग निर्वर्तित, परप्रयोग निर्वर्तित के तदुभयप्रयोग निर्वर्तित होय ?—अधिरतिने आश्रयी अधिकरण.—शरीरना प्रकार.—इन्द्रियोना प्रकार.—योगना प्रकार. पृ० ३—ओदारिक शरीरने वाधतो जीव अधिकरणी के अधिकरण होय ?—आहारक शरीरने वाधतो जीव अधिकरणी के अधिकरण होय ?—इन्द्रिय तथा मनोयोगने वाधतो जीव अधिकरणी के अधिकरण होय ? पृ० ४.

शतक १६ उद्देशक २ पृ० ५-७.

जरा अने शोक—पृथिकायिकने जरा होय के शोक होय ?—शोक नहि होवाचुं कारण.—शक्रतुं वर्णन अने तेतुं भगवंत पासे आगतुं—अवप्रद-संबन्धे प्रश्न अने शक्रतु खस्थानगमन पृ० ५—शक्रेन्द्र सख्यावादी के मिथ्यावादी ?—शक्र सावय भाषा बोडे के निरवय भाषा बोडे ? तेतुं कारण ?—शक्र भवसिद्धिक के अभवसिद्धिक होय वगेरे प्रश्न.—कर्मो चैतन्यकृत छे के अचैतन्यकृत ? पृ० ६—तेना कारणो.

शतक १६ उद्देशक ३ पृ० ७-९.

कर्मप्रकृति—ज्ञानावरणने वेदतो जीव केटली कर्मप्रकृतिओने वेदे ? पृ० ७—उद्युक्तीर नगर.—काउस्वगमां रहेला सुनिना अर्धा कापनार वेष अने सुनिने क्रिया.

शतक १६ उद्देशक ४ पृ० ९-१०.

नित्यमोजी श्रमण जेटलं कर्म सपावे तेटलं कर्म नैरयिको सो वरसे सपावे ? ना पृ० ९. चतुर्व भष्पादि करनार मुनि जेटल कर्म सपावे तेटलं कर्म हजार के लाख वरसे नैरयिक सपावे ? ना—श्रमणने अधिक कर्म क्षय थवाचुं कारण पृ० १०.

शतक १६ उद्देशक ५ पृ० ११-१५.

उद्युक्तीर नगर—एक जंबूक चैल—देव वास्य पुद्गलोने प्रहण कर्या तिवाच अर्हां आवना समर्थ छे ?—वाद्य पुद्गलोने प्रहण करीने अर्हां वाचवा समर्थ छे ?—वाद्य पुद्गलोने प्रहण करीने बोलवा वगेरे क्रिया करवा समर्थ छे ? पृ० ११.—शक्रतु उच्छ्रुतापूर्वक चांदीने जवाचुं कारण—मन्दरदृष्टि गंगदत्त देवनी उत्पत्ति अने तेनो मिथ्यादृष्टि देवनी साथे सवाद—परिणाम पामतां पुद्गलो परिणत कहेवाच ?—गंगदत्त देवतुं भगवंत पासे आगमन. पृ० १२—गंगदत्तनो भगवंतने प्रश्न—गंगदत्त देव भवसिद्धिक छे के अभवसिद्धिक छे इत्यादि प्रश्न.—गंगदत्तनी दिव्य देवद्वि कर्मां गई ? पृ० १३—हस्तिनापुर—सहस्रामवण.—गंगदत्त गृहपति—मुनिमुनत स्वामीतुं आगमन—मुनिमुनत स्वामीनी देशना अने गंगदत्तने प्रतिबोध थयो—गंगदत्ते दीक्षा लेवी. पृ० १४—गंगदत्तनी महाशक्र कल्पमां देवतरीके उत्पत्ति—गंगदत्तनी आयुपस्यति.—गंगदत्त देवलोकधी च्यवी कर्मां जरो ? पृ० १५.

शतक १६ उद्देशक ६ पृ० १५-२०.

स्वप्नदर्शन.—स्वप्न क्यारे जुए ? पृ० १५—जीवो सूता, जागता के सूता—जागता होय छे ?—पचेन्द्रिय नियंनो सूता छे इत्यादि प्रश्न—उद्युक्त जीव केतुं स्वप्न जुए ? जीवो उद्युक्त छे इत्यादि प्रश्न—स्वप्नना प्रकार.—महास्वप्नना प्रकार—सर्व स्वप्नना प्रकार.—वीर्यकरणी माता केटला सत्रो जुए ? पृ० १६—चक्रवर्तीनी माता केटला स्वप्न जुए ?—वाद्युदेवनी माता केटला स्वप्न जुए ?—छत्रावस्थामां भगवंत महावरीरे दश स्वप्नोने जीवां पृ० १७.—दश महास्वप्नोतुं फल पृ० १८.—सामान्य स्वप्नतुं फल पृ० १९.—कोष्ठपुट वगेरे वाय छे ? पृ० २०.

शतक १६ उद्देशक ७ पृ० २१.

उपयोग केटल प्रकरनो कसो छे ? पृ० २१.

शतक १६ उद्देशक ८ पृ० २१-२५.

लोकनो पूर्वचरमात. पृ० २१—दक्षिणादि चरमात—उपरनो चरमात पृ० २०—लोकनी हेदेनो चरमात.—रुद्रनामा पूर्वदि चरमात पृ० २३.—परमाणुनो गति—कायिकी आदि क्रिया.—देव अलोकमां ह्यजानिने पनारवा समर्थ छे ? पृ० २५

शतक १६ उद्देशक ९ पृ० २६.

वलीन्द्रनी सुधर्मा सभा कयां फहेली छे ? पृ० २६.

शतक १६ उद्देशक १० पृ० २७.

अवधिशानना प्रकार पृ० २७.

शतक १६ उद्देशक ११ पृ० २७.

द्वीपकुमारो समान आहारवाळा छे इत्यादि प्रश्न — द्वीपकुमारोने देयाओ. पृ० २७.

शतक १६ उद्देशक १२-१४ पृ० २८-२९.

उदधिकुमारो वधा समान आहारवाळा छे इत्यादि प्रश्न पृ० २८.

शतक १७ उद्देशक १ पृ० २९-३२.

उदायी हस्ती कई गतिमांभी आवी उत्पन्न थयो छे ?—उदायी मरीने कयां जशे ?—त्वांभी मरण पागी कयां जशे ?—भूतानंद हस्ती कयांभी आव्यो छे अने मरीने कयां जशे ? पृ० २९ — कायिकी आदि क्रियाओ.—शुश्रूषुं गूळ चलावनारने क्रिया — श्रुश्रुना गूळने क्रिया. पृ० ३०.—श्रुश्रुना फन्द चलावनारने क्रिया — कन्दने क्रिया.—शरीरो.—इन्द्रियो—योग—आँदारिकादि शरीरने बांधतो जीव केटली क्रिया करे ?—जीवो केटली क्रियाओ करे ? पृ० ३१.—आँदयिकादि भावो पृ० ३२.

शतक १७ उद्देशक २ पृ० ३२-३५.

स्यतादि धर्म, अधर्म के धर्माधर्ममा स्थित होय ?—कोरे जीव धर्म, अधर्म के धर्माधर्ममा वेसी शके ?—धर्म, अधर्म के धर्माधर्ममा स्थित होय एटले छुं ? पृ० ३२.—दंडकना क्रमथी नैरयिकादि सवन्धे पूर्वांछ प्रश्न — अन्यतीर्थिको — बालपण्डित अने बालसंयन्धे अन्यतीर्थिकोतुं मन्तव्य.—पंडित, बालपंडित अने बाल—ते सवधे नैरयिकादि दंडकना क्रमथी प्रश्न पृ० ३३—'जीव अने जीवात्मा भिन्न छे' एवो अन्यतीर्थिकनो मत—सशरीरी देवमां अरुपी रूप विदुर्ववाना सामर्थ्यनो अभाव अने तेनो हेतु पृ० ३४—शरीररहित जीवमां रूपी आकार विदुर्ववाना सामर्थ्यनो अभाव अने तेनुं कारण. पृ० ३५

शतक १७ उद्देशक ३ पृ० ३५-३७.

शैलेथी अवस्थाने प्राप्त अनगर एजनादि क्रियाओ अनुभव करे ?—एजनाना प्रकार — द्रव्य एजनाना प्रकार पृ० ३५ — नैरयिक द्रव्यएजना कहेवातुं कारण — तिर्यंचादि द्रव्य एजना कहेवातुं कारण — क्षेत्र एजनाना प्रकार — नैरयिकादि क्षेत्र एजना कहेवातुं कारण.—चलनाना प्रकार — शरीर—चलनाना प्रकार — इन्द्रियचलनाना प्रकार.—योगचलनाना प्रकार—आँदारिक शरीर चलना कहेवातुं कारण पृ० ३६—वैक्रियचलना कहेवातुं कारण.—श्रोत्रेंद्रियादिचलना कहेवातुं कारण — मनोयोगचलना कहेवातुं कारण — सचेगादिनु फळ. पृ० ३७

शतक १७ उद्देशक ४ पृ० ३८-३९.

प्राणातिपात वनेरे द्वारा घती क्रिया.—स्पृष्ट के अस्पृष्ट कर्म कराय ?—मृपावादद्वारा घती क्रिया — क्षेत्रने धाधयी कर्म.—प्रदेशने आधयी क्रिया पृ० ३८.—दु रस आरमकृत, परकृत के उभयकृत छे ?—वेदना आरमकृत, परकृत के उभयकृत छे ?—वेदनाना वेदनसंबन्धे प्रश्न पृ० ३९.

शतक १७ उद्देशक ५ पृ० ३९.

ईशानेन्द्रनी सुधर्मा सभा इत्यादि सवन्धे प्रश्न पृ० ३९.

शतक १७ उद्देशक ६ पृ० ४०.

पृथिवीकायिक जीवो प्रथम उत्पन्न थाय अने पछी आहार करे के प्रथम आहार करे ने पछी उत्पन्न थाय इत्यादि प्रश्न. पृ० ४०.

शतक १७ उद्देशक ७ पृ० ४१.

जे पृथिवीकायिक सौधर्मकल्पमां मरण पागी पृथिवीकायपणे उत्पन्न भवानो छे ते प्रथम उत्पन्न थाय अने पछी आहार करे इत्यादि प्रश्न. पृ० ४१.

शतक १७ उद्देशक ८ पृ० ४१.

'जे अष्कायिक सौधर्मकल्पमां उत्पन्न भवाने योग्य छे' इत्यादि सवन्धे प्रश्न पृ० ४१.

शतक १७ उद्देशक ९ पृ० ४१.

'जे अष्कायिक घनोदधिवलयोमां उत्पन्न भवाने योग्य छे' इत्यादि सवन्धे प्रश्न पृ० ४१

शतक १७ उद्देशक १० पृ० ४२.

'जे वायुकायिक सौधर्मकल्पमां उत्पन्न भवाने योग्य छे' इत्यादि सवन्धे प्रश्न पृ० ४२

शतक १७ उद्देशक ११ पृ० ४२.

'जे वायुकायिक घनघातवलयो के तनुघातवलयोने विषे उत्पन्न भवाने योग्य छे' इत्यादि सवन्धे प्रश्न. पृ० ४२.

शतक १७ उद्देशक १२ पृ० ४२.

एकेन्द्रिय जीवो समान आहारवाळा छे इत्यादि प्रश्न.—एकेन्द्रियोनुं लेख्या. पृ० ४२.—लेख्यावाळा एकेन्द्रियोनुं अल्पबहुत्व—लेख्यावाळा एकेन्द्रियोमी ऋद्धिनुं अल्पबहुत्व पृ० ४३.

शतक १७ उद्देशक १३ पृ० ४३.

बधा नागकुमारो समान आहारवाळा छे इत्यादि प्रश्न पृ० ४३

शतक १७ उद्देशक १४ पृ० ४३.

सुवर्णकुमारो समान आहारवाळा छे इत्यादि प्रश्न पृ० ४३

शतक १७ उद्देशक १५ पृ० ४३.

विद्युत्कुमार संबन्धे प्रश्न. पृ० ४३.

शतक १७ उद्देशक १६ पृ० ४४.

बधा वायुकुमारो समान आहारवाळा छे इत्यादि प्रश्न पृ० ४४.

शतक १७ उद्देशक १७ पृ० ४४.

बधा अग्निकुमारो समान आहारवाळा छे इत्यादि प्रश्न पृ० ४४.

शतक १८ उद्देशक १ पृ० ४५.

१ जीवद्वार—जीव जीवभाव वढे प्रथम छे के अप्रथम ? पृ० ४५—२ आहारकद्वार—आहारक आहारभाव वढे प्रथम छे के अप्रथम ?—एम अनाहारक संबधे प्रश्न—ए रीते ३ भवसिद्धिकद्वार—४ संज्ञीद्वार पृ० ४६—५ लेख्याद्वार—६ दृष्टिद्वार—७ संयतद्वार—८ कपायद्वार—९ ज्ञानद्वार १० योगद्वार—११ उपयोगद्वार—१२ वेदद्वार—१३ शरीरद्वार—अने १४ पर्याप्तद्वार—चरम अने अचरम—१ जीवद्वार—जीव जीवभाव वढे चरम छे के अचरम ? पृ० ४८—ए रीते २ आहारकद्वार,—३ भवसिद्धिकद्वार,—४ संज्ञीद्वार,—५ लेख्याद्वार—६ दृष्टिद्वार पृ० ४९—७ संयतद्वार—८ कपायद्वार—९ ज्ञानद्वार—१० योगद्वार—११ उपयोगद्वार—१२ वेदद्वार—१३ शरीरद्वार पृ०—५० अने १४ पर्याप्तद्वार.

शतक १८ उद्देशक २ पृ० ५१—५३.

कार्तिकेशोठनो वृत्तान्त अने तेनो शक्रपणे उत्पाद पृ० ५१

शतक १८ उद्देशक ३ पृ ५३—५८.

सामांशिकपुत्र अनगारना प्रश्नो—पृथिवीकायिक मनुष्य शरीर पामी तुरत सिद्ध थाय ?—एम अष्कायिक अने घनस्पतिकायिक संबधे प्रश्न. पृ० ५४—निर्जरा पुद्गलो सर्वलोकव्यापी छे ?—छद्मस्थ निर्जरा पुद्गलोनुं परस्पर भिन्नगणु जुए ? पृ० ५५ बन्धना वे प्रकार—द्रव्यबन्धना वे प्रकार पृ० ५६—विद्वस्रावन्ध अने प्रयोगबन्ध—भावबन्धना वे प्रकार—मूलप्रकृतिबन्ध अने उत्तरप्रकृतिबन्ध,—पूर्वे बांधेला अने हवे पछी बांधावाना कर्मनी भिन्नता—नैरयिकादिना कर्मबन्धनी भिन्नता—आहाररूपे ग्रहण करेला पुद्गलोनुं केटलो भाग ग्रहण थाय अने केटलो भाग छोडाय ?—निर्जराना पुद्गलो उपर वेसवाने, यावत् सुवाने कोई समर्थ छे ?

शतक १८ उद्देशक ४ पृ० ५८—६०.

प्राणातिपातादि जीवना परिभोगमा आवे छे के नहि ? पृ० ५८—कपायना चार प्रकार.—कृतयुग्मादि चार राशिओ—नैरयिकादि दडकने आश्रयी कृतयुग्मादि राशिनु अवतरण पृ० ५९

शतक १८ उद्देशक ५ पृ० ६०.

वे असुरकुमार देवमा एक दर्शनीय अने एक अदर्शनीय होवानु कारण पृ० ६०—ए रीते नागकुमारादि संबन्धे प्रश्न—वे नैरयिकोमा एक अरव कर्मवालो अने एक महाकर्मवालो उत्पन्न थवानो हेतु—नैरयिकने मरणसमये धा भवना के परभवना आयुपनो अनुभव होय ? पृ० ६१—देवोनी इष्ट अने अनिष्ट विक्रवणा.

शतक १८ उद्देशक ६ पृ० ६२—६३.

गोल वगेरे वादरस्कन्धना वर्णादि. पृ० ६२—भ्रमरना वर्णादि—पोपटनी पाखना वर्णादि—परमाणुना वर्णादि.—द्विप्रदेशिक स्कन्ध—त्रिप्रदेशिकादि स्कन्धो—अनन्तप्रदेशिक स्कन्ध. पृ० ६३.

शतक १८ उद्देशक ७ पृ० ६४—७०.

यक्षाविष्ट केवली सत्य के असत्य वोटे ते संबन्धे अन्वयतीर्थिकनु मन्तव्य—उपधिना 'कर्म शरीर अने बाह्योपकरण' ए त्रण प्रकार—'सचित्त अचित्त अने मिथ' ए उपधिना बीजा त्रण प्रकार पृ० ६४—परिग्रहना प्रकार—प्रणिधानना प्रकार—दुष्प्रणिधानना प्रकार—सुप्रणिधान पृ० ६५—अन्वयतीर्थिको अने मद्दक श्रमणोपासक—अन्वयतीर्थिकोनु अस्तिकाय संबन्धे मद्दक थावरुने प्रश्न. पृ० ६६—मद्दकनु प्रतिप्रश्नद्वारा उत्तर. पृ० ६७—देवोनुं वैकिय रूप करवालुं सामर्थ्य—वैकिय शरीरनु जीव साथे संबन्ध.—तेना परस्पर अतरनो जीवसाथे संबन्ध—तेना परस्पर अतरनो शस्त्रादिधी छेद थाय के नही ?—देवासुरसप्राप्त पृ० ६८—देवोनु गमनसामर्थ्य—देवोना पुण्यकर्मना क्षयनुं तारतम्य. पृ० ६९.

शतक १८ उद्देशक ८ पृ० ७०-७२.

ऐसापथिक कर्मन्वय—अन्यतीर्थिको अने भगवंत गौतमनो संवाद. पृ० ७०—उग्रग्रन्थना ज्ञाननो विषय.—परमाणु. पृ० ७१—द्विप्रदेशिक स्वरुध—अनन्तप्रदेशिक स्वरुध.—अपविज्ञाननो विषय.—ज्ञान अने दर्शनना समयनी भिन्नता पृ० ७२.

शतक १८ उद्देशक ९ पृ० ७२-७३.

भव्यद्रव्य नैरथिक छे ? अने ते शाथी कहेवाय छे ?—पृ० ७२.—ए रीते भव्य द्रव्य पृथिवीकायिकादि संबंधे प्रश्न.—भव्यद्रव्य नैरथिकादिनी धायुय स्थिति. पृ० ७३.

शतक १८ उद्देशक १० पृ० ७४-७७.

अनगार वैक्रियलक्षिणा सामर्थ्यवी तलवार के अलानी धार उपर रहे ?—परमाणु वायुकायथी स्पृष्ट होय के वायुकाय परमाणुथी स्पृष्ट होय !—एम् द्विप्रदेशिकस्वरुध यावत् अनन्तप्रदेशिक स्वरुध संबन्धे प्रश्न.—वन्ति वायुकायिकथी स्पृष्ट होय के वायुकाय वन्तिथी स्पृष्ट होय !—रत्नप्रभादि पृथिवी तथा सौवर्मादि टेवलोकनी नीचेना द्रव्यो पृ० ७४.—सोमिलना प्रश्नो—यात्रा, यापनीय, अख्यावाच अने प्रासुक्त विहार छे एवो भगवंतने प्रश्न.—यात्रा केवी रीते छे ?—यापनीय केवी रीते छे ? पृ० ७५.—यापनीयना वे प्रकार.—इन्द्रिययापनीय अने नोइन्द्रिययापनीयनो अर्थ—अख्यावाच केवी रीते छे ?—प्रासुक्त विहार केवी रीते छे ?—सरिसव भक्ष के अमक्ष ?—माप भक्ष के अमक्ष ?—दुलरथा भक्ष के अमक्ष ? एक छो के अनेक ! इत्यादि प्रश्न पृ० ७७.

शतक १९ उद्देशक १ पृ० ७९.

उदयाना प्रकार अने प्रजापनानो उदया उद्देशक पृ० ७९.

शतक १९ उद्देशक २ पृ० ८०.

उदयाना प्रकार अने प्रजापनानो गर्भउद्देशक पृ० ८०.

शतक १९ उद्देशक ३ पृ० ८०-८६.

१ स्वादद्वार—कदाच वे अथवा अनेक पृथिवीकायिकनो एकठा मळी साधारण शरीर बाधे ? पठो आहार करे अने परिणमावे ?—२ उदयाद्वार, पृथिवीकायिकनो उदयायो.—ए रीते ३ उदयाद्वार पृ० ८०—४ ज्ञानद्वार, ५ योगद्वार, ६ उपयोगद्वार, ७ क्रिमाद्वार, ८ प्राणानिपातादिनां स्थिति पृ० ८१—९ उत्पत्तद्वार, १० स्थितिद्वार, ११ समुद्रयातद्वार, १२ उद्वर्तनाद्वार कहेवा—एम् कदाच वे के अनेक अथ्यायिक, अमिथ्यायिक अने वनस्पतिकायिक संपन्धे पण वार द्वार कहेवा—पृथिवीकायिकादिनी अणुगाहनासु अणुपवद्वल पृ० ८३—पृथिवीकायिकादिनी परस्पर सूक्ष्मता.—पृथिवीकायिकादिनुं परस्पर यादरपण पृ० ८४—पृथिवीकायिकना शरीरनुं प्रमाण—पृथिवीकायिकना शरीरनी अवगाहना—पृथिवीकायिकने केवी पीढा धाय ? पृ० ८५—अथ्यायिकने केवी पीढा धाय ? ८६.

शतक १९ उद्देशक ४ पृ० ८६.

कदाच नैरथिको महास्रववाळा, महाक्रियावाळा, महावेदनावाळा अने महानिर्जरावाळा होय ते संबन्धी भंगो पृ० ८६

शतक १९ उद्देशक ५ पृ० ८८-८९.

नैरथिको चरम—अवस्थापुपवाळा अने परम—अथिक आयुपवाळा होय ? पृ० ८८—'चरम नैरथिको करतां परम नैरथिको महास्रववाळा, महाक्रियावाळा, महावेदनावाळा अने महानिर्जरावाळा होय' इत्यादि प्रश्न—ए रीते अष्टरुम्भार सवन्धे प्रश्न—वेदनाना 'निदा अने अनिदा'—ए वे प्रकार—नैरथिकोने क्या प्रकारनी वेदना होय ? पृ० ८८.

शतक १९ उद्देशक ६ पृ० ८९.

हीप अने समुद्रो क्यां, केटला अने केवा आकारवाळा छे ? पृ० ८९.

शतक १९ उद्देशक ७ पृ० ८९.

असुरकुमारना भजनापानो केटला अने केवा छे ?—ए रीते वानव्यंतरना नगरो केटला अने केवा छे ?—ज्योतिषिक अने कल्पना विमानावानो केटला अने केवा छे ? पृ० ८९.

शतक १९ उद्देशक ८ पृ० ९०.

जाननिर्गतिना प्रकार पृ० ९०—कर्मनिर्गतिना प्रकार—शरीरनिर्गतिना प्रकार—सर्वेन्द्रियनिर्गतिना प्रकार—पृथिवीकायिकने केटली इन्द्रियनिर्गति होय ?—भाषानिर्गतिना प्रकार—मनोनिर्गतिना प्रकार—न्यायनिर्गतिना प्रकार पृ० ९१—वर्णनिर्गति—संस्थाननिर्गति—सजानिर्गति—केटयानिर्गति—दष्टिनिर्गति—ज्ञाननिर्गति—अज्ञाननिर्गति पृ० ९२.—योगनिर्गति—उपयोगनिर्गति पृ० ९३.

शतक १९ उद्देशक ९ पृ० ९३-९४.

शरीरकरण—इन्द्रियकरण पृ० ९३—प्राणातिपातकरण—पुद्गलकरण.—वर्णकरण.—संस्थानकरण पृ० ९४.

शतक १९ उद्देशक १० पृ० ९४.

'यथा ज्ञानव्यन्तरो गमान आहारवाळा होय छे'—इत्यादि प्रश्न. पृ० ९४.

शतक २० उद्देशक १ पृ० ९५—९७.

वेद्भिन्द्रियादि जीवोना शरीरयन्धनो क्रम—वेद्भिन्द्रिय साधारण शरीर वाधे के प्रत्येक शरीर वाधे ?—तेओने लेइया पृ० ९५.—तेओमा 'अने इष्ट के अनिष्ट रसादिनो अनुभव करीए छीए' एवी सज्ञा अने प्रज्ञादिनो अभाव.—पंचेन्द्रिय साधारण के प्रत्येक शरीर वाधे ? पृ० ९६—वेद्भिन्द्रियादिनुं अरपघहुत्व पृ० ९७.

शतक २० उद्देशक २ पृ० ९७—९९.

आकाशना प्रकार.—'लोकाकाश जीवरूप छे, जीवदेसरूप छे' इत्यादि प्रश्न पृ० ९७.—अधोलोक धर्मास्तिकायना केटला भागने अवगाहीने रहेलो छे ?—धर्मास्तिकायना केटलां अभिवचनो छे ?—अधर्मास्तिकायनां अभिवचनो —आकाशास्तिकायना अभिवचनो.—जीवास्तिकायनां अभिवचनो. पृ० ९८.—पुद्गलास्तिकायना अभिवचनो पृ० ९९.

शतक २० उद्देशक ३ पृ० ९९.

प्राणातिपातादि आत्मा सिवाय कीजे परिणमता नथी पृ० ९९.

शतक २० उद्देशक ४ पृ० ९९.

इन्द्रियोपचयना प्रकार पृ० ९९.

शतक २० उद्देशक ५ पृ० १००—११२.

परमाणुमां केटला वर्णादि होय छे ?—द्विप्रदेशिक स्कन्धमां केटला वर्णादि होय ?—द्विप्रदेशिक स्कन्धना ४२ भांगाओ पृ० १०१—त्रिप्रदेशिक स्कन्धमां केटला वर्णादि होय ? पृ० १०१—चतु प्रदेशिक स्कन्धना भागाओ पृ० १०२—वर्णने आश्रयी ९० भांगाओ—रसने आश्रयी ९० भांगाओ पृ० १०३.—चतुप्रदेशिक स्कन्धना २२२ भांगाओ—पाच प्रदेशिक स्कन्ध पृ० १०४—पंचप्रदेशिक स्कन्धना वर्णादिने आश्रयी ३२४ भांगाओ—छ प्रदेशिक स्कन्धना वर्णादिना भांगाओ पृ० १०५.—छ प्रदेशिक स्कन्धना ४१४ भांगा.—सातप्रदेशिक स्कन्धना वर्णादिना भागाओ पृ० १०६.—सात प्रदेशिक स्कन्धना वर्णादिने आश्रयी ४७४ भांगा—आठ प्रदेशिक स्कन्धना वर्णादिना भांगा—अष्ट प्रदेशिक स्कन्धना वर्णादिने आश्रयी ६०४ भांगा पृ० १०७.—नव प्रदेशिक स्कन्धना वर्णादिना भगो—नव प्रदेशिक स्कन्धना वर्णादिने आश्रयी ५१४ भंगो—दश प्रदेशिक स्कन्धना वर्णादिना भंगो—दश प्रदेशिक स्कन्धना ५१६ भंगो—अनत प्रदेशिक स्थूल परिणामवाळा स्कन्धना वर्णादिना भगो पृ० १०८—पाच स्पर्शना भंग—छ स्पर्शना भंगो पृ० १०९.—सात स्पर्शना भंगो पृ० ११०.—आठ स्पर्शना भंगो—घादर स्कन्धना स्पर्शने आश्रयी १२९६ भंगो.—परमाणुना चार प्रकार—द्रव्यपरमाणुना प्रकार—क्षेत्रपरमाणुना प्रकार पृ० १११.—कालपरमाणुना प्रकार—भावपरमाणुना प्रकार पृ० ११२

शतक २० उद्देशक ६ पृ० ११२—११४.

'जे पृथिवीकायिक जीव रत्नप्रभा अने शर्कराप्रभानी वधे मरणसमुदात करीने सौधर्मदेवलोकमां पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न धवाने योग्य छे ते पूर्वे उत्पन्न थाय अने पछी आहार करे' इत्यादि प्रश्न पृ० ११२—ए रीते आकायिक अने वायुकायिक सवन्धे प्रश्न जाणघो पृ० ११४

शतक २० उद्देशक ७ पृ० ११४—११६.

कर्मबन्ध पृ० ११४.—ज्ञानावरणीय कर्मनो बन्ध—ज्ञानावरणीयोदय कर्मनो बन्ध—स्त्रीवेदनो बन्ध—दर्शननोहनीय कर्मनो बन्ध.

शतक २० उद्देशक ८ पृ० ११६—११८.

कर्मभूमिना प्रकार—अकर्मभूमिना प्रकार—अकर्मभूमिमा उत्सर्पिणी अने अवसर्पिणीरूप काल होय ?—भरत अने ऐरवतमा उत्सर्पिणी अने अवसर्पिणीरूप काल होय ?—काल—अरहंतो महाविदेहमां पाच महाव्रतरूप धर्मनो उपदेश करे ?—भारतवर्षमां केटला तीर्थकरो होय ? पृ० ११६—चोवीश जिनना अतरो—कालिक श्रुतनो विच्छेद अने अविच्छेद—पूर्वगत श्रुतनी स्थिति—तीर्थनी स्थिति.—भावी छेला तीर्थकरना तीर्थनी स्थिति.—तीर्थ अने तीर्थकर—पृ० ११७—प्रवचन अने प्रवचनी—उग्र वगेरे क्षत्रियोनो धर्ममां प्रवेश.—देवलोकना प्रकार पृ० ११८

शतक २० उद्देशक ९ पृ० ११८—१२०.

चारण मुनिना प्रकार अने तेजु सामर्थ्य—विद्याचारण कहेवायु कारण—विद्याचारणनी क्षीघ्र गति पृ० ११८—विद्या चारणनी तिर्यग्गतिनो विषय—विद्याचारणनी ऊर्ध्वगतिनो विषय.—जघाचारण शाथी कहेवायु छे ?—जघाचारणनी गति—जघाचारणनो तिर्यग्गतिविषय पृ० ११९—जघाचारणनो ऊर्ध्वगतिविषय पृ० १२०.

शतक २० उद्देशक १० पृ० १२०.

सोपक्रम अने निरुपक्रम आयुष.—नैरयिकोनो उत्पाद आत्मोपक्रम, परोपक्रम अने निरुपक्रमथी थाय छे ? पृ० १२०—नैरयिकोनी उद्वर्तना आत्मोपक्रमथी परोपक्रमथी के निरुपक्रमथी थाय छे ?—नैरयिकोनो उत्पाद आत्मशक्तिथी के परनी शक्तिथी ?—नैरयिकोनी उत्पत्ति स्वर्गमेथी के अन्यना कर्मथी ? नैरयिकोनी उत्पत्ति आत्मप्रयोगथी के परप्रयोगथी ?—नैरयिको कतिसचित्त, अकतिसचित्त के अवकाश्यसचित्त होय छे ?—नैरयिको कतिसचित्तादि होय छे तेजु कारण पृ० १२१—पृथिवीकायिकादि अने सिद्धो कतिसचित्त छे ?—नैरयिकोनो आश्रयी कतिसचित्तादिनुं अल्पवहुत्व—सिद्धोनो आश्रयी कतिसचित्तादिनुं अल्पवहुत्व—नैरयिकोनो आश्रयी पट्कसमर्जितादि पृ० १२२—पृथिवीकायिकादिने आश्रयी पट्कसमर्जितादि—नैरयिकादिने आश्रयी पट्कसमर्जितादिनुं अल्पवहुत्व.—पृथिवीकायिकादिने आश्रयी अल्पवहुत्व पृ० १२३—सिद्धोनो आश्रयी अल्पवहुत्व—नैरयिकादिने आश्रयी द्वादशसमर्जितादि—पृथिवीकायिकोनो आश्रयी द्वादशसमर्जितादि पृ० १२४—नैरयिकादिने आश्रयी द्वादशसमर्जितादिनुं अल्पवहुत्व—नैरयिकादिने आश्रयी चोराशीसमर्जित.—सिद्धने आश्रयी चोराशीसमर्जितादि पृ० १२५—चोराशी समर्जितादिनुं अल्पवहुत्व—पृ० १२६.

शतक २१ पृ० १२७-१३१.

प्रथमवर्ग—शाल्यादि घान्यना मूळ तरीके जीवो क्याधी आवीने उपजे छे?—उत्पाद—एक समये केटला जीवो उपजे? पृ० १२७—अग्नाहना—
कर्मना यन्त्रक—लेट्या,—शाल्यादिना मूळपणे जीवनी म्यति—शाल्यादि अने पृथिवीकायिकनो संवेध—शाल्यादिना मूळपणे सर्व जीवोना उत्पाद पृ०
१२८—द्वितीय वर्ग—कलाय वगेरे घान्यना कन्दरूपे जीवो क्याधी आवीने उपजे छे? तृतीय वर्ग—अळसी वगेरेना मूळपणे जीवो क्याधी आवी उपजे
छे? पृ० १२९—चतुर्थ वर्ग—वांस वगेरे वनस्पतिना मूळपणे जीवो क्याधी आवी उपजे छे?—पाचमो वर्ग—इल्ल वगेरे पर्वयाळी वनस्पतिना मूळपणे जीवो
क्याधी आवी उपजे छे?—षष्ठ वर्ग—सेडिय, भंतिव वगेरे वनस्पतिना जीवो क्याधी आवीने उपजे छे? पृ० १३०—मातमो वर्ग—अन्नद्रव्यादिना
मूळपणे जीवो क्याधी आवीने उत्पन्न थाय छे?—अष्टम वर्ग—तुलसी वगेरे हरित वगंना मूळपणे जीवो क्याधी आवीने उपजे छे? पृ० १३१.

शतक २२ पृ० १३३-१३५.

प्रथमवर्ग—ताड वगेरे बल्लवर्गना मूळपणे जीवो क्याधी आवी उत्पन्न थाय छे? पृ० १३०—द्वितीय वर्ग—लीमटा वगेरे एकायिक वर्गना मूळपणे
जीवो क्याधी आवीने उपजे छे?—तृतीय वर्ग—अगस्तिक वगेरे बहुबीज वगंना मूळपणे जीवो क्याधी आवीने उपजे छे? पृ० १३३—चतुर्थ वर्ग—
बेंगण वगेरे गुच्छवर्गना मूळपणे जीवो क्याधी आवीने उपजे छे?—पंचम वर्ग—सिरियक वगेरे गुमवर्गना मूळपणे जीवो क्याधी आवीने उपजे छे?—
षष्ठ वर्ग—पूसफळी वगेरे बलीवर्गना मूळपणे जीवो क्याधी आवीने उपजे छे? पृ० १३५.

शतक २३ पृ० १३६-१३८.

प्रथमवर्ग—आलु वगेरे साधारण वनस्पतिना मूळपणे जीवो क्याधी आवीने उपजे छे? पृ० १३६—द्वितीय वर्ग—लोही वगेरे अनन्तसायिक वन-
स्पतिना मूळपणे जीवो क्याधी आवीने उत्पन्न थाय छे?—तृतीयवर्ग—आयसायिदि वर्गना मूळपणे जीवो क्याधी आवीने उपजे छे?—चतुर्थ वर्ग—पात्र
वगंना मूळपणे जीवो क्याधी आवीने उपजे छे? पृ० १३७—मापवर्णो आदि उद्विगर्गना मूळपणे जीवो क्याधी आवीने उपजे छे? पृ० १३८.

शतक २४ उद्देशक १ पृ० १३९-१५६.

नैरयिको क्याधी आवीने उपजे!—तिर्यंचो नैरयिकोमा उपपात पृ० १३९—पंचेन्द्रिय तिर्यंचो नारकोमा उपपात.—असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचो नो
नारकोमा उपपात—१ व्यासा असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचो नारकोमा उपपात—असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचो केटली नरकपृथिवी सुधी उत्पन्न थाय?—केटला
आयुषवाळा नारकमा असंज्ञी तिर्यंचो आवीने उपजे?—२ परिमाण—असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचो नारकोमा उपपात—एक समये केटला उपजे?—३ लेओना चरणण—
४ शरीरनी अवगाहना—५ संस्थान पृ० १४०—६ लेट्या,—७ हट्टि—८ ज्ञान अने अज्ञान—९ योग—१० उपयोग—११ सज्ञा १२ कथाय—
१३ इन्द्रिय—१४ समुद्रात—१५ वेदना पृ० १४१—१६ वेद—१७ आयुष—१८ अश्वसवध—१९ अनुबंध—२० कायसवेध—२ असंज्ञी
पंचेन्द्रिय तिर्यंचो जघन्य आयुषवाळा रत्नप्रमा नारकमा उपपात—लेओना परिमाणादिद्वारो पृ० १४२—३ कायसवेध—असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचो
उच्छृण्विनि रत्नप्रमानारकमा उपपात—परिमाण दि—कायसवेध—४. जघन्य स्थितिवाळा असंज्ञी तिर्यंचो रत्नप्रमा उपपात—परिमाणादि पृ०
१४३—कायसवेध—५ जघन्य असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचो जघन्य रत्नप्रमा नैरयिकमा उपपात—परिमाणादि—कायसवेध—६ जघन्य असंज्ञी
तिर्यंचनी रत्नप्रमा नैरयिकमा उत्पत्ति—परिमाणादि—कायसवेध पृ० १४४ उ उच्छृण्वे असंज्ञी तिर्यंचनी रत्नप्रमा नारकमा उत्पत्ति—परिमा-
णादि—कायसवेध—७ उच्छृण्वे असंज्ञी तिर्यंचनी जघन्य रत्नप्रमानारकमा उत्पत्ति—परिमाणादि—कायसवेध—८ उच्छृण्वे असंज्ञी पंचेन्द्रिय
तिर्यंचनी उच्छृण्वे रत्नप्रमानारकमा उत्पत्ति पृ० १४५—परिमाणादि—कायसवेध—संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचो नारकमा उपपात—संस्थाता० संज्ञी
पंचेन्द्रिय तिर्यंचो नारकमा उपपात—पर्याप्त संस्थाता० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचो नारकमा उपपात—संस्थाता० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचो नारकमा
नारकमा उपपात—परिमाण—सघन्य,—संस्थान,—लेट्या—हट्टि—ज्ञान अने अज्ञान—कायसवेध—संस्थाता० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी जघन्य
रत्नप्रमानारकमा उत्पत्ति—परिमाण पृ० १४७.—जघन्य० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी रत्नप्रमानारकमा उत्पत्ति—परिमाण—जघन्य० संज्ञी पंचेन्द्रिय
तिर्यंचनी जघन्य० रत्नप्रमा नारकमा उत्पत्ति—परिमाण,—जघन्य० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी उच्छृण्वे रत्नप्रमा नारकमा उत्पत्ति.—उच्छृण्वे० संज्ञी
पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी उच्छृण्वे रत्नप्रमानारकमा उत्पत्ति पृ० १४८—उच्छृण्वे० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी जघन्य० रत्नप्रमानारकमा उत्पत्ति—परिमाण,—
उच्छृण्वे० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी उच्छृण्वे रत्नप्रमानारकमा उत्पत्ति—परिमाणादि—संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी शर्कराप्रमाणा उत्पत्ति—परिमाणादि पृ०
१४९. संस्थाता० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचो सप्तम नरकमा उपपात—संज्ञी तिर्यंचनी जघन्य० सप्तम नरकपृथिवीना नारकमा उत्पत्ति—संज्ञी पंचेन्द्रिय
तिर्यंचो उच्छृण्वे सप्तम नरकमा उपपात पृ० १५०—जघन्य० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी सप्तम नरकमा उत्पत्ति—जघन्य० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचो
जघन्य० सप्तम नरकमा उपपात—जघन्य० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचो उच्छृण्वे सप्तम नरकमा उपपात—उच्छृण्वे० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी सप्तम नरकमा
उत्पत्ति—परिमाण—उच्छृण्वे० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी जघन्य० सप्तम नरकमा उत्पत्ति—उच्छृण्वे० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी उच्छृण्वे सप्तम नरकमा
उत्पत्ति पृ० १५१—संज्ञी मनुष्यो नो नरकमा उपपात—संस्थाता० संज्ञी मनुष्यो नो नारकपणे उत्पत्ति—पर्याप्त मनुष्यो नो नारकपणे उत्पत्ति—संस्थाता०
सं० प० मनुष्य केटली नरकपृथिवीमा उत्पन्न थाय?—संस्थाता० मनुष्यो नो रत्नप्रमानारकपणे उपपात—परिमाण—एक समये केटला उत्पन्न थाय? पृ०
१५०—२ संज्ञी मनुष्यनी जघन्य० रत्नप्रमानारकमा उत्पत्ति—३ संज्ञी मनुष्यनी उच्छृण्वे रत्नप्रमानारकमा उत्पत्ति—४ जघन्य० संज्ञी मनुष्यनी
रत्नप्रमाणा उत्पत्ति—५ जघन्य० मनुष्यनी जघन्य० रत्नप्रमाणा उत्पत्ति—६ जघन्य० मनुष्यनी उच्छृण्वे रत्नप्रमाणा उत्पत्ति पृ० १५३—७ उच्छृण्वे०
मनुष्यनी रत्नप्रमाणा उत्पत्ति—८ उच्छृण्वे मनुष्यनी जघन्य० रत्नप्रमाणा उत्पत्ति—मनुष्यनी उच्छृण्वे रत्नप्रमाणा उत्पत्ति—मनुष्यनी शर्कराप्रमाणा
उत्पत्ति—परिमाण—एक समये केटला उत्पन्न थाय?—२ जघन्य० मनुष्यनी शर्कराप्रमाणा उत्पत्ति पृ० १५४—३ उच्छृण्वे० मनुष्यनी शर्कराप्रमाणा
उत्पत्ति—ए प्रमाणे हट्टी नरकपृथिवी सुधी जाणवुं—१ संस्थाता० संज्ञी मनुष्यनी सप्तम नरकमा उत्पत्ति—परिमाण—२ मनुष्यनी जघन्य
सप्तम नरकमा उत्पत्ति—३ मनुष्यनी उच्छृण्वे सप्तम नरकमा उत्पत्ति—जघन्य० मनुष्यनी सप्तम नरकमा उत्पत्ति—उच्छृण्वे मनुष्यनी सप्तम नरकमा
उत्पत्ति—पृ० १५६

पंचेन्द्रिय तिर्यचनी जघन्य० संज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पत्ति.—उत्कृष्ट० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचनी उत्कृष्ट संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पत्ति.—मनुष्योनी संज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पत्ति —असंज्ञी मनुष्योनी संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पत्ति १८२.—१ संज्ञी मनुष्योनी संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पत्ति.—परिमाणानि —२ संज्ञी मनुष्यनी जघन्य० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पत्ति.—३ संज्ञी मनुष्यनी उत्कृष्ट संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पत्ति. पृ० १८३.—६ जघन्य० संज्ञी मनुष्यनी संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पत्ति.—७ जघन्य० सं० मनुष्यनी ज० सं० पं० तिर्यचमां उत्पत्ति —८ उत्कृष्ट० संज्ञी मनुष्यनी संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पत्ति.—९ उत्कृष्ट० संज्ञी मनुष्यनी उत्कृष्ट० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पत्ति.—देवोनी संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोमां उत्पत्ति.—अतुर-कुमार भवनवासी देवोनी संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोमां उत्पत्ति पृ०—१८४.—नागकुमारनी संज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पत्ति —वानव्यंतरोनी संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पत्ति —ज्योतिषिकोनी संज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पत्ति.—वैमानिक देवोनी संज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पत्ति.—सौधर्मधी सहस्रारपयंत देवोनी संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पत्ति पृ० १८५.

शतक २४ उद्देशक २१ पृ० १८६-१९०.

मनुष्यमा उपपात.—रत्नप्रभा नैरधिको मनुष्यमा उपपात.—तिर्यचोनिर्गो मनुष्यमा उपपात पृ० १८६.—पृथिवीकाधिको मनुष्यमा उपपात.—अपकाधिको मनुष्यमा उपपात.—देवोनी मनुष्यमा उपपात.—भवनवासी देवोनी मनुष्यमा उपपात —अतुरकुमारदि देवोनी मनुष्यमा उपपात पृ० १८७.—यावत् सहस्रार देवोनी मनुष्यमा उपपात.—आगत देवोनी मनुष्यमा उपपात —परिमाणानि.—कृपातीत देवोनी मनुष्यमा उपपात.—प्रैवे-यद् देवोनी मनुष्यमा उपपात पृ० १८८.—अतुरोपपातिक देवोनी मनुष्यमा उपपात —सर्वाथसिद्ध देवोनी मनुष्यमा उपपात पृ० १८९.—सर्वाथसिद्ध देवोनी जघन्य० मनुष्यमा उपपात.—सर्वाथसिद्ध देवोनी उत्कृष्ट० मनुष्यमा उपपात पृ० १९०.

शतक २४ उद्देशक २२ पृ० १९०-१९१.

व्यतर देवोमा उपपात.—असंख्याता० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोनी वानव्यन्तरमा उपपात —असंख्याता० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचनी जघन्य० वानव्यन्तरमा उत्पत्ति पृ० १९०.—असंख्याता० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचनी उत्कृष्ट वानव्यन्तरमा उत्पत्ति.—असंख्याता० मनुष्योनी वानव्यन्तरमा उपपात पृ० १९१.

शतक २४ उद्देशक २३ पृ० १९१-१९३.

ज्योतिषिकमा उपपात —संज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यचोनी ज्योतिषिकमा उपपात.—असंख्याता० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोनी ज्योतिषिकमा उपपात पृ० १९१.—असंख्याता० संज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यचोनी ज्योतिषिकमा उपपात.—जघन्य० असंख्याता० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोनी ज्योतिषिकमा उपपात.—असंख्याता० संज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यचोनी उपपातसंख्या —असंख्याता० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोनी ज्योतिषिकमा उपपात.—संख्याता० संज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यचोनी ज्योतिषिकमा उपपात पृ० १९२.—मनुष्योनी ज्योतिषिकमा उपपात.—संख्याता संज्ञी मनुष्योनी ज्योतिषिकमा उपपात पृ० १९३.

शतक २४ उद्देशक २४ पृ० १९३-१९७.

वैमानिकोमा उपपात —असंख्याता० संज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यचोनी सौधर्म देवलोकमा उपपात —परिमाणानि पृ० १९३.—असंख्याता० संज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यचोनिर्गो जघन्य० सौधर्म देवलोकमा उपपात —असंख्याता० संज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यचनी उत्कृष्ट० सौधर्म देवलोकमा उत्पत्ति.—जघन्य० असंख्याता० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोनी सौधर्म देवलोकमा उपपात —उत्कृष्ट० असंख्याता० संज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यचोनी सौधर्म देवलोकमा उपपात.—संख्याता संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोनी सौधर्म देवलोकमा उपपात —मनुष्योनी सौधर्म देवलोकमा उपपात पृ० १९४.—संख्याता० संज्ञी मनुष्योनी सौधर्म देवलोकमा उपपात —ईशान देवोनी उपपात.—संख्याता० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचो अने मनुष्योनी ईशान देवलोकमा उपपात.—सनत्कुमार देवोनी उपपात —संख्याता० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोनी सनत्कुमारमा उपपात पृ० १९५.—मनुष्योनी सनत्कुमारमा उपपात —माहेन्द्र देवोनी उपपात.—आगत देवोनी उपपात —प्रैवेय-कोनी उपपात —विजयादिनी उपपात पृ० १९६.—सर्वाथसिद्ध देवोमा उपपात —जघन्य० संज्ञी मनुष्योनी सर्वाथसिद्ध देवोमा उपपात.—उत्कृष्ट संज्ञी मनुष्योनी सर्वाथसिद्धमा उपपात पृ० १९७.

शतक २५ उद्देशक १ पृ० १९८-२०१.

देश्या —संसारी जीवना चाँद मेद पृ० १९८ —योगसुं अल्पबहुत्व पृ० १९९ —प्रथम समयमा उत्पन्न थयेला वे नैरधिकने आश्रयी योग —योगना प्रकार.—योगसुं अल्पबहुत्व पृ० २०१

शतक २५ उद्देशक २ पृ० २०१-२०३.

द्रव्यना प्रकार —अजीव द्रव्योना प्रकार —जीवद्रव्योनी संख्या —जीवद्रव्यो अनंत होवालुं कारण ?—अजीव द्रव्योनी परिभोग पृ० २०१ —नैरधिकोने अजीव द्रव्योनी परिभोग —असत्य लोकाकाशमा अनंत द्रव्योनी स्थिति —एक आकाश प्रदेशमा पुद्गलोनी चयापचय —आदारीकादि शरीररूपे स्थित के अभ्यंत द्रव्यो ग्रहण कराय ?—द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भावधी द्रव्यग्रहण पृ० २०३

शतक २५ उद्देशक ३ पृ० २०४-२१५.

संस्थान —परिमंडलनी संख्या —वृत्तादिनी संख्या —अल्पबहुत्व —द्रव्यावृत्ते संस्थान पृ० २०४.—परिमंडलनी संख्या —वृत्तनी संख्या —रत्न-प्रभामा परिमंडल संस्थानो —वृत्त संस्थान —शर्कराप्रभामा परिमंडल संस्थान —प्रैवेयक विमानमा परिमंडल संस्थान —यवमध्यक्षेत्रमा वीजा परिमंडल संस्थानो —वृत्त संस्थानो पृ० २०५.—वृत्त संस्थान साधे परिमंडलादिनी संख्यन्व —रत्नप्रभामा परिमंडलादि संस्थानो —वृत्त संस्थान केटला प्रदेशवाळुं अने केटला प्रदेशमा अवगाढ होय ? पृ० २०६ —त्र्यससंस्थान केटला प्रदेशवाळुं अने केटला आकाश प्रदेशमा अवगाढ होय ?—चतुरस्र संस्थान केटला प्रदेश-वाळुं अने केटला प्रदेशमा अवगाढ होय ?—आयत संस्थान केटला प्रदेशवाळुं अने केटला आकाश प्रदेशमा अवगाढ होय ? पृ० २०७.—परिमंडल संस्थान केटला प्रदेशवाळुं अने केटला आकाश प्रदेशमा अवगाढ होय ?—परिमंडलादि संस्थाननी कृतयुगमादिरूपता पृ० २०८.—परिमंडलादि संस्थाननी कृतयु

के लक्ष्ये?—निर्ग्रन्थ वेदसहित के वेदरहित?—ऋतक मवेद के निवेद?—३ रागद्वार—पुलाक, वयुश अने कुशील सराग के वीतराग?—
निर्ग्रन्थ सराग के वीतराग?—४ करपद्वार—स्थित अने अस्थितकल्प—पुलाक अने कल्प पृ० २४२—वयुश अने कर—कपायकुशील
अने कल्प—निर्ग्रन्थ अने कल्प—५. चारित्रद्वार—पुलाक अने चारित्र—कपायकुशील अने चारित्र—६ प्रतिषेवनाद्वार—पुलाक अने प्रतिषेवना
पृ० २४३—वयुश अने प्रतिषेवना—कपायकुशील अने प्रतिषेवना—७ ज्ञानद्वार—पुलाक अने ज्ञान—कपायकुशील अने निर्ग्रन्थोने ज्ञान—
ऋतकने ज्ञान—८ श्रुतद्वार—पुलाकने श्रुत—वयुशने श्रुत पृ० २४४—कपायकुशीलने श्रुत—९ तीर्थद्वार—पुलाक अने तीर्थ—कपायकुशील अने
तीर्थ—१० लिंगद्वार—पुलाक अने लिंग—११ शरीरद्वार—पुलाकने शरीर—वयुशने शरीर—कपायकुशीलने शरीर—पृ० २४५. १२ क्षेत्र-
द्वार—पुलाक अने क्षेत्र—वयुश अने क्षेत्र—१३ काळद्वार—पुलाकने काळ पृ० २४६—वयुशने काळ—१४ गतिद्वार—पुलाकने गति पृ०
२४७—निर्ग्रन्थनी गति—ऋतकनी गति—पुलाक कया देवपणे उपजे?—कपायकुशील कया देवपणे उपजे?—निर्ग्रन्थ कया देवपणे उपजे?
पुलाकनी देवलोकमा स्थिति पृ० २४८—कपायकुशीलनी देवलोकमा स्थिति—निर्ग्रन्थनी देवलोकमा स्थिति—१४ संगमद्वार—पुलाकामिने संगमस्थानो—
निर्ग्रन्थने संगमस्थानो—संगमस्थानोनु अल्पबहुत्व—पुलाकामिने चारित्रपर्यायो—१५ सनिकर्षद्वार—पुलाकने स्थानसन्निर्घर्ष पृ० २४९—पुलाकने-
वयुशनी अपेक्षाए परस्थानसंनिकर्ष—वयुशना पुलाकनी अपेक्षाए चारित्रपर्यायो—वयुशना स्वस्थाननी अपेक्षाए चारित्रपर्यायो—वयुशना प्रतिषेवना-
कुशीलनी अपेक्षाए चारित्रपर्यायो—वयुशना निर्ग्रन्थनी अपेक्षाए चारित्रपर्यायो—प्रतिषेवनाकुशील अने कपायकुशीलना चारित्रपर्यायो—पुलाकनी
अपेक्षाए निर्ग्रन्थना चारित्रपर्यायो पृ० २५०—निर्ग्रन्थना सजातीयनी अपेक्षाए चारित्रपर्यायो—ऋतकना पुलाकनी अपेक्षाए चारित्रपर्यायो—
पुलाकामिनु अल्पबहुत्व—१६ योगद्वार—पुलाक अने योग—ऋतक अने योग—१७ उपयोगद्वार—पुलाक अने उपयोग पृ० २५१—१८
कपायद्वार—पुलाकने कपायो—कपायकुशीलने कपायो—निर्ग्रन्थने कपाय—१९ ऐश्याद्वार—पुलाकने ऐश्या—कपायकुशीलने ऐश्या—निर्ग्रन्थने
ऐश्या—ऋतकने ऐश्या पृ० २५२—२० परिणामद्वार—पुलाक अने परिणाम—निर्ग्रन्थ अने परिणाम—पुलाकना परिणामनो काळ—निर्ग्रन्थना
परिणामनो काळ पृ० २५३—२१ वन्धद्वार—पुलाकने कर्मप्रकृतिओनो वन्ध—वयुशने कर्मप्रकृतिओनो वन्ध—कपायकुशीलने प्रकृतिओनो वन्ध—
निर्ग्रन्थने कर्मप्रकृतिओनो वध—ऋतकने कर्मप्रकृतिओनो वध—२२ वेदद्वार—पुलाकने कर्मनुं वेदन पृ० २५४—निर्ग्रन्थने कर्मवेदन—ऋतकने
कर्मवेदन—२३ उर्ध्वद्वार—पुलाकने उर्ध्वद्वार—वयुशने उर्ध्वद्वार—कपायकुशीलने उर्ध्वद्वार—ज्ञानने उर्ध्वद्वार—२४ उपसपट्ट-हानद्वार—पुला-
कनी उपसपट्ट-हान—वयुशनी उपसपट्ट अने हान पृ० २५५—प्रतिषेवनाकुशीलनी उपसपट्ट अने हान—कपाय कुशीलनी उपसपट्ट अने हान—
निर्ग्रन्थ शु छोडे अने शु पामे?—ऋतक शु छोडे अने शु पामे?—२५ सजाद्वार—पुलाक अने सजा—वयुश अने सजा—२६ आहारद्वार—पुलाक
अने आहार—ऋतक अने आहार—२७ भवद्वार—पुलाकने भव पृ० २५६—वयुशने भव—ऋतकने भव—२८ आकर्षद्वार—पुलाकने आकर्ष—
वयुशने आकर्ष—निर्ग्रन्थने आकर्ष—ऋतकने आकर्ष—पुलाकने अनेक भवमा आकर्ष—वयुशने अनेक भवमा आकर्ष—निर्ग्रन्थने आकर्ष पृ०
२५७—ऋतकने आकर्ष—२९ काळद्वार—पुलाकने काळ—वयुशने काळ—निर्ग्रन्थने काळ—ऋतकने काळ—पुलाकने काळ—वयुशने
काळ—३० अन्तरद्वार—पुलाकामिनु अन्तर—ऋतकनु अन्तर पृ० २५८ पुलाकने अन्तर—वयुशनु अन्तर—निर्ग्रन्थनु अन्तर—३१ समुदातद्वार—
पुलाकने समुदात—वयुशने समुदात—कपायकुशीलने समुदातो—निर्ग्रन्थने समुदातो—ऋतकने समुदात—३२ क्षेत्रद्वार—पुलाकनु क्षेत्र—ऋतकनु
क्षेत्र पृ० २५९—३३ स्पर्शनाद्वार—३४ भावद्वार—पुलाकने भाव—निर्ग्रन्थने भाव—ऋतकने भाव—३५ परिमाणद्वार—पुलाकने सत्या—
वयुशने सत्या—कपायकुशीलने सत्या—निर्ग्रन्थने सत्या पृ० २६०—ऋतकने सत्या—३६ पुलाकामिनु अल्पबहुत्व पृ० २६१.

शतक २५ उद्देशक ७ पृ० २६१—२८२.

१ प्रमाणद्वार—स्यतना प्रकार—सामाधिकस्यतना प्रकार—छेदोपस्थापनीयस्यतना प्रकार पृ० २६१—परिहारविशुद्धिना प्रकार—सूक्ष्मसंप-
रायना प्रकार—यथाख्यातस्यतना प्रकार—सामाधिकस्यतादिनु स्वरूप—२ वेदद्वार—सामाधिकस्यतने वेद—३ रागद्वार—सामाधिकस्यत अने
राग—४ कल्पद्वार—सामाधिकस्यतने कल्प—छेदोपस्थापनीयने कल्प पृ० २६२—सामाधिक अने पुलाकामि—परिहारविशुद्धि अने पुलाकामि—यथा-
ख्यात अने पुलाकामि—५ प्रतिषेवाद्वार—सामाधिक स्यत अने प्रतिषेवक—परिहारविशुद्धि अने प्रतिषेवक—६ ज्ञानद्वार—७ श्रुतद्वार—सामाधिक-
स्यतने श्रुत पृ० २६३—परिहारविशुद्धिकने श्रुत—यथाख्यातने श्रुत—८ तीर्थद्वार—९ लिंगद्वार—१० शरीरद्वार—११ क्षेत्रद्वार—१२ काळद्वार
पृ० २६४—१३ गतिद्वार—सामाधिकस्यतनी स्थिति—परिहारविशुद्धिनी स्थिति—१४ स्यमस्थानद्वार—सामाधिकस्यतना स्यमस्थान पृ०
२६५ सूक्ष्मसंपरायना स्यमस्थान—यथाख्यातना स्यमस्थान—संगमस्थानोनु अल्पबहुत्व—१५ सनिकर्षद्वार—सामाधिकस्यतना चारित्रपर्यायो—
सामाधिकस्यतनु सजातीय पर्यायनी अपेक्षाए अल्पबहुत्व—सामाधिक अने छेदोपस्थापनीयनु पर्यायापेक्षाए अल्पबहुत्व—सामाधिकना सूक्ष्मसंपरायनी
अपेक्षाए पर्यायो—सूक्ष्मसंपरायना सामाधिकनी अपेक्षाए पर्यायो पृ० २६६—सामाधिकस्यतादिनु अल्पबहुत्व—१६ योगद्वार—१७ उपयोगद्वार—
१८ कपायद्वार—१९ ऐश्याद्वार—२० परिणामद्वार—परिणामनो काळ—२१ वन्धद्वार—२२ वेदनद्वार—२३ उर्ध्वद्वार—२४ उपसपट्ट-हान-
द्वार—सामाधिकस्यत शु छोडे अने शु स्वीकारे—छेदोपस्थापनीय शु छोडे अने शु प्राप्त करे? पृ० २६९—२५ सजाद्वार—२६ आहारद्वार—२७
भवद्वार—२८ आकर्षद्वार—परिहारविशुद्धिकने आकर्ष पृ० २७०—सूक्ष्मसंपराय स्यतने आकर्ष—यथाख्यात स्यतने आकर्ष—सामाधिक स्यतने अनेक
भवमा आकर्ष—२९ काळद्वार—सामाधिकामिनु स्यतनो काळ पृ० २७१—३० अन्तरद्वार—सामाधिकामिस्यतनु अन्तर—सामाधिकामि संयतोनु
अन्तर—३१ समुदातद्वार पृ० २७२—३२ क्षेत्रद्वार—३३ स्पर्शनाद्वार—३४ भावद्वार—३५ परिमाणद्वार—३६ सामाधिकस्यतादिनु अल्पबहुत्व
पृ० २७३—प्रतिषेवनाना प्रकार—आलोचनाना टम दोष—आलोचना करवा योग्य साधु पृ० २७४—आलोचना आपनारना युग—सामाचारिना दम-
प्रकार—प्रायश्चित्तना दस प्रकार—तपना प्रकार पृ० २७५ अनशनना प्रकार—इत्यरिक अनशनना प्रकार—वायव्यिक अनशनना प्रकार—पादपोष-
गमनना प्रकार—भक्तप्रत्याख्यानना प्रकार—उनोदरिज्ञाना प्रकार—इत्यकनोदरिज्ञाना प्रकार—उपकरणद्रव्यकनोदरिज्ञाना प्रकार पृ० २७६—भक्त-
पानद्रव्यकनोदरिज्ञाना स्वरूप—भावकनोदरिज्ञाना प्रकार—विज्ञाचर्याना प्रकार—रमपरिचर्याना प्रकार—वायव्यकनोदरिज्ञाना प्रकार—प्रतिषेवनाना प्रकार—
इन्द्रियप्रतिषेवनाना प्रकार पृ० २७७—कपायप्रतिषेवनाना प्रकार—योगसंलीनताना प्रकार—कायसंलीनताना प्रकार—अभ्यन्तर तपना प्रकार—
प्रायश्चित्तना प्रकार—विनयना प्रकार—ज्ञानविनयना प्रकार पृ० २७८—दर्शनविनयना प्रकार—शुश्रूषाविनयना प्रकार—चारित्रविनयना प्रकार—
मनविनयना प्रकार—प्रशस्त मनविनयना प्रकार—अप्रशस्त विनयना प्रकार—वचनविनयना प्रकार पृ० २७९. प्रशस्त वचनविनयना प्रकार—
अप्रशस्त वचनविनयना प्रकार—अप्रशस्त कायविनयना प्रकार—अप्रशस्त कायविनयना प्रकार—लोकोपचारविनयना प्रकार—वैय्याहृत्यना प्रकार—
स्वाध्यायना प्रकार पृ० २८०—ध्यानना प्रकार—आर्तस्थानना प्रकार—आर्तस्थानना लक्षण—रौद्रध्यानना प्रकार—रौद्रध्यानना लक्षण—धर्मस्थानना

प्रकार.—धर्मध्यानना लक्षण.—धर्मध्यानना आलंबन.—धर्मध्याननी चार भावना.—शुक्रध्यानना प्रकार पृ० २८१.—शुक्रध्यानना चार लक्षण.—शुक्रध्या-
नना चार आलंबन —शुक्रध्याननी चार भावना.—व्युत्सर्गना प्रकार.—द्रव्यव्युत्सर्गना प्रकार —भावव्युत्सर्गना प्रकार.—रूपायव्युत्सर्गना प्रकार —संसार-
व्युत्सर्गना प्रकार —कर्मव्युत्सर्गना प्रकार पृ० २८२

शतक २५ उद्देशक ८ पृ० २८२-२८३.

नारकोनी उत्पत्ति पृ० २८२—नारकोनी गति —परभवायुपना बंधुं कारण —ते जीवोनी गतिं कारण —उत्पत्तिं कारण स्त्रीय कर्म के परकीय
कर्म.—उत्पत्तिं कारण स्वप्रयोग के परप्रयोग ?—असुरकुमारनी उत्पत्ति केम थाय ? पृ० २८३.

शतक २५ उद्देशक ९-१२ पृ० २८४.

भवसिद्धिक नैरयिकनी उत्पत्ति —अभवसिद्धिक नैरयिकनी उत्पत्ति —सम्यग्दृष्टि नैरयिकनी उत्पत्ति —मिथ्यादृष्टि नैरयिको केम उपजे ? पृ० २८४.

शतक २६ उद्देशक १ पृ० २८५.

१ जीवद्वार—सामान्य जीवने आश्रयी पापकर्मनी बन्धवक्तव्यता —२ ऐश्याद्वार—सलेश्य जीवने आश्रयी बन्ध पृ० २८५ —ऐश्यारहित जीवने
बन्ध.—३ पाक्षिकद्वार—कृष्णपाक्षिकने आश्रयी बन्ध —शुक्रपाक्षिकने आश्रयी बन्ध —४ दृष्टिद्वार—५-६ ज्ञान अने अज्ञान.—७ सद्गाद्वार पृ०
२८६ —८ वेदद्वार —९ कपायद्वार.—१०-११—योग अने उपयोगद्वार—नैरयिकादि दंडकने आश्रयी पापकर्मनी बन्धवक्तव्यता —पृ० २८७ —ज्ञाना-
वरणीयनो बन्ध.—वेदनीयकर्मबन्ध पृ० २८८ —नैरयिकादिने आश्रयी वेदनीय कर्मनो बन्ध.—मोहनीयकर्मबन्ध.—आयुपकर्मबन्ध पृ० २८९.—
नैरयिकने आश्रयी आयुपकर्मनो बन्ध पृ० २९०

शतक २६ उद्देशक २ पृ० २९०-२९१

अनन्तरोपपन्न नैरयिकने पापकर्मनो बन्ध पृ० २९०.—आयुपनो बन्ध —पृ० २९१.

शतक २६ उद्देशक ३ पृ० २९१.

परंपरोपपन्न नैरयिकने पापकर्मनो बन्ध पृ० २९१

शतक २६ उद्देशक ४ पृ० २९२.

अनन्तरावगाढ नैरयिकने आश्रयी कर्मबन्ध पृ० २९२

शतक २६ उद्देशक ५ पृ० २९२.

परंपरावगाढ नैरयिकने आश्रयी कर्मबन्ध पृ० २९२.

शतक २६ उद्देशक ६ पृ० २९२.

अनन्तराहारक नैरयिकने कर्मबन्ध पृ० २९२

शतक २६ उद्देशक ७ पृ० २९२.

परंपराहारक नैरयिकने कर्मबन्ध. पृ० २९२.

शतक २६ उद्देशक ८ पृ० २९३.

अनन्तरपर्याप्त नैरयिकने कर्मबन्ध पृ० २९३

शतक २६ उद्देशक ९ पृ० २९३.

परंपरपर्याप्त नैरयिकने कर्मबन्ध पृ० २९३.

शतक २६ उद्देशक १० पृ० २९३.

चरम नैरयिकने कर्मबन्ध पृ० २९३

शतक २६ उद्देशक ११ पृ० २९३-२९५.

अचरम नैरयिकने कर्मबन्ध पृ० २९३.—अचरम मनुष्यने बन्ध —ऐश्यासहित अचरम मनुष्यने बन्ध —अचरम नैरयिकने ज्ञानावरणीयनो बन्ध.—
अचरम नैरयिकने मोहनीय कर्मबन्ध.—अचरम नैरयिकने आयुपबन्ध पृ० २९४.

शतक २७ पृ० २९६.

जीवे पापकर्म कर्तुं हतुं, करे छे अने करशे—इत्यादि संबंधे प्रश्न पृ० २९६.

शतक २८ उद्देशक १ पृ० २९७.

करै गतिमा पापकर्मनुं समर्जन थाय ?—ऐश्या—नैरयिकने पापकर्मनुं समर्जन पृ० २९७.

शतक २८ उद्देशक २ पृ० २९८.

अनन्तरोपपन्न नैरयिकने पापकर्मनुं समर्जन पृ० २९८.

शतक २८ उद्देशको ३-११ पृ० २९८.

एज क्रममी अहीं पण आठ उद्देशकनुं कथन पृ० २९८.

शतक २९ उद्देशक १ पृ० २९९-३००.

पापकर्मना वेदननो प्रारंभ अने अन्त —तेम कहेवानुं कारण पृ० २९९ —ऐश्याने आश्रयी प्रस्मापन अने निष्ठापन पृ० ३००.

शतक २९ उद्देशक २ पृ० ३००.

अनन्तरोपपन्न नैरयिकने आश्रयी समक प्रस्थापनादि —तेनो हेतु —सलेश्य नैरयिकने आश्रयी समक प्रस्थापनादि पृ० ३००.

शतक २९ उद्देशक ३-११ पृ० ३०१.

बन्धिशतकमां कहेला क्रमे अहीं पण नव उद्देशकोसुं कथन पृ० ३०१.

शतक ३० उद्देशक १ पृ० ३०२-३०८.

समवसरण —जीवोने क्रियावादित्वादि —सलेश्य जीवोने क्रियावादित्वादि पृ० ३०२ —लेद्यारहित जीवोने क्रियावादित्वादि.—कृष्णपाक्षिकने क्रियावादित्वादि.—मिश्रदृष्टिने क्रियावादित्वादि —नैरयिकोने क्रियावादित्वादि.—पृथिवीकायिकोने क्रियावादित्वादि पृ० ३०३ —क्रियावादीने आयुपनो बन्ध —अक्रियावादीने आयुपनो बन्ध —सलेश्य क्रियावादीने आयुपनो बन्ध —कृष्णलेद्यावाळा क्रियावादीने आयुपनो बन्ध पृ० ३०४.—तेजोलेद्यावाळा क्रियावादीने आयुपनो बन्ध.—लेद्यारहित क्रियावादीने आयुपनो बन्ध.—कृष्णशक्ति अक्रियावादीने आयुपनो बन्ध —सम्यग्दृष्टि क्रियावादीने आयुपनो बन्ध.—सम्यग्मिथ्यादृष्टि अज्ञानवादीने आयुपनो बन्ध.—मन पर्यवज्ञानीने आयुपनो बन्ध. पृ० ३०५ —क्रियावादी नैरयिकोने आयुपनो बन्ध.—सलेश्य क्रियावादी नैरयिकोने आयुपनो बन्ध —अक्रियावादी पृथिवीकायिकोने आयुपनो बन्ध. पृ० ३०६.—क्रियावादी पंचेन्द्रिय तिर्यंचने आयुपनो बन्ध.—कृष्णलेद्यावाळा क्रियावादी पंचेन्द्रिय तिर्यंचने आयुपनो बन्ध.—क्रियावादी भव्य के अभव्य ? अक्रियावादी भव्य के अभव्य ? पृ० ३०७—सलेश्य क्रियावादी भव्य के अभव्य ?—सलेश्य अक्रियावादी भव्य के अभव्य ?—लेद्यारहित क्रियावादी भव्य के अभव्य ? पृ० ३०८.

शतक ३० उद्देशक २ पृ० ३०९.

अनन्तरोपपन्न नैरयिकोने क्रियावादित्वादि.—क्रियावादी अनन्तरोपपन्न नैरयिकोने आयुपबन्ध.—अनन्तरोपपन्न क्रियावादी नैरयिको भव्य के अभव्य ? पृ० ३०९.

शतक ३० उद्देशक ३ पृ० ३१०.

परपरोपपन्न नैरयिको हुं क्रियावादी छे इत्यादि प्रश्न पृ० ३१०.

शतक ३० उद्देशक ४-११ पृ० ३१०.

बंधिशतकमां कहेला क्रमप्रमाणे आठ उद्देशकोसुं कथन पृ० ३१०.

शतक ३१ उद्देशक १ पृ० ३११.—३१२.

छद्रयुग्म —चार छद्र युग्मो कहेवानो हेतु.—नैरयिकोको उपपात—उपपातसख्या पृ० ३११.—उपपातनो प्रकार —रत्नप्रभा नैरयिकोको उपपात.—छद्रयुग्मराशिप्रमाण नैरयिकोको उपपात.—उपपातसख्या.—छद्रद्वयपरयुग्मप्रमित नैरयिकोको उपपात.—छद्रकल्योजप्रमाण नैरयिकोको उपपात पृ० ३१२.

शतक ३१ उद्देशक २ पृ० ३१३.

छद्र कृतयुग्मप्रमाण कृष्णलेद्यावाळा नैरयिकोको उपपात —कृष्ण० छद्रकल्योज प्रमाण नैरयिकोको उपपात —कृष्ण० छद्रकल्योजप्रमाण नैरयिकोको उपपात पृ० ३१३.

शतक ३१ उद्देशक ३ पृ० ३१३.

नील० छद्र कृतयुग्म नैरयिकोको उपपात पृ० ३१३

शतक ३१ उद्देशक ४ पृ० ३१४.

कापोत० छद्र कृतयुग्म नैरयिको कयांथी आवी उपजे ? पृ० ३१४.

शतक ३१ उद्देशक ५ पृ० ३१४.

भव्य छद्र कृतयुग्म नैरयिकोको उपपात पृ० ३१४.

शतक ३१ उद्देशक ६ पृ० ३१४.

कृष्ण० भव्य कृतयुग्म नैरयिकोको उपपात पृ० ३१४

शतक ३१ उद्देशक ७-२८ पृ० ३१५.

नीललेद्यावाळा अने कापोतलेद्यावाळा नैरयिको सवधे चारे युग्मोने आश्रयी कथन—अभवसिद्धिक सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, कृष्णपाक्षिक अने शुकृ-पाक्षिक संबंधे चार चार उद्देशकोसुं कथन.

शतक ३२ उद्देशको १-२८ पृ० ३१६.

छद्र कृतयुग्म राशिरूप नैरयिकोनी उद्धर्तना —एक समये केटला उद्धर्तें अने केवी रीते उद्धर्तें ?—कृतयुग्मरूप रत्नप्रभा नैरयिकोनी उद्धर्तना पृ० ३१६.

शतक ३३ एकेन्द्रियशतक १ पृ० ३१७.

एकेन्द्रियना प्रकार —पृथिवीकायना प्रकार —सूक्ष्म पृथिवीकायना प्रकार.—वादर पृथिवीकायिकना प्रकार —कर्मप्रकृतिओ —कर्मप्रकृतिओनो बन्ध —वर्मप्रकृतिओसु वेदन.—अनन्तरोपपन्न एकेन्द्रियना प्रकार —अनन्तरोपपन्न एकेन्द्रियने कर्म प्रकृतिओ पृ० ३१८.—अनन्तरोपपन्न एकेन्द्रियने वर्मप्रकृतिओनो बन्ध.—अनन्तरोपपन्न एकेन्द्रियने कर्मप्रकृतिओसु वेदन.—परपरोपपन्न एकेन्द्रियने वर्मप्रकृतिओ पृ० ३१९

शतक ३३ एकेन्द्रियशतक २ पृ० ३२०.

कृष्णलेद्यावाळा एकेन्द्रियोना प्रकार.—पृथिवीकायिकोना प्रकार —कृष्णलेद्यावाळा सूक्ष्म पृथिवीकायिकोना प्रकार —अनन्तरोपपन्न कृष्णलेद्यावाळा एकेन्द्रियोना प्रकार —परपरोपपन्न कृष्णलेद्यावाळा एकेन्द्रियना प्रकार पृ० ३२०.

शतक ३३ एकेन्द्रियशतक ३ पृ० ३२१.

नीललेख्यावाळा एकेन्द्रियोना प्रकार वगेरे पृ० ३२१.

शतक ३३ एकेन्द्रियशतक ४ पृ० ३२१.

कापोतलेख्यावाळा एकेन्द्रियोना प्रकार वगेरे—पृ० ३२१.

शतक ३३ एकेन्द्रियशतक ५ पृ० ३२१.

भवसिद्धिक एकेन्द्रियना प्रकार पृ० ३२१.

शतक ३३ एकेन्द्रियशतक ६ पृ० ३२१.

कृष्णलेख्यावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियोना प्रकार पृ० ३२१ —अनन्तरोपपन्न कृष्ण० भवसिद्धिक एकेन्द्रियना प्रकार पृ० ३२३.

शतक ३३ एकेन्द्रियशतक ७ पृ० ३२२.

नीललेख्यावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियोना प्रकार वगेरे पृ० ३२२.

शतक ३३ एकेन्द्रियशतक ८ पृ० ३२३.

कापोतलेख्यावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियोना प्रकार वगेरे पृ० ३२३.

शतक ३३ एकेन्द्रियशतक ९ पृ० ३२३.

अभवसिद्धिक एकेन्द्रियोना प्रकार वगेरे पृ० ३२३.

शतक ३३ एकेन्द्रियशतक १० पृ० ३२३.

कृष्णलेख्यावाळा अभवसिद्धिक एकेन्द्रियोना प्रकारादि सबधे प्रश्न पृ० ३२३.

शतक ३३ एकेन्द्रियशतक ११ पृ० ३२३.

नीललेख्यावाळा अभवसिद्धिक एकेन्द्रियोना प्रकारादि सबन्धे प्रश्न

शतक ३३ एकेन्द्रियशतक १२ पृ० ३२३.

कापोतलेख्यावाळा अभवसिद्धिक एकेन्द्रियना प्रकारादि पृ० ३२३

शतक ३४ एकेन्द्रियशतक १ उद्देशक १ पृ० ३२४—३३२.

एकेन्द्रियना प्रकार.—अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकनी गति —तेमा एक, वे अने त्रण समय थवातुं कारण पृ० ३२४ —अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवी-कायिकनी पर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकपणे विग्रहगति.—अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकनी वादर तेजस्कायिकपणे विग्रहगति—पर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकनी विग्रहगति पृ० ३२५—अपर्याप्त वादर तेजस्कायिकनी उपपात—पर्याप्त वादर वनस्पतिकायिकनी उत्पाद.—अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकनी उत्पाद पृ० ३२६—अपर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रियनो शर्कराप्रभाना पूर्व चरमांतधी पश्चिम चरमांतर्मा उपपात पृ० ३२७.—अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकनी विग्रह-गति.—त्रण समयनी के चार समयनी विग्रहगतिंतुं कारण पृ० ३२७—अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकनी वादर तेजस्कायिकपणे केटला समयनी गति होय ? —अपर्याप्त वादर तेजस्कायिकनी विग्रहगति —अपर्याप्त वादर तेजस्कायिकनी पर्याप्त सूक्ष्म तेजस्कायिकरूपे विग्रहगति पृ० ३२८.—अपर्याप्त वादर तेजस्कायिकनी विग्रहगति—अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकनी ऊर्ध्वलोकमाधी अधोलोकमा विग्रहगति पृ० ३२९.—लोकना पूर्व चरमांतर्मा पृथिवीकायिकनी विग्रहगति पृ० ३२९—तेतुं कारण.—अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकनी उपपात—तेनी लोकना पूर्वचरमांतधी पश्चिम चरमान्तमा विग्रहगति पृ० ३३०.—वादरपृथिवीकायिकनी स्थान—अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकने कर्मप्रकृतिओ.—अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकने कर्मबन्ध.—एकेन्द्रियने कर्मनु वेदन.—एकेन्द्रियोनी उपपात—एकेन्द्रियने समुद्रात—एकेन्द्रियो तुल्य के विशेषाधिक कर्म करे ? पृ० ३३२

शतक ३४ एकेन्द्रियशतक १ उद्देशक २ पृ० ३३३.

अनन्तरोपपन्न एकेन्द्रियना प्रकार —अनन्तरोपपन्न वादर पृथिवीकायिकना स्थानो—अनन्तरोपपन्न एकेन्द्रियने कर्मप्रकृतिओ.—तेओ कयाधी आवीने उपजे छे ?—अनन्तरोपपन्न एकेन्द्रियने समुद्रातो पृ० ३३३.—कर्मवधनी विशेषता पृ० ३३४

शतक ३४ एकेन्द्रियशतक १ उद्देशक ३ पृ० ३३४.

परंपरोपपन्न एकेन्द्रियोना प्रकार —परंपरोपपन्न एकेन्द्रियनी विग्रहगति पृ० ३३४.

शतक ३४ एकेन्द्रियशतक १ उद्देशक ४—११ पृ० ३३५.

ए रीते वाकीना आठ उद्देशकोतु यावत् अचरम सुधी कथन पृ० ३३५

शतक ३४ एकेन्द्रियशतक २ पृ० ३३५.

कृष्णलेख्यावाळा एकेन्द्रियोना प्रकार —कृष्णलेख्यावाळा एकेन्द्रियोनी विग्रहगतिधी उपपात.—कृष्णलेख्यावाळा एकेन्द्रियना स्थानो पृ० ३३५.

शतक ३४ एकेन्द्रियशतक ३—५ पृ० ३३६.

नीललेख्यावाळा, कापोतलेख्यावाळा अने भवसिद्धिक एकेन्द्रियो संबन्धे अनुक्रमे त्रीजा, चोथा अने पाचमा शतकतुं कथन पृ० ३३६.

शतक ३४ एकेन्द्रियशतक ६ पृ० ३३६.

कृष्णलेख्यावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियोना प्रकार —अनन्तरोपपन्न कृष्ण० भवसिद्धिक एकेन्द्रियोना प्रकार.—परंपरोपपन्न कृष्ण० भव० एकेन्द्रियना प्रकार.—तेओनी विग्रहगति.—पृथिवीकायिकना स्थानो.

शतक ३४ एकेन्द्रियशतक ७-१२ पृ० ३३७.

नीलदेद्यावाळा अने कापोतदेद्यावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियो सवन्धे सातमा अने धाठमा शतकतुं कथन. ए रीते भवसिद्धिको संबन्धे षण चार शतकोनुं कथन पृ० ३३७.

शतक ३५ एकेन्द्रियमहायुग्मशतक १ उद्देशक १ पृ० ३३८-३४२.

महायुग्मना प्रकार.—सोल महायुग्म कडेवानु कारण पृ० ३३८ —कृतयुग्मकृतयुग्म राशिरूप एकेन्द्रियोनु उपपात.—एक समयमा उपपातसख्या —ते जीवो केटला काळे खाली घाय ? पृ० ३३९. ज्ञानावरणीयना वन्धक —वेदक.—सातावेदक अने असातावेदक.—वेद्योने देद्या.—वेद्योना शरीरोना वर्णादि —अनुबन्धकाळ पृ० ३४०—संबन्धादि.—सर्व जीवोनु कृतयुग्मकृतयुग्मराशिरूप एकेन्द्रियपणे उत्पाद.—कृतयुग्मज्योजराशिरूप एकेन्द्रियोनु उत्पाद—उत्पादसख्या.—कृतयुग्मद्वारप्रमाण एकेन्द्रियोनु उत्पात.—उपपात संख्या.—कृतयुग्मकृतयुग्मराशिरूप एकेन्द्रियोनु उत्पाद.—ज्योजकृतयुग्मप्रमाण एकेन्द्रियोनु उत्पाद पृ० ३४१.—ज्योजज्योजप्रमाण एकेन्द्रियोनु उपपात —कृतयुग्मकृतयुग्मराशिरूप एकेन्द्रियोनु उत्पाद पृ० ३४२.

शतक ३५ एकेन्द्रियमहायुग्मशतक १ उद्देशक २ पृ० ३४२.

प्रथमसमयोत्पन्न कृतयुग्मकृतयुग्मरूप एकेन्द्रियोनु उत्पाद पृ० ३४२.

शतक ३५ ३-११ उद्देशको पृ० ३४३-३४४

अग्रथमसमयोत्पन्न कृतयुग्मकृतयुग्मरूप एकेन्द्रियोनु उत्पाद —चरमसमय. कृतयुग्मकृतयुग्म एकेन्द्रियोनु उत्पाद.—अचरमसमय कृतयुग्मकृतयुग्मरूप एकेन्द्रियोनु उत्पाद —पृ०. ३४३

शतक ३५ एकेन्द्रियमहायुग्मशतक २ पृ० ३४४-३४५.

कृष्णदेद्यावाळा कृतयुग्मकृतयुग्मरूप एकेन्द्रियो कयांशी आवी उपजे छे ? —कृष्ण० कृतयुग्म २ रूप एकेन्द्रियोनी स्थिति.—प्रथम समयोत्पन्न पूर्वोक्त एकेन्द्रियो कयांशी आवी उपजे ? पृ० ३४५

शतक ३५ एकेन्द्रियमहायुग्मशतक ३ पृ० ३४६

नीलदेद्यावाळा पूर्वोक्त एकेन्द्रियो संबन्धे कथन

शतक ३५ एकेन्द्रियमहायुग्मशतक ४ पृ० ३४६.

कापोतदेद्यावाळा पूर्वोक्त एकेन्द्रिय संबन्धे कथन.

शतक ३५ एकेन्द्रियमहायुग्मशतक ५ पृ० ३४५-३४६.

भवसिद्धिक कृतयुग्म २ एकेन्द्रियो कयांशी आवी उपजे ?

शतक ३५ एकेन्द्रियमहायुग्मशतक ६ पृ० ३४६.

कृष्णदेद्यावाळा पूर्वोक्त एकेन्द्रियो कयांशी आवी उपजे ?

शतक ३५ एकेन्द्रियमहायुग्मशतक ७ पृ० ३४६.

नीलदेद्यावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियो सवन्धे कथन.

शतक ३५ एकेन्द्रियमहायुग्मशतक ८ पृ० ३४६.

कापोतदेद्यावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियो सवन्धे कथन.

शतक ३६ एकेन्द्रियमहायुग्मशतक ९-१२ पृ ३४६

अभवसिद्धिक एकेन्द्रियो संबन्धे चार शतको पृ० ३४६.

शतक ३६ वेइन्द्रियमहायुग्मशतक १ उद्देशक १ पृ० ३४७.

कृतयुग्म २ रूप वेइन्द्रियोनु कयांशी आवी उत्पाद घाय ?—वेइन्द्रियोनु अनुबन्धकाळ —प्रथम समयोत्पन्न कृतयुग्म २ वेइन्द्रियोनु कयांशी आवी उत्पाद घाय ? पृ० ३४७.

शतक ३६ वेइन्द्रियमहायुग्मशतक २-८ पृ० ३४८.

कृष्णदेद्यावाळा कृतयुग्म २ प्रमाण वेइन्द्रिय जीवो कयांशी आवी उत्पाद घाय ? पृ० ३४८.

शतक ३६ वेइन्द्रियमहायुग्मशतक ३ पृ० ३४८.

नीलदेद्यावाळा वेइन्द्रिय सवन्धे कथन —

शतक ३६ वेइन्द्रियमहायुग्मशतक ४ पृ० ३४८.

कापोतदेद्यावाळा वेइन्द्रियसंबन्धे कथन पृ० ३४८

शतक ३६ वेइन्द्रियमहायुग्मशतक ५-८ पृ० ३४९.

भवसिद्धिक कृतयुग्मकृतयुग्मराशिरूप वेइन्द्रियो कयांशी आवी उत्पन्न घाय—इत्यादि प्रश्न.

शतक ३६ वेइन्द्रियमहायुग्मशतक ९-१२ पृ० ३४९.

अभवसिद्धिक पूर्वोक्त एकेन्द्रियो संबन्धे चार शतकोनु कथन पृ० ३४९.

शतक ३७ तेइन्द्रियमहायुगमशतक पृ० ३५०.

कृतयुगम कृतयुगमरूप तेइन्द्रियोनो क्याथी आवी उत्पाद थाय ? पृ० ३५०

शतक ३८ चउरिन्द्रियमहायुगमशतक पृ० ३५१.

चउरिन्द्रियो संबन्धे बार शतकोतुं कयन पृ० ३५१

शतक ३९ असंज्ञी पंचेन्द्रियमहायुगमशतक पृ० ३५२.

कृतयुगमकृतयुगमरूप असंज्ञी पंचेन्द्रियो क्याथी आवी उपजे ? पृ० ३५२.

शतक ४० संज्ञीपंचेन्द्रियमहायुगमशतक १ पृ० ३५३.

कृतयुगम कृतयुगमरूप संज्ञी पंचेन्द्रियो क्याथी आवी उपजे ? तेओ कइ सज्ञाना उपयोगवाळा छे ? प्रथमसमयोत्पन्न कृतयुगमकृतयुगमरूप संज्ञी पंचेन्द्रियो कर्मना बन्धक क्याथी आवी उपजे ? पृ. ३५४

शतक ४० संज्ञीपंचेन्द्रियमहायुगमशतक २ पृ० ३५५.

कृष्णलेश्यावाळा कृत० २ सं० पंचेन्द्रियो क्याथी आवीने उपजे ?—प्रथमसमयोत्पन्न संज्ञी पंचेन्द्रियो क्याथी आवीने उपजे ? पृ० ३५५.

शतक ४० संज्ञीपंचेन्द्रियमहायुगमशतक ३ पृ० ३५६.

नीललेश्यावाळा कृतयुगम २ संज्ञी पंचेन्द्रियो क्याथी आवीने उपजे ? पृ० ३५६

शतक ४० संज्ञीपंचेन्द्रियमहायुगमशतक ४ पृ० ३५६.

कापोतलेश्यावाळा कृतयुगमकृतयुगम राशिरूप संज्ञी पंचेन्द्रियोनो क्याथी आवी उत्पाद थाय ?

शतक ४० संज्ञीपंचेन्द्रियमहायुगमशतक ५ पृ० ३५६.

तेजोलेश्यावाळा संज्ञी पंचेन्द्रियोनो क्याथी आवीने उत्पाद थाय ?

शतक ४० संज्ञी पं० महायुगमशतक ६ पृ० ३५६.

पद्मलेश्यावाळा संज्ञी पंचेन्द्रियोनो क्याथी आवी उत्पाद थाय ? पृ० ३५६

शतक ४० संज्ञीपंचेन्द्रियमहायुगमशतक ७ पृ० ३५७.

शुक्ललेश्यावाळा कृतयुगम २ सं० पंचेन्द्रियोनो क्याथी आवी उत्पाद थाय ?

शतक ४० संज्ञी पं० महायुगमशतक ८ पृ० ३५७.

कृतयुगम २ सं० पंचेन्द्रिय भवसिद्धिकोनो क्याथी आवी उत्पाद थाय ?

शतक ४० संज्ञी पं० महायुगमशतक ९ पृ० ३५७.

कृष्ण० भवसिद्धिक सं० पंचेन्द्रियोनो क्याथी आवी उत्पाद थाय ?

शतक ४० संज्ञी पंचेन्द्रियमहायुगम शतक १० पृ० ३५७.

नीललेश्यावाळा कृतयुगम २ भवसिद्धिक संज्ञी पंचेन्द्रियोनो क्याथी आवी उत्पाद थाय ? पृ० ३५७.

शतक ४० संज्ञीपंचेन्द्रियमहायुगमशतक ११—१४ पृ० ३५८.

संज्ञी पंचेन्द्रियो संबधे सात औधिक शतको कहाँ छे ए रीते भवसिद्धिक संज्ञी पंचेन्द्रिय संबधे पूर्वोक्त सात शतकोतुं कयन पृ० ३५८.

शतक ४० संज्ञीपंचेन्द्रियमहायुगमशतक १६ पृ० ३५८.

कृत० २ अभवसिद्धिक सं० पंचेन्द्रियोनो क्याथी आवी उत्पाद थाय ?—प्रथमसमयोत्पन्न कृत० २ अभवसिद्धिक सं० पंचेन्द्रियो क्याथी आवीने उत्पाद थाय ? पृ० ३५८.

शतक ४० संज्ञीपंचेन्द्रियमहायुगमशतक १६ पृ० ३५९.

कृतयुगम० २ कृष्णलेश्यावाळा अभवसिद्धिक सं० पंचेन्द्रियो क्याथी आवीने उपजे ? पृ० ३५९.

शतक ४० संज्ञीपंचेन्द्रियमहायुगमशतक १७—२१ पृ० ३५९.

नीललेश्या संबधे छ शतकोतुं कयन पृ० ३५९.

शतक ४१ उद्देशक १ पृ० ३६०—३६२.

राशियुगमना प्रकार —चार राशियुगम कहेवातुं कारण —कृतयुगमरूप नैरयिकोनो क्याथी आवीने उपपात थाय ?—एक समये केटला उत्पन्न थाय ? तेओनो सान्तर के निरन्तर उत्पाद होय ?—तेओ जे समये कृतयुगमराशिरूप होय ते समये ज्योजराशिरूप होय इत्यादि प्रश्न पृ० ३६०. तेओने आश्रयी कृतयुगम अने द्वापरयुगमनो संबध होय ?—कृतयुगम अने कल्योज राशिनो संबध होय ?—जीवोनो उपपात केवी रीते थाय ?—उपपातनो हेतु आत्मानो असयम.—आत्मसयम के आत्मअसयमनो आश्रय—तेओ सलेश्य होय के अलेश्य होय ?—सलेश्य सक्रिय होय के अक्रिय ?—कृतयुगम राशिरूप अक्षरकुमारनी क्याथी आवी उत्पत्ति थाय ?—मनुष्योनो उपपातनु कारण आत्मानो असयम पृ० ३६१.—आत्मसंयमी मनुष्यो सलेश्य छे के अलेश्य ?—लेश्यारहित मनुष्यो सक्रिय के अक्रिय ?—कियारहितनी सिद्धि—लेश्यावाळा मनुष्योनी सक्रियता—सक्रिय ते भषमा सिद्ध थाय के नहि ?—आत्मअसंयमी सलेश्य छे के अलेश्य छे ?—सलेश्य मनुष्यनी सक्रियता—सक्रिय मनुष्य ते भषमा सिद्ध थाय.

शतक ४१ उद्देशक २ पृ० ३६२.

श्र्योजराशिप्रमाण नैरयिकोनो उत्पाद पृ० ३६२—कृतयुग्म अने श्र्योजराशिनो परस्पर संबन्ध —श्र्योजराशि अने द्वापरयुग्मनो परस्पर संबन्ध पृ० ३६३.

शतक ४१ उद्देशक ३ पृ० ३६२.

द्वापरयुग्मराशिप्रमाण नैरयिकोनो उत्पाद —द्वापरयुग्म अने कृतयुग्मनो परस्पर संबन्ध —पृ० ३६३

शतक ४१ उद्देशक ४ पृ० ३६३.

कल्योजप्रमाण नैरयिकोनो उत्पाद —कल्योज अने कृतयुग्मनो परस्पर संबन्ध पृ० ३६३

शतक ४१ उद्देशक ५ पृ० ३६३.

कृष्णलेद्यावाळा कृतयुग्मप्रमाण नैरयिकोनो उत्पाद पृ० ३६४.

शतक ४१ उद्देशक ६ पृ० ३६३.

श्र्योजराशिप्रमाण कृष्णलेद्यावाळा नैरयिकोनो उत्पाद

शतक ४१ उद्देशक ७ पृ० ३६३.

द्वापरयुग्मप्रमाण कृष्णलेद्यावाळा (नैरयिको) संबन्धे पण एमज उद्देशक पृ० ३६४

शतक ४१ उद्देशक ८ पृ० ३६३.

कृष्णलेद्यावाळा कल्योज प्रमाण नैरयिकोनो उत्पाद

शतक ४१ उद्देशक ९—१२ पृ० ३६३.

नीललेद्यावाळा संबन्धे चार उद्देशकोनुं कथन

शतक ४१ उद्देशक १३—१६ पृ० ३६३.

कापोतलेद्यावाळा संबन्धे एज रीते चार उद्देशकोनु कथन.

शतक ४१ उद्देशक १७—२० पृ० ३६६.

कृतयुग्मराशिप्रमाण तेजोलेद्यावाळा अक्षरकुमारोनो क्याथी आवी उत्पाद थाय? पृ० ३६५

शतक ४१ उद्देशक २१—२४ पृ० ३६६.

ए रीते पद्मलेद्या संबन्धे चार उद्देशकोनु कथन.

शतक ४१ उद्देशक २५—२८ पृ० ३६६.

शुक्रलेद्यासंबन्धे चार उद्देशकोनुं कथन

शतक ४१ उद्देशक २९—५६ पृ० ३६७.

भवसिद्धिक कृतयुग्मप्रमाण नैरयिकोनो क्याथी आवी उत्पाद थाय —कृष्णलेद्यावाळा भवसिद्धिक कृतयुग्मरूप नैरयिकोनो उत्पाद क्याथी आवीने थाय ?—शुक्र लेद्यावाळा संबन्धे औषिक सरत्ता चार उद्देशकोनुं कथन.

शतक ४१ उद्देशक ५७—८४ पृ० ३६७.

अभवसिद्धिक कृतयुग्म प्रमाण नैरयिकोनो क्याथी आवी उत्पाद थाय ?

शतक ४१ उद्देशक ८५—११२ पृ० ३६७.

कृतयुग्मप्रमाण सम्यग्दृष्टि नैरयिकोनो क्याथी आवी उत्पाद थाय ? पृ० ३६७ —कृतयुग्मराशिप्रमाण कृष्णलेद्यावाळा सम्यग्दृष्टि नैरयिको क्याथी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि चार उद्देशकोनुं कथन.—ए प्रमाणे सम्यग्दृष्टिओने आश्रयी अद्यावीरा उद्देशकोनु कथन.

शतक ४१ उद्देशक ११३—१४० पृ० ३६८.

कृतयुग्मप्रमाण सिध्यादृष्टि नैरयिकोनो क्याथी आवी उत्पाद थाय ?—

शतक ४१ उद्देशक १४१—१६८ पृ० ३६८.

कृतयुग्मप्रमाण कृष्णपाक्षिक नैरयिकोनो क्याथी आवी उत्पाद थाय ?

शतक ४१ उद्देशक १६९—१९६ पृ० ३६९.

कृतयुग्मप्रमाण शुक्रपाक्षिक नैरयिकोनो क्याथी आवी उत्पाद थाय ? पृ० ३६८ उद्देशक, शतक, अने पदसत्या.—सघनी स्तुति.—लेखककृत मंगल.

भगवत्सुधर्मस्वामिप्रणीत भगवतीसूत्र

सोलसमं सयं.

१ अहिररणि २ जरा ३ कम्मे ४ जावतियं ५ गंगदत्त ६ सुमिणे व ।

७ उवओग ८ लोग ९ वलि १० ओहि ११ दीव १२ उदही १३ दिसा १४ धणिया ॥

पढमो उदेसो.

१. [प्र०] तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव-पल्लुवासमाणे एयं वयासी-अत्थि णं भंते! अधिकरणिंस्ति याउ-याप चकमति? [उ०] हंता अत्थि । [प्र०] से भंते! किं पुट्टे उद्दाइ, अपुट्टे उद्दाइ? [उ०] गोयमा! पुट्टे उद्दाइ, नो

सोळमुं शतक.

[उद्देशकार्थसंग्रह—] १ अधिकरणी-एरण प्रमुख सवन्धे पहिलो उद्देशक, २ जरादि अर्थ सवन्धे बीजो उद्देशक, ३ कर्म वगेरे संवन्धे बीजो उद्देशक, ४ उद्देशकना प्रारंभमा 'जावतिय' यावतिक शब्द होवाथी यावतिक नामे चौथो उद्देशक, ५ गंगदत्त देव संवन्धे पाचमो उद्देशक, ६ स्वप्न विषे छट्टो उद्देशक, ७ उपयोग नवन्धे सातमो उद्देशक, ८ लोकस्वरूप सवन्धे आठमो उद्देशक, ९ वलीन्द्र सवन्धे नवमो उद्देशक, १० अवधिज्ञान सवन्धे दशमो उद्देशक, ११ डीपकुमार सवन्धे अर्गायारमो उद्देशक, तथा १२ उदभिकुमार, १३ दिङ्गुमार अने १४ स्तनितकुमार सवन्धे वारमाथी चौदगा सुधी ऋण उद्देशको-ए प्रमाणे सोळमा शतकमा चौद उद्देशको कोटाना छे.

प्रथम उद्देशक.

१. [प्र०] ते काळे ते समये राजगृह नगरमां यावत्-पर्युपानना वग्ता [भगवान् भीतम] ३। प्रमाणे बोव्या के-हे भगवन्! अधिकरणी (एरण) उपर [एयोउे मारती बखने] *वायुजाय उपपन्न धाय! [उ०] हे भीतम! हा, माय. [प्र०] हे भगवन्! ते वायुकायनो बीजा कोद पदार्थ साधे स्पर्श धावां तोज ते मरे को स्पर्श यथा मिताय पण मरे! [उ०] हे भीतम! तेनो बीजा वजार्थ साधे स्पर्श धाय तोज मरे, पण स्पर्श यथा सिवाय न मरे. [प्र०] हे भगवन्! [एये ते वायुकाय मण पाये एणे] ते अधिकरणी

१ * भाई दीकार वायुकायनी उत्पत्ति संवन्धे वा प्रमाणे सुलभो करे छे-एरण उपर एयोउे वगी वा मारती वग्ता एणे ह्योउे मरे ३। भगवती वायु उत्पत्त धाय छे, धने ते वाभिषाग्री उत्पत्त संवन्धे होयने एये प्रथम अचेतन होय छे मने पत्नीमी सवन्धे धाय छे एय संवन्धे छे।

† 'शुभिविधान आदि पाच स्तार जाणिना जीवने वगारे विजाउेय कीनेने वापर विजाउेयरावोपय वदर्थेने मपर धाय छे एणे हे १०, जरीरने पात धाय छे'-ते विचारने भगवतीने धा प्रथ वरामां धावने छे. एतारांग सूचना 'महामरिच' नामका शब्दवग्ता १० विचार करी छेने वर्णनेले छे. सुचो-भाषासंग ५० २८ सू० ८०.

अपुष्टे उदाह । [१०] से मंते ! किं ससररीरी निम्पमद्, असररीरी निम्पमद् ? [३०] एवं जहा गंद्ण, जाव—‘से तेणेष्टेणं जो असररीरी निम्पमद्’ ।

२. [प्र०] इंगालकारियाए णं मंते ! अगणिकाए केवतियं कालं संचित्ठिति ? [३०] गोयमा ! जह्णेणं अंनोमुट्ठत्तं, उक्कोसेणं तिन्धि राइंदियाइं । अत्ते वि तत्थ वाउयाए वज्जमति, न विणा वाउयाएणं अगणिकाए उज्जलति ।

३. [प्र०] पुरिसे णं मंते ! अयं अयकोट्टंसि अयोमएणं संडासएणं उच्चिदमाणे वा पच्चिदमाणे वा फतिकिरिपि ? [३०] गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे अयं अयकोट्टंसि अयोमएणं संडासएणं उच्चिदिति वा पच्चिदिति वा, तावं च णं से पुरिसे कात्तियाए जाव—पाणाइवायकिरियाए पंचाहिं किरियाहिं पुट्टे, जेसि पि णं जीवाणं सररीरेइत्तो अय निघत्तिप, अयकोट्टे निघत्तिप, संडासए निघत्तिप, इंगाला निघत्तिया, इंगालकट्टणी निघत्तिया, मन्या निघत्तिया, ते वि णं जीवा काइयाए जाव—पंचाहिं किरियाहिं पुट्टा ।

४. [प्र०] पुरिसे णं मंते ! अयं अयकोट्टाओ अयोमएणं संडासएणं गहाय अहिकरणिंति उच्चिदमाणे वा निघत्तियमाणे वा कतिकिरिपि ? [३०] गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे अयं अयकोट्टाओ जाव—निघिगवइ वा तावं च णं से पुरिसे काइयाए जाव—पाणाइवायकिरियाए पंचाहिं किरियाहिं पुट्टे, जेसि पि णं जीवाणं सररीरेइत्तो अयो निघत्तिप, संडासए निघत्तिप, चम्मेट्टे निघत्तिप, मुट्टिप निघत्तिप, अधिकरणी निघत्तिया, अधिकरणिगोटी निघत्तिया, उद्गदोणी निघत्तिया, अधिकरणसाला निघत्तिया, ते वि णं जीवा काइयाए जाव—पंचाहिं किरियाहिं पुट्टा ।

५. [प्र०] जीवे णं मंते ! किं अधिकरणी, अधिकरणं ? [३०] गोयमा ! जीवे अधिकरणी वि अधिकरणं पि । [प्र०] मे केणेष्टेणं मंते ! एवं चुच्चइ—‘जीवे अधिकरणी वि अधिकरणं पि’ ? [३०] गोयमा ! अविरतिं पइच्च, से तेणेष्टेणं जाव—अहिकरणं पि ।

भवान्तरे जाय के शरीररहित जाय ? [३०] हे गौतम ! आ वावतमा जेम *स्कंदकना उद्देशकमां कथं छे, ते प्रमाणे यावत्—‘शरीररहित यइने जतो नथी’ त्या सुधी अहि जाणवुं.

२. [प्र०] हे भगवन् ! सगडीमा अग्निक्काय केटला काळ सुधी [मचेतन] रहे ? [३०] हे गौतम ! जघन्यधी अतर्मुह्वं सुधी अने उक्कथयी ऋण रात्रि विवस सुधी रहे. वटी त्या अन्य वायुकायिक जीवो पण उत्पन्न थाय छे, कारण के वायुकाय विना अग्निक्काय प्रज्वलित यतो नथी.

३. [प्र०] हे भगवन् ! लोढाने तपाववानी भट्टीमा लोढाना साटसा वडे लोढाने ऊंचुं के नीचुं करनार पुरुपने केटली क्रियाओ लागे ? [३०] हे गौतम ! ज्यां सुधी ते पुरुप लोढाने तपाववानी भट्टीमा लोढाना सांडसा वडे लोढाने ऊंचुं के नीचुं करे छे त्या सुधी ते पुरुपने कायिकीधी माडीने प्राणातिपात क्रिया सुधीनी पाच क्रियाओ लागे छे. वटी जे जीवोना शरीरधी लोहुं वच्युं छे, लोढानी भट्टी वनी छे, साडसो वच्यो छे, अगारा वच्यो छे, अंगाराकर्पणी (अंगारा काढवानो सळीयो) वनी छे अने धमण वनी छे ते वधा जीवोने पण कायिकी यावत्—पाच क्रियाओ लागे छे.

४. [प्र०] हे भगवन् ! लोढानी भट्टीमायी लोढाना साडसा वडे लोढाने लई तेने एरण उपर लेता अने मक्कता पुरुपने केटली क्रियाओ लागे ? [३०] हे गौतम ! ते पुरुप ज्या सुधी लोढानी भट्टीमायी लोढाने लई यावत्—एरण उपर मक्के छे, त्या सुधी ते पुरुपने कायिकी यावत्—प्राणातिपात सुधीनी पाच क्रियाओ लागे छे. वटी जे जीवोना शरीरधी लोहुं वच्युं छे, साटसो वच्यो छे, चर्मेष्टक—वण वच्यो छे, नानो हयोडो वच्यो छे, एरण वनी छे, एरण खोडवानुं लावहुं वच्युं छे, गरम लोढाने ठारवानी पाणीनी द्रोणी (कुंडी) वनी छे अने अधिकरणगाला (लोहारनां कोड) वनी छे ते जीवोने पण कायिकी यावत्—पाच क्रियाओ लागे छे.

५. [प्र०] हे भगवन् ! जीव अधिकरणी—अधिकरणवाळो छे के अधिकरण छे ? [३०] हे गौतम ! जीव अधिकरणी पण छे अने अधिकरण पण छे. [प्र०] हे भगवन् ! ए प्रमाणे शा हेतुधी कहो छो के ‘जीव अधिकरणी पण छे अने अधिकरण पण छे’ ? [३०] हे गौतम ! अविरतिने आश्रयी, अर्थात् अविरति रूप हेतुधी जीव अधिकरणी पण छे अने अधिकरण पण छे.

१ * जीव तैजस अने वार्धम शरीरनी अपेक्षाए शरीररहित भवान्तरे जाय छे अने अन्य आदारिकादि शरीरनी अपेक्षाए शरीररहित यइने जाय छे. जुओ—भग० खं० १ श० २ उ० १ पृ० २५६.

३ † कायिकी, अधिकरणिकी, प्रादेयिकी, पारितापनिकी अने प्राणातिपातिकी—ए पाच क्रियाओ शरीरद्वारा लागे छे.

५ ‡ अधिकरण एटले हिवादि पापकर्मना हेतुभूत वस्तु, तेना आतरिक अने बाह्य वे मेद छे, तेना शरीर अने इन्द्रियो आतरिक अधिकरण, अने बुद्धादा, क्रोध, हल अने गाडा आदि परिप्रहात्मक वस्तुओ बाह्य अधिकरण रूपे अहिं विवक्षित छे, ते जेने होय ते जीव अधिकरणी कहेवाय छे, अने ते शरीरादि अधिकरणधी कर्धन्दि अमिन्न होवाधी अधिकरण रूप पण छे, अर्थात् जीव अधिकरणी अने अधिकरण वनेरूपे कहेवाय छे—टीका.

‡ जे जीव विरतिवाळो होय तेने शरीरादि आतर अने बाह्य परिप्रहात्मक वस्तुनी सद्भाव होवा छता पण ममत्वना अभावधी ते अधिकरणी के अधिकरण कहेवातो नथी, परतु जे जीव अविरतिवाळो होय छे तेने ममत्व होवाधी ते अधिकरणी अने अधिकरणरूप कहेवाय छे.—टीका.

६. [प्र०] नेरइए णं भंते! किं अधिकरणी अधिकरणं? [उ०] गोयमा! अधिकरणी वि अधिकरणं पि। एवं जहेव जीवे तहेव नेरइए वि। एवं निरंतरं जाव-वेमाणिए।

७. [प्र०] जीवे णं भंते! किं साहिकरणी, निरहिकरणी? [उ०] गोयमा! साहिकरणी, नो निरहिकरणी। [प्र०] से केणट्टेणं-पुच्छा [उ०] गोयमा! अविरतिं पडुच्च, से तेणट्टेणं जाव-नो निरहिकरणी। एवं जाव-वेमाणिए।

८. [प्र०] जीवे णं भंते! किं आयाहिकरणी, पराहिकरणी, तदुभयाहिकरणी? [उ०] गोयमा! आयाहिकरणी वि, पराहिकरणी वि, तदुभयाहिकरणी वि। [प्र०] से केणट्टेणं भंते! एवं वुच्चइ-जाव-तदुभयाहिकरणी वि? [उ०] गोयमा! अविरतिं पडुच्च, से तेणट्टेणं जाव-तदुभयाहिकरणी वि। एवं जाव-वेमाणिए।

९. [प्र०] जीवाणं भंते! अधिकरणे किं आयप्पयोगनिच्चत्तिए, परप्पयोगनिच्चत्तिए, तदुभयप्पयोगनिच्चत्तिए? [उ०] गोयमा! आयप्पयोगनिच्चत्तिए वि, परप्पयोगनिच्चत्तिए वि, तदुभयप्पयोगनिच्चत्तिए वि। [प्र०] से केणट्टेणं भंते! एवं वुच्चइ? [उ०] गोयमा! अविरतिं पडुच्च, से तेणट्टेणं जाव-तदुभयप्पयोगनिच्चत्तिए वि। एवं जाव-वेमाणियाणं।

१०. [प्र०] कइ णं भंते! सरीरणा पण्णत्ता? [उ०] गोयमा! पंच सरीरा पण्णत्ता, तंजहा-१ ओरालिए, जाव-५ कम्मए।

११. [प्र०] कति णं भंते! इंदिया पण्णत्ता? [उ०] गोयमा! पंच इंदिया पण्णत्ता, तंजहा-१ सोइंदिए, जाव-५ फासिंदिए।

१२. [प्र०] कतिविहे णं भंते! जोए पण्णत्ते? [उ०] गोयमा! तिविहे जोए पण्णत्ते, तंजहा-१ मणजोए, २ वइजोए, ३ कायजोए।

६. [प्र०] हे भगवन्! नैरयिक अधिकरणी छे के अधिकरण छे? [उ०] हे गौतम! नैरयिक अधिकरणी पण छे अने अधिकरण पण छे, जेम जीव संबंधे कहुं तेम नैरयिक संबंधे पण जाणवुं, अने ए प्रमाणे यावत्-निरंतर वैमानिक सुधीना जीव संबंधे पण जाणवुं.

नैरयिकादि जीवोने आश्रयी अधिकरणो अने अधिकरण जीव साधिकरणी के निरधिकरणी?

७. [प्र०] हे भगवन्! शुं जीव साधिकरणी छे के निरधिकरणी छे? [उ०] हे गौतम! जीव साधिकरणी छे, पण निरधिकरणी नथी. [प्र०] हे भगवन्! ए प्रमाणे शा हेतुथी कहो छो के 'जीव साधिकरणी छे अने निरधिकरणी नथी'? [उ०] हे गौतम! अविरतिने आश्रयी, अर्थात् अविरतिरूप हेतुथी जीवो साधिकरणी छे, पण निरधिकरणी नथी. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुधी जाणवुं.

जीव आत्माधिकरणी, पराधिकरणी के तदुभयाधिकरणी?

८. [प्र०] हे भगवन्! शुं जीव आत्माधिकरणी छे, पराधिकरणी छे के तदुभयाधिकरणी छे? [उ०] हे गौतम! जीव आत्माधिकरणी छे, पराधिकरणी छे अने तदुभयाधिकरणी छे. [प्र०] हे भगवन्! ए प्रमाणे शा हेतुथी कहो छो के 'जीव आत्माधिकरणी, पराधिकरणी अने तदुभयाधिकरणी पण छे'? [उ०] हे गौतम! अविरतिने आश्रयी, अर्थात् अविरतिरूप हेतुथी जीव यावत्-निरधिकरणी नथी. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुधी जाणवुं.

९. [प्र०] हे भगवन्! शुं जीवोनुं अधिकरण आत्मप्रयोगथी थाय छे, परप्रयोगथी थाय छे के तदुभयप्रयोगथी थाय छे? [उ०] हे गौतम! जीवोनुं अधिकरण आत्मप्रयोगथी, परप्रयोगथी अने तदुभयप्रयोगथी पण थाय छे. [प्र०] हे भगवन्! ते ए प्रमाणे आप शा हेतुथी कहो छो के जीवोनुं अधिकरण आत्मप्रयोगथी, परप्रयोगथी अने तदुभयप्रयोगथी थाय छे? [उ०] हे गौतम! अविरतिने आश्रयी, अर्थात् जीवोनुं अधिकरण अविरतिरूप हेतुथी यावत्-तदुभयप्रयोगथी थाय छे. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुधी जाणवुं.

जीवोनु अधिकरण शाथी थाय छे? अधिकरणनो हेतु

१०. [प्र०] हे भगवन्! शरीरो केटलां कहां छे? [उ०] हे गौतम! शरीरो पाच कहा छे, ते आ प्रमाणे-१ औदारिक, यावत्-५ कामण.

शरीरना प्रकार.

११. [प्र०] हे भगवन्! इंद्रियो केटली कही छे? [उ०] हे गौतम! इंद्रियो पाच कही छे, ते आ प्रमाणे-१ श्रोत्रेन्द्रिय, यावत्-५ स्पर्शेन्द्रिय.

इन्द्रियोना प्रकार.

१२. [प्र०] हे भगवन्! योगना केटला प्रकार कहा छे? [उ०] हे गौतम! योगना त्रण प्रकार कहा छे, ते आ प्रमाणे-१ मनयोग, २ वचनयोग अने ३ काययोग.

योगना प्रका-

७ * शरीरादि अधिकरण सहित जीव ते साधिकरणी, (अहिं समासाधे इन् प्रत्यय छे,) केमके ससारी जीवने शरीर इन्द्रियादिक रूप अन्तर अधिकरण तो हमेशा साथे होय छे. शब्दादिक वाह्य अधिकरण नियतपणे साथे होता नथी, पण तेनो अविरतिरूप ममत्वभाव नियत सहचारी होवाथी शब्दादि वाह्य अधिकरणनो अपेक्षाए पण जीव साधिकरणी बहेवाय छे, अने तेथीज सयतोने शरीरादि छता तेनी अविरतिना अभावथी साधिकरणीपणुं नथी-टीरा.

८ † जे कृष्णादि आरंभमा स्वयं प्रवृत्ति करे ते आत्माधिकरणी, अन्यनी पासे करावे ते पराधिकरणी अने स्वयं करे अने अन्यनी पासे पण करावे ते उभयाधिकरणी.-टीका

९ ‡ आत्मप्रयोगनिर्वर्तित एटले हिंसादि पाप कार्यमा प्रवृत्त मन आदिना व्यापारथी उत्पन्न थएल अधिकरण, अन्यने हिंसादि पाप कार्यमा प्रवर्तववा छे उत्पन्न थएल वचनादि अधिकरण ते परप्रयोगनिर्वर्तित अने आत्मद्वारा तथा अन्यने प्रवर्तन कराववा द्वारा उत्पन्न थएल ते तदुभयप्रयोगनिर्वर्तित अधिकरण कहेवाय छे. स्वावरादि जे जीवोने वचनादि व्यापार नथी तेमने जे परप्रयोगादि अधिकरण कहेल छे ते अविरतिभावने आश्रयी जाणवु-टीका.

१३. [प्र०] जीवे णं भंते ! ओरालियसरीरं निघत्तेमाणे किं अधिकरणी, अधिकरणं ? [उ०] गोयमा ! अधिकरणी वि अधिकरणं पि । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चह—‘अधिकरणी वि अधिकरणं पि’ ? [उ०] गोयमा ! अविरतिं पडुष, से तेणट्टेणं जाव—अधिकरणं पि ।

१४. [प्र०] पुढविकाइएण णं भंते ! ओरालियसरीरं निघत्तेमाणे किं अधिकरणी, अधिकरणं ? [उ०] एवं चेव, एवं जाव—मणुस्से । एवं वेउद्वियसरीरं पि, नवरं जस्स अत्थि ।

१५. [प्र०] जीवे णं भंते ! आहारगसरीरं निघत्तेमाणे किं अधिकरणी—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अधिकरणी वि, अधिकरणं पि । [प्र०] से केणट्टेणं जाव—अधिकरणं पि ? [उ०] गोयमा ! पमायं पडुच्च, से तेणट्टेणं जाव—अधिकरणं पि । एवं मणुस्से वि, तेयासरीरं जहा ओरालियं, नवरं सधजीवाणं भाणियधं, एवं कम्मगसरीरं पि ।

१६. [प्र०] जीवे णं भंते ! सोइंदियं निघत्तेमाणे किं अधिकरणी, अधिकरणं ? [उ०] एवं जहेव ओरालियसरीरं तहेव सोइंदियं पि भाणियधं, नवरं जस्स अत्थि सोइंदियं, एवं चरिपट्टिय—घाणंदिय—जिम्मिदिय—फासंदियाण वि, नवरं जाणियधं जस्स जं अत्थि ।

१७. [प्र०] जीवे णं भंते ! मणजोगं निघत्तेमाणे किं अधिकरणी, अधिकरणं ? [उ०] एवं जहेव सोइंदियं तहेव निरयसेसं, वइजोगो एवं चेव, नवरं एणंदियवजाणं । एवं कायजोगो वि, नवरं सधजीवाणं, जाव—वेमाणिण । ‘सेवं भंते ! सेवं भंते’ ! च्चि ।

सोलसमे सए पढमो उद्देशो समत्तो ।

१३. [प्र०] हे भगवन् ! औदारिक शरीरने बाधतो जीव अधिकरणी छे के अधिकरण छे ? [उ०] हे गौतम ! ते अधिकरणी पण छे अने अधिकरण पण छे. [प्र०] हे भगवन् ! ए प्रमाणे आ हेतुथी कहो छो के ‘औदारिक शरीरने बाधतो जीव अधिकरणी छे अने अधिकरण पण छे’ ? [उ०] हे गौतम ! अविरतिने आश्रयी. अर्थात् अविरतिरूप हेतुथी पूर्व प्रमाणे यावत्—अधिकरण पण छे.

१४. [प्र०] हे भगवन् ! औदारिक शरीरने बाधतो पृथ्वीकायिक जीव अधिकरणी छे के अधिकरण छे ? [उ०] हे गौतम ! पूर्व प्रमाणे जाणवुं. अने ए प्रमाणे यावत् मनुष्यो सुधी जाणवुं. ए प्रमाणे वैक्रिय शरीर संबंधे पण समजवुं, पण तेमां ए विशेष छे के जे जीवोने जे शरीर होय तेमना विपे ते शरीर संबंधे कहेवुं.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! आहारक शरीरने बाधतो जीव अधिकरणी छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते अधिकरणी पण छे अने अधिकरण पण छे. [प्र०] हे भगवन् ! ते ए प्रमाणे आ हेतुथी कहो छो के ते यावत्—‘अधिकरण पण छे’ ? [उ०] हे गौतम ! प्रमादने आश्रयी, अर्थात् प्रमादरूप कारणने लडने ते यावत्—‘अधिकरण पण छे.’ ए प्रमाणे मनुष्य संबंधे पण जाणवुं. औदारिक शरीरनीं पेटे तैजस शरीर संबंधे पण कहेवुं, पण तेमां विशेष ए छे के, [तैजस शरीर सर्व जीवोने होवाथी] सर्व जीवोने विपे ए प्रमाणे समजवुं. एज प्रमाणे कार्मण शरीर विपे पण जाणवुं.

१६. [प्र०] हे भगवन् ! श्रोत्रेन्द्रियने बाधतो जीव अधिकरणी छे के अधिकरण छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम औदारिक शरीरने विपे कहेवुं छे तेम श्रोत्रेन्द्रियने विपे पण कहेवुं. विशेष ए छे के जे जीवोने श्रोत्रेन्द्रिय होय तेमना विपे ते कहेवुं. ए प्रमाणे चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय, अने स्पर्शेन्द्रिय संबंधे पण जाणवुं विशेष ए के जे जीवोने जे इन्द्रिय होय तेमना विपे ते इन्द्रिय संबंधे कहेवुं.

१७. [प्र०] हे भगवन् ! मनोयोगने बाधतो जीव अधिकरणी छे के अधिकरण छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम श्रोत्रेन्द्रियना विषयमां कहुं छे तेम आ विषयमा पण वहुं कहेवुं. ए प्रमाणे वचनयोग संबंधे पण समजवुं. विशेष ए के वचनयोगमा एकेंद्रिय जीवो न लेम. ए प्रमाणे काययोग संबंधे जाणवुं. अने तेमां विशेष ए के काययोग सबैजीवोने होवाथी सर्वना विपे ते समजवुं. ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी जाणवुं हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.’

सौळमा शतकमां प्रथम उद्देशक समाप्त.

१४ * हवे अहि दडकना नमयी प्रश्न करे छे तेमा औदारिक शरीर नारक अने देवोने होतु नथी, तेथी नारक अने धसुरारि देवोने छोधी पृथिवीमायिधने आश्रयी प्रश्न क्यों छे.

† नारक, देव, वायु, पंचेन्द्रिय तिर्यंच अने मनुष्यने वैक्रियशरीर होय छे. तेमां नारक अने देवने भवप्रत्यय वैक्रियशरीर होय छे एटले के तेमने जन्म-जीव ए शरीर प्राप्त होय छे, अने पंचेन्द्रिय तिर्यंच अने मनुष्यने लक्षिप्रत्यय वैक्रिय शरीर होय छे एटले के वैक्रिय शरीर करवानी जेने खास शक्ति प्राप्त होय तेने ज होय छे वायुकायने पण वैक्रिय शक्ति प्राप्त बदेली होवाथी तेने वैक्रिय शरीर होय छे जुवो—भग० खं० २ श० ३ उ० ४ पृ० ८७.

‡ आहारक शरीर चयत मनुष्यने ज होय छे, तेथी मूळ प्रश्न मनुष्यने उद्देशीने करवो जोइए, छतां प्रथम प्रश्न सामान्य जीवजातिने उद्देशीने करवामा आबो छे, तेसुं कारण मात्र क्मनुं अनुसरण छे. कारण के अहि प्रथम दरेक प्रश्न सामान्य जीवसमूहने उद्देशीने करवामा आवे छे अने पछीना प्रश्नो दडकना क्म प्रमाणे करवामां आवे छे. अहि अविरतिनो अभाव होवाथी अविरति अधिकरण नथी, पण प्रमादरूप अधिकरण छे.

बीओ उद्देशो.

१. [प्र०] रायगिहे जाव-एवं वयासी-जीवाणं भंते ! किं जरा, सोगे ? [उ०] गोयमा ! जीवाणं जरा चि सोगे चि । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जाव-‘सोगे चि’ ? [उ०] गोयमा ! जे णं जीवा सारीरं वेदणं वेदंति, तेसि णं जीवाणं जरा; जे णं जीवा माणसं वेदणं वेदंति तेसि णं जीवाणं सोगे, से तेणट्टेणं जाव-सोगे चि । एवं नेरइयाण चि । एवं जाव-थणियकुमारणं ।

२. [प्र०] पुढविकाइयाणं भंते ! किं जरा, सोगे ? [उ०] गोयमा ! पुढविकाइयाणं जरा, नो सोगे । [प्र०] से केणट्टेणं जाव-‘नो सोगे’ ? [उ०] गोयमा ! पुढविकाइया णं सारीरं वेदणं वेदंति, नो माणसं वेदणं वेदंति, से तेणट्टेणं जाव-नो सोगे । एवं जाव-चउरिंदियाणं । सेसाणं जहा जीवाणं, जाव-वेमाणियाणं । ‘सेवं भंते ! सेवं भंते’ ! चि जाव-पज्जुवासति ।

३. [प्र०] तेणं कालेणं तेणं समएणं सक्के देविंदे देवराया वज्जपाणी पुरंदरे जाव-भुंजमाणे विहरइ । इमं च णं केवल-कप्पं जंबुद्दीवं दीवं विपुलेणं ओहिणा आभोएमाणे २ पासति समणं भगवं महावीरं जंबुद्दीवे दीवे । एवं जहा ईसाणे तइय-सए तहेव सक्के चि । नवरं आभिओगे ण सहावेति, पायत्ताणियाहिबई हरी, सुघोसा घंटा, पालओ विमाणकारी, पालगं विमाणं, उत्तरिहे निज्जाणमग्गे, दाहिणपुरच्छिमिहे रतिकरपद्य, सेसं तं चेव, जाव-नामगं सावेत्ता पज्जुवासति । धम्मकहा, जाव-परिसा पडिगया । तए णं से सक्के देविंदे देवराया समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं धम्मं सोचा निसम्म हट्ट-तुट्ट० समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-

४. [प्र०] कतिविहे णं भंते ! उग्गहे पन्नत्ते ? [उ०] सक्का ! पंचविहे उग्गहे पणत्ते, तंजहा-१ देविंदोगहे, २ रायो-

द्वितीय उद्देशक.

१. [प्र०] राजगृहमा [भगवान् गौतम] यावत्-आ प्रमाणे वोल्या के, हे भगवन् ! शुं जीवोने *जरा-वृद्धावस्था अने शोक होय छे ? [उ०] हे गौतम ! जीवोने जरा पण होय छे अने शोक पण होय छे. [प्र०] हे भगवन् ! ते ए प्रमाणे आ हेतुथी कहो छो के, जीवोने जरा अने शोक होय छे ? [उ०] हे गौतम ! जे जीवोने शारीरिक वेदना होय छे ते जीवोने जरा होय छे, अने जे जीवोने मानसिक वेदना होय छे ते जीवोने शोक होय छे, माटे ते हेतुथी एम कहुं छे के जीवोने जरा अने शोक होय छे, ए प्रमाणे नैरयिको संबंधे तथा यावत्-स्तनितकुमारो सुधी जाणवुं.

२. [प्र०] हे भगवन् ! पृथिवीकायिकोने जरा अने शोक होय छे ? [उ०] हे गौतम ! पृथिवीकायिकोने जरा होय छे, पण शोक नथी होतो. [प्र०] हे भगवन् ! तेनुं शुं कारण के पृथिवीकायिकोने जरा होय अने शोक न होय ? [उ०] हे गौतम ! पृथिवीकायिको शारीरिक वेदनाने अनुभवे छे, पण मानसिक वेदनाने अनुभवता नथी माटे तेओने जरा होय छे, पण शोक नथी होतो. ए प्रमाणे यावत्-चउरिंद्रिय जीवो सुधी जाणवुं. बाकीना जीवो माटे सामान्य जीवोनी पेटे समजवुं. अने ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुधी कहेवुं. ‘हे भगवन् ! ते एम ज छे, हे भगवन् ! ते एम ज छे’-एम कही यावत्-पर्युपासना करे छे.

३. ते काले ते समये शक्र, देवेद्र, देवराज, वज्रपाणि, पुरंदर यावत्-सुखने भोगवतो विहरे छे, अने पोताना विशाल अवधिज्ञान वंदे आ समस्त जंबुद्दीपने अवलोकतो अवलोकतो जंबुद्दीपमा श्रमण भगवंत महावीरने जुए छे. अही तृतीय शतकमा कहेल ईशानेन्द्रनी वक्तव्यता प्रमाणे शक्रनी वधी वक्तव्यता कहेवी. विशेष ए छे के आ शक्र आभियोगिक देवोने वोलावतो नथी. एनो सेनाधिपति हरिनैगमेपी देव छे, घंटा सुघोपा छे, पालक नामे देव विमाननो वनावनार छे, विमाननुं नाम पालक छे, एनो निकळवानो मार्ग उत्तर दिशाए छे, दक्षिण पूर्वमा-अग्निगोणमा रतिकर पर्वत छे. बाकी वधुं तेज प्रमाणे जाणवुं. यावत्-शक्र पोतानुं नाम सभळावी भगवतनी पर्युपासना करे छे. श्रमण भगवंत महावीरे धर्मकथा कही. यावत्-सभा पाछी गई. स्यारवाद ते शक्र, देवेन्द्र, देवराज श्रमण भगवंत महावीर पासेयी धर्मने सांभळी, अववारी हर्षवाळो अने सतोपवाळो थई श्रमण भगवंत महावीरने वादी, नमी आ प्रमाणे वोन्यो-

४. [प्र०] हे भगवन् ! अवग्रह केटला प्रकारनो कह्यो छे ? [उ०] हे शक्र ! अवग्रह पाच प्रकारनो कह्यो छे. ते आ प्रमाणे- १ देवेन्द्रावग्रह, २ राजावग्रह, ३ गृहपतिअवग्रह, ४ सागारिकावग्रह अने ५ साधर्मिकावग्रह. जे आ श्रमण निर्घ्नयो आजकाल विचरे

जरा अने शोक.
जग अने शोक
होवानु कारण.

पृथ्वीकायिक जीवोने
जरा अने शोक होय ?
शोक नहि होवानु
कारण

शक्तेन्द्रनु वर्णन अने
तेउ भगवन पासे
यावतु

अवग्रहनो प्रथ अने
शक्रनु स्वप्नान-
गमन.

१ * जरा शारीरिक दु स्वरूप छे अने शोक मानसिक दु स्वरूप छे, माटे मनोयोग विनाना जीवोने केवल जरा अने मनोयोगवाळा जीवोने जरा अने शोक वधे होय छे.-टीका.

३ † भग० सं० २ श० ३ उ० १ पृ० २३.

४ ‡ अवग्रह-स्वामीपणुं, तेना पांच प्रकार छे तेमां १ प्रथम देवेन्द्रावग्रह. देवेन्द्र एटले शक्र अने ईशानेन्द्र, तेनुं स्वामीपणुं एनुक्रमे दक्षिण कोरार्धे अने उत्तरकोरार्धमा छे, माटे ते देवेन्द्रावग्रह कहेवाय छे २ चक्रवर्तिने अधीन भरतादि छ क्षेत्रमां राजावग्रह होय छे. ३ माउलिक राजाना पीताना तावाना देशमा गृहपतिअवग्रह होय छे ४ गृहस्थने पीतानी मालिकीना घर वनेरेमा सागारिकावग्रह होय छे. ५ समान धर्मवाज्य साधुओ परस्पर साधर्मिक कहेवाय छे, तेओनो वर्षोऋतु सिवायना फालमा एक मास सुधी अने वर्षोऋतुमा चार मास सुधी पाच कोशपर्यंत क्षेत्रमा साधर्मिकवग्रह होय छे.-टीका.

ग्गहे, ३ गाहावइउग्गहे. ४ सागारियउग्गहे, ५ साहम्मियउग्गहे । जे इमे भंते ! अज्जत्ताए समणा निग्गंया विहरंति एएसि णं अहं उग्गहे अणुजाणामीति कट्टु समणं भगवं महावीरं वंदंति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता तमेव दिव्वं जाणविमाणं डुरुहति, डुरुहित्ता जामेव दिसं पाउम्भूए तामेव दिसं पडिगए ।

५. [प्र०] 'भंते' ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी—'जं णं भंते ! सक्के देविंदे देवराया तुज्जे णं एवं वदइ, सच्चे णं पसमट्टे' ? [उ०] हंता सच्चे ।

६. [प्र०] सक्के णं भंते ! देविंदे देवराया किं सम्मावादी, मिच्छावादी ? [उ०] गोयमा ! सम्मावादी, नो मिच्छावादी ।

७. [प्र०] सक्के णं भंते ! देविंदे देवराया किं सच्चं भासं भासति, मोसं भासं भासति, सच्चामोसं भासं भासति, असच्चामोसं भासं भासति ? [उ०] गोयमा ! सच्चं पि भासं भासति, जाव—असच्चामोसं पि भासं भासति ।

८. [प्र०] सक्के णं भंते ! देविंदे देवराया किं सावज्जं भासं भासति, अणवज्जं भासं भासति ? [उ०] गोयमा ! सावज्जं पि भासं भासति, अणवज्जं पि भासं भासति । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—सावज्जं पि जाव—अणवज्जं पि भासं भासति ? [उ०] गोयमा ! जाहे णं सक्के देविंदे देवराया सुहुमकायं अणिज्जुहित्ता णं भासं भासति ताहे णं सक्के देविंदे देवराया सावज्जं भासं भासति, जाहे णं सक्के देविंदे देवराया सुहुमकायं निज्जुहित्ता णं भासं भासति ताहे णं सक्के देविंदे देवराया अणवज्जं भासं भासति, से तेणट्टेणं जाव—भासति ।

९. [प्र०] सक्के णं भंते ! देविंदे देवराया किं भवसिद्धीए, अमवसिद्धीए, सम्मदिट्ठीए—एवं जहा मोउडेसए सपंकु-मारो, जाव—नो अचरिमे ।

१०. [प्र०] जीवाणं भंते ! किं चयकडा कम्मा कज्जंति, अचयकडा कम्मा कज्जंति ? [उ०] गोयमा ! जीवाणं चय-कडा कम्मा कज्जंति, नो अचयकडा कम्मा कज्जंति । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जाव—'कज्जंति' ? [उ०] गोयमा !

छे तेओने इं अवग्रहणो अनुज्जा आपुं हूं. एम कही ते इक्क श्रमण भगवंत महावीरने वांदी नमी तेज दिव्य विमान उपर बेसी ज्याधी आब्यो हतो सां चान्यो गयो.

५. [प्र०] 'भगवन्' ! एम कही भगवंत गौतम श्रमण भगवंत महावीरने वादी, नमी आ प्रमाणे बोण्या के—हे भगवन् ! इक्क देवेन्द्र देवराजे जे आपने पूर्व प्रमाणे [अवग्रह संवंची] कहुं ते अर्थ सल्ल छे ? [उ०] हा गौतम ! ए अर्थ सल्ल छे.

६. [प्र०] हे भगवन् ! इक्क देवेन्द्र देवराज शुं सल्लवादी छे के मिथ्यावादी छे ? [उ०] हे गौतम ! ते सल्लवादी छे पण मिथ्यावादी नयी.

७. [प्र०] हे भगवन् ! इक्क देवेन्द्र देवराज सल्लभाया बोले छे, मृया भाया बोले छे, सल्लमृया भाया बोले छे के असल्लामृया भाया बोले छे ? [उ०] हे गौतम ! ते सल्ल भाया बोले छे, यवत्—असल्लामृया भाया पण बोले छे.

८. [प्र०] हे भगवन् ! इक्क देवेन्द्र देवराज सावध (पापयुक्त) भाया बोले के निरवध (पापरहित) भाया बोले ? [उ०] हे गौतम ! ते सावध अने निरवध बने भाया बोले. [प्र०] हे भगवन् ! तेनुं शुं कारण के इक्क सावध अने निरवध ए बने भाया बोले ? [उ०] हे गौतम ! इक्क देवेन्द्र देवराज एगारे सुहुम काय—हइअ अथवा वल्ल बडे मुख दांकाया विना बोले लारे ते सावध भाया बोले छे अने मुख दांकायने बोले लारे ते निरवध भाया बोले छे, माटे ते हेतुधी ते इक्क सावध अने निरवध बने भाया बोले छे.

९. [प्र०] हे भगवन् ! ते इक्क देवेन्द्र देवराज भवसिद्धिक छे, अमवसिद्धिक छे, सम्यग्दृष्टि छे, [के मिथ्यादृष्टि छे ?] [उ०] जेम अंश्रीजा शतकना प्रथम उइअकमां सनल्लुमार माटे कहुं छे तेम अहिं पण जाणहुं. अने ते यावत्,—'अचरम नयी' ए पाठ मुषी कहेहुं.

१०. [प्र०] हे भगवन् ! जीवोना कर्मो चैनन्यइत होय छे के अचैतन्यइत होय छे ? [उ०] हे गौतम ! जीवोना कर्मो चैनन्य-

८ * हस्ताधिकारी मुख टांकेने बोडनार निरवध भाया बोले छे, कारण के तेनो वायुक दिक्क जांवेने वचाववानो प्रवृत्त होवाधी ते सावधानतापूर्वक बोले छे. एबादे मुडे बोडनार सावध भाया बोले छे, केमके तेनो जांचरकानो वृत्त नहि होवाधी ते असावधानतापूर्वक बोले छे—टीका.

जीवाणं आहारोचचिया पोग्गला, वोंदिचिया पोग्गला, कलेवरचिया पोग्गला तथा तथा णं ते पोग्गला परिणमंति, नत्थि अचेयकडा कम्मा समणाउसो !, दुट्टाणेसु, दुसेज्जासु, दुत्तिस्सीहियासु तथा तथा णं ते पोग्गला परिणमंति, नत्थि अचेयकडा कम्मा समणाउसो !, आयंके से वहाए होति, संकप्पे से वहाए होति, मरणंते से वहाए होति तथा तथा णं ते पोग्गला परिणमंति, नत्थि अचेयकडा कम्मा समणाउसो !, से तेणट्टेणं जाव—कम्मा कज्जंति, एवं नेरतियाण वि, एवं जाव—वेमाणियाणं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति जाव—विहरति ।

सोलसमे सए वीओ उद्देशो समत्तो ।

कृत होय छे पण अचैतन्यकृत नही होता. [प्र०] हे भगवन् ! तेनुं शुं कारण छे के 'जीवोना कर्मो चैतन्यकृत होय छे पण अचैतन्यकृत नही होता' ? [उ०] हे गौतम ! *जीवोए ज आहाररूपे, शरीररूपे अने कलेवररूपे उपचित (संचित) करेला पुद्गलो ते ते रूपे परिणमे छे, माटे हे आयुष्मन् श्रमण ! †अचैतन्यकृत कर्मो नथी. तथा दुःस्थानरूपे, दुःशय्यारूपे, अने दुर्निपथारूपे ते ते पुद्गलो परिणमे छे माटे हे आयुष्मन् श्रमण ! अचैतन्यकृत कर्मपुद्गलो नथी. तथा ते आतकरूपे परिणमी जीवना वध माटे थाय छे, संकल्परूपे परिणमी जीवना वध माटे थाय छे अने मरणातरूपे परिणमी जीवना वध माटे थाय छे माटे हे आयुष्मन् श्रमण ! कर्म पुद्गलो अचैतन्यकृत नथी. ते कारणथी यावत्—जीवोना कर्मो अचैतन्यकृत नथी. ए प्रमाणे नैरयिको संवधे अने यावत्—वैमानिको संवधे पण जाणुं. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे—एम कही यावद् विहरे छे.

कर्मो चैतन्यकृत छे वेना वारणो.

सोळमा शतकमां द्वितीय उद्देशक समाप्त.

तईओ उद्देशो.

१. [प्र०] रायगिहे जाव—एवं वयासी—कति णं भंते ! कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ ? [उ०] गोयमा ! अट्ट कम्मपयडीओ पण्णत्ताओ, तंजहा—१ नाणावरणिज्जं, जाव—८ अंतराइयं, एवं जाव—वेमाणियाणं ।

२. [प्र०] जीवे णं भंते ! नाणावरणिज्जं कम्मं वेदेमाणे कति कम्मपगडीओ वेदेति ? [उ०] गोयमा ! अट्ट कम्मपग-

तृतीय उद्देशक.

१. [प्र०] राजगृहमा [भगवान् गौतम] यावत्—आ प्रमाणे वोल्या के—हे भगवन् ! केटली कर्मप्रकृतिओ कही छे ? [उ०] हे गौतम ! आठ कर्मप्रकृतिओ कही छे. ते आ प्रमाणे—१ ज्ञानावरणीय, यावत्—८ अतराय. ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी जाणुं.

कर्मप्रकृति.

२. [प्र०] हे भगवन् ! ज्ञानावरणीय कर्मने वेदतो जीव वीजी केटली कर्मप्रकृतिओ वेदे छे ? [उ०] हे गौतम ! आठ कर्मप्रकृतिओने वेदे छे. ए प्रमाणे अही प्रज्ञापनासूत्रमा कहल 'वेदावेद' नामनो समग्र उद्देशक कहेवो. तथा तेज प्रकारे †'वेदाबंध' नामनो

ज्ञानावरणीयने वेदतो जीव केटली कर्मप्रकृतिओने वेदे ?

१० * जेम जीवोए आहारादिरूपे संचित करेला पुद्गलो आहारादिरूपे परिणमे छे, तेम कर्मपुद्गलरूपे संचित करेला पुद्गलो जीवोने ते ते रूपे परिणमे छे तथा ते (कर्मपुद्गलो) टाढ, तडको, डारा, मच्छर वगैरे युक्त स्थानमा, दु चोत्पादक वस्तुमा अने दु लकारक स्वाध्यायभूमिमा दु चोत्पादकरूपे परिणमे छे, जीवोने ज दु सनो सभव होवाथी दु स हेतुभूत कर्मो तेणेज कर्मा छे वळी ते (कर्मपुद्गलो) आतंक—रोगरूपे, सरल्प—भयादिक्लेशरूपे अने मरणान्त उपघातरूपे अर्थात् रोगादिजनक असातवेदनीयरूपे परिणमे छे अने ते वधना हेतुभूत थाय छे, अने वध जीवोने ज घतो होवाथी वधना हेतुरूप असातवेदनीय पुद्गलो जीवकृत छे, माटे 'चैतन्यकृत कर्मो होय छे' एम कहु छे.

२ * 'ज्ञानावरणीयादि आठ कर्ममानी कोइ पण एक प्रकृतिने वेदतो वीजी केटली प्रकृतिओने वेदे'—ए विचार वेदावेद पदमा छे. ज्ञानावरणीय कर्मने वेदतो आठ कर्मप्रकृतिने वेदे. ज्यारे मोहनीय कर्मनो क्षय थाय ज्यारे ते सिवाय सात कर्म प्रकृतिओने वेदे. जेम सामान्य जीवने आश्रयी कहुं तेम मनुष्य-दंडकने आश्रयी जाणु नारकथी माही वैमानिक सुधी कोइ पण कर्मने वेदतो आठ ज कर्म प्रकृतिओ वेदे जुओ प्रज्ञा० पद २७ प० ४९७.

† वेदावधपदमा कोइ पण एक कर्मप्रकृतिने वेदतो केटली प्रकृतिओने बाधे एवुं प्रतिपादन करेछ छे. जीव ज्ञानावरणीय कर्मने वेदतो सात, आठ, छ अने एक कर्मप्रकृति बाधे आयुपनो बन्ध करे ज्यारे आठ प्रकृतिओनो बन्ध करे. आयुप न बाधे ज्यारे ते सिवाय सात प्रकृतिओ बाधे. सूक्ष्मवप-राय गुणस्थानके आयुप अने मोहनीय सिवाय छ कर्म प्रकृतिओ बाधे. अने उपशान्तमोहादि गुणस्थानके एक वेदनीय कर्मने बाधे. जुओ—प्रज्ञा० पद २६ प० ४९५.

डीओ—एवं जहा पञ्चवणाप वेदावेउद्देश्यो सो चैव निरवसेसो भाणियद्यो । वेदायंधो वि तद्देव, यंधावेदो वि तद्देव, बंधाबंधं वि तद्देव भाणियद्यो जाय—वेमाणियाणं ति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति जाय—विहरति ।

उद्देशक पण कहेवो. तेवी ज रीते "बंधावेद" नामनो तथा 'बंधाबंध' नामनो उद्देशक पण कहेवो. ए प्रमाणे यावद्—यैमानिको मुर्धा जाणुं हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'—एम कही यावद्—विहरे छे.

* बन्धावेद पदमां 'कोह पण एक वसप्रतिनि वेधतो फेटा प्रकृतिओने वेदे' एउ प्रतिपादन करेन्नु छे. जीव ज्ञानावरणीय कर्म बांधतो अन्वय अः प्रकृतिओ वेदे. कुओ प्रना० पद २५ प० ४९४.

† बन्धाबन्ध पदमां 'कोह पण एक प्रतिनि बांधतो जीव वीणी फेटली प्रकृतिओ बांधि' एउ प्रतिपादन करेन्नु छे. जीव ज्ञानावरणीय कर्म बांधतो सात, आठ अने छ प्रकृतिओ बांधि. आयुष न बांधे तारे ते विवाय मात, आयुषघटित आठ अने मोहनीय अने आयुष विना छ प्रकृतिओ बांधे कुओ प्रहा० पद २४ प० ४९१.

'ज्ञानावरणादि एक प्रकृतिना उदयमा अन्व फेटली प्रकृतिओनो उदय होय' ते सूचित करनार 'वेदावेद' यत्र.

एक प्रकृतिनो उदय.

अन्व प्रकृतिओनो उदय.

	ज्ञाना०	दर्श०	वेद०	मोह०	आयुष	नाम	गोत्र	अन्तराय
ज्ञानावरण.	१	१	१	१	१	१	१	१
दर्शनावरण.	१	१	१	१	१	१	१	१
वेदनीय.	१-०	१-०	१	१-०	१	१	१	१-०
मोहनीय.	१	१	१	१	१	१	१	१
आयुष.	१-०	१-०	१	१-०	१	१	१	१-०
नाम.	१-०	१-०	१	१-०	१	१	१	१-०
गोत्र.	१-०	१-०	१	१-०	१	१	१	१-०
अन्तराय.	१	१	१	१	१	१	१	१

ज्ञानावरणादि एक प्रकृतिना उदयमा अन्व फेटली प्रकृतिओनो उदय होय ते सूचित करनार 'वेदावेद' यत्र.

एक प्रकृतिनो उदय.

अन्व प्रकृतिओनो उदय.

	ज्ञाना०	दर्श०	वेद०	मोह०	आयुष	नाम	गोत्र	अन्त०
ज्ञानावरण.	१-०	१-०	१	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०
दर्शनावरण.	१-०	१-०	१	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०
वेदनीय.	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०
मोहनीय.	१	१	१	१	१-०	१	१	१
आयुष.	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०
नाम.	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०
गोत्र.	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०
अन्तराय.	१-०	१-०	१	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०

ज्ञानावरणादि एक प्रकृतिना उदयमा अन्व फेटली प्रकृतिओनो उदय होय ते सूचित करनार 'बन्धावेद' यत्र.

एक प्रकृतिनो उदय.

अन्व प्रकृतिओनो उदय.

	ज्ञाना०	दर्श०	वेद०	मोह०	आयुष	नाम	गोत्र	अन्त०
ज्ञानावरण	१	१	१	१	१	१	१	१
दर्शनावरण	१	१	१	१	१	१	१	१
वेदनीय	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१	१	१-०
मोहनीय.	१	१	१	१	१	१	१	१
आयुष.	१	१	१	१	१	१	१	१
नाम.	१	१	१	१	१	१	१	१
गोत्र.	१	१	१	१	१	१	१	१
अन्तराय.	१	१	१	१	१	१	१	१

ज्ञानावरणादि एक प्रकृतिना उदयमा अन्व फेटली प्रकृतिओनो उदय होय ते सूचित करनार 'बन्धावेद' यत्र.

एक प्रकृतिनो उदय.

अन्व प्रकृतिओनो उदय.

	ज्ञाना०	दर्श०	वेद०	मोह०	आयुष	नाम	गोत्र	अन्त०
ज्ञानावरण	१	१	१	१	१-०	१	१	१
दर्शनावरण	१	१	१	१	१-०	१	१	१
वेदनीय	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०	१-०
मोहनीय	१	१	१	१	१-०	१	१	१
आयुष.	१	१	१	१	१	१	१	१
नाम	१	१	१	१-०	१-०	१	१	१
गोत्र.	१	१	१	१-०	१-०	१	१	१
अन्तराय	१	१	१	१	१-०	१	१	१

सूचना—आ यत्रोमा ज्या ज्यां एक अरु अने शून्य साथे आवेला छे सां त्या ते ते प्रकृतिना उदयादिक विकल्पे समजवा.

३. तप णं समणे भगवं महावीरे अन्नदा कदायि रायगिहाथो नगराथो गुणसिळाथो चेइयाथो पडिनिष्पत्तमति, २-मिन्ता वहिया जणवयविहारं विहरति । तेणं कालेणं तेणं समणं उल्लुयतीरे नामं नगरे होत्था, वन्नथो । तस्स णं उल्लुयतीरस्स नगरस्स वहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसिभाए पत्थ णं पगजंवूप नामं चेइए होत्था, वन्नथो । तप णं समणे भगवं महावीरे अन्नदा कदायि पुद्धानुपुद्धि चरमाणे जाव-एगजंवूप समोसडे । जाव-परिखा पडिगया । 'भंते'त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-

४. [प्र०] अणगारस्स णं भंते ! भावियप्पणो छट्टंछट्टेणं अणिविखत्तेणं जाव-आयावेमाणस्स तस्स णं पुरच्छिमेणं अवहं दिवसं नो कप्पति हत्थं वा पादं वा जाव-ऊरं वा आउट्टवेत्तए वा पसारत्तए वा, पच्चच्छिमेणं से अवहं दिवसं कप्पति हत्थं वा पादं वा जाव-ऊरं वा आउट्टवेत्तए वा पसारत्तए वा । तस्स णं अंसियाओ लंवंति, तं चेव वेजे अदप्पु, ईसिं पाडेति, ईसिं पाडेत्ता अंसियाओ छिदेज्जा, से नूणं भंते ! जे छिदति तस्स किरिया कज्जति, जस्स छिज्जति नो तस्स किरिया कज्जइ णणत्थेणेणं धम्मंतराइएणं ? [उ०] हंता गोयमा ! जे छिदति जाव-धम्मंतराइएणं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' त्ति ।

सोलसमे सए तईओ उद्देशो समत्तो ।

३. सारवाद श्रमण भगवंत महावीरे अन्य कोई दिवसे राजगृह नगरना गुणसिखक चैत्यथी नीकळी बहारना बीजा देशोमां विहार कर्यो. ते काले ते समये उल्लुकतीर नामनुं नगर हतुं. वर्णक. ते उल्लुकतीर नामना नगरनी बहार ईगान कोणमां एकजंवूक नामनुं चैत्य हतुं. वर्णक. सार पछी अनुक्रमे विचरता श्रमण भगवंत महावीर अन्य कोई दिवसे एकजंवूनामक चैत्यमां समोसर्था, यावत्-सभा पाछी गइ. सार पछी 'भगवन्' ! एम कही भगवंत गौतम श्रमण भगवंत महावीरने वादी नेमी आ प्रमाणे बोल्या—

चक्रकीर-

४. [प्र०] हे भगवन् ! *छट्ट छट्टना तपपूर्वक यावत्-निरंतर आतापना लेता भावितात्मा एवा अनगारने दिवसना पूर्वार्ध भागमां पोताना हाथ, पग, यावत्-उर-साथळने संकोचवा के पहोळा करवा कल्पता नथी, अने दिवसना पश्चिमार्ध भागमां पोताना हाथ, पग, यावत्-उरने संकोचवा अने पोहळा करवा कल्पे छे, हवे [कायोत्सर्गमा रहेला] एवा ते अनगारने [नासिकामां] अशो छटकता होय अने ते अशोने कोई वैध जुए, जोईने ते अशोने कापवाने ते ऋपिने भूमि उपर सूवाडीने तेना अशो कापे तो हे भगवन् ! ते कापनार वैधने क्रिया लागे के जेना अशो कापाय छे तेने धर्मान्तराय रूप क्रिया सिवाय बीजी पण क्रिया लागे ? [उ०] हे गौतम ! हा, जे कापे छे तेने [शुभ] क्रिया लागे छे, अने जेना अशो कापाय छे तेने धर्मान्तराय सिवाय बीजी क्रिया नथी लागती. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.

काउरसगमा रहेला मुनिना अशोने कापनार वैध अने मुनिने क्रिया लागेके नहि !

सोळमा शतकमां तृतीय उद्देशक समाप्त.

चउत्थो उद्देशो.

१. [प्र०] रायगिहे जाव-एवं वयासी-जावतियं णं भंते ! अन्नगिहायए समणे निग्गंथे कम्मं निज्जेरैति एवतियं कम्मं नरएण्डु नैरतिया णं वासेण वा वासेहिं वा (वाससएण वा) वाससएहिं वा खवंति ? [उ०] णो तिणट्टे समट्टे ।

चतुर्थ उद्देशक.

१. [प्र०] राजगृहमां यावत्-आ प्रमाणे बोल्या के-हे भगवन् ! अन्नगलायक (अन्न बिना ग्लान यएलो-नित्यभोजी) श्रमण निर्ग्रंथ जेटलं कर्म खपावे तेटलं कर्म नैरयिक जीवो नरकमां एक वरसे, अनेक वरसे के सो वरसे खपावे ? [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ-यथार्थ नथी.

नित्यभोजी श्रमण सो वरसे नैरयिको जेटली कर्मनी निर्ग्रंथ करे ?

४ * कायोत्सर्गमा अभिप्रहवाळा अने निरन्तर छट्टना तपपूर्वक आतापना लेता भावितात्मा साधुने कायोत्सर्गमा रहेला होवाथी दिवसना पूर्व भागमां हस्तादि अवयवो संकोच करवा के पहोळा करवा न कल्पे, अने दिवसना पश्चिम भागमां कायोत्सर्ग नहि होवाथी हस्तादि अवयवो सुदुचित के पहोळा करवा करपे. हवे कायोत्सर्गमा रहेला ते साधुने नासिकामा अशो छटकता होय, तेने कोई वैध जुए अने ते साधुने सूवाडी अशोने कापे तो ते वैधने धर्मदुष्टि होय.थी सरकार्यमा प्रवृत्तिरूप शुभ क्रिया होय, अने साधु निर्व्यापार होवाथी तेने शुभ क्रिया पण न होय, पण शुभध्यानना विच्छेदथी के अर्थछेःगु अनुमोदन करवाथी तेने धर्मान्तराय होय-दीका.

१ 'वाससएहिं' इति पाठो न सम्यक् प्रतिभाति ।

२. [प्र०] जावतियं णं भंते ! चउत्थमत्तिण् समणे निग्गंथे कम्मं निज्जेरेति प्वतियं कम्मं नरप्पसु नेरइया वाससएणं वा वाससएणं वा वाससहस्सेहिं वा रावयंति ? [उ०] णो तिण्ठे समट्ठे ।

३. [प्र०] जावतियं णं भंते ! छट्ठमत्तिण् समणे निग्गंथे कम्मं निज्जेरेति प्वतियं कम्मं नरप्पसु नेरइया वाससहस्सेण वा वाससहस्सेहिं वा वाससयसएस्सेण वा रावयंति ? [उ०] णो तिण्ठे समट्ठे ।

४. [प्र०] जावतियं णं भंते ! अट्ठमत्तिण् समणे निग्गंथे कम्मं निज्जेरेति प्वतियं कम्मं नरप्पसु नेरतिया वाससयसहस्सेण वा वाससयसहस्सेहिं वा वासकोडीण वा रावयंति ? [उ०] णो तिण्ठे समट्ठे ।

५. [प्र०] जावतियं णं भंते ! दसमत्तिण् समणे निग्गंथे कम्मं निज्जेरेति प्वतियं कम्मं नरप्पसु नेरतिया वासकोडीण वा वासकोडीहिं वा वासकोडाकोडीण वा रावयंति ? [उ०] णो तिण्ठे समट्ठे ।

६. [प्र०] से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुध्द—‘जावतियं अन्नगिलातए समणे निग्गंथे कम्मं निज्जेरेति प्वतियं कम्मं नरप्पसु नेरतिया वासेण वा वासेहिं वा वाससएण वा नो रावयंति, जावतियं चउत्थमत्तिण्—एवं तं चैव पुध्मणियं उचारेययं, जाव—वासकोडाकोडीण वा नो रावयंति’ ? [उ०] गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे जुधे जराजज्जणियदेहे सिद्धितयावलितरंगसंपिणद्धगचे पविरलपरिसडियदंतसेदी उण्हाभिहए तण्हाभिहए आउरे कुंझिण पिवासिण बुच्चले किलंत एणं मटं कौसंगदियं सुकं जडिलं गंठिं चिकणं वाइहं अपत्तियं मुंठेण परसुणा अज्जमेज्जा, तए णं से पुरिसे महंताइं २ सइहं करेइ, नो महंताइं २ दइहं अचहलेइ, एवामेव गोयमा ! नेरइयाणं पावाइं कम्मइं गादीकयाइं चिद्धणीकयाइं—एवं जहा छट्ठसए, जाव—नो महापज्जवसाणा भवंति । से जहानामए केइ पुरिसे जहिफरणं आउडेमाणे महया० जाव—नो महापज्जवसाणा भवंति । से

२. [प्र०] हे भगवन् ! चतुर्थभक्त (एक उपवास) करनार श्रमण निर्ग्रंथ जेटळं कर्म खपावे तेटळं कर्म नैरयिक जीवो नरकमां सो वरसे, अनेक सो वरसे के हजार वरसे खपावे ! [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नथी.

३. [प्र०] हे भगवन् ! छट्ठ भक्त (वे उपवास) करी श्रमण निर्ग्रंथ जेटळं कर्म खपावे तेटळं कर्म नैरयिको नरकमां एक हजार वरसे, अनेक हजार वरसे के एक लाख वरसे खपावे ! [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नथी.

४. [प्र०] हे भगवन् ! अष्टम भक्त (त्रण उपवास) करी श्रमण निर्ग्रंथ जेटळं कर्म खपावे तेटळं कर्म नैरयिको नरकमां एक लाख वरसे, अनेक लाख वरसे के एक क्रोड वरसे खपावे ! [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नथी.

५. [प्र०] हे भगवन् ! दशम भक्त (चार उपवास) करनारे श्रमण निर्ग्रंथ जेटळं कर्म खपावे तेटळं कर्म नैरयिक जीवो नरकमां एक क्रोड वरसे, अनेक क्रोड वरसे के कोटाकोटी वरसे खपावे ! [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नथी.

६. [प्र०] हे भगवन् ! ए प्रमाणे आप झा हेतुथी कहो छो के ‘अन्नगलयज्ज श्रमण निर्ग्रंथ जेटळं कर्म खपावे तेटळं कर्म नैरयिक जीवो नरकमा एक वरसे, अनेक वरसे के एक सो वरसे पण न खपावे, अने चतुर्थभक्त करनार श्रमण निर्ग्रंथ जेटळं कर्म खपावे तेटळं कर्म नैरयिको नरकमां सो वरसे, अनेक सो वरसे के लाख वरसे न खपावे—इत्यादि वधुं पूर्व सूत्रनी पेठे कहेहुं, यावत्—कोटाकोटी वरसे न खपावे’ ! [उ०] हे गौतम ! जेम कोई एक घरडो, घडपणथी जर्जरित शरीरवाळो, डीला पडी गएला अने चामडीना वळीया वडे व्याप्त थयेला गात्रवाळो, थोडा अने पडी गयेला दांतवाळो, गरमीथी व्याकुल थयेलो, तरसथी पीडाएल, दु.खी, भूल्यो तरस्यो, दुर्बल अने मानसिक क्रेशवाळो पुरुष होय अने ते एक मोटा कोशंठ नामना वृक्षनी. सूकी, बांकी लुंकी गाडोवाळी, चिकणी, बाकी अने निगधार ग्हेली गंडिका—गंटेरी उपर एक मुंड (बुडा) परसु वडे प्रहार करे, तो ते पुरुष मोटा मोटा शब्दो (हुंकार) करे पण मोटा मोटा ककडा न करी शके. एज प्रमाणे हे गौतम ! नैरयिकोए पोताना पाप कर्मो गाढ कर्मां छे, चिकणा कर्मां छे—इत्यादि वधुं छट्ठा शतकमां कला प्रमाणे कहेहुं, यावत्—तेथी ते नैरयिको [अत्यन्त वेदनाने वेदता छता पण महानिर्जरावाळा अने] निर्वाणरूप फलवाळा यता नथी. वळी जेम कोई एक पुरुष एरण उपर घण मारतो मोटा शब्द करे [परन्तु ते एरणना स्थूल पुद्गलेने तोडवाने समर्थ थतो नथी, ए प्रमाणे नैरयिको गाढ कर्मवाळा होय छे, तेथी तेओ] यावत्—महापर्यवसानवाळा नथी. तथा जेम कोई एक तरुण, वलवान्, यावत्—मेधावी अने निपुण कारीगर पुरुष एक मोटा शिमठाना वृक्षनी वळी, जटाविनानी, गाडो विनानी, चिकाश विनानी, सीधी अने आधारवाळी गंडिका उपर तीक्ष्ण कुहाडावडे प्रहार करे तो ते पुरुष मोटा मोटा शब्दो करतो नथी पण मोटा मोटा दळने फाडे छे, एज प्रमाणे हे गौतम ! जे श्रमण निर्ग्रंथोए पोताना

१ ‘सहस्सेण वा’ इति पाठो उबुखने एव उपलभ्यते पर समीचीनः, ‘वाससहस्सेहिं’ इति पाठस्तु न सम्बन्ध प्रतीयते ।

६ * भग० सं० २ प्र० ६ उ० १ पृ० २५६.

जहानामप केइ पुरिसे तरुणे बलवं जाव—मेहावी निउणसिण्णोवगए एणं महं सामळिगंडियं उल्लं अजडिलं अगंडिलं अचि-
क्कणं अवाइद्धं सपत्तियं तिक्खेण परसुणा अक्कमेज्जा, तए णं से णं पुरिसे नो महंताइं २ सहाइं करेति, महंताइं २ दलारं-
धवहालेति, एवामेव गौयमा ! समणणं निगंथाणं अहावावराइं कम्माइं सिद्धिलीकयाइं णिट्ठियाइं कयाइं, जाव—खिप्पामेव
परिचिद्धत्थाइं भवंति जावतियं तावतियं जाव—महापज्जवसाणा भवंति । से जहा वा केइ पुरिसे सुक्कतणहत्थणं जायतेयंस्सि
धक्खिक्खेज्जा—एवं जहा छट्ठसए तहा अयोक्खले वि, जाव—महापज्जवसाणा भवंति, से तेणट्ठेणं गौयमा ! एवं बुच्चइ—‘जावतियं
अन्नइलायए समणे निगंथे कम्मं निज्जरेति—तं चेव जाव—वासकोडाकोडीए वा नो खवयंति । ‘सेवं भंते ! सेवं भंते ! च्चि
जाव—विहरइ ।

सोलसमे सए चउत्थो उद्देशो समत्तो ।

कर्मोने यथास्थूल, शिथिल यावत्—निष्ठित करेलां छे, यावत्—ते कर्मो शीघ्र ज नाश पामे छे अने यावत्—तेओ (श्रमणो) महापर्यवसान-
वाळा थाय छे. वळी जेम कोइ एक पुरुष सूका घासना पूळने यावत्—अग्निमां फेक्के [अने ते शीघ्र वळी जाय ए प्रमाणे श्रमण निर्ग्रन्थोना
यथा वादर कर्मो शीघ्र नाश पामे छे.] तथा पाणीना टीपाने तपावेल लोढाना कढायामां नाखे तो ते जल्दी नाश पामे ए प्रमाणे श्रमण
निर्ग्रन्थना कर्म शीघ्र विध्वस्त थाय छे—इत्यादि वधुं “छट्ठा शतकनी पेटे कहेवुं, यावत्—तेओ महापर्यवसानवाळा थाय छे. माटे हे गौतम !
ते हेतुथी एम कहुं छे के ‘अन्नगलायक श्रमण निर्ग्रंथ जेट्ठुं कर्म खपावे’—इत्यादि वधुं पूर्व प्रमाणेज कहेवुं—यावत् तेट्ठुं कर्म कोटाकोटी
वरसे पण नैरयिक जीव न खपावे. ‘हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे—’ एम कही यावद्—विहरे छे,

सोळमा शतकमां चतुर्थ उद्देशक समाप्त.

पंचमो उद्देशो.

१. तेणं कालेणं तेणं समएणं उल्लुयतीरे नामं नगरे होत्था, वन्नओ । एगजंवूप चेइए, वन्नओ । तेणं कालेणं तेणं
समएणं सामी समोसढे । जाव—परिसा पज्जुवासति । तेणं कालेणं तेणं समएणं सक्के देविंदे देवराया वज्जापाणी—एवं जहेव
वितियउद्देशए तहेव दिव्वेणं जाणविमाणेणं आगओ, जाव—जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, २ जाव—नमंसित्ता
एवं घयासी—[प्र] देवे णं भंते ! महद्धिए जाव—महेसक्खे वाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता पभू आगमित्तए ? [उ०] नो तिणट्ठे
समट्ठे । देवे णं भंते ! महद्धिए जाव—महेसक्खे वाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पभू आगमित्तए ? [उ०] हंता पभू । [प्र०] देवे
णं भंते ! महद्धिए० एवं एएणं अभिलावेणं २ गमित्तए, एवं ३ भासित्तए वा, वागरित्तए वा, ४ उम्मिसावेत्तए वा निमिसावे-
त्तए वा, ५ आउट्टावेत्तए वा पसारित्तए वा, ६ ठाणं वा सेज्जं वा निसीहियं वा चेइत्तए वा, एवं ७ विउच्चित्तए वा, एवं ८
परियारावेत्तए वा जाव—हंता पभू । इमाइं अट्ठ उक्खित्तपसिणवागरणाइं पुच्छइ, इमाइं० २ पुच्छित्ता संभंतियवंदणएणं वंदति,
संभंतिय० २ वंदित्ता तमेव दिव्वं जाणविमाणं डुरूहति, डुरूहित्ता जामेव दिसं पाउच्चभूए तामेव दिसं पड्डिगए ।

पंचम उद्देशक.

१. ते काले, ते समये उल्लुकतीर नामनुं नगर हतुं. वर्णक. एकजंवुक नामनुं चैल हतुं. वर्णक. ते काले ते समये खामी समोसर्था.
यावत्—सभा पर्युपासना करे छे. ते काले ते समये शक्र देवेन्द्र देवराज वज्रपाणि—इत्यादि जेम बीजा उद्देशकमां कहेवामा आव्युं छे तेम
दिव्य विमान वडे अहीं आव्यो, अने यावत्—जे तरफ श्रमण भगवंत महावीर हता ते तरफ जइ यावत्—नमी आ प्रमाणे बोल्यो† [प्र०] हे
भगवन् ! मोटी ऋद्धिवाळो यावत्—मोटा सुखवाळो देव वहारना पुद्गलोने ग्रहण कर्यां सिवाय अहीं आववा समर्थ छे ? [उ०] हे शक्र !
ना, ए अर्थ समर्थ नयी. [प्र०] हे भगवन् ! मोटी ऋद्धिवाळो यावत्—मोटा सुखवाळो देव वहारना पुद्गलोने ग्रहण करीने अहीं आववा
समर्थ छे ? [उ०] हे शक्र ! हा समर्थ छे. हे भगवन् ! मोटी ऋद्धिवाळो देव यावत्—एज प्रमाणे वहारना पुद्गलोने ग्रहण करीने
१ जवाने, २ बोलवाने, ३ उत्तर देवाने, ४ आख उधाडवाने के आख मींचवाने, ५ शरीरना अवयवोने सकोचवाने के पहोळा करवाने,
६ स्थान शय्या के निपथा—स्नाध्यायभूमिने भोगववाने, ७ विकुर्ववाने अने ८ परिचारणा—विपयोपभोग करवाने समर्थ छे ? [उ०] हा
यावत्—समर्थ छे. ते देवेन्द्र देवराज पूर्वोक्त संक्षिप्त आठ प्रश्नो पूछी अने उत्सुकता—उतावळ पूर्वक भगवंत महावीरने वादी तेज दिव्य
विमान उपर चढी ज्याथी आव्यो हतो त्यां ते पाळो चाल्यो गयो.

उल्लुकतीर नगर-
प्युनवुक चैल

देव वास पुद्गलोने
ग्रहण कर्यां सिवाय
अहीं आववा समर्थ
छे ?

नास पुद्गलोने ग्रहण
करीने अहीं आववा
समर्थ छे ?

वास पुद्गलोने
ग्रहण करीने बोलवा
वगेरे क्रिया करवा
समर्थ छे ?

६ * भग० खं० २ भा० ६ उ० १ पृ० २५६—२५७.

१ † भग० खं० ४ भा० १६ उ० २ पृ० ५

† सर्व ससारी जीवो वास पुद्गलोने ग्रहण कर्यां सिवाय काइ पण क्रिया करी शकता नयी, परन्तु ‘महद्धिक देव समर्थ होवाथी कदाच वाटा पुद्गलोने
ग्रहण कर्यां सिवाय गमनादि क्रिया करे’ एवी सभावनाथी शक्र आ प्रश्न पूछे छे.

२. [प्र०] 'भंते' त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं चंदति नमंसति, चंदित्ता नमंसित्ता पवं चयासी-अपद्रा पं मंते। सके देविदे देवराया देवाणुप्पियं चंदति, नमंसति, सकारेति, जाव-पज्जुवासत्ति, क्किण्णं भंते। अज्ज सके देविदे देवराया देवाणुप्पियं अट्ट उक्खित्तपसिणवागरणां पुच्छर, २-च्छित्ता संभंतियचंदणणं चंदति णमंसति, २ जाव-पडिणए ? [उ०] 'गोय-मा'दि समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं पवं चयासी-पवं खलु गोयमा। तेणं कालेणं तेणं समणं महासुके कण्ये महासमाणे विमाणे दो देवा महदिया जाव-महेसस्सना एगविमाणंसि देवत्ताप उचवशा, तं जटा-मायिमिच्छदिट्टिउचवन्नप य, अमायिस-म्मदिट्टिउचवन्नप य। तए णं से मायिमिच्छादिट्टिउचवन्नप देवे तं अमायिसम्मदिट्टिउचवन्नप देवं पवं चयासी-'परिणममाणो पोग्गला नो परिणया, अपरिणया; परिणमंतीति पोग्गला नो परिणया, अपरिणया'। तए णं से अमायिसम्मदिट्टिउचवन्नप देवं तं मायिमिच्छदिट्टिउचवन्नप देवं पवं चयासी-'परिणममाणो पोग्गला परिणया नो अपरिणया, परिणमंतीति पोग्गला परिणया, नो अपरिणया'। तं मायिमिच्छदिट्टिउचवन्नप पवं पडिहणद, पवं पडिहणित्ता ओहिं पडंजट, ओहिं पडंजित्ता ममं ओहिणा आभो-एइ, ममं आभोएत्ता अयमेयास्से जाव-समुप्पजित्था-'पवं खलु समणे भगवं महार्थारे जंबुदीवे दीवे, जेणेव गारहे चासे, जेणेव उल्लुचतीरे नगरे, जेणेव एगजंबुए चेइए अहापडिरुवं जाव-विहरति, तं सेयं खलु मे समणं भगवं महावीरं चंदित्ता जाव-पज्जुवासित्ता इमं एयास्सं चागरणं पुच्छित्तप'त्ति कट्टु पवं संपहेइ, पवं संपहेत्ता चउहिं सामाणियसाहस्साहिं० परियारो जहा सूरियाभस्स, जाव-निग्घोसनाइयरवेणं जेणेव जंबुदीवे दीवे जेणेव गारहे चासे, जेणेव उल्लुचतीरे नगरे, जेणेव एगजंबुए चेइए, जेणेव ममं अंतियं तेणेव पहारेत्ता गमणाए। तए णं से सके देविदे देवराया तस्स देवस्स तं दिहं देविहिं दिहं देवज्जतिं दिहं देवाणुभागं दिहं तेयलेस्सं असहमाणे ममं अट्ट उक्खित्तपसिणवागरणां पुच्छर, २ संभंतिय० जाव-पडिणए।

२. [प्र०] 'भगवन्'। एम कही पूव्य गौतम श्रमण भगवंत महावीरने वादी, नमी आ प्रमाणे बोल्या के-हे भगवन् ! अन्य दिवसे देवेन्द्र देवराज शक्र देवानुप्रिय आपने वंदन, नमन, सकार यावत्-पर्युपासना करे छे, पण हे भगवन् ! आज ते ते शक्र देवेन्द्र देवराज देवानुप्रिय एवा आपने सक्षिप्त आठ प्रश्नो पूछी अने उत्सुकतापूर्वक वादी नमी यावत्-केम चान्यो गयो ? [उ०] 'हे गौतम ! एम कही, श्रमण भगवंत महावीरे भगवत गौतमने आ प्रमाणे कखुं-हे गौतम ! ए प्रमाणे खरेखर ते काळे ते समये महाशुन कल्पना महासानान्य नामना विमानना मोटी ऋद्धिवाळा, यावत्-मोटा सुखवाळा वे देवो एकज विमानना देवपणे उत्पन्न थयो, तेमा एक मारी मिथ्यादृष्टिसे उत्पन्न थयो अने एक अमारी सम्यग्दृष्टिसे उत्पन्न थयो. खार पछी उत्पन्न थयेला ते मायिमिथ्यादृष्टि देवे उत्पन्न थयेला अमायिसम्यग्दृष्टि देवने आ प्रमाणे कखुं के-'परिणाम पानता पुद्गलो 'परिणत' न कहेवाय, पण 'अपरिणत' कहेवाय. कारण के [हर्जा] ते परिणते छे माटे ते परिणत नथी, पण 'अपरिणत' छे. खारवाद उत्पन्न थयेला ते अमारी सम्यग्दृष्टि देवे उत्पन्न थयेला ते मारी मिथ्यादृष्टि देवने कखुं के, परिणाम पामता पुद्गलो 'परिणत' कहेवाय, पण 'अपरिणत' न कहेवाय, कारण के ते परिणते छे माटे ते परिणत कहेवाय, पण 'अपरिणत' न कहेवाय. ए प्रमाणे कही उत्पन्न थयेला ते अमायिसम्यग्दृष्टि देवे उत्पन्न थयेला मायिमिथ्यादृष्टि देवने परामव कथी. खार पछी तेणे (सम्यग्दृष्टि देवे) अवधिज्ञाननो उपयोग कथी, अने अवधिद्वारा मने जोइने ते सम्यग्दृष्टि देवने आ प्रकारनो संकल्प उत्पन्न थयो के जंबुदीपमां भारतवर्षमां ज्या उल्लुकतीर नामतुं नगर छे, अने ते नगरमा ज्या एकजंबूक नामतुं चैल छे, खां श्रमण भगवंत महावीर यथायोग्य अवग्रह लेइने विहरे छे, तो त्या जई ते श्रमण भगवंत महावीरने वादी यावत्-पर्युपासी आ प्रकारनो प्रश्न पूछ्यो ए मारे माटे श्रेयरूप छे, एम विचारी चार हजार सामानिक देवोना परिचार साथे-जेम सूर्याभ देवने परिवार कथो छे तेम अहि पण समजुं-यावत्-निर्घोष नावित खरपूर्वक जे तरफ जंबुदीप छे, जे तरफ भारतवर्ष छे, जे तरफ उल्लुकतीर नामतुं नगर छे, अने जे तरफ एकजंबूक नामतुं चैल छे तथा ज्यां आगळ हं विद्यमान छुं ते तरफ आववाने तेणे (सम्यग्दृष्टि देवे) विचार कथी. खारवाद ते देवेन्द्र देवराज शक्र मारी तरफ आवता ते देवनी तेवा प्रकारनी दिव्य देवर्षि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवप्रभाव अने दिव्य तेजोराशिने न सहन करतो आठ संक्षिप्त प्रश्नो पूछी अने उत्सुकतापूर्वक वादी यावत्-चान्यो गयो.

२ - 'परिणाम पामता पुद्गलेने परिणत न कहेवा जोइए, कारण के वर्तमानकाळ अने भूतकाळनो परस्पर निरोध छे, तेथी ते अपरिणत कहेवाय, तेनो परिणाम चालु छे माटे ते परिणत न कहेवाय'-ए मिथ्यादृष्टिदेवतुं कथन छे. सम्यग्दृष्टि देव तेने एवो उत्तर आपे छे के परिणाम पामता पुद्गलो परिणत कहेवा जोइए, पण ते अपरिणत न कहेवाय, केमने परिणाम पामे छे एट्टे वे अनुक अशे परिणत थया छे, पण सर्वथा अपरिणत नथी. 'परिणते छे' एतुं कथन ते परिणामना सदभावना ज होइ शके, वे विचार न होइ शके. जो परिणामनो सदभाव मानीए तो अनुक अशे परिणतपणु अदस्य नानतुं जोइए जो अनुक अशे परिणत छनां पण परिणतपणु न मानवामा आवे तो सर्वदा परिणतपणानो अभाव थाय-दीता.

शक्रु उरुना
पूर्वक वादीने जवानु
कारण.

सम्यग्दृष्टि गगदच
देवनी उत्पत्ति कने
तेनो मिथ्यादृष्टि दे
वनी साथे सवाद.

परिणाम पामता
पुद्गले परिणत
कहेवाय.

गंगदच देवतुं भग-
वंत पासि श्रमण.

३. जावं च णं समणे भगवं महावीरे भगवओ गीयमस्स पयमहुं परिकहेति तावं च णं से देवे तं देसं हव-
मागए । तए णं से देवे समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी—[प्र०] एवं खलु
भंते ! महासुक्के कप्पे महासमाणे विमाणे एगे मायिमिच्छदिट्ठिउववन्नए देवे ममं एवं वयासी—‘परिणममाणा पोग्गला नो परि-
णया, अपरिणया, परिणमंतीति पोग्गला नो परिणया, अपरिणया’ । तए णं अहं तं मायिमिच्छदिट्ठिउववन्नं देवं एवं वयासी—
‘परिणममाणा पोग्गला परिणया, नो अपरिणया; परिणमंतीति पोग्गला परिणया, णो अपरिणया, से कहमेयं भंते ! एवं’ ?
‘गंगदत्ता’दि समणे भगवं महावीरे गंगदत्तं देवं एवं वयासी—‘अहं पि णं गंगदत्ता ! एवमाइक्खामि ४—परिणममाणा पोग्गला
जाव—नो अपरिणया, सच्चमेसे अट्ठे । तए णं से गंगदत्ते देवे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं पयमहुं सोच्चा निसम्म
हट्ठ—तुट्ठ० समणं भगवं महावीरं वंदति, नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता नच्चासत्ते जाव—पज्जुवासति ।

४. तए णं समणे भगवं महावीरे गंगदत्तस्स देवस्स तीसे थ जाव—धम्मं परिकहेइ, जाव—आराहए भवति । तए णं
से गंगदत्ते देवे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हट्ठतुट्ठे उट्ठाए उट्ठेति, उ० २ उट्ठेत्ता समणं
भगवं महावीरं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी—[प्र०] अहं णं भंते ! गंगदत्ते देवे किं भवसिद्धिए, अभव-
सिद्धिए ? [उ०] एवं जहा सूरियाभो, जाव—वत्तीसतिविहं नट्ठविहिं उवदंसेति, उवदंसेत्ता जाव—तामेव दिसं पडिगए ।

५. [प्र०] ‘भंते’ति भगवं गीयमे समणं भगवं महावीरं जाव—एवं वयासी—गंगदत्तस्स णं भंते ! देवस्स सा दिट्ठा
देविट्ठी दिट्ठा देवज्जुती जाव—अणुप्पविट्ठा ? [उ०] गीयमा ! सरीरं गया, सरीरं अणुप्पविट्ठा, कूडागारस्सालादिट्ठतो, जाव—
सरीरं अणुप्पविट्ठा । अहो णं भंते ! गंगदत्ते देवे महिद्धिए जाव—महेसक्खे ।

६. [प्र०] गंगदत्तेणं भंते ! देवेणं सा दिट्ठा देविट्ठी दिट्ठा देवज्जुती किण्णा लट्ठा, जाव—गंगदत्तेणं देवेणं सा दिट्ठा
देविट्ठी जाव—अभिसमन्नागया ? [उ०] ‘गीयमा’दी समणे भगवं महावीरे भगवं गीयमं एवं वयासी—एवं खलु गीयमा ! तेणं

३. जे वखते श्रमण भगवंत महावीर पूर्व प्रमाणेनी वात पूज्य गौतमने कही रह्या छे तेज वखते ते (सम्यग्दृष्टि देव) लां शीघ्र
आव्यो अने पछी ते देवे श्रमण भगवंत महावीरने त्रण वार प्रदक्षिणा करी वादी नमी आ प्रमाणे कहुं के—[प्र०] हे भगवन् ! महाशुक कल्प-
मां महासामान्य नामना विमानमा उत्पन्न थएला मायी मिथ्यादृष्टि देवे मने आ प्रमाणे कहुं के परिणाम पामतां पुद्गलो ‘परिणत’ न कहे-
वाय, पण ‘अपरिणत’ कहेवाय. कारण के ते पुद्गलो हजी परिणमे छे माटे ते ‘परिणत’ न कहेवाय, पण ‘अपरिणत’ कहेवाय. पछी में ते
मायी मिथ्यादृष्टि देवने आ प्रमाणे कहुं के—परिणाम पामता पुद्गलो ‘परिणत’ कहेवाय, पण ‘अपरिणत’ न कहेवाय. कारण के ते पुद्गलो परिणमे
छे, माटे ते ‘अपरिणत’ न कहेवाय, पण ‘परिणत’ कहेवाय. तो हे भगवन् ! ए मारुं कयन केवुं छे ? [उ०] ‘गंगदत्त’ ! एम कही
श्रमण भगवंत महावीरे ते गंगदत्त देवने आ प्रमाणे कहुं के—हे गंगदत्त ! हुं पण ए प्रमाणे कहुं छुं ४, के परिणाम पामता पुद्गलो यावत्—
‘अपरिणत’ नथी पण ‘परिणत’ छे, अने ते अर्थ सत्य छे. त्वार पछी श्रमण भगवंत महावीर पासेयी ए वातने सांभळी अवधारी ते गंगदत्त
देव हर्षवालो अने सतोपवालो थई श्रमण भगवंत महावीरने वादी नमी वहु दूर नहि अने वहु नजीक नहीं एवी रीते पासे वेसी तेओनी
पर्युपासना करे छे.

४. पछी श्रमण भगवंत महावीरे ते गंगदत्त देवने अने ते मोटामा मोटी सभाने धर्मकथा कही, यावत्—ते आराधक थयो. पछी ते
गंगदत्त देव श्रमण भगवंत महावीर पासेयी धर्मने सांभळी अवधारी हर्ष अने संतोपयुक्त थई उभो थयो, उभो थईने श्रमण भगवंत
महावीरने वादी, नमी आ प्रमाणे बोल्यो के—[प्र०] हे भगवंत ! हुं गंगदत्त देव भवसिद्धिक छुं के अभवसिद्धिक छुं ? [उ०] जेम ‘सूर्याभ
देव संवन्धे कहुं तेनी पेठे वंधुं जाणहुं; यावत् ते गंगदत्त देव वत्रीस प्रकारना नाटक देखाडी ज्याथी आव्यो हतो लां पाछो चाल्यो गयो.

५. [प्र०] हे भगवन् ! एम कही पूज्य गौतमे श्रमण भगवंत महावीरने आ प्रमाणे कहुं के—हे भगवन् ! ए गंगदत्त देवनी ते
दिव्य देवर्षि, दिव्य देवद्युति यावत्—क्यां गई ? [उ०] हे गौतम ! ते दिव्य देवर्षि ते गंगदत्त देवना शरीरमां गइ, अने शरीरमां अनुप्रविष्ट
थई. आ स्थळे पूर्वोक्त कूटागार शालानो दृष्टात जाणवो. अने ते यावत्—‘शरीरमा अनुप्रविष्ट थई’. हे भगवन् ! ए गंगदत्त देव तो मोटी
ऋद्धिवालो यावत्—मोटा सुखवालो छे.

६. [प्र०] हे भगवन् ! गंगदत्त देवे ते दिव्य देवर्षि अने दिव्य देवद्युति थायी मेळवी, यावत्—दिव्य देवर्षि तेने थायी अभिसमन्ना-
गत—प्राप्त थई ? [उ०] ‘भो गौतम ! एम कही श्रमण भगवंत महावीरे पूज्य गौतमने आ प्रमाणे कहुं के—हे गौतम ! ते काळे ते समये आज

गंगदत्तनो भग-
वतने प्रश्न.

गंगदत्त देव भवसि-
द्धिक छे के अभवसि-
द्धिक छे इत्यारि प्रश्न.

गंगदत्तनी दिव्य
देवर्षि क्या गई ?

कालेणं तेषं समपणं इहेव जंबुद्वीवे दीवे मारहे वासे हृत्थिणापुरे नामं नगरे होत्या, वचओ । सहसंबवणे उज्जाणे, वचओ । तत्थ णं हृत्थिणापुरे नगरे गंगदत्ते नामं गाहावती परिवसति, अट्टे जाव-अपरिभूय । तेषं कालेणं तेषं समपणं मुणिसुव्वप चरहा आदिगरे जाव-सद्यन्न सव्वदरिसी आगासगणं चक्रेणं जाव-पकडिज्जमाणेणं ५० २ सीसगणसंपरिवुडे पुद्याणुपुत्तिं चरमाणे गामाणुगामं० जाव-जेणेव सहसंबवणे उज्जाणे जाव-विहरति । परिसा निग्गया, जाव-पज्जुवासति । तए णं से गंगदत्ते गाहावती इमीसे क्हाए लद्धे समणे हट्टुट्टु- जाव- कयवलि- जाव-सरीरे साओ गिहाओ पडिनिम्भमति, पडिनिम्भमिच्चा पायविहारचारेणं हृत्थिणापुरं नगरं मज्झमज्जेणं निग्गच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेव सहसंबवणे उज्जाणे जेणेव मुणिसुव्वप चरहा तेणेव उवागच्छइ, ते० २-गच्छित्ता मुणिसुव्वयं अरहं तिम्बुत्तो आयाहिणं० जाव-तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासति ।

७. तए णं मुणिसुव्वप चरहा गंगदत्तस्स गाहावतिस्स तीसे य महति० जाव-परिसा पडिगया । तए णं से गंगदत्ते गाहावती मुणिसुव्वयस्स अरहओ अंतियं धम्मं सोच्चा निसम्म हट्टुट्टु० उट्टाए उट्टेति, उ० २-त्ता मुणिसुव्वयं अरहं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता पवं वयासी-सहहामि णं मंते ! निग्गयं पावयणं, जाव-से जहेयं तुज्जे वदह, जं नवरं देवाणुप्पिया ! जेट्टुपुत्तं कुडुंवे ठावेमि, तए णं अहं देवाणुप्पियाणं अंतियं मुंडे जाव-पद्यामि । अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंथं ।

८. तए णं से गंगदत्ते गाहावई मुणिसुव्वपणं अरहया पवं वुत्ते समणे हट्टुट्टु० मुणिसुव्वयं अरहं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता मुणिसुव्वयस्स अरहओ अंतियाओ सहसंबवणाओ उज्जाणाओ पडिनिम्भमति, २-मिच्चा, जेणेव हृत्थिणापुरे नगरे जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छति, ते० २-गच्छित्ता विउळं असणं पाणं जाव-उचन्नद्वदयेति, उचक्खडावेत्ता मिच्च-णाति-णियगं० जाव-आमंतेति, आमंतेत्ता तओ पच्छा ण्हाए जहा पूरणे, जाव-जेट्टुपुत्तं कुडुंवे ठावेति । तं मिच्च-णाति-जाव-जेट्टुपुत्तं च आपुच्छति, आपुच्छित्ता पुरिससहस्सवाहाणं सीयं डुरुहति, पुरिसं० २ डुरुहित्ता मिच्च-णाति-नियगं० जाव-

जंबूद्वीपमां, भारतवर्षमा हस्तिनापुर नामतुं नगर हतुं. वर्णन. त्या सहस्राश्रवण नामतुं उचान हतुं. वर्णन. ते हस्तिनापुर नगरमां आढ्य, यावत्-अपरिभूत एओ गंगदत्त नामनो गृहपति रहितो हतो. ते काले, ते समये आदिकर, यावत्-सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, आकाशगत चक्र-सहित, यावत्-देवोवडे खंचाना धर्मध्वजयुक्त, शिष्यगणथी संपरिवृत थई पूर्वानुपूर्वी विचरता अने प्रामानुप्राप्त विहरता यावत्-श्रीमुनिसुव्वत नामे अरहंत यावत्-जे तरफ सहस्राश्रवण नामतुं उचान हतुं त्यां आच्या अने यावत् विहरवा लाग्या. सभा वादवा नीकळी अने यावत्-पर्युपासना करवा लागी. स्यारवाढ ते गंगदत्त नामे गृहपति आवी रीते श्रीमुनिसुव्वत स्वामी आच्यानी वात सांमळी हर्षवाळ्ये अने संतोपवाळ्ये थई यावत्-वलिक्कर्म करी शरीरने शणगारी पोताना धरथी नीकळ्यो, नीकळी पगे चाळीने हस्तिनापुर नगरनी वचोवच्च थई जे तरफ सहस्राश्रवण नामतुं उचान हतुं अने ज्यां श्रीमुनिसुव्वत अरहंत हता त्यां आवी मुनिसुव्वत अरहंतने त्रण वार प्रदक्षिणा करी, यावत्-त्रण प्रका-रनी पर्युपासना वडे पर्युपासना करवा लाग्यो.

७. स्यार पठी ते श्रीमुनिसुव्वत स्वामीए ते गंगदत्त गृहपतिने तथा ते मोटी महासभाने धर्मकथा वही; यावत्-सभा पाळी गई. स्यार वाढ ते गंगदत्त नामे गृहपति श्रीमुनिसुव्वत अरिहंत पासेथी धर्माने सांमळी, अवधारी हर्ष तथा संतोपयुक्त थई उभो थयो, लठीने श्रीमुनिसुव्वत स्वामीने वादी, नमी आ प्रमाणे वोल्यो के हे भगवन् ! हुं निप्रथना प्रवचनमां श्रद्धा करुं छुं, यावत्-आप जे प्रमाणे कहो छो ते तेमज मातुं छुं. विज्ञेय ए के हे देवानुप्रिय ! मारा मोटा पुत्रने कुटुंबनो मुख्यभूत स्थापीने आप देवानुप्रियनी पासे मुंड थई यावत्-प्रवच्या लेवा इच्छुं छुं. [श्रीमुनिसुव्वत स्वामीए कहुं के] हे देवानुप्रिय ! जेम सुख थाय तेम कर, विळंव न कर.

८. ज्यारे ते मुनिसुव्वत स्वामीए ते गंगदत्त नामे गृहपतिने ए प्रमाणे कहुं लारे ते हर्षयुक्त अने संतोपयुक्त थई मुनिसुव्वत स्वामीने वादी, नमी मुनिसुव्वत स्वामी पासेथी सहस्राश्रवण नामना उचानथी नीकळी जे तरफ हस्तिनापुर नगर छे अने ज्यां पोतानुं घर छे त्या आळ्यो. आर्वाने शिष्य अश्रन, पान-यावत्-तैयार करावी पोताना मित्र, ज्ञाति स्वजन वगेरेने नोनर्था. पठी ज्ञान करी पूरण शेटनी पेटे यावत्-पोताना मोटा पुत्रने कुटुंबना मुख्य तरिके स्वामी पोताना मित्र, ज्ञाति, स्वजन वगेरेने तथा मोटा पुत्रने पृथी हजार पुरुषवडे उपाडी शकाय तैवी शिविकामा वेसी, पोताना मित्र, ज्ञाति, स्वजन यावत् परिवारवडे तथा मोटा पुत्रवडे अनुसरातो सर्व ऋदिसहित यावत्-वादित्रना थता घोषपूर्वक हस्तिनापुरनी वचोवच्च निकळी जे तरफ सहस्राश्रवण नामे उचान छे, ते तरफ आवी तीर्थकरना छत्रादि अतिशय जोडे यावत्-उदायन राजानी पेटे यावत्-पोतानी मेळेज पोताना वरेणा उतार्था अने पोतानी मेळेज पंचमुष्टिक लोच कर्यो. स्यार वाढ श्रीमुनिसुव्वत स्वामीनी पासे जई उदायन राजानी पेटे दीक्षा लीधी. यावत्-तैज प्रमाणे ते गंगदत्त अणगार शगीयार जगो भण्यो, यावत्-एक.

हस्तिनापुर
महाश्रवण
गंगदत्त गृहपति.

मुनिसुव्वत स्वामीनु
आगमन.

मुनिसुव्वत स्वामीनी
देवना छे गंग-
दत्तने प्रदिनोद.

गंगदत्तनी पीडा.

परिजणेण जेद्वपुत्तेण य समणुगम्ममाणमग्गे सच्चिद्विण्ण जाव-णादितरवेण हत्थिणागपुरं मज्झमज्जेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव सहसंबवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, ते० २-गच्छित्ता छत्तादिते तित्थगरातिसए पासति । एवं जहा उदायणो, जाव-सय-मेव आभरणे ओसुयइ, स० २ ओसुइत्ता सयमेव पंचसुद्धियं लोयं करेति, स० २ करेत्ता जेणेव मुणिसुधए अरहा एवं जहेव उदायणे तहेव पवइए, तहेव एक्कारस अंगाइं अहिजइ, जाव-मासियाए संलेहणाए साट्ठिं भत्ताइं अणसणाए जाव-छेदेति; साट्ठिं० २ छेदेत्ता आलोइय-पडिकंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा महासुक्के कप्पे महासमाणे विमाणे उवघायसभाए देवसयणिजंसि जाव-गंगदत्तदेवत्ताए उचवन्ने । तए णं से गंगदत्ते देवे अहुणोचवन्नमेत्तए समाणे पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्त-भावं गच्छति, तंजहा-आहारपज्जत्तीए, जाव-भासा-मणपज्जत्तीए । एवं खलु गोयमा ! गंगदत्तेणं देवेणं सा दिव्वा देविद्वी जाव-अभिसमघ्रागया ।

९. [प्र०] गंगदत्तस्स णं भंते ! केवतियं कालं ठिती पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! सत्तरस्स सागरोचमाइं ठिती पन्नत्ता ।

१०. [प्र०] गंगदत्ते णं भंते ! देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खपणं० ? [उ०] जाव-महाविदेहे वासे सिज्झिदिति, जाव-अंतं कादिति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! ति ।

सोलसमे सए पंचमो उद्देशो समतो ।

मासनी संलेखना वडे साठ भक्त-त्रीश दिवस अनशनपणे वीतावी आलोचन-प्रतिक्रमण करी समाधिपूर्वक मरणसमये मृत्यु प्राप्त करी ते महाशुक्र कल्पमा महासामान्य नामना विमानमा उपपात सभाना देवशयनीयमां यावत्-गंगदत्त देवपणे उत्पन्न ययो. पछी ते तुरतज उत्पन्न थएलो गंगदत्त देव पांच प्रकारनी पर्यासिवडे पर्यासपणाने पाम्यो. ते पर्यासिना पाच प्रकार आ प्रमाणे छे-आहारपर्यासि, यावत्-भापा-मनःपर्यासि. ए प्रमाणे हे गौतम ! ते गंगदत्त देवे ते दिव्य देवर्षि पूर्वोक्त कारणथी यावत्-प्राप्त करी छे.

गंगदत्तनी महाशुक्र कल्पमा देवतरीके उत्पत्ति.

९. [प्र०] हे भगवन् ! ते गंगदत्त देवनी स्थिति केटला काळनी कही छे ! [उ०] हे गौतम ! तेनी स्थिति सत्तर सागरोपमनी कही छे.

गंगदत्त देवनी स्थिति.

१०. [प्र०] हे भगवन् ! ते गंगदत्त देव तेना आयुपनो क्षय यथा पछी ते देवलोकथी निकळी क्यां जशे ? [उ०] हे गौतम ! ते महाविदेह क्षेत्रमा सिद्ध थशे, यावत्-सर्व दुःखोनो नाश करशे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

गंगदत्त देवलोकथी प्यथी क्यां जशे ?

सोलसा शतकमां पंचम उद्देशक समाप्त.

छट्टो उद्देशो.

१. [प्र०] कतिविहे णं भंते ! सुविणदंसणे पण्णत्ते ? [उ०] गोयमा ! पंचविहे सुविणदंसणे पण्णत्ते, तंजहा-१ अहा-तत्त्वे, २ पयाणे, ३ चिंतासुविणे, ४ तद्विवरीए, ५ अवत्तदंसणे ।

२. [प्र०] सुत्ते णं भंते ! सुविणं पासति, जागरे सुविणं पासति, सुत्तजागरे सुविणं पासति ? [उ०] गोयमा ! नो सुत्ते सुविणं पासइ, नो जागरे सुविणं पासइ, सुत्तजागरे सुविणं पासइ ।

षष्ठ उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! स्वप्नदर्शन केटला प्रकारसुं कलुं छे ? [उ०] हे गौतम ! पाच प्रकारसुं स्वप्नदर्शन कलुं छे. ते आ प्रमाणे- १ यथातथ्य स्वप्नदर्शन, २ प्रतान स्वप्नदर्शन, ३ चिंता स्वप्नदर्शन, ४ तद्विपरीत स्वप्नदर्शन, अने ५ अव्यक्त स्वप्नदर्शन.

स्वप्नदर्शन.

२. [प्र०] हे भगवन् ! सूतेले प्राणी स्वप्न जुए, जागतो प्राणी स्वप्न जुए के सूतो जागतो प्राणी स्वप्न जुए ? [उ०] हे गौतम ! सूतेले प्राणी स्वप्न न जुए, जागतो प्राणी स्वप्न न जुए पण सूतो जागतो प्राणी स्वप्नने जुए.

स्वप्न न्यारे जुए ?

१ * सूती अवस्थामा कोइ पण अर्थना विकरपनो अनुभव करवो ते स्वप्न, तेना पाच प्रकार छे-१ यथातथ्य-सत्य अथवा तात्त्विक. तेना दृष्टार्थाविस-वादी अने फलाविसवादी एवा वे प्रकार छे स्वप्नमा जोएला अर्थने अनुमारे जाग्रत अवस्थामां वनाव वने ते दृष्टार्थाविसवादी जेमके कोइ माणस स्वप्नमां जुए के 'मने कोइए हाथमा फल आप्यु' अने ते जागीने तेज प्रमाणे जुए, स्वप्नमा अनुसार जेतुं फल अवश्य मळे ते फलाविसवादी. जेमके कोइ गाय, बच्छ, हाथी बगेरे उपर आरुढ थयेलो पोताने स्वप्नमा जुए अने जाग्या पछी काळान्तरे सपत्ति पामे. २ प्रतानस्वप्न-विस्तारवाहुं स्वप्न, ते यथातथ्य पण होय के अन्यथा पण होय. आ वधे स्वप्ननो परस्पर भेद मात्र विशेषणकृत छे. ३ चिन्ता-जाग्रत अवस्थामा जे अर्थनु चिन्तन करेछ होय तेने स्वप्नमा जुए ते. ४ जेहु स्वप्न जोयु होय तेवी विरुद्ध वस्तुनी जाग्रत अवस्थामा प्राप्ति थाय ते तद्विपरीतस्वप्न. जेमके स्वप्नमा अशुचि पदार्थथी विलिप्त पोताने जुए अने जाग्रत अवस्थामा कोइ शुचि पदार्थ प्राप्त थाय. ५ अने स्वप्नमा अस्वप्न अर्थनो अनुभव करवो ते अव्यक्त दर्शन.

૩. [પ્ર૦] જીવા ણં મંતે! કિં સુત્તા, જાગરા, સુત્તજાગરા? [૩૦] ગોયમા! જીવા સુત્તા વિ, જાગરા વિ, સુત્તજાગરા વિ।
 ૪. [પ્ર૦] નેરહયા ણં મંતે! કિં સુત્તા-પુચ્છા। [૩૦] ગોયમા! નેરહયા સુત્તા, નો જાગરા, નો સુત્તજાગરા। ઇવં જાવ-ચરિરિદિયા।

૫. [પ્ર૦] પંચિન્દ્રિયતિરિક્ષજોણિયા ણં મંતે! કિં સુત્તા-પુચ્છા। [૩૦] ગોયમા! સુત્તા, નો જાગરા, સુત્તજાગરા વિ। મણુસ્સા જહા જીવા। વાણમંતર-જોહસિય-વેમાણિયા જહા નેરહયા।

૬. [પ્ર૦] સંબુહે ણં મંતે! સુવિણં પાસદ્, અસંબુહે સુવિણં પાસદ્, સંબુહાસંબુહે સુવિણં પાસદ્? [૩૦] ગોયમા! સંબુહે વિ સુવિણં પાસદ્, અસંબુહે વિ સુવિણં પાસદ્, સંબુહાસંબુહે વિ સુવિણં પાસદ્। સંબુહે સુવિણં પાસતિ અહાતથ્થં પાસતિ। અસંબુહે સુવિણં પાસતિ તહા વા તં હોજા, અદ્દહા વા તં હોજા। સંબુહાસંબુહે સુવિણં પાસતિ ઇવં ચેવ।

૭. [પ્ર૦] જીવા ણં મંતે! કિં સંબુહા, અસંબુહા, સંબુહાસંબુહા? [૩૦] ગોયમા! જીવા સંબુહા વિ, અસંબુહા વિ, સંબુહાસંબુહા વિ। ઇવં જદ્દેવ સુત્તાણં દંડયો તદ્દેવ માણિયદ્દો।

૮. [પ્ર૦] કતિ ણં મંતે! સુવિણા પ્પણ્ણત્તા? [૩૦] ગોયમા! વાયાલીસં સુવિણા પ્પણ્ણત્તા।

૯. [પ્ર૦] કહ ણં મંતે! મહાસુવિણા પ્પણ્ણત્તા? [૩૦] ગોયમા! તીસં મહાસુવિણા પ્પણ્ણત્તા।

૧૦. [પ્ર૦] કતિ ણં મંતે! સદ્ધસુવિણા પ્પણ્ણત્તા? [૩૦] ગોયમા! વાવત્તરિં સદ્ધસુવિણા પ્પણ્ણત્તા।

૧૧. [પ્ર૦] તિત્થગરમાયરો ણં મંતે! તિત્થગરંસિ ગમ્મં વક્કમમાણંસિ કતિ મહાસુવિણે પાસિત્તા ણં પડિવુજ્જંતિ! [૩૦] ગોયમા! તિત્થચરમાયરો ણં તિત્થગરંસિ ગમ્મં વક્કમમાણંસિ ષ્પર્સિં તીસાપ્ મહાસુવિણાણં ઇમે ચોહ્સ મહાસુવિણે પાસિત્તા ણં પડિવુજ્જંતિ, તં જહા-ગય-ઉસમ-સીહ-અમિસેય- જાવ-સિહિં ચ।

જીવો સૂતા-જાગતા
કે સૂતા-જાગતા છે?

૩. [પ્ર૦] હે ભગવન્! જીવો સૂતેલા છે, જાગૃત છે કે સૂતા-જાગતા છે? [૩૦] હે ગૌતમ! જીવો મૂતેલા પળ છે, જાગૃત પળ છે અને સૂતા-જાગતા પળ છે.

૪. [પ્ર૦] હે ભગવન્! નૈરયિકો સૂતેલા છે-ઇત્યાદિ પ્રશ્ન. [૩૦] હે ગૌતમ! નૈરયિકો સૂતેલા છે, પળ જાગતા કે સૂતા-જાગતા નથી. એ પ્રમાણે વાવત્-ચરિરિન્દ્રિય સંવન્ધે પળ જાણવું.

૫. [પ્ર૦] હે ભગવન્! પંચેન્દ્રિય તિર્યચ્યોનિકો સુતેલા છે-ઇત્યાદિ પ્રશ્ન. [૩૦] હે ગૌતમ! તેઓ મૂતેલા છે અને મૂતા-જાગતા પળ છે. પળ [તદ્દન] જાગતા નથી. મનુષ્યના પ્રશ્નમા સામાન્ય જીવોની પેટે જાણવું. વાનસ્વંતર, જ્યોતિષિક અને વૈમાનિક દેવોના પ્રશ્નમાં નૈરયિકોની પેટે સમજવું.

૬. [પ્ર૦] હે ભગવન્! સંવૃત જીવ સ્વપ્ન જુણ, અસંવૃત જીવ સ્વપ્ન જુણ કે સંવૃતાસંવૃત જીવ સ્વપ્ન જુણ? [૩૦] હે ગૌતમ! સંવૃત, અસંવૃત અને સંવૃતાસંવૃત એ ત્રણે જીવો સ્વપ્ન જુણ, પળ સંવૃત જીવ સત્ત સ્વપ્ન જુણ, અસંવૃત જીવ જે સ્વપ્ન જુણ તે સત્ત પળ હોય અસત્ત પળ હોય; તથા અસંવૃતની પેટે સંવૃતાસંવૃત જીવ પળ સ્વપ્ન જુણ.

૭. [પ્ર૦] હે ભગવન્! જીવો સંવૃત છે, અસંવૃત છે કે સંવૃતાસંવૃત છે? [૩૦] હે ગૌતમ! જીવો સંવૃત, અસંવૃત અને સંવૃતા-સંવૃત એ ત્રણે પ્રકારના છે. જેમ સુત્ત જીવોનું વર્ણન કરેલું છે તેમ અહીં પળ સમજવું.

૮. [પ્ર૦] હે ભગવન્! સ્વપ્ન કેટલા પ્રકારના કહ્યાં છે? [૩૦] હે ગૌતમ! સ્વપ્નો વૈતાલીય પ્રકારના કહ્યાં છે.

૯. [પ્ર૦] હે ભગવન્! મહાસ્વપ્ન કેટલા પ્રકારના કહ્યાં છે? [૩૦] હે ગૌતમ! મહાસ્વપ્ન ત્રીસ પ્રકારના કહ્યાં છે.

૧૦. [પ્ર૦] હે ભગવન્! વધા મઠ્ઠીને કેટલાં સ્વપ્નો કહ્યાં છે? [૩૦] હે ગૌતમ! વધા મઠ્ઠીને વહેંતિરે સ્વપ્નો કહ્યાં છે.

૧૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્! જ્યારે તીર્થંકરનો જીવ ગર્ભમાં અવતરે ત્યારે તીર્થંકરની માતાઓ કેટલા મહાસ્વપ્નો જોઈને જાગે? [૩૦] હે ગૌતમ! જ્યારે તીર્થંકરનો જીવ ગર્ભમાં અવતરે ત્યારે તીર્થંકરની માતાઓ ત્રીસ મહાસ્વપ્નોમાથી ચૌદ મહાસ્વપ્નો જોઈને જાગે છે. તે આ પ્રમાણે (૧) હાથી, (૨) વલ્લહ, (૩) સિંહ, વાવત્-(૧૪) અગ્નિ.

૩ " સુત્ત અને જાગૃત ટ્થ અને માવની ષ્પેલાએ યે પ્રકારે હોય છે. તેમાં નિદ્રાગુક ટ્થથી સૂતેલો કહેવાય છે, અને નિરતિરહિત માવથી સૂતેલો કહેવાય છે. પૂર્વના મૂત્રોમા સ્વપ્નની દ્વીવત્ત નિદ્રાની ષ્પેલાએ કહી છે, દ્વે નિરતિની ષ્પેલાએ જીવાદિ દંડને આશ્રયી માવથી સૂતાપણા અને જાગૃતપણાની પ્રહુણા કરે છે તેમા જે જીવો સર્વનિરતિરુપ નૈશ્વયિક જાગૃતિ વિનાના અનિરતિવાઝા કહેવાય છે તે મૂતેલા, જેઓ સર્વનિરતિરુપ જાગૃતિવાઝા છે તે જાગૃત કહેવાય છે, અને જેઓ અનિરતિવાઝા અને કદ્દર અંગે નિરતિવાઝા છે તેઓ મૂતા-જાગતા કહેવાય છે-ટીકા.

१२. [प्र०] चक्रवट्टिमायरो णं भंते! चक्रवट्टिसि गव्वं वक्कममाणंसि कति महासुमिणे पासित्ता णं पडिबुज्झंति ? [उ०] गोयमा! चक्रवट्टिमायरो चक्रवट्टिसि जाव-वक्कममाणंसि एएसि तीसाए महासुविणाणं०, एवं जहा तित्थगरमायरो जाव-सिहिं च ।

१३. [प्र०] वासुदेवमायरो णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा! वासुदेवमायरो जाव-वक्कममाणंसि एएसि चोइसण्हं महासु-विणाणं अन्नयरे सत्त महासुविणे पासित्ता णं पडिबुज्झंति ।

१४. [प्र०] वलदेवमायरो-पुच्छा । [उ०] गोयमा! वलदेवमायरो जाव-एएसि चोइसण्हं महासुविणाणं अन्नयरे चत्तारि महासुविणे पासित्ता णं पडिबुज्झंति ।

१५. [प्र०] मंडलियमायरो णं भंते!-पुच्छा । [उ०] गोयमा! मंडलियमायरो जाव-एएसि चोइसण्हं महासुविणाणं अन्नयरं एणं महासुविणं जाव-पडिबुज्झंति ।

१६. समणे भगवं महावीरे छउमत्थकालियाए अंतिमराइयंसि इमे दस महासुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धे, तं जहा- १ एणं च णं महं घोररूवदिच्चरं तालपिसायं सुविणे पराजियं पासित्ता णं पडिबुद्धे । २ एणं च णं महं सुक्किल्लपन्खगं पुंसकोइलं सुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धे । ३ एणं च णं महं चित्तविचित्तपक्खगं पुंसकोइलं सुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धे । ४ एणं च णं महं दामदुगं सव्वरयणामयं सुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धे । ५ एणं च णं महं सेयं गोवग्गं सुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धे । ६ एणं च णं महं पउमसरं सव्वओ समंता कुसुमियं सुविणे० । ७ एणं च णं महं सागरं उम्मीवीयीसहस्सकलियं भुयाहिं तिनं सुविणे पासित्ता० । ८ एणं च णं महं दिणयरं तेयसा जलंतं सुविणे पासित्ता० । ९ एणं च णं महं हरिवेरुलि-यवन्नाभेणं नियगेणं अंतेणं माणुसुत्तरं पच्चयं सव्वओ समंता आवेदिय-परिवेदियं सुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धे । १० एणं च णं महं मंदरे पच्चए मंदरचूलियाए उवरिं सीहासनवरगयं अप्पाणं सुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धे ।

१२. [प्र०] हे भगवन्! ज्यारे चक्रवर्तीनो जीव गर्भमा अवतरे ल्यारे चक्रवर्तीनी माताओ केटला महास्वम जोईने जागे ? [उ०] हे गौतम! ज्यारे चक्रवर्तीनो जीव गर्भमा अवतरे ल्यारे चक्रवर्तीनी माताओ ए त्रीस महास्वमोमाथी चौद महास्वमो तीर्थकरनी माताओनी पेटेज जुए छे अने पछी जागे छे, ते चौद स्वम पूर्व प्रमाणे जाणवा, यावत्-अग्नि.

चक्रवर्तीनी माता
केटला स्वम जुए ?

१३. [प्र०] एज प्रमाणे वासुदेवनी मातानी स्वमसवन्धे पृच्छा । [उ०] हे गौतम! ज्यारे वासुदेवनी जीव गर्भमा अवतरे ल्यारे वासुदेवनी माताओ ए चौद महास्वमोमाथी कोइ पण सात महास्वमो जोईने जागे छे.

वासुदेवनी माता
केटला स्वम जुए ?

१४. [प्र०] ए प्रमाणे वलदेवनी माताओ सवन्धे स्वमनो प्रश्न. [उ०] हे गौतम! वलदेवनी माताओ ए चौद महास्वमोमाथी कोई पण चार महास्वमो जोईने जागे छे.

वलदेवनी माताओ
केटला स्वमो जुए ?

१५. [प्र०] मांडलिक राजानी माताना स्वमनी एज प्रमाणे पृच्छा करवी. [उ०] हे गौतम! मांडलिक राजाओनी माताओ ए चौद स्वमोमाथी कोई पण एक महास्वमने जोईने जागे छे.

मांडलिकनी माताओ
केटला स्वम जुए ?

१६. ज्यारे श्रमण भगवंत महावीर छद्मस्वपणामां हता ल्यारे तेओ एक रात्रिना छेछा प्रहरमा आ दश महास्वमो जोईने जाग्या. ते आ प्रमाणे—

छद्मस्वपणामा भग-
वंत महानीनु १०
स्वमोने जोइ

(१) 'एक मोटा भयंकर अने तेजस्वी रूपवाळा ताड जेवा पिशाचने पराजित कर्यो' एवुं स्वम जोईने तेओ जाग्या.

(२) एक मोटा धोळी पाखवाळा पुंस्कोकिलने (नरजातिना कोयलने) तेओए स्वममां जोयो अने जोईने जाग्या.

(३) एक मोटा चित्रविचित्र पाखवाळा पुंस्कोकिलने स्वममा जोई तेओ जाग्या.

(४) एक महान् सर्वरत्नमय मालायुगलने स्वममा जोईने जाग्या.

(५) एक मोटा अने धोळा गायना धणने स्वममा जोई तेओ जाग्या.

(६) चारे वाजुथी कुसुमित थएला एक मोटा पद्मसरोवरने स्वममा जोईने जाग्या.

(७) 'हजारो तरंग अने कळोलोथी व्याप्त एक महासागरने पोते हायवडे तयो' एवुं स्वम जोई तेओ जाग्या.

(८) तेजथी जळहळता एक मोटा सूर्यने स्वममा जोईने जाग्या.

(९) एक मोटा मानुषोत्तर पर्वतने लीळा वैदूर्यना वर्ण जेवा पोताना आतरडावडे सर्व वाजुएथी आवेष्टित अने परिवेष्टित थयेला स्वममा जोईने जाग्या.

(१०) अने एक महान् मंदर (मेरु) पर्वतनी मंदर चूलिका उपर सिंहासनमा वेटेल पोताना आत्माने जोई तेओ जाग्या.

૧૭. (૧) જળ્ણં સમણં ભગવં મહાવીરેણં મહં ધોરસ્ત્વદિત્તધરં તાલપિસાયં સુવિષેણે પરાજિયં જાવ-પડિવુદ્ધે, તણ્ણં સમણેણં ભગવચ્ચા મહાવીરેણં મોહણિજ્જે કમ્મે મૂલાઓ ઉગ્ધાયિણં । (૨) જલ્ણં સમણે ભગવં મહાવીરેણં મહં સુક્કિલ્લ-જાવ-પડિવુદ્ધે, તણ્ણં સમણે ભગવં મહાવીરે સુક્કજ્ઞાણોવગણં વિહરતિ । (૩) જળ્ણં સમણે ભગવં મહાવીરેણં મહં ચિત્તવિચિત્ત-જાવ-પડિવુદ્ધે તણ્ણં સમણે ભગવં મહાવીરે વિચિત્તં સસમયપરસમદ્યં દુવાલસંગં ગણિપિટકં આઘવેતિ, પન્નવેતિ, પરુવેતિ, દંસેતિ, નિદંસેતિ, ઉચ્ચદંસેતિ, તંજહા-૧ આચારં, ૨ સૂચગહં, જાવ-૧૨ દિટ્ઠિવાયં । (૪) જળ્ણં સમણે ભગવં મહાવીરેણં મહં દ્રામદુગં સદ્ધરચ્ચણામયં સુવિષેણે પાસિત્તા ણં પડિવુદ્ધે તણ્ણં સમણે ભગવં મહાવીરેણં દુવિહે ધમ્મે પન્નવેતિ, તં જહા-આગારધમ્મં વા અણાગારધમ્મં વા । (૫) જળ્ણં સમણે ભગવં મહાવીરેણં મહં સેયં ગોવગ્ગં જાવ-પડિવુદ્ધે, તણ્ણં સમણસ્સ ભગવઓ મહાવીરસ્સ ચાઉદ્ધવ્ણાદ્ધે સમણસંધે, તં જહા-૧ સમણા, ૨ સમણીઓ, ૩ સાવયા, ૪ સાવિયાઓ । (૬) જળ્ણં સમણે ભગવં મહાવીરેણં મહં પડમસરં જાવ-પડિવુદ્ધે તણ્ણં સમણે જાવ-વીરે ચડધિહે દેવે પન્નવેતિ, તં જહા-૧ ભવણવાસી, ૨ વાણ-મંતરે, ૩ જોતિસિણ, ૪ વેમાણિણ । (૭) જલ્ણં સમણે ભગવં મહાવીરેણં મહં સાગરં જાવ-પડિવુદ્ધે તલ્ણં સમણેણં ભગવચ્ચા મહાવીરેણં અણાદીણં અણવદગ્ગે જાવ-સંસારકંતારે તિથ્થે । (૮) જલ્ણં સમણે ભગવં મહાવીરેણં મહં દિણયરં જાવ-પડિવુદ્ધે તલ્ણં સમણસ્સ ભગવઓ મહાવીરસ્સ અણંતે અણુત્તરે જાવ-કેવલવરનાણદંસણે સમુપ્પન્ને । (૯) જળ્ણં સમણે જાવ-વીરેણં મહં હરિવેરુહિલિય- જાવ-પડિવુદ્ધે તણ્ણં સમણસ્સ ભગવઓ મહાવીરસ્સ ઓરાલા કિત્તિ-વન્ન-સદ્-સિલોયા સદેવમણુયાસુરે લોણે પરિભમંતિ-શ્ચતિ ચ્ચલુ સમણે ભગવં મહાવીરે, શ્ચતિ ૦ ૨ । (૧૦) જલ્ણં સમણે ભગવં મહાવીરેણં મહં મંદરે પદ્ધવ મંદરચ્ચુલિયાણં જાવ-પડિવુદ્ધે તણ્ણં સમણે ભગવં મહાવીરેણં સદેવમણુયાસુરાણં પરિસાણં મજ્ઞગણં કેવલી ધમ્મં આઘવેતિ, જાવ-ઉચ્ચદંસેતિ ।

દશ મહામ્મમોહુ
ફાલ.

૧૭. (૧) શ્રમણ ભગવંત મહાવીર [પ્રથમ સ્વપ્રમા] જે ભયંકર અને તેજસ્વી રૂપવાળા તથા તાડના જેવા એક પિંચાચને પરાજિત કરેલો જોઈને જાગ્યા તેથી [તેના ફલરૂપે] શ્રમણ ભગવંત મહાવીરે મોહનીય કર્મને મૂલ્યથી નષ્ટ કર્યું.
- (૨) શ્રમણ ભગવંત મહાવીરે [વીજા સ્વપ્રમા] જે એક મોટો ધોળી પાંચવાળો યાવત્-પુંસ્કોકિલ જોયો અને જાગ્યા તેથી તેના ફલરૂપે શ્રમણ ભગવંત મહાવીર શુદ્ધ ધ્યાનને પ્રાપ્ત કરી વિહર્યા.
- (૩) શ્રમણ ભગવંત મહાવીર [ત્રીજા સ્વપ્રમા] જે એક મોટો ચિત્ર વિચિત્ર પાંચવાળો યાવત્-પુંસ્કોકિલ જોઈને જાગ્યા તેથી શ્રમણભગવંત મહાવીરે વિચિત્ર સ્વસમય અને પરસમયના [વિવિધ વિચારયુક્ત] દ્વાદશાંગ ગણિપિટક કહ્યું, પ્રજ્ઞાપ્યું, દર્શાવ્યું, નિદર્શાવ્યું અને ઉપદર્શાવ્યું. તે દ્વાદશાંગના નામ આ પ્રમાણે છે-(૧) આચાર (૨) સૂત્રકૃત, યાવત્-(૧૨) દૃષ્ટિવાદ.
- (૪) શ્રમણ ભગવંત મહાવીરે [ચોથા સ્વપ્રમા] જે એક મહાન્ સર્વરત્નમય માલાયુગલ જોયું અને જાગ્યા તેથી શ્રમણ ભગવંત મહાવીરે તે પ્રકારનો ધર્મ કહ્યો, તે આ પ્રમાણે-સાગાર ધર્મ અને અનગાર ધર્મ.
- (૫) શ્રમણ ભગવંત મહાવીર [પાંચમા સ્વપ્રમા] જે એક ધોળી ગાયોતું મહાન્ ધણ જોઈને જાગ્યા તેથી શ્રમણ ભગવંત મહાવીરનો ચાર પ્રકારનો સંધ થયો, તે આ પ્રમાણે-૧ સાધુ, ૨ સાધ્વી, ૩ શ્રાવક અને ૪ શ્રાવિકા.
- (૬) શ્રમણ ભગવંત મહાવીર [છઠ્ઠા સ્વપ્રમા] જે એક મોટું યાવત્-પન્ન સરોવર જોઈને જાગ્યા તેથી શ્રમણ ભગવંત મહાવીરે ભવનવાસી, વાનવ્યંતર, જ્યોતિષિક, અને વૈમાનિક એવા ચાર પ્રકારના દેવોને પ્રતિવોધ કર્યો.
- (૭) શ્રમણ ભગવંત મહાવીરે [સાતમા સ્વપ્રમા] જે એક મોટા યાવત્ મહાસાગરને પોતે હાથ વડે તરેલો જોયો અને જાગ્યા તેથી શ્રમણ ભગવંત મહાવીરે અંનાદિ અને અનન્ત યાવત્-સંસારરૂપ કાતારને પાર કર્યો.
- (૮) શ્રમણ ભગવંત મહાવીરે [આઠમા સ્વપ્રમા] જે તેજથી જલ્હલ્હલતો એક મોટો સૂર્ય જોયો અને જાગ્યા તેથી શ્રમણ ભગવંત મહાવીરને અનંત, અનુત્તર, નિરાવરણ, નિર્વ્યાધાત, સમગ્ર અને પ્રતિપૂર્ણ એવું કેવલ જ્ઞાન અને કેવલ દર્શન ઉત્પન્ન થયું.
- (૯) શ્રમણ ભગવંત મહાવીરે [નવમા સ્વપ્રમા] એક મોટા માનુષોત્તર પર્વતને નીલ વૈદ્યૈર્યના વર્ણ જેવા, પોતાના આંતરહાથી ચારે વાજુણ આવેષ્ટિત અને પરિવેષ્ટિત કરેલો જોયો અને જોડને જાગ્યા તેથી શ્રમણ ભગવંત મહાવીરની દેવલોક, મનુ-પ્યલોક અને અસુરલોકમાં-“આ શ્રમણ ભગવંત મહાવીર છે” એવી ઉદાર કીર્તિ, સ્તુતિ, સન્માન અને યશ વ્યાપ્ત થયા.
- (૧૦) શ્રમણ ભગવંત મહાવીરે [દશમા સ્વપ્રમા] પોતાના આત્માને મંદરપર્વતની ચૂલિકા પરના સિંહાસનમાં વેઠેલો જોયો અને જોઈને જાગ્યા તેથી શ્રમણ ભગવંત મહાવીરે કેવલી થઈ દેવ, મનુષ્ય અને અસુર યુક્ત પરિપદમા વેસી ધર્મ કહ્યો, યાવત્-ઉપદર્શાવ્યો.

१८. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं हृद्यपंति वा गयपंति वा जाव-वसभंपंति वा पासमाणे पासति, दुरुहमाणे दुरुहति, दुरुढमिति अप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव बुज्झति, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झति, जाव-अंतं करेति ।

१९. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं दामिणिं पाईणपडिणायतं दुहओ समुद्दे पुट्टं पासमाणे पासति, संवेह्लेमाणे संवेह्लेइ, संवेह्लियमिति अप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव अप्पाणं बुज्झति, तेणेव भवग्गहणेणं जाव-अंतं करेति ।

२०. इत्थी वा पुरिसे वा एगं महं रज्जुं पाईणपडिणायतं दुहओ लोगेते पुट्टं पासमाणे पासति, छिंदमाणे छिंदति, छिन्नमिति अप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव जाव-अंतं करेति ।

२१. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं किण्हसुत्तंगं वा जाव-सुक्किल्लसुत्तंगं वा पासमाणे पासति, उग्गोवेमाणे उग्गोवेइ, उग्गोचितमिति अप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव जाव-अंतं करेति ।

२२. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं अयरारिंसि वा तंवरारिंसि तउयरारिंसि वा सीसगरारिंसि वा पासमाणे पासति, दुरुहमाणे दुरुहति, दुरुढमिति अप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव बुज्झति, दोचे भवग्गहणे सिज्झति, जाव-अंतं करेति ।

२३. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं हिरन्नरारिंसि वा सुवन्नरारिंसि वा रयणरारिंसि वा वडररारिंसि वा पासमाणे पासति, दुरुहमाणे दुरुहइ, दुरुढमिति अप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव बुज्झति, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झति, जाव-अंतं करेति ।

२४. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं तणरारिंसि वा-जहा तेयनिसग्गे, जाव-अवकररारिंसि वा पासमाणे पासति, विक्खिरमाणे विक्खिरइ, विक्खिणमिति अप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव बुज्झति, तेणेव जाव-अंतं करेति ।

२५. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं सरथंभं वा वीरणथंभं वा वंसीमूलथंभं वा वल्लीमूलथंभं वा पासमाणे पासति, उम्मूलेमाणे उम्मूलेइ, उम्मूलितमिति अप्पाणं मन्नइ, तक्खणामेव बुज्झति, तेणेव जाव-अंतं करेति ।

१८. कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वप्ने अन्ते एक मोटी अश्वपंक्ति, गजपंक्ति, यावत्-वृषभ(बलद)पंक्तिने जुए अने तेना उपर चढे तथा ते उपर पोते चढ्यो छे एम पोताने माने, अने ए प्रमाणे जोई जो तुरत जागे तो ते तेज भवमा सिद्ध थाय, यावत्-सर्व दुःखोनो नाश करे.

१९. कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वप्ने अन्ते समुद्रने वने पडखे अडकेल्लं तथा पूर्व अने पश्चिम तरफ लांबु एक मोटुं दामण जुए अने तेने वींटाळे अने ते पोते वींटाळ्युं छे एम पोताने माने तथा ते प्रकारे जोई शीघ्र जागे तो तेज भवमा सिद्ध थाय, यावत्-सर्व दुःखोनो नाश करे.

२०. कोई स्त्री अथवा पुरुष (स्वप्ने अन्ते) वने वाजुए लोकान्तने स्पर्शेल्लं तथा पूर्व अने पश्चिम लांबु एक मोटुं दोरडुं जुए, अने तेने कापी नाखे अने ते पोते कापी नाख्युं छे एम पोताने माने तथा ते प्रकारे जोई शीघ्र जागे तो ते यावत्-सर्व दुःखोनो नाश करे.

२१. कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वप्ने अन्ते एक मोटुं काळुं सूतर, यावत्-धोळुं सूतर जुए तथा तेने उकेले अने तेने पोते उकेल्युं छे एम पोताने माने अने एम जोई पछी ते तुरत जागे तो ते यावत्-सर्व दुःखोनो नाश करे.

२२. कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वप्ने अन्ते एक मोटा लोढाना ढगलाने, तांत्राना ढगलाने, कथीरना ढगलाने अने सीसाना ढगलाने जुए अने ते उपर चढे अने पोते ते उपर चढ्यो छे एम पोताने माने तथा एम जोई शीघ्र जागे तो ते यावत्-वे भवमा सिद्ध थाय, यावत्-सर्व दुःखोनो नाश करे.

२३. कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वप्ने छेडे एक मोटा हिरण्य-रूपाना ढगलाने, सुवर्णना ढगलाने, रत्नना ढगलाने अने वज्रनां ढगलाने जुए अने ते उपर चढे अने पोते ते उपर चढ्यो छे एम पोताने माने तथा तुरत जागे तो ते तेज भवमा सिद्ध थाय, यावत्-सर्व दुःखोनो नाश करे.

२४. कोई स्त्री के पुरुष स्वप्ने अन्ते एक मोटा घासना ढगलाने, *तेजोनिर्गर्ग नामना पंदरमा गतकमा कथा प्रमाणे यावत्-कचराना ढगलाने जुए अने तेने विखेरे अने पोते विखेर्यो छे एम पोताने माने अने जो तुरत जागे तो तेज भवमा यावत्-सर्व दुःखोनो नाश करे.

२५. कोई स्त्री के पुरुष स्वप्ने अन्ते एक मोटा गरस्तंभने, वीरणस्तंभने, वंशीमूलस्तंभने वा वल्लिमूलस्तंभने जुए अने तेने उखेडे अने पोते तेने उखेड्यो छे एम पोताने माने अने पछी शीघ्र जागे तो तेज भवमा यावत्-सर्व दुःखोनो नाश करे.

२६. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं खीरकुंभं वा दधिकुंभं वा धयकुंभं वा मधुकुंभं वा पासमाणे पासति, उप्पाडेमाणे उप्पाडेइ, उप्पाडितमिति अप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव बुज्जति, तेणेव जाव-अंतं करेइ ।

२७. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं सुरावियडकुंभं वा सोवीरवियडकुंभं वा तेल्लकुंभं वा चंसाकुंभं वा पासमाणे पासति, सिंदमाणे सिंदति, भिन्नमिति अप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव बुज्जति, दोच्चेणं भव- जाव- अंतं करेति ।

२८. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं पउमसरं कुसुमियं पासमाणे पासति, ओगाहमाणे ओगाहति, ओगाह-मिति अप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव०, तेणेव जाव-अंतं करेति ।

२९. इत्थी वा जाव-सुविणंते एगं महं सागरं उम्मीवीथी-जाव-कलियं पासमाणे पासति, तरमाणे तरति, तिण्णमिति अप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव०, तेणेव जाव-अंतं करेति ।

३०. इत्थी वा जाव-सुविणंते एगं महं भवणं सधरयणामयं पासमाणे पासति, अणुप्पविसमाणे अणुप्पविसति, अणु-प्पविट्टमिति अप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव बुज्जति, तेणेव जाव-अंतं करेति ।

३१. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं विमाणं सधरयणामयं पासमाणे पासइ, डुरूहमाणे डुरूहति, डुरूहमिति अप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव बुज्जति, तेणेव जाव-अंतं करेति ।

३२. [प्र०] अह भंते! कोट्टपुडाण वा जाव-केयइपुडाण वा अणुवायंसि उच्चिज्जमाणण वा जाव-टाणाओ वा टाणं संक्रामिज्जमाणणं किं कोट्टे वाति, जाव-केयई वाइ ? [उ०] गोयमा ! नो कोट्टे वाति, जाव-नो केयई वाति, घाणसहगया पोग्गला वाति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! च्चि ।

सौलसमे सए छट्ठो उद्देशो समत्तो ।

२६. कोई स्त्री वा पुरुष खमने छेडे एक मोटा क्षीरकुंभने, दधिकुंभने, घृतकुंभने अने मधुकुंभने जुए अने तेने उपाडे तथा पीते तेने उपाच्यो छे एम पीताने माने, पछी शीघ्र जागे तो तेज भवमा यावत्-सर्वं दुःखनो नाश करे.

२७. कोई स्त्री के पुरुष स्वमने अन्ते एक मोटा सुराना विकट (मोटा) कुंभने, सोवीरना मोटा कुंभने, तेल्लकुंभने के वसा-कुंभने जुए, तेने मेदे अने पीते तेने मेदी नाख्यो छे एम पीताने माने, पछी तुरत जागे तो वे भवमा यावत्-सर्वं दुःखनो नाश करे.

२८. कोई स्त्री के पुरुष स्वमने अन्ते कुसुमित एवा एक मोटा पन्न सरोवरने जुए, तेमा प्रवेश करे अने पीते तेमां प्रवेश कर्यो छे एम पीताने माने, पछी तुरत जागे तो तेज भवमा यावत्-सर्वं दुःखनो नाश करे.

२९. कोई स्त्री के पुरुष स्वमने अन्ते तरंगो अने कल्लोथी व्याप्त एक मोटा सागरने जुए अने तरे, तथा पीते तेने तरी गयो छे एम पीताने माने, पछी शीघ्र जागे तो तेज भवमां यावत्-सर्वं दुःखनो नाश करे.

३०. कोई स्त्री के पुरुष स्वमने अन्ते सर्वं रत्नमय बनेछं एक मोटुं भवन जुए अने तेमा प्रवेश, पीते तेमां प्रवेश कर्यो छे एम पीताने माने, पछी शीघ्र जागे तो तेज भवमां यावत्-सर्वं दुःखनो नाश करे.

३१. कोई स्त्री के पुरुष स्वमने अन्ते सर्वं रत्नमय एक मोटुं विमान जुए, तेमा उपर चढे अने पीते ते उपर चढ्यो छे एम पीताने माने, लार पछी शीघ्र जागे तो तेज भवमा यावत्-सर्वं दुःखनो नाश करे.

३२. [प्र०] हे भगवन् ! कोट्टपुटो, यावत्-केतकीपुटो यावत्-एक स्थानथी स्थानान्तरे उई जवाता होय लारे पववानुसारे जे [तेमनो गंध] वाय छे तो ते कोट्ट वाय छे के यावत्-केतकी वाय छे ? [उ०] हे गौतम ! कोट्टपुटो के केतकीपुटो वाता नथी, पण गंधना जे पुद्गलो छे ते वाय छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

सौलमा शतकमां षष्ठ उद्देशक समाप्त.

सत्तमो उद्देशो.

१. [प्र०] कतिविहे णं भंते ! उवओगे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! दुविहे उवओगे पन्नत्ते, एवं जहा उवयोगपदं पन्नवणाए तहेव निरवसेसं भाणियधं, पासणयापदं च निरवसेसं नेयधं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते'त्ति ।

सोलसमे सए सत्तमो उद्देशो समत्तो ।

सप्तम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! केटला प्रकारनो उपयोग कह्यो छे ? [उ०] हे गौतम ! उपयोग वे प्रकारनो कह्यो छे. जेम प्रज्ञापना सूत्र-मांना *उपयोग पदमां कहेवामां आंबुं छे तेम अहीं वधुं कहेवुं. तेमज अहीं 'त्रीसमुं 'पश्यत्तापद!' पण समग्र कहेवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

उपयोग.

सोळमा शतकमां सप्तम उद्देशक समाप्त.

अष्टमो उद्देशो.

१. [प्र०] किंमहालय णं भंते ! लोए पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! महत्तिमहालय—जहा वारसमसए तहेव जाव—असंखे-ज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ परिकखेवेणं ।

२. [प्र०] लोयस्स णं भंते ! पुरच्छिमिल्ले चरिंमंते किं जीवा, जीवदेसा, जीवपप्सा, अजीवा, अजीवदेसा, अजीवपप्सा ? [उ०] गोयमा ! नो जीवा, जीवदेसा चि, जीवपप्सा चि, अजीवा चि, अजीवदेसा चि, अजीवपप्सा चि । जे जीव-

अष्टम उद्देशक

१. [प्र०] हे भगवन् ! लोक केटलो मोटो कह्यो छे ? [उ०] हे गौतम ! लोक अत्यन्त मोटो कह्यो छे. जेम 'वारमा शतकमां कहुं छे तेम अहीं पण लोक संबंधी वधी हकीकत कहेवी, यावत्—ते लोकनो परिक्षेप—परिवि असंख्येय कोटाकोटी योजन छे.

२. [प्र०] हे भगवन् ! लोकना पूर्वं चरमांतमां (पूर्वं बाजुना छेडाना अंते) १ जीवो छे, २ जीवदेशो छे, ३ जीवप्रदेशो छे, ४ अजीवो छे, ५ अजीवदेशो छे, ६ के अजीवप्रदेशो छे ? [उ०] हे गौतम ! त्यां १जीवो नथी, पण जीवदेशो छे, जीवप्रदेशो छे, अजीवो

लोकनो पूर्व-चरमांत-

१ * उपयोग—चेतना शक्तियो व्यापार, तेना वे मेद छे—साकार उपयोग अने अनाकार उपयोग. साकार उपयोगना पाच ज्ञान अने त्रण अज्ञानना भेदथी आठ प्रकार छे, अनाकार उपयोगना चछुदर्शनादिना भेदथी चार प्रकार छे जुओ—प्रज्ञा० पद २९ प० ५२५-५२७.

† प्रज्ञा० पद ३० प० ५२८-५३२.

‡ पश्यत्ता—प्रकृत बोधनो परिणाम, तेना साकार अने अनाकार वे मेद छे साकारपश्यत्ताना मतिज्ञान सिवाय चाकीना चार ज्ञान अने मतिअज्ञान सिवाय वे अज्ञान—एम छ प्रकार छे. अनाकार पश्यत्ताना अचछुदर्शन सिवाय चाकीना त्रण प्रकार छे जो के पश्यत्ता अने उपयोग वने साकार अने अनाकार भेद वडे तुल्य छे, तो पण व्यां त्रैकालिक बोध होय ते पश्यत्ता अने प्या त्रैकालिक अने वर्तमान कालिक बोध होय ते उपयोग एटली विशेषता छे. अहि अनाकार पश्यत्तामा चछुदर्शन ग्रहण कर्तुं अने अचछुदर्शन न ग्रहण कर्तुं तेजुं कारण एवु छे के प्रकृत ईक्षणने पश्यत्ता कहेछे अने ते चछुदर्शनने विपेज घटी शके छे, अचछुदर्शनमा घटी शकतु नथी, केमके चछुदर्शनना उपयोगनो बीजी इन्द्रियना उपयोगथी अल्प काळ छे अने तेथी प्रकृत ईक्षण चछुतुज होय छे, माटे पश्यत्तामा चछुदर्शनने ग्रहण कर्तुं छे, बीजी इन्द्रियोना दर्शनने ग्रहण कर्तुं नथी.—टीका.

१ † भग० स० ३ श० १२ उ० ७ पृ० २८२.

२ ‡ पूर्वं दिशानो चरमान्त—लोकनो छेज्जो भाग विपम एक प्रदेशना प्रतरूप होवाथी तेमा असंख्य प्रदेशावगाही जीवो सद्भाव होतो नथी, माटे त्यां जीवो नथी, परन्तु जीवदेशो अने जीवप्रदेशोना एक प्रदेशने विपे पण अवगाह समवे छे, माटे 'जीवदेशो अने जीवप्रदेशो होय छे' एम कहु छे ए प्रमाणे त्या पुद्गलरूपधो, धर्मास्तिकायादिना देशो अने तेना प्रदेशो होवाथी अजीवो, अजीवदेशो अने अजीवप्रदेशो पण होय छे हवे जे जीवदेशो छे तेमा पृथिव्यादि एकेन्द्रिय जीवोना देशो लोकान्ते अवश्य होय छे. आ प्रथम विकल्प थयो हवे द्विकसयोनी विकल्प आ प्रमाणे छे १ अथवा एकेन्द्रियोना घणा देशो अने वेइन्द्रिय कदाचित्त होवाथी तेनो एक देश होय छे जो के लोकान्ते वेइन्द्रिय जीव होतो नथी, तो पण एकेन्द्रियोमा उत्पन्न थनार वेइन्द्रिय जीव मरणसमुद्घातवडे उत्पत्तिदेशने प्राप्त थाय ते अपेक्षाए आ विकल्प थाय छे. ए प्रमाणे दशमा शतकना प्रथम उद्देशकने विपे आग्नेयी दिशा संबन्धे जे भांगा कहेला छे ते अहि जाणवा, ते आ प्रमाणे—१ एकेन्द्रियोना देशो अने एक वेइन्द्रियोना देश, २ अथवा एकेन्द्रियोना देशो अने एक वेइन्द्रियना देशो, ३ अथवा एकेन्द्रियोना देशो अने वेइन्द्रियोना देशो, ४ अथवा एकेन्द्रियोना देशो अने एक वेइन्द्रियोना देश, ५ अथवा एकेन्द्रियोना देशो अने एक वेइन्द्रियना देशो; ६ अथवा एकेन्द्रियोना देशो अने वेइन्द्रियोना देशो, ए प्रमाणे चउरिन्द्रिय अने पंचेन्द्रियना त्रण त्रण भागा जाणवा. अनिन्द्रियना भागा पण ए प्रमाणे समजवा, परन्तु आग्नेयी दिशाने विपे तेना त्रण भांगाओ कक्षा छे, तेमानो 'एकेन्द्रियोना देशो अने अनिन्द्रियोना देश'—ए प्रथम भागो अहि न कहेथो, केमके केरलिचसमुद्घातावस्थामा आत्मप्रदेशो कपाटाकार थाय ल्यारे पूर्व दिशाना चरमान्ते प्रदेशानी वृद्धि—हालि वडे विपमता थती होवाथी लोकना दाताओमा अनिन्द्रिय जीवना—इन्द्रियना उपयोग रहित केवल ज्ञानीना घणा देशोना सम्व छे, पण एक देशनो संभव नथी. माटे अनिन्द्रियने उपर कहेथो भांगो लागु पडतो नथी.

देसा ते नियमं पर्णिदियदेसा य, अहवा पर्णिदियदेसा य वेइंदियस्स य देसे—एवं जहा दसमसप अगोयी दिसा तहेव, नवरं देसेसु आर्णिदियाण आइइविरहिथो । जे अरुची अजीवा ते छद्विहा, अद्दासमयो नत्थि । सेसं तं चेव निरवसेसं ।

३. [प्र०] लोगस्स णं भंते ! दाहिणिह्हे चरिंमंते किं जीवा० ? [उ०] एवं चेव, एवं पच्चच्छिमिह्हे वि, उत्तरिह्हे वि ।

४. [प्र०] लोगस्स णं भंते ! उत्तरिह्हे चरिंमंते किं जीवा०—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो जीवा, जीवदेसा वि, जीवप- देसा वि, जाव—अजीवपपसा वि । जे जीवदेसा ते नियमं पर्णिदियदेसा य आर्णिदियदेसा य, अहवा पर्णिदियदेसा य आर्णि- दियदेसा य वेइंदियस्स य देसे, अहवा पर्णिदियदेसा य आर्णिदियदेसा य वेइंदियाण य देसा, एवं मत्तिह्हेविरहिथो जाव—पंचि- दियाणं । जे जीवपपसा ते नियमं पर्णिदियपपसा य आर्णिदियपपसा य, अहवा पर्णिदियपपसा य आर्णिदियपपसा य वेइं-

छे, अजीवदेसो छे अने अजीव प्रदेशो पण छे. जे जीवदेशो छे ते अवश्य एकेन्द्रिय जीवना देशो छे, अथवा एकेन्द्रियना देशो अने अनिन्द्रियनो (एक) देश छे—इत्यादि वधुं 'दशमा शतकमां कहेल आग्नेयी दिशानो वक्तव्यता प्रमाणे कहेवुं. विशेष ए के, देशोना विषयमा अनिन्द्रियो माटे प्रथम भांगो न कहेवो. लां जे अरुपी अजीवो रहेला छे ते 'छ प्रकारना छे अने अद्दासमय (काळ) नथी. वाकी वधुं तेज प्रमाणे जाणवुं.

३. [प्र०] हे भगवन् ! लोकना दक्षिण दिशाना चरमांतमा [दक्षिण वाजुना छेडाने अते] जीवो छे—इत्यादि सर्व पूर्व प्रमाणे पृच्छुं. [उ०] पूर्व प्रमाणेज वधुं कहेवुं, अने ए प्रमाणे पश्चिम चरमांतमा तथा उत्तर चरमांतमा पण समजवुं.

४. [प्र०] हे भगवन् ! लोकना उपरना चरमांतमा जीवो छे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! लां जीवो नथी, पण जीवदेशो छे, जीवप्रदेशो छे, यावत्—अजीवप्रदेशो पण छे. जे जीवदेशो छे ते अवश्य एकेन्द्रियोना देशो अने अनिन्द्रियोना देशो छे. १ अथवा एकेन्द्रियोना देशो, अनिन्द्रियोना देशो अने वेइंदियनो एक देश छे. २ अथवा एकेन्द्रियोना देशो अनिन्द्रियोना देशो अने वेइंदियोना देशो छे, एम वचला भागा सिंवायना त्रिकसंयोगी बीजा ववा भांगा कहेवा. ए प्रमाणे यावत्—पंचेन्द्रियो सुधी कहेवुं. ला जे जीवप्रदेशो छे ते अवश्य एकेन्द्रियोना प्रदेशो अने अनिन्द्रियोना प्रदेशो छे. १ अथवा एकेन्द्रियोना प्रदेशो, अनिन्द्रियोना प्रदेशो अने एक वेइंदियना प्रदेशो छे. २ अथवा एकेन्द्रियोना प्रदेशो, अनिन्द्रियोना प्रदेशो अने वेइंदियोना प्रदेशो छे. ए प्रमाणे 'प्रथम भांगा सिंवायना बीजा ववा भांगा कहेवा.

२ * मग० सं० ३ श० १० उ० १ पृ० १८५.

† अरुपी अजीवो छे—१ धर्मास्तिकायदेश अने २ प्रदेश, ३ अधर्मास्तिकाय देश अने ४ प्रदेश, तथा ५ आकाशास्तिकायदेश अने ६ प्रदेश. समयक्षेत्रना अभावथी अद्दासमय नथी.

‡ १ लोकना तथा रत्नप्रभाआदि साते नरक अने सौवर्मथी अनुत्तर सुधीना देवलोकना पूर्वादि चारे दिशाओना चरमान्तने आश्रथी जीवदेश अने जीवप्रदेशना भागाओवुं यत्न—

एक के अनेक जीवोना एक के अनेक देशादि.

	एकेन्द्रिय.	वेइन्द्रिय.	वेइन्द्रिय.	चतरिन्द्रिय.	पंचेन्द्रिय.	अनिन्द्रिय.	कुलभांगा.
देश.	2-2	१-१	१-१	१-१	१-१	१-२	१५
प्रदेश.		१-२	१-२	१-२	१-२	२-२	
		२-२	२-२	२-२	२-२	२-२	
	२-२	१-२	१-२	१-२	१-२	१-२	११
		२-२	२-२	२-२	२-२	२-२	

आ एकेन्द्रियादि जीवोना देश प्रदेशाना भांगाओमा प्रथम आंक जीवोना सूचक छे अने बीजो आक तेना देश अने प्रदेशोना सूचक छे. ज्या २-२ अक मूनेला छे ता अनेक जीवोना अनेक देशो या प्रदेशो समजवा.अहिं देशभांगाओमा एकेन्द्रियने आश्रथी असंयोगी एक अने तेनी साथे वेइन्द्रिय, वेइन्द्रिय, चतरिन्द्रिय अने पंचेन्द्रियना त्रण त्रण भागा अने अनिन्द्रियना वे भागा जोडना द्विकसंयोगी चांद भांगा जाणवा, अने ए रीते प्रदेशभागामा असंयोगी एक अने द्विकसंयोगी दश जाणवा.

४ § उपरना चरमान्तमा जिदो होनाथी लां एकेन्द्रियोना देशो अने अनिन्द्रियोना देशो होय छे, माटे आ द्विकसंयोगी एक भांगो थाय छे. त्रिकसंयोगीमा वच्चे भागा करवा, कारण के 'एकेन्द्रियोना देशो, अनिन्द्रियोना देशो अने एक वेइन्द्रियना देशो' आ मध्यम भांगो घटतो नथी. केमके कोइ वेइन्द्रिय जीव मरपसनुदाता वढे मरी उपरना चरमान्तने विषे रहेला एकेन्द्रिय जीवना उत्पन्न थाय तो पण प्रदेशानी हानि वृद्धिथी थयेल लोकदन्तक- निपम भाग नहि होवाथी पूर्व चरमान्तनी पंटे ता वेइन्द्रियना अनेक देशो संभवता नथी. पूर्व चरमान्तमा तो प्रदेशानी हानि-वृद्धि थती होवाथी अनेक प्रदगनक लोकदन्तक होवाने लीधे तां वेइन्द्रिय जीवना अनेक देशो समवे छे. माटे उपरना मध्यम भांगरहित त्रिकसंयोगी वच्चे भागा जाणवा.

† पूर्व चरमान्तमा जीवदेश सूचने द्विकसंयोगी त्रण भागा थाय छे, तेनालो 'एकेन्द्रियोना देशो अने वेइन्द्रियोना देश' ए प्रथम भांगो छे, तेने उपरना चरमान्तमा जीवप्रदेशना त्रिकसंयोगी भागा करवाना वर्जवो. अर्थात्—'एकेन्द्रियोना प्रदेशो, अनिन्द्रियोना प्रदेशो, वेइन्द्रियोना प्रदेश'—एवो त्रिकसंयोगी भंग न करवो, कारण के तेना 'वेइन्द्रियोना प्रदेश' ए अदानो अस्तंभव छे. केवटिनसुदात समये लोचन्यापक अवस्था सिंवाय जीवोना ज्या एक प्रदेश होय तां उपरना प्रदेशो होय छे, तेनी उपरना चरमान्तमा एकेन्द्रियो अने अनिन्द्रियोना प्रदेशो समवे छे.

यस्स पदेसा य, अहवा एगिंदियपपसा य अर्णिदियपपसा य वेइंदियाण य पपसा, एवं आदिल्लविरहियो जाव-पंचिंदियाणं । अजीवा जहा दसमसए तमाए तहेव निरवसेसं ।

५. [प्र०] लोगस्स णं भंते ! हेट्टिल्ले चरिंमंते किं जीवा०-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो जीवा, जीवदेसा वि, जीवप-देसा वि, जाव-अजीवपपसा वि; जे जीवदेसा ते नियमं एगिंदियदेसा, अहवा एगिंदियदेसा य वेइंदियस्स देसे, अहवा एगि-दियदेसा य वेइंदियाण य देसा, एवं मज्झिल्लविरहियो जाव-अर्णिदियाणं । पदेसा आदिल्लविरहिया सर्वेसि जहा पुरच्छिमिल्ले चरिंमंते तहेव । अजीवा जहेव उवरिल्ले चरिंमंते तहेव ।

६. [प्र०] इमीसे णं भंते ! रयणपपसाए पुढवीए पुरच्छिमिल्ले चरिंमंते किं जीवा०-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो जीवा, एवं जहेव लोगस्स तहेव चत्तारि वि चरिंमंता जाव-उत्तरिल्ले, उवरिल्ले तहेव, जहा दसमसए विमळा दिसा तहेव निरवसेसं । हेट्टिल्ले चरिंमंते जहेव लोगस्स हेट्टिल्ले चरिंमंते तहेव, नवरं देसे पंचिंदिएसु तियभंगो त्ति सेसं तं चेव । एवं जहा रयणप-साए चत्तारि चरंमंता भणिया एवं सक्करपपसाए वि, उवरिम-हेट्टिल्ला जहा रयणपपसाए हेट्टिल्ले । एवं जाव-अहेसत्तमाए,

तथा ए प्रमाणे यावत्-पंचेन्द्रिय सुधी जाणवुं, अने दशमा शतकमां कहेल तमा दिशानी वक्तव्यता प्रमाणे अहीं अजीवोनी वक्तव्यता कहेवी।^१

५. [प्र०] हे भगवन् ! लोकना हेठळना चरमातमां शुं जीवो छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! त्यां जीवो नयी, जीवदेशो छे, जीवप्रदेशो छे, यावत्-[अजीवो, अजीवना देशो अने] अजीवना प्रदेशो पण छे. जे जीवदेशो छे ते अवश्य *एकेन्द्रियना देशो छे. १ अथवा एकेन्द्रियोना देशो अने वेइंद्रियोना देश छे. २ अथवा एकेन्द्रियोना देशो अने वेइंद्रियोना देशो छे. ए प्रमाणे वचला भांग सिवाय वीजा वधा भांगा कहेवा, अने ते यावत्-अनिन्द्रियो सुधी जाणवुं. सर्वना प्रदेशोनी वावतमां पूर्वं चरमांतना प्रश्नोत्तर प्रमाणे जाणवुं, पण तेमां प्रथम भांगो न कहेवो. अजीवोनी वावतमां उपरना चरमांतमां कह्या प्रमाणे वधुं कहेवुं.

६. [प्र०] हे भगवन् ! आ रत्नप्रभा पृथ्वीना पूर्वं चरमातमां जीवो छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! त्यां जीवो नयी. जेम लोकना चार चरमांत कह्या तेम रत्नप्रभाना पण चारै चरमांत यावत्-उत्तरना चरमांत सुधी जाणवा. दशमा शतकमां कहेल

४ § जेम अजीवोनी वक्तव्यता दशमा शतकना प्रथम उद्देशकमां तमा दिशाने आश्रयी कहेली छे ते प्रमाणे उपरना चरमान्तने आश्रयी कहेवी. ते आ प्रमाणे-रूपी अजीवना स्कन्ध, देश, प्रदेश अने परमाणु-ए चार प्रकार अने धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय अने आकाशास्तिकायना देश अने प्रदेशो-ए रीते अरुपी अजीवना दश प्रकार छे.

१ लोकना उपरना चरमान्तने आश्रयी जीवदेश अने जीवप्रदेशोना भांगाओवुं यत्र-

एक के अनेक जीवना एक के अनेक देशादि.

	एकेन्द्रिय.	अनिन्द्रिय.	वेइन्द्रिय.	तेइन्द्रिय.	चउरिन्द्रिय.	पंचेन्द्रिय.	कुलभागा.
देश.	२-२	२-२	१-१	१-१	१-१	१-१	९
			२-२	२-२	२-२	२-२	
प्रदेश.	२-२	२-२	१-२	१-२	१-२	१-२	९
			२-२	२-२	२-२	२-२	

लोकना उपरना चरमान्तमां एकेन्द्रिय अने अनिन्द्रिय (सिद्ध) जीवो साथेज होवाथी अहिं असयोगी भागो थतो नथी, पण द्विकसयोगीयी शर-माय छे. तेनी साथे वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय अने पंचेन्द्रियना वच्चे भागा जोडता त्रिकसयोगी आठ भागा थाय छे. तेथी अहिं देश अने प्रदेशने आश्रयी भांगामां द्विकसयोगी एक अने त्रिकसयोगी आठ मळी नव नव भागा जाणवा.

५ * हेठळना चरमान्तमा 'एकेन्द्रियोना देशो' ए असयोगी एकज भागो थाय छे. अने द्विकसयोगी 'एकेन्द्रियोना देशो अने वेइन्द्रियोना देश तथा एकेन्द्रियोना देशो अने वेइन्द्रियोना देशो'-ए वेइन्द्रिय साथे वे भांगा थाय छे. 'एकेन्द्रियोना देशो अने वेइन्द्रियोना देशो'-ए वचलो भागो लोकदन्तकना अभावथी थतो नथी. ए प्रमाणे तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अने अनिन्द्रियनी साथे वच्चे भागा जाणवा ए रीते जीवदेशने आश्रयी अगीयार भागा थाय छे. पूर्वचरमान्तमां जीवदेशने आश्रयी जे भागा कहेला छे ते अहिं जीवप्रदेशने आश्रयी कहेवा. जेमके-एकेन्द्रियोना प्रदेशो अने वेइन्द्रियोना प्रदेशो; एकेन्द्रियोना प्रदेशो अने वेइन्द्रियोना प्रदेशो. ए प्रमाणे तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अने अनिन्द्रियना प्रदेश-सवन्धे भागा जाणवा मात्र 'एकेन्द्रियोना प्रदेशो अने वेइन्द्रियोना प्रदेशो'-ए प्रथम भंग असभवित होवाथी घटी शकतो नथी, अने 'एकेन्द्रियोना प्रदेशो' ए असयोगी एक भागो मेळवतां जीवप्रदेशने आश्रयी अगीयार भागा थाय छे. उपरना चरमान्तमा कह्या प्रमाणे रूपी अजीवना चार अने अरुपी अजीवना छ मळी अजीवोना दश प्रकार जाणवा.

लोकनी नीचेना चरमान्त, त्रैवेयक अने अनुत्तर विमानना उपर अने नीचेना चरमान्तने आश्रयी जीवदेश अने जीवप्रदेशोना भांगाओवुं यत्र-

एक के अनेक जीवोना देशादि.

	एकेन्द्रिय.	वेइन्द्रिय.	तेइन्द्रिय.	चउरिन्द्रिय.	पंचेन्द्रिय.	अनिन्द्रिय.	कुलभागा.
देश.	२-२	१-१	१-१	१-१	१-१	१-१	११
			२-२	२-२	२-२	२-२	
प्रदेश.	२-२	१-२	१-२	१-२	१-२	१-२	११
		२-२	२-२	२-२	२-२	२-२	

१ अहिं देश अने प्रदेशना भांगाओमा असयोगी एक, द्विकसयोगी दश एम अगीयार २ भांगा जाणवा.

लोकनी हेठेनो चरमात.

रत्नप्रभाना पूर्वादि चरमात.

एवं सोहम्मस्त वि जाव-अच्युस्त । गेविज्जविमाणं एवं चैव, नवरं उवरिम-हेट्टिहेसु चरमंतेसु देसेसु पंचिंदियाण रि मज्जिह्विरहिथो चैव, सेसं तहेव । एवं जहा गेवेज्जविमाणा तहा अणुत्तरविमाणा वि, ईसिपन्मारा वि ।

विमला दिशानी वक्तव्यता प्रमाणे आ रत्नप्रभाना उपरना चरमांतनी पण वक्तव्यता जाणवी. तथा रत्नप्रभा पृथ्वीनी नीचलो चरमांत पण लोकनी नीचेना चरमातनी पेटे जाणवो. परन्तु विशेष ए के जीवदेशोना संबंधे पंचेन्द्रियोमां त्रण भांगा कहेवा. वाकीनुं वयुं तेज प्रमाणे कहेवुं रत्नप्रभा पृथ्वीना चार चरमांतनी पेटे अर्कराप्रभा पृथिवीना पण चार चरमांत कहेवा. अने रत्नप्रभा पृथिवीना नीचेना चरमांतनी पेटे अर्कराप्रभानो उपलो तथा नीचलो चरमांत समजवो. ए प्रमाणे वावट्-सातमी पृथिवी सुधी जाणवुं. तथा सांघर्म [देवलोक] या अच्युत [देवलोक] संबंधे पण एज प्रमाणे समजवुं. भ्रैवेयक विमानो संबंधे पण तेज प्रमाणे जाणवुं. पण तेमा विशेष ए छे के उपल्य हेठला चरमांत विपे देशो संबंधे पंचेन्द्रियोमा पण वचलो भागो न कहेवो. वाकीनुं वयुं पूर्व प्रमाणे ज कहेवुं. तथा भ्रैवेयक विमाननी पे अनुत्तर विमाननी अने ईपत्तारभारा पृथिवीनी पण वक्तव्यता कहेवी.

६ * दशमा शतकना प्रथम उद्देशकमा जेम विमला दिशा स्वग्धे कालु छे तेम रत्नप्रभाना उपरना चरमान्त स्वग्धे पण कहेवुं. जेमन्त्रे-त्ता जीवो नकी कारण के ते एरु प्रदेशना प्रतररूप होवाथी तेठलामा जीवो समाद् द्यकता नथी, पण जीवदेश अने जीवप्रदेश रही गके छे. तेमा जे जीवना देशो होय छे ते अयद्य एकेन्द्रिय जीवना देशो होय छे. १ अथवा एकेन्द्रियदेशो अने वेदन्द्रियनो देश, २ अथवा एकेन्द्रियदेशो अने वेदन्द्रियना देशो, ३ अथवा एकेन्द्रियदेशो अने वेदन्द्रियनो देशो. उपरना त्रण भागा वाय छे, कारण के रत्नप्रभामा वेदन्द्रियो रहे छे, अने तेथो एकेन्द्रियनो अपेक्षाए घोटा होय छे, तेथी तेना उपरन चरमान्तमा वेदन्द्रियनो एक देश अथवा अनेक देशो संभवित छे. ए प्रमाणे त्रीन्द्रियथी माठी अनिन्द्रिय सुधी प्रत्येकना त्रण त्रण भागा जीवदेशने आश्रय कहेवा ह्ये जे जीवना प्रदेशो छे ते अयद्य एकेन्द्रियना प्रदेशो छे. १ अथवा एकेन्द्रियप्रदेशो अने वेदन्द्रियना प्रदेशो, २ अथवा एकेन्द्रिय जीवप्रदेशो अने वेदन्द्रियनो प्रदेशो. ए प्रमाणे त्रीन्द्रियथी आरसी अनिन्द्रिय सुधी वच्चे भागा जाणवा तथा ता एपी अजीवना चार प्रकार अने अरपी अजीवना सात प्रकार छे. कारण के ते समक्षेत्रनी अदर होवाथी ला अस्त्रासमय पण होय छे.—टीका.

रत्नप्रभाना उपरना चरमान्तने आश्रयी जीवदेश अने जीवप्रदेशोना भागाओनुं यन्त्र.—

एक के अनेक जीवोना देसादि.

	एकेन्द्रिय.	वेदन्द्रिय.	तेदन्द्रिय.	चदरिन्द्रिय.	पंचेन्द्रिय.	अनिन्द्रिय.	दुलभागा.
देश.	2-2	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	16
		1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	
		2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	
प्रदेश.	2-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	11
		2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	

अहिं देशने आश्रयी भागाओमा असयोगी एक अने उपर प्रमाणे द्विकसयोगी पंदर तथा प्रदेशने आश्रयी भागाओमा असयोगी एक अने द्विकसयोगी दश भागा जाणवा-

† जेम लोकनी नीचेनो चरमान्त कसो तेम रत्नप्रभानी नीचेनो चरमान्त पण कहेवो. मात्र विशेष ए छे के लोकनी नीचेना चरमान्तमा जीवदेश स्वग्धे वेदन्द्रियादिना मध्यम भागारहित वच्चे भागा कहेवा, पण अही पंचेन्द्रियना त्रण भागा कहेवा अने पंचेन्द्रिय सिवायना जीवोमा वच्चे भागा कहेवा. कारण के रत्नप्रभानी नीचेना चरमान्तमा देवरूप पंचेन्द्रियोना गमनागमनद्वारा पंचेन्द्रियनो देश अने तेना देशो संभव छे, माटे पंचेन्द्रियना त्रण भागा अहिं छेवा. अने वेदन्द्रियादि तो रत्नप्रभानी नीचेना चरमान्तमा मरणसमुद्घातथी जाय त्वारेज तेनो संभव होवाथी ता तेमनो देजज संभवित छे, परन्तु देशो संभवता नथी, केमके रत्नप्रभानी नीचेनो चरमान्त एक प्रतररूप होवाथी अनेक देशनो हेतु यतो नथी.—टीका.

रत्नप्रभाना नीचेना चरमान्त तथा शर्कराप्रभा आदि वाकीनी नरको अने सांघर्मथी अच्युत सुधीना देवलोकना उपर अने नीचेना चरमान्तने आश्रयी जीवदेश अने जीवप्रदेशोना भागाओनुं यन्त्र—

एक के अनेक जीवोना एक के अनेक देसादि.

	एकेन्द्रिय.	वेदन्द्रिय.	तेदन्द्रिय.	चदरिन्द्रिय.	पंचेन्द्रिय.	अनिन्द्रिय.	दुलभागा.
देश.	2-2	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	12
		2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	
		2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	
प्रदेश.	2-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	11
		2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	

अहिं देशने आश्रयी भांगामा असयोगी एक अने द्विकसयोगी अनीयार, तथा प्रदेशने आश्रयी भांगामा असयोगी एक अने द्विकसयोगी दश भागा जाणवा.

‡ शर्कराप्रभानी उपरनी तथा नीचेनो चरमान्त रत्नप्रभानी नीचेना चरमान्तनी पेटे जाणवो ता वेदन्द्रियादिना जीवदेशने आश्रयी मध्यम भंग रहित वच्चे भागा अने पंचेन्द्रियना त्रण भागा कहेवा. जीवप्रदेशने आश्रयी वथा वेदन्द्रियादिने विपे प्रथम भंगरहित वाकीना वच्चे भागा जाणवा अजीवने आश्रयी रूपी अजीवना चार अने अरपी अजीवना छ मेद जाणवा. शर्कराप्रभानी पेटे वाकीनी नरकपृथिवीओ अने सांघर्मथी आरसी भ्रैवेयक सुधीना निगनोनी वचकता जाणवी. परन्तु एटलो निक्षेप छे के जीवदेशने आश्रयी अच्युत देवलोक सुधी देशोना गमनागमननो संभव होवाथी पंचेन्द्रियना त्रण

७. [प्र०] परमाणुपोगले णं भंते ! लोगस्स पुरच्छिमिह्लाओ चरिमंताओ पच्चच्छिमिह्लं चरिमंतं एगसमणं गच्छति, पच्चच्छिमिह्लाओ चरिमंताओ पुरच्छिमिह्लं चरिमंतं एगसमणं गच्छति, दाहिणिह्लाओ चरिमंताओ उत्तरिह्लं जाव-गच्छद्द, उत्तरिह्लाओ दाहिणिह्लं जाव-गच्छति, उवरिह्लाओ चरिमंताओ हेट्ठिह्लं चरिमंतं एवं जाव-गच्छति, हेट्ठिह्लाओ चरिमंताओ उवरिह्लं चरिमंतं एगसमणं गच्छति ? [उ०] हंता गोयमा ! परमाणुपोगले णं लोगस्स पुरच्छिमिह्लं तं चेव जाव-उवरिह्लं चरिमंतं गच्छति ।

८. [प्र०] पुरिसे णं भंते ! वासं वासति, वासं नो वासतीति हत्थं वा पायं वा वाहं वा उरं वा आउट्ठावेमाणे वा पसारमाणे वा कतिकिरिये ? [उ०] गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे वासं वासति वासं नो वासतीति, हत्थं वा जाव-उरं वा आउट्ठावेति वा पसारति वा, तावं च णं पुरिसे काइयाए जाव-पंचाहिं किरियाहिं पुट्टे ।

९. [प्र०] देवे णं भंते ! महिह्णिये जाव-महेससखे लोगंते टिच्चा पभू अलोगंसि हत्थं वा जाव-उरं वा आउट्ठावेत्तए वा पसारत्तए वा ? [उ०] णो तिणट्टे समट्टे [प्र०] । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—‘देवे णं महिह्णिये जाव-लोगंते टिच्चा णो पभू अलोगंसि हत्थं वा जाव-पसारत्तए वा’ ? [उ०] जीवाणं आहारोपचिया पोग्गला, वोंदिचिया पोग्गला, कलेवरचिया पोग्गला, पोग्गलामेव पप्प जीवाण य अजीवाण य गतिपरियाए आहिज्जद्द, अलोए णं नेवत्थि जीवा, नेवत्थि पोग्गला; से तेणट्टेणं जाव-पसारत्तए वा । ‘सेवं भंते ! सेवं भंते’ ! च्चि ।

सोलसमे सए अट्टमो उद्देशो समत्तो ।

७. [प्र०] हे भगवन् ! परमाणु पुद्गल एक समयमां लोकना पूर्व चरमांतयी—छेडायी पश्चिम चरमांतमा, पश्चिम चरमांतयी पूर्व चरमांतमा; दक्षिण चरमांतयी उत्तर चरमांतमां, उत्तर चरमांतयी दक्षिण चरमांतमा; उपरना चरमांतयी नीचेना चरमांतमा, अने नीचेना चरमांतयी उपरना चरमांतमां जाय ? [उ०] हे गौतम ! हा, परमाणु पुद्गल एक समये लोकना पूर्व चरमान्तयी पश्चिम चरमांतमा, यावत्-नीचेना चरमांतयी उपरना चरमांतमां जाय.

८. [प्र०] हे भगवन् ! ‘वरसाद वरसे छे के नथी वरसतो’ ए [जाणवाने] माटे कोर्दे पुरुष पोतानो हाय, पग, वाहु, के उर संकोचे के पसारे तो ते पुरुषने केटली क्रिया लागे ? [उ०] हे गौतम ! ‘वरसाद वरसे छे के नथी वरसतो’ ए जाणवाने माटे जे पुरुष पोतानो हाय, यावत्-उर संकोचे के पसारे ते पुरुषने कायिकी वगेरे पाचे क्रियाओ लागे.

९. [प्र०] हे भगवन् ! मोटी ऋद्धिवाळो यावत्-मोटा सुखवाळो देव लोकातमा रहीने अलोकमा पोताना हायने, यावत्-उरुने संकोचवा के पसारवा समर्थ छे ? [उ०] हे गौतम ! ते अर्थ समर्थ नथी. [प्र०] हे भगवन् ! आप ए प्रमाणे आ हेतुथी कहो छो के ‘मोटी ऋद्धिवाळो देव लोकान्तमा रहीने अलोकमा पोताना हायने, यावत्-उरुने पसारवा समर्थ नथी’ [उ०] हे गौतम ! ‘जीवोने [अनुगत एवा] आहारोपचित, शरीरोपचित अने कलेवरोपचित पुद्गलो होय छे, तथा पुद्गलोने आश्रयीनेज जीवोने अने अजीवोने [पुद्गलोने] गतिपर्याय कहैवाय छे. अलोकमा तो जीवो नथी, तेम पुद्गलो पण नथी माटे ते हेतुथी पूर्वोक्त देव यावत्-पसारवा समर्थ नथी. ‘हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे’.

सौळमा शतकमां अष्टम उद्देशक समाप्त.

भाग जाणवा अने द्वीन्द्रियना बच्चे भागा जाणवा. प्रवेयक तथा अनुत्तर विमानना देवोसु गमनागमन नहि होवाथी पंचेन्द्रियमा पण बच्चे भागा थाय छे. यद्यपि त्रीजी नरकपृथिवी सुधी देवोसु गमनागमन होवाथी बालुकाप्रभाना उपरना चरमान्त सुधी देशने आश्रयी पंचेन्द्रियना ऋण ऋण भागानो उभय छे, अने स्वांथी आगळनी नरकपृथिवीने विपे देवोसु गमनागमन नहि होवाथी पंचेन्द्रियना बच्चे भागा थाय छे, पण अहि शक्यप्रभानी पेटे खाते नरकपृथिवी सुधी पंचेन्द्रियना ऋण भागा कखा छे ते विचारणीय छे—टीका.

इष्टप्राग्भारा (सिद्धशिला) ना पूर्वोदि चारे दिशाओना चरमान्तने आश्रयी जीवदेश अने जीवप्रदेशोना भागाओसुं यत्त.—

एक के अनेक जीवोना एक के अनेक देशादि.

	एकेन्द्रिय.	वेशन्द्रिय.	वेशन्द्रिय.	चउरिन्द्रिय.	पंचेन्द्रिय.	अनिन्द्रिय.	कुल भाग.
देश.	२-२	१-१	१-१	१-१	१-१	१-२	} १५
		१-२	१-२	१-२	१-२	२-२	
		२-२	२-२	२-२	२-२		
प्रदेश.	२-२	१-२	१-२	१-२	१-२	१-२	} ११
		२-२	२-२	२-२	२-२	२-२	

अहि पूर्ववत् देशने आश्रयी अचरयोगी एव अने तेनी साथे वे अन्द्रियारिने योग करता द्विकचयोगी चैद भागा तदा प्रवेगने आश्रयी अचरयोगी एव अने द्विचरयोगी दश भागा जाणवा.

९ * जीवोनी साथे रहैला पुद्गलो आहाररूपे, शरीररूपे, कलेवररूपे तथा आनोच्छ्वासारूपे उपचित यमेल होय छे अर्थात्-पुद्गले हनेमा जीवोसुगर्भो स्वभाववाळ होय छे, जे क्षेत्रमा जीवो छे स्वाज पुद्गलोनी गति होय छे, तेमज पुद्गलोने आश्रयी जीवोनी अने पुद्गलोनी गतिपद होय छे. तावत् ए छे के जे क्षेत्रमा पुद्गलो छे तेज क्षेत्रमा जीवोनी अने पुद्गलोनी गति थाय छे, धर्मान्द्रियकपना धर्मावधी अलोकमां जीव अने पुद्गलो होला नथी माटे रस जीव अने पुद्गलोनी गति पण नथी—टीका.

નવમો ઉદ્દેસો.

૧. [પ્ર૦] કહિંદ્રં મંતે ! વલિસ્સ વદ્દરોયર્ણિદ્સ્સ વદ્દરોયણરત્તો સમા સુહમ્મા પવત્તા ? [૩૦] ગોયમા ! જંવુદ્ધિવે દીવે મંદરસ્સ પદ્ધયસ્સ ઉત્તરેણં તિરિયમસંયેજ્જે જહેવ ચમરસ્સ જાવ—ચાયાલીસં જોયણસહસ્સાઠં ઓગાહિત્તા ઇત્થ ણં વલિસ્સ વદ્દરોયર્ણિદ્સ્સ વદ્દરોયણરત્તો રુયર્ણિદ્દે નામં ઉપ્પાયપદ્ધય પવત્તે । સત્તરસ પદ્ધવીસે જોયણસય—પદ્ધં પમાણં જહેવ તિગિચ્છિક્કૂટસ્સ । પાસાયાવહંસગસ્સ વિ તં ચેવ પમાણં, સીહાસણં સપરિવારં વલિસ્સ પરિયારેણં, અટ્ટો તહેવ, નવરં રુયર્ણિદ્ધપ્પમાઈં ૩, સેસં તં ચેવ, જાવ—વલિચંચાપ રાયહાણીય અગ્નેસિં ચ જાવ—રુયર્ણિદ્ધસ્સ ણં ઉપ્પાયપદ્ધયસ્સ ઉત્તરેણં છક્કોહિસપ તહેવ, જાવ—ચત્તાલીસં જોયણસહસ્સાઈં ઓગાહિત્તા ઇત્થ ણં વલિસ્સ વદ્દરોયર્ણિદ્સ્સ વદ્દરોયણરત્તો વલિચંચા નામં રાયહાણી પદ્ધત્તા । ણં જોયણસયસહસ્સં પમાણં, તહેવ જાવ—વલિપેઠસ્સ ઉવવાયો, જાવ—ચાયરક્ખ્યા સઘં તહેવ નિરવસેસં; નવરં સાતિરેગં સાગરો-વમં ઠિટી પવત્તા, સેસં તં ચેવ જાવ—વલી વદ્દરોયર્ણિદ્દે વલી૦ ૨ । 'સેવં મંતે ! સેવં મંતે ! જાવ—વિહરતિ ।

સોલસમે સપ નવમો ઉદ્દેસો સમત્તો ।

નવમ ઉદ્દેશક.

૧ [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! વૈરોચનેન્દ્ર અને વૈરોચન રાજા એવા વલિની સુધર્મા સમા ક્યા કહેલી (આવેલી) છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! જંવુદ્ધીપ નામે દ્વીપમા મંદર પર્વતની ઉત્તરે તિરહ્ણં અસંખેય [દ્વીપ—સમુદ્રો ઓલંગીને]—ઇત્યાદિ જેમ * ચમરની હકીકતમા કહ્યુ છે તેમ અરુણવર દ્વીપની વાહ્યવેદિકાથી અરુણવર સમુદ્રમાં વૈતાલીશ હજાર યોજન અવગાહ્યા પછી વૈરોચનેન્દ્ર અને વૈરોચનરાજા એવા વલિનો રુચકેન્દ્ર નામનો ઉત્પાત પર્વત કહ્યો છે. તે ઉત્પાત પર્વત ૧૭૨૧ યોજનન ડંચો છે. વાકીનું વધું તેનું પ્રમાણ તિગિચ્છિક્કૂટ પર્વતનો પંટે જાણવું તેના પ્રાસાદાવતંસકનું પણ પ્રમાણ તેજ પ્રમાણે જાણવું. તથા વલિના પરિવાર સાથે સપરિવાર સિંહાસન પણ તે પ્રમાણે કહેવું. રુચકેન્દ્ર નામનો અર્થ પણ તે પ્રમાણે કહેવો. વિશેષ એ કે અહિં રુચકેન્દ્ર [રત્નવિશેષ] ની પ્રમાણાઠાં ઉત્પલાદિ જાણવા. વાકી વધું તેજ પ્રમાણે યાવત્—તે વલિચંચા રાજવાનીનું તથા અન્યોનું [આધિપત્ય કરતો વિહરે છે.] લ્યા સુધી કહેવું. તે રુચકેન્દ્ર ઉત્પાત પર્વતની ઉત્તરે છ સો [પંચાવન ક્રોડ, પાર્શ્વ ડાય, પચાસ હજાર યોજન અરુણોદય સમુદ્રમા તિરહ્ણં જડને નીચે રત્નપ્રમા પૃથિવીમા] ઇત્યાદિ પૂર્વવત્ યાવત્—ચાલીસ હજાર યોજન ગયા પછી લ્યા વૈરોચનેન્દ્ર વૈરોચનરાજા એવા વલિની 'વલિચંચા' નામની રાજવાની કહી (આવેલી) છે. તે રાજવાનીનો વિસ્ત્રમ—વિસ્તાર એક લાખ યોજન છે. વાકીનું વધું પ્રમાણ પૂર્વ પ્રમાણે જાણવું, અને તે યાવત્—વલિપીઠ સુધી સમજવું. તથા ઉપપાત, યાવત્—આત્મ રક્ષકો—એ વધું પૂર્વવત્ સમજવું. વિશેષ એ કે વૈરોચનેન્દ્ર વૈરોચન રાજા એવા વલિની સ્થિતિ સાગરોપમ કરતાં કંદેક અધિક કહી છે. અને વાકી વધું તે સંવેધે પૂર્વ પ્રમાણે જાણવું. યાવત્—'વૈરોચનેન્દ્ર વલિ છે, વૈરોચનેન્દ્ર વલિ છે' લ્યા સુધી કહેવું. 'હે ભગવન્ ! તે એમજ છે, હે ભગવન્ ! તે એમજ છે.'

સોલમા શતકમાં નવમ ઉદ્દેશક સમાત.

૧ * મગ. સ્. ૧ શ. ૦ ૨ ડ. ૮ પૃ. ૨૧૭-૨૧૮

† જેમ વીજ્ઞા શતકમા આટમા ઉદ્દેશકમા ચમરેન્દ્રની સુધર્મા સમાસયધે હકીકત કહી છે તેમ વલિ સંબંધે પણ કહેવી લ્યાં જેમ તિગિચ્છિક્કૂટનામે ઉત્પાત પર્વતનું પ્રમાણ કહ્યુ છે તે પ્રમાણે અહિં રુચકેન્દ્ર ઉત્પાત પર્વતનું પ્રમાણ જાણવું તિગિચ્છિક્કૂટના ઉપર રહેલા પ્રાસાદાવતંસકનું જે પ્રમાણ કહ્યું છે તે પ્રમાણે રુચકેન્દ્રનામે ઉત્પાત ઉપર રહેલા પ્રાસાદનું પ્રમાણ પણ જાણવું હવે તે પ્રાસાદાવતંસકના મધ્યમાને રહેલું વલિનું સિંહાસન તેના પરિવારના સિંહાસનો સહિત ચમરેન્દ્રની પેઠે જાણવું તેમા માત્ર વિશેષ એ છે કે વલિના સામાનિક દેવોના આસનો સાઠ હજાર છે અને આત્મરક્ષક દેવોના આસનો તેથી ચાર ગુણા છે જેમ તિગિચ્છિક્કૂટ નામનો અન્યર્થ કહેલો છે, તેમ અહિં રુચકેન્દ્રનો પણ જાણવો. લ્યા તિગિચ્છિક્કૂટમા તિગિચ્છિરત્નની પ્રમાણાઠાં ઉત્પલાદિ હોય છે માટે તે તિગિચ્છિક્કૂટ નહેતાય છે, તેમ અહિં રુચકેન્દ્રરત્નની પ્રમાણાઠાં ઉત્પલાદિ હોય છે માટે રુચકેન્દ્રકૂટ કહેવાય છે નગરીનું પ્રમાણ કહ્યા પછી પ્રાકાર, તેના દ્વાર, સ્પર્શકાલચન, દ્વારના ઉપરનું ગૃહ, પ્રાસાદાવતંસક, સુધર્મસમા, ચૈત્યમવન, ઉપપાતનમા, હર, અભિષેકનમા, આલકારિત્તસમા અને વ્યવસાયસમા વગેરેનું સ્વરૂપ અને પ્રમાણ વલિપીઠના વર્ણન સુધી કહેવું.—ટીકા.

दसमो उद्देशो.

१. [प्र०] कतिविहे णं भंते ! ओही पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! दुविहा ओही पन्नत्ता । ओहीपदं निरवसेसं भाणियच्चं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! जाव-विहरति ।

सोलसमे सए दसमो उद्देशो समत्तो ।

दशम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! अवधिज्ञान केटला प्रकारे कहुं छे ? [उ०] हे गौतम ! अवधिज्ञान वे प्रकारे कहुं छे. अहिं 'प्रज्ञापना' सूत्रनुं तेत्रीसमुं अवधिपद संपूर्ण कहेवुं. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे-एम कही यावद्-विहरे छे.

अवधिज्ञान-

सोळमा शतकमां दशम उद्देशक समाप्त.

इक्कारसमो उद्देशो.

१. [प्र०] दीवकुमारा णं भंते ! सधे समाहारा, सधे समुस्सासनिस्सासा ? [उ०] णो तिण्ठे समट्टे । एवं जहा पढमसए वितियउद्देशए दीवकुमाराणं वत्तधया तहेव जाव-समाउया, समुस्सासनिस्सासा ।

२. [प्र०] दीवकुमाराणं भंते ! कति लेस्साओ पन्नत्ताओ ? [उ०] गोयमा ! चत्तारि लेस्साओ पन्नत्ताओ, तंजहा-१ कणहलेस्सा, जाव-४ तेउलेस्सा ।

३. [प्र०] एप्पसि णं भंते ! दीवकुमाराणं कणहलेस्साणं जाव-तेउलेस्साणं य कयरे कयरेहितो जाव-विसेसा; हिया वा ? [उ०] गोयमा ! सवत्थोवा दीवकुमारा तेउलेस्सा, काउलेस्सा असंखेजगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, कणहलेस्सा विसेसाहिया ।

४. [प्र०] एप्पसि णं भंते ! दीवकुमाराणं कणहलेस्साणं जाव-तेउलेस्साणं य कयरे कयरेहितो अप्पहिया वा महहिया वा ? [उ०] गोयमा ! कणहलेस्साहितो नीललेस्सा महहिया, जाव-सवमहहिया तेउलेस्सा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! जाव-विहरति ।

सोलसमे सए इक्कारसमो उद्देशो समत्तो.

अगियारमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! द्वीपकुमारो वधा समानआहारवाळा छे, समानउच्छ्वास-निःश्वासवाळा छे ? [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नथी. अहिं जेम प्रथम शतकना द्वितीय उद्देशकमा द्वीपकुमारोनी वक्तव्यता कहेली छे ते वधी कहेवी, यावत्-समान आयुष्यवाळा अने समान उच्छ्वास-निःश्वास वाळा [नथी] ला सुधी जाणवुं.

द्वीपकुमारो समान
आहारवाळा छे-
इत्यादि प्रश्न.

२. [प्र०] हे भगवन् ! द्वीपकुमारोने केटली लेस्याओ कही छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने चार लेस्याओ कही छे. ते आ प्रमाणे-१ कृष्णलेस्या, यावत्-४ तेजोलेस्या.

द्वीपकुमारोने
लेस्याओ.

३. [प्र०] हे भगवन् ! कृष्णलेस्यावाळा यावत्-तेजोलेस्यावाळा ए द्वीपकुमारोमा कोण कोनाथी यावत्-विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! सौथी थोडा द्वीपकुमारो तेजोलेस्यावाळा छे, कापोतलेस्यावाळा असखेयगुणा छे, तेथी नीललेस्यावाळा विशेषाधिक छे, अने तेना करता कृष्णलेस्यावाळा विशेषाधिक छे.

४. [प्र०] हे भगवन् ! कृष्णलेस्यावाळा, यावत् तेजोलेस्यावाळा-ए द्वीपकुमारोमा कोण कोनाथी अल्पधिक छे अने महधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! कृष्णलेस्यावाळा करता नीललेस्यावाळा द्वीपकुमारो महधिक छे; यावत्-तेजोलेस्यावाळा सौथी महधिक छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे हे भगवन् ! ते एमज छे'-एम कही यावद् विहरे छे.

सोळमा शतकमां अगियारमो उद्देशक समाप्त.

१ * अवधिज्ञान वे प्रकारउ छे-भवप्रत्ययिक अने क्षायोपशमिक. देवो अने नैरयिकोने भवप्रत्ययिक अने मनुष्य तथा पंचेन्द्रिय तिर्यचयोमिकने क्षायोपशमिक-अवधिज्ञानावरणना क्षयोपशमजन्य अवधिज्ञान होय छे. विशेष माटे जुओ प्रज्ञा० पद ३३ प० ५३६-५४२.

द्विविधोऽवधि । भवप्रत्ययो नारकदेवानाम् । यथोक्तनिमित्त पट्टविकल्प शेषाणाम् ॥ तत्त्वा० अ० १ सू० २१-२२-२३ ॥ अर्थ —अवधिज्ञान वे प्रकारे छे-भवप्रत्यय अने क्षयोपशमनिमित्त. नारक अने देवोने भवप्रत्यय अवधिज्ञान होय छे अने शेष मनुष्य अने पंचेन्द्रिय तिर्यचोने क्षयोपशमनिमित्तक होय छे. तेना छ प्रकार छे.

१२-१४ उद्देशा.

१. [प्र०] उद्विकुमारा णं मंते ! सद्ये समाहारा० [उ०] एव चैव 'सेवं मंते सेवं मंते' ! च्छि । (१६-१२) एव
दिसाकुमारा वि (१६-१३) एव थणियकुमारा वि । 'सेवं मंते सेवं मंते' ! जाव-विहय (१६-१४) ।

सोलसमे सए १२-१४ उद्देशा समत्ता


सोलसमं सयं समत्तं.

१२-१४ उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं उद्विकुमारो वधा समान आहारवाळ्य छे-इलाटि पूर्व प्रमाणे प्रथ. [उ०] पूर्व प्रमाणेज वरुं जाणवुं-
हि भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'-(१६-१२) ए प्रमाणे विकुमारो विपे तेरमो उद्देशक जाणवो अने ए प्रमाणे त्तानित-
कुमारो विपे चैदमो उद्देशक समजवो. हि भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'-एम कही यावट्-विहरे छे.

सोळमा शतकमां १२-१४ उद्देशको समाप्त

सोळसुं शतक समाप्त.



सत्तरसमं सयं

कुंजरं संजयं सेलेसितं किरियं ईसाणं पुढंवि दंगं वाजं ।
एगिंदियं नार्गं सुवर्णं विज्जुं वार्युं-गिं सत्तरसे ॥

पढमो उद्देशो.

१. [प्र०] रायगिहे जाव-एवं वयासी-उदायी णं मंते ! हत्थिराया कओहिंतो अणंतरं उच्चट्ठित्ता उदायिहत्थिरायत्ताए उचवन्ने ? [उ०] गोयमा ! असुरकुमारोहिंतो देवेहिंतो अणंतरं उच्चट्ठित्ता उदायिहत्थिरायत्ताए उचवन्ने ।

२. [प्र०] उदायी णं मंते ! हत्थिराया कालमासे कालं किच्चा कहिं गच्छिहिति, कहिं उववज्जिहिति ? [उ०] गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोसं सागरोवमट्ठितीयंसि निरयावासंसि नेरइयत्ताए उचवज्जिहिति ।

३. [प्र०] से णं मंते ! तओहिंतो अणंतरं उच्चट्ठित्ता कहिं गच्छिहिति, कहिं उववज्जिहिति ? [उ०] गोयमा ! महाविदेहे घासे सिज्जिहिति, जाव-अंतं काहिति ।

४. [प्र०] भूयाणंदे णं मंते ! हत्थिराया कओहिंतो अणंतरं उच्चट्ठित्ता भूयाणंदे हत्थिरायत्ताए० ? [उ०] एवं जहेव उदायी, जाव-अंतं काहिति ।

सत्तरसुं शतक.

[उद्देशक संग्रह-] १ कुंजर-कोणिकना प्रधान हस्ती संवन्धे प्रथम उद्देशक, २ संयतादि सवन्धे वीजो उद्देशक, ३ शैलेशी प्राप्त अनगार संवन्धे वीजो उद्देशक, ४ क्रिया-कर्म संवन्धे चोथो उद्देशक, ५ ईशानेन्द्रनी सुधर्मा सभा सवन्धे पाचमो उद्देशक, ६-७ पृथिवीकायिक संवन्धे छट्टो अने सातमो उद्देशक, ८-९ अप्कायिक संवन्धे आठमो अने नवमो उद्देशक, १०-११ वायुकायिक संवन्धे दशमो अने अगीयारमो उद्देशक, १२ एकेन्द्रिय जीव संवन्धे वारमो उद्देशक, १३-१७ नागकुमार, सुवर्णकुमार, विद्युत्कुमार अने अग्नि-कुमार संवन्धे अनुक्रमे तेरथी आरंभी सत्तर उद्देशको-ए प्रमाणे सत्तरमा शतकमां सत्तर उद्देशको कहेवामा आवशे.

प्रथम उद्देशक.

१. [प्र०] राजगृह नगरमां भगवान् गौतम यावत्-आ प्रमाणे वोल्या-हे भगवन् ! उदायी नामे प्रधान हस्ती कई गतिमाथी मरण पामी तुरत अहीं उदायी नामे प्रधान हस्तीपणे उत्पन्न थयो छे ? [उ०] हे गौतम ! ते असुरकुमार देव थकी मरण पामी तुरत अहीं उदायी नामे प्रधान हस्तीपणे उत्पन्न थयो छे.

उदायी हस्ती कई गतिमाथी आवी उत्पन्न थयो छे ?

२. [प्र०] हे भगवन् ! आ उदायी नामे हस्ती मरणसमये मरी क्या जशे, क्या उत्पन्न थशे ? [उ०] हे गौतम ! आ रत्तप्रमा पृथिवीने विषे एक सागरोपमनी उत्कृष्ट स्थितिवाळा नरकावासमा नैरयिकपणे उत्पन्न थशे.

उदायी मरने कयां जशे ?

३. [प्र०] हे भगवन् ! ते (उदायी हस्ती) ल्याथी मरण पामी तुरत क्या जशे, क्या उत्पन्न थशे ? [उ०] हे गौतम ! महाविदेह क्षेत्रमा उत्पन्न थई सिद्ध थशे, सर्व दुःखोनो अन्त करशे.

ल्याथी मरण पामी क्या जशे ?

४. [प्र०] हे भगवन् ! भूतानंद नामे प्रधान हस्ती कई गतिमांथी मरण पामी तुरत अहिं भूतानंद नामे हस्तीपणे उत्पन्न थयो छे ? [उ०] जेम उदायी नामे हस्तीनी वक्तव्यता कही तेम भूतानंदनी पण वक्तव्यता अहिं जाणवी. यावत्-सर्व दुःखोनो अन्त करशे.

भूतानंद कयाथी आथ्यो छे अने मरने कया जशे ?

५. [प्र०] पुरिसे णं भंते ! तालमारुहइ, तालमारुहिच्चा तालाओ तालफलं पचालेमाणे वा पवाडेमाणे वा कतिकिरिप ? [उ०] गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे तालमारुहइ, तालमारुहिच्चा तालाओ तालफलं पचालेइ वा पवाडेइ वा तावं च णं से पुरिसे काइयाए जाव-पंचाहिं किरियाहिं पुट्टे; जेसिं पि णं सरीरोहिंतो ताले निघत्तिप, तालफले निघत्तिप ते वि णं जीवा काइयाए जाव-पंचाहिं किरियाहिं पुट्टा ।

६. [प्र०] अहे णं भंते ! से तालफले अप्पणो गह्यत्ताए, जाव-पचोवयमाणे जाइं तत्थ पाणाइं जाव-जीवियाओ वव-रोवेति तप णं भंते ! से पुरिसे कतिकिरिप ? [उ०] गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे तलफले अप्पणो गह्यत्ताए जाव-जीवियाओ ववरोवेति तावं च णं से पुरिसे काइयाए जाव-पंचाहिं किरियाहिं पुट्टे; जेसिं पि णं जीवाणं सरीरोहिंतो तले निघत्तिप ते वि णं जीवा काइयाए जाव-चउहिं किरियाहिं पुट्टा, जेसिं पि णं जीवाणं सरीरोहिंतो तलफले निघत्तिप ते वि णं जीवा काइयाए जाव-पंचाहिं किरियाहिं पुट्टा; जे वि य से जीवा अहे वीससाए पचोवयमाणस्स उवग्गहे चट्ठंति ते वि य णं जीवा काइयाए जाव-पंचाहिं किरियाहिं पुट्टा ।

७. [प्र०] पुरिसे णं भंते ! रुक्खस्स मूलं पचालेमाणे वा, पवाडेमाणे वा कतिकिरिप ? [उ०] गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे रुक्खस्स मूलं पचालेइ वा, पवाडेइ वा तावं च णं से पुरिसे काइयाए जाव-पंचाहिं किरियाहिं पुट्टे; जेसिं पि य णं जीवाणं सरीरोहिंतो मूले निघत्तिप, जाव-वीए निघत्तिप, ते वि य णं जीवा काइयाए जाव-पंचाहिं किरियाहिं पुट्टा ।

८. [प्र०] अहे णं भंते ! से मूले अप्पणो गह्ययाए जाव-जीवियाओ ववरोवेइ तयो णं भंते ! से पुरिसे कतिकिरिप ? [उ०] गोयमा ! जावं च णं से मूले अप्पणो जाव-ववरोवेइ तावं च णं से पुरिसे काइयाए जाव-चउहिं किरियाहिं पुट्टे; जेसिं पि य णं जीवाणं सरीरोहिंतो कंदे निघत्तिप, जाव-वीए निघत्तिप ते वि णं जीवा काइयाए जाव-चउहिं पुट्टा;

५. [प्र०] हे भगवन् ! कोइ पुरुष ताडना झाड उपर चढे, अने ते ताडना झाड उपर चढी लां रहेला ताडना फळने हलावे के नीचे पाडे तो ते पुरुषने केटली क्रियाओ लागे ? [उ०] हे गौतम ! *जेटलामां पुरुष ताड उपर चढी ताडना फळने हलावे के नीचे पाडे, तेटलामां ते पुरुषने कायिकी वगेरे पाच क्रियाओ लागे. जे जीवोना शरीरद्वारा ताड वृक्ष तथा ताडनुं फळ उत्पन्न ययुं छे ते जीवोने पण कायिकी वगेरे पाच क्रियाओ लागे.

६. [प्र०] हे भगवन् ! [ते पुरुषे हलाव्या के तोल्या पछी] ते ताडनुं फळ पोताना भारने लीघे यावत्-नीचे पडे, अने नीचे पडता ते ताडना फळद्वारा जे जीवो हणाय, यावत्-जीवितथी जूदा थाय, तो तेथी ते फळ तोटनार पुरुषने केटली क्रियाओ लागे ? [उ०] हे गौतम ! जेटलामां ते पुरुष ताडना फळने तोडे अने पछी ते पळ पोताना भारने लीघे नीचे पडता जीवोने यावत्-जीवितथी जूदा करे तो तेटलामां (तोडनार) पुरुषने कायिकी वगेरे चार क्रियाओ लागे, जे जीवोना शरीरथी ताडनुं वृक्ष नीपय्युं छे ते जीवोने यावत् चार क्रियाओ लागे, अने जे जीवोना शरीरथी ताडनुं फळ नीपय्युं छे ते जीवोने तो कायिकी यावत् पाचे क्रियाओ लागे. तथा जे जीवो स्वाभाविक रीते नीचे पडता ताडना फळना उपकारक थाय छे ते जीवोने पण कायिकी यावत्-पाचे क्रियाओ लागे.

७. [प्र०] हे भगवन् ! कोइ पुरुष झाडना मूळने हलावे के नीचे पाडे तो ते पुरुषने केटली क्रिया लागे ? [उ०] हे गौतम ! झाडना मूळने हलावनार के नीचे पाडनार पुरुषने कायिकी वगेरे पाचे क्रियाओ लागे, अने जे जीवोना शरीरथी मूळ यावत् बीज नीपय्यां छे ते जीवोने पण कायिकी वगेरे पाचे क्रियाओ लागे.

८. [प्र०] हे भगवन् ! ल्यार पछी ते मूळ पोताना भारने लीघे नीचे पडे अने बीजा जीवोनुं घातक थाय तो तेथी मूळने हलावनार के तोडनार ते पुरुषने केटली क्रिया लागे ? [उ०] हे गौतम ! जेटलामां ते मूळ पोताना भारने लीघे नीचे पडे अने बीजा जीवोनुं घातक थाय तेटलामां ते पुरुषने कायिकी वगेरे चार क्रियाओ लागे. तथा जे जीवोना शरीरथी कंद नीपय्यो छे, यावत्-बीज

५ * कोइ पुरुष ताडना झाडने हलावे के तेना फळने नीचे पाडे तो ते ताडना फळनी अने ताडना फळने आश्रयी रहेला जीवोनी हिंसा करे छे, जे हिंसा रूप क्रिया करे छे ते कायिकी आदि चार क्रियाओ पण अवश्य करे छे, नाटे ते पुरुषने कायिकी वगेरे पाच क्रियाओ लागे छे १. जेथो ताड अने फळना जीवो छे तेने पण पूर्वोक्त पाच क्रियाओ लागे छे, केमके ते बीजा जीवोने स्वर्गादि बडे साक्षात् हणं छे २. ज्यारे पुरुष ताडना फळने हलावे के तोडे, पछीं ते फळ पोताना भारथी नीचे पडे अने ते द्वारा अन्य जीवोनी हिंसा थाय ल्यारे ते पुरुषने चार क्रियाओ लागे, कारण के अहिं फळना पडवाथी जे हिंसा थाय छे तेना पुरुष नाशान् कारण नथी, पण परपरा नरण छे, नाटे तेने प्राणतिपात सिवाय बीजां चार क्रियाओ लागे ३. ए प्रमाणे ताडना झाडने पण चार क्रिया लागे, अने फळना जीवोने पाच क्रिया लागे, कारण के ते वधनुं नाशान् कारण छे ५. नीचे पडता ताडना फळना जे उपकारक जीवो छे तेने पण पूर्वोक्त शुक्तिथी पांच क्रियाओ लागे ६. ए प्रमाणे फळद्वारा छ क्रिया स्थानो बध्दा ए रीते मूळ, कन्द, स्क्थ, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पाट्टा, पुष्प, फळ अने बीजने विपे पूर्वोक्त छ क्रियास्थानो समजवा, त्रिमेप नाटे वाण फेडनार पुरुष सचन्धे जुवो भग० सं० २ श० ५ उ० ६ पृ० २०६-२१७.

जेसिं पि य णं जीवाणं सरीरोहिंतो मूले निव्वत्तिप ते वि णं जीवा काइयाप जाव-पंचहिं किरियाहिं पुट्टा; जे वि य णं से जीवा अहे वीससाप पच्चोवयमाणस्स उवग्गहे वट्टंति ते वि णं जीवा काइयाप जाव-पंचहिं किरियाहिं पुट्टा ।

९. [प्र०] पुरिसे णं भंते! रुक्खस्स कंदं पचालेइ० ? [उ०] गोयमा! तावं च णं से पुरिसे जाव-पंचहिं किरियाहिं पुट्टे, जेसिं पि णं जीवाणं सरीरोहिंतो मूले निव्वत्तिप, जाव-वीप निव्वत्तिप ते वि णं जीवा पंचहिं किरियाहिं पुट्टा ।

१०. [प्र०] अहे णं भंते! से कंदे अप्पणो० ? [उ०] जाव-चउहिं पुट्टे, जेसिं पि णं जीवाणं सरीरोहिंतो मूले निव्वत्तिप, खंधे निव्वत्तिप, जाव-चउहिं पुट्टा; जेसिं पि णं जीवाणं सरीरोहिंतो कंदे निव्वत्तिप ते वि य णं जीवा जाव-पंचहिं पुट्टा; जे वि य से जीवा अहे वीससाप पच्चोवयमाणस्स जाव-पंचहिं पुट्टा, जहा कंदे, एवं जाव-वीयं ।

११. [प्र०] कति णं भंते! सरीरगा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा! पंच सरीरगा पणत्ता, तं जहा-१ ओरालिप, जाव-कम्मप ।

१२. [प्र०] कति णं भंते! इंदिया पणत्ता ? [उ०] गोयमा! पंच इंदिया पणत्ता, तं जहा-१ सोइंदिय, जाव-५ फासिंदिय ।

१३. [प्र०] कतिविहे णं भंते! जोप पणत्ते ? [उ०] गोयमा ? तिविहे जोप पणत्ते, तं जहा-मणजोप, वयजोप, कायजोप ।

१४. [प्र०] जीवे णं भंते! ओरालियसरीरं निव्वत्तेमाणे कतिकिरिप ? [उ०] गोयमा! सिय तिकिरिप, सिय चउकिरिप, सिय पंचकिरिप; एवं पुढविकाइय वि, एवं जाव-मणुस्से ।

१५. [प्र०] जीवा णं भंते! ओरालियसरीरं निव्वत्तेमाणा कतिकिरिया ? [उ०] गोयमा! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पंचकिरिया वि; एवं पुढविकाइया वि, एवं जाव-मणुस्सा । एवं वेउच्चियसरीरेण वि दो दंडगा, नवरं जस्स अत्थि वेउ-

नीपज्युं छे ते जीवोने कायिकी यावत्-चार क्रियाओ लागे. वळी जे जीवोना शरीरथी मूल नीपज्युं छे ते जीवोने कायिकी यावत्-पांच क्रियाओ लागे. तथा जे जीवो स्वाभाविक रीते नीचे पडता मूलना उपग्राहक-उपकारक छे ते जीवोने पण कायिकी वगरे पाच क्रियाओ लागे छे.

९. [प्र०] हे भगवन् ! कोइ पुरुष वृक्षना कंदने हलावे तो तेने केटली क्रिया लागे ? [उ०] हे गौतम ! कंदने हलावनार ते पुरुषने यावत्-पाच क्रियाओ लागे. तथा जे जीवोना शरीरथी मूल यावत्-बीज नीपज्युं छे ते जीवोने पण पाच क्रियाओ लागे छे.

१०. [प्र०] हे भगवन् ! सार पछी ते कन्द पोताना भारने लीचे नीचे पडे अने यावत्-जीवोना घात करे तो ते पुरुषने केटली क्रियाओ लागे ? [उ०] ते पुरुषने यावत्-चार क्रियाओ लागे. [साक्षात् घातक नहि होवाथी प्राणातिपातक्रिया न लागे.] तथा जे जीवोना शरीरथी मूल, स्कंध वगरे नीपज्या छे ते जीवोने परपराए घातक होवाथी प्राणातिपात क्रिया सिवाय चार क्रियाओ लागे, अने जे जीवोना शरीरथी कंद नीपज्यो छे ते जीवोने यावत् पाचे क्रियाओ लागे. वळी जे जीवो स्वाभाविक रीते नीचे पडता ते कंदना उपकारक होय ते जीवोने पण पाचे क्रियाओ लागे. जेम कंद संवन्धे वक्तव्यता कही तेम यावत्-बीज संवन्धे पण जाणवी.

११. [प्र०] हे भगवन् ! केटला शरीरो कह्या छे ? [उ०] हे गौतम ! पांच शरीरो कह्या छे, ते आ प्रमाणे-१ औदारिक, यावत्-५ कर्मण.

१२. [प्र०] हे भगवन् ! केटली इन्द्रियो कही छे ? [उ०] हे गौतम ! पांच इन्द्रियो कही छे, ते आ प्रमाणे-१ श्रोत्रेन्द्रिय, यावत्-५ स्पर्शेन्द्रिय.

१३. [प्र०] हे भगवन् ! योग केटला प्रकारनो कह्यो छे ? [उ०] हे गौतम ! योग त्रण प्रकारनो कह्यो छे, ते आ प्रमाणे-मन-योग, वचनयोग अने काययोग.

१४. [प्र०] हे भगवन् ! औदारिक शरीरने वाधतो जीव केटली क्रियावाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! * औदारिक शरीरने वाधतो जीव कोइवार त्रण क्रियावाळो, कोइवार चारक्रियावाळो अने कोइवार पाच क्रियावाळो होय. ए रीते पृथिवीकायिक संवन्धे कहेवुं. तथा ए प्रमाणे दंडकना क्रमथी यावत्-मनुष्य सुधी जाणवुं.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! औदारिक शरीरने वाधता अनेक जीवोने केटली क्रियाओ लागे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने कदाचित् त्रण क्रियाओ, कदाचित् चार क्रियाओ अने कदाचित् पाच क्रियाओ लागे. ए प्रमाणे यावत् दंडकना क्रमथी पृथिवीकायिको सुधी

वृक्षना कन्द चला-
वनारने क्रिया-

कन्दने क्रिया-

शरीरो-

इन्द्रियो-

योग

औदारिकादि शरीर-
ने वाधतो जीव केट-
ली क्रिया करे ?

अनेक जीवो केट-
ली क्रिया करे ?

१४ * ज्यारे औदारिक शरीरने वाधतो जीव ज्या सुधी बीजा जीवोने परितापादि न उत्पन्न करे स्वासुधी तेने कायिकी, अधिकरणिकी अने प्रादेपिकी-ए त्रण क्रियाओ लागे, ज्यारे परने परितापादि उत्पन्न करे त्तारे तेने पारितापनिकी सहित चार क्रियाओ लागे, अने अन्य जीवनी हिंसा करे त्तारे तेने प्राणातिपात सहित पाच क्रियाओ लागे.—टीका.

દ્વિયં, एवं जाव—कम्मगत्तरिं; एवं सोइदियं, जाव—फांसिदियं; एवं मणयोगं, वयजोगं, कायजोगं, जस्स जं अत्थि तं भाणि-
यच्चं, एए एगत्त—पुहुत्तेणं छद्धीसं दंडगा ।

૧૬. [પ્ર૦] કતિવિદે ણં મંતે ! માવે પળ્ણત્તે ? [ઉ૦] ગોયમા ! છદ્ધિદે માવે પન્નત્તે, તં જહા—૧ ઉદ્દહપ, ૨ ઉવસમિપ, જાવ—૬ સન્નિવાદપ ।

૧૭. [પ્ર૦] સે કિં તં ઉદ્દહપ ? [ઉ૦] ઉદ્દહપ માવે હુવિદે પન્નત્તે, તં જહા—ઉદ્દહપ, ઉદયનિપ્પન્ને ય; एवं एएणं अमि-
ल्लावेणं जहा अणुयोगदारे छद्धानं तहेव निरवसेसं भाणियच्चं, जाव—सेत्तं सन्निवादप मावे । 'सेवं मंते ! सेवं मंते' ! त्ति ।

સત્તરસમસપ્ પદમો ઉદ્દેસો સમત્તો ।

જાણવું. તથા એ ક્રમથી યાવત્—મનુષ્યો સુધી જાણવું. એ પ્રમાણે વૈક્રિય શરીર સંવન્ધે પણ એક વચન અને વહુવચનને આશ્રયી વે દટકો કહેવા. પરન્તુ જે જીવોને વૈક્રિય શરીર હોય તે જીવોને આશ્રયી કહેવું. એ પ્રમાણે યાવત્—કાર્મણશરીર સુધી સમજવું. શ્રોત્રેન્દ્રિયથી આરમ્બી યાવત્—સ્પર્શેન્દ્રિય સુધી પણ એજ ક્રમથી જાણવું. વઢી મનયોગ, વચનયોગ અને કાયયોગ વિષે પણ એ પ્રમાણે કહેવું, પરન્તુ જેને જે યોગ હોય તેને તે યોગસવન્ધે કહેવું. એમ વધા મઢીને એકવચન અને વહુવચનને આશ્રયી છઠ્ઠીશ દંટકો કહેવા.

ઐદયિકાદિ માવો.

૧૬. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! માવ કેટલા પ્રકારના કહ્યા છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! માવ છ પ્રકારના કહ્યા છે. તે આ પ્રમાણે—૧ ઐદ-
યિક, ૨ ઔપશમિક, યાવત્—૬ સાનિપાતિક.

૧૭. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! ઐદયિક માવ કેટલા પ્રકારે કહ્યો છે. [ઉ૦] હે ગૌતમ ! ઐદયિક માવ વે પ્રકારે કહ્યો છે, તે આ પ્રમાણે—ઐદયિક અને ઉદયનિપ્પન્ન. એ પ્રમાણે આ અમિલાપ વડે અનુયોગદ્વારમા જેમ ડહા નામની વક્તવ્યતા કહી છે તે વધી અહિં, કહેવી. યાવત્—એ પ્રમાણે સાનિપાતિક માવ સુધી કહેવું. હિ ભગવન્ ! તે એમજ છે, હે ભગવન્ ! તે એમજ છે'.

સત્તરમા શતકમાં પ્રથમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત.

વીઓ ઉદ્દેસો ।

૧. [પ્ર૦] સે ણૂં મંતે ! સંયત—વિરત—પહિહય—પચ્ચક્ષાયપાપકમ્મે ધમ્મે ટિપ, અસ્સંજય—અવિરય—અપહિહયપચ્ચક્ષા-
યપાવકમ્મે અધમ્મે ઠિતે, સંજયાસંજય ધમ્માધમ્મે ઠિતે ? [ઉ૦] હંતા ગોયમા ! સંજય—વિરય૦ જાવ—ધમ્માધમ્મે ઠિપ । [પ્ર૦]
एएस्ति णं मंते ! धम्मंसि वा, अहम्मंसि वा, धम्माधम्मंसि वा चक्खिया केइ आसइत्तए वा, जाव—तुयद्वित्तए वा ? [ઉ૦]
गोयमा ! णो तिण्णहे समट्ठे । [પ્ર૦] સે કેણં સ્વાતિ અટ્ટેણં મંતે ! एवं बुच्चइ—'जाव—धम्माधम्मं टिते' । [ઉ૦] ગોયમા ! સંજય—

द्वितीय उद्देशक.

૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! સંયત, પ્રાણાતિપાતાદિથી વિરતિવાલો અને જેણે પાપકર્મનો પ્રતિઘાત અને પ્રત્યાહ્યાન કર્યું છે એવો જીવ
'ચારિત્ર ધર્મમા સ્થિત હોય, અસંયત, અવિરત અને જેણે પાપકર્મનો પ્રતિઘાત અને પ્રત્યાહ્યાન કર્યું નથી એવો જીવ અધર્મમા સ્થિત હોય,
તથા સયતાસયત જીવ ધર્માધર્મમા સ્થિત હોય ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! હા, સંયત અને વિરત જીવ ધર્મમા સ્થિત હોય, સંયતાસંયત જીવ યાવત્—
ધર્માધર્મમા સ્થિત હોય. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! એ ધર્મમાં, અધર્મમાં અને ધર્માધર્મમા કોઈ જીવ વેસવાને યાવત્—આલોટવાને સમર્થ છે ? [ઉ૦]
હે ગૌતમ ! એ અર્થ સમર્થ નથી [અર્થાત્—તે જીવનો સ્વમાવ હોવાથી ધર્મમા, અધર્મમા કે ધર્માધર્મમા કોઈ જીવ વેસી શકતો નથી.] [પ્ર૦] હે
ભગવન્ ! શા કારણથી આપ એમ કહો છો કે—'યાવત્—ધર્માધર્મમા સ્થિત હોય' ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! સંયત, વિરત અને જેણે પાપકર્મનું
પ્રત્યાહ્યાન કર્યું છે એવો જીવ ધર્મમાં સ્થિત હોય એટલે ધર્મનો આશ્રય કરી—સ્વીકાર કરીને વિહરે. એ પ્રમાણે અસંયત, અવિરત અને જેણે

૧૬ * પાચ શરીર, પાંચ ઇન્દ્રિય અને ત્રણ યોગના એકત્વ અને વહુત્વને આશ્રયી ૨૬ દટકો થાય છે

૧૭ † ઐદયિક માવના ઐદયિક અને ઉદયનિપ્પન્ન—એ વે મેદ છે. આઠ કર્મપ્રકૃતિઓનો ઉદય તે ઐદયિક. ઉદયનિપ્પન્નના વે પ્રકાર છે જીવો-
દયનિપ્પન્ન અને અજીવોદયનિપ્પન્ન. કર્મના ઉદયથી જીવમા નિપ્પન્ન થયેલા નારક, તિર્યક ઇલાદિ પર્યાયો જીવોદયનિપ્પન્ન કહેવાય છે. કર્મના ઉદયથી
અજીવને નિષે થયેલા પર્યાયો, જેમકે ઔદારિકાદિશરીર તથા ઔદારિકાદિ શરીરને વિષે રહેલા વર્ણાદિ તે ઔદારિકશરીરનામ કર્મના ઉદયથી પુદ્ગલ્લઘ્વરુપ
અજીવને નિષે નિપ્પન્ન હોવાથી અજીવોદયનિપ્પન્ન કહેવાય છે જુઓ—અનુયોગ૦ પ૦ ૨૧૪.

‡ અનુયોગદ્વાર સૂત્રમા એક નામથી માઠી છ નામ ઢગેરે સવધે વચન છે, તેમા છ નામની વક્તવ્યતામા છ માવના સ્વરૂપવળં છે. જુઓ—પ૦
૧૧૩—૧૨૦

૧ † અહિં ધર્મ, અધર્મ અને ધર્માધર્મપદથી અનુરને ચારિત્ર ધર્મ, અવિરતિ અને ટેશનિરતિ વિવક્ષિત છે.

विरय० जाव-पाचकम्मे धम्मे टिए, धम्मं चेव उवसंपज्जित्ता णं विहरति; असंजय० जाव-पाचकम्मे अधम्मे टित्ते, अधम्मं चेव उवसंपज्जित्ता णं विहरति; संजयासंजए धम्माधम्मे टिए, धम्माधम्मं उवसंपज्जित्ता णं विहरति, से तेणट्टेणं जाव-टिए ।

२. [प्र०] जीवा णं भंते! किं धम्मे टिया, अधम्मे टिया, धम्माधम्मे टिया ? [उ०] गोयमा! जीवा धम्मे वि टिया, अधम्मे वि टिया, धम्माधम्मे वि टिया ।

३. [प्र०] नेरतिआणं पुच्छा । [उ०] गोयमा! नेरइया नो धम्मे टिता, अधम्मे टिता, णो धम्माधम्मे टिता । एवं जाव-चउरिंदियाणं ।

४. [प्र०] पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । [उ०] गोयमा! पंचिदियतिरिक्खजोणिया नो धम्मे टिया, अधम्मे टिया, धम्माधम्मे वि टिया । मणुस्सा जहा जीवा । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरतिया ।

५. [प्र०] अणउत्थिया णं भंते! एवं आइक्खंति, जाव-परुवेत्ति-एवं खलु समणा पंडिया, समणोवासया वालपंडिया, जरुस णं एगपाणाए वि दंडे अणिक्खत्ते से णं 'एगंतवाले' त्ति वत्तघं सिया, से कहमेयं भंते! एवं ? [उ०] गोयमा! जण्णं ते अणउत्थिया एवं आइक्खंति, जाव-वत्तघं सिया, जे ते एवं आहंसु मिच्छं ते एवं आहंसु । अहं पुण गोयमा! एवं आइक्खामि, जाव-परुवेमि-एवं खलु समणा पंडिया, समणोवासया वालपंडिया, जरुस णं एगपाणाए वि दंडे निन्थित्ते से णं नो 'एगंतवाले' त्ति वत्तघं सिया ।

६. [प्र०] जीवा णं भंते! किं वाला, पंडिया, वालपंडिया ? [उ०] गोयमा! वाला वि, पंडिया वि, वालपंडिया वि ।

७. [प्र०] नेरइयाणं पुच्छा । [उ०] गोयमा! नेरतिया वाला, नो पंडिया, नो वालपंडिया । एवं जाव-चउरिंदियाणं ।

पापकर्मसु प्रत्याख्यान कर्तुं नथी एवो जीव अधर्ममां स्थित होय-एटले अधर्मनो आश्रय करी विहरे, तथा संयतासंयत जीव धर्माधर्ममां स्थित होय-एटले जीव धर्माधर्मनो-देशविरतिनो आश्रय करी विहरे. ते माटे हे गौतम! यावत्-'स्थित होय'.

२. [प्र०] हे भगवन्! शुं जीवो धर्ममां स्थित होय, अधर्ममां स्थित होय के धर्माधर्ममां स्थित होय ? [उ०] हे गौतम! जीवो धर्ममां पण स्थित होय, अधर्ममां पण स्थित होय अने धर्माधर्ममां पण स्थित होय.

३. [प्र०] हे भगवन्! ए प्रमाणे नैरयिको संवन्धे पृच्छा करवी. [उ०] हे गौतम! नैरयिको धर्ममां स्थित न होय, तेम धर्माधर्ममां स्थित न होय, पण अधर्ममां स्थित होय. ए प्रमाणे यावत्-चउरिन्द्रिय जीवो सुधी जाणतुं.

४. [प्र०] पंचेन्द्रिय तिर्यंच जीवो संवन्धे पृच्छा. [उ०] हे गौतम! पंचेन्द्रिय तिर्यंच जीवो धर्ममां स्थित नथी, पण तेओ अधर्ममां अने धर्माधर्ममां स्थित छे. मनुष्योने विपे सामान्य जीवोनी पेटे वक्तव्यता कहेवी. वानव्यंतरो, ज्योतिषिको अने वेमानिको विपेनी वक्तव्यता नैरयिकोनी पेटे कहेवी.

५. [प्र०] हे भगवन्! अन्यतीर्थिको एम कहे छे, यावत् एम प्ररूपे छे के 'श्रमणो पंडित कहेवाय छे अने श्रमणोपासको वाल-पंडित कहेवाय छे, पण *जे जीवने एक पण जीवना वधनी अविरति छे ते जीव 'एकांत वाल' कहेवाय, तो हे भगवन्! आ (अन्यतीर्थिकोसुं कथन) सत्य केम होय ? [उ०] हे गौतम! जे अन्यतीर्थिको आ प्रमाणे कहे छे के यावत्-'एकान्त वाल' कहेवाय, परन्तु जे-ओए एम कहुं छे तेओए मिथ्या-असत्य कहुं छे, हे गौतम! हुं तो आ प्रमाणे कहुं छुं-यावत् प्ररूपुं छुं के-ए प्रमाणे खरेखर श्रमणो पंडित छे अने श्रमणोपासको वालपंडित छे, पण जे जीवने एक पण प्राणिना वधनी विरति करी छे ते जीव 'एकांतवाल' न कहेवाय. [परन्तु 'वालपंडित' कहेवाय.]

६. [प्र०] हे भगवन्! शुं जीवो वाल-विरतिरहित छे, पंडित-सर्वविरतिवाळा छे के वालपंडित-देशविरति युक्त छे ? [उ०] हे गौतम! जीवो वाल पण छे, पंडित पण छे अने वालपंडित पण छे.

७. [प्र०] नैरयिको संवन्धे ए प्रमाणे प्रश्न करवो. [उ०] हे गौतम! नैरयिको वाल छे, पण पंडित नथी, तेम वालपंडित पण नथी. ए प्रमाणे दंडकना क्रमयी यावत्-चउरिंदियो सुधी जाणतुं.

उपवना क्रमयी
नैरयिकारि संवन्धे
पूर्वोक्त प्रश्न.

अन्यतीर्थिको.
वाल्पंडित अने
ताउ सखने वेओसुं
मन्यन्त.

पंडित, वालपंडित
अने वाल.

नैरयिकारि उर
रगवाणी प्रश्न.

* अन्यतीर्थिको 'श्रमणो पंडित-सर्वविरतिवाळा-छे अने श्रमणोपासको वालपंडित-देशविरति युक्त छे'-ए विनयना वे पणने अउताइ नरी तेमाना द्वितीय पणने वृथित नरे छे-नर्व जीवोना वधनी विरति छे जेने एक पण जीवना वधनी अविरति छे एम श्रमणोपासको पण 'एकान्तवाल' कहेवा जोए तेसु आ मन्व्य वगोम्य छे तेम भगवान् नखागीर जणने छे-जेने एक पण जीवना वधनी विरति छे तेने पण एतन्तवाल न देवना, ओवालपंडित कहेवाय, कारण के तेनामा देशविरति छे, अने तेनामां देशविरति होय तेने 'एकान्तवाल' न करेवाय.

८. [प्र०] पंचिन्द्रियतिरिक्ख० पुच्छा । [उ०] गोयमा । पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिया वाला, नो पंडिया, वालपंडिया वि । मणुस्सा जहा जीवा । वाणमंतर-जोइस्सिय-वेमाणिया जहा नेरतिया ।

९. [प्र०] अन्नउत्थिया णं भंते । एवं आइक्खंति, जाव-परुवेति-‘एवं खलु पाणातिवाप, मुसावाप, जाव-मिच्छादंस-णसल्ले वट्टमाणस्स अन्ने जीवो, अन्ने जीवाया, पाणाइवायचेरमणे, जाव-परिग्गहचेरमणे, कोहविवेगे, जाव-मिच्छादंसणसल्लवि-वेगे वट्टमाणस्स अन्ने जीवे, अन्ने जीवाया; उप्पत्तियाए, जाव-परिणामियाए वट्टमाणस्स अन्ने जीवे, अन्ने जीवाया; उग्गहे, ईहा-अवाप, धारणाए य वट्टमाणस्स जाव-जीवाया, उट्टाणे, जाव-परक्कमे वट्टमाणस्स जाव-जीवाया; नेरइयत्ते, तिरिक्ख-मणुस्स-देवत्ते वट्टमाणस्स जाव-जीवाया; नाणावरणिजे, जाव-अंतराए वट्टमाणस्स जाव-जीवाया, एवं कण्हेस्साए, जाव-मुक्क-लेस्साए; सम्मदिट्ठीए ३, एवं चन्नुदंसणे ४, आभिणिचोहियणाणे ५, मतिअज्ञाणे ३, आहारसज्जाए ४, एवं ओरालियसरीरे ५, एवं मणोजोए ३, सागारोवओगे, अणागारोवओगे वट्टमाणस्स अन्ने जीवे, अन्ने जीवाया’; से कहमेयं भंते एवं ? [उ०] गोयमा । जं णं ते अन्नउत्थिया एवं आइक्खंति, जाव-मिच्छं ते एवं आहंसु । अहं पुण गोयमा । एवं आइक्खामि, जाव-परुवेमि-‘एवं खलु पाणातिवाप, जाव-मिच्छादंसणसल्ले वट्टमाणस्स सच्चेव जीवे, सच्चेव जीवाया; जाव-अणागारोवओगे वट्टमाणस्स जाव-सेच्च जीवाया’ ।

१०. [प्र०] देवे णं भंते । महिद्विप, जाव-महेसक्खे पुट्टामेव रूची भवित्ता पभू अरुवि विउद्वित्ता णं चिट्ठित्तए ? [उ०] णो तिण्ठे समट्ठे । [प्र०] से केणट्ठेणं भंते । एवं बुच्चइ-‘देवे णं जाव-नो पभू अरुवि विउद्वित्ता णं चिट्ठित्तए ? [उ०] गोयमा । अहमेयं जाणामि, अहमेयं पासामि, अहमेयं वुज्झामि, अहमेयं अमिसमन्नागच्छामि, मए एयं नायं, मए एयं दिट्ठं, मम एयं बुद्धं, मए एयं अमिसमन्नागयं-‘जं णं तहागयस्स जीवस्स सरुविस्स, सकम्मस्स, सरागस्स, सवेदगस्स, समोहस्सं, सल्ले-

८. [प्र०] पंचिन्द्रिय तिर्यंचो संबंधे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! पंचिन्द्रिय तिर्यंचो बाल अने बालपंडित होय छे, पण पंडित होता नथी । मनुष्यो संबंधे सामान्य जीवोनी वक्तव्यता कहेवी. तथा वानव्यंतर, ज्योतिपिक अने वैमानिक संबंधे नैरयिकनी वक्तव्यता (सू० ७) कहेवी.

९. [प्र०] हे भगवन् ! अन्यतीर्थिको आ प्रमाणे कहे छे, यावत् प्ररूपे छे के प्राणातिपातमा, मृयावाद्दमा यावत्-मिध्यादर्शनश-ल्यमा वर्तता प्राणीनो जीव अन्य छे अने जीवात्मा तेथी अन्य छे; प्राणातिपातविरमणमां, यावत्-परिग्रहविरमणमां, क्रोधना त्यागमा-यावत्-मिध्यादर्शनशल्यना त्यागमा वर्तता प्राणीनो जीव अन्य छे अने तेथी तेनो जीवात्मा अन्य छे. औत्पत्तिकी बुद्धिमां, यावत्-परिणा-मिकी बुद्धिमां वर्तमान प्राणीनो जीव अन्य छे अने तेथी जीवात्मा अन्य छे; अवग्रह, ईहा, अवाप अने धारणाया वर्तमान प्राणीनो जीव अन्य छे अने जीवात्मा तेथी अन्य छे; उत्थानमां, यावत्-पुरुषकार-पराक्रममा वर्तमान प्राणीनो जीव अन्य छे अने जीवात्मा तेथी अन्य छे, नैरयिकपणामा, पंचिन्द्रियतिर्यंचपणामा, मनुष्यपणामा तथा देवपणामा वर्तमान जीव अन्य छे अने जीवात्मा अन्य छे; ज्ञानावरणीयमा यावत्-अंतरायमा वर्तमान प्राणीनो जीव अन्य छे अने तेथी जीवात्मा अन्य छे; कृण्णलेइयामां, यावत्-शुक्कलेइयामा, तथा सम्यग्दृष्टि मिध्यादृष्टि अने सम्यग्मिध्यादृष्टिमा, १ चक्षुर्दर्शन, २ अचक्षुर्दर्शन, ३ अवधिदर्शन अने ४ केवल दर्शनमा, ५ आभिनिचोविकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान अने केवलज्ञानमां, मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, अने विभंगज्ञानमां, आहारसज्जा, भयसंज्ञा, निद्रासंज्ञा अने मैथुनसज्जामां, अने एज प्रमाणे औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर अने कार्मण शरीरमा, तथा मनोयोग, वचनयोग, अने काययोगमा, साकारोपयोग अने अनाकारोपयोगमा वर्तमान प्राणीनो जीव अन्य छे अने तेनो जीवात्मा अन्य छे. तो हे भगवन् ! ते केम सल्य होय ? [उ०] हे गौतम ! जे अन्यतीर्थिको ए प्रमाणे कहे छे, यावत्-तेओ मिध्या कहे छे. हे गौतम ! हुं तो आ प्रमाणे कहुं छुं, यावत् प्ररूपुं छुं-‘प्राणातिपात यावत्-मिध्यादर्शनमां वर्तमान प्राणीनो तेज जीव छे अने तेज जीवात्मा छे, यावत्-अनाकारोपयोगमां वर्तमान प्राणीनो तेज जीव छे अने तेज जीवात्मा छे.’”

१०. [प्र०] हे भगवन् ! मोटी ऋद्धिवाळो, यावत्-मोटा सुखवाळो देव पहेलां रूपी होईने-मूर्त स्वरूप धारण करी पछी अरूपी रूप (अमूर्त रूप) विकुर्वीने रहेवा समर्थ छे ? [उ०] ते अर्थ समर्थ नथी. [प्र०] हे भगवन् ! आप ए प्रमाणे या हेतुयी कहो छो के ‘मोटी ऋद्धिवाळो देव यावत्-अरूपी रूप विकुर्वीने रहेवा समर्थ नथी’ ? [उ०] गौतम ! हुं ए जाणुं छुं, हुं ए जोउं छुं, हुं ए निश्चित जाणुं छुं, हुं ए सर्वथा जाणुं छुं, में ए जाणुं छे, में ए जोयुं छे, में निश्चित जाणुं छे अने में ए सर्वथा जाणुं छे के, तेवा प्रकारना रूपवाळा, कर्मवाळा, रागवाळा, वेदवाळा, मोहवाळा, लेइयावाळा, शरीरवाळा, अने ते शरीरथी नहि मूकायेला-जूदा नहीं ययेला जीवने

९ * अहिं ‘सर्वत्र प्राणातिपातादि क्रियाना प्रवर्तमान जीव एटले प्रकृति अने जीवात्मा-पुरुष परस्पर भिन्न छे’-आवो साख्यदर्शननो मत छे साख्यो प्रहनिउं कर्तृत्व अने पुरुषने अकर्ता अने भोक्ता माने छे उपनिषदो पण जीव-अन्त करणनिशिष्ट चैतन्य-उं कर्तृत्व अने जीवात्मा-ब्रह्मउं अकर्तृत्व माने ते तेओने मते पण जीव अने ब्रह्मनो शीपाविक्र मेठ छे, माटे ते बने दर्शनो अन्यतीर्थिकतरीके ग्रहण करेला होय तेम संबधे छे.

‘जीव अने जीवात्मा भिन्न छे’ पवो अन्यतीर्थिकनो मत

सशरीरी देवमा अरूपी रूप विकुर्वीना सामर्थ्यनो ज-माव अने तेनो हेतु.

सस्स, ससरीरस्स, ताओ सरीराओ अंविप्पमुक्कस्स एवं पच्चायति, तं जहा-कालत्ते वा, जाव-सुक्किलत्ते वा, सुब्भिगंधत्ते वा, दुब्भिगंधत्ते वा, तित्ते वा, जाव-महुरत्ते वा, कक्खडत्ते वा, जाव-लुक्खत्ते वा से तेणट्ठेणं गोयमा ! जाव-चिद्धित्तए ।

११ [प्र०] सञ्चेव णं भंते ! से जीवे पुद्गामेव अरूवी भविता पभू रूविं विउच्चिता णं चिद्धित्तए ? [उ०] णो तिणट्ठे समट्ठे, जाव-चिद्धित्तए । गोयमा ! अहं एयं जाणामि, जाव-जं णं तहागयस्स जीवस्स अरूविस्स, अकम्मस्स, अरागस्स, अवेदस्स, अमोहस्स, अलेसस्स, असरीरस्स, ताओ सरीराओ विप्पमुक्कस्स नो एवं पच्चायति, तं जहा-कालत्ते वा, जाव-लुक्खत्ते वा से तेणट्ठेणं जाव-चिद्धित्तए वा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! ति ।

सत्तरसमे सए वीओ उद्देशो समत्तो ।

विषे एम जणाय छे, ते आ प्रमाणे-ते शरीरयुक्त जीवमां-काळापणुं, यावत्-धोळापणुं, सुगंधिपणुं के दुर्गंधिपणुं, कडवापणुं के यावत्-मधुरपणुं, तथा कर्कशपणुं के यावत्-रूक्षपणुं होय छे; माटे हे गौतम ! ते हेतुयी ते देव पूर्व प्रमाणे यावत्-अरूपी रूप विकुर्ववा समर्थ नथी.

११. [प्र०] हे भगवन् ! तेज देवरूप जीव पहेलां अरूपी थईने पळी रूपी आकार विकुर्ववा समर्थ छे ? [उ०] ए अर्थ समर्थ नथी-इत्यादि यावत्-विकुर्ववा समर्थ नथी' स्वांशुधी जाणवुं. कारण के हे गौतम ! हुं ए जाणुं छुं के, यावत्-रूप विनाना, कर्म विनाना, राग विनाना, वेद विनाना, मोह विनाना, लेश्या विनाना, शरीर विनाना अने शरीरथी जूदा थयेला तेवा प्रकारना जीवने विषे एम जणातुं नथी के, ते जीवमां काळापणुं यावत्-लुखापणुं छे. माटे हे गौतम ! ते हेतुयी यावत्-ते देव पूर्व प्रमाणे विकुर्ववा समर्थ नथी. "हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे."

शरीर रहित जीव-
मा रूपी आकार वि-
कुर्ववाना सामर्थ्यनो
अभाव अने तेउ वा-
रण.

सत्तरमा शतकमां वीओ उद्देशक समाप्त.

तईओ उद्देशो.

१. [प्र०] सेलेसिं पडिवन्नाए णं भंते ! अणगारे सया समियं एयति, वेयति, जाव-तं तं भावं परिणमति ? [उ०] णो तिणट्ठे समट्ठे, णणत्थ एगेणं परप्पयोगेणं ।

२. [प्र०] कतिविहा णं भंते ! एयणा पणत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा पणत्ता, तं जहा-१ दधेयणा, २ खित्तेयणा, ३ कालेयणा, ४ भावेयणा, ५ भवेयणा ।

३. [प्र०] दधेयणा णं भंते ! कतिविहा पत्तत्ता ? [उ०] गोयमा ! चउच्चिहा पत्तत्ता । तं जहा-१ नेरइयदधेयणा, २ त्तिरिक्खं, ३ मणुस्सं, ४ देवदधेयणा ।

तृतीय उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! शैलेशी अवस्थाने प्राप्त थयेल अनगारं सुं सदा निरन्तर कंप्पे, विजोप कंप्पे, अने यावत्-ते ते भावे परिणमे ? [उ०] ए अर्थ समर्थ नथी, मात्र एक परप्रयोग विना (अर्थात्-शैलेशी अवस्थाना आत्मा अत्यन्त स्थिरताने प्राप्त थयेल होवाथी परप्रयोग सिवाय न कंप्पे).

शैलेशी प्राप्त अन-
गार पञ्जादि क्रिया
शुभने ?

२. [प्र०] हे भगवन् ! एजना (कंप्पन) केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! एजना पाच प्रकारनी छे, ते आ प्रमाणे-१ द्रव्यएजना, २ क्षेत्रएजना, ३ कालएजना, ४ भावएजना अने ५ भवएजना.

एजना प्रकार-

३. [प्र०] हे भगवन् ! द्रव्यएजना केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! ते चार प्रकारनी कही छे, ते आ प्रमाणे-१ नैरयिकद्रव्यएजना, २ तिर्यचयोनिकद्रव्यएजना, ३ मनुष्यद्रव्यएजना अने ४ देवद्रव्यएजना.

द्रव्यएजना
प्रकार.

२ * एजना-योगद्वारा आत्मप्रदेशो अथवा पुद्गलद्रव्योत्तुं चलन के कंप्पन तेना द्रव्यादि पाच प्रकार छे मनुष्यादि जीव द्रव्योत्तु के मनुष्यादि जीव सहित पुद्गल द्रव्योत्तु कंप्पन ते द्रव्येजना, मनुष्यादिक्षेत्रने विषे वर्तमान जीवोत्तुं कंप्पन ते क्षेत्रेजना, मनुष्यादि बाले वर्तमान जीवोत्तुं कंप्पन ते कालेजना, औदयिकादि भावमा वर्तता जीवोत्तु के पुद्गलोत्तुं कंप्पन ते भावेजना अने मनुष्यादि भवमा वर्तता जीवोत्तु एजना-कंप्पन ते भवेजना.

४. [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चद्-‘नेरइयदधेयणा’ २ ? [उ०] गोयमा ! जं णं नेरइया नेरइयदधे वट्टिसु वा, वट्टंति वा, वट्टिस्संति वा ते णं तत्थ नेरइया नेरतियदधे वट्टमाणा नेरइयदधेयणं एयंसु वा, एयंति वा, एरस्संति वा, से तेणट्टेणं जाव-दधेयणा ।

५. [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति-‘तिरिक्खजोणियदधेयणा’ २ ? [उ०] एवं चेव, नवरं-तिरिक्खजोणियदधे भाणियद्धं, सेसं तं चेव, एवं जाव-देवदधेयणा ।

६. [प्र०] खेत्तेयणा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? [उ०] गोयमा ! चउद्धिहा पण्णत्ता, तं जहा-१ नेरइयखेत्तेयणा, जाव-४ देवखेत्तेयणा ।

७. [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चद्-‘नेरइयखेत्तेयणा’ २ ? [उ०] एवं चेव, नवरं ‘नेरइयखेत्तेयणा’ भाणियद्धा; एवं जाव-देवखेत्तेयणा; एवं कालेयणा वि, एवं सवेयणा वि, एवं भावेयणा वि, एवं जाव-देवभावेयणा ।

८. [प्र०] कतिविहा णं भंते ! चलणा पण्णत्ता ? [उ०] गोयमा ! तिविहा चलणा पन्नत्ता, तं जहा-सरीरचलणा, इंदियचलणा, जोगचलणा ।

९. [प्र०] सरीरचलणा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा-१ ओरालियसरीरचलणा, जाव-५ कम्मगसरीरचलणा ।

१०. [प्र०] इंदियचलणा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा-१ सोइंदियचलणा, जाव-५ फासिइंदियचलणा ।

११. [प्र०] जोगचलणा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? [उ०] गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-मणजोगचलणा, वइजोगचलणा, कायजोगचलणा ।

१२. [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चद्-‘ओरालियसरीरचलणा २ ? [उ०] गोयमा ! जं णं जीवा ओरालियसरीरे

४. [प्र०] हे भगवन् ! शा कारणयी ‘नैरयिकद्रव्यएजना’ २ कहेवामां आवे छे ? [उ०] हे गौतम ! जे माटे ‘नैरयिको नैरयिकद्रव्यमां वर्तता हता, वर्ते छे अने वर्तसे, ते नैरयिकोए नैरयिकद्रव्यमां वर्तता नैरयिकद्रव्यनी एजना करी हती, करे छे अने करसे, ते माटे यावत्-नैरयिकद्रव्यएजना कहेवामां आवे छे.

५. [प्र०] हे भगवन् ! तिर्यचयोनिकद्रव्यएजना २ कहेवाय छे तेनुं शुं कारण ? [उ०] पूर्व प्रमाणेज जाणवुं. विशेष ए के नैरयिकद्रव्यने बदले तिर्यचयोनिकद्रव्य कहेवुं. बाकी वधुं तेज प्रमाणे जाणवुं. तथा ए प्रमाणे मनुष्यद्रव्यएजना अने देवद्रव्यएजना पण-जाणवी.

६. [प्र०] हे भगवन् ! क्षेत्रएजना केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! ते चार प्रकारनी कही छे. ते आ प्रमाणे-१ नैरयिकक्षेत्रएजना, यावत्-४ देवक्षेत्रएजना.

७. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिकक्षेत्रएजना २ कहेवातुं शुं कारण ? [उ०] पूर्व प्रमाणे जाणवुं. विशेष ए के नैरयिकद्रव्यएजनाने बदले नैरयिकक्षेत्रएजना कहेवी. अने एम यावत्-देव क्षेत्रएजना सुधी जाणवुं. तथा कालएजना, भवएजना अने भावएजना विपे पण ए प्रमाणे जाणवुं. यावत्-देवभावएजना सुधी समजवुं.

८. [प्र०] हे भगवन् ! चलना केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! चलना त्रण प्रकारनी कही छे. ते आ प्रमाणे-शरीरचलना, इन्द्रियचलना अने योगचलना.

९. [प्र०] हे भगवन् ! शरीरचलना केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! शरीरचलना पांच प्रकारनी कही छे, ते आ प्रमाणे-१ औदारिकशरीरचलना, यावत्-५ कामीणशरीरचलना.

१०. [प्र०] हे भगवन् ! इन्द्रियचलना केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! पांच प्रकारनी कही छे, ते आ प्रमाणे-१ श्रोत्रेन्द्रियचलना, यावत्-५ स्पर्शेन्द्रियचलना.

११. [प्र०] हे भगवन् ! योगचलना केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! योगचलना त्रण प्रकारनी कही छे, ते आ प्रमाणे-मनोयोगचलना, वचनयोगचलना अने काययोगचलना.

१२. [प्र०] हे भगवन् ! शा हेतुधी औदारिकशरीरचलना २ कहेवाय छे ? [उ०] हे गौतम ! जे माटे औदारिक शरीरमां वर्तता

* नैरयिक जीवो नैरयिक शरीरमा रही ते शरीरद्वारा जे एजना करे ते नैरयिकद्रव्यजना कहेवाय छे. ए प्रमाणे तिर्यचादि द्रव्यजना जाणवी.

नैरयिकद्रव्यएजना कहेवातु कारण

तिर्यचादिद्रव्यएजना कहेवातु कारण

क्षेत्रएजनाना प्रकार

नैरयिकदि क्षेत्रएजना कहेवातु कारण

चलनाना प्रकार.

शरीरचलनाना प्रकार.

इन्द्रियचलनाना प्रकार.

योगचलनाना प्रकार

औदारिकशरीरचलना कहेवातु कारण.

वद्वृत्तमाणा ओरालियसरीरपायोग्गाइं द्वाइं ओरालियसरीरत्ताए परिणामेमाणा ओरालियसरीरचलणं चलिंखु वा, चलंति वा, चलिस्संति वा से तेणट्टेणं जाव—‘ओरालियसरीरचलणा’ २ ।

१३. [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ ‘वेउच्चियसरीरचलणा’ २ ? [उ०] एवं चैव, नवरं—वेउच्चियसरीरे वद्वृत्तमाणा, एवं जाव—कम्मगसरीरचलणा ।

१४. [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—‘सोइंदियचलणा’ २ ? [उ०] गोयमा ! जं णं जीवा सोइंदिये वद्वृत्तमाणा सोइंदियपायोग्गाइं द्वाइं सोइंदियत्ताए परिणामेमाणा सोइंदियचलणं चलिंखु वा, चलंति वा, चलिस्संति वा, से तेणट्टेणं जाव—सोइंदियचलणा २ । एवं जाव—फासिंदियचलणा ।

१५. [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—‘मणजोगचलणा’ २ ? [उ०] गोयमा ! जं णं जीवा मणजोए वद्वृत्तमाणा मणजोगपायोग्गाइं द्वाइं मणजोगत्ताए परिणामेमाणा मणजोगचलणं चलिंखु वा, चलंति वा, चलिस्संति वा से तेणट्टेणं जाव—मणजोगचलणा २ । एवं वइजोगचलणा वि, एवं कायजोगचलणा वि ।

१६. [प्र०] अह भंते ! संवेगे, निघेए, गुरु—साहम्मियसुस्सणया, आलोयणया, निंदणया, गरहणया, खमापणया, सुयसहायता, विउसमणया, भावे अप्पडिवद्धया, विणिवट्टणया, विवित्तसयणासणसेवणया, सोइंदियसंवरं, जाव—फासिंदियसंवरं, जोगपच्चक्खाणे, सरीरपच्चक्खाणे, कसायपच्चक्खाणे, संभोगपच्चक्खाणे, उवहिपच्चक्खाणे, भत्तपच्चक्खाणे, खमा, विरागया; भावसच्चं, जोगसच्चं, करणसच्चं, मणसमन्नाहारणया, वइसमन्नाहरणया, कायसमन्नाहरणया, फोहविवेगे, जाव—मिच्छादंसणसल्लविवेगे, णाणसंपन्नया, दंसणसंपन्नया, चरित्तसंपन्नया, वेदणअहियासणया, मारणंतियअहियासणया—एए णं भंते ! पया किंपज्जवसाणफला पन्नत्ता समणाउसो ? [उ०] गोयमा ! संवेगे, निघेए, जाव—मारणंतियअहियासणया—एए णं सिद्धिपज्जवसाणफला पन्नत्ता समणाउसो ! । ‘सेवं भंते !, सेवं भंते !’ त्ति जाव—विहरइ ।

सत्तरसमे सए तईओ उदेसो समत्तो ।

जीवोए औदारिकशरीरयोग्य द्रव्योने औदारिकशरीरपणे परिणमावता औदारिकशरीरनी चलना करी छे, करे छे अने करशे, ते कारणथी हे गौतम ! औदारिकशरीरचलना २ कहेवामा आवे छे.

१३ [प्र०] हे भगवन् ! शा कारणथी वैक्रियशरीरचलना २ कहेवामा आवे छे ? [उ०] पूर्वं प्रमाणे वधुं जाणवुं. विशेष ए के ‘वैक्रियशरीरने विपे वर्तता’ इत्यादि कहेवुं. [अर्थात्—औदारिकने वदले वधे वैक्रिय कहेवुं.] अने एज प्रमाणे यावत्—कर्मणशरीरचलना सुधी जाणवुं.

वैक्रिय चलना कहेवानु कारण.

१४. [प्र०] हे भगवन् ! शा कारणथी श्रोत्रेन्द्रियचलना २ कहेवामा आवे छे ? [उ०] हे गौतम ! श्रोत्रेन्द्रियने धारण करता जीवोए श्रोत्रेन्द्रिययोग्य द्रव्योने श्रोत्रेन्द्रियपणे परिणमावता श्रोत्रेन्द्रियनी चलना करी छे, करे छे अने करशे, ते कारणथी श्रोत्रेन्द्रियचलना २ कहेवामा आवे छे. ए प्रमाणे यावत्—स्पर्शेन्द्रियचलना सुधी जाणवुं.

श्रोत्रेन्द्रियादिचलना कहेवानु कारण.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! शा कारणथी मनयोगचलना २ कहेवामा आवे छे ? [उ०] हे गौतम ! जे कारणथी मनयोगने धारण करता जीवोए मनयोग्य द्रव्योने मनयोगपणे परिणमावता मनयोगनी चलना करी छे, करे छे अने करशे, ते कारणथी मनयोगचलना २ कहेवामा आवे छे. ए प्रमाणे वचनयोगचलना तथा काययोगचलना पण जाणवी.

मनयोग चलना कहेवानु कारण.

१६. [प्र०] हे भगवन् ! सवेग—मोक्षनो अभिलाप, निवेद—संसारथी विरक्तता, गुरुओनी तथा साधर्मिकोनी सेवा, पापोनी आलोचना—गुरु समक्ष कथन, निंदा—आत्मद्वारा दोषोनी निन्दा, गर्हा—परसमक्ष पोताना दोषो प्रगट करवा, क्षमापना, उपशातता, श्रुतसहायता—श्रुताभ्यास, भावाप्रतिवद्धता—हास्यादि भावोने विपे अप्रतिबंध, पापस्थानोथी निवृत्त थवुं, विविक्तशयनासता—छ्यादिरहित वसति अने आसननो उपयोग, श्रोत्रेन्द्रियसंवर, यावत्—स्पर्शेन्द्रियसवर, योगप्रत्याख्यान, शरीरप्रत्याख्यान, कपायप्रत्याख्यान, संभोगप्रत्याख्यान, उपधिप्रत्याख्यान, भक्तप्रत्याख्यान, क्षमा, विरागता, भावसत्य, योगसत्य, करणसत्य—प्रतिलेखनादि क्रियावुं यथार्थ करवुं, मनःसमन्वाहरण—मननुं सगोपन, वचःसमन्वाहरण—वचनसंगोपन, कायसमन्वाहरण—कायसंगोपन, क्रोधनो त्याग, यावत्—मिव्यादर्शनशक्त्यनो त्याग, ज्ञानसंपन्नता, दर्शनसंपन्नता, चारित्रसंपन्नता, क्षुधादि वेदनामां सहनशीलता अने मारणान्तिक कष्टमा सहनशीलता—ए वधा पदोनुं हे आयुष्मान् श्रमण ! अन्तिम फल थुं कहुं छे ? [उ०] हे गौतम ! सवेग, निवेद, यावत्—मारणातिक कष्टमा सहनशीलता—ए वधा पदोनुं अन्तिम फल मोक्ष कहुं छे. “हे भगवन् ! ते एमज छे. हे भगवन् ! ते एमज छे.”

मवेगादिनु फल.

सत्तरमा शतकमां तृतीय उद्देशक समाप्त.

चउत्थो उद्देशो.

१. [प्र०] तेणं कालेणं, तेणं समपणं रायगिहे नगरे जाव—एवं वयासी—अत्थि णं भंते ! जीवाणं पाणाइयाएणं किरिया कज्जइ ? [उ०] हंता, अत्थि ।

२. [प्र०] सा भंते ! किं पुट्टा कज्जइ, अपुट्टा कज्जइ ? [उ०] गोयमा ! पुट्टा कज्जइ, नो अपुट्टा कज्जइ । एवं जहा पद-मसए छट्टुद्देसए जाव—णो 'अणाणुपुट्टिकडा' ति वचचं सिया, एवं जाव—वेमाणियाणं, नवरं—जीवाणं परिगिदियाण य निन्नाया-एणं छट्टिसिं, वाघायं पडुच्च सिय तिदिसिं, सिय चउदिसिं, सिय पंचदिसिं; सेसाणं नियमं छट्टिसिं ।

३. [प्र०] अत्थि णं भंते ! जीवाणं मुसावाएणं किरिया कज्जइ ? [उ०] हंता, अत्थि ।

४. [प्र०] सा भंते ! किं पुट्टा कज्जइ, अपुट्टा कज्जति ? [उ०] जहा पाणाइयाएणं दंडओ एवं मुसावाएणं चि; एवं म-दिन्नादाएणं चि, मेहुणेणं चि, परिग्गहेणं चि । एवं एए पंच दंडगा ।

५. [प्र०] जं समयं णं भंते ! जीवाणं पाणाइयाएणं किरिया कज्जइ सा भंते ! किं पुट्टा कज्जइ, अपुट्टा कज्जइ ? [उ०] एवं तहेव जाव—वचचं सिया, जाव—वेमाणियाणं, एवं जाव—परिग्गहेणं, एवं एते चि पंच दंडगा ।

६. [प्र०] जं देसेणं भंते ! जीवाणं पाणाइयाएणं किरिया कज्जइ ? [उ०] एवं चैव, जाव—परिग्गहेणं, एते चि पंच दंडगा ।

७. [प्र०] जं पएसं णं भंते ! जीवाणं पाणातिवाएणं किरिया कज्जइ सा भंते किं पुट्टा कज्जइ ?—एवं तहेव दंडओ । [उ०] एवं जाव—परिग्गहेणं । एवं एए वीसं दंडगा ।

चतुर्थ उद्देशक.

१. [प्र०] ते काले ते समये राजगृह नगरमां [भगवान् गीतम] यावत्—आ प्रमाणे चोल्या के, हे भगवन् ! जीवो वडे प्राणातिपात-द्वारा क्रिया—कर्म कराय छे ? [उ०] हा, कराय छे.

२. [प्र०] हे भगवन् ! ते क्रिया (कर्म) स्पृष्ट—आत्माए स्पृष्टोली कराय के अस्पृष्ट—आत्माना स्पर्श विना कराय ? [उ०] हे गीतम ! ते स्पृष्ट कराय, पण अस्पृष्ट न कराय—इत्यादि वधुं प्रथम शतकना *छट्टा उद्देशकमां कदा प्रमाणे कहेहुं; यावत्—ते क्रिया (कर्म) अनुक्रमे कराय छे, पण अनुक्रम विना कराती नथी. ए प्रमाणे दंडकना क्रमयी यावत्—वैमानिको सुधी जाणहुं. परन्तु विग्रेय ए के जीवो अने एकेन्द्रियो व्याघात—प्रतिबंध सिवाय छ ए दिशामांथी आवेला कर्म करे छे, अने जो व्याघात होय तो कदाच त्रण दिशामांथी, कदाच चार दिशामांथी अने कदाच पांच दिशामांथी, आवेलां कर्म करे छे. [जे एकेन्द्रियो लोकान्ते रहेला छे, तेने उपरनी अने आसपासनी दिशाथी कर्म आवधानो संभव नथी, तेथी तेओ कचित् त्रण दिशामांथी कदाचित् चार दिशामांथी, अने कदाचित् पांच दिशामांथी आवेलां कर्म करे छे. अने वाकीना जीवो लोकना मय्य भागमां होवाथी व्याघातना अभावे छ ए दिशामांथी आवेलां कर्म करे छे. ते सिवाय वाकीना जीवो तो अवश्य छ ए दिशामांथी आवेलां कर्म करे छे.]

३. [प्र०] हे भगवन् ! जीवो मृपावादद्वारा कर्म करे छे ? [उ०] हा, करे छे.

४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं ते क्रिया—कर्म स्पृष्ट कराय—इत्यादि प्रश्न. [उ०] जेम प्राणातिपात संबन्धे दंडक कक्षो छे तेम मृपावाद संबन्धे पण दंडक कहेवो. एम अदत्तादान, मैथुन अने परिग्रहसंबन्धे पाचे दंडको कहेवा.

५. [प्र०] हे भगवन् ! जे समये जीवो प्राणातिपातद्वारा (कर्म) करे छे ते समये हे भगवन् ! ते स्पृष्ट कर्म करे छे के अस्पृष्ट कर्म करे छे ? [उ०] पूर्व प्रमाणे जाणहुं. यावत्—ते 'अनानुपूर्वाकृत नथी' त्यांसुधी कहेहुं. ए प्रमाणे—यावत्—दंडकना क्रमयी वैमानिको सुधी यावत्—परिग्रह संबन्धे जाणहुं. वधा मळीने पूर्ववत् पाचे दंडको मृपावाद संबन्धे कहेवा.

६. [प्र०] हे भगवन् ! जे क्षेत्रमा जीवो प्राणातिपात द्वारा कर्म करे छे ते क्षेत्रमां स्पृष्ट के अस्पृष्ट कर्म करे छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्व प्रमाणे उत्तर कहेवो. यावत्—परिग्रह सुधी जाणहुं. एम पाचे दंडको कहेवा.

७. [प्र०] हे भगवन् ! जे प्रदेशमा जीवो प्राणातिपात द्वारा कर्म करे छे ते प्रदेशमा शुं स्पृष्ट कर्म करे छे के अस्पृष्ट कर्म करे छे—इत्यादि पूर्व प्रमाणे दंडक कहेवो. [उ०] ए प्रमाणे यावत्—परिग्रह सुधी जाणहुं. एम वधा मळीने वीश दंडको कहेवा.

२ * भग० खं० १ श० १ उ० ६ पृ० १६५-१६६.

७ † प्राणातिपातयी परिग्रह सुधीना सामान्य पाच दट्टो, अने ए प्रमाणे समय, देश अने प्रदेश आश्रयी पण पाच पाच दंडको मळी वीश दट्टो जाणवा.

प्राणातिपात नगरे द्वारा कर्मा क्रिया.

स्पृष्ट के अस्पृष्ट कर्म कराय ?

मृपावाद द्वारा कर्मा क्रिया.

क्षेत्रमा आश्रयी कर्म.

प्रदेशमा आश्रयी क्रिया.

૮. [પ્ર૦] જીવાણં મંતે ! કિં અત્તકડે દુક્ષ્વે, પરકડે દુક્ષ્વે, તદુભયકડે દુક્ષ્વે ? [૩૦] ગોયમા ! અત્તકડે દુક્ષ્વે, નો પરકડે દુક્ષ્વે, નો તદુભયકડે દુક્ષ્વે; एवं जाव-वैमाणियाणं ।

૯. [પ્ર૦] જીવા ણં મંતે ! કિં અત્તકડં દુક્ષં વેદેતિ, પરકડં દુક્ષં વેદેતિ, તદુભયકડં દુક્ષં વેદેતિ ? [૩૦] ગોયમા ! અત્તકડં દુક્ષં વેદેતિ, નો પરકડં દુક્ષં વેદેતિ, નો તદુભયકડં દુક્ષં વેદેતિ; एवं जाव-वैमाणियाणं ।

૧૦. [પ્ર૦] જીવાણં મંતે ! અત્તકડા વેયણા, પરકડા વેયણા-પુચ્છા । [૩૦] ગોયમા ! અત્તકડા વેયણા, ણો પરકડા વેયણા, ણો તદુભયકડા વેયણા । एवं जाव-वैमाणियाणं ।

૧૧. [પ્ર૦] જીવા ણં-મંતે ! કિં અત્તકડં વેદણં વેદેતિ, પરકડં વેદણં વેદેતિ, તદુભયકડં વેદણં વેદેતિ ? [૩૦] ગોયમા ! જીવા અત્તકડં વેયણં વેરંતિ, નો પરકડં, નો તદુભયકડં; एवं जाव-वैमाणियाणं । 'सेवं मंते ! सेवं मंते' ! त्ति ।

સત્તરસમે સણ ચઉત્થો ઉદ્દેસો સમત્તો ।

૮. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! જીવોને જે દુઃખ છે તે શું આત્મકૃત છે, પરકૃત છે કે ઉભયકૃત છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! જીવોને જે દુઃખ છે તે આત્મકૃત છે, પરકૃત નથી, તેમ ઉભયકૃત પણ નથી, એ પ્રમાણે દંડકના ક્રમથી યાવત્-વૈમાનિકો સુધી જાણવું.

૯. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! જીવો શું આત્મકૃત દુઃખ વેદે છે, પરકૃત દુઃખ વેદે છે કે તદુભયકૃત દુઃખ વેદે છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! જીવો આત્મકૃત દુઃખ વેદે છે, પરકૃત કે ઉભયકૃત દુઃખ વેદતા નથી. એ પ્રમાણે યાવત્-વૈમાનિકો સુધી જાણવું.

૧૦. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! જીવોને જે વેદના છે તે શું આત્મકૃત છે, પરકૃત છે-ઇત્યાદિ પ્રશ્ન. [૩૦] હે ગૌતમ ! વેદના આત્મકૃત છે, પરકૃત કે ઉભયકૃત નથી. એ પ્રમાણે યાવત્-વૈમાનિકો સુધી જાણવું.

૧૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! જીવો શું આત્મકૃત વેદનાને વેદે છે, પરકૃત વેદનાને વેદે છે કે ઉભયકૃત વેદનાને વેદે છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! જીવો આત્મકૃત વેદનાને વેદે છે, પરકૃત કે ઉભયકૃત વેદનાને વેદતા નથી. એ પ્રમાણે યાવત્-વૈમાનિકો સુધી જાણવું. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

હુ આત્મકૃત, પરકૃત કે ઉભયકૃત છે ?

હુ તદુ વેદના-આત્મકૃત, પરકૃત કે ઉભયકૃત છે ?

વેદના આત્મકૃત, પરકૃત કે ઉભયકૃત છે ?

વેદનાના વેદનાસબન્ધે પ્રશ્ન.

સત્તરમા શતકમાં ચતુર્થ ઉદ્દેશક સમાપ્ત.

પંચમો ઉદ્દેસો.

૧. [પ્ર૦] કાહિં ણં મંતે ! ઈસાણસ્સ દેવિંદસ્સ દેવરત્તો સમા સુહમ્મા પણ્ણત્તા ? [૩૦] ગોયમા ! જંબૂદ્વીવે દ્વીવે મંદરસ્સ પઘ્વયસ્સ ઉત્તરેણં ઈમીસે રયણપ્પમાપ પુહવીપ વહુસમરમણિજ્ઞાઓ ભૂમિભાગાઓ ઉહં ચંદિમ-સૂરિયં જહા ઠાણપદે જાવ-મજ્જે ઈસાણવહેંસપ । સે ણં ઈસાણવહેંસપ મહાવિમાણે અદ્ધતેરસજોયણસયસહસ્સાઈ-एवं जहा दसमसप सकविमाणवचच्चया सा इह वि ईसाणस्स निरवसेसा भाणियद्धा, जाव-आयरक्ख त्ति । ठिती सातिरेगाई दो सागरोपमाई, सेसं तं चेव, जाव-ईसाणे देविंदे देवराया २ । 'सेवं मंते !, सेवं मंते' ! त्ति ।

સત્તરસમે સણ પંચમો ઉદ્દેસો સમત્તો ।

પંચમ ઉદ્દેશક.

૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! દેવેંદ્ર દેવરાજ ઈશાનની સુધર્મા સમા ક્યાં કહી છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! જંબૂદ્વીપ નામે દ્વીપમા મંદરપર્વતની ઉત્તરે આ રત્નપ્રમા પૃથિવીના અત્યન્ત સમ અને રમણીય ભૂમિભાગથી ઉપર ચંદ્ર અને સૂર્યને મૂકીને આગળ ગયા પછી-યાવત્-[પ્રજ્ઞાપના-સૂત્રના વીજા] ઈશાનપદમાં કહ્યા પ્રમાણે મધ્યભાગમા ઈશાનાવતંસક વિમાન આવે છે. તે ઈશાનાવતંસક નામે મહાવિમાન સાડા વાર લાલ યોજન લાંબું અને પહોલું છે-ઇત્યાદિ યાવત્-દશમ શતકમાં શક્તિવિમાનની વક્તવ્યતા કહી છે તે વધી અહીં ઈશાન સંબંધે યાવત્-આત્મરક્ષકની વક્તવ્યતા સુધી કહેવી. તે ઈશાનેન્દ્રશું આયુષ કિંચિત્ અધિક વે સાગરોપમશું છે, વાકી વડું તેજ પ્રમાણે જાણવું. યાવત્-દેવેંદ્ર દેવરાજ ઈશાન છે ૨. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

ઈશાનેન્દ્રની સુધર્મા સમા

સત્તરમા શતકમાં પંચમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત.

૧ * અહિં હુ ત્રણશબ્દ હુ ત્રણો અથવા હુ ત્રણા હેતુભૂત કર્મનો વાચક છે અને વેદનાશબ્દ સુત્ર-દુઃસ્વ ઉભયનો, અથવા સુખદુઃસ્વ હેતુભૂત કર્મનો વાચક છે.

છટ્ઠાઓ ઉદ્દેસી.

૧. [પ્ર૦] પુઢવિક્કાઈપ્પ ણં મંતે ! ઈમીસે રયણપ્પમાય પુઢવીપ સમોહપ, સમોહણિત્તા જે ભવિપ સોહમ્મે કપ્પે પુઢવિક્કાઈયત્તાય ઉવવજ્જિત્તપ સે ણં મંતે ! કિં પુઢિં ઉવવજ્જિત્તા પચ્છા સંપાડણેજ્જા, પુઢિં સંપાડણિત્તા પચ્છા ઉવવજ્જેજ્જા ? [ઉ૦] ગોયમા ! પુઢિં ઘા ઉવવજ્જિત્તા પચ્છા સંપાડણેજ્જા, પુઢિં ઘા સંપાડણિત્તા પચ્છા ઉવવજ્જેજ્જા । [પ્ર૦] સે કેણટ્ટેણં જાવ—પચ્છા ઉવવજ્જેજ્જા ? [ઉ૦] ગોયમા ! પુઢવિક્કાઈયાણં તઓ સમુગ્ધાયા પન્નત્તા, તં જહા—વેદનાસમુગ્ધાય, કસાયસમુગ્ધાય, મારણંતિયસમુગ્ધાય । મારણંતિયસમુગ્ધાયણં સમોહણમાણે દેસેણ ઘા સમોહણતિ, સઘેણ ઘા સમોહણતિ; દેસેણ ઘા સમોહણમાણે પુઢિં સંપાડણિત્તા પચ્છા ઉવવજ્જિત્તા, સઘેણં સમોહણમાણે પુઢિં ઉવવજ્જેત્તા પચ્છા સંપાડણેજ્જા, સે તેણટ્ટેણં જાવ—ઉવવજ્જિત્તા ।

૨. [પ્ર૦] પુઢવિક્કાઈપ્પ ણં મંતે ! ઈમીસે રયણપ્પમાય પુઢવીપ જાવ—સમોહપ, સમોહણિત્તા જે ભવિપ ઈસાણે કપ્પે પુઢવિં ? [ઉ૦] ઇવં ચેવ ઈસાણે ઘિ, ઇવં જાવ—અચ્ચુય—ગેવિજ્જિવિમાણે, અણુત્તરવિમાણે, ઈસિપન્નારાય ય ઇવં ચેવ ।

૩. [પ્ર૦] પુઢવિક્કાઈપ્પ ણં મંતે ! સક્કરપ્પમાય પુઢવીપ સમોહપ, સમોહણિત્તા જે ભવિપ સોહમ્મે કપ્પે પુઢવિં ? [ઉ૦] ઇવં જહા રયણપ્પમાય પુઢવિક્કાઈઓ ઉવવાઈઓ ઇવં સક્કરપ્પમાય ઘિ પુઢવિક્કાઈઓ ઉવવાઈયઘો, જાવ—ઈસિપન્નારાય, ઇવં જહા રયણપ્પમાય વત્તઘયા મળિયા, ઇવં જાવ—અહેસત્તમાય સમોહપ ઈસીપન્નારાય ઉવવાઈયઘો, સેસં તં ચેવ । 'સેવં મંતે', 'સેવં મંતે' ! ત્તિ ।

સત્તરસમે સપ્પ છટ્ઠાઓ ઉદ્દેસી સમત્તો ।

પપ્પ ઉદ્દેશક.

૧. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! જે પૃથિવીકાયિક જીવ આ રત્તપ્રમા પૃથિવીમા મરણ સમુદ્ઘાત કરીને સૌધર્મકલ્પમાં પૃથિવીકાયિકપણે ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય છે તે હે મગવન્ ! ઝું પ્રથમ ઉત્પન્ન થાય અને પછી આહાર કરે—પુદ્ગલ ગ્રહણ કરે કે પ્રથમ પુદ્ગલ ગ્રહણ કરે અને પછી ઉત્પન્ન થાય ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તે પ્રથમ ઉત્પન્ન થાય અને પછી પુદ્ગલ ગ્રહણ કરે, અથવા પ્રથમ પુદ્ગલ ગ્રહણ કરે અને પછી ઉત્પન્ન થાય. [પ્ર૦] તે શા કારણથી યાવત્—પછી ઉત્પન્ન થાય ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! પૃથિવીકાયિકોને ત્રણ સમુદ્ઘાતો કહ્યા છે; તે આ પ્રમાણે—વેદના સમુદ્ઘાત, કપાય સમુદ્ઘાત અને મારણાંતિક સમુદ્ઘાત. જ્યારે જીવ મારણાંતિક સમુદ્ઘાત કરે છે ત્યારે દેશથી પળ સમુદ્ઘાત કરે છે અને સર્વથી પળ સમુદ્ઘાત કરે છે. જ્યારે દેશથી સમુદ્ઘાત કરે છે ત્યારે પ્રથમ પુદ્ગલ ગ્રહણ કરે છે અને પછી ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે સર્વથી સમુદ્ઘાત કરે છે ત્યારે પ્રથમ ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી પુદ્ગલ ગ્રહણ કરે છે. તે કારણથી યાવત્—પછીથી ઉત્પન્ન થાય છે.

૨. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! પૃથિવીકાયિક જીવ આ રત્તપ્રમા પૃથિવીમા યાવત્—મરણસમુદ્ઘાત-કરી જે ઈશાનકલ્પમાં પૃથિવીકાયિકપણે ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય છે—ઈત્યાદિ પૃચ્છા. [ઉ૦] પૂર્વ પ્રમાણે ઈશાનકલ્પસંવન્ધે જાણવું. એમ યાવત્—અચ્યુત, ઐવેયક વિમાન, અનુત્તર વિમાન અને ઈપ્પાગ્મારમા પૃથિવી સવન્ધે પળ જાણવું.

૩. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! જે પૃથિવીકાયિક જીવ આ ચર્કરાપ્રમા પૃથિવીમા મરણ સમુદ્ઘાત કરીને સૌધર્મ કલ્પમા પૃથિવીકાયિકપણે ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય છે—ઈત્યાદિ પ્રશ્ન. [ઉ૦] જેમ રત્તપ્રમા પૃથિવીમા પૃથિવીકાયિકનો ઉત્પાદ કહ્યો છે તેમ ચર્કરાપ્રમાના પૃથિવીકાયિકનો ઉત્પાદ કહેવો. યાવત્—એ પ્રમાણે ઈપ્પાગ્મારમા પૃથિવી સુધી જાણવું. તથા જેમ રત્તપ્રમાના પૃથિવીકાયિકની વત્તવ્યતા કહી તેમ યાવત્—સાનમી નરકપૃથિવી સુધીમા મરણસમુદ્ઘાતથી સમવહત થયેલા જીવનો ઈપ્પાગ્મારમા ઉપપાત કહેવો. 'હે મગવન્ ! તે એમજ છે, હે મગવન્ ! તે એમજ છે'.

સત્તરમા શતકમાં પપ્પ ઉદ્દેશક સમાપ્ત.

૧ * જીવ મરણસમુદ્ઘાતથી નિવૃત્ત થઈ જ્યારે પૂર્વના શરીરને સર્વથા છોડી દટાની પેઠે સર્વ આત્મપ્રદેશો સાથે ઉત્પત્તિસ્થલે જાય ત્યારે પૂર્વે ઉત્પન્ન થાય અને પછી પુદ્ગલગ્રહણ આહાર કરે, પળ જ્યારે મરણ સમુદ્ઘાત કરતા જ મરણ પામે અને ઈલિકાની ગતિથી ઉત્પત્તિસ્થાને જાય, ત્યારે પહેલાં આહાર કરે અને પછી ઉત્પન્ન થાય. અર્થાત્—પૂર્વના શરીરમા રહેલા જીવ પ્રદેશોને ઈચ્છની પેઠે સહી સમન્ત જીવપ્રદેશો માથે ઉત્પત્તિસ્થાને જાય ત્યારે પ્રથમ પુદ્ગલગ્રહણ કરે અને પછી ઉત્પન્ન થાય —ટીકા

† મારણાંતિક સમુદ્ઘાત કરતા જ મરણ પામે ત્યારે તે ઈચ્છની ગતિથી ઉત્પત્તિસ્થાને પ્રાપ્ત થાય, તે વચ્ચે જીવનો અંશ પૂર્વના શરીરમા રહેલો હોવાથી અને મરણ અગ્ર પાને પ્રાપ્ત થયેલો હોવાથી 'દેશથી સમુદ્ઘાત કરે' એમ કહેવાય છે. પળ જ્યારે મરણસમુદ્ઘાતથી નિવૃત્ત થઈને પછી મરણ પામે તે વચ્ચે જ્યારે મરણ પામે ત્યારે ઈચ્છની પેઠે ઉત્પત્તિસ્થલે પ્રાપ્ત થાય છે, માટે 'સર્વથી સમુદ્ઘાત કરે છે' એમ કહેવાય છે.—ટીકા.

सत्तमो उद्देशो.

१. [प्र०] पुढविकाइए णं भंते ! सोहम्मं कप्पे समोहए, समोहणित्ता जे भविण इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए पुढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए से णं भंते ! किं पुत्तिं—सेसं तं चैव । [उ०] जहा रयणप्पमाए पुढविकाइए सघकप्पेसु जाव—ईसिप्पम्भाराए ताव उववाइओ, एवं सोहम्मपुढविकाइओ वि सत्तसु वि पुढवीसु उववाएयघो जाव—अहेसत्तमाए, एवं जहा सोहम्मपुढविकाइओ सघपुढवीसु उववाइओ, एवं जाव—ईसिप्पम्भारापुढविकाइओ सघपुढवीसु उववाएयघो जाव—अहेसत्तमाए । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

सत्तरसमे सए सत्तमो उद्देशो समत्तो ।

सप्तम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! जे पृथिवीकायिक जीव सौधर्मकल्पमां मरणसमुद्घात करी आ रत्तप्रभा पृथिवीमां पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते हे भगवन् ! प्रथम उत्पन्न थाय अने पछी आहार करे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] जेम रत्तप्रभापृथिवीना पृथिवीकायिक जीवनो वधा कल्पोमां, यावत्—ईपत्ताग्भारा पृथिवीमां उपपात कहेवामां आब्यो छे तेम सौधर्मकल्पना पृथिवीकायिक जीवनो पण साते नरकपृथिवीमां यावत्—सप्तम नरक सुधी उपपात कहेवो. तथा जेम सौधर्मकल्पना पृथिवीकायिक जीवनो सर्वं पृथिवीओमां उपपात कयो छे तेम वधा खर्गो, यावत्—ईपत्ताग्भारा पृथिवीना पृथिवीकायिक जीवनो पण सर्वं पृथिवीओमां यावत्—सातमी नरकपृथिवी सुधी उपपात कहेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

पृथिवीकायिकपणे
प्रस.

सत्तरमा शतकमां सप्तम उद्देशक समाप्त.

अष्टमो उद्देशो ।

१. [प्र०] आउकाइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए समोहए, समोहणित्ता जे भविण सोहम्मं कप्पे आउकाइयत्ताए उववज्जित्तए० ? [उ०] एवं जहा पुढविकाइओ तथा आउकाइओ वि सघकप्पेसु, जाव—ईसिप्पम्भाराए तहेय उववाएयघो, एवं जहा—रयणप्पमाआउकाइओ उववाइओ तथा जाव—अहेसत्तमपुढविआउकाइओ उववाएयघो, एवं जाव—ईसिप्पम्भाराए । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

सत्तरसमे सए अष्टमो उद्देशो समत्तो ।

अष्टम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! जे अष्कायिक जीव आ रत्तप्रभा पृथिवीमां मरणसमुद्घात करीने सौधर्मकल्पमां अष्कायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] जेम पृथिवीकायिकसंनन्धे कहुं छे तेम अष्कायिकसंनन्धे पण वधा कल्पोमां कहेवुं, यावत्—ईपत्ताग्भारा पृथिवीमां पण ते प्रमाणे उपपात कहेवो. तथा जेम रत्तप्रभाना अष्कायिक जीवनो उपपात कयो छे तेम यावत्—सातमी पृथिवीना अष्कायिक जीवनो पण यावत्—ईपत्ताग्भारा पृथिवी सुधी उपपात कहेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

अष्कायिक.

सत्तरमा शतकमां अष्टम उद्देशक समाप्त.

नवमो उद्देशो ।

१. [प्र०] आउकाइए णं भंते ! सोहम्मं कप्पे समोहए, समोहणित्ता जे भविण इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए घणोददि-वळएसु आउकाइत्ताए उववज्जित्तए से णं भंते० ? [उ०] सेसं तं चैव, एवं जाव—अहेसत्तमाए । जहा सोहम्मवाउकाइओ एवं जाव—ईसिप्पम्भाराआउकाइओ जाव—अहेसत्तमाए उववाएयघो ! 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

सत्तरसमे सए नवमो उद्देशो समत्तो ।

नवम उद्देशक.

२. [प्र०] हे भगवन् ! जे अष्कायिक जीव सौधर्मकल्पमां मरणसमुद्घातने प्राप्त थईने आ रत्तप्रभाना घनोददिगळयोना अष्कायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते हे भगवन् !—इत्यादि प्रश्न. [उ०] चाकी वधुं पूर्यं प्रमाणे जाणवुं. एम यावत्—अत्र सप्तम पृथिवी सुधी जाणवुं. जेम सौधर्मकल्पना अष्कायिकनो [नरक पृथिवीमां] उपपात वणो तेम यावत्—ईपत्ताग्भारापृथिवीना अष्कायिक जीवनो यावत्—अत्र.सप्तम पृथिवी सुधी उपपात कहेवो. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.

नरकदि.

सत्तरमा शतकमां नवम उद्देशक समाप्त.

दसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] वाउक्काइय णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए जाव—जे भविण सोहम्मो कप्पे वाउक्काइयत्ताए उववज्जित्तए से णं ? [उ०] जहा पुढविकाइयो तहा वाउक्काइयो वि, नवरं वाउक्काइयाणं चत्तारि समुग्घाया पण्णत्ता, तंजहा—वेदणासमुग्घाए, जाव—वेउच्चियसमुग्घाए । मारणंतियसमुग्घाए णं समोहणमाणे देसेण वा समोहणइ०, सेसं तं चेव, जाव—अहेसत्तमाए समोहओ ईसिपम्भाराए उववापयधो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

सत्तरसमे सए दसमो उद्देशो समत्तो ।

दशम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! जे वायुकायिक जीव आ रत्तप्रभामा मरणसमुद्घातने प्राप्त थइने सौधर्मकल्पमां वायुकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते हे भगवन् !—इत्यादि प्रश्न. [उ०] जेम पृथिवीकायिकसंनवे कहेयामा आव्युं छे तेम वायुकायिकसंनवे पण जाणवुं. विशेष ए के वायुकायिकने चार समुद्घात होय छे; अने ते आ प्रमाणे—वेदनासमुद्घात, यावत्—वैक्रियसमुद्घात. ते वायुकायिक मारणातिक समुद्घातवडे समवहत यई देशथी समुद्घात करे छे—इत्यादि वाकी वधुं तेज प्रमाणे जाणवुं; यावत्—सातमी नरकपृथिवीमां समुद्घातने प्राप्त थयेल वायुकायिकनो ईपप्पाग्भारां उपपात कहेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

सत्तरमा शतकमां दशम उद्देशक समाप्त.

इक्कारसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] वाउक्काइय णं भंते ! सोहम्मो कप्पे समोहए, समोहणित्ता जे भविण इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए घणवाए, तणुवाए, घणवायवलएसु, तणुवायवलएसु वाउक्काइयत्ताए उववज्जित्तए से णं भंते ! ० ? [उ०] सेसं तं चेव, एवं जहा सोहम्मो वाउक्काइयो सत्तसु वि पुढवीसु उववाइओ एवं जाव—ईसिपम्भाराए वाउक्काइयो अहेसत्तमाए जाव—उववापयधो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

सत्तरसमे सए इक्कारसमो उद्देशो समत्तो ।

अगीयारमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! जे वायुकायिक जीव सौधर्मकल्पमा समुद्घात करी आ रत्तप्रमा पृथिवीना घनवात, तनुवात, घनवातवलयो के तनुवातवलयोमां वायुकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते हे भगवन् !—इत्यादि प्रश्न. [उ०] वाकी वधुं पूर्व प्रमाणे जाणवुं. अने जेम सौधर्मकल्पमा वायुकायिकनो साते पृथिवीमा उपपात कल्यो छे ते प्रमाणे यावत्—ईपप्पाग्भारा पृथिवीना वायुकायिकनो यावत्—अवःसत्तम पृथिवीपर्यंत उपपात कहेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

सत्तरमा शतकमां अगीयारमो उद्देशक समाप्त.

वारसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] एगिंदिया णं भंते ! सधे समाहारा ? [उ०] एवं जहा पढमसए वित्तियउद्देशए पुढविकाइयाणं चत्तधया भणिया सा चेव एगिंदियाणं इह भाणियघा, जाव—समाउया, समोववन्नगा ।

२. [प्र०] एगिंदियाणं भंते ! कति लेस्साओ पन्नत्ताओ ? [उ०] गौयमा ! चत्तारि लेस्साओ पन्नत्ताओ, तं जहा—कण्ह-लेस्सा, जाव—तेउलेस्सा ।

वारमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! वधा एकेन्द्रिय जीवो समान आहारवाळा छे, समान शरीरवाळा छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] जेम प्रथम शतकना द्वितीय उद्देशकमा पृथिवीकायिकनी धक्तव्यता कही छे तेम अहाँ एकेन्द्रियो संनवे पण कहेवी. यावत्—समान आयुष्यवाळा नथी, तेम साथे उत्पन्न थता पण नथी.

२. [प्र०] हे भगवन् ! एकेन्द्रियोने केटली लेइयाओ कही छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने चार लेइयाओ कही छे. ते आ प्रमाणे—१ कृष्णलेइया, यावत्—४ तेजोलेइया.

३. [प्र०] एपसि णं भंते ! एगिंदियाणं कण्हलेस्साणं जाव-विसेसाहिया वा ? [उ०] गीयमा ! सव्वत्थोवा एगिंदिया णं तेउलेस्सा, काउलेस्सा अणंतगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया ।

४. [प्र०] एपसि णं भंते ! एगिंदियाणं कण्हलेस्साणं इही० ? [उ०] जहेव दीवकुमारणं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।
सत्तरसमे सए वारसमो उद्देशो समत्तो ।

लेइयावाळा एकेन्द्रि-
योनुं अल्पवदुत्व.

३. [प्र०] हे भगवन् ! कृष्णलेइयावाळा, यावत्-[तेजोलेइयावाळा ए एकेन्द्रियोमां] कोण कोनाथी यावत् विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! सौथी थोडा तेजोलेइयावाळा एकेन्द्रियो छे, तेथी अनंतगुण अधिक कापोतलेइयावाळा छे, तेथी विशेषाधिक नीललेइयावाळा छे, अने तेथी विशेषाधिक कृष्णलेइयावाळा छे.

४. [प्र०] हे भगवन् ! ए कृष्णलेइयावाळा, यावत्-तेजोलेइयावाळा एकेन्द्रियोनी ऋद्धि-सामर्थ्य संवन्धे प्रश्न.-एटले कृष्णलेइयावाळा यावत्-तेजोलेइयावाळा एकेन्द्रियोमां कोण अल्पऋद्धिवाळो अने कोण महर्द्धिक छे ? [उ०] जेम द्वीपकुमारोनी ऋद्धि कही छे तेम एकेन्द्रियोनी कहेवी. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.

लेइयावाळा एकेन्द्रि-
योनी ऋद्धिनु अल्प-
वदुत्व.

सत्तरमा शतकमां वारमो उद्देशक समाप्त.

तेरसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] नागकुमारा णं भंते ! सव्वे समाहारा० ? [उ०] जहा सोलसमसए दीवकुमारदेसे तहेव निरवसेसं भाणि-यधं जाव-इही । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! जाव-विहरति ।

सत्तरसमे सए तेरसमो उद्देशो समत्तो ।

तेरमो उद्देशक.

१. [प्र०]-हे भगवन् ! वधा नागकुमारो समान आहारवाळा छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] जेम सोळमा शतकना द्वीपकुमार उद्देशकमां कहेवामां आवुं छे तेम यावत्-ऋद्धि सुधी कहेवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'-एम कही यावत्-विहरे छे.

वधा नागकुमारो
समान आहारवाळा
छे-इत्यादि प्रश्न.

सत्तरमा शतकमां तेरमो उद्देशक समाप्त.

चौदसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] सुवर्णकुमारा णं भंते ! सव्वे समाहारा० ? [उ०] एवं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

सत्तरसमे सए चौदसमो उद्देशो समत्तो ।

चौदमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! वधा सुवर्णकुमारो समान आहारवाळा छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्व प्रमाणे वधुं जाणवुं. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.

सुवर्णकुमारो समान
आहारवाळा छे-
इत्यादि प्रश्न.

सत्तरमा शतकमां चौदमो उद्देशक समाप्त.

पन्नरसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] विज्जुकुमारा णं भंते ! सव्वे समाहारा ? [उ०] एवं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

सत्तरसमे सए पन्नरसमो उद्देशो समत्तो ।

पंदरमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! वधा विद्युकुमारो समान आहारवाळा छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्व प्रमाणे वधुं जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

विद्युकुमार मंत्र-
प्रश्न.

सत्तरमा शतकमां पंदरमो उद्देशक समाप्त.

सौलसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] वायुकुमारा णं भंते ! सद्ये समाहारा० ? [उ०] एवं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! चि ।
सत्तरसमे सए सौलसमो उद्देशो समत्तो ।

सौळमो उद्देशक.

- वाउडमार- १. [प्र०] हे भगवन् ! वधा वायुकुमारो समान आहारवाळा छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्व प्रमाणे वधुं जाणवुं. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.

सत्तरमा शतकमां सौळमो उद्देशक समाप्त.

सत्तरसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] अग्निकुमारा णं भंते ! सद्ये समाहारा० ? [उ०] एवं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! चि ।
सत्तरसमे सए सत्तरसमो उद्देशो समत्तो.

सत्तरसमं सयं समत्तं.

सत्तरमो उद्देशक.

- वधा अग्निकुमारो समान आहारवाळा छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्व प्रमाणे वधुं जाणवुं. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.

सत्तरमा शतकमां सत्तरमो उद्देशक समाप्त.

सत्तरमुं शतक समाप्त.



अट्टारसमं सयं ।

१ पढमे २ विसाह ३ मायंदिण य ४ पाणाइवाच ५ असुरे य ६ ।
गुल ७ केवल्लि ८ अणगारे ९ भविण तह १० सोमिलट्टारसे ॥

१. [प्र०] तेणं कालेणं तेणं समणं रायगिहे जाव-एवं वयासी-जीवे णं भंते ! जीवभावेणं किं पढमे अपढमे ? [उ०] गोयमा ! नो पढमे, अपढमे । एवं नेरइण जाव-वेमाणिण ।

२. [प्र०] सिद्धे णं भंते ! सिद्धभावेणं किं पढमे अपढमे ? [उ०] गोयमा ! पढमे, नो अपढमे ।

३. [प्र०] जीवा णं भंते ! जीवभावेणं किं पढमा अपढमा ? [उ०] गोयमा ! नो पढमा, अपढमा । एवं जाव-वेमा-
णिया १ ।

अट्टारमुं शतक

[उद्देशकसंग्रह—] १ जीवादि अर्थ संबंधे प्रथम-अप्रयमादिभावानो प्रतिपादक प्रथम उद्देशक, २ विशाखा नगरीमां भगवान् गत्-
वीर समोसर्या-इत्यादि संबंधे बीजो उद्देशक, ३ माकंदीपुत्र अनगारना प्रश्न संबंधे त्रीजो उद्देशक, ४ प्राणातिपातादि संबंधे चोयो उद्देशक,
५ असुरकुमारनी वक्तव्यता संबंधे पांचमो उद्देशक, ६ गोल वगेरेना वर्णादि संबंधे छट्टो उद्देशक, ७ 'केवल्लान्नी यक्षना जावेययी सल्ल
अने असल्ल बोले'-एवा अन्यतीर्थिकना मन्तव्य वाचत सातमो उद्देशक, ८ अनगारने ऐर्यापयिकी क्रिया होय के सापरायिक क्रिया होय
वगेरे संबंधे आठमो उद्देशक, भविक द्रव्यनैरयिकादि संबंधे नवमो उद्देशक अने सोमिल ब्राह्मणना प्रश्न वगेरे संबंधे दशमो उद्देशक-ए
प्रमाणे आ अट्टारमा शतकमा दश उद्देशको कहेवामां आवशे.

*प्रथम उद्देशक.

१. [प्र०] ते काले, ते समये राजगृह नगरमां [भगवान् गौतम] यावत्-आ प्रमाणे बोल्या-हे भगवन् ! जीव जीवभावनते
(जीवत्वनी अपेक्षाए) *प्रथम छे के अप्रथम छे ? [उ०] हे गौतम ! ते प्रथम नयी, पण अप्रथम छे. ए प्रमाणे [उडकना क्रमणी]
नैरयिको यावत्-वैमानिको जाणवा. निरुद्धर.
प्रथम अने अप्रथम.

२. [प्र०] हे भगवन् ! सिद्ध सिद्धभाववडे (सिद्धत्वनी अपेक्षाए) प्रथम छे के अप्रथम छे ? [उ०] हे गौतम ! ते प्रथम छे, पण
अप्रथम नयी.

३. [प्र०] हे भगवन् ! जीवो जीवभाववडे प्रथम छे के अप्रथम छे ? [उ०] हे गौतम ! प्रथम नयी पण अप्रथम छे. ए प्रमाणे
यावत्-वैमानिको सुधी जाणवुं.

+ आ उद्देशकमां जीवादि बीजो द्वारोमां प्रथम-अप्रथमादि भावानो विचार चोर्वीश दूज्ज अने विज्जने जाधरी वयो छे. ते चोर्वीश द्वार ०१ प्राणादि-१ वीर,
२ आहारक, ३ भयनिश्चिक, ४ चरती, ५ देहना, ६ दृष्टि, ७ सवत्त, ८ कपाल, ९ ज्ञान, १० नीग, ११ उपयोग, १२ वेद, १३ मगीर, १४ पारोमि.

* जे जीवो जे भाग पूर्वे प्राप्त करेते ते तेनी अपेक्षाए ते अप्रथम कहेवाय छे, तेनके जीवत्व अन्तारि द्यवर्णी जीवने प्राप्त भयेते छे नाटे जीवनी
अपेक्षाए जीव अप्रथम कहेवाय छे. जे जीव पूर्वे प्राप्त एवा जे भागने प्राप्त करे ते अपेक्षाए ते अप्रथम कहेवाय छे, तेनके सिद्धत्वनी अपेक्षाए सिद्ध प्रथम छे,
कारण के सिद्धता पूर्वे जीवने प्राप्त भयेते नयी.

४. [प्र०] सिद्धा णं पुच्छा । [उ०] गोयमा ! पढमा, नो अपढमा ।

५. [प्र०] आहारण णं भंते ! जीवे आहारभावेणं किं पढमे अपढमे ? [उ०] गोयमा ! नो पढमे, अपढमे । एवं जाव-वेमाणिण, पोहत्तिण एवं चेव ।

६. [प्र०] अणाहारण णं भंते ! जीवे अणाहारभावेणं पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय पढमे, सिय अपढमे । [प्र०] नेरदण णं भंते ! [उ०] एवं नेरत्तिण, जाव-वेमाणिण नो पढमे, अपढमे । सिद्धे पढमे, नो अपढमे ।

७. [प्र०] अणाहारणा णं भंते ! जीवा अणाहारभावेणं पुच्छा । [उ०] गोयमा ! पढमा वि, अपढमा वि । नेरदया जाव-वेमाणिया णो पढमा, अपढमा । सिद्धा पढमा, नो अपढमा एक्केक्के पुच्छा भाणियघा २ ।

८. भवसिद्धीण एगत्तपुहुत्तेणं जहा आहारण, एवं अमवसिद्धीण वि । [प्र०] नोभवसिद्धीयनोअमवसिद्धीणं भंते ! जीवे नोभव०-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! पढमे, नो अपढमे । [प्र०] णोभवसिद्धी-नोअमवसिद्धीणं भंते ! सिद्धे नोभव० । [उ०] एवं पुहुत्तेण वि दोण्ह वि ।

९. [प्र०] सन्धी णं भंते ! जीवे सन्धीभावेणं किं पढमे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो पढमे, अपढमे । एवं विर्गालिदिय-वजं जाव-वेमाणिण । एवं पुहुत्तेण वि ३ । असन्धी एवं चेव एगत्तपुहुत्तेणं, नवरं जाव-घाणमंतरा । नोसन्धी-नोअसन्धी जीवे मणुस्से सिद्धे पढमे, नो अपढमे । एवं पुहुत्तेण वि ४ ।

१०. [प्र०] हे भगवन् ! सिद्धो सिद्धभाववडे प्रथम छे के अप्रथम छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते प्रथम छे, पण अप्रथम नथी.

५. [प्र०] हे भगवन् ! आहारक जीव आहारकभाव वडे प्रथम छे के अप्रथम छे ? [उ०] हे गौतम ! ते प्रथम नथी, पण अप्रथम छे. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुधी जाणतुं. बहुवचनमां पण तेज प्रमाणे समजतुं.

६. [प्र०] हे भगवन् ! अनाहारक जीव अनाहारकभाववडे प्रथम छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! कदाच *प्रथम होय अने कदाच अप्रथम पण होय. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिक अनाहारकभाववडे प्रथम छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] ए प्रमाणे नैरयिक यावत्-वैमानिक अनाहारकभाववडे प्रथम नथी, पण अप्रथम छे. सिद्ध अनाहारकभाववडे प्रथम छे, पण अप्रथम नथी.

७. [प्र०] हे भगवन् ! अनाहारक जीवो अनाहारकभाववडे प्रथम छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! प्रथम पण छे अने अप्रथम पण छे. नैरयिको यावत्-वैमानिको अनाहारकभाववडे प्रथम नथी पण अप्रथम छे. अने सिद्धो अनाहारकभाववडे प्रथम छे पण अप्रथम नथी. एम एक एक दंडके प्रश्न करवो.

८. आहारकजीवनी पेटे भवसिद्धिकजीवो भवसिद्धिकपणे प्रथम नथी, पण अप्रथम छे-इत्यादि वक्तव्यता एकवचन अने बहुवचनने आश्रयी जाणवो. एज प्रमाणे अमवसिद्धिक पण कहेवा. [प्र०] हे भगवन् ! नोभवसिद्धिक-नोअमवसिद्धिक (सिद्ध) जीव नोभवसिद्धिक-नोअमवसिद्धिकभाववडे (सिद्धत्वनी अपेक्षाए) प्रथम छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते प्रथम छे पण अप्रथम नथी. [प्र०] हे भगवन् ! नोभवसिद्धिक-नोअमवसिद्धिक सिद्ध नोभवसिद्धिक-नोअमवसिद्धिकभाववडे प्रथम छे के अप्रथम छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] पूर्वं प्रमाणे जाणतुं. ए प्रमाणे जीव अने सिद्ध वनेना बहुवचनने आश्रयी प्रश्नोत्तरो समजवा.

९. [प्र०] हे भगवन् ! संज्ञी जीव संज्ञीभाववडे प्रथम छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! प्रथम नथी पण अप्रथम छे. ए प्रमाणे त्रिकलेन्द्रिय (एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय अने चउरिन्द्रिय) सिवाय यावत्-वैमानिको सुधी जाणतुं. एम बहुवचनवडे पण वक्तव्यता कहेवी. असंज्ञी जीवोने पण एकवचन अने बहुवचनवडे एज वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के, यावत्-वैमानव्यंतरो सुधी समजतुं. नोसंज्ञी-नोअसंज्ञी जीव, मनुष्य अने सिद्ध नोसंज्ञी-नोअसंज्ञीभाववडे प्रथम छे पण अप्रथम नथी. ए प्रमाणे बहुवचनने आश्रयी पण आ प्रश्नोत्तर समजवो.

६ * सिद्ध अने निग्रहगतिने प्राप्त थयेल ससारी जीव अनाहारक होय छे सिद्ध अनाहारकपणावडे प्रथम छे, कारण के तेने अनाहारकपणुं पूर्वं प्राप्त करुं नथी समारी जीव अप्रथम छे, केमके तेणे निग्रहगतिमा पूर्वं अनाहारकपणुं अनत वर प्राप्त करुं छे. एम दटकना क्रमथी नैरयिकथी माठी वैमानिक सुधीना जीवो पण पूर्वीक हेतुथी अनाहारकभावे वडे अप्रथम जाणवा.

९ † असंज्ञीहारमा जीव अने नैरयिकथी माठी दटकना क्रमथी व्यन्तर सुधीना सज्ञी जीवो पण असंज्ञीभाववडे अप्रथम छे-एम जे कहेवामा धार्युं छे, वेमा असंज्ञीपणु भूतपूर्वग्यायथी समजतु, केमके असंज्ञी जीवोने उल्पाद व्यन्तर सुधीना संज्ञी जीवोमां पण याव छे. पृथिव्यादि असंज्ञी जीवो तो असंज्ञीभाव वडे अप्रथम छे.

१०. [प्र०] सलेसे णं भंते !—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहा आहारण, एवं पुहुत्तेण वि । कण्हलेस्सा जाव—सुपाले-स्सा एवं चेव, नवरं जस्स जा लेसा अत्थि । अलेसे णं जीव—मणुस्स—सिद्धे जहा नोसन्तीनोअसन्ती ५ ।

११. [प्र०] सम्मदिट्ठीए णं भंते ! जीवे सम्मदिट्ठीभावेणं किं पढमे—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय पढमे, सिय अपढमे । एवं एणंदियवज्जं जाव—वेमाणिए । सिद्धे पढमे, नो अपढमे । पुहुत्तिया जीवा पढमा वि, अपढमा वि, एवं जाव—वेमाणिया । सिद्धा पढमा, नो अपढमा । मिच्छादिट्ठीए एगत्तपुहुत्तेणं जहा आहारणा । सम्मामिच्छादिट्ठी एगत्तपुहुत्तेणं जहा सम्मदिट्ठी, नवरं जस्स अत्थि सम्मामिच्छत्तं ६ ।

१२. संजए जीवे मणुस्से य एगत्तपुहुत्तेण जहा सम्मदिट्ठी, असंजए जहा आहारण, संजयासंजए जीवे पंचिंदियति-रिक्खजोणिय—मणुस्सा एगत्तपुहुत्तेणं जहा सम्मदिट्ठी । नोसंजए नोअस्संजए नोसंजयासंजए जीवे सिद्धे य एगत्तपुहुत्तेणं पढमे, नो अपढमे ७ ।

१३. सकसायी कोहकसायी जाव—लोभकसायी एए एगत्तपुहुत्तेणं जहा आहारण, अकसायी जीवे सिय पढमे सिय अपढमे, एवं मणुस्से वि । सिद्धे पढमे नो अपढमे, पुहुत्तेणं जीवा मणुस्सा वि पढमा वि अपढमा वि । सिद्धा पढमा, नो अपढमा ८ ।

१४. णाणी एगत्तपुहुत्तेणं जहा सम्मदिट्ठी, आभिणिदोहियनाणी जाव—मणपज्जवनाणी एगत्तपुहुत्तेणं एवं चेव, नवरं

१०. [प्र०] हे भगवन् ! सलेश्य जीव सलेश्यभाववडे प्रथम छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! आहारक जीवनी पेटे (सू. ५) अप्रथम जाणवो. बहुवचनवडे पण ए प्रमाणे जाणवुं, वळी कृष्णलेस्या यावत्—शुक्कलेस्या सर्वथे पण एमज जाणवुं. विशेष ए के, जे लेस्या जेने होय ते लेस्या तेने कहेवी. लेस्यारहित जीव, मनुष्य अने सिद्धपदमां अलेश्यभाववडे नोसन्ती—नोअसन्ती पेटे (सू० ९) प्रथमपणुं जाणवु.

५ लेस्यादाह.

११. [प्र०] हे भगवन् ! सम्यग्दृष्टि जीव सम्यग्दृष्टिभाववडे प्रथम होय—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कदाच *प्रथम पण होय अने अप्रथम पण होय. ए प्रमाणे एकेन्द्रिय सिवाय वीजा वधा दंडके यावत्—वैमानिको सुधी जाणवुं. सम्यग्दृष्टिभावे सिद्ध प्रथम छे, पण अप्रथम नथी. बहुवचनवडे सम्यग्दृष्टिभावे जीवो प्रथम पण छे अने अप्रथम पण छे. ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी जाणवुं. सिम्यग्दृष्टिभाव वडे सिद्धो प्रथम छे, पण अप्रथम नथी. मिथ्यादृष्टिभाववडे एकवचन अने बहुवचनने आश्रयी आहारकभावनी वक्तव्यता प्रमाणे (सू० ५) जीवने वधी वक्तव्यता कहेवी. मिश्रदृष्टिभाववडे एकवचन अने बहुवचनने आश्रयी सम्यग्दृष्टिभावनी वक्तव्यता प्रमाणे (सू० ११) जीवने वधी वक्तव्यता कहेवी. विशेष ए के, जे जीवने मिश्रदृष्टि होय तेने ते कहेवी.

६ दृष्टिदाह.

१२. [प्र०] संस्यत जीव अने मनुष्यना संस्यमां एक वचन अने बहुवचनवडे सम्यग्दृष्टि जीवनी वक्तव्यता पेटे (नू० ११) बंधुं कहेवुं. असंयत आहारक जीवनी पेटे (अप्रथम) समजवो. अने सयतासंयत जीव, पंचिंदियतिर्यच तथा मनुष्य ए त्रण पदे एकवचन अने बहुवचनवडे सम्यग्दृष्टिनी पेटे कदाच प्रथम अने कदाच अप्रथम जाणवा. वळी नोसंयत (सयत नहि) नोअसयत (असंयत नहीं) तेम नोसंयतासंयत (संयतासंयत पण नहि) एवा जीव अने सिद्ध एकवचन अने बहुवचनवडे प्रथम छे पण अप्रथम नथी.

७ संयतादाह.

१३. सकपायी, क्रोधकपायी यावत्—लोभकपायी ए वधा एकवचन अने बहुवचनवडे आहारक जीवनी पेटे अप्रथम समजवा. तथा अकपायी जीव कदाच प्रथम पण होय अने कदाच अप्रथम पण होय, ए प्रमाणे अकपायी मनुष्य सर्वथे पण जाणवुं. पण अकपायी सिद्ध प्रथम छे पण अप्रथम नथी. बहुवचनवडे अकपायी जीवो अने मनुष्यो प्रथम पण होय छे अने अप्रथम पण होय छे. सिद्धो तो बहुवचनवडे अकपायी प्रथम छे पण अप्रथम नथी.

८ कपायादाह.

१४. ज्ञानी जीवो एकवचन अने बहुवचनवडे सम्यग्दृष्टि जीवनी पेटे (सू० ११) कदाच प्रथम अने कदाच अप्रथम जाणवा.

९ ज्ञानदाह.

११ * कोइ सम्यग्दृष्टि प्रथम सम्यग्दर्शन प्राप्त करे ते अपेक्षाए ते प्रथम जाणवो अने कोइ सम्यग्दर्शनभी पयी फरी सम्यग्दर्शन प्राप्त करे ते अपेक्षाए ते अप्रथम जाणवो एकेन्द्रिय जीवोने सम्यग्दर्शन प्राप्त धवुं नथी, तेथी एकेन्द्रिय सिवाय बाकीना नारकादि दंडके सम्यग्दर्शननी प्रथम प्राप्तिनी अपेक्षाए प्रथमपणुं अने फरीवार सम्यग्दर्शनप्राप्तिनी अपेक्षाए अप्रथमपणुं जाणवु.

† सिद्ध सम्यग्दृष्टिभाव वडे प्रथम जाणवा. कारण के सिद्धत्वगहचरित सम्यग्दर्शन नोअगमन तन्मये प्रथम प्राप्त धाव छे.

‡ मिथ्यादृष्टि आहारकनी पेटे एकवचन अने बहुवचनने आश्रयी अप्रथम छे, कारण के मिथ्यादर्शन अनादि छे.

१२ * सयतदाहमा मात्र जीवपद अने मनुष्यपद ए वे पद होय छे अने तेमा संयत सम्यग्दृष्टिनी पेटे प्रथम अने अप्रथम जाणवा.

१३ † अकपायी जीव यास्यात चारित्रनी प्रथम प्राप्तिमा प्रथम, अने फरीवार प्राप्तिमा अप्रथम होय छे ए प्रमाणे मनुष्यपद आधर्योने जाणवुं अकपायी सिद्ध प्रथम जाणवा, चारण के सिद्ध सिद्धत्वगहचरित अरुधावगदनी अपेक्षाए प्रथम छे

१४ ‡ ज्ञानदाहमा ज्ञानी सम्यग्दृष्टिनी पेटे प्रथम अने अप्रथम जाणवा. तेमा केवत्तानी केवत्ताननी अपेक्षाए प्रथम, अने अकपायी केवत्तान सिद्धताय बाकीना ज्ञाननी प्रथम प्राप्तिमा प्रथम अने फरीवार प्राप्तिमा अप्रथम करेताव छे.

जस्स जं अत्थि, केवलनाणी जीवे मणुरस्से सिद्धे य एगत्तपुहुत्तेणं पढमा नो अपढमा । अत्ताणी, मद्दअत्ताणी, सुयअत्ताणी, चिभंगनाणी एगत्तपुहुत्तेणं जहा आहारण ९ ।

१५. सजोगी, मणजोगी, वयजोगी, कायजोगी एगत्तपुहुत्तेणं जहा आहारण, नवरं जस्स जो जोगो अत्थि । अजोगी जीव-मणुरस्स-सिद्धा एगत्तपुहुत्तेणं पढमा, नो अपढमा १० ।

१६. सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता एगत्तपुहुत्तेणं जहा अणाहारण ११ ।

१७. सवेदगो जाव-नपुंसगवेदगो एगत्तपुहुत्तेणं जहा आहारण, नवरं जस्स जो वेदो अत्थि । अवेदो एगत्तपुहुत्तेणं तिसु वि पदेसु जहा अकसायी १२ ।

१८. ससरीरी जहा आहारण, एवं जाव-कम्मगसरीरी, जस्स जं अत्थि सरीरं, नवरं आहारगसरीरी एगत्तपुहुत्तेणं जहा सम्मदिद्धी । असरीरी जीवो सिद्धो एगत्तपुहुत्तेणं पढमो नो अपढमो १३ ।

१९. पंचाहिं पज्जत्तीहिं पंचाहिं अपज्जत्तीहिं एगत्तपुहुत्तेणं जहा आहारण, नवरं जस्स जा अत्थि, जाव-वेमाणिया नोप-ढमा, अपढमा १४ । इमा लम्पणगाहा—

“जो जेण पत्तपुघो भावो सो तेण अपढमथो होइ । सेसेसु होइ पढमो अपत्तपुघेसु मावेसु” ॥

२०. [प्र०] जीवे णं मंते । जीवमावेणं किं चरिमे अचरिमे ? [उ०] गीयमा ! नो चरिमे, अचरिमे ।

आभिनिवोधिकज्ञानी यावत्-मनःपर्यवज्ञानी एकवचन अने बहुवचनवडे ए प्रमाणे समजवा. विशेष एके जे जीवने जे ज्ञान होय ते तेने कहेवुं. केवलज्ञानी जीव, मनुष्य अने सिद्ध ए वधा एकवचन तथा बहुवचनवडे प्रथम छे, पण अप्रथम नथी. अज्ञानी, मतिअज्ञानी श्रुतअ-ज्ञानी अने विभंगज्ञानी ए वधा एकवचन तथा बहुवचनवडे आहारक जीवोनी पेटे (सू० ५) जाणवा.

१० योगद्वार

१५ सयोगी, मनयोगी, वचनयोगी अने काययोगी ए वधा एकवचन तथा बहुवचन आश्रयी आहारक जीवोनी पेटे (सू० ५) अप्रथम जाणवा. विशेष ए के, जे जीवने जे योग होय तेने ते योग कहेवो. अयोगी जीव, मनुष्य अने सिद्ध ए वधा एकवचन अने बहुवचनवडे प्रथम छे पण अप्रथम नथी.

११ उपयोगद्वार.

१६. साकारोपयोगवाळा अने अनाकारोपयोगवाळा आहारकभाववडे प्रथम छे, पण नवडे अनाहारक जीवोनी पेटे (सू० ६) जाणवा.

१२ वेदद्वार

१७. सवेदक-वेदवाळा-यावत् नपुंसकवेदवाळा ए वधा एकवचन तथा बहुवचनवडे प्रथम छे, पण अप्रथम छे. आहारकजीवोनी पेटे (सू० ५) अप्रथम जाणवा. विशेष ए के, जे जीवने जे वेद होय तेने ते कहेवो. एकवचन अने बहुवचनवडे अवेदक-वेदरहित जीव, मनुष्य अने सिद्ध (ए त्रणे पढमां) अकपायी जीवोनी पेटे (सू० १३) जाणवा.

१३ शरीरद्वार.

१८. सशरीर जीवो आहारक जीवोनी पेटे (सू० ६) समजवा, अने ए प्रमाणे यावत्-कार्मणशरीरवाळा संवंधे पण जाणवुं. जे जीवने जे शरीर होय ते तेने कहेवुं. विशेष ए के, आहारकशरीरवाळा एकवचन अने बहुवचनवडे सम्पगदृष्टि जीवोनी पेटे (सू० ११) कदाच प्रथम अने कदाच अप्रथम समजवा, अशरीरी-शरीररहित जीव अने सिद्ध ए वधे एकवचन अने बहुवचनवडे प्रथम छे पण अप्रथम नथी.

१४ पर्मात्वाद्वार.

१९. पांच पर्याप्तवडे पर्याप्ता अने पांच अपर्याप्तवडे अपर्याप्ता एकवचन तथा बहुवचननी अपेक्षाए आहारक जीवोनी पेटे (सू० ६) अप्रथम समजवा. विशेष ए के, जेने जे पर्याप्ति होय ते तेने कहेवो. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुधी समजवुं. [अर्थात् ते वधा प्रथम नथी पण अप्रथम छे.] प्रथम अने अप्रथमना स्वरूपने जणावनारी आ गाया कहे छे-“जे जीवे जे भाव-अवस्था पूर्वे प्राप्त करेल छे ते भावनी अपेक्षाए ते जीव अप्रथम कहेवाय छे, अने ते सिवाय पूर्वे नहि प्राप्त थयेल पण प्रथम वार प्राप्त थयेल भावोनी अपेक्षाए ते जीवो प्रथम कहेवाय छे.”

चरम अने अचरम
१ जीवद्वार

२०. [प्र०] हे भगवन् ! जीव जीवत्वभाववडे चरम छे के अचरम छे ? [उ०] हे गौतम ! चरम नथी पण अचरम छे.

१६ * साकार उपयोगवाळा अने अनाकार उपयोगवाळा अनाहारकनी पेटे जाणवा तेओ जीवपेटे सिद्धनी अपेक्षाए प्रथम अने ससारीनी अपेक्षाए अप्रथम जाणवा नैरदिद्धथी साठी वैमानिक सुधीना दृष्टकोमा प्रथम नथी, पण अप्रथम छे सिद्धपदने विषे प्रथम छे पण अप्रथम नथी, कारण के साकारोपयोग अने अनाकारोपयोगनिशिष्ट सिद्धवन्नी प्रथमज प्राप्ति थयेली छे

२० † जेनो नवैदा अन्त याप छे ते चरम अने जेनो कदि अन्त थतो नथी ते अचरम कहेवाय छे जीवो जीवत्वभावथी कदि अन्त थतो नथी, माटे ते चरम नथी पण अचरम छे.

२१. [प्र०] नेरइय णं भंते । नेरइयभावेणं—पुच्छा । [उ०] गोयमा । सिय चरिमे, सिय अचरिमे । एवं जाव—वेमा-
णिए । सिद्धे जहा जीवे ।

२२. [प्र०] जीवा णं—पुच्छा । [उ०] गोयमा । नो चरिमा, अचरिमा । नेरइया चरिमा वि अचरिमा वि, एवं जाव—
वेमाणिया । सिद्धा जहा जीवा १ ।

२३. आहारण सव्वत्थ एगत्तेणं सिय चरिमे, सिय अचरिमे, पुहुत्तेणं चरिमा वि अचरिमा वि । अणाहारओ जीवो
सिद्धो य एगत्तेण वि पुहुत्तेण वि नो चरिमे, अचरिमे । सेसट्टाणेषु एगत्तपुहुत्तेणं जहा आहारओ २ ।

२४. भवसिद्धीओ जीवपदे एगत्तपुहुत्तेणं चरिमे, नो अचरिमे, सेसट्टाणेषु जहा आहारओ । अमवसिद्धीओ सव्वत्थ
एगत्तपुहुत्तेणं नो चरिमे, अचरिमे । नोभवसिद्धीय—नोअभवसिद्धीय जीवा सिद्धा य एगत्तपुहुत्तेणं जहा अमवसिद्धीओ ३ ।

२५. सन्नी जहा आहारओ, एवं असन्नी वि । नोसन्नी—नोअसन्नी जीवपदे सिद्धपदे य अचरिमे, मणुस्सपदे चरिमे
एगत्तपुहुत्तेणं ४ ।

२६. सलेस्सो जाव—सुक्कलेस्सो जहा आहारओ, नवरं जस्स जा अत्थि । अलेस्सो जहा नोसन्नी—नोअसन्नी ५ ।

२७. सम्मदिट्ठी जहा अणाहारओ, मिच्छादिट्ठी जहा आहारओ, सम्मामिच्छादिट्ठी एगिदिय—विगालिदियवज्जं सिय
चरिमे, सिय अचरिमे, पुहुत्तेणं चरिमा वि अचरिमा वि ६ ।

२१. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिक नैरयिकभाववडे चरम छे के अचरम छे ? [उ०] हे गौतम ! ते कदाच चरम पण छे अने
कदाच अचरम पण छे. ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी जाणहुं. सिद्धने जीवनी पेठे (सू० २०) जाणहुं.

२२. [प्र०] जीवो संववे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! जीवो चरम नथी पण अचरम छे. नैरयिको नैरयिकभाववडे चरम पण छे
अने अचरम पण छे, ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी जाणहुं. सिद्धो जीवनी पेठे अचरम जाणवा.

२३. आहारक सर्वत्र एकवचनवडे कदाच चरम पण होय अने कदाच अचरम पण होय, तथा बहुवचन वडे आहारक चरम पण
होय अने अचरम पण होय. अनाहारक जीव अने सिद्ध वने स्थाने एकवचन अने बहुवचन वडे चरम न होय पण अचरम होय.
वाकीना नैरयिकादि स्थानोमा अनाहारक आहारक जीवनी पेठे एकवचन अने बहुवचनवडे कदाच चरम होय अने कदाच
अचरम होय २.

२ आहारक द्वार.

२४. भवसिद्धिक जीवपदमा एकवचन अने बहुवचनवडे चरम छे पण अचरम नथी. अने वाकीना स्थानोमा आहारकनी पेठे
कदाच चरम होय अने कदाच अचरम होय. अमवसिद्धिक जीव सर्वत्र एकवचन अने बहुवचनवडे चरम नथी पण अचरम छे, तथा
नोभवसिद्धिक—नोअभवसिद्धिक जीव अने सिद्ध ए वने पदे एकवचन तथा बहुवचन वडे अमवसिद्धिकनी पेठे अचरम जाणवा. ३

३ भवसिद्धिकद्वार.

२५. संज्ञी अने असज्ञी वने आहारकनी पेठे (सू० २३) कदाचित् चरम अने कदाचित् अचरम समजवा. तथा नोसज्ञीनोअसज्ञी
जीव अने सिद्ध ए वने अचरम छे, अने मनुष्य पदे [केवलीनी अपेक्षाए] एकवचन तथा बहुवचनवडे चरम छे. ४

४ संज्ञाद्वार.

२६. लेइयासहित यावत्—शुक्कलेइयावाळो आहारकनी पेठे (सू० २३) जाणवो. विशेष ए के, जेने जे लेइया होय ते तेने कहेवी.
लेइयासहित जीव नोसज्ञीनोअसज्ञीनी पेठे जाणवो. ५.

५ लेइयाद्वार.

२७. सम्यग्दृष्टि अनाहारक पेठे अने मिथ्यादृष्टि आहारकनी पेठे (सू० २३) जाणवो. वळी एकेंद्रिय तथा विकलेन्द्रिय सिवायनो

६ दृष्टिद्वार.

२१ * जे नैरयिक नरकगतिमाथी नीकळी करी नरकमा न जता मोक्ष अद्यो ते नैरयिकभावनो सर्वदा अन्त करे छे माटे चरम कहेवाय छे अने तेथी
भिन्न अचरम कहेवाय छे ए प्रमाणे यावत् वैमानिक सुधी जाणहुं सिद्धत्वनो सर्वदा अन्त थतो नथी माटे ते अचरम जाणवा—टीका.

२३ † आहारक वधा जीवादि पदमा चरम के अचरम जाणवा जे पछीना समये निर्वाण पामशे ते चरम अने तेथी भिन्न ते अचरम आहा-
रक जाणवा.

२४ ‡ सिद्धिगमन वडे भव्यत्वनो अन्त थतो होवाथी भवसिद्धिक चरम होय छे अमवसिद्धिकनो अन्त नहि थतो होवाथी ते अचरम होय छे. नोभव-
सिद्धिक—नोअभवसिद्धिक सिद्धो होय छे अने ते अमवसिद्धिकनी पेठे अचरम जाणवा.

२७ § सम्यग्दृष्टि अनाहारकनी पेठे चरम तथा अचरम जाणवा अनाहारक जीव अने सिद्ध ए वने स्थानके होय छे, तेना जीव अचरम छे, कारण के
ते सम्यग्दर्शनथी पथी अवश्य तेने प्राप्त करे छे, अने सिद्ध चरम छे, कारण के ते सम्यग्दर्शनथी पठताज नथी सम्यग्दृष्टि नैरयिकादि जे सम्यग्दर्शन फरीथी
पामशे नहि ते चरम अने ते सिवायना बीजा अचरम कहेवाय छे मिथ्यादृष्टि जीव आहारकनी पेठे कदाचित् चरम अने कदाचित् अचरम जाणवा. जे निर्वाण
पामशे ते मिथ्यादृष्टिपणे चरम अने ते सिवायना बीजा अचरम मिथ्यादृष्टि नारकादि जे मिथ्यात्वसहित नारकादिपण फरीवार पामशे नहि ते चरम अने
तेथी भिन्न अचरम कहेवाय छे मिथ्यादृष्टि एकेन्द्रिय अने विकलेन्द्रियने होती नथी माटे मिथ्यादृष्टि सवन्थे नारकादि वडरमा एकेन्द्रिय अने विकलेन्द्रिय न
कहेवा. तथा सम्यग्दृष्टि सवन्थे एकेन्द्रिय पण न कहेवा, कारण तेओने सिद्धान्तने मते मात्थादन सम्यग्दर्शन होतु नथी.

२८. संजथो जीवो मणुस्सो य जहा आहारओ, अस्संजथो वि तहेव, संजयासंजए वि तहेव, नवरं जस्स जं अत्थि । नोसंजय-नोअसंजय-नोसंजयासंजया जहा नोभवसिद्धीय-नोअभवसिद्धीथो ७ ।

२९. सकसाई जाव-लोमकसायी सव्वट्टाणेषु जहा आहारओ, अकसायी जीवपदे सिद्धे य नो चरिमो, अचरिमो, मणुस्सपदे सिय चरिमो, सिय अचरिमो ८ ।

३०. णाणी जहा सम्महिट्ठी सव्वत्थ, आभिणित्रोहियनाणी, जाव-मणपज्जवनाणी जहा आहारओ, नवरं जस्स जं अत्थि । केवल्लनाणी जहा नोसन्नी-नोअसन्नी, अन्नाणी जाव-विभंगनाणी जहा आहारओ ९ ।

३१. सजोगी जाव-कायजोगी जहा आहारओ, जस्स जो जोगो अत्थि । अजोगी जहा नोसन्नी-नोअसन्नी १० ।

३२. सागारोवउत्तो अणागारोवउत्तो य जहा अणाहारओ ११ ।

३३. सवेदथो जाव-नपुंसकवेदथो जहा आहारओ, अवेदथो जहा अकसाई १२ ।

३४. ससररी जाव-कम्मगसररी जहा आहारओ, नवरं जस्स जं अत्थि । असररी जहा नोभवसिद्धीय-नोअभवसिद्धीय १३ ।

मिश्रदृष्टि जीव कदाच चरम पण होय छे अने कदाच अचरम पण होय छे. ए प्रमाणे बहुवचनवडे चरम अने अचरम बन्ने जाणवा. ६

७ संयतज्ञार

२८. *संयत जीव तथा मनुष्य ए बन्ने पदे आहारकनी पेटे (सू० २३) जाणवा. बळी असंयत अने संयतासंयत पण तेज प्रमाणे समजवा. विशेष ए के, जे जेने होय तेने ते कहेवुं. तथा नोसंयत-नोअसंयत-नोसंयतासंयत नोभवसिद्धिक-नोअभवसिद्धिकनी पेटे (सू० २४) अचरम समजवा. ७

८ कपायज्ञार.

२९. †सकपायी यावत्-लोमकपायी सर्वस्थानोमा आहारकनी पेटे समजवा. अकपायी-जीव अने सिद्ध ए बन्ने चरम नथी पण अचरम छे. अने अकपायी मनुष्य कदाच चरम पण होय छे अने कदाच अचरम पण होय छे ८.

९ ज्ञानज्ञार.

३०. ‡ज्ञानी सर्वत्र सम्यग्दृष्टिनी पेटे बन्ने प्रकारना जाणवा. मतिज्ञानी यावत्-मन पर्यवज्ञानी आहारकनी पेटे समजवा. विशेष ए के, जेने जे ज्ञान होय तेने ते कहेवुं. केवलज्ञानी, नोसंजी-नोअसंजीनी पेटे अचरम जाणवा. तथा अज्ञानी यावत्-विभंगज्ञानी आहारकनी पेटे बन्ने प्रकारना समजवा. ९

१० योगज्ञार.

३१. सयोगी यावत्-काययोगी आहारकनी पेटे समजवा. विशेष ए के, जेने जे योग होय ते तेने कहेवो अने. अयोगी नोसंजी-नोअसंजीनी पेटे जाणवा. १०

११ साकारोपयोगज्ञार.

३२. साकारोपयोगवाळा अने अनाकारोपयोगवाळा अनाहारकनी पेटे चरम अने अचरम जाणवा. ११

१२ वेदज्ञार.

३३. सवेदक यावत्-नपुंसकवेदवाळा आहारकनी पेटे जाणवा. अवेदक अकपायीनी पेटे समजवा. १२

१३ शरीरज्ञार.

३४. सशरीरी यावत्-कर्मणशरीरवाळा आहारकनी पेटे जाणवा. विशेष ए के, जेने जे शरीर होय तेने ते कहेवुं. अशरीरी, नोभवसिद्धिक-नोअभवसिद्धिक सिद्धनी पेटे समजवा. १३

०८ * संयत जीव चरम अने अचरम बन्ने प्रकारे होय छे जेने फरीथी संयतपण प्राप्त थवानु नथी ते चरम अने तेथी इतर अचरम कहेवाय छे ए प्रमाणे मनुष्य संयते पण जाणवु अचरम पण आहारकनी पेटे चरम अने अचरम बन्ने प्रकारना होय छे. संयतासंयत-देशानिरत पण ए प्रमाणे जाणवा, परन्तु देशानिरतपण जीव, पचेन्द्रिय तिर्यक् अने मनुष्य ए त्रणे स्थानके होय छे. नोसंयतासंयत-सिद्ध अचरम जाणवा कारण के सिद्धत्व निल होवथी तेनी चरम क्षय होतो नथी.

२९ † मनुष्याधी जीवादि कदाचित् चरम होय अने कदाचित् अचरम पण होय. जे निर्वाण पामये ते चरम अने अन्य अचरम.

३० ‡ सम्यग्दृष्टिनी पेटे ज्ञानी जीव अने सिद्ध अचरम जाणवा कारण के जीव ज्ञानावस्थायी पडे तो पण तेने ते अवश्य फरीथी प्राप्त याय छे माटे अचरम अने सिद्ध अवश्य ज्ञानानुसामाज रहे छे माटे अचरम बाकीना जेओने ज्ञानमहित नारक्यादिनी प्राप्तिनो फरीथी असंभव छे ते चरम, तेथी अन्य थीना अचरम आभिनयोधिकर ज्ञानी आहारकनी पेटे चरम अचरम एम बन्ने प्रकारना जाणवा तेमा जे आभिनयोधिकर ज्ञानने केवलज्ञाननी प्राप्ति यथाथी फरी नदि पामे ते चरम अने ते सिवाय चीजा ते अचरम. केवलज्ञानी अचरम होय छे.

३५. पंचहिं पञ्जर्त्तीहिं पंचहिं अपञ्जर्त्तीहिं जहा आहारओ, सव्वत्थ एगत्तपुहुत्तेणं दंडगा भाणियथा १४ ॥ इमा
लक्खणगाहा—

“जो जं पाविहिति पुणो भावं सो तेण अचरिमो होइ । अच्चंतविओगो जस्स जेण भावेण सो चरिमो” ॥

“सेवं भंते ! सेवं भंते” । त्ति जाव—विहरति । समत्तो ।

अठरसमे सए पढमो उद्देशो समत्तो ।

३५. पांच पर्यासिबडे पर्यासा अने पांच अपर्यासिबडे अपर्यासा संबंधे एकवचन तथा बहुवचनबडे सर्वत्र आहारकनी पेठे
दंडक कहेवो. १४ चरम अने अचरमना स्वरूपने जणावनारी आ गाथा छे—“जे जीव जे भावने फरीवार पामशे, ते भावनी अपेक्षाए ते
जीव अचरम कहेवाय छे, अने जे जीवने जे भावनो तदन वियोग होय छे, ते भावनी अपेक्षाए ते जीव चरम कहेवाय छे.” हे भगवन् !
ते एमज छे हे भगवन् ! ते एमज छे’ एम कही यावत्—विहरे छे.

१४ पर्यासद्वार-

अठारमा शतकमां प्रथम उद्देशक समाप्त.

वीओ उद्देशो.

१. तेणं कालेणं तेणं समएणं विसाहा नामं नगरी होत्था । वन्नओ । बहुपुत्तिए चेइए । वन्नओ । सामी समोसडे,
जाव—पञ्जुवासइ । तेणं कालेणं तेणं समएण सक्के देविंदे देवराया वज्जपाणी पुरंदरे—एवं जहा सोलसमसए वित्तियउद्देशए
तहेव दिव्वेणं जाणविमाणेणं आगओ । नवरं एत्थ आभियोगा वि अत्थि, जाव—वत्तीसत्तिविहं नट्टविहिं उवदंसेत्ति, उवदंसेत्ता
जाव—पडिगए ।

२. ‘भंते’त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं जाव—एवं वयासी—जहा तईयसए ईसाणस्स तहेव कूडागा-
रदिट्टतो, तहेव पुधभवपुच्छा, जाव—अभिसमन्नागया ? [उ०] ‘गोयमा’दि समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-
‘एवं खल्लु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे हत्थिणापुरे नामं नगरे होत्था । वन्नओ ।
सहस्संभवणे उज्जाणे । वन्नओ । तत्थ णं हत्थिणागपुरे नगरे कत्तिए नामं सेट्टी परिवसत्ति, अहे, जाव—अपरिभूए, णेगमपढ-
मासणिए, णेगमट्टसहस्सस्स बहुसु कजेसु य कारणेसु य कोडुंवेसु य—एवं जहा रायप्पसेणइज्जे चित्ते जाव—चक्खुभूए,
णेगमट्टसहस्सस्स सयस्स य कुंडुंवस्स आहेवच्चं जाव—कारेमाणे पाळेमाणे, समणोवासए, अहिगयजीवाजीवे जाव—विहरति ।

द्वितीय उद्देशक.

१. ते काले, ते समये विशाखा नामे नगरी हती. वर्णक. अने त्या बहुपुत्रिक नामे चैत्य हतुं. वर्णक. महावीर स्वामी समवसर्या.
यावत्—परिपद् पर्थुपासना करे छे. ते काले, ते समये शक्र देवेन्द्र, देवराज, वज्रपाणि, पुरंदर—इत्यादि सोलमा शतकना वीजा उद्देशकमा
शक्रनी वक्तव्यता कही छे ते प्रमाणे यावत्—ते दिव्यविमाननां वेसीने आव्यो. विशेष ए के, आ स्थळे आभियोगिक देवो पण होय छे.
यावत्—तेणे आवी घनीश प्रकारनो नाट्यविधि देखाव्यो, अने ते ज्यांथी आव्यो हतो त्या पाळो चाल्यो गयो.

याविकशेठ-

२. ‘हे भगवन् ! एम कही पूज्य गौतमे श्रमण भगवंत महावीरने यावत्—आ प्रमाणे कहुं के—जेम तृतीयशतकमा ईशानेद्र सवधे
कूडागार शालानो दृष्टांत अने पूर्वभवनो प्रश्न कर्यो छे तेम आ स्थळे यावत्—तेने ‘ऋद्धि अभिसुख थई’ त्या सुची वधुं कहेवुं. ‘हे
गौतम ! एम कही श्रमण भगवंत महावीरे पूज्य गौतमने आ प्रमाणे कहुं के—हे गौतम ! आ जंबुद्दीपना भारतवर्षमा हस्तिनापुर नामे
नगर हतुं. वर्णक. सहस्राभ्रवन नामे उद्यान हतुं. वर्णक. ते हस्तिनागपुर नगरमा धनिक यावत्—कोईयी परामव न पामे एवो, वणिको
मा पहेल्लं आसन प्राप्त करनार, एक हजार अने आठ वणिकोना घणा कार्यामां, कारणोमा अने कुटुम्बोमा यावत्—चक्षुरूप एवो कार्तिक
नामे शेट रहेतो हतो. जेम राजप्रश्रीयसूत्रमा चित्रसारथिनु वर्णन कर्नु छे तेम अहि वधुं वर्णन करतुं.—वळी ते कार्तिकशेठ
एक हजार आठ वणिकोतुं अने पोताना कुटुम्बतुं अधिपतिपणुं करतो यावत्—पालन करतो रहेतो हतो. ते श्रमणोपासक तथा
जीवाजीव तत्वोनो जाणकार हतो.

३. तेणं कालेणं तेणं संमपणं मुणिसुव्वणं अरहा आदिगरे—जहा सोलसमसणं तद्देव जाव—समोसदे, जाव—परिसा पञ्जु-
वासति । तए णं से कत्तिए सेट्ठी इमीसे कहाए लड्ढे समाणे हट्टुट्टु० एवं जहा पञ्जारसमसणं मुदंसणे तद्देव निग्गयो,
जाव—पञ्जुवासति । तए णं मुणिसुव्वणं अरहा कत्तियस्स सेट्टिस्स धम्मकहा जाव—परिसा पडिगया ।

४. तए णं से कत्तिए सेट्ठी मुणिसुव्वणं जाव—निसम्म हट्टुट्टु० उट्टाए उट्टेति, उ० २ उट्टेत्ता मुणिसुव्वणं जाव—एवं
वयासी—‘एवमेयं भंते ! जाव—से जहेयं तुज्जे वदह जं, नवरं देवाणुप्पिया ! नेगमट्टसहस्सं आपुच्छामि, जेट्टुपुत्तं च कुडुंवे
टावेमि, तए णं अहं देवाणुप्पियाणं अंतियं पद्ययामि । अहासुहं जाव—मा पडियंथं । तए णं से कत्तिए सेट्ठी जाव—पडिनिस्स-
मति, २—मित्ता जेणेव हत्थिणागपुरे नगरे जेणेव सए मेहे तेणेव उवागच्छ, २—च्छित्ता नेगमट्टसहस्सं सहावेति, २—वेत्ता एवं
वयासी—‘एवं खलु देवाणुप्पिया ! मए मुणिसुव्वणस्स अरहओ अंतियं धम्मे निसन्ते, से वि य मे धम्मे इच्छिए, पडिच्छिए,
अभिरुद्धए । तए णं अहं देवाणुप्पिया ! संसारभयुच्चिग्गे, जाव—पद्ययामि, तं तुज्जे णं देवाणुप्पिया ! किं करेह, किं ववसह,
किं भे हियइच्छिए, किं भे सामत्ये ? तए णं तं नेगमट्टसहस्सं पि तं कत्तियं सेट्टि एवं वयासी—‘जह णं देवाणुप्पिया !
संसारभयुच्चिग्गा जाव पद्यदस्संति, अहं देवाणुप्पिया ! किं अन्ने आलंघणे वा, आहारे वा, पडिवंधे वा ? अहं वि णं देवाणु-
प्पिया ! संसारभयुच्चिग्गा भीया जम्मणमरणणं देवाणुप्पियाहिं सडिं मुणिसुव्वणस्स अरहओ अंतियं मुंडा भवित्ता आगा-
राओ जाव—पद्ययामो’ ।

५. तए णं से कत्तिए सेट्ठी तं नेगमट्टसहस्सं एवं वयासी—‘जदि णं देवाणुप्पिया ! संसारभयुच्चिग्गा भीया जम्मणमर-
णणं मए सडिं मुणिसुव्वणं जाव—पद्ययह, तं गच्छह णं तुज्जे देवाणुप्पिया ! सएणु गिहेसु, विपुलं असणं जाव—उवक्ख-
डावेह, मित्तनाइ० जाव—जेट्टुपुत्तं कुडुंवे टावेह, जेट्टु० २ टावेत्ता तं मित्तनाइ० जाव—जेट्टुपुत्ते आपुच्छह, आपुच्छेत्ता
पुरिस्सहस्सवाहिणीओ सीयाओ दुरूहह, दुरुहिता मित्तनाइ० जाव—परिजणेणं जेट्टुपुत्तेहि य समणुगम्ममाणमग्गा सव्वहीए
जाव—ख्वेणं अकालपरिहीणं चय मम अंतियं पाउअभवह’ । तए णं ते नेगमट्टसहस्सं पि कत्तियस्स सेट्टिस्स एयमट्टं विणएणं
पडिसुणंति, पडिसुणेत्ता जेणेव साइं साइं गिहाइं तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता विपुलं असणं जाव—उवक्खडावेति, उव-

३. ते काले, ते समये धर्मना आदिकर—इत्यादि वर्णन जेम *सोळ्मा शतकमा करवामा आव्युं छे तेवा मुनिसुव्वत-तीर्थकरे
समोसर्था अने यावत्—पर्यदाए पर्युपासना करी. लारवाद कार्तिकशेठ भगवंत आव्यानी वात साभळी हर्षवाओ अने संतुष्ट थयो—इत्यादि
जेम अगीयारमा शतकमा कहेवामा आव्युं छे एवा †मुदरुंन शेठनी पेठे वादवा नीकळ्यो अने यावत्—तेणे भगवंतनी पर्युपासना करी—
वगेरे वधुं कहेवुं. पछी मुनिसुव्वत अहंते कार्तिक शेठने धर्मकथा कही, यावत्—परिपद् पाछी गइ.

४. लारवाद कार्तिकशेठ, मुनिसुव्वत अहंत पासेयी यावत्—धर्मने साभळी, अवधारी प्रसन्न अने संतुष्ट थई उमो थयो; जठीने
मुनिसुव्वत अहंतने यावत्—आ प्रमाणे कहुं के—‘हे भगवन् ! ते एज प्रमाणे छे के यावत्—आप जे प्रमाणे कहो छो. परन्तु हे देवानु-
प्रिय ! एक हजार आठ वणिकोने पूछी मोटा पुत्रने कुटुम्बनो भार सोंपी देवानुप्रिय एवा आपनी पासे प्रत्रय्या लेवा इच्छुं छुं. श्रीमुनिसु-
व्वत भगवंते कहुं के, ‘जेम सुख याय तेम करो, यावत्—प्रतिबंध न करो.’ लारवाद कार्तिक शेठ यावत्—स्वायी नीकळी ज्या हस्तिनाग-
पुर नगर छे, अने ज्या पोतानुं घर छे त्या आव्यो. पछी तेणे एक हजार आठ वणिकोने बोलावी आ प्रमाणे कहुं—‘हे देवानुप्रियो !
मैं मुनिसुव्वत अहंत पासेयी धर्म सांभळ्यो छे, अने ते धर्म मने इष्ट, विशेष इष्ट अने प्रिय छे. तथा हे देवानुप्रियो ! ते धर्म साभळी हुं
संसारभययी उद्विग्न थयो छुं, यावत्—प्रत्रय्या लेवा इच्छुं छुं. माटे हे देवानुप्रियो ! तमे शुं करवा इच्छो छो, गी प्रवृत्ति करवा धारो छो,
तमारा हृदयने शुं इष्ट छे, अने तमारुं सामर्थ्य शुं छे’ ? लारवाद ते एक हजार आठ वणिकोए ते कार्तिकशेठने आ प्रमाणे कह्यु—‘हे
देवानुप्रिय ! जो तमे संसारभययी उद्विग्न थई यावत्—प्रत्रय्या ग्रहण करसो तो अमने वीजु शु आलंघन छे, वीजो थो आधार छे, अने
वीजो थो प्रतिबन्ध छे ? हे देवानुप्रिय ! अमे पण संसारभययी उद्विग्न थया छीए, जन्म अने मरणयी भय पाम्या छीए, तो आपनी साथे
मुनिसुव्वत अहंतनी पासे मुंड थईने गृहलाग करी अनगरपणुं यावत्—ग्रहण करीशुं.

५. लारवाद ते कार्तिकशेठे ते एक हजार आठ वणिकोने आ प्रमाणे कहुं के, हे देवानुप्रियो ! जो तमे पण संसार भययी
उद्विग्न थया हो, जन्म अने मरणयी भय पाम्या हो, तथा मारी साथेज मुनिसुव्वत अहंत पासे यावत्—प्रत्रय्या लेवा इच्छना हो तो तमे
तमारे घेर जाओ, अने पुष्कळ अज्ञानादि यावत्—तैयार करावी, मित्र ज्ञाति वगेरेने बोलावी यावत्—ज्येष्ठ पुत्रने कुटुम्बनो भार सोपी अने
मित्रादिक तथा ज्येष्ठ पुत्रने पूछी हजार पुरुषो वडे उचकी शक्या तेवी शिविकामां वेसी, अने मार्गमा तमारी पाछळ चालता मित्र ज्ञाति
यावत्—परिवार वडे अने ज्येष्ठ पुत्र वडे अनुसरायेळ, सर्वकद्धियी युक्त यावत्—वाद्योना घोषपूर्वक बिलंब कर्था सिवाय मारी पासे जावो.
लार पछी कार्तिक शेठना ए कथनने विनयपूर्वक स्वीकारारी ते वधा वणिको पोतपोताने घेर गया अने तेओए पुष्कळ अज्ञान, पान, यावत्—

कषडावेत्ता मित्तनाइ० जाव-तस्सेव मित्तनाइ० जाव-पुरओ जेट्टपुत्ते कुडुंवे ठावेति, जेट्ट० २ ठावेत्ता तं मित्तनाइ० जाव-जेट्टपुत्ते य आपुच्छंति, जेट्ट० २ आपुच्छेत्ता पुरिससहस्सवाहिणीओ सीयाओ दुरुहंति, दुरुहित्ता मित्तणाति० जाव-परिजणेणं जेट्टपुत्तेहि य समणुगम्ममाणमग्गा सच्चद्वीए जाव-रवेणं अकालपरिहीणं चेव कत्तियस्स सेट्टिस्स अंतियं पाउभवंति ।

६. तए णं से कत्तिए सेट्टी विपुलं असणं ४ जहा गंगदत्तो जाव-मित्त-णाति० जाव-परिजणेणं जेट्टपुत्तेणं णेगमट्टसहस्सेण य समणुगम्ममाणमग्गे सच्चद्विए जाव-रवेणं हत्थिणापुरं नगरं मज्झमज्जेणं जहा गंगदत्तो जाव-आलित्ते णं भंते ! लोए, पलित्ते णं भंते ! लोए, आलित्तपलित्ते णं भंते ! लोए, जाव-अणुगामियत्ताए भविस्सति, तं इच्छामि णं भंते ! णेगमट्टसहस्सेण सद्धिं सयमेव पद्दावियं, जाव-धम्ममाइक्खइयं । तए णं मुणिसुद्धए अरहा कत्तियं सेट्टिं णेगमट्टसहस्सेणं सद्धिं सयमेव पद्दावेति, जाव-धम्ममाइक्खइ-एवं देवाणुप्पिया ! गंतव्वं, एवं चिट्ठियव्वं, जाव-संजमियव्वं ।

७. तए णं से कत्तिए सेट्टी नेगमट्टसहस्सेणं सद्धिं मुणिसुद्धयस्स अरहओ इमं एयारूढं धम्मियं उवदेसं सम्मं पडि-वज्जइ, तमाणए तहा गच्छति, जाव-संजमेति । तए णं से कत्तिए सेट्टी णेगमट्टसहस्सेणं सद्धिं अणगारे जाए, ईरियास-मिए जाव-गुत्तवंभयायासी । तए णं से कत्तिए अणगारे मुणिसुद्धयस्स अरहओ तहारूवाणं थेराणं अंतियं सामाइयमाइयाइं चोइस पुद्दाइं अहिज्जइ, सा० २ अहिज्जित्ता वहुहिं चउत्थ छट्ट-ट्टम० जाव-अप्पाणं भावेमाणे वहुपडिपुद्दाइं दुवालस वा-साइं सामन्नपरियाणं पाउणइ, पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अत्ताणं झोसेइ, मा० २ झोसित्ता सट्ठिं भत्ताइं अणसणाए छेदेति, स० २ छेदेत्ता आलोइय० जाव-कालं किच्चा सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडेंसए विमाणे उववायसभाए देवसयणिज्जंसि जाव-सक्के देविंदत्ताए उववन्ने । तए णं से सक्के देविंदे देवराया अहुणोववण्णे० सेसं जहा गंगदत्तस्स जाव-अंतं काहिति, नवरं ठिती दो सागरोवमाइं, सेसं तं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते'त्ति ।

अट्टारसमे सए वीओ उद्देशो समत्तो ।

तैयार करावी पोताना मित्र, ज्ञाति यावत्-खजनने वोलावी अने तेओनी समक्ष यावत्-मोटा पुत्रने कुटुंबनो भार सोंपी ते मित्र, ज्ञाति वगरे अने पुत्रने धूळी हजार पुरुपोथी उपाडी शकाय एवी शिविकामा वेसी, मार्गमां मित्र, ज्ञाति यावत्-परिजन वडे तथा ज्येष्ठ पुत्र वडे अनुसराता, यावत्-सर्वऋद्धियुक्त वाचना घोपपूर्वक तेओ तुरत कार्तिक शेठनी पासे हाजर थया.

६. ल्यार वाद ते कार्तिक शेठे *गंगदत्तनी पेठे पुक्कळ अशन-यावत्-तैयार कराव्या. यावत्-मित्र, ज्ञाति, यावत्-परिवार, ज्येष्ठ पुत्र अने एक हजारने आठ वणिको वडे अनुसरातो सर्व ऋद्धिथी युक्त एवो कार्तिक शेठ यावत्-वाचना घोपपूर्वक हस्तिनापुर नगरनी वच्चोवच्च थई गंगदत्तनी पेठे नीकळ्यो, अने श्री मुनिसुव्रत अहंत पासे जई आ प्रमाणे वोल्यो—'हे भगवन् ! आ संसार चो तरफ सळगी रहेलो छे, हे भगवन् ! आ संसार अत्यन्त प्रव्वलित थई रहेलो छे, हे भगवन् ! आ संसार चो तरफ अत्यंत प्रव्वलित थई रहेलो छे. माटे आपनी पासे प्रत्रज्या ग्रहण करवी ए मने श्रेयोरूप थशे तेथी हे भगवन् ! आ एक हजार आठ वणिको साथे हूं आपनी पासे खयमेव प्रत्रज्या लेवाने अने आपे कहेल धर्म सामळवाने इच्छूं छूं.' ल्यार पछी श्रीमुनिसुव्रत अहंते ते कार्तिक शेठने एक हजार आठ वणिको साथे प्रत्रज्या आपी अने यावत्-धर्मोपदेश कर्यो—'हे देवानुप्रियो ! आ प्रमाणे चालवुं, आ प्रमाणे रहेवुं-इत्यादि यावत्-आ प्रमाणे संयमनुं पालन करवुं.'

७. ल्यार वाद ते कार्तिक शेठे एक हजार आठ वणिको साथे मुनिसुव्रत अहंते कहेला आवा प्रकारना धार्मिक उपदेशनो सारी रीते म्नीकार कर्यो, अने तेणे तेमनी आज्ञा प्रमाणे तेवीज रीते आचरण कर्युं, यावत्-संयमनुं पालन कर्युं. ल्यार वाद ते कार्तिक शेठ एक हजार आठ वणिको साथे अनगार थया, ईर्यासमितियुक्त अने यावत्-गुप्त ब्रह्मचारी-ब्रह्मचर्यनी गुप्तिने धारण करनारा थया. पछी ते कार्तिक अनगारे मुनिसुव्रत अहंतना तेवा प्रकारना स्थविरोनी पासे सामायिकथी आरमी चौद पूर्व पर्यंत अच्ययन कर्युं, अने घणा उपवास, छट्ट तथा अट्टमोथी यावत्-आत्माने भावित करता सम्पूर्ण वार वरस श्रमणपर्याय पाळ्यो. ल्यार वाद ते कार्तिक शेठ एक मासनी सलेखना तप वडे शरीरने शोपवी साठ भक्त (त्रीश दिवस) अनशनपणे वीतावी, आलोचना करी यावत्-काळ करी सौधर्म कल्पमा सौधर्मावतंसक नामना विमानमा आवेली उपपातसभामा देवशयनीय विपे यावत्-शक्र-देवेद्रपणे उत्पन्न थया. ल्यार पछी हमणा उत्पन्न थयेल शक्र देवेन्द्र देवराज इत्यादि—'वधी वक्तव्यता 'गंगदत्तनी जेम कहेवी, यावत्-ते सर्व दुःखोनो अंत करशे.' पण विशेष ए के, (शक्रनी) स्थिति वे सागरोपमनी छे. वाकी वधुं तेज प्रमाणे जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

अट्टारमा शतकमां द्वितीय उद्देशक समाप्त.

तईओ उद्देशो.

१. तेणं कालेणं तेणं समणं रायगिहे नगरे ह्येत्या । वण्णो । गुणसिल्लप चैय्य । वण्णो । जाव—परिसा पडिगया । तेणं कालेणं तेणं समणं समणस्स भगवणो महावीरस्स जाव—अंतेवासी मागंदियपुत्ते नामं अणगारे पगइमइय—अहा मंडि-यपुत्ते जाव—पञ्जुवासमाणे एवं वयासी—

[प्र०] से नूनं भंते ! काउलेस्से पुढविकाइय काउलेस्सेहिंते पुढविकाइयहिंते अणंतरं उच्चट्टिता माणुसं विग्गइ लमति, मा० २ लमिच्चा केवलं बोहिं बुज्जति, के० २ बुज्जिता तथो पच्छा सिज्जति, जाव—अंतं करेति ? [उ०] हंता मागंदियपुत्ता ! काउलेस्से पुढविकाइय जाव—अंतं करेति ।

२. [प्र०] से नूनं भंते ! काउलेसे आउकाइय काउलेसेहिंते आउकाइयहिंते अणंतरं उच्चट्टिता माणुसं विग्गइ लमति, मा० २ लमिच्चा केवलं बोहिं बुज्जति, जाव अंतं करेति ? [उ०] हंता मागंदियपुत्ता ! जाव—अंतं करेति ।

३. [प्र०] से नूनं भंते ! काउलेस्से वणस्सइकाइय—एवं चैव जाव—अंतं करेति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति मागं-दियपुत्ते अणगारे समणं भगवं महावीरं जाव—नमंसित्ता जेणेव समणे निग्गंथे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणे निग्गंथे एवं वयासी—एवं खलु अज्जो ! काउलेस्से पुढविकाइय तहेव जाव—अंतं करेति, एवं खलु अज्जो ! काउलेस्से आउकाइय जाव—अंतं करेति, एवं खलु अज्जो ! काउलेस्से वणस्सइकाइय जाव—अंतं करेति । तए णं ते समणा निग्गंथा मागंदियपुत्तस्स अणगारस्स एवमाइस्समाणस्स जाव—एवं परुवेमाणस्स एयमट्ठं नो सइहंति ३, एयमट्ठं असइहमाणा ३ जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी—[प्र०] एवं खलु भंते ! मागंदियपुत्ते अणगारे अट्ठं एवमाइस्सति, जाव—परुवेति—एवं खलु अज्जो ! काउलेस्से पुढविकाइय जाव—अंतं करेति, एवं खलु अज्जो ! काउलेस्से आउकाइय जाव—अंतं करेति, एवं वणस्सइकाइय वि जाव—अंतं करेति' से कहभेयं भंते ! एवं ? [उ०] 'अज्जो त्ति समणे भगवं महावीरे ते समणे निग्गंथे आमंतित्ता एवं वयासी—'अण-

तृतीय उद्देशक.

१. ते काले, ते समये राजगृह नामे नगर हतुं. वर्णक. गुणसिल्लक चैय्य हतुं. वर्णक. यावत्—पर्यदा वादीने पाटी गई. ते काले, ते समये श्रमण भगवंत महावीरना अंतेवासी यावत्—भद्रप्रकृतिवाज्या माकंदिपुत्र अनगारे, *मंडितपुत्र अनगारनी जेम पर्युपासना करतां श्रमण भगवंत महावीरने आ प्रमाणे प्रश्न कर्यो—[प्र०] हे भगवन् ! कापोतलेय्यावाळो पृथिवीकायिक जीव, कापोतलेय्यावाळा पृथिवीकायिकोमायी मरण पामी तुरतज मनुष्यना शरीरने प्राप्त करी, केवलज्ञान प्राप्त करे अने त्थार वाद सिद्ध थाय, यावत्—सर्वदु खोनो नाश करे ? [उ०] हे माकंदिकपुत्र ! हा, कापोतलेय्यावाळो पृथिवीकायिक, यावत्—सर्व दु.खोनो नाश करे.

२. [प्र०] हे भगवन् ! कापोतलेय्यावाळो अष्कायिक, कापोतलेय्यावाळा अष्कायिकोमायी मरण पामी तुरतज मनुष्यशरीर प्राप्त करी केवलज्ञान प्राप्त करे अने त्थार वाद सिद्ध थाय, यावत्—सर्वदु खोनो नाश करे ? [उ०] हे माकंदिकपुत्र ! हा, ते यावत्—सर्व दुःखोनो नाश करे.

३. हे भगवन् ! कापोतलेय्यावाळो वनस्पतिकायिक जीव, वनस्पतिकायिकोमायी नाकळी—इत्यादि प्रश्न, अने उत्तर पूर्व प्रमाणे जाणवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे हे भगवन् ! ते एमज छे' एम कही माकंदिकपुत्र अनगार श्रमण भगवंत महावीरने वादी, नमी प्या श्रमण निर्प्रंथो छे ला आनी ते श्रमण निर्प्रंथोने तेणे आ प्रमाणे कहं—'हे आर्यो ! कापोतलेय्यावाळो पृथिवीकायिक यावत्—सर्वदु खोनो नाश करे, तेज प्रकारे हे आर्यो ! कापोतलेय्यावाळो अष्कायिक अने वनस्पतिकायिक जीव पण यावत्—सर्व दुःखोनो नाश करे.'—ए प्रमाणे कथन करता यावत्—प्ररूपणा करता माकंदिकपुत्र अनगारनी आ वानने ते श्रमण निर्प्रंथोए मान्य न करी अने तेजो एयां श्रमण भगवंत महावीर विराजमान हता त्यां आख्या; ला आनीने श्रमण भगवंत महावीरने वादी नमी यावत्—तेओ आ प्रमाणे बोल्या—[प्र०] हे भगवन् ! माकंदिकपुत्र अनगारे अमने आ प्रमाणे कहं छे, यावत्—प्ररूप्युं छे के हे आर्यो ! कापोतलेय्यावाळो पृथिवीकायिक, कापोतलेय्यावाळो अष्कायिक अने कापोतलेय्यावाळो वनस्पतिकायिक यावत्—सर्वदु खोनो नाश करे छे. तो हे भगवन् ! ते एम केवी रीते होय ? [उ०] 'हे आर्यो !' एम संत्रोवी ते श्रमण निर्प्रंथोने श्रमण भगवंत महावीरे आ प्रमाणे कहं—'हे आर्यो ! माकंदिकपुत्र अनगारे तमने जे कहं छे, यावत्—जे प्ररूप्युं छे के कापोतलेय्यावाळो पृथिवीकायिक, कापोतलेय्यावाळो अष्कायिक अने कापोतलेय्यावाळो वनस्पतिकायिक पण यावत्—सर्व दु खोनो नाश करे छे.' ते वात सत्य छे; हे आर्यो ! हं पण एज प्रमाणे कहं छुं के,

अज्जो ! मागंदियपुत्ते अणगारे तुज्जे एवं आइवखति, जाव परूवेति—एवं खलु अज्जो ! काउलेस्से पुढविकाइए जाव—अंतं करेति, एवं खलु अज्जो ! काउलेस्से आउकाइए जाव—अंतं करेति, एवं खलु अज्जो ! काउलेस्से वणस्सइकाइए वि जाव—अंतं करेति, सच्चं णं एसमट्ठे, अहं पि णं अज्जो ! एवमाइक्खामि ४—एवं खलु अज्जो ! कण्हलेस्से पुढविकाइए कण्हलेसेहिंतो पुढविकाइएहिंतो जाव—अंतं करेति, एवं खलु अज्जो ! नीललेस्से पुढविकाइए जाव—अंतं करेति, एवं काउलेस्से वि, जहा पुढविकाइए एवं आउकाइए वि, एवं वणस्सइकाइए वि, सच्चं णं एसमट्ठे । 'सेवं भंते ! सेवं भंते !' त्ति समणा निग्गंथा समणं भगवं महावीरं वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव मागंदियपुत्ते अणगारे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता मागंदियपुत्तं अणगारं वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एयमट्ठं सम्मं विणएणं भुज्जो २ खामेंति ।

४. तए णं से मागंदियपुत्ते अणगारे उट्ठाए उट्ठेति, जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छति, ते० २ उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी—[प्र०] अणगारस्स णं भंते ! भावियप्पणो सच्चं कम्मं वेदेमाणस्स, सच्चं कम्मं निज्जेमाणस्स सच्चं मारं मरमाणस्स, सच्चं सरीरं विप्पजहमाणस्स, चरिमं कम्मं वेदेमाणस्स, चरिमं कम्मं निज्जेमाणस्स, चरिमं सरीरं विप्पजहमाणस्स, चरिमं मारं मरमाणस्स मारणंतियं कम्मं वेदेमाणस्स, मारणंतियं कम्मं निज्जेमाणस्स, मारणंतियं मारं मरमाणस्स, मारणंतियं सरीरं विप्पजहमाणस्स जे चरिमा निज्जरापोग्गला सुहुमा णं ते पोग्गला पन्नत्ता समणाउसो ! सच्चं लोगं पि णं ते ओगाहित्ता णं चिट्ठंति ? [उ०] मागंदियपुत्ता ! अणगारस्स णं भंते ! भावियप्पणो जाव—ओगाहित्ता णं चिट्ठंति ।

५. [प्र०] छउमत्थे णं भंते ! मणुस्से तेसिं निज्जरापोग्गलाणं किंचि आणत्तं वा णाणत्तं वा० ? [उ०] एवं जहा इंदियउद्देसए पढमे जाव—वेमाणिया, जाव—तत्थ णं जे ते उवउत्ता ते जाणंति, पासंति, आहारंति, से तेणट्ठेणं निक्खेवो भाणिघो त्ति न पासंति, आहारंति ।

६. [प्र०] नेरइया णं भंते ! निज्जरापुग्गला न जाणंति न पासंति, आहारंति, एवं जाव—पांचिंदियतिरिक्खजोणियाणं ।

कृष्णलेइयावाळो पृथिवीकायिक कृष्णलेइयावाळा पृथिवीकायिकोथी नीकळी तुरत यावत्—सर्वं दुःखोनो नाश करे; ए प्रमाणे हे आर्यो ! नीललेइयावाळो तथा कापोतलेइयावाळो पृथिवीकायिक पण यावत्—सर्वं दुःखोनो नाश करे.' ए प्रमाणे पृथिवीकायिकनी पेटे अक्कायिक तथा वनस्पतिकायिक पण यावत्—सर्वं दुःखोनो नाश करे. ए वात सत्य छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे हे भगवन् ! ते एमज छे'—एम कही ते श्रमण निर्गयो श्रमण भगवंत महावीरने वांदी नमी, ज्यां माकंदिकपुत्र अनगार छे त्या आव्या, त्या आवीने तेओए माकंदिकपुत्र अनगारने वादी नमी ए वावत सम्यग् रीते विनयपूर्वक वारंवार खमाव्या.

४. ल्यार पछी माकंदिकपुत्र अनगार उठीने ज्या श्रमण भगवंत महावीर विराजमान छे त्या आव्या. आवीने भगवंतने वांदी नमी आ प्रमाणे कहुं—[प्र०]—हे भगवन् ! वधा कर्मने वेदता, वधा कर्मने निर्जरता, सर्व मरणे मरता अने सर्व शरीरने छोडता, तथा चरम—छेछा कर्मने वेदता, चरम कर्मने निर्जरता, चरम शरीरने छोडता, चरम मरणे मरता तथा मारणान्तिक कर्मने वेदता, मारणान्तिक कर्मने निर्जरता, मारणान्तिक मरणे मरता अने मारणान्तिक शरीरने छोडता भावितात्मा अनगारना जे चरम—छेछा निर्जराना पुद्गलो छे हे आयुप्पन् श्रमण ! ते पुद्गलोने सूक्ष्म कहेवामा आव्या छे, अने हे आयुप्पन् श्रमण ! ते पुद्गलो समग्र लोकने अग्रगाहीने रहे छे ? [उ०] हा, माकंदिकपुत्र ! भावितात्मा अनगारना ते चरम निर्जरापुद्गलो यावत्—समग्र लोकने व्यापीने रहे छे.

निर्जरा पुद्गलो सर्व-लोक व्यापी छे !

५. [प्र०] हे भगवन् ! छन्नस्थ मनुष्य ते निर्जरा पुद्गलोतुं परस्पर जुदापणुं यावत्—नानापणुं जाणे अने जुए ? [उ०] 'जेम प्रथम *इन्द्रियोद्देशकमा कहेवामा आव्युं छे ते प्रमाणे यावत्—[केटलाक देवो पण जाणता नथी अने जोता नथी] एम वैमानिको सुधी कहेतुं. तेमा जेओ उपयोगयुक्त छे तेओ ते पुद्गलोने जाणे छे, जुए छे अने ग्रहण करे छे. ते कारण माटे ए समग्र निक्षेप—पाठ कहेवो. यावत्—जेओ उपयोगरहित छे तेओ जाणता नथी, अने देखता नथी, पण ते पुद्गलोने आहार—ग्रहण करे छे.

छन्नस्थ निर्जरापुद्गल-लोतु मिश्रपणु जुए ?

६. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको संबंधे प्रश्न. [उ०] तेओ निर्जरापुद्गलोने जाणता नथी, जोता नथी, पण तेनो आहार करे छे. एम यावत्—पंचेन्द्रियतिर्यच्योनिक सुधी जाणतु.

५ * प्रज्ञा० पद १५ उ० १ प० २९२.

† जेओ विशिष्ट अवधिज्ञानादिना उपयोगयुक्त होय छे ते सूक्ष्म कामेण पुद्गलोने जाणे छे अने जुए छे पण जेओ विशिष्ट अवधिज्ञानादिना उपयोगरहित छे ते सूक्ष्म कामेण पुद्गलोने काइ पण जाणता के जोता नथी

‡ ओज आहार, लोमाहार अने प्रक्षेपाहार—ए त्रिविध आहारमाथी अहिं ओज आहार लेवो, कारण के कामेण शरीरद्वारा पुद्गलोतु ग्रहण करतुं ते ओज आहार कहेवाय छे अने ते आहार अहिं सभवे छे.

૭. [પ્ર૦] મણુસ્તા ણં મંતે ! નિજ્જરાપોગલે કિં જાણંતિ પાસંતિ આહારંતિ, ઉદાહુ ન જાણંતિ ન પાસંતિ નાહારંતિ ? [૩૦] ગોયમા ! અત્યેગદ્યા જાણંતિ ૩, અત્યેગદ્યા ન જાણંતિ ન પાસંતિ, આહારંતિ । [પ્ર૦] સે કેણટ્ટેણં મંતે ! એવં યુચ્છદ-અત્યેગદ્યા જાણંતિ પાસંતિ આહારંતિ, અત્યેગદ્યા ન જાણંતિ ન પાસંતિ, આહારંતિ ? [૩૦] ગોયમા ! મણુસ્તા દુવિદ્ધા પદ્મત્તા, તંજહા-સન્નીભૂયા ય અસન્નીભૂયા ય । તત્થ ણં જે તે અસન્નીભૂયા તે ન જાણંતિ ન પાસંતિ, આહારંતિ । તત્થ ણં જે તે સન્નીભૂયા તે દુવિદ્ધા પદ્મત્તા તંજહા-ઉવરત્તા અણુવરત્તા ય । તત્થ ણં જે તે અણુવરત્તા તે ન યાણંતિ ન પાસંતિ, આહારંતિ । તત્થ ણં જે તે ઉવરત્તા તે જાણંતિ ૩, સે તેણટ્ટેણં ગોયમા ! એવં યુચ્છદ-અત્યેગદ્યા ન જાણંતિ, ન પાસંતિ, આહારંતિ, અત્યેગદ્યા જાણંતિ ૩ । વાણમંતરજોશ્સિયા જહા નેરહયા ।

૮. [પ્ર૦] વેમાણિયા ણં મંતે ! તે નિજ્જરાપોગલે કિં જાણંતિ ૬ ? [૩૦] ગોયમા ! જહા, મણુસ્તા, નવરં વેમાણિયા દુવિદ્ધા પદ્મત્તા, તં જહા-માશ્મિચ્છદિટ્ટીઉવવદ્ધગા ય અમાશ્મમ્મિટ્ટીઉવવદ્ધગા ય । તત્થ ણં જે તે માશ્મિચ્છદિટ્ટીઉવવદ્ધગા તે ણં ન જાણંતિ ન પાસંતિ આહારંતિ । તત્થ ણં જે તે અમાશ્મમ્મિટ્ટીઉવવદ્ધગા તે દુવિદ્ધા પદ્મત્તા, તં જહા-અણંતરો-વવદ્ધગા ય પરંપરોવવદ્ધગા ય । તત્થ ણં જે તે અણંતરોવવદ્ધગા તે ણં ન યાણંતિ ન પાસંતિ આહારંતિ । તત્થ ણં જે તે પરં-પરોવવદ્ધગા તે દુવિદ્ધા પદ્મત્તા, તં જહા-પજ્જત્તગા ય અપજ્જત્તગા ય । તત્થ ણં જે તે અપજ્જત્તગા તે ણં ન જાણંતિ, ન પાસંતિ, આહારંતિ । તત્થ ણં જે તે પજ્જત્તગા તે દુવિદ્ધા પદ્મત્તા, તંજહા-ઉવરત્તા ય અણુવરત્તા ય, તત્થ ણં જે તે અણુવરત્તા તે ણ યાણંતિ ન પાસંતિ આહારંતિ ।

૯. [પ્ર૦] કત્તિવિદ્ધે ણં મંતે ! વંધે પદ્મત્તે ? [૩૦] માગંદિયપુત્તા ! દુવિદ્ધે પદ્મત્તે, તં જહા-દ્ધવંધે ય માવવંધે ય ।

૧૦. [પ્ર૦] દ્ધવંધે ણં મંતે ! કત્તિવિદ્ધે પદ્મત્તે ? [૩૦] માગંદિયપુત્તા ! દુવિદ્ધે પદ્મત્તે તં જહા-પલોગવંધે ય વીસ-સાવંધે ય ।

૭. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! મનુષ્યો શું નિર્જરા પુદ્ગલોને જાણે છે, જુદા છે અને આહારે છે-પ્રહણ કરે છે, કે જાણતા નથી, જોતા નથી અને પ્રહણ કરતા નથી ? [૩૦] હે ગૌતમ ! કેટલાક જાણે છે, જુદા છે અને આહારે છે, અને કેટલાક જાણતા નથી, જોતા નથી પણ તેઓનો આહાર કરે છે. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! આ માટે એમ કહેવામાં આવ્યું કે, કેટલાક જાણે છે, જુદા છે અને આહારે છે અને કેટલાક નથી જાણતા, નથી જોતા, પણ આહારે છે' ? [૩૦] હે ગૌતમ ! મનુષ્ય વે પ્રકારના કહ્યા છે, સન્નીરૂપ-મનસહિત અને અસન્નીરૂપ-મન-રહિત. તેમા જે અસન્નીરૂપ છે તે જાણતા નથી, જોતા નથી, પણ તે નિર્જરા પુદ્ગલોનો આહાર કરે છે, અને જે સન્નીરૂપ છે તે પણ વે પ્રકારના છે, ઉપયુક્ત અને અનુપયુક્ત. તેમા જે વિશિષ્ટ જ્ઞાનના ઉપયોગ રહિત છે તે જાણતા નથી, જોતા નથી, પણ આહાર કરે છે, જે વિશિષ્ટ જ્ઞાનના ઉપયોગવાળા છે તેઓ તેને જાણે છે, જુદા છે અને તેનો આહાર કરે છે, તે કારણથી હે ગૌતમ ! એમ કહેવાય છે કે કેટલાક જાણતા નથી, જોતા નથી પણ તેનો આહાર કરે છે અને કેટલાક જાણે છે, જુદા છે અને તેનો આહાર પણ કરે છે'. વાણમંતર અને યોતિષ્કોની વક્તવ્યતા નૈરયિકો પ્રમાણે સમજવી.

૮. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! વૈમાનિકો શું તે નિર્જરા પુદ્ગલોને જાણે છે, જુદા છે અને આહારે છે કે નથી જાણતા, નથી જોતા અને આહારતા પણ નથી ? [૩૦] હે ગૌતમ ! જેમ મનુષ્યોની વક્તવ્યતા કહી છે (સૂ. ૭) તેમ વૈમાનિકોની વક્તવ્યતા જાણવી. પરંતુ વિશેષ એ છે કે, વૈમાનિક વે પ્રકારના કહ્યા છે, તે આ પ્રમાણે-માયી મિથ્યાદૃષ્ટિ અને અમાયી સમ્યગ્દૃષ્ટિ. તેમા જે માયી મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવ છે તેઓ નિર્જરાપુદ્ગલોને જાણતા નથી, જોતા નથી પણ આહારે છે. તથા જે અમાયી સમ્યગ્દૃષ્ટિ છે, તે વે પ્રકારના કહ્યા છે, તે આ પ્રમાણે-અનંતરોપપન્નક અને પરપરોપપન્નક. તેમા જે અનંતરોપપન્નક-પ્રથમ સમયોત્પન્ન છે તે જાણતા નથી, જોતા નથી, પણ આહારે છે, અને જે પરપરોપપન્નક (જેને ઉત્પન્ન થયાને દ્વિતીયાદિ સમયો યથેચ્છ છે.) છે તે વે પ્રકારના કહ્યા છે, તે આ પ્રમાણે-પર્યાસક અને અપર્યાસક. તેમા જે અપર્યાસક છે તે જાણતા નથી, જોતા નથી, પણ આહારે છે. જે પર્યાસક છે તે વે પ્રકારના કહ્યા છે, તે આ પ્રમાણે-ઉપયુક્ત અને અનુપયુક્ત. તેમા જે અનુપયુક્ત છે તે જાણતા નથી, જોતા નથી પણ આહારે છે.

વન્ધ

૯. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! વંધ કેટલા પ્રકારનો કહ્યો છે ? [૩૦] હે માકંદિકપુત્ર ! વંધ વે પ્રકારનો કહ્યો છે, તે આ પ્રમાણે-દ્રવ્ય-વંધ અને માવવંધ.

૧૦. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! દ્રવ્યવંધ કેટલા પ્રકારનો કહ્યો છે ? [૩૦] હે માકંદિકપુત્ર ! વે પ્રકારનો કહ્યો છે, તે આ પ્રમાણે-પ્રયોગવન્ધ અને ચિત્તસાવન્ધ (સામાવિકવન્ધ).

૮ * અહિં ભગવતને પ્રશ્ન પૂછનાર તો માકંદિકપુત્ર છે, છતાં ભગવાને ગૌતમને સ્વૈચ્છી ઉત્તર આપ્યો તેનું કારણ એ છે કે, આ પાઠ પ્રજાપના સૂદ-માથી ઉદ્ભવ કરેલો છે અને પ્રજાપનાસૂત્રની રચનામૈત્રી પ્રાય ગૌતમપ્રશ્ન અને ભગવતના ઉત્તર રૂપ હોવાથી અહિં પણ તે સ્વયં પાઠ પ્રહણ કરેલો છે.

११. [प्र०] वीससाबंधे णं भंते! कतिविहे पन्नत्ते? [उ०] मागंदियपुत्ता! दुविहे पन्नत्ते, तं जहा—साइयवीससाबंधे य अणादीयवीससाबंधे य ।

१२. [प्र०] पयोगबंधे णं भंते! कतिविहे पन्नत्ते? [उ०] मागंदियपुत्ता! दुविहे पन्नत्ते, तं जहा—सिद्धिलबंधणवन्धे य धणियबंधणवन्धे य ।

१३. [प्र०] भावबंधे णं भंते! कतिविहे पन्नत्ते? [उ०] मागंदियपुत्ता! दुविहे पन्नत्ते, तं जहा—मूलपगडिबंधे य उत्तरपगडिबंधे य ।

१४. [प्र०] नेरइयाणं भंते! कतिविहे भावबंधे पन्नत्ते? [उ०] मागंदियपुत्ता! दुविहे भावबंधे पन्नत्ते, तं जहा—मूल-पगडिबंधे य उत्तरपगडिबंधे य । एवं जाव—वेमाणियाणं ।

१५. [प्र०] नाणावरणिज्जस्स णं भंते! कम्मस्स कतिविहे भावबंधे पन्नत्ते? [उ०] मागंदियपुत्ता! दुविहे भावबंधे पन्नत्ते, तं जहा—मूलपगडिबंधे य उत्तरपयडिबंधे य ।

१६. [प्र०] नेरतियाणं भंते! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कतिविहे भावबंधे पन्नत्ते? [उ०] मागंदियपुत्ता! दुविहे भावबंधे पन्नत्ते, तं जहा—मूलपगडिबंधे य उत्तरपयडि०, एवं जाव—वेमाणियाणं, जहा नाणावरणिज्जेणं दंडओ मणियो एवं जाव—अंतराइरणं भाणियधो ।

१७. [प्र०] जीवाणं भंते! पावे कम्मे जे य कडे, जाव—जे य कज्जिस्सइ, अत्थि याइ तस्स केइ णाणत्ते? [उ०] हंता अत्थि । [प्र०] से केणट्टेणं भंते! एवं बुच्चइ—‘जीवाणं पावे कम्मे जे य कडे, जाव—जे य कज्जिस्सति, अत्थि याइ तस्स णाणत्ते’? [उ०] मागंदियपुत्ता! से जहानामए—केइ पुरिसे धणुं परामुसइ, धणुं परामुसित्ता उखुं परामुसइ, उखुं परामुसित्ता ठाणं ठाइ, ठाणं ठायत्ता आययकन्नाययं उखुं करेति, आ० २ करेत्ता उहं वेहासं उच्चिइइ, से नूणं मागंदियपुत्ता! तस्स उखुस्स उहं

११. [प्र०] हे भगवन्! *विस्त्रसाबंध केटला प्रकारनो कह्यो छे? [उ०] हे मार्कंदिकपुत्र! ते वे प्रकारनो कह्यो छे, ते आ प्रमाणे—*सादि विस्त्रसाबन्ध अने अनादि विस्त्रसाबन्ध. विस्त्रसाबन्ध-

१२. [प्र०] हे भगवन्! प्रयोगबन्ध केटला प्रकारनो कह्यो छे? [उ०] हे मार्कंदिकपुत्र! ते वे प्रकारनो कह्यो छे, ते आ प्रमाणे—शिशिलबन्धनवाळो बन्ध अने गाढबन्धनवाळो बन्ध. प्रयोगबन्ध-

१३. [प्र०] हे भगवन्! भावबन्ध केटला प्रकारनो कह्यो छे? [उ०] हे मार्कंदिकपुत्र! वे प्रकारनो कह्यो छे, ते आ प्रमाणे—मूलप्रकृतिबन्ध अने उत्तरप्रकृतिबन्ध. भावबन्ध-

१४. [प्र०] हे भगवन्! नैरयिकोने केटला प्रकारनो भावबन्ध कह्यो छे? [उ०] हे मार्कंदिकपुत्र! तेओने वे प्रकारनो भावबन्ध कह्यो छे, ते आ प्रमाणे—मूलप्रकृतिबन्ध अने उत्तरप्रकृतिबन्ध. ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी जाणतुं.

१५. [प्र०] हे भगवन्! ज्ञानावरणीय कर्मनो भावबन्ध केटला प्रकारनो कह्यो छे? [उ०] हे मार्कंदिकपुत्र! ते वे प्रकारनो कह्यो छे, ते आ प्रमाणे—मूलप्रकृतिबन्ध अने उत्तरप्रकृतिबन्ध.

१६. [प्र०] हे भगवन्! नैरयिकोने ज्ञानावरणीय कर्मनो भावबन्ध केटला प्रकारनो कह्यो छे? [उ०] हे मार्कंदिकपुत्र! ते वे प्रकारनो कह्यो छे, ते आ प्रमाणे—मूलप्रकृतिबन्ध अने उत्तरप्रकृतिबन्ध. ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी जाणतुं. जेम ज्ञानावरणीय सवंधे दंडक कह्यो तेम यावत्—अतरायकर्म सुधी दंडक कहेवो.

१७. [प्र०] हे भगवन्! जीवे जे पाप कर्म कर्युं छे अने यावत्—हवे पछी करशे, तेमां परस्पर काइ भेद छे? [उ०] हे मार्कंदिकपुत्र! हा, तेमा परस्पर भेद छे. [प्र०] हे भगवन्! शा हेतुथी एम कह्यो छो के, ‘जीवे जे पाप कर्म कर्युं छे अने यावत्—जे पाप कर्म करशे, तेमा परस्पर भेद छे? [उ०] हे मार्कंदिकपुत्र! जेम कोइ एक पुरुष धनुपने ग्रहण करी, वाण लेइ अमुक आकारे उभो रही धनुपने कान सुधी खेंची छेवटे ते वाणने आकाशमां उंचे फेके, तो हे मार्कंदिकपुत्र! आकाशमा उंचे फेकेला ते वाणना कपनमा कर्मवपनी भित्त-

११ * विस्त्रसाबन्ध—वाटला वगेरेनो स्वाभाविकबन्ध, तेना सादि विस्त्रसाबन्ध अने अनादि विस्त्रसाबन्ध ए बे भेद छे. तेमा वाटला वगेरेनो सादि विस्त्रसाबन्ध, अने वर्मास्त्रिज्ञायादिनो परस्पर अनादि विस्त्रसाबन्ध.

१७ † पुरुषे करेला भूत, वर्तमान अने भविष्यकालना कर्ममां तीर मन्दादि परिणामना भेदथी भिन्नता होय छे जेम कोइ पुरुषे आकाशमा उंचे फेकेला वाणना कपनमा तेना प्रयत्ननी विशेषताथी भेद होय छे, तेवी रीते कर्ममा पण तीर मन्द इलादि परिणामनी विशेषताथी विशेषता होय छे.

વેહાસં ઉઘીઢસ્સ સમાણસ્સ પ્યતિ ચિ ણાણત્તં, જાવ-તં તં માવં પરિણમતિ ચિ ણાણત્તં ? [૩૦] હંતા મગ્ગં ! પ્યતિ ચિ ણાણત્તં, જાવ-પરિણમતિ ચિ ણાણત્તં, સે તેણદ્દેણં માગંદિયપુત્તા ! एवं बुद्ध-जाव-तं तं भावं परिणमति चि णाणत्तं ।

૧૮. [પ્ર૦] નેરહયાણં મંતે ! પાવે કમ્મે જે ય કહેં ? [૩૦] एवं चैव, नवरं जाव-वैमाणियाणं ।

૧૯. [પ્ર૦] નેરહયા ણં મંતે ! જે પોગ્ગલે આહારત્તાપ ગેણદંતિ, તેસિ ણં મંતે ! પોગ્ગલાણં સેવકાલંસિ કતિમાગં આહારંતિ, કતિમાગં નિજ્જરંતિ ? [૩૦] मागंदियपुत्ता ! असंखेज्जइमागं आहारंति, अणंतमागं निज्जरंति ।

૨૦. [પ્ર૦] ચક્કિયા ણં મંતે ! કેદ્દ તેસુ નિજ્જરાપોગ્ગલેસુ આસરત્તપ વા જાવ-તુયટ્ઠિત્તપ વા ? [૩૦] णो तिण्ठे समद्वे, अणाहरणमेयं बुद्ध्यं समाणाउसो ! एवं जाव वैमाणियाणं । 'सैवं मंते ! सैवं मंते'त्ति ।

અદ્વારસમે સપ તરૂંઓ ઉદ્દેસો સમત્તો ।

મેદ છે ? યાવત્-તે તે માત્રે પરિણમે છે તેમા મેદ છે ? [૩૦] हे भगवन् ! हा, तेना कंपनमां अने यावत्-तेना ते ते स्वरूपना परिणाममा पण मेद छे. तो हे माकंदिकपुत्र ! ते कारणधी एम कही शक्या छे के, 'यावत्-ते कर्मना ते ते रूपादि परिणाममां पण मेद छे'.

નૈરયિકાદિના ક-
વૈન્યમા નિશના.

૧૮. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! નૈરયિકો જે પાપ કર્મ કર્યું છે અને યાવત્-જે કરશે, તે પાપ કર્મમાં કાંઈ મેદ છે ? [૩૦] हे माकंदिकपुत्र ! हा मेद छे. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुची जाणवुं.

આહારરૂપે પ્રદાન ક
રેના પુદ્ગલોનો કેટ
લામો માગ ગૃહીત
થાય અને કેટલામો
માગ લ્યાન્ય પાય છે ?

૧૯. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! નૈરયિકો જે પુદ્ગલોને આહારપણે ગ્રહણ કરે છે, મવિપ્ય કાઝમા તે પુદ્ગલોનો કેટલામો માગ આહાર રૂપે ગૃહીત થાય છે અને કેટલામો માગ નિર્જર છે-સ્વજે છે ? [૩૦] हे माकंदिकपुत्र ! आहार ग्रहण करेला पुद्गलोનો असंख्यातमो माग आहाररूपे गृहीत थाय छे, अने अनंतमो माग निर्जरे छे.

નિર્જરાના પુદ્ગલો
ઉપર શ્યનાદિ
શરૂં થકે ?

૨૦. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! એ નિર્જરાના પુદ્ગલો ઉપર વેસવાને યાવત્-સુવાને કોઈ પુરુષ સમર્થ છે ? [૩૦] हे माकंदिकपुत्र ! ए अर्थ समर्थ नथी. हे आयुष्मन् ! श्रमण ! ए निर्जराना पुद्गलो अनाधार रूप कहैला छे. तेओ काई पण धारण करवाने समर्थ नथी, एम कहवुं छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'-एम कही यावत्-विहरे छे.

અદ્વારમા શતકમાં તૃતીય ઉદ્દેશક સમાપ્ત.

ચરત્યો ઉદ્દેસો.

૨. [પ્ર૦] તેણં કાલેણં તેણં સમણં રાયગિદ્દે જાવ-મગ્ગં ગોયમે एवं चयासी-अह मंते ! पाणाइचाप, मुसावाप, जाव-मिच्छादंसणसल्ले, पाणाइचायवेरमणे, मुसावाय० जाव-मिच्छादंसणसल्लवेरमणे, पुढचिकाइप, जाव-घणस्स-इकाइप, धम्मत्थिकाप, अधम्मत्थिकाप, आगासत्थिकाप, जीवे असरीरपडिचद्धे, परमाणुपोग्गले, सेलेसि पडिच्चप अणगारे, सवे य चायरवोंदिधरा कलेवरा पप णं दुविहा जीवदद्धा य अजीवदद्धा य जीवाणं परिभोगत्ताप हृद्यमागच्छंति ? [३०] गोयमा ! पाणाइचाप जाव-एप णं दुविहा जीवदद्धा य अजीवदद्धा य अत्येगतिया जीवाणं परिभोगत्ताप हृद्यमागच्छंति, अत्येगतिया जीवाणं जाव-नो हृद्यमागच्छंति । [प्र०] से केणद्वेणं मंते ! एवं बुच्चइ-पाणाइचाप जाव-नो हृद्यमागच्छंति ?

ચતુર્થ ઉદ્દેશક.

૧. [પ્ર૦] તે કાલે, તે સમયે રાજગૃહમા યાવત્-મગવાન્ ગૌતમે આ પ્રમાણે કહ્યું કે હે મગવન્ ! *પ્રાણાતિપાત, મૃપાવાદ, યાવત્-મિથ્યાદર્શનશલ્ય, પ્રાણાતિપાતવિરમણ, મૃપાવાદવિરમણ યાવત્-મિથ્યાદર્શનશલ્યવિવેક, પૃથિવીકાયાિક, યાવત્-વનસ્પતિકાયાિક, ધર્માસ્તિકાયા, અવર્માસ્તિકાયા, આકાશાસ્તિકાયા, શરીરરહિત જીવ, પરમાણુપુદ્ગલ, કૌલેશીને પ્રાપ્ત થયેલો અનગાર, અને સ્યૂલાકારવાઝા વધા કલેયરો-વેઈંદ્રિયાદિ જીવો એવધા મઢીને વે પ્રકારના છે, તેમાંના કેટલાક જીવદ્રવ્યરૂપ છે અને કેટલાક અજીવદ્રવ્યરૂપ છે. તો હે મગવન્ ! શું એ વધા જીવના પરિભોગમા આવે છે ? [૩૦] हे गौतम ! प्राणातिपात वगैरे जीवद्रव्यरूप अने अजीवद्रव्यरूप छे, तेमाना केटलाक, जीवना परिभोगमा आवे

પ્રાણાતિપાતાદિ
જીવના પરિભોગમા
આવે છે કે નહિ ?

૧ * પ્રાણાતિપાત વગેરે વધા સામાન્યરૂપે વે પ્રકારના છે, પણ તેમાના પ્રત્યેકના વે પ્રકાર નથી. તેમા પૃથિવીકાયાિકાદિ જીવ દ્રવ્યરૂપ છે, અને ધર્માસ્તિકાયાદિ અજીવદ્રવ્યરૂપ છે. પ્રાણાતિપાતાદિ અશુદ્ધ સ્વભાવરૂપ અને પ્રાણાતિપાતવિરમણાદિ શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ જીવના ધર્મો છે, તેથી તે જીવરૂપ કહી શકાય. અચરે જીવ પ્રાણાતિપાતાદિ સેવે છે ત્તરે ચારિત્રમોહનીય કર્મ ઉદયમા આવે છે, તેથી પ્રાણાતિપાતાદિ તે દ્વારા જીવના પરિભોગમા આવે છે. પૃથિવીકાયાિકાદિનો પરિભોગ ગમન ઝાંચાદિ દ્વારા સ્પષ્ટ છે. પ્રાણાતિપાતવિરમણાદિ જીવના શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ હોવાથી ચારિત્ર મોહનીયકર્મોદયના હેતુરૂપ થતા નથી, માટે તે જીવના પરિભોગમા આવતા નથી. ધર્માસ્તિકાયાદિ ચાર ટ્રયો અમૂર્ત હોવાથી, પરમાણું સૂક્ષ્મ હોવાથી અને કૌલેશીને પ્રાપ્ત થયેલ સાણુ સ્પર્શ વગેરે દ્વારા પ્રેરણાદિ ન કરતા હોવાથી અનુપયોગી છે, તેથી તે જીવના પરિભોગમા આવતા નથી.

† મોહ ગમન સમયે મેરુપર્વતના લેવી યોગની અલ્યંત ધિયરતાસ્થ આત્માની અવસ્થાને કૌલેશી કહે છે.

[उ०] गोयमा ! पाणाइवाए, जाव-मिच्छादंसणसल्ले, पुढविकाइए, जाव-वणस्सइकाइए, सधे य वायरवोदिधरा कलेवरा एए णं दुविहा जीवदद्या य अजीवदद्या य जीवाणं परिभोगत्ताए हृद्यमागच्छंति । पाणाइवायवेरमणे, जाव-मिच्छादंसणसल्लवि-वेगे, धम्मत्थिकाए. अधम्मत्थिकाए, जाव-परमाणुपोग्गले, सेलेसीं(सिं) पडिवन्नए अणगारे एए णं दुविहा जीवदद्या य अजीव-दद्या य जीवाणं परिभोगत्ताए नो हृद्यमागच्छन्ति, से तेणट्टेणं जाव-नो हृद्यमागच्छंति ।

२. [प्र०] कति णं भंते ! कसाया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! चत्तारि कसाया पन्नत्ता, तं जहा-कसायपदं निरवसेसं माणियघं जाव-‘निज्जस्सिंसंति लोभेणं’ ।

३. [प्र०] कति णं भंते ! जुम्मा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! चत्तारि जुम्मा पन्नत्ता, तं जहा-१ कडजुम्मे, २ं तेयोगे, ३ दावरजुम्मे, ४ कलिओगे । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जाव-कलियोए ? [उ०] गोयमा ! जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे चउपज्जवसिए सेत्तं कडजुम्मे । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे तिपज्जवसिए सेत्तं तेयोए । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे दुपज्जवसिए सेत्तं दावरजुम्मे । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे एगपज्जवसिए सेत्तं कलिओगे । से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-जाव-कलियोए ।

४. [प्र०] नेरइया णं भंते ! किं कडजुम्मा, तेयोगा, दावरजुम्मा, कलियोगा ४ ? [उ०] गोयमा ! जहन्नपदे कड-जुम्मा, उक्कोसपदे तेयोगा, अजहन्नपदे सिय कडजुम्मा, जाव-सिय कलियोगा । एवं जाव-थणियकुमारा ।

५. [प्र०] वणस्सइकाइयाणं पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नपदे अपदा, उक्कोसपदे य अपदा, अजहन्नपदे सिय कडजुम्मा, जाव-सिय कलियोगा ।

छे अने केटलाक परिभोगमा नथी आवता. [प्र०] हे भगवन् ! एम शा हेतुथी कहो छो के, ‘प्राणातिपात वगेरे यावत्-केटलाक जीवना परिभोगमा आवे छे अने केटलाक जीवना परिभोगमा नथी आवता’ ? [उ०] हे गौतम ! प्राणातिपात, यावत्-मिथ्यादर्शनशल्य, पृथिवी-कायिक, यावत्-वनस्पतिकायिक अने वधा स्थूलकारवाळा कलेवरधारी वेईंद्रियादिजीवो—ए वधा मळीने जीवद्रव्यरूप अने अजीव-द्रव्यरूप वे प्रकारना छे, अने ते वधा जीवना परिभोगमा आवे छे. वळी प्राणातिपातविरमण, यावत्-मिथ्यादर्शनशल्य त्याग, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, यावत्-परमाणुपुद्गल, तथा शैलेरी प्राप्त अनगार, ए वधा मळीने जीवद्रव्यरूप अने अजीवद्रव्यरूप वे प्रकारना छे, ते जीवना परिभोगमा आवता नथी. ते कारणथी एम कहुं छे के, ‘कोइ द्रव्यो परिभोगमा आवे छे अने कोइ द्रव्यो परिभोगमा आवता नथी’.

२. [प्र०] हे भगवन् ! कपाय केटला कहा छे ? [उ०] हे गौतम ! चार कपायो कहा छे. अहिं समग्र ‘कपायपद यावत्-लोभना वेदन वडे (आठकर्मप्रकृतिओनी) निर्जरा करशे’—त्या सुधी कहेवुं.

कपाय.

३. [प्र०] हे भगवन् ! केटला युग्मो-राशिओ कहा छे, [उ०] हे गौतम ! चार युग्मो कहां छे, ते आ प्रमाणे-१ कृतयुग्म, २ त्र्योज, ३ द्वापरयुग्म ४ अने कल्योज. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुग्म यावत्-कल्योज, एम चार राशिओ कहेवानुं शुं कारण छे ? [उ०] हे गौतम ! जे राशिमाथी चार चार काढता छेवटे चार बाकी रहे ते राशि कृतयुग्म. जे राशिमाथी चार चार काढता छेवटे त्रण बाकी रहे ते राशि त्र्योज. जेमाथी चार चार काढतां छेवटे वे बाकी रहे ते राशिने द्वापरयुग्म कहे छे, अने जे राशिमाथी चार चार काढतां एक बाकी रहे ते राशिने कल्योज कहे छे. ते माटे हे गौतम ! यावत्-कल्योज राशि कहेवामा आवे छे.

कृतयुग्मादि चार राशिओ-

४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं नैरयिको कृतयुग्मराशिरूप छे, त्र्योज छे, द्वापरयुग्म छे के कल्योजरूप छे ? [उ०] हे गौतम ! नैरयिकादि दंतकने आश्रयी कृतयुग्मा-दिय अवतरण

नैरयिकादि दंतकने आश्रयी कृतयुग्मा-दिय अवतरण

५. [प्र०] हे भगवन् ! वनस्पतिकायिको संबंघे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! तेओ जघन्यपद अने उत्कृष्टपदनी अपेक्षाए अपद छे. अर्थात् तेमा जघन्य पद अने उत्कृष्ट पदनी सभव नथी. पण मध्यम पदनी अपेक्षाए कदाच कृतयुग्म अने यावत्-कदाच कल्योजरूप होय छे.

२ * जुओ कपायपद प्रजा० प० २८९-२९२.

५ † जघन्यपद अने उत्कृष्टपद नियत सरूबारूप छे अने ते नैरयिकादिने विषे काळान्तरे पण घटी शके छे, पण वनस्पतिने विषे घटी शकनुं नथी. कारण के जेटला जीवनो मोक्ष थाय छे तेटला जीवो अनन्त राशि छता पण छेवटे तेमाथी घटवाथी ते राशि अनियत स्वरूपे होय छे.

૬. [પ્ર૦] વેદંદ્રિયા ણં પુચ્છા । [૩૦] ગોયમા ! જદ્દપદે કડજુમ્મા, ઉકોસપદે દાવરજુમ્મા, અજદ્દમણુકોસપદે સિયં કડજુમ્મા, જાવ-સિય કલિયોગા । एवं जाव-चतुरिन्द्रिया । सेसा पर्णद्विया जहा वेदिया । पंचिन्द्रियतिरिक्मजोणिया जाव-वेमाणिया जहा नेरइया । सिद्धा जहा वणस्सइकादया ।

૭. [પ્ર૦] इत्थीओ णं भंते ! किं कडजुममा० [३०] गोयमा ! जदपपदे कडजुममाओ, उकोसपदे कडजुममाओ, अजदमणुकोसपदे सिय कडजुममाओ, जाव-सिय कलियोगाओ, एवं असुरकुमारिन्थीओ धि जाव-थणियकुमारइन्थीओ । एवं तिरिक्मजोणियइत्थीओ, एवं मणुसित्थीओ, एवं जाव-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियदेवित्थीओ ।

૮. [પ્ર૦] जावतिया णं भंते ! वरा अंधगवण्हणो जीवा तावतिया परा अंधगवण्हणो जीवा ? [३०] हंता गोयमा ! जावतिया वरा अंधगवण्हणो जीवा तावतिया परा अंधगवण्हणो जीवा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते !' चि ।

અટ્ટારસમે સપ ચરત્યો ઉદ્દેસો સમત્તો ।

૬. [પ્ર૦] हे भगवन् ! वेदंद्रियो सर्वदे प्रश्न. [३०] हे गौतम ! तेओ जवन्यपदनी अपेक्षाए कृतयुग्म अने उत्कृष्टपदे द्वारयुग्म, मध्यमपदे कदाच कृतयुग्म अने उत्कृष्टपदे द्वारयुग्म तथा मध्यमपदे कदाच कृतयुग्म अने यावत्-कदाच कन्योजरूप होय. ए प्रमाणे यावत्-चर्चरिन्द्रिय जीवो सुवां जाणवुं. बाकीना एकेंद्रियो, वेदंद्रियोनां पेटे जाणवा. पंचेंद्रियनिर्यंचो अने यावत्-वैमानिको नैरयिकोनी पेटे समजवा. अने 'सिद्धो वनस्पतिकायिकोनी पेटे जाणवा.

૭. [પ્ર૦] हे भगवन् ! शुं स्त्रीओ कृतयुग्म राशिरूप छे-इत्यादि प्रश्न. [३०] हे गौतम ! तेओ जवन्यपदे कृतयुग्म छे, उत्कृष्टपदे पण कृतयुग्म छे, अने मध्यम पदे कदाच कृतयुग्म अने कदाच कन्योजरूप होय छे. ए प्रमाणे असुरकुमारनी यावत्-स्तनितकुमारनी स्त्रीओ होय छे. तिर्यंचयोनिक्स्त्रीओ, मनुष्यस्त्रीओ यावत्-वानव्यंतर, ज्योतिषिक् अने वैमानिकदेवनां स्त्रीओ पण एमज जाणवा.

૮. [પ્ર૦] हे भगवन् ! जेटला अल्प आयुपवाळा 'अंधक वहिजीवो छे तेटला उत्कृष्ट आयुपवाळा अंधक वहि जीवो छे' [३०] हे गौतम ! हा, जेटला अल्प आयुपवाळा अंधक वहि जीवो छे तेटला उत्कृष्ट आयुपवाळा अंधक वहि जीवो छे. हे 'भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

અટ્ટારમા શતકમાં ચતુર્થ ઉદ્દેશક સમાપ્ત.

પંચમો ઉદ્દેસો.

૧. [પ્ર૦] दो भंते ! असुरकुमारा एगंसि असुरकुमारावासंसि असुरकुमारदेवत्ताए उववत्ता, तत्थ णं एगे असुरकुमारदेवे पासादीए, दरिसणिजे, अभिरूवे, पडिरूवे; एगे असुरकुमारदेवे से णं नो पासादीए-नो दरिसणिजे, नो अभिरूवे, नो पडिरूवे, से कहमेयं भंते ! एवं ? [३०] गोयमा ! असुरकुमारा देवा दुविहा पत्तत्ता, तं जहा-वेउद्वियसरीरा य अवेउद्वियसरीरा य; तत्थ णं जे से वेउद्वियसरीरे असुरकुमारदेवे से णं पासादीए, नाव-पडिरूवे; तत्थ णं जे से अवेउद्वियसरीरे असुरकुमारदेवे से णं नो पासादीए जाव-नो पडिरूवे [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-तत्थ णं जे से वेउद्वियसरीरे तं चेव जाव-पडिरूवे ? [३०] गोयमा ! से जहानामए-इह मणुयलोगंसि डुवे पुरिसा मचंति-एगे पुरिसे अलंकिय-विभू-

પંચમ ઉદ્દેશક.

૧. [પ્ર૦] हे भगवन् ! एक असुरकुमारावासमा वे असुरकुमारो असुरकुमारदेवपणे उत्पन्न थया. तेमानो एक असुरकुमार देव प्रसन्नता उत्पन्न करनार, दर्शनीय, सुंदर अने मनोहर छे, अने बीजो असुरकुमार देव प्रसन्नता उत्पन्न करनार, दर्शनीय, सुंदर अने मनोहर नथी, तो हे भगवन् ! एम होवानुं शुं कारण ? [३०] हे गौतम ! असुरकुमार देवो वे प्रकारना कहा छे, ते आ प्रमाणे-वैक्रिय-विभूषित शरीरवाळा अने अवैक्रिय-अविभूषितशरीरवाळा. तेमा जे असुरकुमार देव विभूषित शरीरवाळो छे ते प्रसन्नता उत्पन्न करनार अने मनोहर छे, अने जे असुरकुमार देव अविभूषित शरीरवाळो छे ते प्रसन्नता उत्पन्न करनार अने मनोहर नथी. [प्र०] हे भगवन् ! शा

૯ * सिद्धोमानस्पतिकायिकोनीपेटे जवन्य अने उत्कृष्ट पद नथी, कारण के तेओनी सख्या वधती जती होजाथी तेओ अनियत परिमाण रूपे होय छे.

૮ † टीकाकार 'अचक्र-अहिय, वृद्ध; तेने आश्रयी रहलेो वहि-वाटर अन्निकायिक जीवो' आवो अर्थ करे छे, बीजा आचार्यो 'अन्यक-सूक्ष्मनाम-कर्मना उदयशी अप्रकाशक-प्रकाश नहि करनार अग्नि, अर्थात् सूक्ष्मअन्निकायिक जीवो' आवो अर्थ करे छे.

૧ ‡ देवशय्यामा प्रथम, देव स्नाभानिक-अट्टार वगेरे विभूषा रहित उपजे छे, सार पछी असुनमे अलंकार पहेरी विभूषित थाय छे.

सिए, एगे पुरिसे अणलंकियविभूसिए, एएसि णं गोयमा ! दोण्हं पुरिसाणं कयरे पुरिसे पासादीए, जाव-पडिरूवे, कयरे पुरिसे नो पासादीए, जाव-नो पडिरूवे, जे वा से पुरिसे अलंकियविभूसिए, जे वा से पुरिसे अणलंकियविभूसिए ? भगवं ! तत्थ जे से पुरिसे अलंकियविभूसिए से णं पुरिसे पासादीए, जाव-पडिरूवे, तत्थ णं जे से पुरिसे अणलंकियविभूसिए से णं पुरिसे नो पासादीए, जाव-नो पडिरूवे, से तेणट्टेणं जाव-नो पडिरूवे ।

२. [प्र०] दो भंते ! नागकुमारा देवा एगंसि नागकुमारावासंसि० ? [उ०] एवं चेव जाव-थणियकुमारा । वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया एवं चेव ।

३. [प्र०] दो भंते ! नेरतिया एगंसि नेरतियावासंसि नेरतियत्ताए उववन्ना, तत्थ णं एगे नेरइए महाकम्मतराए चेव जाव-महावेयणतराए चेव; एगे नेरइए अप्पकम्मतराए चेव, जाव-अप्पवेयणतराए चेव; से कहमेयं भंते ! एवं ? [उ०] गोयमा ! नेरइया दुविहा पन्नत्ता तं जहा-मायिमिच्छदिट्ठिउववन्नगा य अमायिसम्मदिट्ठिउववन्नगा य । तत्थ णं जे से मायिमिच्छदिट्ठिउववन्नए नेरइए से णं महाकम्मतराए चेव जाव-महावेयणतराए चेव; तत्थ णं जे से अमायिसम्मदिट्ठिउववन्नए नेरइए से णं अप्पकम्मतराए चेव जाव-अप्पवेयणतराए चेव ।

४. [प्र०] दो भंते ! असुरकुमारा० [उ०] एवं चेव, एवं एगिंदिय-विगल्लिंदियवजं जाव-वेमाणिया ।

५. [प्र०] नेरइए णं भंते ! अणंतरं उच्चट्ठित्ता जे भविए पंचिंदियतिरिक्खजोणिपसु उववज्जित्तए से णं भंते ! कयरं आउयं पडिसंवेदेति ? [उ०] गोयमा ! नेरइयाउयं पडिसंवेदेति, पंचिंदियतिरिक्खजोणियाउए से पुरओ कडे चिट्ठति, एवं मणुस्सेसु वि, नवरं मणुस्साउए से पुरओ कडे चिट्ठइ ।

६. [प्र०] असुरकुमारा णं भंते ! अणंतरं उच्चट्ठित्ता जे भविए पुढविकाइएसु उववज्जित्तए-पुच्छा । [उ०] असुरकुमाराउयं पडिसंवेदेति, पुढविकाइयाउए से पुरओ कडे चिट्ठइ, एवं जो जहिं भविओ उववज्जित्तए तस्स तं पुरओ कडं

कारणथी एम कहो छो के अलंकृत-विभूपित शरीरवाळो असुरकुमार देव यावत्-मनोहर छे अने वीजो असुरकुमार देव मनोहर नथी ? [उ०] हे गौतम ! 'आ मनुष्यलोकमा जेम कोइ वे पुरुषो होय, तेमां एक पुरुष आभूपणोथी अलंकृत अने विभूपित होय अने एक पुरुष अलंकृत अने विभूपित न होय. हे गौतम ! ए वने पुरुषोमा कयो पुरुष प्रसन्नता उत्पन्न करनार अने मनोहर होय अने कयो पुरुष अप्रसन्नता करनार यावत्-अमनोहर होय, जे पुरुष अलंकृत विभूपित होय ते के जे पुरुष अलंकृत विभूपित होतो नथी ते ? हे भगवन् ! तेमां जे पुरुष अलंकृत विभूपित होय छे ते पुरुष प्रासादीय यावत्-मनोहर छे अने जे पुरुष अलंकृत विभूपित होतो ते पुरुष प्रासादीय यावत्-मनोहर नथी. ते माटे हे गौतम ! ते असुरकुमार यावत्-मनोहर नथी.

२. [प्र०] हे भगवन् ! वे नागकुमारदेवो एक नागकुमारावासमा नागकुमार देवपणे उत्पन्न यथा-इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्वं प्रमाणे समजवुं. ए प्रमाणे यावत्-स्तनितकुमारो सुधी जाणवुं. व्यानव्यंतर, ज्योतिपिक अने वैमानिक संबंधे पण एज प्रमाणे जाणवुं.

नागकुमार.

३. [प्र०] हे भगवन् ! एक नरकावासमां वे नैरयिको नैरयिकपणे उत्पन्न थाय, तेमानो एक नैरयिक महाकर्मवाळो यावत्-महावेदनावाळो होय, अने एक नैरयिक अल्प कर्मवाळो यावत्-अल्पवेदनावाळो होय तो हे भगवन् ! एम केवी रीते होय ? [उ०] हे गौतम ! नैरयिको वे प्रकारना कहा छे, ते आ प्रमाणे-मायी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न थयेला अने अमायिसम्यग्दृष्टि उत्पन्न थयेला. तेमा जे मायिमिथ्यादृष्टि उत्पन्न थयेला नैरयिको छे, तेओ महाकर्मवाळा, यावत्-महावेदनावाळा होय छे अने जे अमायी सम्यग्दृष्टि उत्पन्न थयेला नैरयिको छे तेओ अल्पकर्मवाळा, यावत्-अल्पवेदनावाळा होय छे.

अल्पकर्मवाळा अने महाकर्मवाळा नैरयिको.

४. [प्र०] हे भगवन् ! वे असुरकुमारो संबंधे प्रश्न. [उ०] ए प्रमाणे समजवुं. एम एकेंद्रिय अने विकलेंद्रिय सिवाय यावत्-वैमानिको सुधी जाणवुं.

५. [प्र०] हे भगवन् ! जे नैरयिक मरीने तुरत ज पछीना समये पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिकमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते कया आयुपनो अनुभव करे ? [उ०] हे गौतम ! ते नैरयिक आयुपनो अनुभव करे छे, अने पंचेंद्रियतिर्यंचयोनिकनुं आयुप आगळ करे छे-उदयाभिमुख करे छे. ए प्रमाणे मनुष्य विषे पण समजवुं. विशेष ए के, ते मनुष्यनुं आयुप उदयाभिमुख करे छे.

नैरयिकने भरपस-मये आ भवना के परभवना आयुपनो अनुभव होय ?

६. [प्र०] हे भगवन् ! जे असुरकुमार मरीने पछीना समये तुरत ज पृथिवीकायिक जीवोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते असुरकुमारना आयुपनो अनुभव करे छे अने पृथिवीकायिकनुं आयुप उदयाभिमुख करे छे. एम जे जीव

५ * एकेन्द्रिय अने विकलेंद्रिय मायी मिथ्यादृष्टि होय छे, पण अमायी सम्यग्दृष्टि होता नथी माटे तेथोमाना एकमा सम्यग्दर्शन साक्षेप अल्प-कर्मता अने एकमा मिथ्यादर्शन साक्षेप महाकर्मता घटती नथी पण दधामा महाकर्मताज होय छे. तेथी 'एकेन्द्रियादि सिवाय' कहुं छे.

चिद्वृत्ति, जत्थ टिथो तं पडिसंवेदेति, जाव-वेमाणिण, नवरं पुढविकाइए पुढविकाइएसु उचवज्जति, पुढविकाइयाउयं पडि-संवेएति, अत्रे य से पुढविकाइयाउए पुरयो कडे चिद्वृत्ति, एवं जाव-मणुस्तो सट्टाणे उचवाएअघो, पणट्टाणे तहेव ।

७. [प्र०] दो भंते ! असुरकुमारा एगंसि असुरकुमारावासंसि असुरकुमारदेवत्ताए उचवत्ता, तत्थ णं एगे असुरकु-मारे देवे उज्जुयं विउध्विस्सामीति उज्जुयं विउध्वइ, वंकं विउध्विस्सामीति वंकं विउध्वइ, जं जहा इच्छइ तं तहा विउध्वइ, एगे असुरकुमारे देवे उज्जुयं विउध्विस्सामीति वंकं विउध्वइ, वंकं विउध्विस्सामीति उज्जुयं विउध्वइ, जं जहा इच्छति णो तं तहा विउध्वइ, से कहमेयं भंते ! एवं ? [उ०] गोयमा ! असुरकुमारा देवा डुविहा पत्रत्ता, तं जहा-मायिमिच्छदिट्टिउचवत्तगा य अमायिसम्मदिट्टिउचवत्तगा य । तत्थ णं जे से मायिमिच्छदिट्टिउचवत्तए असुरकुमारे देवे से णं उज्जुयं विउध्विस्सामीति वंकं विउध्वति, जाव-णो तं तहा विउध्वइ, तत्थ णं जे से अमायिसम्मदिट्टिउचवत्तए असुरकुमारे देवे से उज्जुयं विउध्विस्सा-मीति जाव-तं तहा विउध्वइ ।

८. [प्र०] दो भंते ! नागकुमारा० ? [उ०] एवं चेव । एवं जाव-थणियकुमारा । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया एवं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

अट्टारसमे सए पंचमो उद्देशो समत्तो ।

ज्यां उत्पन्न थवाने योग्य छे, तेनुं आयुप उदयाभिमुख करे छे अने ज्या रहेयो छे तेनुं आयुप अनुभवे छे. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुधी जाणवुं. विशेष ए के, जे पृथिवीकायिक जीव पृथिवीकायिकमां ज उत्पन्न थवाने योग्य छे ते पृथिवीकायिकनुं आयुप अनुभवे छे अने वीजुं पृथिवीकायिकनुं आयुप उदयाभिमुख करे छे. एम यावत्-मनुष्यो सुधी स्वस्थानमां उत्पाद संवेवे कहेवुं. परस्थानमां उत्पाद संवेवे पण पूर्व प्रकारे कहेवुं.

७. [प्र०] हे भगवन् ! एक असुरकुमारावासमा वे असुरकुमारो असुरकुमारदेवपणे उत्पन्न थाय, तेमांथी एक असुरकुमारदेव ऋजु-सरल रूप विकुर्ववा धारे तो ते ऋजु विकुर्वी शके छे अने वांजुं रूप विकुर्ववा धारे तो ते वांजुं विकुर्वी शके छे; जेवा प्रकारनुं अने जेवुं रूप विकुर्ववा इच्छे तेवा प्रकारनुं तेवुं रूप विकुर्वे छे. अने एक असुरकुमारदेव ऋजु विकुर्ववा धारे तो ते वांजुं रूप विकुर्वी शके छे अने जो वांजुं रूप विकुर्ववा धारे तो ते ऋजुरूप विकुर्वी शके छे. जे प्रकारे अने जेवा रूपने विकुर्ववा इच्छे तेवा प्रकारे अने तेवुं रूप विकुर्वी शकतो नथी; तो हे भगवन् ! तेनुं शुं कारण ? [उ०] हे गौतम ! असुरकुमारदेवो वे प्रकारना कहा छे, ते आ प्रमाणे-मायी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न थयेला अने अमायी सम्यग्दृष्टि उत्पन्न थयेला. तेमां जे 'मायी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न थयेलो असुरकुमार देव छे ते ऋजुरूप विकुर्ववा धारे तो वांजुं करे छे, यावत्-जेवुं रूप विकुर्ववा धारे छे तेवुं रूप विकुर्वी शकतो नथी. अने जे अमायी सम्यग्दृष्टि असुरकुमार छे ते ऋजुरूप विकुर्ववा धारे तो ते तेवुं रूप यावत्-विकुर्वी शके छे.

८. [प्र०] हे भगवन् ! वे नागकुमारो-इत्यादि पश्र अने उत्तर पूर्व प्रमाणे जाणवा. ए प्रमाणे यावत्-स्तानितकुमारो सुधी जाणवुं. वानव्यंतरो, ज्योतिपिको अने वैमानिको संवेवे पण एमज जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एम ज छे, हे भगवन् ! ते एम ज छे'.

अट्टारमा शतकमां पंचम उद्देशक समाप्त.

छट्टओ उद्देशो.

१. [प्र०] फाणियगुले णं भंते ! कतिवन्ने, कतिगंधे, कतिरसे, कतिफासे पण्णत्ते ? [उ०] गोयमा ! एत्थ णं दो नया भवंति, तं जहा-निच्छइयनए य वावहारियनए य । वावहारियनयस्स गोड्ढे फाणियगुले, नेच्छइयनयस्स पंचवन्ने दुगंधे पंचरसे अट्टफासे पन्नत्ते ।

पष्ठ उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! फाणित-प्रवाही गोळ केटला वर्ण, गंध, रस अने स्पर्शवाळो होय छे ? [उ०] हे गौतम ! अहिं नैश्व-यिक अने व्यावहारिक ए वे नयो विवक्षित छे, व्यावहारिक नयनी अपेक्षाए फाणित गोळ मधुर रसवाळो (गळ्यो) कह्यो छे, अने नैश्व-यिक नयनी अपेक्षाए पाच वर्ण, वे गंध, पांच रस अने आठ स्पर्शवाळो छे.

७ * केटलाक देवो पोतानी इच्छा प्रमाणे ऋजु के वक्र रूपो विकुर्वी शके छे अने केटलाक देवो पोतानी इच्छा मुजब रूपो विकुर्वी शकता नथी, तेनुं कारणे क्रमश आर्जवता अने सम्यग्दर्शननिमित्तक बाधेल तीव्र रसवाळु वैक्रियनाम कर्म अने मायाभिम्यादर्शननिमित्तक बाधेलुं मन्दरसवाळु वैक्रिय-नाम कर्म छे. तेथी एम कृतुं छे के अमायी सम्यग्दृष्टि देवो इच्छा मुजब रूपो विकुर्वी शके छे, अने मायी मिथ्यादृष्टि देव इच्छा मुजब विकुर्वी शकतो नथी, पण इच्छाविच्छे रूपो विकुर्वे छे.

२. [प्र०] भमरे णं भंते ! कतिवन्ने०—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एत्थ णं दो नया भवंति, तं जहा—निच्छइयनए य वावहारियनए य । वावहारियनयस्स कालए भमरे, नेच्छइयनयस्स पंचवन्ने, जाव—अट्टफासे पन्नत्ते ।

३. [प्र०] सुयपिच्छे णं भंते ! कतिवन्ने० ? [उ०] एवं चेव, नवरं वावहारियनयस्स नीलए सुयपिच्छे, नेच्छइयनयस्स पंचवण्णे, सेसं तं चेव । एवं एणं अभिलावेणं लोहिया मंजिट्टिया, पीतिया हालिदा, सुक्किल्लए संखे, सुच्चिमंग्घे कोट्टे, दुच्चिमंग्घे मयगसरीरे, तिच्चे निवे, कडुया सुंठी, कसाए कविट्टे, अंवा अंचिलिया, महुरे खंडे, कक्खडे वडरे, मउए नवणीए, गरुए अए, लहुए उल्लुयपत्ते, सीए हिमे, उसिणे अगणिकाए, णिद्धे तेहे ।

४. [प्र०] छारिया णं भंते !—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एत्थ दो नया भवंति, तं जहा—निच्छइयनए य वावहारियनए य, वावहारियनयस्स लुक्खा छारिया, नेच्छइयनयस्स पंचवन्ना, जाव—अट्टफासा पन्नत्ता ।

५. [प्र०] परमाणुपोग्गले णं भंते ! कतिवन्ने, जाव—कतिफासे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! एगवन्ने, एगगंधे, एगरसे, डुफासे पन्नत्ते ।

६. [प्र०] दुपपसिए णं भंते ! खंधे कतिवन्ने—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय एगवन्ने, सिय दुवन्ने, सिय एगगंधे, सिय दुगंधे, सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय डुफासे, सिय तिफासे, सिय चउफासे पन्नत्ते । एवं तिपपसिए वि, नवरं सिय एगवन्ने, सिय दुवन्ने, सिय तिवन्ने । एवं रसेसु वि, सेसं जहा दुपपसियस्स । एवं चउपपसिए वि, नवरं सिय एगवन्ने, जाव—सिय चउवन्ने । एवं रसेसु वि, सेसं तं चेव । एवं पंचपपसिए वि, नवरं सिय एगवन्ने, जाव—सिय पंचवन्ने, एवं रसेसु वि, गंधफासा तहेव । जहा पंचपपसियो एवं जाव—असंखेज्जपपसियो ।

७. [प्र०] सुहुमपरिणए णं भंते ! अणंतपपसिए खंधे कतिवन्ने ? [उ०] जहा पंचपपसिए तहेव निरवसेसं ।

२. [प्र०] हे भगवन् ! भ्रमर केटला वर्णवाळो छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! अहिं व्यावहारिक अने नैश्वयिक ए वे नयो छे, व्यावहारिकनयनी दृष्टिथी भ्रमर काळो छे, अने नैश्वयिकनयनी दृष्टिथी भ्रमर पांच वर्ण, वे गंध, पांच रस अने आठ स्पर्शवाळो छे.

भ्रमरना वर्णादि.

३. [प्र०] हे भगवन् ! पोपटनी पांख केटला वर्णवाळी छे—इत्यादि प्रश्न अने उत्तर पूर्व प्रमाणे जाणवो. परन्तु व्यावहारिक नयनी अपेक्षाए पोपटनी पांख लीली छे अने नैश्वयिक नयनी अपेक्षाए पांच वर्णवाळी—इत्यादि पूर्व कक्षा प्रमाणे जाणवी. एम ए पाठ वडे राती मजीठ, पिळी हळदर, धोळो शंख, सुगंधी कुष्ठ—पटवास, दुर्गंधी मडदुं, तिक्त—कडवो लीमडो, कटुक—तीखी सुंठ, तूरं कोहुं, खाटी आमली, मधुर—गळी खांड, कर्कश वज्र, मृदु—सुंवाळुं माखण, भारे जोहुं, हळुं उल्लुकपत्र—वोरडीतुं पांदहुं, ठंडो हिम, उष्ण अग्निकाय, अने स्निग्ध तेल विपे पण जाणवुं.

पोपटनी पाठना वर्णादि.

४. [प्र०] हे भगवन् ! राख केटला वर्णवाळी होय—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! अहि नैश्वयिक अने व्यावहारिक ए वे नयो छे, तेमा व्यावहारिक नयनी अपेक्षाए राख लुखी—रुक्षस्पर्शवाळी छे, अने निश्वयनयनी अपेक्षाए राख पाच वर्णवाळी, यावत्—आठ स्पर्शवाळी छे.

५. [प्र०] हे भगवन् ! परमाणुपुद्गल केटला वर्णवाळो, यावत्—केटला स्पर्शवाळो होय छे ? [उ०] हे गौतम ! एकवर्णवाळो, एकगंधवाळो, एकरसवाळो अने वे स्पर्शवाळो होय छे.

परमाणुना वर्णादि.

६. [प्र०] हे भगवन् ! द्विप्रदेशिक स्कंध केटला वर्णवाळो—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कदाच एक वर्णवाळो, कदाच वे वर्णवाळो, कदाच एक गंधवाळो कदाच वे गंधवाळो, कदाच एक रसवाळो कदाच वे रसवाळो, अने कदाच वे स्पर्शवाळो, कदाच त्रण स्पर्शवाळो, अने कदाच चार स्पर्शवाळो पण होय छे. ए प्रमाणे त्रिप्रदेशिक स्कंध पण जाणवो, विशेष ए के ते कदाच एक वर्णवाळो, कदाच वे वर्णवाळो अने कदाच त्रण वर्णवाळो होय, एम रससंबंधे पण ए प्रमाणे यावत्—त्रण रसवाळो होय. वाकी वधुं द्विप्रदेशिक स्कंधनी पेटे जाणवुं. एमं चतुप्रदेशिक स्कंध विपे पण जाणवुं. विशेष ए के, ते कदाच एक वर्णवाळो, यावत्—कदाच चार वर्णवाळो पण होय. रस संबंधे पण एम ज जाणवुं. अने वाकी वधुं पूर्वोक्त रीते समजवुं. ए रीते पंचप्रदेशिक स्कंधने विपे पण समजवुं. विशेष ए के, ते कदाच एक वर्णवाळो, यावत्—कदाच पाच वर्णवाळो पण होय, ए प्रमाणे रसने विपे पण जाणवुं. गंध अने स्पर्श पूर्ववत् जाणवा. जेम पंचप्रदेशिक स्कंध संबंधे कहुं, तेम यावत्—असंख्यातप्रदेशिक स्कंध संबंधे पण कहेवुं.

द्विप्रदेशिक स्कन्ध.

त्रिप्रदेशिकादि स्कन्धो

७. [प्र०] हे भगवन् ! सूक्ष्मपरिणामवाळो अनंतप्रदेशिक स्कंध केटला वर्णवाळो होय—इत्यादि प्रश्न. [उ०] पंचप्रदेशिक स्कंधनी पेटे वधुं कहेवुं.

अनन्तप्रदेशिक स्कन्ध.

૮. [પ્ર૦] વાદરપરિણેષ ણં મંતે ! અણંતપણસિણે રાંધે કતિવચ્ચે—પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! સિય યગચ્ચે, જાવ—સિય પંચવચ્ચે, સિય યગગંધે, સિય ડુગંધે, સિય યગરસે, જાવ—સિય પંચરસે, સિય ચડફાસે, જાવ—સિય ચટ્ટુફાસે પચ્ચે । 'સેવં મંતે ! સેવં મંતે' ! ત્તિ ।

અદ્વારસમે સણ છટ્ટુઓ ઉદ્દેસો સમત્તો ।

૮. [પ્ર૦]—હે ભગવન્ ! વાદર—સ્થૂલપરિણામવાલો અનંતપ્રવેશિકસ્કંધ, કેટલા વર્ણવાલો હોય—શ્લ્યાદિ પ્રથમ. [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તે કદાચ એક વર્ણવાલો, યાવત્—કદાચ પાંચ વર્ણવાલો, કદાચ એક ગંધવાલો, કદાચ એક રસવાલો, યાવત્—કદાચ પાંચ રસવાલો અને કદાચ ચાર સ્પર્શવાલો, કદાચ પાંચ સ્પર્શવાલો, યાવત્—કદાચ આઠ સ્પર્શવાલો પણ હોય. હે ભગવન્ ! તે એમજ છે, હે ભગવન્ ! તે એમજ છે'.

અદ્વારમા શતકમાં પદ્ય ઉદ્દેશક સમાપ્ત.

સત્તમો ઉદ્દેસો ।

૧. [પ્ર૦] રાયગિહે જાવ—પવં વયાસી—અન્નઉત્થિયા ણં મંતે ! ય્યમાદ્ધપ્પંતિ, જાવ—પરુવેતિ—'પવં પલુ કેવલી જન્મ્માપ્પેસેણ આતિટ્ટે સમાણે આહચ્ચ દો માસાઓ માસતિ, તં જહા—મોસં વા, સચ્ચામોસં વા, સે કદ્દમેયં મંતે ! પવં ? [ઉ૦] ગોયમા ! જણ્ણં તે અન્નઉત્થિયા જાવ—જે તે ય્યમાદ્ધંસુ મિચ્છં તે ય્યમાદ્ધંસુ; અહં પુણ ગોયમા ! ય્યમાદ્ધપ્પામિ ધ—નો સલુ કેવલી જન્મ્માપ્પેસેણ આદ્ધસ્સતિ, નો પલુ કેવલી જન્મ્માપ્પેસેણ આતિટ્ટે સમાણે આહચ્ચ દો માસાઓ માસતિ, તં જહા—મોસં વા સચ્ચામોસં વા, કેવલી ણં અસાવજ્જાઓ અપરોચવાદ્યાઓ આહચ્ચ દો માસાઓ માસતિ, તં જહા—સર્ધં વા અસચ્ચામોસં વા ।

૨. [પ્ર૦] કતિવિદે ણં મંતે ! ઉવહી પણ્ણત્તે ? [ઉ૦] ગોયમા ! તિવિદે ઉવહી પચ્ચત્તે, તં જહા—કમ્મોવહી, સરીરોવહી, વાહિરમંડમત્તોવગરણોવહી ।

૩. [પ્ર૦] નેરદ્યાણં મંતે !—પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! ડુવિદે ઉવહી પચ્ચત્તે, તં જહા—કમ્મોવહી ય સરીરોવહી ય, સેસાણં તિવિદે ઉવહી યર્ગિદિયવજ્જાણં જાવ—વેમાણિયાણં । યર્ગિદિયાણં ડુવિદે ઉવહી પચ્ચત્તે, તં જહા—કમ્મોવહી ય સરીરોવહી ય ।

૪. [પ્ર૦] કતિવિદે ણં મંતે ! ઉવહી પચ્ચત્તે ? [ઉ૦] ગોયમા ! તિવિદે ઉવહી પચ્ચત્તે, તં જહા—સચ્ચિત્તે, અચ્ચિત્તે, મીસપ, પવં નેરદ્યાણ ચિ, પવં નિરવસેસં જાવ—વેમાણિયાણં ।

સત્તમ ઉદ્દેશક.

૧. [પ્ર૦] રાજગૃહ નગરમા ભગવાન્ ગૌતમ યાવત્—આ પ્રમાણે વોલ્યા કે હે ભગવન્ ! અન્યતીર્થિકો આ પ્રમાણે કહે છે, યાવત્—પ્રસ્તુપે છે કે, એ પ્રમાણે ચરેચર કેવલી યક્ષના આવેશયી આવિટ યદ્દને કદાચ વે માપા વોલે છે, તે આ પ્રમાણે—મૃષામાપા અને સલ્-મૃષા—મિશ્ર માપા.' તો હે ભગવન્ ! એ પ્રમાણે કેમ હોઈ શકે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! જે અન્યતીર્થિકોએ યાવત્—એમ જે કહ્યું છે, તેઓએ તે અસલ્ય કહ્યું છે. હે ગૌતમ ! હું એમ કહું છું, યાવત્—પ્રસ્તુપું છું કે, એ પ્રમાણે ચરેચર કેવલજ્ઞાની યક્ષના આવેશયી આનિટ થતા નથી, અને યક્ષના આવેશયી આવિટ યદ્દને કેવલી વે માપા—અસલ્ય અને સલ્યાસલ્ય—મિશ્રમાપા વોલતા પણ નથી. કેવલી તો પાપવ્યાપાર વિનાની અને વીજાનો ઉપવાત ન કરે તેવી વે માપા કદાચ વોલે છે. તે વે માપાઓ આ પ્રમાણે, સલ્ય અને અસલ્યામૃષા—સલ્ય પણ નહિ અને અસલ્ય પણ નહિ એવી માપા.

૨. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! ઉપધિ કેટલા પ્રકારનો કહ્યો છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! 'ઉપધિ ત્રણ પ્રકારનો કહ્યો છે, તે આ પ્રમાણે—૧ કર્મોપધિ, ૨ શરીરોપધિ, ૩ વાહ્યમાંડમાત્રોપકરણોપધિ.

૩. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! નૈરયિકોને કેટલા પ્રકારનો ઉપધિ કહ્યો છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તેઓને વે પ્રકારનો ઉપધિ કહ્યો છે, તે આ પ્રમાણે—કર્મરૂપ ઉપધિ અને શરીરરૂપ ઉપધિ. એકંદ્રિય જીવો સિવાય વધા જીવોને યાવત્—વૈમાનિકો સુધી ત્રણે પ્રકારનો ઉપધિ હોય છે. એકંદ્રિય જીવોને કર્મરૂપ અને શરીરરૂપ એમ વે પ્રકારનો ઉપધિ હોય છે.

૪. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! ઉપધિ કેટલા પ્રકારનો કહ્યો છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! ઉપધિ ત્રણ પ્રકારનો કહ્યો છે, તે આ પ્રમાણે—૧ સચ્ચિત્ત, ૨ અચ્ચિત્ત અને ૩ મિશ્ર—સચ્ચિત્તાચ્ચિત્ત. એ પ્રમાણે નૈરયિકોથી માઠી યાવત્—વૈમાનિકો સુધી (ચોવીસ દંડકને આશ્રયી) ત્રણે પ્રકારનો ઉપધિ જાણવો.

૨ * જીવનનિર્વાહના ઉપયોગી શરીર વસ્તુઓને ઉપધિ કહે છે, તેના વે પ્રકાર છે—આન્તર અને વાહ્ય. કર્મ અને શરીર આન્તર ઉપધિ છે અને વસ્તુપાત્રાદિ વસ્તુઓ વાહ્ય ઉપધિ છે.

૩ † નૈરયિકોથી માઠી વૈમાનિક સુધી ચોવીસે દંડકે ત્રણે પ્રકારનો ઉપધિ જાણવો. તેમા નારકોને સચ્ચિત્ત ઉપધિ શરીર, અચ્ચિત્ત ઉપધિ ઉત્પત્તિ-સ્થાન અને શ્વામોચ્ચૂઆસાદિ ચુક્ક સચેતનાચેતનરૂપ મિશ્ર ઉપધિ વહેવાય છે—ટીકા.

યક્ષાનિટ કેવલી મલ્લ કે કમલ્ય બોલે તે સવન્ને અન્યતીર્થિકતુ મનલ્ય.

ઉપધિના ત્રણ પ્રકાર

ઉપધિના ત્રણ પ્રકાર

५. [प्र०] कतिविहे णं भंते ! परिग्गहे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! तिविहे परिग्गहे पन्नत्ते, तं जहा—१ कम्मपरिग्गहे, २ सरीरपरिग्गहे, ३ वाहिरगभंडमत्तोवगरणपरिग्गहे ।
६. [प्र०] नेरइयाणं भंते !० [उ०] एवं जहा उवहिणा दो दंडगा भणिया तहा परिग्गहेण वि दो दंडगा भाणियघा ।
७. [प्र०] कइविहे णं भंते ! पणिहाणे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! तिविहे पणिहाणे पन्नत्ते, तं जहा—मणपणिहाणे, चइ-पणिहाणे, कायपणिहाणे ।
८. [प्र०] नेरइयाणं भंते ! कइविहे पणिहाणे पन्नत्ते ? [उ०] एवं चेव, एवं जाव—थणियकुमारणं ।
९. [प्र०] पुढचिकाइयाणं पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एगे कायपणिहाणे पन्नत्ते । एवं जाव—वणस्सइक्काइयाणं ।
१०. [प्र०] वेइदियाणं पुच्छा । [उ०] गोयमा ! दुविहे पणिहाणे पन्नत्ते, तं जहा—चइपणिहाणे य कायपणिहाणे य, एवं जाव—चउरिदियाणं, सेसाणं तिविहे वि जाव—वेमाणियाणं ।
११. [प्र०] कतिविहे णं भंते ! दुप्पणिहाणे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! तिविहे दुप्पणिहाणे पन्नत्ते, तंजहा—मणदुप्पणिहाणे०, जहेव पणिहाणेणं दंडगो भणियो तहेव दुप्पणिहाणेण वि भाणियघो ।
१२. [प्र०] कतिविहे णं भंते ! सुप्पणिहाणे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! तिविहे सुप्पणिहाणे पन्नत्ते, तंजहा—मणसुप्पणिहाणे, चइसुप्पणिहाणे, कायसुप्पणिहाणे ।
१३. [प्र०] मणुस्साणं भंते ! कइविहे सुप्पणिहाणे पन्नत्ते ? [उ०] एवं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते !' ति जाव—विहरति । तए णं समणे भगवं महावीरे जाव—वहिया जणवयविहारं विहरइ ।
५. [प्र०] हे भगवन् ! परिग्रह केटला प्रकारनो कखो छे ? [उ०] हे गौतम ! परिग्रह त्रण प्रकारनो कखो छे, ते आ प्रमाणे— १ कर्मपरिग्रह, २ शरीरपरिग्रह अने ३ बाह्य वस्त्रपात्रादि उपकरणरूप परिग्रह. परिग्रह प्रकार.
६. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिकोने केटला प्रकारनो परिग्रह होय छे ? [उ०] जेम उपधिसंबंधे वे दंडक कखा तेम परिग्रह-विषे पण वे दंडक कहेवा.
७. [प्र०] हे भगवन् ! प्रणिधान केटला प्रकारतुं कखुं छे ? [उ०] हे गौतम ! प्रणिधान त्रण प्रकारतुं कखुं छे, ते आ प्रमाणे— १ मनप्रणिधान, २ वचनप्रणिधान अने ३ कायप्रणिधान. प्रणिधानका प्रकार.
८. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिकोने केटला प्रकारतुं प्रणिधान होय छे ? [उ०] उपर कखा प्रमाणे जाणवुं. एम यावत्—स्तनिन-कुमारो सुधी समजवुं.
९. [प्र०] हे भगवन् ! पृथिवीकायिक संबंधे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! तेओने एक कायप्रणिधान होय छे, ए प्रमाणे यावत्—वनस्पतिकायिक जीवो सुधी जाणवुं.
१०. [प्र०] हे भगवन् ! वेइन्द्रिय जीव संबंधे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! तेओने वे प्रकारतुं प्रणिधान होय छे. ते आ प्रमाणे—वचनप्रणिधान अने कायप्रणिधान. ए प्रमाणे यावत्—चउरिदिय जीवो सुधी जाणवुं. बाकी वधा जीवोने यावत्—वैमानिको सुधी त्रणे प्रका-रतुं प्रणिधान होय छे.
११. [प्र०] हे भगवन् ! दुप्पणिधान केटला प्रकारतुं कखुं छे ? [उ०] हे गौतम ! दुप्पणिधान त्रण प्रकारतुं कखुं छे, ते आ प्रमाणे—मनदुप्पणिधान, वचनदुप्पणिधान अने कायदुप्पणिधान, जेम प्रणिधान विषे दंडक कखो, तेम दुप्पणिधान विषे पण कहेवो. दुप्पणिधानका प्रकार.
१२. [प्र०] हे भगवन् ! सुप्रणिधान केटला प्रकारतुं छे ? [उ०] हे गौतम ! सुप्रणिधान त्रण प्रकारतुं छे, ते आ प्रमाणे—मन-सुप्रणिधान, वचनसुप्रणिधान अने कायसुप्रणिधान. सुप्रणिधान.
१३. [प्र०] हे भगवन् ! मनुष्योने केटला प्रकारतुं सुप्रणिधान होय छे ? [उ०] त्रणे प्रकारतुं सुप्रणिधान होय छे. एने ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे' एम करी पूव्व गौतम न्यामी यानत्—जिरे छे. त्सार पछी श्रमण भगवंत महावीर यावत्—वहारना देशोमां विहरै छे.

परिग्रह प्रकार.

प्रणिधानका प्रकार.

दुप्पणिधानका प्रकार.

सुप्रणिधान.

५ * उपधि अने परिग्रहमा नेद एटलो छे के जीवननिर्वाहमा उपकारक कर्म, शरीर अने वस्त्रदि उपधि कहेवाय छे एने नेद मनुष्यद्विरी यहीत पाय लारे ते परिग्रह कहेवाय छे —टीका.

७ † दोइपण प्रकारना निधित आरथनमा मन, वचन अने काययोगने स्थिर करवा ते प्रणिधान.

१४. तेषां कालेण तेषां समयेण रायगिहे नामं नगरे । गुणसिलप चेदप । यत्रयो । जाव-पुढविसिलापट्टयो । तस्स णं गुणसिलस्स चेइयस्स अदूरसामंते चहवे अन्नउत्थिया परिवसंति, तं जद्दा-फालोदायी, सेलोदायी, एवं जद्दा सत्तम-सप अन्नउत्थियउद्देसए जाव-से कहमेयं मन्ने एवं ? तत्थ णं रायगिहे नगरे महुए नामं समणोवासए परिवसति, अहे, जाव-अपरिभूए, अभिगय० जाव-विहरति । तए णं समणे भगवं महावीरे अन्नया कदायि पुद्धानुपुद्दिं चरमाणे जाव-समोसडे, परिस्ता जाव-पञ्जुवासति । तए णं महुए समणोवासए इमीसे कद्दाए लद्धट्टे समाणे दट्टवुट्ट० जाव-हियए पद्दाए जाव-सरीरे सयाओ गिहाओ पडिनिम्भमति, स० २ पडिनिस्समिन्ता पाद्दविहारस्वारंणं रायगिहं नगरं जाव-निग्गच्छति, निग्गच्छित्ता तेसिं अन्नउत्थियाणं अदूरसामंतेणं वीयीवयति । तए णं ते अन्नउत्थिया महुयं समणोवासयं अदूरसामंतेणं वीयीवयमाणं पासंति, पासित्ता अन्नमन्नं सद्दावेंति, अन्नमन्नं सद्दावेत्ता एवं वयासी-‘एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं इमा क्हा अविउप्पकडा, इमं च णं महुए समणोवासए अम्हं अदूरसामंतेणं वीइवयद, तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं महुयं समणोवासयं एयमट्टं पुच्छित्तए’त्ति कट्टु अन्नमन्नस्स अंतियं एयमट्टं पडिगुणेंति, अन्नमन्नस्स० २ पडिगुणेत्ता जेणेव महुए समणोवासए तेणेव उचागच्छन्ति, उचागच्छित्ता महुयं समणोवासयं एवं वदासी-

१५. एवं खलु महुया ! तव धम्मायरिए धम्मोचदेसए समणे णायपुत्ते पंच अन्थिक्राये पन्नवेइ-जद्दा सत्तमे सए अन्नउत्थियउद्देसए, जाव-से कहमेयं महुया ! एवं ? तए णं से महुए समणोवासए ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-‘जति कज्जं कज्जति जाणामो पासामो, अहे कज्जं न कज्जति न जाणामो न पासामो’ । तए णं ते अन्नउत्थिया महुयं समणोवासयं एवं वयासी-‘केस णं तुमं महुया ! समणोवासगाणं भवसि, जे णं तुमं एयमट्टं न जाणसि न पाससि’ ?

१४. ते काले ते समये *राजगृह नामे नगर हतुं. गुणसिलक नामे चैल हतुं. वर्णक. यावत्-पृथिवीशिखापट्ट हतो, ते गुणसिलक चैलनो आसपास घणा अन्यतीर्थिको रहेता हता. ते आ प्रमाणे-फालोदायी, शैलोदायी-इत्यादि सप्तम शतकना अन्यतीर्थिक उद्देशकमां कदा प्रमाणे यावत्-‘ए वात एम केम मानी शकाय’ ? त्यां सुधीं कहेवुं. हवे ते राजगृह नगरमां आद्य-धनिक यावत्-कोइयी परामव न पामे तेवो अने जीवादि तत्त्वो नो जाणकार, महुक नामे श्रमणोपासक-श्रावक रहेतो हनो. त्सार पछी अहिं अन्य कोइ एक दिवसे अनुक्रमे विहार करता, यावत्-श्रमण भगवंत महावीर समोसया. पर्यदा यावत्-पर्युपासना करे छे. त्सार बाद श्रमण भगवंत महावीर आच्यानी आ वात सांभळी, हट्ट अने संतुष्ट हृदयवाळो थयेलो महुक श्रमणोपासक, खान करी यावत्-शरीरने अलंछत करी पोताना घरथी बहार नीकळी पगे चाली राजगृह नगरनी वचोवच थईने ते अन्यतीर्थिकोनी बहू दूर नहि तेम बहू पासे नहि एवी रीते जाय छे. त्सार ते अन्यतीर्थिकोए ते महुक श्रमणोपासकने पोताना पासे थईने जतो जोई, परस्पर एक वीजाने बोलावी आ प्रमाणे कहुं-‘हे देवानुप्पियो ! ए प्रमाणे खरेखर आपणने आ वात इअत्यंत विदित छे, अने आ महुक श्रमणोपासक आपणी पासे थईने जाय छे, तो हे देवानुप्पियो ! आपणे ते वात महुक श्रमणोपासकने पूछवी योग्य छे.’ एम विचारी परस्पर ते वात कतूल करी ज्यां महुक श्रमणोपासक छे, त्यां जईने ते अन्यतीर्थिकोए ते महुक श्रमणोपासकने आ प्रमाणे कहुं—

१५. हे महुक ! ए प्रमाणे खरेखर तारा धर्माचार्य अने धर्मोपदेशक श्रमण ज्ञातपुत्र पांच अस्तिकाय प्ररूपे छे-इत्यादि सातमा शतकना अन्यतीर्थिक उद्देशकमां कदा प्रमाणे वहुं कहेवुं. यावत्-हे महुक ! एम केवी रीते मानी शकाय ? त्सार पछी ते महुक श्रमणो-

१४ * राजगृह नगरमा जीवाजीवादि तत्त्वो ज्ञाता महुक नामे श्रमणोपासक रहेतो हतो भगवान् महावीर अनुक्रमे विहार करना अहिं आबी गुणसिल चैलमा समोसया. भगवत आच्यानी वृत्तात नाभळी महुक श्रावक प्रसन्न अने संतुष्ट थयो अने भगवतने वदन करवा घरथी नीरुळ्यो. ते गुणसिल चैलनी आसपास फालोदायी वंगेरे घणा अन्यतीर्थिको रहेता हता तेओए महुक श्रावकने भगवंतने वदन करवा पासे थईने जतो जोयो अने तेओए तेने उभो राखी पृथुके तमार धर्मोपदेशक श्रमण ज्ञातपुत्र धर्मान्तिकायादि पांच अस्तिकायनी प्ररूपणा करे छे, ते केवी रीते मानी शकाय ? तुं तुं धर्मान्तिकायादिने जाणे छे ? महुके उत्तर आण्यो के जो नेई वस्तु काइ कार्य करे तो आपणे तेने कार्यद्वारा जाणी शकिए, पण ते काइ पण कार्य न करे, निष्क्रिय होय तो आपणे तेने जाणी शकता नथी, तेम जोई शकना पण नथी. ते सामळी अन्यतीर्थिकोए उपालभपूर्वक कहु के तु श्रमणोपासक छे अने तेने धर्मान्तिकायादिनी पण खबर नथी ? त्सार पछी महुके ते अन्यतीर्थिकोने नीचे प्रमाणे उत्तर आण्यो-‘बायु वाय छे ए वरोवर छे ? तेतुं एप तमे जाणी के जोई शक्यो छे ? गन्धवाळा पुद्दलो छे ए मत्त छे ? तेने तमे सुन्नो छे ? मसुडने पार अने देवलोक्का एपो खरेखर छे ? तेने तमे जाणी छे ? ते अन्यतीर्थिकोए ना कही एट्टे महुके तेओने कहुं के छत्रस्थ मनुष्य जे न जाणे के न देखे ते बधु न होय तो आ दुनीयाना घणी वस्तुओनो अभाव थई जाय. माटे छत्रस्थथी धर्मान्तिकायादि जाणी शकता नथी तेवी तेनो अभाव सिद्ध न बाय. एम कही महुक श्रावक तेओने निरुत्तर कया. त्सार पछी महुक श्रावक भगवंत महावीरनी पासे गयो अने वदन नमस्कार करी पर्युपासना करवा लाग्यो. त्सार बाद भगवान् महावीरने तेने सवोधीने कहुं के हे महुक ! तं अन्यतीर्थिकोने ठीक उत्तर आण्यो. जे माणम वीठा के सांभळ्या विवाय अट्ट, अज्ञात अर्थ, हेतु, प्रश्न के उत्तरने वहे छे ते अहंतनी अने अहंते कहेला धर्मेनी आघातना करे छे. ते सामळी महुक प्रसन्न अने संतुष्ट थई पोताने घेर गयो.

† भग० खं० ३ श० ७ पृ० ३६,

‡ अहिं मूळ पाठमा ‘अविउप्पकडा’ शब्दनी अर्थ ‘अविद्वानोए कहेलो छे’ एवो वीजो अर्थ टीकाकार करे छे.

१५ † भग० खं० ३ श० ७ पृ० १० पृ० ३६.

तए णं से महुए समणोवासए ते अन्नउत्थिए एवं वयासी—‘अत्थि णं आउसो ! वाउयाए वात्ति’ ? हंता अत्थि, तुज्जे णं आउसो ! ‘वाउयायस्स वायमाणस्स रूवं पासह’ ? णो तिणट्ठे समट्ठे । अत्थि णं आउसो ! ‘घाणसहगया पोग्गला’ ? हंता अत्थि, ‘तुज्जे णं आउसो ! घाणसहगयाणं पोग्गलाणं रूवं पासह’ ? णो तिणट्ठे समट्ठे । अत्थि णं आउसो ! अरणिंसहगए अगणिकाये’ ? ‘हंता अत्थि’ । ‘तुज्जे णं आउसो ! अरणिंसहगयस्स अगणिकायस्स रूवं पासह’ ? णो तिणट्ठे समट्ठे । ‘अत्थि णं आउसो ! समुद्दस्स पारगयाइं रूवाइं’ ? ‘हंता अत्थि’ ‘तुज्जे णं आउसो ! समुद्दस्स पारगयाइं रूवाइं पासह’ ? णो तिणट्ठे समट्ठे । ‘अत्थि णं आउसो ! देवलोगगयाइं रूवाइं’ ? ‘हंता अत्थि’ । ‘तुज्जे णं आउसो ! देवलोगगयाइं रूवाइं पासह’ ? णो तिणट्ठे समट्ठे । ‘एवामेव आउसो ! अहं वा तुज्जे वा अन्नो वा छउमत्थो जइ जो जं न जाणइ न पासइ तं सव्वं न भवति, एवं भे सुवहुए लोए ण भविस्सती’ति कट्ठु ते णं अन्नउत्थिए एवं पडिहणइ, एवं पडिहणित्ता जेणेव गुणसिलए चेइए जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं पंचविहेणं अभिगमेणं जाव—पज्जुवासति ।

१६. ‘महुया’ ! दी समणे भगवं महावीरे महुयं समणोवासणं एवं वयासी—‘सुट्ठु णं महुया ! तुमं ते अन्नउत्थिए एवं वयासी, साह णं महुया ! तुमं ते अन्नउत्थिए एवं वयासी, जे णं महुया ! अट्ठं वा हेउं वा पसिणं वा वागरणं वा अन्नायं अदिट्ठं अस्सुतं अमयं अविण्णायं बहुजणमज्जे आघवेति पचवेति, जाव—उवदंसेति, से णं अरिहंताणं आसाअणाए वट्ठति, अरिहंतपन्नत्तस्स धम्मस्स आसायणाए वट्ठति, केवलीणं आसायणाए वट्ठति, केवल्लिपन्नत्तस्स धम्मस्स आसायणाए वट्ठति, तं सुट्ठु णं तुमं महुया ! ते अन्नउत्थिए एवं वयासी, साह णं तुमं महुया ! जाव—एवं वयासी’ । तए णं महुए समणोवासए समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वुत्ते समाणे हट्ठ—तुट्ठे समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसिता णञ्चासन्ने जाव—पज्जुवासइ । तए णं समणे भगवं महावीरे महुयस्स समणोवासणस्स तीसे य जाव—परिसा पडिगया । तए णं

पासके ते अन्यतीर्थिकोने आ प्रमाणे कहुं—‘जो कोई (वस्तु) कार्य करे तो आपणे तेने कार्यद्वारा जाणी शकीए के जोई शकीए. पण जो ते पोतानुं कार्य न करे तो आपणे तेने जाणी शकता नयी, तेम जोई शकता पण नयी.’ ल्यार पछी ते अन्यतीर्थिकोए ते मट्टुक श्रमणोपासकने आ प्रमाणे कहुं—‘हे मट्टुक ! तूं आ केवो श्रमणोपासक छो के जे तूं आ (पंचास्तिकायनी) वात जाणतो नयी अने जोतो नयी’ ?

ल्यार पछी ते मट्टुक श्रमणोपासके ते अन्यतीर्थिकोने आ प्रमाणे कहुं—‘हे आयुप्पन् ! पवन वाय छे ए वरोवर छे ? हा, वरोवर छे, हे आयुप्पन् ! तमे वाता एवा पवनतुं रूप जुओ छो ? ना, ए वात ययार्थ नयी. अर्थात् अमे पवनतुं रूप जोई शकता नयी. हे आयुप्पन् ! गंधगुणवाळा पुद्रलो छे ? हा, छे. हे आयुप्पन् ! ते गंधगुणवाळा पुद्रलोतुं रूप तमे जुओ छो ? ए अर्थ समर्थ नयी—अमे तेतुं रूप जोई शकता नयी. हे आयुप्पन् ! अरणिना काष्ठ साथे अग्नि छे ? हा, छे. हे आयुप्पन् ! ते अरणिना काष्ठमां रहेला अग्निंतुं रूप तमे जुओ छो ? ना, ए वात ययार्थ नयी. हे आयुप्पन् ! समुद्रना पेले पार रहेलां रूपो (पदार्थो) छे ? हा, छे. हे आयुप्पन् ! समुद्रने पेले पार रहेला रूपोने तमे जुओ छो ? ना, ए वात ययार्थ नयी. हे आयुप्पन् ! देवलोकमां रहेला रूपो (पदार्थो) छे ? हा, छे. हे आयुप्पन् ! देवलोकमां रहेला पदार्थोने तमे जुओ छो ? ना, ए वात समर्थ नयी. हे आयुप्पन् ! ए प्रमाणे हुं, तमे के वीजो कोइ छन्नस्य, जेने न जाणे के न देखे ते वधुं न होय तो (तमारा मानवा प्रमाणे) घणा लोकनो—घणी वस्तुओनो अभाव थशे’—एम कहिने ते मट्टुके ते अन्यतीर्थिकोनी पराभव कर्यो—तेओने निरुत्तर कर्यो, एम निरुत्तर करीने ते मट्टुक श्रमणोपासके ज्यां गुणसिलक चैल्य छे अने ज्यां श्रमण भगवंत महावीर छे त्या आवीने पाच प्रकारना अभिगम वडे श्रमण भगवंत महावीरनी पासे जइने यावत्—पर्युपासना करी.

मट्टुकनो प्रतिप्रश्न-
द्वारा उत्तर-

१६. ल्यार वाद ‘हे मट्टुक ! एम संबोधी श्रमण भगवंत महावीरे मट्टुक श्रमणोपासकने एम कहुं के, हे मट्टुक ! तें ते अन्यतीर्थिकोने वरोवर कहुं, हे मट्टुक ! ते ते अन्यतीर्थिकोने ए प्रमाणे ठीक उत्तर आप्यो, हे मट्टुक ! जे कोइ जाण्पा, देख्या के सामब्ब्या सिवाय, जे कोइ अट्ट, अश्रुत, असमत के अविज्ञात अर्थने, हेतुने, प्रश्न के उत्तरने घणा माणसोनी वच्चे कहे छे, जणावे छे, यावत्—दर्शने छे, ते अहंतोनी, अहंते कहेला धर्मनी, केवल्लज्ञानीनी अने केवलीए कहेला धर्मनी आशातना करे छे, माटे हे मट्टुक ! ते ते अन्यतीर्थिकोने ए प्रमाणे ठीक कहुं छे, तें यावत्—ते अन्यतीर्थिकोने ए प्रमाणे सारुं कहुं छे.’ ज्यारे श्रमण भगवंत महावीरे ते मट्टुक श्रमणोपासकने एम कहुं ल्यारे ते हट्ट अने संतुष्ट थई श्रमण भगवंत महावीरने चंदन अने नमस्कार करी बहु दूर नहि तेम बहु नजीक नहि एवी रीते उभा रहीने यावत्—तेओनी पर्युपासना करी. ल्यार पछी श्रमण भगवंत महावीरे ते मट्टुक श्रमणोपासक अने ते पर्युपासने धर्मकथा कही,

मद्दुप समणोवासए समणस्स भगवथो महावीरस्स जाव-निसम्म दट्ट-तुट्टे पसिणाइं पुच्छति, प० २ पुच्छित्ता अट्ठाइं परियात्तिइ, अ० २ परियात्तिता उट्ठाए उट्टेइ, उ० २ उट्टेत्ता समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति, वदित्ता नमंसित्ता जाव-पडिगए ।

१७. [प्र०] 'भंते'त्ति भगवं गोयमे समणे भगवं महावीरं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-पभू णं भंते ! मद्दुप समणोवासए देवाणुप्पियाणं अंतियं जाव-पव्वत्तए ? [उ०] णो तिणट्टे समट्टे, एवं जहेव संगे तहेव अरणाभे जाव-अंतं काहिंति ।

१८. [प्र०] देवे णं भंते ! महट्ठिप जाव-महेसन्त्ते स्वसहस्सं विउच्चित्ता पभू अत्तमत्तेणं सद्धिं संगामं संगामित्तए ? [उ०] हंता पभू ।

१९. [प्र०] ताथो णं भंते ! वोंदीथो किं एगजीवफुडाथो अणेगजीवफुडाथो ? [उ०] गोयमा ! एगजीवफुडाथो, णो अणेगजीवफुडाथो ।

२०. [प्र०] ते णं भंते ! तासि णं वोंदीणं अंतरा किं एगजीवफुडा अणेगजीवफुडा ? [उ०] गोयमा ! एगजीवफुडा, नो अणेगजीवफुडा ।

२१. [प्र०] पुरिसे णं भंते ! अंतरे णं हत्थेण वा० एवं जहा अट्टमसए तटए उद्देसए जाव-नो खलु तत्थ सत्थं कमति ।

२२. [प्र०] अत्थि णं भंते ! देवानुराणं संगामे दे० २ ? [उ०] हंता अत्थि ।

२३. [प्र०] देवासुरेसु णं भंते ! संगामेसु वट्टमाणेसु किं तं तेसिं देवाणं पहरणरयणत्ताए परिणमति ? [उ०] गोयमा ! जत्तं ते देवा तणं वा कट्टं वा पत्तं वा सक्करं वा परासुसंति तं णं तेसिं देवाणं पहरणरयणत्ताए परिणमति ।

२४. [प्र०] जहेव देवाणं तहेव असुरकुमारारणं ? [उ०] णो तिणट्टे समट्टे, असुरकुमारारणं देवाणं निच्चं विउच्चिया पहरणरयणा पन्नत्ता ।

यावत्-ते पर्यटा पाछी गई. पछी ते मद्दुक श्रमणोपासके श्रमण भगवंत महावीर पासेथी यावत्-धर्मोपदेश सांभळी टट्ट अने संतुष्ट थई प्रश्नो पूछ्या, अर्थो जाण्या, अने ल्यार वाद उभा थई श्रमण भगवंत महावीरने वादी नमी यावत्-ते पाछो गयो.

१७. [प्र०] 'हे भगवन् ! एम कही भगवान् गौतमे श्रमण भगवंत महावीरने वादी नमी आ प्रमाणे कखुं के हे भगवन् ! मद्दुक श्रमणोपासक आप देवानुप्रियनी पासे यावत्-प्रत्रय्या लेवा समर्थं छे ? [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नथी-इत्यादि जेम *शंख श्रमणोपासक संबन्धे कखुं हतुं तेम यावत्-अरुणाभविमानमा देव तरीके उत्पन्न थई यावत्-सर्व दु.खोनो अन्त करशे.

१८. [प्र०] हे भगवन् ! महर्द्धिक यावत्-मोटा सुखवाळो देव हजार रूपो विकुर्वा, परस्पर संग्राम करवा समर्थ छे ? [उ०] हा गौतम ! समर्थ छे.

१९. [प्र०] हे भगवन् ! ते विकुर्वेला शरीरो एक जीवनी साथे संबंधवाळां होय छे के अनेक जीव साथे संबंधवाळां होय छे ? [उ०] हे गौतम ! ते वधा शरीरो एक जीव साथे संबंधवाळां होय छे, पण अनेक जीव साथे संबंधवाळां होता नथी.

२०. [प्र०] हे भगवन् ! ते शरीरोना परस्पर अंतरो-वच्चेना भागो एक जीव वडे संबद्ध छे के अनेक जीव वडे संबद्ध छे ? [उ०] हे गौतम ! ते शरीरो वच्चेना अतरो एक जीव वडे संबद्ध छे पण अनेक जीव वडे संबद्ध नथी.

२१. [प्र०] हे भगवन् ! कोइ पुरुष ते शरीरो वच्चेना आंतराओने पोताना हायवडे, पगवडे स्पर्श करतो यावत्-तीक्ष्ण शस्त्र वडे छेदतो काइ पण पीडा उत्पन्न करी शके ?-इत्यादि †आठमा शतकना श्रीजा उद्देशकमा कखा प्रमाणे यावत्-त्या शस्त्र असर करी शके नहिं' त्यां सुधी कहैतुं.

२२. [प्र०] हे भगवन् ! देव अने असुरोनो संग्राम थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! हा, थाय छे.

२३. [प्र०] हे भगवन् ! ज्यारे देव अने असुरोनो संग्राम थतो होय ल्यारे ते देवोने कई वस्तु शस्त्ररूपे परिणत थाय ? [उ०] हे गौतम ! तणखळं, टाकडुं, पादडुं के कांकारो वगैरे जे कोइ वस्तुनो स्पर्श करे ते वस्तु ते देवोने शस्त्ररूपे परिणत थाय छे.

२४. [प्र०] जेम देवोने कोइ पण वस्तु स्पर्शमात्रथी शस्त्ररूपे परिणत थाय छे तेम असुरोने पण थाय ? [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नथी, पण असुरकुमार देवोने तो हमेगा विकुर्वेला शस्त्ररूपे होय छे.

१७ * जुओ भग० अ० १२ उ० १ पृ० २५६.

२१ † जुओ भग० अ० ३ पृ० ७८ सू० ७.

देवोनु दैक्रिय रूप
अरवानु सामर्थ.

वैक्रिय शरीरोनो
नैव साथे संबन्ध

तेना परस्पर अंतरनो
जीव साथे संबन्ध.

तेना परस्पर अंतरनो
शस्त्रादिकी छे वान
के नहिं ?

देवानुर संग्राम.

२५. [प्र०] देवे णं भंते ! महद्द्विष जाव-महेसकषे पभू लवणसमुद्दं अणुपरियट्टित्ता णं हव्वमागच्छित्तए ? [उ०] हंता पभू ।

२६. [प्र०] देवे णं भंते ! महद्द्विष एवं धायइसंडं दीवं जाव-हंता पभू, एवं जाव-रुयगवरं दीवं जाव-हंता पभू, ते णं परं वीतीवपज्जा, नो चेव णं अणुपरियट्टेज्जा ।

२७. [प्र०] अत्थि णं भंते ! देवा जे अणंते कम्मंसे जहन्नेणं एक्केण वा दोहिं वा तीहिं वा, उक्कोसेणं पंचहिं वासस-एहिं खवयंति ? [उ०] हंता अत्थि ।

२८. [प्र०] अत्थि णं भंते ! देवा जे अणंते कम्मंसे जहन्नेणं एक्केण वा दोहिं वा तीहिं वा, उक्कोसेणं पंचहिं वासस-हस्सेहिं खवयंति ? [उ०] हंता अत्थि ।

२९. [प्र०] अत्थि णं भंते ! ते देवा जे अणंते कम्मंसे जहन्नेणं एक्केण वा दोहिं वा तीहिं वा, उक्कोसेणं पंचहिं वास-सयसहस्सेहिं खवयंति ? [उ०] हंता अत्थि ।

३०. [प्र०] कयरे णं भंते ! ते देवा जे अणंते कम्मंसे जहन्नेणं एक्केण वा जाव-पंचहिं वाससएहिं खवयंति ? कयरे णं भंते ! ते देवा जाव-पंचहिं वाससयसहस्सेहिं खवयंति ? [उ०] गोयमा ! वाणमंतरा देवा अणंते कम्मंसे एगेणं वाससएणं खवयंति, असुरिंदवज्जिया भवणवासी देवा अणंते कम्मंसे दोहिं वाससएहिं खवयंति, असुरकुमारा णं देवा अणंते कम्मंसे तीहिं वाससएहिं खवयंति, गह-नक्खत्त-तारारूवा जोइ-सिया देवा अणंते कम्मंसे चउहिं वास० जाव-खवयंति, चंदिम-सूरिया जोइसिंदा जोतिसरायाणो अणंते कम्मंसे पंचहिं वाससएहिं खवयंति, सोहम्मी-साणगा देवा अणंते कम्मंसे एगेणं वाससहस्सेणं जाव-खवयंति, सणकुमार-माहिंदगा देवा अणंते कम्मंसे दोहिं वाससहस्सेहिं खवयंति, एवं एएणं अभिलवेणं वंभलोग-लंतगा देवा अणंते कम्मंसे तीहिं वाससहस्सेहिं खवयंति, महासुक-सहस्सारगा देवा अणंते चउहिं वाससहस्सेहिं, आणय-पाणय-आरण-अच्युयगा देवा अणंते पंचहिं वास-सहस्सेहिं खवयंति, हिट्ठिमगेविज्जगा देवा अणंते कम्मंसे एगेणं वाससयसहस्सेणं खवयंति, मज्झिमगेवेज्जगा देवा अणंते दोहिं वाससयसहस्सेहिं जाव-खवयंति, उवरिमगेवेज्जगा देवा अणंते कम्मंसे तिहिं वास० जाव-खवयंति, विजय-वेजयंत-जयंत-

२५. [प्र०] हे भगवन् ! मोटी ऋद्धिवाळो यावत्-मोटा सुखवाळो देव, लवणसमुद्रनी चोतरफ फरी शीघ्र आववा समर्थ छे ? [उ०] हा, समर्थ छे. देवोतु गमनमार्थं.

२६. [प्र०] हे भगवन् ! मोटी ऋद्धिवाळो यावत्-देव धातकिखंड द्वीपनी चारे तरफ फरी शीघ्र आववा समर्थ छे ? [उ०] हा, समर्थ छे. [प्र०] ए प्रमाणे यावत्-रुचकवर द्वीप सुधी चोतरफ आटो मारी शीघ्र आववा समर्थ छे ? [उ०] हा, समर्थ छे. ल्यार पछी आगळना द्वीप-समुद्र सुधी जाय, पण तेनी *चारे ब्राजु फरे नहि.

२७. [प्र०] हे भगवन् ! शुं एवा देवो छे के, जेओ अनंत (शुभप्रकृतिरूप) कर्मांशोने जघन्यथी एकसो, वसो के त्रणसो वर्षे अने उत्कृष्टथी पांचसो वर्षे खपावे ? [उ०] हा, एवा देवो छे. देवोना पुण्यकर्मान् क्षयतु तारतम्यं.

२८. [प्र०] हे भगवन् ! एवा देवो छे के, जेओ अनंत कर्मांशोने जघन्यथी एक हजार, वे हजार के त्रण हजार वर्षे अने उत्कृष्टथी पाच हजार वर्षे खपावे ? [उ०] हा, छे.

२९. [प्र०] हे भगवन् ! एवा देवो छे, के जेओ अनंत कर्मांशोने जघन्यथी एक लाख, वे लाख के त्रण लाख वरसे अने उत्कृष्टथी पाच लाख वरसे खपावे ? [उ०] हा, छे.

३०. [प्र०] हे भगवन् ! एवा कया देवो छे के जेओ अनंत कर्मांशोने जघन्यथी एक सो वर्षे यावत्-पाचसो वरसे खपावे ? हे भगवन् ! एवा कया देवो छे के यावत्-पाच हजार वर्षे खपावे ? हे भगवन् ! एवा कया देवो छे के यावत्-पाच लाख वरसे खपावे ? [उ०] हे गौतम ! वानव्यंतर देवो एकसो वर्षे अनंत कर्मांशोने खपावे, असुरेन्द्र सिवायना भवनवासी देवो अनंत कर्मांशोने वसो वरसे खपावे, असुरकुमार देवो अनंत कर्मांशोने त्रणसो वर्षे खपावे, ग्रह-नक्षत्र अने तारारूप ज्योतिषिक देवो अनंत कर्मांशोने चारसो वरसे खपावे, तथा ज्योतिषिकना राजा अने ज्योतिषिकना इन्द्र, चन्द्र अने सूर्य अनंत कर्मांशोने पांचसो वरसे खपावे. सौधर्म अने ईगान कल्पना देवो अनंत कर्मांशोने एक हजार वर्षे खपावे, सनत्कुमार अने माहेन्द्रना देवो अनंत कर्मांशोने वे हजार वर्षे खपावे, एम ए सूत्रना पाठ वडे ब्रह्मलोक अने लांतकना देवो त्रण हजार वर्षे, महाशुक अने सहस्रारना देवो चार हजार वर्षे, आनत-प्राणत अने आरण-अच्युतना देवो

अपराजियगा देवा अणंते चउहिं वास० जाव—खवयंति, सद्यदुसिद्धगा देवा अणंते कम्मसे पंचहिं वाससयसहस्सेहिं खवयंति, एणणट्टेणं गोयमा ! ते देवा जे अणंते कम्मसे जहद्वेणं एकेण वा दोहिं वा तीहिं वा, उद्धोसेणं पंचहिं वाससणहिं खवयंति, एणणं गोयमा ! ते देवा जाव—पंचहिं वाससहस्सेहिं खवयंति, एणणट्टेणं गोयमा ! ते देवा जाव—पंचहिं वाससयसहस्सेहिं खवयंति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

अट्टारसमसए सत्तमो उद्देशो समत्तो ।

पाच हजार वर्षे, हेठला त्रैवेयकना देवो एक लाख वर्षे, वचला त्रैवेयकना देवो वे लाख वर्षे, उपरना त्रैवेयकना देवो त्रण लाख वर्षे, विजय, वैजयंत, जयंत अने अपराजितना देवो चार लाख वर्षे, अने सर्वार्थसिद्धना देवो पांच लाख वर्षे अनंत कर्माशोने खपावे छे. ते माटे हे गौतम ! एवा देवो छे के, जेओ अनंत कर्माशोने जघन्यथी एक, वे के त्रण सो वर्षे अने उत्कृष्टथी पांचसो वर्षे खपावे छे. एवा पण देवो छे के जेओ जघन्यथी एक, वे के त्रण हजार वर्षे अने उत्कृष्टथी पांच हजार वर्षे खपावे छे. तथा एवा देवो छे के, जेओ जघन्यथी एक, वे के त्रण लाख वर्षे अने उत्कृष्टथी पाच लाख वर्षे अनंत कर्माशोने खपावे छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

अट्टारमा शतकमां सप्तम उद्देशक समाप्त.

अट्टमो उद्देशो.

१ [प्र०] रायगिहे जाव—एवं वयासी—अणगारस्स णं भंते ! भावियप्पणो पुरओ दुद्धओ लुगमायाए पेहाए रीयं रीय-माणस्स पायस्स अहे कुकुडपोते वा वट्टापपोते वा कुल्लिगच्छाय वा परियावज्जेजा, तस्स णं भंते ! किं ईरियावहिया किरिया कज्जइ, संपराइया किरिया कज्जइ ? [उ०] गोयमा ! अणगारस्स णं भावियप्पणो जाव—तस्स णं ईरियावहिया किरिया कज्जइ, नो संपराइया किरिया कज्जइ । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जहा सत्तमसए संवुडुहेसए जाव—अट्टो निक्खित्तो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! जाव—विहरति । तए णं समणे भगवं महावीरे वहिया जाव—विहरति ।

२. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव—पुढविसिलापट्टए, तस्स णं गुणसिलस्स चेइयस्स अट्टरसामंते वधेव अन्नउत्थिया परिवसंति । तए णं समणे भगवं महावीरे जाव—समोसढे, जाव—परिसा पड्डिगया । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्टे अंतेवासी इंदभूवी नामं अणगारे जाव—उट्टंजाणू जाव—विहरइ । तए णं ते अन्नउत्थिया जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागच्छन्ति, उवागच्छित्ता भगवं गोयमं एवं वयासी—'तुज्जे णं अज्जो ! तिविहं तिविहेणं अस्संजया जाव—एगंतवाला यावि भवह' ।

३. तए णं भगवं गोयमे अन्नउत्थिए एवं वयासी—'से केणं कारणेणं अज्जो ! अग्हे तिविहं तिविहेणं अस्संजया जाव—

अट्टम उद्देशक.

१. [प्र०] राजगृह नगरमा भगवान् गौतम यावत्—आ प्रमाणे वोल्या के, हे भगवन् ! आगळ अने वाजुए युग(धूसरा)प्रमाण भूमिने जोईने गमन करता भावितात्मा अनगारना पग नीचे कुकडीतुं वच्चुं, वतकत्तुं वच्चुं के कुल्लिगच्छाय (कीडी जेवो सूक्ष्म जंतु) आवीने मरण पामे तो हे भगवन् ! ते अनगारने शुं ऐर्यापथिकी क्रिया लागे के सापरायिकी क्रिया लागे ? [उ०] हे गौतम ! ते भावितात्मा अनगारने यावत्—ऐर्यापथिकी क्रिया लागे, पण सांपरायिकी क्रिया न लागे. [प्र०] हे भगवन् ! एम शा हेतुथी कहो छे—इत्यादि प्रश्न अने उत्तर सातमा शतकना संवृत उद्देशकमां कहा प्रमाणे जाणवो. यावत्—अर्थनो निक्षेप—निगमन करवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'—एम कही यावत्—विहरे छे. ल्यार पछी श्रमण भगवंत महावीर बहारनां देशोमा विहार करे छे.

२. ते काळे, ते समये राजगृह नामे नगर हतुं. यावत्—पृथिवीशिलापट्ट हतो. ते गुणसिलक चैत्यनी आसपास घणा अन्यतीर्थिको रहेता हता. त्यां श्रमण भगवंत महावीर समोसर्था. यावत्—पर्वदा वादीने पाछी गई. ते काळे, ते समये श्रमण भगवंत महावीरना मोटा शिष्य इन्द्रभूति नामे अनगार यावत्—टीचण उंचा राखी संयमथी आत्माने भावित करता विहरे छे. ल्यारे ते अन्यतीर्थिको न्यां भगवंत गौतम छे त्यां आव्या, आवीने भगवंत गौतमने आ प्रमाणे कह्युं—'हे आयो ! तमे त्रिविध त्रिविधे असंयत—संयमरहित अने यावत्—एवात बाल—विरतिरहित छे.'

३. ल्यार पछी भगवंत गौतमे ते अन्यतीर्थिकोने आ प्रमाणे कह्युं—'हे आयो ! कया कारणथी अमे त्रिविध त्रिविधे असंयत यावत्—एकान्त बाल छीए ? ल्यारे ते अन्यतीर्थिकोए भगवंत गौतमने आ प्रमाणे कह्युं—'हे आयो ! तमे गमन करता जीवोने आक्रान्त करो छे—

एगंतवाला याचि भवामो' । तए णं ते अन्नउत्थिया भगवं गोयमं एवं वयासी—'तुज्जे णं अज्जो ! रीयं रीयमाणा पाणे पेचेह, अभिहणह, जाव—उचइवेह, तए णं तुज्जे पाणे पेचेमाणा जाव—उचइवेमाणा तिचिहंतिचिहेणं जाव—एगंतवाला याचि भवह' ।

४. तएणं भगवं गोयमे ते अन्नउत्थिए एवं वयासी—'नो खलु अज्जो ! अम्हे रीयं रीयमाणा पाणे पेचेमो; जाव—उचइवेमो, अम्हे णं अज्जो ! रीयं रीयमाणा कायं च जोयं च रीयं च पडुच दिस्सा २ पदिस्सा २ वयामो, तए णं अम्हे दिस्सा दिस्सा वयमाणा पदिस्सा पदिस्सा वयमाणा णो पाणे पेचेमो, जाव णो उचइवेमो, तए णं अम्हे पाणे अपेचेमाणा जाव—अणोइवेमाणा तिचिहं तिचिहेणं जाव—एगंतपंडिया याचि भवामो, तुज्जे णं अज्जो ! अप्पणा चेव तिचिहं तिचिहेणं जाव—एगंतवाला याचि भवह' ।

५. तए णं ते अन्नउत्थिया भगवं गोयमं एवं वयासी—'केणं कारणेणं अज्जो ! अम्हे तिचिहं तिचिहेणं जाव—भवामो' । तए णं भगवं गोयमे ते अन्नउत्थिए एवं वयासी—तुज्जे णं अज्जो ! रीयं रीयमाणा पाणे पेचेह, जाव—उचइवेह, तए णं तुज्जे पाणे पेचेमाणा जाव—उचइवेमाणा तिचिहं जाव—एगंतवाला याचि भवह' । तए णं भगवं गोयमे ते अन्नउत्थिए एवं पडिहणइ, पडिहणित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता णच्चासत्ते जाव—पज्जुवासति ।

६. 'गोयमा'दी समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी—'सुट्ठु णं तुमं गोयमा ! ते अन्नउत्थिए एवं वयासी, साहु णं तुमं गोयमा ! ते अन्नउत्थिए एवं वयासी, अत्थि णं गोयमा ! ममं वहवे अंतेवासी समणा निग्गंथा छउमत्था, जे णं नो पभू एयं वागरणं वागरेत्तए, जहा णं तुमं, तं सुट्ठु णं तुमं गोयमा ! ते अन्नउत्थिए एवं वयासी, साहु णं तुमं गोयमा ! ते अन्नउत्थिए एवं वयासी । तए णं भगवं गोयमे समणेणं भगवया महावीरेण एवं बुत्ते समणे हट्ठ—तुट्ठे समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी—

७. [प्र०] छउमत्थे णं अंते ! मणूसे परमाणुपोग्गलं किं जाणति पासति, उदाहु न जाणति न पासति ? [उ०] गोयमा ! अत्थेगत्तिए जाणति न पासति, अत्थेगत्तिए न जाणति न पासति ।

दवावो छो, मारो छो, यावत्—उपद्रव करो छो, माटे प्राणोने आक्रांत करता यावत्—उपद्रव करता तमे त्रिविध त्रिविधे संयमरहित अने एकांत वाल छो.'

अन्यतीर्थिको.

४. ल्यारे भगवंत गौतमे ते अन्यतीर्थिकोने आ प्रमाणे कहुं—'हे आर्यो ! अमे गमन करता प्राणोने कचरता नथी, यावत्—तेने पीडा करता नथी. पण अमे गमन करता काय, संयमयोग अने [त्वरादि सिवाय] गमनने आश्रयी जोइ जोइने, वारीकीयी जोइ जोइने चालीए छीए, तेयी तेवी रीते चालता अमे प्राणोने कचरता नथी, यावत्—उपद्रव करता नथी. ते माटे प्राणोने नहि कचरता तेम यावत्—नहि पीडा करता अमे त्रिविध त्रिविधे यावत्—एकांत पंडित—विरतिसहित छीए. हे आर्यो ! तमे पोतेज त्रिविध त्रिविधे यावत्—एकांत वाल—विरतिरहित छो.'

गौतम.

५. ल्यार वाद ते अन्यतीर्थिकोए भगवंत गौतमने आ प्रमाणे कहुं के, हे आर्यो ! अमे शा हेतुयी त्रिविध त्रिविधे असयत यावत्—एकांत वाल—विरतिरहित छीए ? ल्यारे भगवंत गौतमे ते अन्यतीर्थिकोने आ प्रमाणे कहुं के, हे आर्यो ! तमे हालता चालतां जीवोने कचरो छो, यावत्—तेने उपद्रव करो छो अने तेथी जीवोने कचरता यावत्—उपद्रव करता तमे त्रिविध त्रिविधे असयत यावत्—एकांत वाल छो.' ए प्रमाणे भगवंत गौतमे ते अन्यतीर्थिकोने निरुत्तर कर्या. ल्यार पछी तेमणे व्यं श्रमण भगवंत महावीर विराजमान हता ल्यां आची श्रमण भगवंत महावीरने वांदी नमी अने वहु दूर नहि तेम वहु नजीक नहि एवी रीते तेमनी पासे वेसी यावत्—पर्युपासना करी.

अन्यतीर्थिक

गौतम

६. 'हे गौतम ! एम संबोधी श्रमण भगवंत महावीरे भगवंत गौतमने आ प्रमाणे कहुं के, हे गौतम ! तें ते अन्यतीर्थिकोने ठीक कहुं, हे गौतम ! ते ते अन्यतीर्थिकोने ए प्रमाणे सारं कहुं, हे गौतम ! मारा घणा शिष्यो श्रमण निर्प्रयो छमस्थ छे, जेओ तारी पेटे ए प्रमाणे उत्तर देवाने समर्थ नथी, माटे हे गौतम ! ते ते अन्यतीर्थिकोने ए प्रमाणे ठीक कहुं, हे गौतम ! ते ते अन्यतीर्थिकोने सारं कहुं.' ज्यारे श्रमण भगवंत महावीरे भगवंत गौतमने ए प्रमाणे कहुं ल्यारे प्रसन्न अने सतुष्ट थइ पूज्य गौतमे श्रमण भगवंत महावीरने वांदी नमी आ प्रमाणे कहुं.—

७. [प्र०] हे भगवन् ! शुं छमस्थ मनुष्य परमाणुपुद्गले जाणे अने जुए के न जाणे अने न जुए ? [उ०] हे गौतम ! कोइ जाणे, पण जुए नहि, अने कोइ जाणे नहि अने जुए पण नहि.

छमस्थना शाननो
नियय.
परमायु.

८. [प्र०] छडमत्ये णं भंते ! मणूसे डुपणसियं खंधं किं जाणति पासति ? [उ०] एवं चेव । एवं जाव-असंखे-जपदेसियं ।

९. [प्र०] छडमत्ये णं भंते ! मणूसे अणंतपणसियं खंधं किं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अत्येगतिण जाणति पासति १, अत्येगतिण जाणति न पासति २, अत्येगतिण न जाणति पासद् ३, अत्येगतिण न जाणद् न पासति ४ ।

१०. [प्र०] आहोहिण णं भंते ! मणूस्से परमाणुपोग्गलं ? [उ०] जहा छडमत्ये एवं आहोहिण वि, जाव-अणंतप-देसियं ।

११. [प्र०] परमाहोहिण णं भंते ! मणूसे परमाणुपोग्गलं जं समयं जाणति तं समयं पासति, जं समयं पासति तं समयं जाणति ? [उ०] णो तिणट्टे समट्टे । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुद्ध-‘परमाहोहिण णं मणूसे परमाणुपोग्गलं जं समयं जाणति नो तं समयं पासति, जं समयं पासति नो तं समयं जाणति’ ? [उ०] गोयमा ! सागारे से नाणे भवर, अणागारे से दंसणे भवर, से तेणट्टेणं जाव-नो तं समयं जाणति, एवं जाव-अणंतपदेसियं ।

१२. [प्र०] केवली णं भंते ! मणूस्से परमाणुपोग्गलं ? [उ०] जहा परमाहोहिण तहा केवली वि, जाव-अणंतप-सियं । ‘सेवं भंते ! सेवं भंते !’ त्ति ।

अट्टारसमे सए अट्टमो उद्देशो समत्तो ।

द्विप्रदेशिक रत्नम्

८. [प्र०] हे भगवन् ! शुं छद्मस्य मनुष्य द्विप्रदेशिक स्कंधने जाणे अने जुए के न जाणे अने न जुए ? [उ०] पूर्व प्रमाणे जाणतुं अने एम यावत्-असत्यानप्रदेशिक स्कंध सुधी कहेतुं.

अनन्त प्रदेशिक स्कन्ध.

९. [प्र०] हे भगवन् ! शुं छद्मस्य मनुष्य अनंतप्रदेशिक स्कंधने जाणे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! १ कोइ जाणे अने जुए, २ कोइ जाणे पण जुए नहि, ३ कोइ जाणे नहि पण जुए अने ४ कोइ जाणे नहि तेम जुए पण नहि.

ज्वधिज्ञाननो निपय.

१०. [प्र०] आधोऽवधिक-अवधिज्ञानी मनुष्य परमाणुपुद्गले जाणे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] जेम छद्मस्सने कयुं तेम अवधिज्ञानीने पण कहेतुं. ए प्रमाणे यावत्-अनंतप्रदेशिक स्कंध सुधी आणतुं.

ज्ञान अने दर्शनना नमनती भिन्ना.

११. [प्र०] हे भगवन् ! परमावधि ज्ञानी मनुष्य परमाणुपुद्गले जे समये जाणे ते समये जुए, अने जे समये जुए ते समये जाणे ? [उ०] ए अर्थ ययार्थ नथी. [प्र०] हे भगवन् ! एम शा हेतुथी कही छो के, परमावधि ज्ञानी मनुष्य परमाणु पुद्गले जे समये जाणे ते समये न जुए अने जे समये जुए ते समये न जाणे ? [उ०] हे गौतम ! ते परमावधिज्ञानीतुं ज्ञान साकार (विशेषप्राहक) होय छे, अने दर्शन अनाकार (सामान्यप्राहक) होय छे, माटे ते हेतुथी एम कहुं छे के—‘यावत्-जे समये जुए छे ते समये जाणतो नथी.’ ए प्रमाणे यावत्-अनंतप्रदेशिक स्कंध सुधी समजतुं.

१२. [प्र०] हे भगवन् ! केवलज्ञानी परमाणुपुद्गले जे समये जाणे ते समये जुए—इत्यादि प्रश्न. [उ०] जेम परमावधिज्ञानीने कयुं तेम केवलज्ञानीने पण कहेतुं. ए प्रमाणे यावत्-अनंतप्रदेशिक स्कंध सुधी जाणतुं. ‘हे भगवन् ! ते एमज छे. हे भगवन् ! ते एमज छे’.

अट्टारमां गतकमां अट्टम उद्देशक समाप्त.

नवमो उद्देशो ।

१. [प्र०] रायगिहे जाव-एवं वयासी-अत्थि णं भंते ! भवियदधनेरइया भवि० २ ? [उ०] हंता अत्थि । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुद्ध-‘भवियदधनेरइया भ० २ ? [उ०] गोयमा ! जे भविण पंचिदिण निरिस्वजोणिण वा मणूस्से वा नेरइपसु उववज्जित्तप से तेणट्टेणं० । एवं जाव-अणियकुमारारणं ।

नवम उद्देशक.

भयद्रव्यनै-दि-वादि.

१. [प्र०] राजगृहनगरमां भगवान् गौतम यावत्-आ प्रमाणे बोल्या के, हे भगवन् ! भयद्रव्यनैरयिको २ छे ? [उ०] हे गौतम ! हा छे. [प्र०] हे भगवन् ! आप ‘भव्यद्रव्यनैरयिको’ २ शा कारणथी कही छो ? [उ०] हे गौतम ! जे कोई पंचेन्द्रिय तिर्यक के मनुष्य नैरयिकोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते ‘भव्यद्रव्यनैरयिक’ २ कहेवाय छे. ए प्रमाणे यावत्-‘स्तनितकुमारो’ सुधी जाणतुं.

१ * भूत अथवा भावी पर्यायतुं कारण इव्य कहेवाय छे भावी नारकपर्यायतुं कारण पंचेन्द्रिय तिर्यक के मनुष्य भयद्रव्यनैरयिक कहेवाय छे, तेन त्रय प्रकार छे-१ एतभविक, २ दद्यायुष्क अने ३ अभिसुरजनामगोत्र.

२. [प्र०] अत्थि णं भंते ! भवियद्वपुढविकाइया भं २ ? [उ०] हंता अत्थि । [प्र०] से केणट्टेणं ? [उ०] गोयमा ! जे भविण् तिरिक्खजोणिए वा मणुस्से वा देवे वा पुढविकाइएसु उववज्जित्तए से तेणट्टेणं । आउक्काइय—वणस्सइकाइयाणं एवं चेव । तेउ—वाऊ—वेइंदिय—तेइंदिय—चउरिंदियाण य जे भविण् तिरिक्खजोणिए वा मणुस्से वा, पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं जे भविण् नेरइए वा तिरिक्खजोणिए वा मणुस्से वा देवे वा पंचिंदियतिरिक्खजोणिए वा, एवं मणुस्सा वि । वाणमंतर—जोइसिय—वेमाणियाणं जहा नेरइया ।

३. [प्र०] भवियद्वनेरइयस्स णं भंते ! केवतियं कालं ठिती पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

४. [प्र०] भवियद्वअसुरकुमारस्स णं भंते ! केवतियं कालं ठिती पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिमि पलिओवमाइं । एवं जाव—थणियकुमारस्स ।

५. भवियद्वपुढविकाइयस्स णं पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं । एवं आउक्काइयस्स वि । तेउ—वाऊ जहा नेरइयस्स । वणस्सइकाइयस्स जहा पुढविकाइयस्स । वेइंदियस्स तेइंदियस्स चउरिंदियस्स जहा नेरइयस्स । पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तेचीसं सागरोवमाइं । एवं मणुस्सा वि । वाणमंतर—जोइसिय—वेमाणियस्स जहा असुरकुमारस्स । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

अट्टारसमे सए नवमो उद्देशो समत्तो ।

२. [प्र०] हे भगवन् ! 'भव्यद्रव्यपृथिवीकायिको' २ शा हेतुथी कहेवाय छे ? [उ०] हे गौतम ! जे कोइ तिर्यच, मनुष्य के देव पृथिवीकायिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य होय छे ते 'भव्यद्रव्यपृथिवीकायिक' २ कहेवाय छे. ए प्रमाणे 'अष्कायिक' अने 'वनस्पतिकायिक' पण जाणवा. अग्निकाय, वायुकाय, द्दीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय अने चउरिंदिय विषे जे कोइ तिर्यच के मनुष्य उत्पन्न थवाने योग्य होय ते 'भव्यद्रव्यअग्निकायादि' कहेवाय छे. जे कोई नैरयिक, तिर्यचयोनिक, मनुष्य, देव के पंचेन्द्रियतिर्यचयोनिक पंचेन्द्रियतिर्यचयोनिकमा उत्पन्न थवाने योग्य होय ते 'भव्य द्रव्यपंचेन्द्रियतिर्यचयोनिक' कहेवाय छे. ए प्रमाणे मनुष्यो संबधे पण जाणवुं. वानव्यंतर, ज्योतिषिको अने वैमानिको नैरयिकोनी पेठे जाणवा.

भव्यद्रव्य पृथिवी-
कायिकादि-

३. [प्र०] हे भगवन् ! भव्य द्रव्यनैरयिकनी केटला काळनी स्थिति कही छे ? [उ०] हे गौतम ! तेनी स्थिति जघन्यथी *अंतर्मुहूर्त अने उत्कृष्टथी पूर्वकोटि वर्पनी कही छे.

भव्यद्रव्यनैरयिका-
दिनी आयुष स्थिति-

४. [प्र०] हे भगवन् ! भव्य द्रव्य असुरकुमारनी स्थिति केटला काळनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! तेनी स्थिति जघन्यथी अंतर्मुहूर्तनी अने उत्कृष्टथी त्रण पल्योपमनी कही छे. ए प्रमाणे यावत्—स्तनितकुमारो सुधी जाणवुं.

५. [प्र०] हे भगवन् ! भव्यद्रव्यपृथिवीकायिकनी स्थिति केटला काळनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! तेनी स्थिति जघन्यथी अंतर्मुहूर्तनी अजे उत्कृष्टथी कंइक अधिक वे सागरोपमनी कही छे. ए प्रमाणे अष्कायिक सवन्धे पण जाणवुं. भव्यद्रव्यअग्निकायिक अने भव्यद्रव्यवायुकायिक संबन्धे नैरयिकनी पेठे समजवुं. वनस्पतिकायिकजे पृथिवीकायिक समान जाणवुं भव्य द्रव्य वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय अजे चउरिन्द्रियनी स्थिति नैरयिकनी पेठे जाणवी. वळी भव्यद्रव्यपंचेन्द्रियतिर्यचयोनिकनी स्थिति जघन्यथी अंतर्मुहूर्तनी अने उत्कृष्टथी तेनीश सागरोपमनी जाणवी. एज प्रमाणे मनुष्यजे विषे पण जाणवुं. वानव्यंतर, ज्योतिषिक तथा वैमानिको असुरकुमारनी पेठे समजवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे हे भगवन् ! ते एमज छे.'

अट्टारमा शतकमां नवमो उद्देशक समाप्त.

३ * जे सजी के असज्जी अन्तर्मुहूर्तना आयुपवाळा मरीने नरकगतिमा जवाना छे ते अपेक्षाए भव्यद्रव्यनैरयिकनी अन्तर्मुहूर्तनी जघन्य स्थिति कही छे, अने उत्कृष्ट पूर्वकोटि आयुपवाळो सजी नरकगतिमा जाय ते अपेक्षाए उत्कृष्ट स्थिति कहेवामा आवी छे—टीका

४ † जघन्य अन्तर्मुहूर्तना आयुपवाळा मनुष्य के पंचेन्द्रिय तिर्यचने आश्रयी भव्य द्रव्य असुरकुमारादिनी जघन्य स्थिति जाणवी अने देवजुर्वादि युगलिक मनुष्यने आश्रयी त्रण पल्योपमनी उत्कृष्ट स्थिति जाणवी

५ ‡ भव्य द्रव्य पृथिवीकायिकनी उत्कृष्ट स्थिति ईशानदेवलोके आश्रयी साधिक वे सागरोगमनी जाणवी भव्य द्रव्य अग्निकायिक अने वायुकायिकनी जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट पूर्वकोटि स्थिति जाणवी, कारण के देवादि तथा युगलिक मनुष्यो त्या उररज थता नथी. भव्य द्रव्य पंचेन्द्रिय तिर्यचनी तेनीश सागरोपनी स्थिति सातमी नरक पृथिवीना नारकोनी अपेक्षाए जाणवी.—टीका.

૭. તેણં કાલેણં તેણં સમણં વાણિયગામે નામં નગરે હોત્યા । વન્નઓ । દૂતિપલાસપ્પ ચેતિપ્પ । વન્નઓ । તત્થ ણં વાણિ-
યગામે નગરે સોમિલે નામં માહણે પરિવસતિ, અહ્ધે, જાવ-અપરિભૂપ્પ, રિડ્ધેદં જાવ-સુપરિનિટ્ટિપ્પ, પંચણં ઁંડિયસયાણં,
સયસ્સ કુહુંવસ્સ આહેવચ્ચં જાવ-વિહરતિ । તપ્પ ણં સમણે ભગવં મહાવીરે જાવ-સમોસઢે । જાવ-પરિસા પજ્જુવાસતિ । તપ્પ
ણં તસ્સ સોમિલસ્સ માહણસ્સ ઇમીસે કહાપ્પ લઢ્ઢસ્સ સમાણસ્સ અયમેયારૂવે જાવ-સમુપ્પજિત્યા—‘પ્પવં સલ્લુ સમણે ણાય-
પુત્તે પુઘ્વાણુપુઘિં ચરમાણે ગામાણુગામં દૂહ્હજ્જમાણે સુહંસુહેણં જાવ-રૂહમાગપ્પ, જાવ-દૂતિપલાસપ્પ ચેદ્દપ્પ અહાપ્પડિરૂવં જાવ-
વિહરહ્હ । તં ગચ્છામિ ણં સમણસ્સ નાયપુત્તસ્સ અંતિયં પાડવ્મવામિ, ઇમાઈં ચ ણં પયારૂવાઈં અટ્ટાઈં જાવ-વાગરણાઈં પુચ્છિ-
સ્સામિ; તં જહ્ મે સે ઇમાઈં પયારૂવાઈં અટ્ટાઈં જાવ-વાગરણાઈં વાગરેહિતિ તત્તો ણં વંદીહામિ નમંસીહામિ, જાવ-પજ્જુવાસી-
હામિ । અહ્ મે સે ઇમાઈં અટ્ટાઈં જાવ-વાગરણાઈં નો વાગરેહિતિ તો ણં પપ્પહિં ચેવ અટ્ટેહિ ય જાવ-વાગરણેહિ ય નિપ્પટ્ટપ-
સિણવાગરણં કરેસ્સામી’ તિ કટ્ટુ પ્પવં સંપેહેહ્હ । સંપેહેત્તા ણ્ણાપ્પ જાવ-સરીરે સાથો ગિહાઓ પડિનિક્કમ્મતિ, પડિનિક્કમ્મિત્તા
પાયવિહારચારેણં પ્પણેણં ઁંડિયસણં સંદ્ધિં સંપરિવુઢે વાણિયગામં નગરં મજ્જમજ્જેણં નિગ્ગચ્છહ્હ, નિગ્ગચ્છિત્તા જેણેવ દૂતિપ-
લાસપ્પ ચેદ્દપ્પ જેણેવ સમણે ભગવં મહાવીરે તેણેવ ઉવાગચ્છહ્હ, ઉવાગચ્છિત્તા સમણસ્સ ભગવઓ મહાવીરસ્સ અદૂરસામંતે
ટિચ્છા સમણં ભગવં મહાવીરં પ્પવં વયાસી—

૮. [પ્ર૦] ‘જત્તા તે મંતે ! જવણિજ્જં, અઘ્વાવાહં, ફાસુયવિહારં’ ? [ઉ૦] સોમિલા ! ‘જત્તા વિ મે, જવણિજ્જં પિ મે,
અઘ્વાવાહં પિ મે, ફાસુયવિહારં પિ મે’ ।

૯. [પ્ર૦] કિં તે મંતે ! જત્તા ? [ઉ૦] સોમિલા ! જં મે તવ-નિયમ-સંજમ-સજ્જાય-જ્ઞાણા-વસ્સયમાદીપ્પસુ જોગેસુ
જયણા સેત્તં જત્તા ।

૧૦. [પ્ર૦] કિં તે મંતે ! જવણિજ્જં ? [ઉ૦] સોમિલા ! જવણિજ્જે ઢુચિદ્ધે પન્નત્તે, તંજહા-ઈંદિયજવણિજ્જે ય નોઈંદિય-
જવણિજ્જે ય ।

૧૧. [પ્ર૦] સે કિં તં ઈંદિયજવણિજ્જે ? [ઉ૦] ઈંદિયં ૨ જં મે સોઈંદિય-ચર્ચિન્નદિય-ધાણિંદિય-જિર્ચિન્નદિય-ફાર્સિ-
દિયાઈં નિરુવહયાઈં વસે વઢ્ઢંતિ । સેત્તં ઈંદિયજવણિજ્જે ।

૭. તે કાલે તે સમયે વાણિયગ્રામ નામે નગર હતું. વર્ણક, દૂતિપલાશ ચૈલ્લ હતું. વર્ણક, તે વાણિયગ્રામ નામે નગરમાં સોમિલ
નામે બ્રાહ્મણ રહેતો હતો, જે આઢ્ય-ધનિક યાવત્—અપરિભૂત-સમર્થ હતો, તથા ઋગ્વેદ યાવત્—વીજા બ્રાહ્મણના શાસ્ત્રોમાં કુશલ
હતો. તે પાંચસો શિષ્યો તથા પોતાના કુંડુંવરું અધિપતિપણું કરતો યાવત્—રહેતો હતો. સ્વાર વાદ કોઈ દિવસે શ્રમણ ભગવંત મહાવીર
ત્યા સમોસર્યા. યાવત્—પર્પદા પર્યુપાસના કરે છે. સ્વાર પછી શ્રમણ ભગવંત મહાવીર આવ્યાની આ વાત સામઢી તે સોમિલ બ્રાહ્મણને આવા
પ્રકારનો યાવત્—સંકલ્પ થયો કે, “પ્રમાણે યાવત્—અનુક્રમે વિહરતા અને એક ગામથી વીજે ગામ જતા શ્રમણ જ્ઞાતપુત્ર સુખપૂર્વક અહિં
આવ્યા છે, અને યાવત્—દૂતિપલાશ ચૈલ્લમાં યથા યોગ્ય અવગ્રહને ગ્રહણ કરી યાવત્—વિહરે છે, તો હું તે શ્રમણ જ્ઞાતપુત્રની પાસે જાઉં,
અને તેની પાસે પ્રગટ થાઉં તથા તેને આ આવા પ્રકારના અર્થો, યાવત્ વ્યાકરણો—ઉત્તરો પૂછું. જો તે મને આવા પ્રકારના આ અર્થ
અને યાવત્—પ્રશ્નના ઉત્તરો કહેશે તો તેમને વાદીશ નમીશ, યાવત્—તેમની પર્યુપાસના કરીશ, જો મને આ અર્થો અને પ્રશ્નોત્તરો નહિ કહે
તો આ અર્થ અને ઉત્તરો વઢે નિરુત્તર કરીશ.” એમ વિચારી જ્ઞાન કરી યાવત્—શરીરને અલંકૃત કરી પોતાના ઘરથી નીકળી એકસો
શિષ્યોની પરિવાર સાથે પગે ચાલી વાણિયગ્રામની વન્નઓવન્ન નીકળી જ્યાં દૂતિપલાશ ચૈલ્લ છે અને જ્યાં શ્રમણ ભગવંત મહાવીર છે ત્યાં તે
આવ્યો અને આવી શ્રમણ ભગવંત મહાવીરની ધોઢે દૂર પાસે વેસી તેણે તેમને આ પ્રમાણે કહ્યું—

૮. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! તમને યાત્રા, યાપનીય, અવ્યાવાધ અને પ્રાસુક વિહાર છે ? [ઉ૦] હે સોમિલ ! મને યાત્રા પણ છે,
યાપનીય પણ છે, અવ્યાવાધ પણ છે અને પ્રાસુક વિહાર પણ છે.

૯. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! તમને યાત્રા શું છે ? [ઉ૦] હે સોમિલ ! તપ, નિયમ, સયમ, સાધ્યાય, ધ્યાન અને આવશ્યકાદિક યોગોમાં
જે મારી યતના—પ્રવૃત્તિ છે તે મારી યાત્રા છે.

૧૦. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! તમને યાપનીય એ શું છે ? [ઉ૦] હે સોમિલ ! યાપનીય એ પ્રકારનું છે, તે આ પ્રમાણે—ઈન્દ્રિયયાપનીય
અને નોઈન્દ્રિયયાપનીય.

૧૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! ઈન્દ્રિયયાપનીય એટલે શું ? [ઉ૦] હે સોમિલ ! શ્રોત્રેન્દ્રિય, ચક્ષુરિન્દ્રિય, ઘ્ર્ણેન્દ્રિય, જિહ્વેન્દ્રિય અને સ્પર્શને-
ન્દ્રિય—એ પાંચે ઈન્દ્રિયો ઉપઘાત રહિત મારે અધીન વર્તે છે તે મારે ઈન્દ્રિયયાપનીય છે.

સોમિલના પ્રશ્નો.

યાત્રા, યાપનીય
અવ્યાવાધ અને
પ્રાસુક વિહાર

સયમયાત્રા.

યાપનીય.

ઈન્દ્રિયયાપનીય.

१२. [प्र०] से किं तं नोऽद्वियजवणिजे ? [उ०] नोऽद्वियजवणिजे जं मे कोह—माण—माया—लोभा चोच्छिन्ना नो उदीरंति, सेचं नोऽद्वियजवणिजे, सेचं जवणिजे ।

१३. [प्र०] किं ते भंते ! अद्यावाहं ? [उ०] सोमिला ! जं मे वातिय—पित्तिय—सिंभिय—सन्निवाइया विविहा रोगा-यंका सरीरगया दोसा उवसंता नो उदीरंति । सेचं अद्यावाहं ।

१४. [प्र०] किं ते भंते ! फासुयविहारं ? [उ०] सोमिला ! जघं आरामेसु उज्जाणेसु देवकुलेसु समासु पवासु इत्थी-पसु—पंडगविचज्जियासु वसहीसु फासु—एसणिजं पीठ—फलग—सेजा—संथारगं उवसंपज्जित्ता णं विहरामि, सेचं फासुयविहारं ।

१५. [प्र०] सरिसवा ते भंते ! किं मन्हेया, अमन्हेया ? [उ०] सोमिला ! सरिसवा [मे] मन्हेया वि अमन्हेया वि । [प्र०] से केणट्टेणं भंते एवं बुच्चइ—‘सरिसवा मे मन्हेया वि अमन्हेया वि ? [उ०] से नूनं ते सोमिला ! वंमन्नपसु नएसु दुविहा सरिसवा पन्नत्ता, तंजहा—मित्तसरिसवा य घन्नसरिसवा य । तत्थ णं जे ते मित्तसरिसवा ते तिविहा पन्नत्ता, तंजहा—सहजायया, सहवद्धियया, सहपंसुकीलियया, ते णं समणाणं निग्गंथाणं अमन्हेया । तत्थ णं जे ते घन्नसरिसवा ते दुविहा पन्नत्ता, तंजहा—सत्थपरिणया य असत्थपरिणया य, तत्थ णं जे ते असत्थपरिणया ते णं समणाणं निग्गंथाणं अमन्हेया । तत्थ णं जे ते सत्थपरिणया ते दुविहा पन्नत्ता, तंजहा—एसणिज्जा य अणेसणिज्जा य । तत्थ णं जे ते अणेसणिज्जा ते समणाणं निग्गंथाणं अमन्हेया । तत्थ णं जे ते एसणिज्जा ते दुविहा पन्नत्ता, तंजहा—जाइया य अजाइया य । तत्थ णं जे ते अजाइया ते णं समणाणं निग्गंथाणं अमन्हेया । तत्थ णं जे ते जातिया ते दुविहा पन्नत्ता, तंजहा—लद्धा य अलद्धा य । तत्थ णं जे ते अलद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं अमन्हेया । तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं मन्हेया, से तेणट्टेणं सोमिला ! एवं बुच्चइ—जाव—‘अमन्हेया वि’ ।

१६. [प्र०] मासा ते भंते ! किं मन्हेया, अमन्हेया ? [उ०] सोमिला ! मासा मे मन्हेया वि अमन्हेया वि ।

नोऽद्विययापनीय.

१२. [प्र०] हे भगवन् ! नोऽद्विययापनीय ए शुं ? [उ०] हे सोमिल ! जे मारा क्रोध, मान, माया अने लोभ ए चारे कपायो व्युच्छिन्न थयेला छे अने उदयमा आवता नथी ते नोऽद्विययापनीय छे. ए प्रमाणे यापनीय कायुं.

अन्यावाध.

१३. [प्र०] हे भगवन् ! तमने अन्यावाध ए शुं छे ? [उ०] हे सोमिल ! जे मारा वात, पित्त, कफ अने संनिपातजन्य अनेक प्रकारना शरीरसंबंधी दोषो—रोगांतको उपशांत थया छे अने उदयमा आवता नथी ते अन्यावाध छे.

प्रासुयविहार.

१४. [प्र०] हे भगवन् ! तमारे प्रासुयविहार ए शुं छे ? [उ०] हे सोमिल ! आरामो, उद्यानो, देवकुलो, समाओ, पत्तो तथा स्त्री, पशु अने नपुंसकरहित वसतिओमां निर्दोष अने एषणीय पीठ, फलक, शय्या अने सथाराने प्राप्त करीने हुं विहरं हुं ते प्रासुय विहार छे.

सरिसव भक्ष के
अमक्ष

१५. [प्र०] हे भगवन् ! सरिसवो आपने भक्ष छे के अमक्ष छे ? [उ०] हे सोमिल ! *सरिसव मारे भक्ष्य पण छे अने अमक्ष्य पण छे. [प्र०] हे भगवन् ! एम जा हेतुथी कहो छो के ‘सरिसव भक्ष्य पण छे अने अमक्ष्य पण छे ?’ [उ०] हे सोमिल ! तारा ब्राह्मणना नयोमां—शास्त्रोमा वे प्रकारना सरिसव कट्टा छे, ते आ प्रमाणे—मित्र सरिसव—समानवयस्क अने धान्यसरिसव. तेमां जे मित्र-सरिसव छे ते त्रण प्रकारना कट्टा छे, ते आ प्रमाणे—सहजात—साथे जन्नेला, साथे उचरेला अने साथे धूळमां रमेला. ते त्रणे प्रकारना सरिसवा समानवयस्क—मित्रो श्रमण निर्ग्रन्थोने अमक्ष्य छे. अने जे धान्यसरिसव छे ते वे प्रकारना कट्टा छे, ते आ प्रमाणे—शल्लपरिणत अने अशल्लपरिणत. तेमां जे अशल्लपरिणत—अश्यादि शल्लथी निर्जाव थयेला नथी ते श्रमण निर्ग्रन्थोने अमक्ष्य छे. अने शल्लपरिणत (अग्नि आग्निथी निर्जाव थयेला) छे ते वे प्रकारना कट्टा छे, ते आ प्रमाणे—एषणीय—इच्छवा लायक, निर्दोष अने अनेपणीय—नहि इच्छवा लायक सदोष. तेमां जे अनेपणीय छे ते श्रमण निर्ग्रन्थोने अमक्ष्य छे. वळी जे एषणीय सरिसवो छे ते वे प्रकारना कट्टा छे, ते आ प्रमाणे—याचित—माणेला अने अयाचित—नहि माणेला. तेमां जे अयाचित सरिसव छे, ते श्रमण निर्ग्रन्थोने अमक्ष्य छे, अने जे याचित सरिसव छे, ते वे प्रकारना छे, ते आ प्रमाणे—मळेला अने नहि मळेला. तेमां जे नहि मळेला छे ते श्रमण निर्ग्रन्थोने अमक्ष्य छे, अने जे मळेला छे ते श्रमण निर्ग्रन्थोने मक्ष्य छे. माटे हे सोमिल ! ते कारणथी में कर्तुं छे के ‘सरिसव मारे भक्ष्य पण छे अने अमक्ष्य पण छे.’

मास भक्ष के
अमक्ष ?

१६. [प्र०] हे भगवन् ! मास तमारे भक्ष्य छे के अमक्ष्य छे ? [उ०] हे सोमिल ! मास मारे भक्ष्य पण छे अने अमक्ष्य पण

१ ‘सहजायए सहवद्धियए सहपंसुकीलितए’ इति क पुस्तके पाठः ।

१५ * अहि ‘सरिसव’ श्लिष्ट प्राकृत शब्द छे, तेनो एक अर्थ सर्प एटले सरसव थाय छे अने बीजो अर्थ सदशवया—मित्र थाय छे.

१६ † अहि मास शब्द श्लिष्ट छे अने एनो एक अर्थ मास—अदद थाय छे अने बीजो अर्थ मास—महिनी थाय छे.

[प्र०] से केणट्टेणं जाव-अमक्खेया वि ? [उ०] से नूनं ते सोमिला ! वंभन्नपसु नपसु दुविहा मासा पन्नत्ता, तंजहा-द्व-मासा य कालमासा य । तत्थ णं जे ते कालमासा ते णं सावणादीया आसाढपंजवसाणा दुवालसं पन्नत्ता, तंजहा-सावणे, मद्दवप, आसोए, कत्तिए, मग्गसिरे, पोसे, माहे, फांगुणे, चित्ते, वइसाहे, जेट्टामूले, आसाढे, ते णं समणाणं निग्गंथाणं अमक्खेया । तत्थ णं जे ते द्दघमासा ते दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-अत्थमासा य धण्णमासा य । तत्थ णं जे ते अत्थमासा ते दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-सुवन्नमासा य रूपमासा य, ते णं समणाणं निग्गंथाणं अमक्खेया । तत्थ णं जे ते धन्नमासा ते दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-सत्थपरिणया य असत्थपरिणया य-एवं जहा धन्नसरिसवा जाव-से तेणट्टेणं जाव-अमक्खेया वि ।

१७. [प्र०] कुलत्था ते भंते ! किं मक्खेया अमक्खेया ? [उ०] सोमिला ! कुलत्था मक्खेया वि अमक्खेया वि । [प्र०] से केणट्टेणं जाव-अमक्खेया वि ? [उ०] से नूनं सोमिला ! ते वंभन्नपसु नयेसु दुविहा कुलत्था पन्नत्ता, तंजहा-इत्थिकुलत्था य धन्नकुलत्था य । तत्थ णं जे ते इत्थिकुलत्था ते तिविहा पन्नत्ता, तंजहा-कुलकन्नया इ वा कुलचहुया ति वा कुलमाउया इ वा, ते णं समणाणं निग्गंथाणं अमक्खेया । तत्थ णं जे ते धन्नकुलत्था एवं जहा धन्नसरिसवा, से तेणट्टेणं जाव-अमक्खेया वि ।

१८. [प्र०] एगे भवं, दुवे भवं, अक्खए भवं, अद्यए भवं, अवट्टिए भवं, अणेगभूयभावभविप भवं ? [उ०] सोमिला ! एगे वि अहं, जाव-अणेगभूयभावभविप वि अहं । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-जाव-‘भविप वि अहं’ ? [उ०] सोमिला ! द्दघट्टयाए एगे अहं, नाणदंसणट्टयाए दुविहे अहं, पएसड्डयाए अक्खए वि अहं, अद्यए वि अहं, अवट्टिए वि अहं, उचयोगट्टयाए अणेगभूयभावभविप वि अहं, से तेणट्टेणं जाव-भविप वि अहं’ ।

१९. एत्थ णं से सोमिले माहणे संबुद्धे, समणं भगवं महावीरं० जहा खंदओ, जाव-से जहेयं तुज्जे वदद, जहा णं देवाणुप्पियाणं अंतिप वहवे राईसर० एवं ‘जहा रायप्पसेणइज्जे चित्तो, जाव’-दुवालसविहं सावगधम्मं पडिबज्जति,

छे [प्र०] हे भगवन् ! एम शा कारणथी कहो छो के ‘मास मारे भक्ष्य पण छे अने अभक्ष्य पण छे’ ? [उ०] हे सोमिल ! तारा ब्राह्मणना नयो-शास्त्रोमां मास वे प्रकारना कहा छे, ते आ प्रमाणे-द्रव्यमास अने कालमास. तेमा जे कालमास छे ते श्रावणथी मांडी आपाढ मास सुधी वार प्रकारना छे, ते आ प्रमाणे-१ श्रावण, २ भाद्रवो, ३ आसो, ४ कार्तिक, ५ मार्गशीर्ष, ६ पोष, ७ माघ, ८ फाल्गुन, ९ चैत्र, १० वैशाख, ११ जेठ अने १२ आपाढ. ते श्रमण निर्धन्योने अभक्ष्य छे. तेमा जे द्रव्यमास छे ते वे प्रकारे छे, ते आ प्रमाणे-अर्थमास अने धान्य मास. तेमां जे अर्थमास छे ते वे प्रकारना छे, ते आ प्रमाणे-^{*}सुवर्ण माप अने रौप्यमाप. अने ते श्रमण निर्धन्योने अभक्ष्य छे. वळी जे धान्यमाप छे ते वे प्रकारना छे-शस्त्रपरिणत (अग्न्यादिथी अचित्त थयेला) अने अशस्त्रपरिणत (अग्न्यादिथी अचित्त नहि थयेला, सजीव) छे-इत्यादि जेम धान्यसरसव सवन्धे कहुं तेम धान्यमास संवन्धे पण जाणहुं. यावत्-ते हेतुथी यावत्-‘अभक्ष्य पण छे.’

१७. [प्र०] हे भगवन् ! आपने कुलत्था भक्ष्य छे के अभक्ष्य छे ? [उ०] हे सोमिल ! कुलत्था भक्ष्य छे अने अभक्ष्य पण छे. [प्र०] हे भगवन् ! शा हेतुथी यावत्-अभक्ष्य छे ? [उ०] हे सोमिल ! तारा ब्राह्मण शास्त्रमां कुलत्था वे प्रकारे छे-स्त्रीकुलत्था (कुलिन स्त्री) अने धान्यकुलत्था (कळथी). तेमा जे स्त्री कुलत्था छे ते त्रण प्रकारे छे, ते आ प्रमाणे-कुलकन्यका, कुलवधू अने कुलमाता. ते श्रमण निर्धन्योने अभक्ष्य छे. तेमां जे धान्यकुलत्था छे-इत्यादि-वक्तव्यता धान्यसरिसव प्रमाणे जाणवी. ते माटे यावत्-‘अभक्ष्य पण छे’.

कुलत्था भक्ष्य के अभक्ष्य ?

१८. [प्र०] आप एक छो के वे छो, अक्षय छो, अव्यय छो, अवस्थित छो के अनेक भूत, वर्तमान अने भावी परिणामने योग्य छो ? [उ०] हे सोमिल ! हुं एक पण छुं, यावत्-अनेक भूत, वर्तमान अने भावी परिणामोने योग्य छुं. [प्र०] हे भगवन् ! शा कारणथी आप कहो छो के हुं एक यावत्-अनेक भूत, वर्तमान अने भावी परिणामने योग्य छुं ? [उ०] हे सोमिल ! हुं द्रव्यरूपे एक छुं अने ज्ञानरूपे अने दर्शनरूपे वे प्रकारे पण छुं. प्रदेश (आत्मप्रदेश) रूपे हुं अक्षय छुं, अव्यय छुं अने अवस्थित पण छुं, उपयोगनी दृष्टि हुं अनेक भूत वर्तमान अने भावी परिणामने योग्य छुं. ते कारणथी हुं यावत्-अनेक भूत, वर्तमान अने भावी परिणामने योग्य पण छुं.

एक, अनेक श्ल्यादि

१९. अहिं सोमिल ब्राह्मण प्रतिबोध पाम्यो, अने ते श्रमण भगवंत महावीरने चंदन-नमस्कार करे छे-इत्यादि स्कंदकनी पेठे यावत्-‘जेम आप कहो छो तेमज छे’ त्यां सुधी कहेहुं । हे देवानुप्रिय ! आपनी पासे जेम घणा राजेश्वर-वगेरे [हिरण्यादिनो त्याग करी मुंड यई

पडिवज्जित्तां समणं भगवं महावीरं वंदति, जाव-पडिंणं । तण णं से सोमिले माहणे समणोवासए जाए, अभिगयजीवा० जाव-विहरइ । 'भंते'त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-[प्र०] पभू णं भंते ! सोमिले माहणे देवाणुप्पियाणं अंतिप मुंडे भविच्चा० जहेव संखे तहेव निरवसेसं जाव-अंतं काहिति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति जाव-विहरति ।

अट्टारसमे सए दसमो उद्देशो समत्तो ।

अनगारपणुं स्त्रीकारे छे तेम हुं करी शकतो नयी]-इत्यादि राजप्रश्रीय सूत्रमां "चित्रकसुं वर्णन छे तेम यावत्-त्रार प्रकारनो श्रावक धर्म जंगीकार करे छे' त्यां सुधी कहेवुं. श्रावक धर्मनो स्त्रीकार करी श्रमण भगवंत महावीरने वादीने यावत्-ते पोताना घेर गयो. ल्यार पछी ते सोमिल ब्राह्मण श्रमणोपासक थई जीवाजीवाटिक तत्त्वोने जाणतो यावत्-विहरे छे.

२०. [प्र०] 'हे भगवन् ! एम कही भगवंत गौतम श्रमण भगवंत महावीरने वादी नमी आ प्रमाणे वोल्या-हे भगवन् ! सोमिल ब्राह्मण आप देवानुप्रियनी पासे मुंड थई अनगारपणुं लेवा समर्थ छे-इत्यादि जेम 'शंख श्रावकनी वक्तव्यता कही छे ते प्रमाणे यावत्-'सर्व दुःखोनो अंत करणे' त्यां सुधी वधी वक्तव्यता कहेवी. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'-एम कही यावत्-विहरे छे.

अट्टारमा शतकमां दशम उद्देशक समाप्त.

अट्टारमुं शतक समाप्त.



एगूणवीसइमं सयं ।

१ लेस्सा य २ गन्ध ३ पुढवी ४ महासवा ५ चरम ६ दीव ७ भवणा य ।
८ निवृत्ति ९ करण १० वणचरसुरा य एगूणवीसइमे ॥

पढमो उद्देशो ।

१. [प्र०] रायगिहे जाव-एवं वयासी-कति णं भंते ! लेस्साओ पन्नत्ताओ ? [उ०] गोयमा ! छल्लेसाओ पन्नत्ताओ, तं जहा-एवं जहा पन्नवणाए चउत्थो लेसुद्देशओ भाणियघो निरवसेसो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते !' त्ति ।

एगूणवीसइमे सए पढमो उद्देशो समत्तो ।

ओगणीशमुं शतक.

[उद्देशक संग्रह-] लेस्या विषयक प्रथम उद्देशक, गर्भसंबंधे वीजो उद्देशक, पृथिवीकायिकादिनी वक्तव्यता संबंधे तृतीय उद्देशक, 'नारको महास्रववाळा अने महाक्रियावाळा होय' इत्यादि अर्थ संबंधे चौथो उद्देशक, 'चरम-अल्पस्थितिवाळा नारको करतां परम-अधिक-स्थितिवाळा नारको महाकर्मवाळा होय' इत्यादि वक्तव्यता संबंधे पांचमो उद्देशक, द्वीपादिक संबंधे छठो उद्देशक, भवनादि विषे सातमो उद्देशक, निर्वृत्ति-एकेन्द्रियादि जीव वगैरेनी उत्पत्ति संबंधे आठमो उद्देशक, द्रव्यादि करण संबंधे नवमो उद्देशक, अने वनचरसुर-वान-व्यन्तर देव संबंधे दशमो उद्देशक. ए प्रमाणे आ ओगणीशमा शतकमा दश उद्देशको कहेवाना छे.

प्रथम उद्देशक.

१. [प्र०] राजगृह नगरमां यावत्-भगवान् ! गौतम आ प्रमाणे वोल्या के हे भगवन् ! लेस्याओ केटली कही छे ? [उ०] हे गौतम ! छ *लेस्याओ कही छे, ते आ प्रमाणे-इत्यादि प्रज्ञापना सूत्रनो चौथो 'लेस्या उद्देशक अहि समग्र कहेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

लेस्या.

ओगणीशमा शतकमां प्रथम उद्देशक समाप्त.

१ * कृष्णादि द्रव्यना सवन्धधी आत्माना परिणामविशेष ते लेस्या ज्या सुधी योग होय छे त्या सुधी लेस्या होय छे अने योगना अभावे लेस्या हीती नथी माटे योग साथे लेस्यानो नियत सवन्ध होवथी योगनिमित्तक लेस्या छे एम जाणी शक्याय छे. हवे ते लेस्या योगान्तर्गत द्रव्यरूप छे के योगनिमित्तक कर्म द्रव्यरूप छे ते विचारणीय छे. जो योगनिमित्तक कर्मद्रव्यरूप मानीए तो ते घातीकर्म द्रव्यरूप छे के अघाती कर्मद्रव्यरूप छे ए वे प्रश्न उत्पन्न थाय छे. लेस्या घाती कर्मद्रव्यरूप तो नथी, कारण के सयोगी केवलीने घाती कर्म नहि होवा छता लेस्या होय छे. ते अघाती कर्मरूप छे एम पण नहि कही शक्याय, केमके अयोगी केवलीने अघाती कर्म होवा छता पण लेस्या नथी. माटे लेस्या योगान्तर्गत द्रव्यरूप छे एम मानलुं जोईए अर्थात् मन, वचन अने शरीरना अन्तर्गत शुभाशुभ परिणामना कारणरूप कृष्णादि वर्णना पुद्गलो ते लेस्या ते लेस्या ज्या सुधी कपायो छे त्या सुधी तेना उदयने वधारे छे कारण के योगान्तर्गत पुद्गलो कपायोदयने वधारवानुं सामर्थ्य छे जेम के पित्तना प्रकोपधी क्रोधनी वृद्धि थाय छे. ते सिवाय थीजा वाह्य द्रव्यो पण कर्मना उदय अने क्षयोपशमादिना कारणभूत थाय छे, जेमके ब्राह्मी ज्ञानावरणक्षयोपशमसुं अने मद्यपान ज्ञानावरणोदयसुं निमित्त थाय छे, तो पछी योगद्रव्योसुं तेषुं सामर्थ्य होय तेमा कसो विरोध नथी. ते लेस्याना छ प्रकार छे. जुओ प्रज्ञापना टीका पद १७ पृ० ३३०.

† कृष्णलेस्यादि द्रव्यो ज्यारे नीललेस्यादि द्रव्योने मळे छे ल्यारे ते नीललेस्यादिना स्वभावरूपे तथा तेना वर्णादि रूपे परिणत थाय छे जेम दूधमा छाश नाखवाधी के वस्त्रने रंगवाधी दूध अने वस्त्रनो वर्णादि परिणाम थाय छे. आवो लेस्यापरिणाम मात्र तिर्थच अने सनुप्यनी लेस्याने आधर्या जाणवो. देव अने नारकोने स्वस्वभवपर्यन्त लेस्या द्रव्य अवस्थित होवथी अन्य लेस्या द्रव्योनों सवन्ध यता सर्वथा तेषो परिणाम यतो नथी, अर्थात् ते लेस्या सर्वथा अन्य लेस्यारूपे धती नथी पण पोताना मूळ वर्णादि स्वभावने छोज्जा सिवाय अन्य लेस्यानी छाया मात्र धारण करे छे जेम वैदुर्य मणिने लाल सूत्र्या परोववामा आब्यो होय तो ते पोताना नील वर्णने नहि छोटता लाल छाया धारण करे छे, तेम कृष्णादि द्रव्यो अन्य लेस्या द्रव्यना सवन्धमा धावे छे ल्यारे पोतानो मूळ स्वभाव के वर्णादि नहि छोटता तेनी छाया-आकार मात्र धारण करे छे. जुओ प्रज्ञा० पद १७ प० ३५८-३६८.

વીઓ ઉદ્દેસો.

૧. [પ્ર૦] કતિ ણં મંતે ! લેસ્તાઓ પન્નત્તાઓ ? [ઉ૦] एवं जहा पन्नयणाप गच्छुहेसो सो चेव निरवसेसो भाणियवो ।
'सेवं मंते ! सेवं मंते' ! त्ति ।

एगूणवीसइमे सए वीओ उद्देसो समतो ।

द्वितीय उद्देशक.

ગર્ભ

૧. [પ્ર૦] हे भगवन् ! लेस्याओ केटली कही छे ? [उ०] ए प्रमाणे प्रज्ञापना मूत्रना सत्तरमा पदनो छठो *गर्भदेशक सम्पूर्ण
कहेओ. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

ओगणीशमा शतकमां द्वितीय उद्देशक समाप्त.

तईओ उद्देसो ।

૧. [પ્ર૦] रायगिहे जाव-एवं वयासी-सिय मंते ! जाव-चत्तारि पंच पुढविकाइया एगयओ साधारणसरीरं वंधंति,
एग० २ वंधित्ता तयो पच्छा आहारंति वा परिणामेति वा सरीरं वा वंधंति ? [उ०] नो इणट्टे समट्टे । पुढविकाइयाणं
पत्तेयाहारा पत्तेयपरिणामा पत्तेयं सरीरं वंधंति, प० २ वंधित्ता ततो पच्छा आहारंति वा परिणामेति वा सरीरं वा
वंधंति १ ।

૨. [પ્ર૦] तेसि णं मंते ! जीवाणं कति लेस्ताओ पन्नत्ताओ ? [उ०] गोयमा ! चत्तारि लेस्ताओ पन्नत्ताओ, तं जहा-
कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा तेउलेस्सा ।

૩. [પ્ર૦] ते णं मंते ! जीवा किं सम्मदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, सम्मामिच्छादिट्ठी ? [उ०] गोयमा ! नो सम्मदिट्ठी, मिच्छा-
दिट्ठी, नो सम्मामिच्छदिट्ठी ३ ।

तृतीय उद्देशक.

૨ સ્વાદ દ્વાર.

૧. [પ્ર૦] राजगृह नगरमां यावत्-भगवान् गौतम आ प्रमाणे बोल्या के, हे भगवन् ! इकाच वे यावत्-चार पांच पृथिवीका-
यिको एकठा यईने एक साधारण शरीरं वावे, वाव्या पट्टी आहार करे पट्टी ते आहारने परिणामवे, अने ल्यार वाद शरीरनो वंध करे !
[उ०] ए अर्थ समर्थ-यथार्थ नथी. कारण के पृथिवीकायिको प्रत्येक-जूदो जूदो आहार करवावाळा अने ते आहारनो जूदो जूदो परि-
णाम करवावाळा होय छे, तेथी तेओ भिन्न भिन्न शरीर वावे छे. अने ल्यार पट्टी तेओ आहार करे छे, तेने परिणामवे छे अने पोतातुं
शरीर वावे छे.

૦ लेस्यादार

૨. [પ્ર૦] हे भगवन् ! ते पृथिवीकायिक जीवोने केटली लेस्याओ कही छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने चार लेस्याओ कही छे,
ते आ प्रमाणे-१ कृष्णलेस्या, २ नीललेस्या, ३ कापोतलेस्या, ४ तेजोलेस्या.

૩ दृष्टिदार

૩. [પ્ર૦] हे भगवन् ! ते जीवो सम्यग्दृष्टि छे, मिथ्यादृष्टि छे के सम्यग्मिथ्यादृष्टि-मिश्रदृष्टि छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ सम्य-
ग्दृष्टि नथी, मिश्रदृष्टि नथी, पण तेओ मिथ्यादृष्टि छे.

૧ * કૃષ્ણલેસ્યાવાલો મનુષ્ય કૃષ્ણલેસ્યાવાલો ગર્ભને ઉત્પન્ન કરે ? હા, ઉત્પન્ન કરે એવી રીતે કૃષ્ણલેસ્યાવાલો મનુષ્ય નીલલેસ્યાવાલો, યાવત્ શુદ્ધ-
લેસ્યાવાલો ગર્ભને પણ ઉત્પન્ન કરે. એમ નીલલેસ્યાવાલો મનુષ્ય કૃષ્ણલેસ્યાવાલો ગર્ભને ઉત્પન્ન કરે. એ પ્રમાણે કાપોત, તેજો, પન્ન અને શુદ્ધલેસ્યા
સંબંધે પણ જાણવું તેવીજ રીતે કૃષ્ણલેસ્યાવાલો મનુષ્ય કૃષ્ણલેસ્યાવાલો છી થકી કૃષ્ણલેસ્યાવાલો ગર્ભને ઉત્પન્ન કરે. એમ થકી કર્મભૂમિ તથા અકર્મભૂમિના
મનુષ્ય સવન્ધે જાણવું નાત્ર એટલો વિશેષ કે અકર્મભૂમિના મનુષ્યને પ્રથમની ચાર લેસ્યાઓ હોવાથી તેને આશ્રયી જાણવું જુઓ પ્રજા૦ પદ ૧૭ ડ૦ ૫ ઘ૦ ૨૦૨.

† આ ઉદ્દેશકમાં ૧ સ્વાદ, ૨ લેસ્યા, ૩ દૃષ્ટિ, ૪ જ્ઞાન, ૫ યોગ ૬ હપયોગ, ૭ ક્રિમાહાર-એવા પ્રકારનો આહાર, ૮ પ્રાણાતિપાત, ૯ ઉત્પાદ, ૧૦
દ્વિતિ, ૧૧ મસુદ્ધાત અને ૧૨ સ્વદેવના-૯ ચાર દ્વારો પૃથિર્વાકાયિકની આરમી વનસ્પતિકાયિક જીવ પર્યન્ત કહેવાના છે. તેના પ્રથમ સ્વાદ દ્વારને આશ્રયી
પ્રશ્ન થયો છે.

‡ કદાચ અનેક પૃથિર્વાકાયિકો મઠી નાધારણ શરીર વાધે, લ્યાર પટ્ટી વિશેષ આહાર તથા તેનો પરિણામ કરે અને પટ્ટી શરીરનો વિશેષ વન્ધ કરે ?
એ પ્રશ્ન છે અહિં સામાન્ય રીતે સર્વ સ્વભાવી જીવોને પ્રતિ સમય નિરંતર આહારગ્રહણ-પુન્નલગ્રહણ હોય છે. તેથી પ્રથમ સામાન્ય શરીરવન્ધસમયે પણ આહાર
તો ચાલત હોય છે છતા પ્રથમ શરીર વાધે પટ્ટી આહાર કરે એમ પ્રશ્ન થયો તે વિશેષાહારની અપેક્ષા જાણવો એટલે જીવ ઉત્પત્તિમયે પ્રથમ ઓજાહાર
કરે, અને લ્યાર પટ્ટી શરીરવર્મગદ્વારા લોમાહાર કરે અને તેને પરિણામે અને લ્યાર વાદ વિશેષ વિશેષ શરીર વન્ધ કરે-આ પ્રશ્ન છે તેના ઉત્તરમા જણાવું
કે પૃથિર્વાકાયિકો પ્રત્યેક-ભિન્ન ભિન્ન આહાર કરે છે અને તેનો પરિણામ પણ ભિન્ન ભિન્ન કરે છે, માટે તેઓ પ્રત્યેક-ભિન્ન ભિન્ન શરીર વાધે છે, નાધારણ
અંગે વાધતા નથી લ્યાર પટ્ટી તેઓ વિશેષાહાર, વિશેષ પરિણામ અને વિશેષ શરીરવન્ધ કરે છે.

४. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी ? [उ०] गोयमा ! नो नाणी, अन्नाणी. नियमा दुअन्नाणी, तं जडा—मइअन्नाणी य सुयअन्नाणी य ४ ।

५. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं मणजोगी, वयजोगी, कायजोगी ? [उ०] गोयमा ! नो मणजोगी, नो वयजोगी, कायजोगी ५ ।

६. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं सागारोवउत्ता, अणागारोवउत्ता ? [उ०] गोयमा ! सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि ६ ।

७. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किमाहारमाहारंति ? [उ०] गोयमा ! द्दध्वो णं अपंतपदेस्सियाइं द्दद्याइं—एवं जहा पन्नवणाए पढमे आहारुहेसए जाव—सद्धप्पणयाए आहारमाहारंति ७ ।

८. [प्र०] ते णं भन्ते ! जीवा जमाहारंति तं चिज्जंति, जं नो आहारंति तं नो चिज्जंति, चिन्ने वा से उद्दाए पलिसप्पति वा ? [उ०] हंता गोयमा ! ते णं जीवा जमाहारंति तं चिज्जंति, जं नो जाव—पलिसप्पति वा ।

९. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं एवं सन्नाति वा पन्नाति वा मणोति वा चईइ वा 'अम्हे णं आहारमाहारो' ? [उ०] णो तिण्ठे सम्ठे, आहारंति पुण ते ।

१०. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं एवं सन्नाइ वा जाव—चईति वा 'अम्हे णं इट्ठाणिट्ठे फासे य पडिसंवेडेमो' ? [उ०] णो तिण्ठे सम्ठे, पडिसंवेदंति पुण ते ।

११. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं पाणाइवाए उक्कपाइज्जंति, मुसावाए, अदिन्ना०, जाव—मिच्छादंसणसहे उक्कपा-

४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं ते (पृथिवीकायिक) जीवो ज्ञानी छे के अज्ञानी छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ ज्ञानी नथी, पण अज्ञानी छे, अने तेओने अवश्य वे अज्ञान होय छे. ते आ प्रमाणे—मतिअज्ञान अने श्रुतअज्ञान.

४ गानर.

५. [प्र०] हे भगवन् ! शुं ते पृथिवीकायिक जीवो मनयोगी, वचनयोगी के काययोगी छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ मनयोगी नथी, वचनयोगी नथी, पण काययोगवाळ्य छे.

५ योगर.

६. [प्र०] हे भगवन् ! शुं ते जीवोने साकार—ज्ञानोपयोग होय छे के निराकार—दर्शनोपयोग उपयोग होय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने साकार उपयोग पण होय छे अने निराकार पण होय छे.

६ उपयोग.

७. [प्र०] हे भगवन् ! ते (पृथिवीकायिक) जीवो केओ आहार करे छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ द्रव्यथी अनंत प्रदेशवाळ्य पुट्टलोओ आहार करे छे—इत्यादि वधुं प्रजापनासूत्रना प्रथम आहारोद्देशकमा क्ख्वा प्रमाणे जाणवुं. यावत्—'नवं आत्मप्रदेश वडे आहार ग्रहण करे छे.

७ निहार.

८. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो जे आहार करे छे तेनो चय धाय छे अने जेनो आहार नथी करता तेनो चय नथी पनो, तथा जे आहारनो चय थएओ होय छे ते आहार [अनार भागरूपे] बहार नीकळे छे अने [साररूपे] शरीर—इन्द्रियपणे परिणने छे ? [उ०] हे गौतम ! ते जीवो जेनो आहार करे छे तेनो तेनो चय—सग्रह थाय छे अने जेनो आहार नथी करता तेनो चय धनो नथी. यावत्—ते आहार शरीर—इन्द्रियपणे परिणत थाय छे.

९. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवोने 'अमे आहार करीए छीए' एवीं सज्ञा, प्रज्ञा, मन अने वचन छे ? [उ०] ए अर्थ यार्थ नथी. अर्थात् ते जीवोने 'अमे आहार करीए छीए' एवीं सज्ञा कगेरे होला नथी, तो पण तेओ आहार तो करे छे.

१०. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवोने 'अमे इष्ट के अनिष्ट स्वर्गने अनुभवीए छीए' एवीं सज्ञा, प्रज्ञा, मन अने वचन छे ? [उ०] ए अर्थ समर्थ—यथार्थ नथी, तो पण एओ तेनो अनुभव तो करे छे.

११. [प्र०] हे भगवन् ! ते पृथिवीकायिक जीवो प्राणान्तिपात (रिस्ता), मृषापाद, अदत्तादान, यावत्—निष्पादार्जन ग्रन्थना रहेला एम कहेवाय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ प्राणान्तिपातना रहेला छे, यावत्—निष्पादार्जनग्रन्थना पण रहेय छे एम कहेवाय छे, ते

८ अन्तिपात-
मति.

७ † क्षेत्रथी असंख्यता प्रदेशना रहेला, सद्धर्था जघन्य नाथन के वट्टए जन्तो स्मितवाट्ट अने नादनी रणे, मय, एम अने स्वर्गनाट्ट एट्टनाट्ट-धोओ साहार करे छे जुओ प्रमाण पद २८ उ० १ प० ४९८-५११

११ † पृथिवीकायिकार जीवोने वचनारिओ अभाव एना तेओ स्वर्गागतिना रहेला कहेवाय छे, ते स्वर्गागतिओ अर्थिने अर्थी वचनुं—दीप.

દ્વજંતિ ? [૩૦] ગોયમા ! પાણાદ્વાય વિ ઉચન્વાદ્વજંતિ, જાવ-મિચ્છાદંસણસદ્દે વિ ઉચન્વાદ્વજંતિ । જેસિ પિ ણં જીવાણં તે જીવા પ્યમાહિજંતિ તેસિ પિ ણં જીવાણં નો વિનાય નાણત્તે ૮ ।

૧૨. [પ્ર૦] તે ણં મંતે ! જીવા કચોદ્દિતો ઉચવજંતિ, કિં નેરદ્દિતો ઉચવજંતિ ? [૩૦] एवं जहा वक्रंतीप पुढवि-
क्काइयाणं उचवाओ तथा माणियघो ९ ।

૧૩. [પ્ર૦] તેસિ ણં મંતે ! જીવાણં કેવતિયં કાલં ઠિતી પત્તચા ? [૩૦] ગોયમા ! જહ્ણેણં અંતોમુદ્દત્તં, ઉક્કોસેણં વાવીસં ઘાસસદ્દસ્સાઈં ૧૦ ।

૧૪. [પ્ર૦] તેસિ ણં મંતે ! જીવાણં કતિ સમુગ્ધાયા પત્તચા ?, [૩૦] ગોયમા ! તઓ સમુગ્ધાયા પત્તચા, તં જહા-
વેયણાસમુગ્ધાય, કસાયસમુગ્ધાય, મારણંતિયસમુગ્ધાય ।

૧૫. [પ્ર૦] તે ણં મંતે ! જીવા મારણંતિયસમુગ્ધાણં કિં સમોહયા મરંતિ, અસમોહયા મરંતિ ? [૩૦] ગોયમા ! સમો-
હયા વિ મરંતિ, અસમોહયા વિ મરંતિ ૧૧ ।

૧૬. [પ્ર૦] તે ણં મંતે ! જીવા અણંતરં ઉદ્ધટ્ટિત્તા કાદિં ગચ્છંતિ, કાદિં ઉચવજંતિ ? [૩૦] एवं उद्यट्टणा जहा वक्रंतीप १२ ।

૧૭. [પ્ર૦] સિય મંતે ! જાવ-ચત્તારિ પંચ આડકાદ્વાયા પ્ગયઓ સાહારણસરીરં વંધંતિ, પ્ગ૦ ૨ વંધિત્તા તઓ પચ્છા
આહારેંતિ ? [૩૦] एवं जो पुढविकाइयाणं गमो सो चेव माणियघो जाव-उद्यट्टंति; नवरं ठिती सत्त वाससददस्साइं उक्कोसेणं,
सेसं तं चेव ।

૧૮. [પ્ર૦] સિય મંતે ! જાવ-ચત્તારિ પંચ તેડકાદ્વાયા૦ एवं चेव, नवरं उचवाओ ठिती उद्यट्टणा य जहा पत्रवणाप,
सेसं तं चेव । चाउकाइयाणं एवं चेव, नाणत्तं नवरं चत्तारि समुग्धाया ।

જીવો જે વાંજા પૃથિવીકાયિકાદિ જીવોની હિસાદિ કરે છે એમ કહેવાય છે તે જીવોને પળ ('આ જીવો અમારી હિંસા કરનાર છે')
એવો મેદ જ્ઞાત નથી. ૯.

૯ જ્ઞાતદ્વારા.

૧૨. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! તે જીવો ક્યાથી આવીને ઉત્પન્ન થાય-શું નૈરયિકોથી આવીને ઉત્પન્ન થાય?—ઇલાદિ. [૩૦] જેમ *વ્યુક્તા-
ન્તિપદમા પૃથિવીકાયિકોનો ઉત્પાદ કહેલ છે તેમ અહિં કહેવો.

૧૦ સ્થિતિદ્વારા.

૧૩. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! તે પૃથિવીકાયિક જીવોની કેટલા કાઢની સ્થિતિ (આયુષ) કહી છે? [૩૦] હે ગૌતમ ! જવન્યથી
અન્તર્મુદ્દર્ત અને ઉત્ક્રમ્પથી વાવીશ હજાર વર્ષની સ્થિતિ કહી છે.

૧૧ સમુદ્ધાત.

૧૪. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! તે જીવોને કેટલા સમુદ્ધાતો કહ્યા છે? [૩૦] હે ગૌતમ ! ત્રણ સમુદ્ધાતો કર્યા છે, તે આ પ્રમાણે—૧
વેદના સમુદ્ધાત, ૨ કપાય સમુદ્ધાત અને ૩ મારણાન્તિક સમુદ્ધાત.

૧૫. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! શું તે જીવો મારણાન્તિક સમુદ્ધાત કરીને મરે કે મારણાન્તિક સમુદ્ધાત કર્યા સિવાય મરે? [૩૦]
હે ગૌતમ ! તેઓ મારણાન્તિક સમુદ્ધાત કરીને પળ મરે અને તે કર્યા સિવાય પળ મરે.

૧૨ ઉદ્વર્તનાદ્વારા.

૧૬. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! તેઓ મરીને તુરત ક્યાં જાય, ક્યા ઉત્પન્ન થાય? [૩૦] †વ્યુક્તાન્તિ પદમાં કહ્યા પ્રમાણે તેઓની
ઉદ્વર્તના કહેવી. ૧૨

અધ્યાત્મિક.

૧૭. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! કદાચ વે, ત્રણ ચાર કે પાંચ અધ્યાત્મિકો મેગા થઈને એક સાધારણ શરીર વાધે અને પછી આહાર કરે?
[૩૦] પૃથિવીકાયિકોને આશ્રયી જે પાઠ કહેવામાં આવેલ છે તે અહિં ઉદ્વર્તના દ્વારા સુધી કહેવો. પરન્તુ અધ્યાત્મિકોની સ્થિતિ
ઉત્ક્રમ્પથી સાત હજાર વર્ષની જાણવી. વાકી વધું પૂર્વ પ્રમાણે જાણવું.

૧૮. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! કદાચ યાવત્-ચાર કે પાંચ અધ્યાત્મિક જીવો મેગા થઈને એક સાધારણ શરીર વાધે-ઇલાદિ પૂર્વવત્
(સૂ. ૧) પ્રશ્ન અને ઉત્તર કહેવો. પરન્તુ વિશેષ એ છે કે તેઓનો ઉપપાત, સ્થિતિ અને ઉદ્વર્તના †પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમા કહ્યા પ્રમાણે જાણવા,
અને વાકી વધું †પૂર્વવત્ જાણવું. વાયુકાયિકોને પળ એ પ્રમાણે જાણવું; પરન્તુ એટલો વિશેષ કે તેઓને ચાર સમુદ્ધાત હોય છે.

૧૨ † પૃથિવીકાયિકો નૈરયિકોથી આવી ઉત્પન્ન થતા નથી, પણ તિર્યચ્ચોનિક, મનુષ્ય અને દેવોથી આવી ઉત્પન્ન થાય છે—જુઓ પ્રજ્ઞા૦ પદ૦ ૬. પ૦ ૨૧૨-૧.

૧૬ † જુઓ પ્રજ્ઞા૦ પદ ૩ પ૦ ૨૧૧.

૧૮ † તેજસ્કાયિક જીવો તિર્યચ અને મનુષ્યમાથી આવી ઉપજે છે તેઓની સ્થિતિ ઉત્ક્રમ્પ ત્રણ અહોરાત્રની હોય છે. સ્વાધી નીકઢીને તેઓ તિર્યચમા
જ ઉત્પન્ન થાય છે વઢીં વેમા ઉદ્વર્તના પળ વિશેષતા છે જ્યારે પૃથિવીકાયિકને ચાર ઉદ્વર્તનો હોય છે, સ્વાધી અધ્યાત્મિકને ત્રણ ઉદ્વર્તનો હોય છે વાયુકાયિકને
અધ્યાત્મિકની પેઠે જાણવું, પરન્તુ તફાવત એટલો છે કે વાયુકાયિકને વધુ સમુદ્ધાત અધિક હોવાથી ચાર સમુદ્ધાત હોય છે. જુઓ—પ્રજ્ઞા૦ પદ ૬ પ૦ ૨૧૨.

१९. [प्र०] सिय मंते ! जाव-चत्तारि पंच वणस्सइकाइया०-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! णो तिण्हे समट्ठे । अणंता वणस्सइकाइया एगयओ साहारणसरीरं वंधंति, एग० २ वंधित्ता तओ पच्छा आहारंति वा परि० २ । सेसं जहा तेउकाइयाणं जाव-उधट्ठंति, नवरं आहारो नियमं छदिसि, ठिती जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं, सेसं तं चेव ।

२०. [प्र०] एएसि णं मंते ! पुढविकाइयाणं आउ-तेउ-वाउ-वणस्सइकाइयाणं सुहुमाणं चादराणं पज्जत्तगाणं अपज्जत्तगाणं जाव-जहन्नुक्कोसियाए ओगाहणाए कयरे २ जाव-विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! सवत्थोवा सुहुमनिओयस्स अपज्जत्तस्स जहन्निया ओगाहणा १, सुहुमवाउकाइयस्स अपज्जत्तगस्स जहन्निया ओगाहणा असंखेज्जगुणा २, सुहुमतेउकाइयस्स अपज्जत्तस्स जहन्निया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ३, सुहुमआउकाइयस्स अपज्जत्तस्स जहन्निया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ४, सुहुमपुढविकाइयस्स अपज्जत्तस्स जहन्निया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ५, वादरवाउकाइयस्स अपज्जत्तगस्स जहन्निया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ६, वादरतेउकाइयस्स अपज्जत्तस्स जहन्निया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ७, वादरआउकाइयस्स अपज्जत्तस्स जहन्निया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ८, वादरपुढविकाइयस्स अपज्जत्तस्स जहन्निया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ९, पत्तेयसरीरवादरवणस्सइकाइयस्स वादरनिओयस्स एएसि णं पज्जत्तगाणं एएसि णं अपज्जत्तगाणं जहन्निया ओगाहणा दोण्ह वि तुल्ला असंखेज्जगुणा १०-११, सुहुमनिगोयस्स पज्जत्तगस्स जहन्निया ओगाहणा असंखेज्जगुणा १२, तस्सेव अपज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया १३, तस्स चेव पज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया १४, सुहुमवाउकाइयस्स पज्जत्तगस्स जहन्निया ओगाहणा असंखेज्जगुणा १५, तस्स चेव अपज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया १६, तस्स चेव पज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया १७, एवं सुहुमतेउकाइयस्स वि १८-१९-२०, एवं सुहुमवाउकाइयस्स वि २१-२२-२३, एवं सुहुमपुढविकाइयस्स वि २४-२५-२६, एवं वादरवाउकाइयस्स वि २७-२८-२९, एवं वायरतेउकाइयस्स वि ३०-३१-३२, एवं वादरआउकाइयस्स वि ३३-३४-३५, एवं वादरपुढविकाइयस्स वि ३६-३७-३८, सव्वेसि ति विहेणं गमेणं भाणियध्वं, वादरनिगोयस्स पज्जत्तगस्स जहन्निया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ३९, तस्स चेव अपज्जत्तगस्स उक्कोसिया

१९. [प्र०] हे भगवन्! कदाच यावत्-चार के पांच वनस्पतिकायिको मेगा यईने एक साधारण शरीर वाघे ?-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नयी. पण अनंतवनस्पतिकायिक जीवो मेगा यईने एक साधारण शरीर वाघे छे, पछी आहार करे छे अने परिणामवे छे-इत्यादि वधुं अग्निकायिकोनी पेटे यावत्-‘उद्धतं छे ल्यासुधी’ कहेवुं. विशेष ए के तेओने आहार अवश्य *छ दिशानो होय छे, वळी तेओनी जघन्य अने उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्तनी होय छे. वाकीनुं वधुं पूर्वनी पेटे ज जाणवुं.

वनस्पतिकायिक-

२०. [प्र०] हे भगवन्! सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त अने अपर्याप्त एवा पृथिवीकायिको, अष्कायिको, अग्निकायिको, वायुकायिको अने वनस्पतिकायिकोनी जे जघन्य अने उत्कृष्ट अवगाहनामा कोनी अवगाहना कोनाथी यावद्-विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! अपर्याप्त सूक्ष्म-निगोदनी जघन्य अवगाहना सौथी थोडी छे १, अपर्याप्त सूक्ष्म वायुकायिकनी जघन्य अवगाहना तेथी असंख्यगुण छे २, अपर्याप्त सूक्ष्म अग्निकायनी जघन्य अवगाहना तेथी असंख्यगुण छे ३, अपर्याप्त सूक्ष्म अष्कायनी जघन्य अवगाहना तेथी असंख्यगुण छे ४, अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकनी जघन्य अवगाहना तेथी असंख्यगुण छे ५, अपर्याप्त वादर वायुकायिकनी जघन्य अवगाहना तेथी असंख्यगुण छे ६, तेथी अपर्याप्त वादर अग्निकायिकनी जघन्य अवगाहना असंख्यगुण छे ७, तेथी अपर्याप्त वादर अष्कायिकनी जघन्य अवगाहना असंख्यगुण छे ८, तेथी अपर्याप्त वादर पृथिवीकायिकनी जघन्य अवगाहना असंख्यगुण छे ९, तेथी पर्याप्त अने अपर्याप्त प्रत्येक शरीर-वाळा वादर वनस्पतिकायिकनी अने वादर निगोदनी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुण अने परस्पर सरखी छे १०-११, तेथी पर्याप्त सूक्ष्म निगोदनी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुण छे १२, तेथी अपर्याप्त सूक्ष्म निगोदनी उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक छे १३, तेनाथी पर्याप्त सूक्ष्म निगोदनी उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक छे १४, तेथी पर्याप्त सूक्ष्मवायुकायनी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुण छे १५, तेथी अपर्याप्त सूक्ष्म वायुकायनी उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक छे १६, तेनाथी पर्याप्त सूक्ष्म वायुकायनी उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक छे १७, ए प्रमाणे वायुकायनी पेटे सूक्ष्म अग्निकाय पर्याप्तनी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुण, अने तेथी अपर्याप्त सूक्ष्म अग्निकायनी उत्कृष्ट अवगाहना अने पर्याप्तनी उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक जाणवी. १८-१९-२०, एम सूक्ष्म अष्काय २१, २२, २३, अने सूक्ष्म पृथिवीकाय संबंधे पण जाणवुं. २४-२५-२६. ए प्रमाणे वादर वायुकायिक २७-२८-२९, वादर अग्निकायिक ३०-३१-३२, वादर अष्कायिक ३३-३४-३५, अने वादर पृथिवीकायिक संबंधे पण समजवुं. ३६-३७-३८, ए वधाने एम त्रिविधपाठवडे कहेवुं. तेथी पर्याप्त वादर निगोदनी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुण छे ३९, तेथी अपर्याप्त वादर निगोदनी उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक छे ४०,

पृथिवीकायिकायिकनी
अवगाहनानुं अस्त्व-
वहुत्त-

१९. * वनस्पतिकायिकोने अवश्य छ दिशाओनो आहार होय छे एम जे कहेवामा आबुं छे तेनुं शु तात्पर्य छे ते समजातुं नथी, कारणके कोरान्त निष्कृष्टमा रहेला सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोने त्रण चार के पांच दिशाओना पण आहारनो सम्व छे पण जो वादर निगोद-साधारण वनस्पतिकायिक-ने आश्रयी आ सूत्र होय तो तेने अवश्य छ दिशानोज आहार घटी शके छे, कारण के ते लोकना मध्य भागमा रहेला होवाथी तेने अवश्य छ दिशानो आहार होय छे. टीका.

ओगाहणा विसेसाहिया ४०, तस्स चैव पञ्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया ४१, पत्तयसरीरवाट्ठवणम्मइकाइ-
यस्स पञ्जत्तगस्स जट्ठविया ओगाहणा असंयोज्जगुणा ४२, तस्स चैव अपञ्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा असंयोज्जगुणा ४३,
तस्स चैव पञ्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा असंयोज्जगुणा ४४ ।

२१. [प्र०] एयस्स णं भंते ! पुढविकाइयस्स आउकाइयस्स तेउकाइयस्स वाउकाइयस्स वणस्सइकाइयस्स कयरे काये सधसुहुमे, कयरे काए सधसुहुमतराए ? [उ०] गोयमा ! वणस्सइकाए सधसुहुमे, वणस्सइकाए सधसुहुमतराए ? ।

२२. [प्र०] एयस्स णं भंते ! पुढविकाइयस्स आउकाइयस्स तेउकाइयस्स वाउकाइयस्स कयरे काये सधसुहुमे, कयरे काये सधसुहुमतराए ? [उ०] गोयमा ! वाउकाए सधसुहुमे, वाउकाए सधसुहुमतराए २ ।

२३. [प्र०] एयस्स णं भंते ! पुढविकाइयस्स आउकाइयस्स तेउकाइयस्स कयरे काये सधसुहुमे, कयरे काए सधसुहु-
मतराए ? [उ०] गोयमा ! तेउकाए सधसुहुमे, तेउकाए सधसुहुमतराए ३ ।

२४. [प्र०] एयस्स णं भंते ! पुढविकाइयस्स आउकाइयस्स कयरे काए सधसुहुमे, कयरे काए सधसुहुमतराए ? [उ०]
गोयमा ! आउकाए सधसुहुमे, आउकाए सधसुहुमतराए ४ ।

२५. [प्र०] एयस्स णं भंते ! पुढविकाइयस्स आउकाइयस्स तेउकाइयस्स वाउकाइयस्स वणस्सइकाइयस्स कयरे काये
सधवादरे, कयरे काये सधवादरतराए ? [उ०] गोयमा ! वणस्सइकाये सधवादरे, वणस्सइकाये सधवादरतराए ? ।

२६. [प्र०] एयस्स णं भंते ! पुढविकाइयस्स आउकाइयस्स तेउकाइयस्स वाउकाइयस्स कयरे काए सधवादरे, कयरे
काए सधवादरतराए ? [उ०] गोयमा ! पुढविकाए सधवादरे, पुढविकाए सधवादरतराए २ ।

२७. [प्र०] एयस्स णं भंते ! आउकाइयस्स तेउकाइयस्स वाउकाइयस्स कयरे काए सधवादरे, कयरे काए सधवादर-
तराए ? [उ०] गोयमा ! आउकाए सधवादरे, आउकाए सधवादरतराए ३ ।

२८. [प्र०] एयस्स णं भंते ! तेउकाइयस्स वाउकाइयस्स कयरे काए सधवादरे, कयरे काए सधवादरतराए ? [उ०]
गोयमा ! तेउकाए सधवादरे, तेउकाए सधवादरतराए ४ ।

तेथी पर्याप्त वादर गिगोदनी उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक छे ४१, तेथी प्रत्येक शरीरवाज्य पर्याप्त वादर वनस्पतिकायिकनी जवन्व अ-
वगाहना असंख्यातगुण छे ४२, तेथी प्रत्येक शरीरवाज्य अपर्याप्त वादर वनस्पतिकायिकनी उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यातगुण छे ४३, अने
तेथी प्रत्येक शरीरवाज्य वादर वनस्पतिकायिकनी उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यातगुण छे ४४.

२१. [प्र०] हे भगवन् ! पृथिवीकायिक, अप्कायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक अने वनस्पतिकायिक ए ववामा कइ काय सौथी
सूक्ष्म अने सूक्ष्मतर छे ? [उ०] हे गौतम ! वनस्पतिकायिक सौथी *सूक्ष्म अने सूक्ष्मतर छे.

२२. हे भगवन् ! ए पृथिवीकाय, अप्काय, अग्निकाय अने वायुकायमा कई काय सर्वथी सूक्ष्म अने सूक्ष्मतर छे ? [उ०] हे गौतम !
वायुकाय सौथी सूक्ष्म अने सूक्ष्मतर छे.

२३. हे भगवन् ! ए पृथिवीकाय, अप्काय अने तेजस्कायमा कई काय सर्व सूक्ष्म अने सर्व सूक्ष्मतर छे ? [उ०] हे गौतम ! अग्नि-
काय सौथी सूक्ष्म अने सूक्ष्मतर छे.

२४. [प्र०] हे भगवन् ! ए पृथिवीकाय अने अप्कायमा कई काय सर्व सूक्ष्म अने सर्व सूक्ष्मतर छे ? [उ०] हे गौतम ! अप्काय
सौथी सूक्ष्म अने सूक्ष्मतर छे.

२५. [प्र०] हे भगवन् ! ए पृथिवीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय अने वनस्पति कायमा कई काय सौथी वादर अने वादरतर
छे ? [उ०] हे गौतम ! वनस्पतिकाय सौथी वादर अने वादरतर छे.

२६. [प्र०] हे भगवन् ! ए पृथिवीकाय, अप्काय, अग्निकाय अने वायुकायमा कई काय वादर अने वादरतर छे ? [उ०] हे
गौतम ! पृथिवीकाय सौथी वादर अने वादरतर छे.

२७. [प्र०] हे भगवन् ! ए अप्काय, अग्निकाय अने वायुकायमा कई काय सौथी वादर अने वादरतर छे ? [उ०] हे गौतम !
अप्काय सौथी वादर अने वादरतर छे.

२८. [प्र०] हे भगवन् ! ए अग्निकाय अने वायुकायमा कई काय सर्वथी वादर अने सर्वथी वादरतर छे ? [उ०] हे गौतम !
अग्निकाय सौथी वादर अने वादरतर छे.

२१ * वनस्पतिकाय सूक्ष्म वनस्पतिकायनी अपेक्षाए सर्व करता अधिक सूक्ष्म छे अने प्रत्येक वनस्पतिकायनी अपेक्षाए सर्व करता अधिक वादर छे.

२९. [प्र०] केमहालय णं भंते ! पुढविसरीरे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! अणंताणं सुहुमवणस्सइकाइयाणं जावइयां सरीरा से एगे सुहुमवाउसरीरे, असंखेजाणं सुहुमवाउसरीराणं जावतिया सरीरा से एगे सुहुमतेउसरीरे, असंखेजाणं सुहुमतेउकाइयसरीराणं जावतिया सरीरा से एगे सुहुमे आउसरीरे, असंखेजाणं सुहुमआउकाइयसरीराणं जावइया सरीरा से एगे सुहुमे पुढविसरीरे, असंखेजाणं सुहुमपुढविकाइयसरीराणं जावइया सरीरा से एगे वादरवाउसरीरे, असंखेजाणं वादरवाउकाइयाणं जावइयां सरीरा से एगे वादरतेउसरीरे, असंखेजाणं वादरतेउकाइयाणं जावतिया सरीरा से एगे वादरआउसरीरे, असंखेजाणं वादरआउकाइयाणं जावतिया सरीरा से एगे वादरपुढविसरीरे । एमहालय णं गोयमा ! पुढविसरीरे पन्नत्ते ।

३०. [प्र०] पुढविकाइयस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! से जहानामए रत्तो चाउरं-तच्चक्खवट्टिस्स वन्नगपेसिया तरणी बलवं जुगवं जुवाणी अप्पायंका० वन्नओ जाव-निउणसिप्पोवगया, नवरं चम्मेट्टु-दुहण-मुट्टियसमाहयणिचियगत्तकाया न भण्णति, सेसं तं चेव जाव-निउणसिप्पोवगया तिक्खाए वयरामईए सण्हकरणीए तिक्खेणं वइरामएणं चट्टावरएणं एगं मइं पुढविकाइयं जतुगोलात्तमाणं गहाय पडिसाहरिय प० २ पडिसंखिविय पडि० २ जाव-‘इणामेव-त्ति कट्टु तिसत्तक्खुत्तो उप्पीत्तेजा, तत्थ णं गोयमा ! अत्येगतिया पुढविकाइया आलिद्धा अत्येगइया पुढविकाइया नो आ-लिद्धा, अत्येगइया संघट्टि(ट्टि)या अत्येगइया नो संघट्टि(ट्टि)या, अत्येगइया परियाविया अत्येगइया नो परियाविया, अत्येगइया उइविया अत्येगइया नो उइविया, अत्येगइया पिट्ठा अत्येगतिया नो पिट्ठा, पुढविकाइयस्स णं गोयमा ! एमहालिया सरीरो-गाहणा पण्णत्ता ।

३१. [प्र०] पुढविकाइए णं भंते ! अकंते समाणे केरिसियं वेदणं पच्चणुव्वमाणे विहरति ? [उ०] गोयमा ! से जहा-नामए-केइ पुरिसे तरुणं बलवं जाव-निउणसिप्पोवगए एगं पुरिसं जुचं जराजजरियदेहं जाव-दुव्वलं किलंतं जमलपाणिणा मुद्धानंसि अभिहणिजा, से णं गोयमा ! पुरिसे तेषं पुरिसेणं जमलपाणिणा मुद्धानंसि अभिहए समाणे केरिसियं वेदणं पच्चणुव्वमाणे विहरति ? अणिट्ठं समणाउत्तो ! तस्स णं गोयमा ! पुरिसस्स वेदणाहितो पुढविकाइए अकंते समाणे एत्तो अणिट्ठतरियं चेव अकंततरियं जाव-अमणामतरियं चेव वेदणं पच्चणुव्वमाणे विहरति ।

२९. [प्र०] हे भगवन् ! पृथिवीकायिकोतुं केटलं मोटुं शरीर कहुं छे ? [उ०] हे गौतम ! अनंत सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोना जेटलां शरीरो थाय त्रेटलं एक सूक्ष्म वायुकायनुं शरीर छे. असल्य सूक्ष्म वायुकायनां जेटला शरीरो थाय तेटलं एक सूक्ष्म अत्रिकायनुं शरीर छे. असंख्य सूक्ष्म अत्रिकायना जेटला शरीरो थाय छे, तेटलं एक सूक्ष्म अफ्कायनुं शरीर छे, असल्य सूक्ष्म अफ्कायनां जेटला शरीरो थाय तेटलं एक सूक्ष्म पृथिवीकायनु शरीर छे, असंख्य सूक्ष्म पृथिवीकायना जेटला शरीरो थाय तेटलं एक वादर वायुकायनुं शरीर छे, असंख्य वादर वायुकायना जेटलां शरीरो थाय तेटलं एक वादर अत्रिकायनु शरीर छे, असल्य वादर अत्रिकायना जेटला शरीरो थाय, तेटलं एक वादर अफ्कायनुं शरीर छे अने असल्य वादर अफ्कायना जेटला शरीरो थाय तेटलं एक वादर पृथिवीकायनुं शरीर छे. हे गौतम ! [वीजी क्कायनी अवेक्षाए] एटलु मोटुं पृथिवीकायनुं शरीर कहुं छे.

पृथिवीकायिकन्त
शरीरनु प्रमाण.

३०. [प्र०] हे भगवन् ! पृथिवीकायना शरीरनी केटली मोटी अवगाहना कही छे ? [उ०] हे गौतम ! जेमके कोई एक चार दिशाना स्वामी चक्रवर्ती राजानी चंदन वसनारी दासी होय, ते दासी युवान, बलवान्, युगवान्-सुपमादि विशिष्ट काळनां उत्यन्न थयेली, उमर लायक, नीरोगी-इत्यादि वर्णन जाणवुं, यावत्-अत्यंत कळाकुशळ होय, परन्तु ‘चमेट्टु,* द्रवण, अने मौटिकादि व्यायामना माघनोथी मजवूत थयेला शरीरवाळी’ ए विशेषण न कहेवुं. पूर्वोक्त एवी ते दासी चूर्ण वाटवानां वज्रनी कठण शिला उपर वज्रमय कठण पापाणवळे लाखना दडा जेटला एक मोटा पृथिवीकायना पिंडने लईने तेने वारंवार एकटो करी करीने, तेना संक्षेप करी करीने वाटे, यावत्-‘आ तुरतमां वाटी नाहुं छुं’ एम धारी एक्कीस वार पीसे, तो पण हे गौतम ! तेमा केटलाएक पृथिवीकायिकोने ते शिला अने वाटवाना पापाणनो मात्र स्पर्श थाय छे अने केटलाएकने स्पर्श पण थतो नथी, केटलाएकने सवर्ष थाय छे अने केटला एकने सवर्ष पण थतो नथी, केटलाएकने पीडा थाय छे अने केटलाएकने पीडा पण थती नथी, केटलाएक मरे छे-अने केटलाएक मरता पण नथी; तथा केटलाएक पीसाय छे अने केटला एक पीसाता पण नथी. हे गौतम ! पृथिवीकायना शरीरनी एटली [सूक्ष्म] अवगाहना कही छे.

पृथिवीकायिकना
शरीरनी अवगाहना.

३१. [प्र०] हे भगवन् ! ज्यारे पृथिवीकाय दवाय ल्यारे ते केवी पीडानो अनुभव करे ? [उ०] हे गौतम ! जेम कोई एक पुरुष युवान, बलवान्, यावत्-अत्यन्तकळा कुशळ होय, ते वीजा कोई घडपणथी जीर्ण थयेला शरीरवाळा यावत्-दुव्वळा ग्लान पुरुषना माथामा पोताना वने हाथे मारे तो हे गौतम ! ते पुरुषना वने हाथना मारथी घवायेले ते वृद्ध पुरुष केवी पीडा अनुभवे ? हे आयुष्मन् श्रमण ! ते वृद्ध घणीज अनिष्ट पीडाने अनुभवे. हे गौतम ! ते पृथिवीकाय ज्यारे दवाय ल्यारे ते पुरुषनी वेदना करतां पण अनिष्टतर, अनिय अने अणगमती एवी घणी वेदना अनुभवे.

पृथिवीकायिकने तेने
पीडा थाय !

१ ‘सुहुमवाउकाइमाण’-टीका.

२० * दासीने साधनो द्वारा व्यायामनी प्रवृत्तिनो अरुभव होनाथी आ विशेषण न करेउ.-टीका.

३२. [प्र०] आउयाए णं मंते ! संघट्टिए समाणे केरिसियं वेदणं पच्चणुम्मवमाणे विहरति ? [उ०] गोयमा ! जहा पुद-
विकाइए एवं चेव, एवं तेऊयाए वि, एवं वाऊयाएवि, एवं वणस्सइकाए वि, जाव-विहरति । 'सेवं मंते ! सेवं मंते !' ति ।

एगुणवीसइमे सए तइओ उद्देशो समत्तो ।

३२. [प्र०] हे भगवन् ! ज्यारे अप्कायिक जीवनों स्पर्श थाय ल्यारे ते केवी वेदना अनुभवे ? [उ०] हे गौतम ! जेम पृथिवीमाय
संबंधे कहूं तेम अप्काय संबंधे पण कहेवूं. ए प्रमाणे अग्निक्काय, वायुक्काय अने वनस्पतिकाय संबंधे पण जाणवूं. 'हे भगवन् ते एमज छे,
हे भगवन् ! ते एमज छे.'

ओगणीगमा अतकमां तृतीय उद्देशक समाप्त.

चउत्थो उद्देशो ।

१. [प्र०] सिय मंते ! नेरइया महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? [उ०] गोयमा ! णो तिणट्टे समट्टे १ ।
२. [प्र०] सिय मंते ! नेरइया महासवा महाकिरिया महावेयणा अप्पनिज्जरा ? [उ०] हंता सिया २ ।
३. [प्र०] सिय मंते ! नेरइया महासवा महाकिरिया अप्पवेयणा महानिज्जरा ? [उ०] गोयमा ! णो तिणट्टे समट्टे ३ ।
४. [प्र०] सिय मंते ! नेरइया महासवा महाकिरिया अप्पवेदणा अप्पनिज्जरा ? [उ०] गोयमा ! णो तिणट्टे समट्टे ४ ।
५. [प्र०] सिय मंते ! नेरइया महासवा अप्पकिरिया महावेदणा महानिज्जरा ? [उ०] गोयमा ! णो तिणट्टे समट्टे ५ ।

चतुर्थ उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको महासव- 'मोटा आसववाळा, मोटी क्रियावाळा, मोटी वेदनावाळा अने मोटी निर्जरावाळा होय ?
[उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नयी.
२. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको मोटा आसववाळा, मोटी क्रियावाळा, मोटी वेदनावाळा अने मोटी निर्जरावाळा होय ? [उ०]
हे गौतम ! हा होय.
३. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको मोटा आसववाळा, मोटी क्रियावाळा, अल्प वेदनावाळा अने मोटी निर्जरावाळा होय ? [उ०] हे
गौतम ! ए अर्थ समर्थ नयी.
४. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको मोटा आसववाळा, मोटी क्रियावाळा, अल्प वेदनावाळा अने अल्प निर्जरावाळा होय ? [उ०] हे
गौतम ! ए अर्थ समर्थ नयी.
५. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको महाआसववाळा, अल्प क्रियावाळा, मोटी वेदनावाळा अने मोटी निर्जरावाळा होय ? [उ०] हे
गौतम ! ए अर्थ समर्थ नयी.

१ एव आउकाए वि इ.

१ * नैरयिकोने घणा कर्मोने बन्ध यतो होवाधी ते महासववाळा, कायिको वगेरे घणी क्रियावाळा, अमातानो तीज उदय होवाधी घणी वेदनावाळा
अने घणा कर्मोने क्षय यतो होवाधी महानिर्जरावाळा होय ?—ए प्रश्न छे तेमा उपरना चार पटना नीचे प्रमाणे सोळ भागा थाय छे —

	आसव	क्रिया	वेदना	निर्जरा		आसव	क्रिया	वेदना	निर्जरा
१	महा-	महा-	महा-	महा-	१	अल्प	महा	महा	महा
२	"	"	"	अल्प	१०	"	"	"	अल्प
३	"	"	अल्प	महा	११	"	"	अल्प	महा
४	"	"	"	अल्प	१२	"	"	"	अल्प
५	"	अल्प	महा	महा	१३	"	अल्प	महा	महा
६	"	"	"	अल्प	१४	"	"	"	अल्प
७	"	"	अल्प	महा	१५	"	"	अल्प	महा
८	"	"	"	अल्प	१६	"	"	"	अल्प

तेमा नैरयिकोने 'महासववाळा, महानियावाळा, महावेदनावाळा अने अल्पनिर्जरावाळा'—आ वीजो भागो लग्गु पढे छे. केमके तेने महासवादि त्रणे
होय छे, परन्तु अतिरति होवाधी अल्प निर्जरा होय छे. वाक्कीना भागाओ नैरयिकोने लग्गु पठता नथी. असुरकुमारदि देवोना 'महासव, महाक्रिया, अल्प
वेदना अने अल्प निर्जरा'—ए चोथो भांगो होय छे. केमके तेओमा अतिरति होवाधी महासव, महानिया अने अल्प निर्जरा होय छे, पण असातानो उदय प्रायः
नहि होवाधी अल्प वेदना होय छे वाक्कीना भागाओ तेओमा होता नथी. पृथिवीकायिकादिमा बधा सोळे भागाओ होय छे.—टीका.

अप्कायिकने केवी
पीटा थाय ?

महासव, महाक्रिया,
महावेदना अने
महानिर्जरा.

६. [प्र०] सिय भंते ! नेरइया महासवा अप्पकिरिया महावेयणा अप्पनिज्जरा ? [उ०] गोयमा ! नो तिण्हे समट्टे ६ ।
 ७. [प्र०] सिय भंते ! नेरतिया महासवा अप्पकिरिया अप्पवेदणा महानिज्जरा ? [उ०] नो तिण्हे समट्टे ७ ।
 ८. [प्र०] सिय भंते ! नेरतिया महासवा अप्पकिरिया अप्पवेदणा अप्पनिज्जरा ? [उ०] णो तिण्हे समट्टे ८ ।
 ९. [प्र०] सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा महाकिरिया महावेदणा महानिज्जरा ? [उ०] नो तिण्हे समट्टे ९ ।
 १०. [प्र०] सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा महाकिरिया महावेदणा अप्पनिज्जरा ? [उ०] नो तिण्हे समट्टे १० ।
 ११. [प्र०] सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा महाकिरिया अप्पवेयणा महानिज्जरा ? [उ०] नो तिण्हे समट्टे ११ ।
 १२. [प्र०] सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा महाकिरिया अप्पवेदणा अप्पनिज्जरा ? [उ०] णो तिण्हे समट्टे १२ ।
 १३. [प्र०] सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा अप्पकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? [उ०] नो तिण्हे समट्टे १३ ।
 १४. [प्र०] सिय भंते ! नेरतिया अप्पासवा अप्पकिरिया महावेदणा अप्पनिज्जरा ? [उ०] नो तिण्हे समट्टे १४ ।
 १५. [प्र०] सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा अप्पकिरिया अप्पवेयणा महानिज्जरा ? [उ०] नो तिण्हे समट्टे १५ ।
 १६. [प्र०] सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा अप्पकिरिया अप्पवेयणा अप्पनिज्जरा ? [उ०] णो तिण्हे समट्टे १६ । एते

सोलस भंगा ।

१७. [प्र०] सिय भंते ! असुरकुमारा महासवा महाकिरिया महावेदणा महानिज्जरा ? [उ०] णो तिण्हे समट्टे । एवं चउत्थो भंगो भाणियद्धो, सेसा पन्नरस भंगा खोडेयद्धा, एवं जाव—थणियकुमारा ।

६. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको मोटा आश्रववाळा, अल्प क्रियावाळा, मोटी वेदनावाळा अने अल्प निर्जरावाळा होय ? [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नयी.

७. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको मोटा आश्रववाळा, अल्प क्रियावाळा, अल्प वेदनावाळा अने महानिर्जरावाळा होय ? [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नयी.

८. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको मोटा आश्रववाळा, अल्प क्रियावाळा, अल्प वेदनावाळा अने अल्प निर्जरावाळा होय ? [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नयी.

९. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको अल्प आश्रववाळा, मोटी क्रियावाळा, मोटी वेदनावाळा अने मोटी निर्जरावाळा होय ? [उ०] ए अर्थ समर्थ नयी.

१०. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको अल्प आश्रववाळा, मोटी क्रियावाळा, मोटी वेदनावाळा अने अल्प निर्जरावाळा होय ? [उ०] ए अर्थ समर्थ नयी.

११. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको अल्प आश्रववाळा, मोटी क्रियावाळा, अल्प वेदनावाळा अने मोटी निर्जरावाळा होय ? [उ०] ए अर्थ समर्थ नयी.

१२. हे भगवन् ! नैरयिको अल्प आश्रववाळा, मोटी क्रियावाळा, अल्प वेदनावाळा अने अल्प निर्जरावाळा होय ? [उ०] ए अर्थ समर्थ नयी.

१३. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको अल्प आश्रववाळा, अल्प क्रियावाळा, मोटी वेदनावाळा अने मोटी निर्जरावाळा होय ? [उ०] ए अर्थ समर्थ नयी.

१४. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको अल्प आश्रववाळा, अल्प क्रियावाळा, मोटी वेदनावाळा अने अल्प निर्जरावाळा होय ? [उ०] ए अर्थ समर्थ नयी.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको थोडा आश्रववाळा, थोडी क्रियावाळा, थोडी वेदनावाळा अने मोटी निर्जरावाळा होय ? [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नयी.

१६. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको अल्प आश्रववाळा, अल्प क्रियावाळा अल्प वेदनावाळा अने अल्प निर्जरावाळा होय ? [उ०] ए अर्थ समर्थ नयी. ए प्रमाणे सोळ भांगा जाणवा.

१७. [प्र०] हे भगवन् ! असुरकुमारो मोटा आश्रववाळा, मोटी क्रियावाळा, मोटी वेदनावाळा अने मोटी निर्जरावाळा होय ? [उ०] ए अर्थ समर्थ नयी. ए प्रमाणे अहि चोयो भागो कहेवो, अने वाकीना पंदर भागाओनो प्रतिपेव करवो. एम यावत्—स्तनितकुमारो सुधी जाणवुं.

१८. [प्र०] सिय मंते ! पृथिवीकाड्या महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिजरा ? [उ०] हंता सिया । [प्र०] एवं जाव-सिय मंते ! पृथिवीकाड्या अप्पासवा अप्पकिरिया अप्पवेयणा अप्पनिजरा ? [उ०] हंता सिया, एवं जाव-मणुस्ता, वाणमंतर-जोडसिय-वेणाणिया जहा असुरकुमारा । 'सेवं मंते ! सेवं मंते !' ति ।

एगूणवीसइमे सए चउत्थो उद्देशो समत्तो ।

१८. [प्र०] हे भगवन् ! पृथिवीकायिको मोटा आश्रववाळा, मोटी क्रियावाळा, मोटी वेदनावाळा अने मोटी निर्जरावाळा होय ? [उ०] हा होय.—ए प्रमाणे यावत्—[प्र०] हे भगवन् ! पृथिवीकायिको अल्प आश्रववाळा, अप क्रियावाळा, अल्प वेदनावाळा अने अल्प निर्जरावाळा होय ? [उ०] गौतम ! हा, होय. ए प्रमाणे यावत्—मनुष्यो सुधी जाणवुं. वानव्यंतरो, ज्योतिषिको तथा वैमानिको असुरकुमारोती पेटे कहेवा. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.

औराणीशमा शतक्रमां चतुर्थ उद्देशक समाप्त.

पंचमो उद्देशो.

१. [प्र०] अत्थि णं मंते ! चरिमा वि नेरत्तिया परमा वि नेरत्तिया ? [उ०] हंता अत्थि ।

२. [प्र०] से नूणं मंते ! चरमेहिंतो नेरट्ठहिंतो परमा नेरट्ठया महाकम्मतरा ए चेव, महाकिरियतरा ए चेव, महस्सवतरा ए चेव, महावेयणतरा ए चेव; परमेहिंतो वा नेरट्ठहिंतो चरमा नेरट्ठया अल्पकम्मतरा ए चेव, अप्पकिरियतरा ए चेव, अप्पासवतरा चेव, अप्पवेयणतरा चेव ? [उ०] हंता गोयमा ! चरमेहिंतो नेरट्ठहिंतो परमा जाव-महावेयणतरा ए चेव, परमेहिंतो वा नेरट्ठहिंतो चरमा नेरट्ठया जाव-अप्पवेयणतरा चेव । [प्र०] से केणट्ठेणं मंते ! एवं बुच्चइ-जाव-अप्पवेयणतरा चेव ? [उ०] गोयमा ! ट्ठिंति पडुच्च, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-जाव-अप्पवेयणतरा चेव ।

३. [प्र०] अत्थि णं मंते ! चरमा वि असुरकुमारा परमा वि असुरकुमारा ? [उ०] एवं चेव, नवरं विवरियं माणियधं, परमा अप्पकम्मा, चरमा महाकम्मा । सेसं तं चेव, जाव-यणियकुमारा नाव एवमेव । पृथिवीकाड्या जाव-मणुस्ता पते जहा नेरट्ठया । वाणमंतर-जोडसिय-वेणाणिया जहा असुरकुमारा ।

४. [प्र०] कइविहा णं मंते ! वेदणा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! दुविहा वेदणा पन्नत्ता । तं जहा-निद्धा च अनिद्धा य ।

पंचम उद्देशक.

१ [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको चरम-अल्प आयुपवाळा अने परम-अधिक आयुपवाळा छे ? [उ०] हे गौतम ! छे.

२. [प्र०] हे भगवन् ! चरम नैरयिको करता परम नैरयिको महाकर्मवाळा. महाक्रियावाळा, महाआस्रववाळा अने महावेदनावाळा होय छे ? तथा परम-अधिक स्थितिवाळा नैरयिको करता चरम-अल्पस्थितिवाळा नैरयिको अल्पकर्मवाळा, अल्पक्रियावाळा, अल्पआस्रवाळा अने अल्पवेदनावाळा होय छे ? [उ०] हा गौतम ! अल्प आयुपवाळा नैरयिको करता अधिक आयुपवाळा नैरयिको यावत्-महावेदनावाळा होय छे, अने अधिक आयुपवाळा नैरयिको करता अल्प आयुपवाळा नैरयिको यावत्-अल्प वेदनावाळा होय छे. [प्र०] हे भगवन् ! या हेतुधी एम कहेो छे के यावत्-अधिक आयुपवाळा नैरयिको करता अल्प आयुपवाळा नैरयिको यावत्-अल्प वेदनावाळा होय छे ? [उ०] हे गौतम आयुपवाळा स्थितिने आश्रयी यावत्-अल्प वेदनावाळा होय छे.

३. [प्र०] हे भगवन् ! असुरकुमारो अल्पआयुपवाळा अने अधिक आयुपवाळा पण होय छे ? [उ०] पूर्वे कखा प्रमाणे जाणवुं. पण विज्जेप ए के अहां पूर्व करता विपरीत कहेवुं. अधिकआयुपवाळा असुरकुमारो [अशुभ कर्मनी अपेक्षाए] अल्प कर्मवाळा, अने अल्प-आयुपवाळा असुरकुमारो महाकर्मवाळा होय छे. वाकी बधुं तेज प्रमाणे कहेवुं, यावत्—स्तनितकुमारो सुधी जाणवुं. जेम नैरयिको कखा तेम पृथिवीकायिकादि यावत्-मनुष्यो सुधी कहेवा, असुरकुमारोनी पेटे वानव्यंतरो, ज्योतिषिको अने वैमानिको कहेवा.

४. [प्र०] हे भगवन् ! वेदना केटळा प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! वेदना वे प्रकारनी कही छे, ते आ प्रमाणे-निदा-ज्ञानपूर्वक वेदना अने अनिदा-अज्ञानपूर्वक वेदना.

* जे नैरयिकोनी मोटी स्थिति होय छे, तेने बीजा नैरयिको करता घणा अशुभ कर्म होवाची ते अपेक्षाए महाकर्मवाळा इत्यादि कथा छे, अने जेओनी अल्प स्थिति छे तेने बीजा करता अशुभ कर्म होवाची अल्प कर्मवाळा इत्यादि कथा छे-दीक्षा.

५. [प्र०] नेरइया णं भंते ! किं निदायं वेदणं वेयंति, अनिदायं जहा—पन्नवणाए जाव—‘वेमाणिय’ त्ति । ‘सेवं भंते ! सेवं भंते’ ! त्ति ।

एगूणवीसइमे सए पंचमो उद्देशो समत्तो ।

५. [प्र०] हे भगवन् ! तुं नेरयिको ज्ञानपूर्वक वेदनाने वेदे—अनुभवे छे के अज्ञानपूर्वक वेदनाने वेदे छे ? [उ०] हे गौतम ! ‘प्रज्ञापनासूत्रमां कत्था प्रमाणे अहिं कहेवुं. ए प्रमाणे यावत्—वेमानिको सुची जाणवुं. ‘हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.’

ओगणीशमा शतकमां पंचम उद्देशक समाप्त.

छट्ठओ उद्देशो.

१. [प्र०] कहि णं भंते ! दीवसमुद्दा ? केवइया णं भंते ! दीवसमुद्दा ? किंसंठिया णं भंते ! दीवसमुद्दा ? [उ०] पयं जहा जीवाभिगमे दीवसमुद्दुद्देशो सो चेव इह वि जोइसियमंडिउद्देशगवज्जो भाणियद्यो जाव—परिणामो, जीवउचवाओ, जाव—अणंतखुत्तो । ‘सेवं भंते ! सेवं भंते’ ! त्ति ।

एगूणवीसइमे सए छट्ठओ उद्देशो समत्तो ।

पष्ठ उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! द्वीप अने समुद्रो क्यां कत्था छे, हे भगवन् ! द्वीप समुद्रो केटळा कत्था छे अने हे भगवन् ! द्वीप समुद्रो केवा आकारे कत्था छे ? [उ०] ‘जीवाभिगमसूत्रमां कहेळ प्योतिपिकमडित उद्देशक सिवाय द्वीपसमुद्रोद्देशक यावत्—‘परिणाम, जीवनो उपपात अने यावत्—अनंतवार’घटित वाक्य सुची कहेवो. ‘हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.’

ओगणीशमा शतकमां छट्ठो उद्देशक समाप्त.

सत्तमो उद्देशो.

१. [प्र०] केवतिया णं भंते ! असुरकुमारभवणावाससयसहस्सा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! अउसट्ठि असुरकुमारभवणावाससयसहस्सा पन्नत्ता ।

२. [प्र०] ते णं भंते ! किमया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! सद्यरयणाभया, अच्छा, सण्हा, जाव—पडिस्सा । तत्थ णं वह्वे जीवा य पोगला य चकमंति, विउक्कमंति, चयंति, उववजंति । सासया णं ते भवणा इउद्दयाए, वपपज्जवेहिं, जाव—फासपज्जवेहिं असासया, एवं जाव—थणियकुमारावासा ।

सत्तम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! असुरकुमारोना भवनावासो केटळा टाळ कत्था छे ? [उ०] हे गौतम ! असुरकुमारोना भवनावासो चोमठ टाळ कत्था छे.

२. [प्र०] हे भगवन् ! ते भवनावासो केवा छे ? [उ०] हे गौतम ! ते भवनावासो सररत्तामय, अच्छ, तुंवाळा, यावत्—प्रणिग्ग—मुन्दर छे. अने त्या घणा जीवो अने पुट्टलो उपजे छे अने विनाश पावे छे, तथा प्येव छे अने उपजे छे. ते भवना प्रवर्षाधिकपणे शाश्वत छे अने वर्षपर्यायोवडे यावत्—स्पर्षपर्यायोवडे अशाश्वत छे. ए प्रमाणे यावत्—स्तनितकुमारो सुची जाणवुं.

५ * निदा—ज्ञानपूर्वक वाचवा सम्बन्धितपूर्वक अने अनिदा—अज्ञानपूर्वक वाचवा सम्बन्धितपूर्वकपूर्वक निदा—सुगुहू गौतमो उपासक करतो तेनां नारकोने वने प्रतारनी वेदना होय छे जेओ सजीवी वावी उपासक वयेळ छे तेने निदा वेदना होय छे अने जेओ धर्मार्थी जाः उपासक वयेळ छे तेने अनिदा वेदना होय छे ए प्रमाणे असुरकुमारदि देवोने पण जाणवुं. पृथिवीराजादिभी मापी चरिंद्रिय सुचीना जेओने मात्र अविदा वेदना होय छे अविदा वेदना तियेच, मनुष्य अने वानव्यतरने नारकोनी पेटे वने प्रतारनी वेदना होय छे जेओविधि अने वेमानिरने पण वने प्रतारनी वेदना होय छे, वपपु मेवु एवम वीजा जीवो करता जुडु पणु छे त्या जे मायी निव्याहटि देवो छे वेओ अनिदा—सम्बन्धितपूर्वक निदा वेदना होय छे अने जेओ धर्मार्थी सम्बन्धित देवो छे ते निदा—सम्बन्धितपूर्वक निदा वेदना वेद छे. जुओ—प्रग० पद ३५ प० ५५६-५७.

१ † परिणामसम्बन्धे ‘हे भगवन् ! कथा द्वीपसमुद्रो तुं सुचिरीना परिणामस्य छे’ ?—तीतना उचकत सुचने हि भगवन् ! द्वीपसमुद्रोना वने जेने पृथिवीकाधिकदिपणे पूरे उलसक यवा छे ?—ए कते वाक्यो गौतम न्यागीना प्रश्नमे छे, अने अतन्तर सुचने ‘हा गौतम ! अनेतर उचकत ‘अउसट्ठि’ उलसक यवा छे’—ए वाक्य भगवान् महर्षीरना उत्तरमे छे. जुओ—जानामि० प्रति० ३ प० ३७३.

३. [प्र०] केवतिया णं भंते ! वाणमंतरभोमेज्जनगरावाससयसहस्सा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! असंखेज्जा वाणमंतर-भोमेज्जनगरावाससयसहस्सा पन्नत्ता ।

४. [प्र०] ते णं भंते ! किंमया पन्नत्ता ? [उ०] सेसं तं चैव ।

५. [प्र०] केवतिया णं भंते ! जोइसियविमाणावाससयसहस्सा—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! असंखेज्जा जोइसिय० ।

६. [प्र०] ते णं भंते ! किंमया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! सधफालिहामया, अच्छा, सेसं तं चैव ।

७. [प्र०] सोहम्मे णं भंते ! कप्पे केवतिया विमाणावाससयसहस्सा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! वत्तीसं विमाणावास-सयसहस्सा पन्नत्ता ।

८. [प्र०] ते णं भंते ! किंमया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! सधरयणांमया, अच्छा, सेसं तं चैव जाव—अणुत्तरविमाणा, नवरं जाण्येय्वा जत्थ जत्थिया भवणा विमाणा वा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते !' त्ति ।

एगूणवीसइमे सए सत्तमो उद्देशो समत्तो ।

३. [प्र०] हे भगवन् ! वानव्यन्तरोना भूमिनी अन्तर्गत केटला लाख नगरो कया छे ? [उ०] हे गौतम ! वानव्यन्तरोना भूमिनी अन्तर्गत असंख्याता नगरो कया छे.

४. [प्र०] हे भगवन् ! ते वानव्यन्तरना नगरो केवां छे ? [उ०] पूर्व प्रमाणे वाकीनुं वधुं छे.

५. [प्र०] हे भगवन् ! ज्योतिषिकना केटला लाख विमानावासो कया छे ? [उ०] हे गौतम ! ज्योतिषिकना असंख्य लाख विमा-नावासो कया छे.

६. [प्र०] हे भगवन् ! ते विमानावासो केवा छे ? [उ०] हे गौतम ! ते विमानावासो वधा स्फटिकमय थने स्रच्छ छे. वाकी वधुं पूर्व प्रमाणे जाणहुं.

७. [प्र०] हे भगवन् ! सौवर्म कल्पमा केटला लाख विमानावासो कया छे ? [उ०] हे गौतम ! त्या वत्रीश लाख विमानावासो कया छे.

८. [प्र०] हे भगवन् ! ते वधा विमानावासो केवा छे ? [उ०] हे गौतम ! ते वधा सर्व रत्नमय अने स्रच्छ छे. वाकी वधुं पूर्व प्रमाणे यावत्—अनुत्तरविमान सुधी जाणहुं, विशेष ए के ज्या जेटला भवनो के विमानो होय त्या तेटलां कहेवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

ओगणीशमा शतकमां सप्तम उद्देशक समाप्त.

अट्ठमो उद्देशो ।

१. [प्र०] कतिविहा णं भंते ! जीवनिद्वत्ती पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा जीवनिद्वत्ती पन्नत्ता, तं जहा—पर्गिदिय-जीवनिद्वत्ती, जाव—पंचिदियजीवनिद्वत्ती ।

२. [प्र०] पर्गिदियजीवनिद्वत्ती णं भंते ! कतिविहा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा पन्नत्ता, तं जहा—पुढविकाइय-पर्गिदियजीवनिद्वत्ती, जाव—वणस्सइकाइयपर्गिदियजीवनिद्वत्ती ।

३. [प्र०] पुढविकाइयपर्गिदियजीवनिद्वत्ती णं भंते ! कतिविहा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता, तं जहा—सुहुमपुढविकाइयपर्गिदियजीवनिद्वत्ती य वादरपुढवि०, एवं एणं अभिलावेणं भेदो जहा वहुगवधो तेयगसरीरस्स, जाव—

अष्टम उद्देशक.

जीवनिद्वत्ति.

१. [प्र०] हे भगवन् ! जीवनिद्वत्ति केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! जीवनिद्वत्ति पाच प्रकारनी कही छे, ते आ प्रमाणे—एकेन्द्रियजीवनिद्वत्ति, यावत्—पंचेन्द्रियजीवनिद्वत्ति.

२. [प्र०] हे भगवन् ! एकेन्द्रियजीवनिद्वत्ति केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! पाच प्रकारनी कही छे, ते आ प्रमाणे—पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय जीवनिद्वत्ति, यावत्—यनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय जीवनिद्वत्ति.

३. [प्र०] हे भगवन् ! पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय जीवनिद्वत्ति केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! वे प्रकारनी कही छे, ते आ प्रमाणे—सूक्ष्मपृथिवीकायिक—एकेन्द्रिय जीवनिद्वत्ति अने वादर पृथिवीकायिक—एकेन्द्रियजीवनिद्वत्ति. ए प्रमाणे ए पाठ वडे महद् वंधना अधिकारमां जेम तिससशरीरनो मेद कयो छे तेम अहिं कहेवो. यावत्—[प्र०] हे भगवन् ! सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक वैमानिक

[प्र०] 'सद्यद्विसिद्धअणुत्तरोववातियकप्पातीतवेमाणियदेवपंचिन्द्रियजीवनिवृत्ती णं भंते ! कतिविहा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता, तं तहा—पज्जत्तगसद्यद्विसिद्धअणुत्तरोववातिय—जाव—देवपंचिन्द्रियजीवनिवृत्ती य अपज्जत्तसद्यद्विसिद्धाणुत्तरोववा-इय—जाव—देवपंचिन्द्रियजीवनिवृत्ती य' ।

४. [प्र०] कतिविहा णं भंते ! कम्मनिवृत्ती पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! अद्विहा कम्मनिवृत्ती पन्नत्ता, तं जहा—नाणावरणिज्जकम्मनिवृत्ती, जाव—अंतराइयकम्मनिवृत्ती ।

५. [प्र०] नेरइयाणं भंते ! कतिविहा कम्मनिवृत्ती पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! अद्विहा कम्मनिवृत्ती पन्नत्ता, तं जहा—नाणावरणिज्जकम्मनिवृत्ती, जाव—अंतराइयकम्मनिवृत्ती, एवं जाव—वेमाणियाणं ।

६. [प्र०] कतिविहा णं भंते ! सरीरनिवृत्ती पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा सरीरनिवृत्ती पन्नत्ता, तं जहा—ओरालियसरीरनिवृत्ती, जाव—कम्मगसरीरनिवृत्ती ।

७. [प्र०] नेरइयाणं भंते ! ० ? [उ०] एवं चेव, एवं जाव—वेमाणियाणं । नवरं नायद्वं जस्स जइ सरीराणि ।

८. [प्र०] कइविहा णं भंते ! सच्चिन्द्रियनिवृत्ती पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा सच्चिन्द्रियनिवृत्ती पन्नत्ता, तं जहा—सोइंदियनिवृत्ती, जाव—फासिन्द्रियनिवृत्ती, एवं जाव—नेरइया(णं), जाव—थणियकुमाराणं ।

९. [प्र०] पुढविकाइयाणं पुच्छ । [उ०] गोयमा ! एग फासिन्द्रियनिवृत्ती पन्नत्ता, एवं जस्स जइ इंदियाणि, जाव—वेमाणियाणं ।

१०. [प्र०] कइविहा णं भंते ! भासानिवृत्ती पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! चउद्विहा भासानिवृत्ती पन्नत्ता, तं जहा—सच्चाभासानिवृत्ती, मोसाभासानिवृत्ती, सच्चासोसभासानिवृत्ती, असच्चासोसभासानिवृत्ती । एवं एगिन्द्रियवज्जं जस्स जा भासा जाव—वेमाणियाणं ।

११. [प्र०] कइविहा णं भंते ! मणनिवृत्ती पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! चउद्विहा मणनिवृत्ती पन्नत्ता, तं जहा—१ सच्चमणनिवृत्ती, जाव—असच्चासोसमणनिवृत्ती । एवं एगिन्द्रियविगल्लिन्द्रियवज्जं जाव—वेमाणियाणं ।

१२. [प्र०] कइविहा णं भंते ! कसायनिवृत्ती पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! चउद्विहा कसायनिवृत्ती पन्नत्ता, तं जहा—कोहकसायनिवृत्ती, जाव—लोभकसायनिवृत्ती, एवं जाव—वेमाणियाणं ।

देवपंचेन्द्रिय जीवनिवृत्ति केटला प्रकारे कही छे ? [उ०] हे गौतम ! वे प्रकारे कही छे, ते आ प्रमाणे—पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक यावत्—देवपंचेन्द्रियजीवनिवृत्ति अने अपर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक यावत्—देवपंचेन्द्रिय जीवनिवृत्ति.

४. [प्र०] हे भगवन् ! कर्मनिवृत्ति केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! कर्मनिवृत्ति आठ प्रकारनी कही छे, ते आ प्रमाणे—१ ज्ञानावरणीय कर्मनिवृत्ति, यावत्—अतराय कर्मनिवृत्ति.

५. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिकोने केटला प्रकारनी कर्मनिवृत्ति कही छे, [उ०] हे गौतम ! आठ प्रकारनी कर्मनिवृत्ति कही छे, ते आ प्रमाणे—१ ज्ञानावरणीय कर्मनिवृत्ति, यावत्—८ अन्तराय कर्मनिवृत्ति. ए प्रमाणे यावत्—वैमानिक सुधी जाणवुं.

६. [प्र०] हे भगवन् ! शरीरनिवृत्ति केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! शरीरनिवृत्ति पाच प्रकारनी कही छे, ते आ प्रमाणे—१ औदारिकशरीरनिवृत्ति यावत्—५ कार्मणशरीरनिवृत्ति.

७. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिकोने शरीरनिवृत्ति केटला प्रकारनी छे ? [उ०] पूर्व प्रमाणे जाणवुं. तथा ए प्रमाणे यावत्—वैमानिकोने जाणवुं विशेष ए के, जेने जेटला शरीरो होय तेने तेटला कहेवा.

८. [प्र०] हे भगवन् ! सच्चिन्द्रियनिवृत्ति केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! सच्चिन्द्रियनिवृत्ति पाच प्रकारनी कही छे, ते आ प्रमाणे—श्रोत्रेन्द्रियनिवृत्ति यावत्—स्पर्शेन्द्रियनिवृत्ति. ए प्रमाणे नैरयिको यावत्—स्तनितकुमारो सबन्धे जाणवुं.

९. [प्र०] हे भगवन् ! पृथिवीकायिकोने केटली इन्द्रियनिवृत्ति कही छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने एक स्पर्शेन्द्रियनिवृत्ति कही छे. ए प्रमाणे जेने जेटली इन्द्रियो होय तेने तेटली इन्द्रियनिवृत्ति कहेवी. ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी जाणवुं.

१०. [प्र०] हे भगवन् ! भापानिवृत्ति केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! भापानिवृत्ति चार प्रकारनी कही छे, ते आ प्रमाणे—१ सत्यभापानिवृत्ति, २ मृपाभापानिवृत्ति, ३ सत्यमृपाभापानिवृत्ति अने ४ असत्यामृपाभापानिवृत्ति. ए प्रमाणे एकेन्द्रिय सिवाय यावत्—वैमानिको सुधी जेने जे भापा होय तेने तेटली भापानिवृत्ति कहेवी.

११. [प्र०] हे भगवन् ! मनोनिवृत्ति केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! मनोनिवृत्ति चार प्रकारनी कही छे. ते आ प्रमाणे—सत्यमनोनिवृत्ति यावत्—असत्यामृपामनोनिवृत्ति. ए प्रमाणे एकेन्द्रिय अने विकलेन्द्रिय सिवाय बाकी वधा माटे यावत्—वैमानिको सुधी जाणवुं.

१२. [प्र०] हे भगवन् ! कपायनिवृत्ति केटला प्रकारनी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! कपायनिवृत्ति चार प्रकारनी कही छे, ते आ प्रमाणे—क्रोधकपायनिवृत्ति, यावत्—लोभकपायनिवृत्ति. ए प्रमाणे—यावत्—वैमानिको सुधी जाणवुं.

૧૩. [પ્ર૦] કહવિદ્યા ણં મંતે ! વદ્ધનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા ? [૩૦] ગોયમા ! પંચવિદ્યા વદ્ધનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા, તં જદ્ધા-કાલવદ્ધ-નિદ્વત્તી, જાવ-સુક્લિદ્ધવદ્ધનિદ્વત્તી, પદ્ધં નિરવસેસં જાવ-વેમાણિયાણં । પદ્ધં ગંધનિદ્વત્તી, દુવિદ્યા જાવ-વેમાણિયાણં । રસનિદ્વત્તી પંચવિદ્યા જાવ-વેમાણિયાણં । ફાસનિદ્વત્તી અદ્ધવિદ્યા જાવ-વેમાણિયાણં ।

૧૪. [પ્ર૦] કતિવિદ્યા ણં મંતે ! સંટાણનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા ? [૩૦] ગોયમા ! હદ્ધિદ્યા સંટાણનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા, તંજદ્ધા-સમ-ચડરંસસંટાણનિદ્વત્તી, જાવ-હુંડસંટાણનિદ્વત્તી ।

૧૫. [પ્ર૦] નેરદ્ધયાણં પુચ્છા । [૩૦] ગોયમા ! ણ્ગા હુંડસંટાણનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા ।

૧૬. [પ્ર૦] અસુરકુમારાણં પુચ્છા । [૩૦] ગોયમા ! ણ્ગા સમચડરંસસંટાણનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા, પદ્ધં જાવ-થણિય-કુમારાણં ।

૧૭. [પ્ર૦] પુદ્ધિકાદ્ધયાણં પુચ્છા । [૩૦] ગોયમા ! ણ્ગા મસૂરચંદ્રસંટાણનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા, પદ્ધં જસ્સ જં સંટાણં જાવ-વેમાણિયાણં ।

૧૮. [પ્ર૦] કહવિદ્યા ણં મંતે ! સદ્ધાનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા ? [૩૦] ગોયમા ! ચડવિદ્યા સદ્ધા નિદ્વત્તી પદ્ધત્તા, તં જદ્ધા-આદ્ધા-રસદ્ધાનિદ્વત્તી, જાવ-પરિગ્ગહસદ્ધાનિદ્વત્તી, પદ્ધં જાવ-વેમાણિયાણં ।

૧૯. [પ્ર૦] કહવિદ્યા ણં મંતે ! લેસ્સાનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા ? [૩૦] ગોયમા ! હદ્ધિદ્યા લેસ્સાનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા, તં જદ્ધા-કણ્દલેસ્સાનિદ્વત્તી, જાવ-સુક્લેસ્સાનિદ્વત્તી, પદ્ધં જાવ-વેમાણિયાણં જસ્સ જદ્ધ લેસ્સાઓ ।

૨૦. [પ્ર૦] કહવિદ્યા ણં મંતે ! દિટ્ઠીનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા ? [૩૦] ગોયમા ! તિવિદ્યા દિટ્ઠીનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા, તંજદ્ધા-સમ્મા-દિટ્ઠીનિદ્વત્તી, મિચ્છાદિટ્ઠીનિદ્વત્તી, સમ્મામિચ્છદિટ્ઠીનિદ્વત્તી । પદ્ધં જાવ-વેમાણિયાણં જસ્સ જદ્ધવિદ્યા દિટ્ઠી ।

૨૧. [પ્ર૦] કતિવિદ્યા ણં મંતે ! ણાણનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા ? [૩૦] ગોયમા ! પંચવિદ્યા ણાણનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા, તં જદ્ધા-આમિ-ણિવોહિયણાણનિદ્વત્તી, જાવ-કેવલનાણનિદ્વત્તી । પદ્ધં ણમિદ્ધિયવજ્જં જાવ-વેમાણિયાણં જસ્સ જદ્ધ ણાણા ।

૨૨. [પ્ર૦] કતિવિદ્યા ણં મંતે ! અદ્ધાણનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા ? [૩૦] ગોયમા ! તિવિદ્યા અદ્ધાણનિદ્વત્તી પદ્ધત્તા, તં જદ્ધા-મદ્ધ-અદ્ધાણનિદ્વત્તી, સુયઅદ્ધાણનિદ્વત્તી, વિમંગનાણનિદ્વત્તી । પદ્ધં જસ્સ જદ્ધ અદ્ધાણા જાવ-વેમાણિયાણં ।

વર્ણનિર્વૃત્તિ.

૧૩. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! વર્ણનિર્વૃત્તિ કેટલા પ્રકારની કહી છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! વર્ણનિર્વૃત્તિ પાંચ પ્રકારની કહી છે, તે આ પ્રમાણે-કાલ્યાણવર્ણની નિર્વૃત્તિ, યાવત્-શ્વેતવર્ણની નિર્વૃત્તિ. એ પ્રમાણે સવલું યાવત્-થૈમાનિકો સુધી જાણવું. એમ જે પ્રકારની ગંધનિર્વૃત્તિ, પાંચ પ્રકારની રસનિર્વૃત્તિ અને આઠ પ્રકારની સ્પર્શનિર્વૃત્તિ યાવત્-થૈમાનિક સુધી કહેવી.

સંસ્થાનનિર્વૃત્તિ.

૧૪. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! સંસ્થાનનિર્વૃત્તિ કેટલા પ્રકારે કહી છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! સંસ્થાનનિર્વૃત્તિ છ પ્રકારની કહી છે, તે આ પ્રમાણે-સમચતુરસ્રસંસ્થાનનિર્વૃત્તિ, યાવત્-હુંડસંસ્થાનનિર્વૃત્તિ.

૧૫. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! નૈરવિક્રોને કેટલી સંસ્થાનનિર્વૃત્તિ છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓને એક હુંડસંસ્થાનનિર્વૃત્તિ કહી છે.

૧૬. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! અસુરકુમારો સંવચે પ્રશ્ન. [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓને એક સમચતુરસ્રસંસ્થાનનિર્વૃત્તિ છે. એ પ્રમાણે યાવત્-સ્તનિનકુમારો સુધી જાણવું.

૧૭. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! પૃથિવીકાથિકોને આશ્રયી પ્રશ્ન. [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓને એક મસૂર અને ચંદ્રાકારસંસ્થાનનિર્વૃત્તિ છે. એમ જેને જે સંસ્થાન હોય તેને તે યાવત્-થૈમાનિકો સુધી જાણવું.

સજ્ઞાનિર્વૃત્તિ.

૧૮. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! સજ્ઞાનિર્વૃત્તિ કેટલા પ્રકારે કહી છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! સજ્ઞાનિર્વૃત્તિ ચાર પ્રકારે કહી છે, તે આ પ્રમાણે-૧ આહારસંજ્ઞાનિર્વૃત્તિ, યાવત્-૪ પરિગ્રહસજ્ઞાનિર્વૃત્તિ. એ રીતે યાવત્-થૈમાનિકો સુધી જાણવું.

લેક્ષ્યાનિર્વૃત્તિ.

૧૯. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! લેક્ષ્યાનિર્વૃત્તિ કેટલા પ્રકારે કહી છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! લેક્ષ્યાનિર્વૃત્તિ છ પ્રકારે કહી છે, તે આ પ્રમાણે-૧ કૃષ્ણલેક્ષ્યાનિર્વૃત્તિ, યાવત્-૬ શુક્લલેક્ષ્યાનિર્વૃત્તિ. એ પ્રમાણે યાવત્-થૈમાનિકો સુધી જેને જે લેક્ષ્યા હોય તે તેને લેક્ષ્યાનિર્વૃત્તિ કહેવી.

દૃષ્ટિનિર્વૃત્તિ

૨૦. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! દૃષ્ટિનિર્વૃત્તિ કેટલા પ્રકારે કહી છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! દૃષ્ટિનિર્વૃત્તિ ત્રણ પ્રકારની કહી છે, તે આ પ્રમાણે-૧ સમ્યગ્દૃષ્ટિનિર્વૃત્તિ, ૨ મિથ્યાદૃષ્ટિનિર્વૃત્તિ અને ૩ સમ્યગ્મિથ્યાદૃષ્ટિનિર્વૃત્તિ. એ પ્રમાણે યાવત્-થૈમાનિકો સુધી જેને જે દૃષ્ટિ હોય તેને તે દૃષ્ટિનિર્વૃત્તિ કહેવી.

જ્ઞાનનિર્વૃત્તિ.

૨૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! જ્ઞાનનિર્વૃત્તિ કેટલા પ્રકારે કહી છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! જ્ઞાનનિર્વૃત્તિ પાંચ પ્રકારની કહી છે, તે આ પ્રમાણે-૧ આભિનિવેધિકજ્ઞાનનિર્વૃત્તિ, યાવત્-૫ કેવલજ્ઞાનનિર્વૃત્તિ. એ પ્રમાણે એકેન્દ્રિય સિવાય યાવત્-થૈમાનિકો સુધી જેને જેટલા જ્ઞાન હોય તેને તેટલી નિર્વૃત્તિ કહેવી.

અજ્ઞાનનિર્વૃત્તિ

૨૨. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! અજ્ઞાનનિર્વૃત્તિ કેટલા પ્રકારની કહી છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! અજ્ઞાનનિર્વૃત્તિ ત્રણ પ્રકારે કહી છે, તે આ પ્રમાણે-૧ મતિઅજ્ઞાનનિર્વૃત્તિ, ૨ શ્રુતઅજ્ઞાનનિર્વૃત્તિ અને ૩ વિમંગજ્ઞાનનિર્વૃત્તિ. એ પ્રમાણે યાવત્-થૈમાનિકો સુધી જેને જેટલા અજ્ઞાનો હોય તેને તેટલી અજ્ઞાનનિર્વૃત્તિ કહેવી.

२३. [प्र०] कइविहा णं भंते ! जोगनिधत्ती पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! तिचिहा जोगनिधत्ती पन्नत्ता, तं जहा—मणजोगनिधत्ती, चयजोगनिधत्ती, कायजोगनिधत्ती । एवं जाव—वेमाणियाणं जस्स जइविहो जोगो ।

२४. [प्र०] कइविहा णं भंते ! उवओगनिधत्ती पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! डुचिहा उवओगनिधत्ती पन्नत्ता, तं जहा—सागारोवओगनिधत्ती, अणागारोवओगनिधत्ती । एवं जाव—वेमाणियाणं । [अत्र सद्ब्रह्मणीगाथे वाचनान्तरे—]

“जीवाणं निधत्ती कम्मप्पगडी सरीरनिधत्ती । सर्द्धिदियनिधत्ती भासा य मणे कस्ताया य ॥

वन्ने गंधे रसे फासे संटाणविही य होइ वोद्धवो । लेसा दिट्ठी णाणे उवओगे चैव जोगे य” ॥

‘सेवं भंते ! ‘सेवं भंते’ ! त्ति ।

एगूणवीसइमे सए अट्टमो उद्देशो समत्तो ।

२३. [प्र०] हे भगवन् ! योगनिर्वृत्ति केटला प्रकारे कही छे ? [उ०] हे गौतम ! योगनिर्वृत्ति त्रण प्रकारे कही छे, ते आ प्रमाणे— १ मनोयोगनिर्वृत्ति, २ वचनयोगनिर्वृत्ति अने ३ काययोगनिर्वृत्ति. ए रीते यावत्—वैमानिको सुधी जेने जेटला योगो होय तेने तेटली योगनिर्वृत्ति कहेवी.

२४. [प्र०] हे भगवन् ! उपयोगनिर्वृत्ति केटला प्रकारे कही छे ? [उ०] हे गौतम ! उपयोगनिर्वृत्ति वे प्रकारनी कही छे, ते आ प्रमाणे—साकारोपयोगनिर्वृत्ति अने निराकारोपयोगनिर्वृत्ति. ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी जाणहुं. अरि वीजी वाचनानां वे नम्रहगायाओ छे.—“१ जीव, २ कर्मप्रकृति, ३ शरीर, ४ सर्वेन्द्रिय, ५ भाषा, ६ मन, ७ कषाय, ८ वर्ण, ९ गंध, १० रस, ११ स्पर्श, १२ संस्थान, १३ लेइया, १४ दृष्टि, १५ ज्ञान, १६ उपयोग अने योग ए वधानी निर्वृत्ति आ उद्देशकमां कही छे.” हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे’.

ओगणीशमा शतकमां अट्टम उद्देशक समाप्त.

नवमो उद्देशो ।

१. [प्र०] कइविहे णं भंते ! करणे पणत्ते ? [उ०] गोयमा ! पंचविहे करणे पणत्ते, तं जहा—१ द्रव्यकरणे, २ चेतनकरणे, ३ कालकरणे ४ भवकरणे, ५ भावकरणे ।

२. [प्र०] नेरइयाणं भंते ! कतिविहे करणे पणत्ते ? [उ०] गोयमा ! पंचविहे करणे पणत्ते, तं जहा—द्रव्यकरणे, जाव—भावकरणे । एवं जाव—वेमाणियाणं ।

३. [प्र०] कतिविहे णं भंते ! सरीरकरणे पणत्ते ? [उ०] गोयमा ! पंचविहे सरीरकरणे पणत्ते, तं जहा—१ ओरादिय-सरीरकरणे, जाव—कम्मगसरीरकरणे । एवं जाव—वेमाणियाणं जस्स जइ सरीराणि ।

४. [प्र०] कइविहे णं भंते ! इंदियकरणे पणत्ते ? [उ०] गोयमा ! पंचविहे इंदियकरणे पणत्ते, तंजहा—सोइदियग-

नवम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! *करण केटला प्रकारे काहुं छे ? [उ०] हे गौतम ! करण पांच प्रकारे काहुं छे, ते आ प्रमाणे—१ द्रव्यकरण, २ क्षेत्रकरण, ३ कालकरण, ४ भवकरण अने ५ भावकरण.

२. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिकोने केटला प्रकारहुं करण काहुं छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने पाचे प्रकारहुं करण काहुं छे, ते आ प्रमाणे—१ द्रव्यकरण, यावत्—भावकरण. ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी जाणहुं.

३. [प्र०] हे भगवन् ! शरीरकरण केटला प्रकारहुं काहुं छे ? [उ०] हे गौतम ! शरीरकरण पाच प्रकारहुं काहुं छे, ते आ प्रमाणे—१ औदारिकशरीरकरण, यावत् ५ कार्मणशरीरकरण. ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी जाणहुं. जेने जेटला शरीरो होय तेने तेटां शरीरकरणो कहेवा.

४. [प्र०] हे भगवन् ! इंदियकरण केटला प्रकारहुं काहुं छे ? [उ०] हे गौतम ! इंदियकरण पाच प्रकारहुं काहुं छे, ते आ

१ * ते वटे कराय ते करण—किरातु माधन, अवना करहुं ते करण, धा वीजी व्युत्पत्ति प्रमाणे करण अने विपत्ति एत ज पर उदी एत न उणा, काण के करण ए आरंभकिराण्य छे अने निर्वृत्ति कार्यनी मगात्तिण्य छे तेना पाच प्रकार छे—१ द्रव्यकरण, २ क्षेत्रकरण, ३ कालकरण, ४ भवकरण, ५ भावकरण. १ द्रव्यकरण—द्रव्यवदे कटादि द्रव्यनु करु ते द्रव्यकरण, २ क्षेत्ररूप करण, अथवा शक्तिक्षेत्रादिनु करण, अथवा क्षेत्ररूप गतापतानु करु ते क्षेत्रकरण, ३ कालकरण—कालकाळहुं, काळरुटे धयना काळमा करुं ते काळकरण ४ नारकादि भवत्य करण ते भवकरण ए प्रमाणे ५ भावकरण कयने पन उणा—दीहा.

“ अरि ए पुत्तवमां करणउवन्ने वे नम्रहणी गाया आपिणे छे, तेओ वर्ये—१ द्रव्य, २ क्षेत्र, ३ काल, ४ भाव, ५ भव, ६ कार्मण, ७ इन्द्रिय, ८ भाषा, ९ मन, १० कषाय, ११ संयुदात, १२ मरुत, १३ वेग्गा, १४ दृष्टि, १५ वेद, १६ प्रवृत्ति, १७ पुत्त, १८ वर्ये, १९ गंध, २० रस, २१ रस अने २२ संस्थान—ए यावीस करण छे

रणे, जाव-फासिन्द्रियकरणे । एवं जाव वेमाणियाणं जस्स जइ इन्द्रियाइं । एवं पणं कमेणं भासाकरणे चउच्चिहे, मणकरणे चउच्चिहे, कसायकरणे चउच्चिहे, समुग्घायकरणे सत्तच्चिहे, सन्नाकरणे चउच्चिहे, लेसाकरणे छच्चिहे, दिट्ठीकरणे तिविहे, वेद-करणे तिविहे पन्नत्ते, तं जहा-१ इत्थिवेदकरणे, २ पुरिसवेदकरणे, ३ नपुंसगवेदकरणे । एए सधे नेरइयादी दंडगा जाव-वेमाणियाणं जस्स जं अत्थि तं तस्स सधं भाणियधं ।

५. [प्र०] कतिचिहे णं भंते ! पाणाइवायकरणे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! पंचविहे पाणाइवायकरणे पन्नत्ते, तं जहा-पार्गिन्द्रियपाणाइवायकरणे, जाव-पंचिन्द्रियपाणाइवायकरणे । एवं निरवसेसं जाव-वेमाणियाणं ।

६. [प्र०] इद्विहे णं भंते ! पोग्गलकरणे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! पंचविहे पोग्गलकरणे पन्नत्ते, तं जहा-१ घन्नकरणे, २ गंधकरणे, ३ रसकरणे, ४ फासकरणे, ५ संठाणकरणे ।

७. [प्र०] घन्नकरणे णं भंते ! कतिचिहे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते, तं जहा-कालघन्नकरणे, जाव-सुक्कि-ल्लघन्नकरणे, एवं भेदो, गंधकरणे दुविहे, रसकरणे पंचविहे, फासकरणे अट्टविहे ।

८. [प्र०] संठाणकरणे णं भंते ! कतिचिहे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते, तं जहा-परिमंडलसंठाणकरणे, जाव-आयतसंठाणकरणे । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! च्चि जाव-विहरति ।

एगूणवीसइमे सए नवमो उद्देशो समत्तो ।

प्रमाणे-१ श्रोत्रेन्द्रियकरण, यावत्-५ स्पर्शेन्द्रियकरण. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुधी जेने जेट्ठी इन्द्रियो होय तेने तेठ्यां इन्द्रियकरणो कहेवा. एम ए क्रमवडे चार प्रकारे भाषाकरण, चार प्रकारे मनकरण, चार प्रकारे कषायकरण, सात प्रकारे समुद्घातकरण, चार प्रकारे संज्ञाकरण, छ प्रकारे लेस्याकरण, अने त्रण प्रकारे दृष्टिकरण कहेहुं. वेदकरण पण त्रण प्रकारं छे, ते आ प्रमाणे-१ छविदकरण, २ पुरुषवेदकरण, अने ३ नपुंसकवेदकरण. ए सवळुं नैरनिकोषी माडी यावत्-वैमानिको सुधी जेने जे होय तेने ते वधुं कहेहुं.

५. [प्र०] हे भगवन् ! प्राणातिपातकरण केठला प्रकारे कहुं छे ? [उ०] हे गौतम ! प्राणातिपातकरण पांच प्रकारे कहुं छे, ते आ प्रमाणे-१ एकेन्द्रियप्राणातिपातकरण, यावत्-पंचेन्द्रियप्राणातिपातकरण. ए प्रमाणे सवळुं यावत्-वैमानिको सुधी जाणहुं.

६. [प्र०] हे भगवन् ! पुद्गलकरण केठला प्रकारे कहुं छे ? [उ०] हे गौतम ! पुद्गलकरण पाच प्रकारे कहुं छे, ते आ प्रमाणे-१ वर्णकरण, २ गंधकरण, ३ रसकरण, ४ स्पर्शकरण अने ५ संस्थानकरण.

७. [प्र०] हे भगवन् ! वर्णकरण केठला प्रकारं कहुं छे ? [उ०] हे गौतम ! वर्णकरण पाच प्रकारं कहुं छे, ते आ प्रमाणे-१ कृष्णवर्णकरण, यावत्-५ श्वेतवर्णकरण. ए प्रमाणे पुद्गलकरणना वर्णादि भेदो कहेवा. एम वे प्रकारे गंधकरण, पाच प्रकारे रसकरण अने आठ प्रकारे स्पर्शकरण छे.

८. [प्र०] हे भगवन् ! संस्थानकरण केठला प्रकारे कहुं छे ? [उ०] हे गौतम ! संस्थानकरण पाच प्रकारे कहुं छे, ते आ प्रमाणे-१ परिमंडलसंस्थानकरण, यावत्-२ आयतसंस्थानकरण. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे-एम कही यावद्-विहरे छे.

ओगणीशमा शतकमां नवम उद्देशक समाप्त.

दसमो उद्देशो.

१. [प्र०] वाणमंतरा णं भंते ! सधे समाहारां-एवं जहा सोलसमसए दीवकुमारुहेसथो जाव-'अप्पिहिय'त्ति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! च्चि ।

एगूणवीसइमे सए दसमो उद्देशो समत्तो ।

एगूणवीसतिमं सयं समत्तं ।

दशम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! वधा वानव्यन्तरो समानआहारवाळा होय छे-इत्यादि प्र. [उ०] हे गौतम ! *सोळ्मा शतकना द्वीपकु-मारेदेशकमा कख्या प्रमाणे यावत्-'अल्पार्थिक सुधी जाणहुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

ओगणीशमा शतकमां दशम उद्देशक समाप्त.

ओगणीशमुं शतक समाप्त.

* १ अल्पार्थिक संवन्धे आ प्रमाणे उल्लेख छे-हे भगवन् ! कृष्णलेस्यावाळा यावत्-तेजोलेस्यावाळा वानव्यन्तरोमा कोण कोनाथी अल्पार्थिक छे के महर्द्धिक छे ? हे गौतम ! कृष्णलेस्यावाळा करता नीललेस्यावाळा वानव्यन्तर महर्द्धिक छे, यावत्-सर्वथी महर्द्धिक तेजोलेस्यावाळा वानव्यन्तर छे. सुथो-भग० सं० ४ श० १६ उ० ११ पृ० २७ सू० ३

वीसइमं सयं ।

१ वेईदिय २ मागासे ३ पाणवहे ४ उवचए य ५ परमाणू ।
६ अंतर ७ वंधे ८ भूमी ९ चारण १० सोवक्कमा जीवा ॥

पढमो उद्देशो.

१. [प्र०] रायगिहे जाव-एवं वयासी-सिय भंते ! जाव-चत्तारि पंच वेदिया एगयओ साहारणसरीरं वंधंति, ए गयओ ० २ वंधित्ता तओ पच्छा आहारेंति वा परिणामेंति वा सरीरं वा वंधंति ? [उ०] णो तिणट्टे समट्टे । वेदिया णं पत्ते-याहारा पत्तेयपरिणामा पत्तेयसरीरं वंधंति, प० २ वंधित्ता तओ पच्छा आहारेंति वा परिणामेंति वा सरीरं वा वंधंति ।

२. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं कति लेस्साओ पन्नत्ताओ ? [उ०] गोयमा ! तओ लेस्साओ पन्नत्ताओ, तंजहा-कण्ह-लेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा । एवं जहा एगूणवीसतिमे सप तेउक्काइयाणं जाव-‘उच्चट्टंति’ । नवरं सम्मदिट्ठी वि मिच्छदिट्ठी वि, नो सम्मामिच्छदिट्ठी, दो नाणा दो अन्नाणा नियमं, नो मणजोगी, वयजोगी वि कायजोगी वि, आहारो नियमं छद्दिसिं ।

वीशमुं शतक.

[उद्देशक संग्रह-] वेइन्द्रियादिनी वक्तव्यता संबंधे प्रथम उद्देशक, आकाशादि अर्थ विषे वीजो उद्देशक, प्राणातिपातादि अर्थ परत्वे त्रीजो उद्देशक, इन्द्रियोपचय संबंधे चोयो उद्देशक, परमाणुथी आरभी अनन्तप्रदेशिकस्वर्कंध विषे पांचमो उद्देशक, रत्नप्रभादि नरक पृथिवीना अन्तराल संबंधे छट्टो उद्देशक, जीवप्रयोगादि बन्ध विषे सातमो उद्देशक, कर्मभूमि अने अकर्मभूमि संबंधे आठमो उद्देशक, विद्याचारणादि विषे नवमो उद्देशक अने सोपक्रम तथा निरुपक्रम आयुपवाळा जीव संबंधे दशमो उद्देशक-एम आ वीशमा शतकमां दश उद्देशको कहेवामा आवशे.

प्रथम उद्देशक.

१. [प्र०] राजगृहनगरमां यावत्-भगवान् गौतम आ प्रमाणे वोल्या के, हे भगवन् ! कदाचित्-वे यावत्-चार के पांच वेइन्द्रिय जीवो एकठा थईने एक साधारण शरीर बाधे, ल्यार पछी आहार करे, तेने परिणामावे अने पछी विशिष्ट शरीर बाधे ? [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नथी. कारण के वेइन्द्रिय जीवो जुदा जुदा आहार करनारा अने तेनो भिन्न भिन्न परिणाम करनारा होय छे, तेथी तेओ प्रत्येक-जुदा जुदा शरीरने बाधे छे, अने प्रत्येक शरीर बाधी आहार करे छे, तेनो परिणाम करे छे अने पछी विशिष्ट शरीर बाधे छे.

वेइन्द्रियादि जीवोना शरीरबन्धनो क्रम-वेइन्द्रिय साधारण शरीर बाधेके प्रत्येक शरीर बाधे ?

२. [प्र०] हे भगवन् ! वेइन्द्रिय जीवोने केटली लेइयाओ कही छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने त्रण लेइयाओ कही छे, ते आ प्रमाणे-१ कृष्णलेइया, २ नीललेइया अने ३ कापोतलेइया. ए प्रमाणे जेम *ओगणीशमा शतकमां तेजस्काधिक जीवो विषे कहंछुं छे, तेम अहि पण यावत्-‘उद्वर्ते छे’ ल्या सुधी कहेवुं. विशेष ए के, वेइन्द्रिय जीवो सम्यग्दृष्टि पण होय छे अने मिथ्यादृष्टि पण होय छे, पण सम्यग्मिथ्या (मिश्रदृष्टि) दृष्टि होता नथी. तेओने अवश्य वे ज्ञान के वे अज्ञान होय छे, तेओने मनोयोग नथी, पण वचनयोग अने काय-योग होय छे. तेओने अवश्य छ दिशानो आहार होय छे.

लेइया.

३. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवीणं एवं सत्ता ति वा पत्ता ति वा मणे ति वा वई ति वा—‘अम्हे णं इट्ठाणिट्ठे रसे इट्ठाणिट्ठे फासे पडिसंवेदेमो’ ? [उ०] णो तिणट्ठे समट्ठे, पडिसंवेदंति पुण ते । टिठी जह्मणेणं अंतोमुट्ठुत्तं, उद्धोसेणं वारस संबच्छराइं, सेसं तं चेव, एवं तेइंदिया(ण)वि, एवं चउरिंदिया(ण)वि, नाणत्तं इंदिएसु टिठीए य, सेसं तं चेव, टिठी जहा पन्नवणाए ।

४. [प्र०] सिय भंते ! जाव-चत्तारि पंच पंचिंदिया एगयथो साहारणं० [उ०] एवं जहा वेदियाणं, नवरं छहेसाओ, विट्ठी तिविहा वि, चत्तारि नाणा तिचि अघाणा भयणाए, निचिहो जोगो ।

५. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं एवं सत्ता ति वा पत्ता ति वा जाव-वती ति वा—‘अम्हे णं आहारमाहारेमो’ ? [उ०] गोयमा ! अत्येगदियाणं एवं सत्ता इ वा पत्ता इ वा मणे इ वा वती ति वा—‘अम्हे णं आहारमाहारेमो’ । अत्येगदियाणं नो एवं सत्ता ति वा जाव-वती ति वा—‘अम्हे णं आहारमाहारेमो’, आहारंति पुण ते ।

६. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं एवं सत्ता ति वा जाव-वत् ति वा—‘अम्हे णं इट्ठाणिट्ठे सहे इट्ठाणिट्ठे रसे, इट्ठाणिट्ठे रसे, इट्ठाणिट्ठे फासे पडिसंवेदेमो’ ? [उ०] गोयमा ! अत्येगतियाणं एवं सत्ता ति वा जाव-वयी ति वा—‘अम्हे णं इट्ठाणिट्ठे सहे, जाव-इट्ठाणिट्ठे फासे पडिसंवेदेमो’; अत्येगतियाणं नो एवं सत्ता इ वा जाव-वयी इ वा—‘अम्हे णं इट्ठाणिट्ठे सहे, जाव-इट्ठाणिट्ठे फासे पडिसंवेदेमो’; पडिसंवेदंति पुण ते ।

७. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं पाणाइवाए उवम्पाइज्जंति० ? [उ०] गोयमा ! अत्येगतिया पाणातिवाए वि उवम्पाइज्जंति, जाव-मिच्छादंसणसहे वि उवम्पाइज्जंति; अत्येगतिया नो पाणाइवाए उवम्पातिज्जंति, नो मुसा० जाव-नो मिच्छादंसणसहे उवम्पातिज्जंति । जेसि पि णं जीवाणं ते जीवा एवमाहिज्जंति तेसि पि णं जीवाणं अत्येगतियाणं विनाए

संज्ञा अने प्रज्ञा
दिनो ष्माव.

३. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवोने ‘अमे इष्ट अने अनिष्ट रसने तथा इष्ट अने अनिष्ट स्पर्शने अनुभवोए छीए’ एवी सज्ञा, प्रज्ञा, मन के वचन होय छे ? [उ०] ए अर्थ समर्थ नथी, परन्तु तेओ ते रसदिकनो अनुभव करे छे. तेओनी जवन्य स्थिति—आयुप अन्तर्मुहूर्त अने उल्लेख स्थिति वार वरसनी छे. वाक्की वधुं पूर्व प्रमाणे जाणहुं. ए प्रमाणे तेन्द्रिय अने चउरिन्द्रिय जीवो संबन्धे पण कहेहुं. मात्र स्थितिमा अने इन्द्रियोमा विशेष छे, वाक्की वधुं पूर्व प्रमाणे जाणहुं. स्थिति *प्रज्ञापनासूत्रमा कक्षा प्रमाणे जाणवी.

४. [प्र०] हे भगवन् ! कदाचित् यावत्-चार पाच पंचेन्द्रियो मेगा मळीने एक साधारण शरीर वाधे ? [उ०] वधुं वेइन्द्रियोनी पेठे कहेहुं. विशेष ए के तेओने छ ए लेइयाओ होय छे, सन्यग्, मिथ्यात्व अने मिश्र ए त्रणे दृष्टि होय छे, चार ज्ञान अने त्रण अज्ञान मजनाए-विकल्पे होय छे अने योग त्रणे होय छे.

५. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवोने ‘अमे आहार करीए छीए’—एवी संज्ञा, प्रज्ञा, मन के वचन होय छे ? [उ०] हे गौतम ! केट्ठक जीवोने (सज्ञी जीवोने) ‘अमे आहार ग्रहण करीए छीए’ एवी संज्ञा, प्रज्ञा, मन के वचन होय छे, अने केट्ठक जीवोने (असज्ञी जीवोने) ‘अमे आहार ग्रहण करीए छीए’—एवी संज्ञा, यावत्-वचन होतुं नथी, पण तेओ आहार तो करे छे.

६. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवोने ‘अमे इष्ट के अनिष्ट रूप, गंव, रस अने स्पर्शने अनुभवोए छीए’—एवी संज्ञा, यावत्-वचन होय छे ? [उ०] हे गौतम ! ‘अमे इष्ट के अनिष्ट शब्द यावत्-स्पर्शने अनुभवोए छीए’—एवी संज्ञा, यावत्-वचन केट्ठक जीवोने (सज्ञी जीवोने) होय छे अने ‘अमे इष्ट के अनिष्ट शब्दने यावत्-स्पर्शने अनुभवोए छीए’ एवी संज्ञा, यावत्-वचन केट्ठक जीवोने (असज्ञी जीवोने) नथी होतुं. पण तेओ ते शब्द वगैरेनो अनुभव तो करे छे.

७. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो ‘प्राणातिपातमा रहेला छे’—इत्थादि कहेवाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जीवोमाना केट्ठक ‘प्राणा-तिपातमा यावत्-मिथ्यादर्शनशल्पमा पण रहेला छे’—एम कहेवाय छे अने केट्ठक जीवो ‘प्राणातिपातमा, मृपावादमा यावत्-मिथ्या-दर्शनशल्पमा रहेला छे’—एम कहेवातुं नथी. जे जीवोना प्राणातिपात-हिंसा वगैरे तेओ करे छे, ते जीवोमाना पण केट्ठक जीवोने ‘अमे हणाए छीए अने आ अमारा घातक छे’ एवुं भेदज्ञान होय छे अने केट्ठक जीवोने एवुं भेदज्ञान होतुं नथी. तेमा उपपात सर्वजीवोधी यावत्-सर्वार्थसिद्धयी पण होय छे. स्थिति (आयुप) जवन्यथी अन्तर्मुहूर्त अने उल्लेखथी तेनीज सागरोपम होय छे.

३ * तेन्द्रिय जीवनी उल्लेख स्थिति ओगणपचास दिवसनी अने चउरिन्द्रियनी छ मास होय छे, अने जवन्य स्थिति वधेनी अन्तर्मुहूर्त जाणवी. उओ—प्रज्ञा० पद ६. प० ३११.

४ † पंचेन्द्रिय जीवने मलादि चार ज्ञान होय छे अने केवलज्ञान अचिन्द्रियने ज होय छे—टीका

नाणसे, अत्येगतियाणं नो विण्णाए, नाणसे, उवचाओ सधओ जाव—सधट्टसिद्धाओ, छिती जहणेणं अंतोमुहुत्तं, उणोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं, छस्समुग्घाया केवलिवज्जा, उधट्टणा सधत्थ गच्छंति जाव—सधट्टसिद्धं ति, सेसं जहा वैदियाणं ।

८. [प्र०] एएसि णं भंते! वेइंदियाणं जाव—पंचिदियाण य कयरे कयरेदित्तो जाव—विसेसाहिया वा? [उ०] गोयमा! सधत्थोवा पंचिदिया, चउरिदिया विसेसाहिया, तेइंदिया विसेसाहिया, वेइंदिया विसेसाहिया । 'सेवं भंते! सेवं भंते! च्चि जाव—विहरति ।

वीसइमे सए पढमो उद्देशो समत्तो ।

तेओने (पंचेन्द्रियोने) केवलिसमुद्घात सिवाय वाकीना छ समुद्घातो जाणवा. उद्धर्तना—मरीने तेओ यावत्—सर्वार्थसिद्ध सुधी वधे जाय छे, वाकी वधुं वेइन्द्रियोनी पेटे जाणवुं.

८. [प्र०] हे भगवन्! पूर्वोक्त वेइन्द्रिय यावत्—पंचेन्द्रिय जीवोमां कया जीवो कोनाथी यावत्—विशेषाधिक छे? [उ०] हे गौतम! सौथी थोडा पंचेन्द्रिय जीवो छे, तेथी चउरिन्द्रिय जीवो विशेषाधिक छे, तेथी तेइन्द्रिय जीवो विशेषाधिक छे अने तेथी वेइन्द्रिय जीवो विशेषाधिक छे. 'हे भगवन्! ते एम ज छे, हे भगवन्! ते एम ज छे'—एम कही (भगवान् गौतम) यावत्—विहरे छे.

वेइन्द्रियादि
अत्र बहुलं.

वीसमा शतकमां प्रथम उद्देशक समाप्त.

वीओ उद्देशो ।

१. [प्र०] कइविहे णं भंते! आगासे पन्नत्ते? [उ०] गोयमा! कुविहे आगासे पन्नत्ते, तंजहा—लोयागासे य अलोयागासे य ।

२. [प्र०] लोयागासे णं भंते! किं जीवा, जीवदेसा?—एवं जहा वित्तियसए अत्थिउद्देशे तह चैव इह वि भाणियघं, नवरं अभिलावो जाव—'धम्मत्थिकाए णं भंते! केमहालय पन्नत्ते? गोयमा! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोयं चैव ओगाहत्ता णं चिद्धत्ति; एवं जाव—पोगालत्थिकाए ।

३. [प्र०] अहेलोए णं भंते! धम्मत्थिकायस्स केवत्तियं ओगाढे? [उ०] गोयमा! सात्तिरेगं अहं ओगाढे, एवं एएणं अभिलावेणं जहा वित्तियसए जाव—'ईसिपम्मारा णं भंते! पुढवी लोयागासस्स किं संखेज्जभागं ओगाढा—पुच्छा । गोयमा! नो संखेज्जभागं ओगाढा, असंखेज्जभागं ओगाढा, नो संखेज्जे भागे ओगाढा, नो असंखेज्जे भागे, नो सधलोयं ओगाढा' । सेसं तं चैव ।

द्वितीय उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन्! आकाश केटला प्रकारजुं कहुं छे? [उ०] हे गौतम! आकाश वे प्रकारजुं कहुं छे, ते आ प्रमाणे—लोकाकाश अने अलोकाकाश.

आकाश कोरे प्रप्य

२. [प्र०] हे भगवन्! लोकाकाश ए शुं जीवरूप छे, जीवदेशरूप छे—इत्यादि *वीजा शतकना अस्ति उद्देशकमा कदा प्रमाणे अहिं कहेवुं. विशेष ए के, आ अभिलास (पाठ) अहिं कहेवो—'हे भगवन्! धर्मास्तिकाय केवडो मोटो छे? हे गौतम! धर्मास्तिकाय लोकरूप, लोकमात्र, लोकप्रमाण अने लोक वडे स्पर्शालो छे अने लोकने अवगाहीने रहो छे.' ए प्रमाणे यावत्—पुद्गलत्थिकाय सुधी जाणवुं.

३. [प्र०] हे भगवन्! अधोलोक धर्मास्तिकायना केटला भागने अवगाहीने रहो छे? [उ०] हे गौतम! कंडक अधिक अर्थ भागने अवगाहीने रहो छे. ए प्रमाणे ए अभिलापथी जेम 'वीजा शतकमां कहुं छे तेम अहिं कहेवुं. यावत्—[प्र०] 'हे भगवन्! न्य-धम्मारा पृथिवीए लोकाकाशानो शुं संख्यातमो भाग (के असंख्यातमो भाग) कोरे अवगाहो छे? [उ०] हे गौतम! लोकाकाशानो संख्यातमो भाग अवगाहो नथी, पण असंख्यातमो भाग अवगाहो छे, संख्यातमा भागो अवगाहा नथी, असंख्यातमा भागो अवगाहा नथी, तेम सर्व-लोकने पण अवगाहो नथी.' वाकी वधुं पूर्व प्रमाणे जाणवुं.

२ * भग० रा० १ दा० २ उ० १० पु० ३१०—३१२.

३ † भग० रा० १ दा० २ उ० १० पु० ३१३.

४. [प्र०] धम्मत्थिकायस्स णं भंते! केवद्वया अभिवयणा पन्नत्ता? [उ०] गोयमा! अणेगा अभिवयणा पन्नत्ता, तंजहा—धम्मो इ वा धम्मत्थिकाये ति वा पाणाइवायवेरमणे इ वा मुखावायवेरमणे ति वा—एवं जाव—परिग्गहवेरमणे ति वा, कोहविवेगे ति वा जाव—मिच्छादंसणसहविवेगे ति वा, ईरियासमिती ति वा भासासमिती ति वा, पणसासमिती ति वा आयाणमंडमत्तनिक्केचणसमिती ति वा, उच्चारपासवणखेलजह्वांसवाणपारिद्वावणियासमिती ति वा, मणगुत्ती ति वा, वडगुत्ती ति वा, कायगुत्ती ति वा, जे यावन्ने तहप्पगारा सध्दे ते धम्मत्थिकायस्स अभिवयणा ।

५. [प्र०] अधम्मत्थिकायस्स णं भंते! केवतिया अभिवयणा पन्नत्ता? [उ०] गोयमा! अणेगा अभिवयणा पन्नत्ता, तंजहा—अधम्मो ति वा, अधम्मत्थिकाय ति वा, पाणाइवाय ति वा, जाव—मिच्छादंसणसह्वेति वा, ईरियाअसमिती ति वा, जाव—उच्चारपासवण—जाव—पारिद्वावणियाअसमिती ति वा, मणअगुत्ती ति वा वडअगुत्ती ति वा, कायअगुत्ती ति वा, जे यावन्ने तहप्पगारा सध्दे ते अधम्मत्थिकायस्स अभिवयणा ।

६. [प्र०] आगासत्थिकायस्स णं—पुच्छा । [उ०] गोयमा! अणेगा अभिवयणा पन्नत्ता, तंजहा—आगासे ति वा, आगासत्थिकाये ति वा, गगणे ति वा, नमे ति वा, समे ति वा, विसमे ति वा, ग्गहे ति वा, विहे ति वा, वीयी ति वा, विवरे ति वा, अंबरे ति वा, अंबरसे ति वा, छिद्दे ति वा, झुप्पिरे ति वा, मग्गे ति वा, विमुद्दे ति वा, अहे ति वा, (अट्टे ति वा) विवहे ति वा, आधारे ति वा, बोमे ति वा, भायणे ति वा, अंतरिक्के ति वा, सामे ति वा, उवांसंतरे इ वा, अगमि इ वा, फल्लिहे इ वा, अणंते ति वा, जे यावन्ने तहप्पगारा सध्दे ते आगासत्थिकायस्स अभिवयणा ।

७. [प्र०] जीवत्थिकायस्स णं भंते! केवतिया अभिवयणा पन्नत्ता? [उ०] गोयमा! अणेगा अभिवयणा पन्नत्ता, तंजहा—जीवे ति वा, जीवत्थिकाये ति वा, पाणे ति वा, भूय ति वा, सत्ते ति वा, विद्दू ति वा, चेया ति वा, जेया ति वा, आया ति वा, रंगणा ति वा, हिंडुय ति वा, पोग्गले ति वा, माणवे ति वा, कत्ता ति वा, विक्कत्ता ति वा, जण ति वा, जंतु ति वा—जोणी ति वा, सयंभू ति वा, सखरीरी ति वा, नायय ति वा, अंतरप्पा ति वा, जे यावन्ने तहप्पगारा सध्दे ते जाव— अभिवयणा ।

धर्मास्तिकायना
अभिवचनो.

४. [प्र०] हे भगवन्! *धर्मास्तिकायना अभिवचनो—अभिधायक शब्दो केटला कहां छे? [उ०] हे गौतम! तेना अनेक अभिवचनो कहां छे, ते आ प्रमाणे—धर्म, धर्मास्तिकाय, प्राणातिपातविरमण, मृदावादविरमण, ए प्रमाणे यावत्—परिग्रहविरमण, क्रोधविवेक—क्रोधनो त्याग, यावत्—मिथ्यादर्शनशाल्यनो त्याग, ईर्यासमिति, भापासमिति, एपणासमिति, †आदानभाडमात्रनिक्षेपणासमिति, उच्चारप्रसवणखेल-जह्वासिवाणकपारिष्ठापनिकासमिति, मनगुत्ति, वचनगुत्ति अने कायगुत्ति—ए वधा अने तेना जेवा वीजा शब्दो ते सर्वे धर्मास्तिकायना अभिवचनो छे.

अधर्मास्तिकायना
अभिवचनो.

५. [प्र०] हे भगवन्! अधर्मास्तिकायना केटला अभिवचनो कहां छे? [उ०] हे गौतम! तेना अनेक अभिवचनो कहां छे, ते आ प्रमाणे—अधर्म, अधर्मास्तिकाय, प्राणातिपात, यावत्—मिथ्यादर्शनशाल्य, ईर्यासमिती असमिति, यावत्—उच्चारप्रसवण—यावत्—पारिष्ठापनिका संवन्धे असमिति, मननी अगुत्ति, वचननी अगुत्ति, कायनी अगुत्ति—ए वधा अने तेना जेवा वीजा अनेक वचनो छे ते सर्वे अधर्मास्तिकायना अभिवचनो छे.

आकाशास्तिकायना
अभिवचनो.

६. [प्र०] हे भगवन्! आकाशास्तिकाय संवन्धे प्रश्न. [उ०] हे गौतम! तेना अनेक अभिवचनो कहां छे, ते आ प्रमाणे—आकाश, आकाशास्तिकाय, गगन, नम, सम, विपम, खह, विहाय, वीचि, विवर, अंब, अंबरस (अंब—जट्टरूप रस जेनायी प्राप्त याय छे ते) छिद्द, झुप्पिर, मार्ग, विमुख (मुख—आदिरहित), अर्द [अट्ट] (जेद्वारा गमन कराय ते), व्यर्द, आधार, व्योम, भाजन, अंतरिक्ष, श्याम, अवकाशातर, अगम, (गमन क्रियारहित) स्फटिक—खच्छ अने अमंत—ए वधा अने तेना जेवा वीजा अनेक शब्दो ते वधा आकाशास्तिकायना अभिवचनो छे.

जीवास्तिकायना
अभिवचनो.

७. [प्र०] हे भगवन्! जीवास्तिकायना केटला अभिवचनो कहां छे? [उ०] हे गौतम! जीवास्तिकायना अनेक अभिवचनो कहां छे, ते आ प्रमाणे—जीव, जीवास्तिकाय, प्राण, भूत, सच, विज, चेता (पुद्गलोको चय करनार), जेता—कर्मरूपी शत्रुने जीतनार, आत्मा, रंगण (रागयुक्त), हिंडुक—गमन करनार, पुद्गल, मानव (नवीन नहि पण प्राचीन) कर्ता, विकर्ता (विविधरूपे कर्मनो कर्ता) जगत्—(गमनशील), जंतु, योनि (उत्पादक), खयंभूति, शरीरी, नायक—कर्मनो नेता अने अन्तरात्मा. ए वधा अने तेना जेवा वीजा अनेक शब्दो जीवास्तिकायना अभिवचनो छे.

४ * अहिं यर्मान्विजायशब्द प्रतिपाद्य अर्थना वाचक शब्दो केटला छे ए प्रश्न छे तेमा मुख्यत्वे धर्मान्विकायवन्दना प्रतिपाद्य वे अर्थ छे—धर्मास्तिकाय द्रव्य तथा सामान्यधर्म अने विशेष धर्म सामान्यधर्म प्रतिपादक अने धर्मास्तिकाय द्रव्य प्रतिपादक धर्म शब्द छे अने विशेष धर्मप्रतिपादक प्राणातिपातविरमणादि शब्दो छे ते सिवाय वीजा सामान्यरूपे के विशेषरूपे चारित्र्यधर्मना प्रतिपादक जे शब्दो छे ते वधा धर्मास्तिकायना अभिवचनो कहां छे. ए प्रमाणे अधर्मास्तिकायादि संवन्धे पण जाणवु

† वल्लपानादि वस्तुने प्रष्टण करवा अने मूढानां सम्यक् प्रष्टति ते आदानमंडानात्रनिक्षेपणा समिति, उच्चार—विष्ठा, प्रसवण—मूत्र, खेल—कर्म, जह्वाणनो मेल, सिंधानक—नाकनो मेल वगैरे लाज्य वस्तुने त्याग करवा सम्यक् प्रष्टति करवी, अर्थात् निर्जाव भूमि उपर चतनापूर्वक तेनो त्याग करवो ते उच्चारप्रसवणखेलजह्वासिवाणकपारिष्ठापनिकासमिति.

८. पोग्गलत्थिकायस्स णं भंते ! पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अणेगा अभिवयणा पन्नत्ता, तंजहा—पोग्गले ति वा, पोग्गल-त्थिकाये ति वा, परमाणुपोग्गले ति वा, दुपपसिए ति वा, तिपपसिए ति वा जाव—असंखेज्जपपसिए ति वा, अणंतपपसिए ति वा, जे यावन्ने तहप्पगारा सध्वे ते पोग्गलत्थिकायस्स अभिवयणा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

वीसइमे सए वीओ उद्देशो समत्तो ।

८. [प्र०] हे भगवन् ! पुद्गलास्तिकाय संबंधे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! तेनां अनेक अभिवचनो कहां छे, ते आ प्रमाणे—पुद्गल, पुद्गलास्तिकाय, परमाणुपुद्गल, द्विप्रदेशिक, त्रिप्रदेशिक, यावत्—असंख्यातप्रदेशिक अने अनंतप्रदेशिक स्कंध. ए वधां अने तेना जेवां वीजां अनेक पुद्गलास्तिकायनां अभिवचनो छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

पुद्गलान्तिकाय
अभिवचनो.

वीशमा शतकमां द्वितीय उद्देशक समाप्त.

तईओ उद्देशो ।

१. [प्र०] अह भंते ! पाणाइवाए, मुसावाए जाव—मिच्छादंसणसह्णे, पाणातिवायवेरमणे, जाव—मिच्छादंसणसह्णविवेगे, उप्पत्तिया, जाव—पारिणामिया, उग्गहे, जाव—धारणा, उट्ठाणे, कम्मे, वले, वीरिए, पुरिसक्कारपरकमे, नेरइयत्ते, असुरकुमारत्ते, जाव—वेमाणियत्ते, नाणावरणिज्जे, जाव—अंतराए, कण्हलेस्सा, जाव—सुक्कलेस्सा, सम्मदिट्ठी ३, चक्कुदंसणे ४, आभिणिवो-हियणाणे, जाव—विभंगनाणे, आहारसंज्ञा ४, ओरालियसरीरे ५, मणजोगे ३, सागारोवओगे, अणागारोवओगे, जे यावन्ने तहप्पगारा सध्वे ते णणत्थ आयाए परिणमंति ? [उ०] हुंता गोयमा ! पाणाइवाए, जाव—सध्वे ते णणत्थ आयाए परिणमंति ।

२. [प्र०] जीवे णं भंते ! गम्भं वक्कममाणे कतिवन्ने, कतिगन्धे० ? [उ०] एवं जहा वारसमसए पंचमुद्देसे जाव—'कम्मओ णं जए, णो अकम्मओ विभत्तिभावं परिणमति' । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति जाव—विहरति ।

वीसइमे सए तईओ उद्देशो समत्तो ।

तृतीय उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! प्राणातिपात, मृपावाद, यावत्—मिध्यादर्शनशल्य, प्राणातिपातविरमण, यावत्—मिध्यादर्शनशल्यविवेक, औत्पत्तिकी, यावत्—पारिणामिकी, अवग्रह, यावत्—धारणा, उत्थान, कर्म, वल, वीर्य, पुरुपकारपराक्रम, नैरयिकपणुं, असुरकुमारपणुं, यावत्—त्रैमानिकपणुं, ज्ञानावरणीय, यावत्—अंतराय, कृष्णलेश्या, यावत्—शुक्ललेश्या, सम्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि, मिश्रदृष्टि, चक्षुर्दर्शन, अचक्षु-दर्शन, अवधिदर्शन, केचलदर्शन, आभिनिवोधिकज्ञान, यावत्—विभंगज्ञान, आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, परिग्रहसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा, औदारिकशरीर, यावत्—कर्मणशरीर, मनोयोग, वचनयोग, काययोग, साकार उपयोग अने निराकार उपयोग; ए वधां अने वीजा तेना जेवा धर्मो आत्मा सिवाय अन्यत्र परिणमता नथी ? [उ०] हे गौतम ! प्राणातिपात, यावत्—अनाकार उपयोग ए वधा आत्मा सिवाय वीजे परिणमता नथी.

प्राणातिपातादि
आत्मा सिवाय ई
परिणमता नथी.

२. [प्र०] हे भगवन् ! गर्भमा उत्पन्न थतो जीव केटला वर्ण, गंव, रस अने स्पर्शवाळा परिणाम वडे परिणमे छे ? [उ०] 'वारमा शतकना पाचमा उद्देशकमां क्ख्हा प्रमाणे अहि कहेहुं. यावत्—'कर्मथी जगत् छे, कर्म सिवाय तेनो विविधरूपे परिणाम थतो नथी. 'हे भगवन् ! ते एम ज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे—' एम कही [भगवान् गौतम] यावत्—विहरे छे.

वीशमा शतकमां तृतीय उद्देशक समाप्त.

चउत्थो उद्देशो ।

१. [प्र०] कइविहे णं भंते ! इंदियउवचए पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! पंचविहे इंदियोवचए पन्नत्ते, तंजहा—सोइंदियउ-वचए०—एवं चित्तो इंदियउद्देशओ निरवसेसो भाणियथो जहा पन्नवणाए । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति भगवं गोयमे जाव—विहरति ।

वीसइमे सए चउत्थो उद्देशो समत्तो ।

चतुर्थ उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! इन्द्रियोपचय केटला प्रकारनो क्खो छे ? [उ०] हे गौतम ! इन्द्रियोपचय पाच प्रकारनो क्खो छे, ते आ प्रमाणे—श्रोत्रेन्द्रियोपचय—इत्थादि वधुं प्रज्ञापनाना वीजा इन्द्रियउद्देशकमां क्खो प्रमाणे कहेहुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे—' एम कही यावत्—विहरे छे.

इन्द्रियोपचय.

वीशमा शतकमां चतुर्थ उद्देशक समाप्त.

પંચમો ઉદ્દેસો ।

૧. [પ્ર૦] પરમાણુપોગ્ગલે ણં મંતે ! કતિવન્ને, કતિગંધે, કતિરસે, કતિફાસે પન્નત્તે ? [ઉ૦] ગોયમા ! યગવન્ને, યગગંધે, યગરસે, ડુફાસે પન્નત્તે, તંજહા—જહ યગવન્ને સિય કાલપ, સિય નીલપ, સિય લોહિપ, સિય હાલિહપ, સિય સુક્કિહપ, જહ યગગંધે સિય સુઘ્મિગંધે, સિય ડુઘ્મિગંધે, જહ યગરસે સિય તિત્તે, સિય કહુપ, સિય કસાપ, સિય અંધિલે, સિય મહુરે, જહ ડુફાસે સિય સીપ ય નિદ્ધે ય ૧, સિય સીપ ય લુક્ખે ય ૨, સિય ઉસિણે ય નિદ્ધે ય ૩, સિય ઉસિણે ય લુક્ખે ય ૪ ।

૨. [પ્ર૦] ડુપ્પપસિય ણં મંતે ! સ્થંથે કતિવન્ને૦ ? [ઉ૦] एवं जहा अट्टारसमसप छट्टुद्देसप जाव—‘सिय चउफासे पन्नत्ते’ । जह यगवन्ने सिय कालप जाव—सिय सुक्किल्लप, जह दुवन्ने सिय कालप य नीलप य १, सिय कालप य लोहितप य २, सिय कालप य हालिहप य ३, सिय कालप य सुक्किल्लप य ४, सिय नीलप य लोहियप य ५, सिय नीलप य हालिहप य ६, सिय नीलप य सुक्किल्लप य ७, सिय लोहियप य हालिहप य ८, सिय लोहियप य सुक्किल्लप य ९, सिय हालिहप य सुक्किल्लप य १० । एवं एप दुयासंजोगे दस भंगा । जह यगगंधे सिय सुघ्मिगंधे १, सिय दुघ्मिगंधे य २, जह दुगंधे सुघ्मिगंधे य दुघ्मिगंधे य । रसेसु जहा वन्नेसु । जह दुफासे सिय सीप य निद्वे य, एवं जहेव परमाणुपो-ग्ले ४ । जह तिफासे सध्वे सीप देसे निद्वे देसे लुक्खे १, सध्वे उसिणे देसे निद्वे देसे लुक्खे २, सध्वे निद्वे देसे सीप देसे उसिणे ३, सध्वे लुक्खे देसे सीप देसे उसिणे ४ । जह चउफासे देसे सीप देसे उसिणे देसे निद्वे देसे लुक्खे १, एप नव भंगा फासेसु ।

પંચમ ઉદ્દેશક.

૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! પરમાણુપુદ્ગલ કેટલા વર્ણવાલો, કેટલા ગંધવાલો, કેટલા રસવાલો અને કેટલા સ્પર્શવાલો છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તે એક વર્ણવાલો, એક ગંધવાલો, એક રસવાલો અને એ સ્પર્શવાલો છે. તે આ પ્રમાણે—જો તે એક વર્ણવાલો હોય તો, કદાચ કાલો, કદાચ લીલો, કદાચ રાતો, કદાચ પીલો અને કદાચ ધોલો હોય (૫). જો તે એક ગંધવાલો હોય તો કદાચ સુગંધી અને કદાચ દુર્ગંધી હોય (૨). જો તે એક રસવાલો હોય તો કદાચ કઢવો, કદાચ તીલો, કદાચ તૂરો, કદાચ ઝાટો અને કદાચ મધુર (મીઠો) હોય (૫). જો તે સ્પર્શવાલો હોય તો કદાચ શીત અને સ્નિગ્ધ ૧, કદાચ શીત અને રુક્ષ—લુલો ૨, કદાચ ઉષ્ણ અને સ્નિગ્ધ ૩, કદાચ ઉષ્ણ અને રુક્ષ હોય ૪. [એ પ્રમાણે પરમાણુમા વર્ણના ૫, ગંધના ૨, રસના ૫, અને સ્પર્શના ૪ મઠીને ૧૬ ભાંગા ધાય છે].

૨. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ કેટલા વર્ણવાલો હોય—ઇત્યાદિ પ્રશ્ન. [ઉ૦] †અઢારમા શતકના છટ્ટા ઉદ્દેશકમા કહ્યા પ્રમાણે કહેવું, યાવત્—‘તે કદાચ ચાર સ્પર્શવાલો હોય.’ જો તે †એક વર્ણવાલો હોય તો કદાચ કાલો હોય અને યાવત્—કદાચ ધોલો હોય ૫. જો તે એ વર્ણવાલો હોય તો ૧ કદાચ કાલો અને લીલો, ૨ કદાચ કાલો અને રાતો, ૩ કદાચ કાલો અને પીલો, ૪ કદાચ કાલો અને ધોલો, ૫ કદાચ લીલો અને રાતો, ૬ કદાચ લીલો અને પીલો, ૭ કદાચ લીલો અને ધોલો, ૮ કદાચ રાતો અને પીલો, ૯ કદાચ રાતો અને ધોલો અને ૧૦ કદાચ પીલો અને ધોલો હોય. એ પ્રમાણે દ્વિકસયોગી દશ ભાગા જાણવા. જો તે એક ગંધવાલો હોય તો કદાચ સુગંધી હોય અને કદાચ દુર્ગંધી હોય ૨. જો તે એ ગંધવાલો હોય તો સુગંધી અને દુર્ગંધી વન્ને ગંધવાલો હોય ૩. જેમ વર્ણોમા ભાંગા કહ્યા, તેમ †રસોમા પણ ૧૫ ભાગાઓ જાણવા. હવે જો તે એ સ્પર્શવાલો હોય તો કદાચ શીત અને સ્નિગ્ધ હોય—ઇત્યાદિ ચાર ભાગા પરમાણુપુદ્ગલની પેઠે સમજવા. જો તે (દ્વિપ્રદેશિકસ્કંધ) ત્રણ સ્પર્શવાલો હોય તો તે કદાચ સર્વગીત હોય અને તેનો એક દેશ—ભાગ સ્નિગ્ધ અને એક દેશ રુક્ષ હોય ૧; કદાચ સર્વ ઉષ્ણ હોય અને તેનો એક દેશ સ્નિગ્ધ અને એક દેશ રુક્ષ હોય ૨, અથવા કદાચ સર્વ સ્નિગ્ધ હોય અને એક દેશ શીત અને એક દેશ ઉષ્ણ હોય ૩, અથવા કદાચ સર્વ રુક્ષ હોય અને એક દેશ શીત અને એક દેશ ઉષ્ણ હોય ૪. હવે જો તે ચાર સ્પર્શવાલો હોય તો તેનો એક દેશ શીત, એક દેશ ઉષ્ણ, એક દેશ સ્નિગ્ધ અને એક દેશ રુક્ષ હોય ૧. એ પ્રમાણે સ્પર્શના નવ ભાંગા જાણવા. [એ રીતે દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધમાં વર્ણના ૧૫, ગંધના ૩, રસના ૧૫, અને સ્પર્શના ૯ સર્વ મઠીને ૪૨ ભાગા ધાય છે].

૧ * પરમાણુમા શીત, ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ અને રુક્ષ—એ ચાર સ્પર્શમાના અવિરોધી એ સ્પર્શ હોય છે.

૨ † ભગ૦ સં૦ ૪ ઘ૦ ૧૮ ઉ૦ ૬ પૃ૦ ૬૩ સ્૦ ૬.

‡ દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધમા જ્યારે ઘણે પ્રદેશોનો એકગ્નેરૂપે પરિણામ ધાય છે ત્યારે તેના કાલો વગેરે પાંચ વિકલ્પ ધાય છે, અને જ્યારે ઘણે પ્રદેશોનો ભિન્ન ભિન્ન વર્ણરૂપે પરિણામ ધાય છે ત્યારે તેના દ્વિકસયોગી દશ મિસ્ત્ર ધાય છે. ગન્ધમાં †એકગ્નેરૂપે પરિણામ ધાય ત્યારે એ ભાગા અને વન્ને ગન્ધરૂપે પરિણામ ધાય ત્યારે એક ભાગો, રસના એક રસરૂપે પરિણામ ધાય ત્યારે પાંચ ભાગા અને એ રસરૂપે પરિણામ ધાય ત્યારે દશ અને સ્પર્શના પૂર્વે કહેલા ચાર ભાગા મઠીને ૪૨ ભાંગાઓ ધાય છે. તેમાં રસના અન્વયોગી ૧ તીલો, ૨ કઢવો, ૩ તૂરો, ૪ ઝાટો, ૫ મીઠો—એ પાંચ ભાગાઓ અને દ્વિકસયોગી દશ ભાગા છે— ૧ તીલો અને કઢવો, ૨ તીલો અને તૂરો, ૩ તીલો અને ઝાટો, ૪ તીલો અને મીઠો, ૫ કઢવો અને તૂરો, ૬ કઢવો અને ઝાટો, ૭ કઢવો અને મીઠો, ૮ તૂરો અને ઝાટો, ૯ તૂરો અને મીઠો, અને ૧૦ ઝાટો અને મીઠો. ઘણે મઠી રસના પદ્મ ભાગા ધાય છે.

३. [प्र०] तिपपसिप णं मंते ! खंधे कदि वच्चे० [उ०] जहा अट्टारसमसप छडुइसे जाव—चउफासे पन्नत्ते । जह पग-
वच्चे सिय कालए जाव—सुक्किल्लए ५ । जह दुवत्त सिय कालए य सिय नीलए य १, सिय कालए य नीलगा य २, सिय
कालगा य नीलए य ३, सिय कालए य लोहियए य १, सिय कालए य लोहीयगा य २, सिय कालगा य लोहियए य
३, एवं हाल्लिइएण वि समं भंगा ३, एवं सुक्किल्लएण वि समं ३, सिय नीलए य लोहियए य एत्थ वि भंगा ३, एवं हाल्लि-
इएण वि समं भंगा ३, एवं सुक्किल्लेण वि समं भंगा ३, सिय लोहियए य हाल्लिइए य भङ्गा ३, एवं सुक्किल्लेण वि समं ३,

३. [प्र०] हे भगवन् ! त्रिप्रदेशिक स्कंध केटला वर्णवाळो होय—इत्यादि प्रश्न. [उ०] जेम ^१अठारमा शतकना छट्ठा उद्देशकर्मा कहुं
छे तेम यावत्—‘ते कदाच चार स्पर्शवाळो होय’ त्यां सुधी कहेतुं. जो ते एक वर्णवाळो होय तो कदाच काळो होय अने यावत्—कदाच
धोळो पण होय ५. जो ते वे वर्णवाळो होय तो तेनो एक अग कदाच काळो अने एक अंश लीलो होय १; कदाच तेनो एक अंश
काळो अने वीजा वे अंशो लीला होय २; कदाच वे देशो काळा अने एक देश लीलो होय ३. कदाच एक अंश काळो अने एक अंश
रातो होय १. अथवा कदाच तेनो एक देश काळो अने अनेक देशो राता होय २. कदाच अनेक देशो काळा अने एक देश रातो होय
३. ए प्रमाणे काळावर्णना पीळानी साथे पण त्रण भागा करवा ३. तथा ए रीते ज काळा वर्णना धोळा वर्णनी साथे पण त्रण भागा जाणवा
३. अथवा कदाच लीलो अने रातो होय. अहिं पण पूर्व प्रमाणे त्रण भागा जाणवा ३. एम लीला वर्णना पीळानी साथे ३ अने धोळानी
साथे त्रण त्रण भागा करवा ३. कदाच रातो अने पीळो होय ३. ए प्रमाणे राता वर्णना धोळानी साथे पण त्रण भागा करवा ३. कदाच
पीळो अने धोळो होय ३. ए वधा मळीने दस द्विक संयोगना त्रीश भांगा थाय छे. हवे जो ते त्रिप्रदेशिकस्कंध त्रण वर्णवाळो होय तो
कदाच १ काळो, लीलो अने रातो, २ कदाच काळो, लीलो अने पीळो, ३ कदाच काळो, लीलो अने धोळो, कदाच ४ काळो, रातो
अने पीळो, कदाच ५ काळो, रातो अने धोळो, कदाच ६ काळो, पीळो अने धोळो होय. अथवा कदाच ७ लीलो, रातो अने पीळो,
कदाच ८ लीलो, रातो अने धोळो होय, अथवा कदाच ९ लीलो, पीळो अने धोळो होय, कदाच १० रातो, पीळो अने धोळो होय.
ए प्रमाणे ए दस त्रिकसंयोगी भागाओ जाणवा. हवे जो ते एक गंधवाळो होय तो कदाच १ सुगंधी होय अने कदाच २ दुर्गंधी होय.
जो वे गंधवाळो होय तो कदाच सुगंधी अने दुर्गंधी होय. अहिं एक वचन अने बहु वचनने आश्रयी त्रण भागा जाणवा. (चोयो भागो
थतो नथी.) जेम वर्णने आश्रयी ४५ भागा क्हा; तेम ईरस्तोने आश्रयीने पण ४५ भागा जाणवा. जो ते वे स्पर्शवाळो होय तो कदाच
शीत अने स्निग्ध होय—इत्यादि चार भागा द्विप्रदेशिकस्कंधनी पेठे अहिं कहेवा ४. जो (त्रिप्रदेशिक स्कन्ध) त्रण स्पर्शवाळो होय तो सर्व

त्रिप्रदेशिकस्कन्ध.

३ * जुओ. भग० ख० ४ श० १८ उ० ६ पृ० ६३ सू० ६.

† त्रिप्रदेशिक स्कन्धमां त्रण परमाणुओ होवा छता तथाविध परिणामने लीधे ते एक प्रदेशावगाही, द्विप्रदेशावगाही अने त्रिप्रदेशावगाही होय छे
ज्यारे एक प्रदेशावगाही होय छे त्यारे तेमा अशानी कल्पना थई शकती नथी ज्यारे द्विप्रदेशावगाही होय छे त्यारे तेमां वे अशानी अने त्रिप्रदेशावगाही
होय त्यारे त्रण अशानी कल्पना थई शके छे ज्यारे त्रणे प्रदेशोनो काळा वगेरे एकवर्णरूपे परिणाम थाय छे त्यारे तेना पाच विकल्प थाय छे. ज्यारे वे
वर्णरूपे परिणाम थाय छे त्यारे एक प्रदेश काळो अने वे प्रदेशो एक आकाशप्रदेशावगाही होवाथी एक अश लीलो होय—एम द्विकसंयोगी पहिलो भागो
थाय छे. अथवा एक प्रदेश काळो होय अने वे प्रदेशो भिन्न भिन्न वे आकाश प्रदेशावगाही होवाथी वे अश लीला होय एम विवक्षा थई शके छे ए रीते
त्रीजो भागो जाणवो एज प्रमाणे वे अश काळा होय अने एक अश लीलो होय एम एक द्विकसंयोगना त्रण त्रण भागा यता होवाथी दश द्विक संयोगना
त्रीश भांगा थाय छे. गन्धना एकगन्धरूपे परिणाम थाय त्यारे वे भागा अने वे गन्धरूपे परिणाम थाय त्यारे एक अश अने अनेक अशानी कल्पनाथी
पूर्वनी पेठे त्रण भागा थाय छे ज्यारे त्रिप्रदेशिक स्कन्धना वे स्पर्श होय छे त्यारे तेना द्विप्रदेशिकनी पेठे चार भागा थाय छे ज्यारे तेना त्रण स्पर्श होय
छे त्यारे तेना त्रणे प्रदेशो शीत होवाथी सर्व शीत, एक प्रदेशात्मक एक देश स्निग्ध अने द्विप्रदेशात्मक एक देश रुक्ष होय—ए प्रथम भंग, एवी रीते सर्व
शीत एक देश स्निग्ध अने अनेक देशो रुक्ष—ए चीजो भंग, सर्व शीत अनेक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष—ए त्रीजो भंग—एम त्रण भागा थाय. ए प्रमाणे
सर्वोष्ण, सर्व स्निग्ध अने सर्वरुक्षनी साथे पण त्रण त्रण भागा जाणवा

‡ द्विप्रदेशिक स्कंधना रसना द्विकसंयोगी १० भागा पृ० १६ माना टिप्पणना कया छे, ते दरेक भागाना नीचेना त्रण त्रण भागाओ करवाथी
३० भागा थाय छे. त्रिमंगी—१—१, १—२, २—१ तेनो अर्थ आ प्रमाणे छे—१ एक अश तीखो अने एक अश कडवो, २ एक अश तीखो अने
वे अश कडवा, ३ वे अश तीखा अने एक अश कडवो त्रिकसंयोगी दश भागाओ नीचे प्रमाणे—

१ तीखो,	२ कडवो,	३ तुरो.
१ तीखो,	२ कडवो,	४ खाटो.
१ तीखो,	२ कडवो,	५ मीठो.
१ तीखो,	३ तुरो,	४ खाटो.
१ तीखो,	३ तुरो,	५ मीठो.
२ तीखो,	४ खाटो,	५ मीठो.
२ कडवो,	३ तुरो,	४ खाटो.
२ कडवो,	३ तुरो,	५ मीठो.
२ कडवो,	४ खाटो,	५ मीठो.
३ तुरो,	४ खाटो,	५ मीठो.

आ प्रमाणे त्रिप्रदेशिक स्कन्धना द्विकसंयोगी ३० भागा, त्रिकसंयोगी १० भागा अने असंयोगी ५ भागा मेळतां कुल ४५ भागा रसने आश्रयी जाणना.

सिय हालिह्य य मुक्लिह्य य भंगा ३, एवं सधे ते दस दुयासंजोगा भंगा तीसं भवंति । जइ तिवन्ने सिय कालप य नीलप य लोहियप य १, सिय कालप य नीलप य हालिह्य य २, सिय कालप य नीलप य मुक्लिह्य य ३, सिय कालप य लोहियप य हालिह्य य ४, सिय कालप य लोहियप य मुक्लिह्य य ५, सिय कालप य हालिह्य य मुक्लिह्य य ६, सिय नीलप य लोहियप य हालिह्य य ७, सिय नीलप य लोहियप य मुक्लिह्य य ८, सिय नीलप य हालिह्य य मुक्लिह्य य ९, सिय लोहियप य हालिह्य य मुक्लिह्य य १०. एवं एए दस तियासंजोगा । जइ एगगंधे सिय मुच्चिगंधे १, सिय दुच्चिगंधे २ । जइ दुगंधे सिय मुच्चिगंधे य दुच्चिगंधे य ३ भंगा । रसा जइ । चन्ना । जइ दुफासे सिय सीप य निद्धे य, एवं जहेव दुपएसियस्स तहेव चत्तारि भंगा ४ । जइ तिफासे सधे सीप देसे निद्धे देसे लुम्बे १, सधे सीप देसे निद्धे देसा लुम्बा २, सधे सीप देसा निद्धा देसे लुम्बे ३, सधे उस्सिणे देसे निद्धे देसे लुम्बे ३ एत्थ वि भंगा तिन्नि, सधे निद्धे देसे सीप देसे उस्सिणे भंगा तिन्नि ९, सधे लुम्बे देसे सीप देसे उस्सिणे भंगा तिन्नि एवं १२ । जइ चउफासे देसे सीप देसे उस्सिणे देसे निद्धे देसे लुम्बे १, देसे सीप देसे उस्सिणे देसे निद्धे देसा लुम्बा २, देसे सीप देसे उस्सिणे देसा निद्धा देसे लुम्बे ३, देसे सीप देसा उस्सिणा देसे निद्धे देसे लुम्बे ४, देसे सीप देसा उस्सिणा देसे निद्धे देसा लुम्बा ५, देसे सीप देसा उस्सिणा देसा निद्धा देसे लुम्बे ६, देसा सीया देसे उस्सिणे देसे निद्धे देसे लुम्बे ७, देसा सीया देसे उस्सिणे देसे निद्धे देसा लुम्बा ८, देसा सीया देसे उस्सिणे देसा निद्धा देसे लुम्बे ९. एवं एए तिपएसिय फासेसु पणवीसं भंगा ।

४. [प्र०] चउप्पएसिय णं भंते ! संधे कतिवन्ने० ? [उ०] जइ अट्टारसमसए जाव-‘सिय चउफासे पन्नत्ते’ । जइ एगवन्ने सिय कालप य जाव-मुक्लिह्य ५ । जइ दुवन्ने सिय कालप य नीलप य १, सिय कालप य नीलगा य २, सिय कालगा य नीलप य ३, सिय कालगा य नीलगा य ४ । सिय कालप य लोहियप य । एत्थ वि चत्तारि भंगा ४ । सिय

शीत अने तेनो एक देशे स्निग्ध अने एक देशे रूक्ष होय १. अथवा सर्व शीत, एक देशे स्निग्ध अने अनेक देशो रूक्ष होय २. अथवा सर्व शीत, अनेक देशो स्निग्ध अने एक देशे रूक्ष होय ३. कदाच सर्व उष्ण, एक देशे स्निग्ध अने एक देशे रूक्ष होय. अहिं पण पूर्व प्रमाणे त्रण भागा जाणवा ३. अथवा कदाच सर्व स्निग्ध, एक देशे शीत अने एक देशे उष्ण होय. अहिं पण पूर्व प्रमाणे त्रण भागा जाणवा ३. [वधा मळीने त्रिकसयोगी वार भागा जाणवा.] जो ते चार स्पर्शवाळो होय तो तेनो एक देशे शीत, एक देशे उष्ण, एक देशे स्निग्ध अने एक देशे रूक्ष होय १. अथवा एक देशे शीत, एक देशे उष्ण, एक देशे स्निग्ध अने अनेक देशो रूक्ष होय २. अथवा एक देशे शीत, एक देशे उष्ण, अनेक देशो स्निग्ध अने एक देशे रूक्ष होय ३. अथवा एक देशे शीत, अनेक देशो उष्ण, एक देशे स्निग्ध अने एक देशे रूक्ष ४. अथवा एक देशे शीत, अनेक देशो उष्ण, एक देशे स्निग्ध अने अनेक देशो रूक्ष होय ५. अथवा एक देशे शीत, अनेक देशो उष्ण, अनेक देशो स्निग्ध अने एक देशे रूक्ष ६. अथवा अनेक देशो शीत, एक देशे उष्ण, एक देशे स्निग्ध अने एक देशे रूक्ष ७. अथवा अनेक देशो शीत, एक देशे उष्ण, एक देशे स्निग्ध अने अनेक देशो रूक्ष ८. अथवा अनेक देशो शीत, एक देशे उष्ण, अनेक देशो स्निग्ध अने एक देशे रूक्ष पण होय ९. ए प्रमाणे आ त्रिप्रदेशिक स्क्ंधने विपे स्पर्शाना वधा मळीने पचीस भागा थाय छे. [एम त्रिप्रदेशिक स्क्ंधने विपे वर्णना ४५, गंधना ५, रसना ४५, अने स्पर्शना २५ सर्व मळीने १२० भागाओ थाय छे.]

४. [प्र०] हे भगवन् । चतुप्रदेशिक स्क्ंध केटला वर्णवाळो होय-इत्यादि प्रश्न. [उ०] जेम अट्टारमा शतकमा कहुं छे, ते प्रमाणे अहिं यावत्-‘ते कदाच चार स्पर्शवाळो होय’ त्यां सुधी कहेवुं. जो ते एक वर्णवाळो होय तो ते कदाच काळो होय अने यावत्-धोळो होय ५. जो ते वे वर्णवाळो होय तो (१) कदाच तेनो एक अश काळो अने एक अश लीलो होय, कदाच तेनो एक देश काळो अने अनेक देशो लीला होय २. कदाच अनेक देशो काळा अने एक देशे लीलो होय ३. अथवा अनेक देशो काळा अने

३ * त्रिप्रदेशिक स्क्ंधना चार स्पर्शना वधा अश एकवचनमा होय लारे प्रथम भंग थाय. जेम, १ एकदेशे शीत, २ एक देशे उष्ण, ३ एक देशे स्निग्ध अने ४ एक देशे रूक्ष तेमा छेला रूक्ष पदने अनेकवचनमा मूळीए लारे वीजो भंग थाय एटले परमाणुरूप एक देशे शीत अने परमाणुरूप एक देशे उष्ण पुनः वे शीत परमाणुमा एक परमाणु स्निग्ध अने वीजो शीत परमाणुमानो एक परमाणु तथा उष्ण परमाणुरूप एक देशे ए वे अश रूक्ष, वीजा पदने अनेक वचनमा मूळता वीजो भागो थाय ते आ प्रमाणे-एक परमाणुरूप देशे शीत, वे परमाणुरूप देशे उष्ण, जे शीत छे ते अने जे वे उष्ण परमाणुमानो एक छे ते वधे स्निग्ध अने जे एक उष्ण छे ते रूक्ष छे वीजा पदने अनेक वचनमा मूळता चोथो भागो थाय स्निग्ध वे परमाणुरूप एक देशे शीत अने एक परमाणुरूप वीजो अश रूक्ष, स्निग्ध वे परमाणुमानो बाकीनो अश तथा रूक्ष अश वधे उष्ण पाचमो भंग-एक अश शीत अने स्निग्ध तथा वीजा वे अश उष्ण अने रूक्ष छट्टो भंग-एक अश शीत अने रूक्ष तथा वीजा वे अशो उष्ण अने स्निग्ध. सातमा भंगमा स्निग्धरूप वे परमाणुमानो एक अने वीजो एक एम वे अश शीत जाणवा, बाकीना एक एक अश उष्ण, स्निग्ध अने रूक्ष जाणवा आठमा भंगमा वे अशो शीत अने रूक्ष तथा एक अश उष्ण अने स्निग्ध जाणवो. नवमा भंगमा मित्र देशे वर्ता वे परमाणुशो शीत अने स्निग्ध होय अने एक अश उष्ण अने रूक्ष होय. ए प्रमाणे त्रिप्रदेशिक स्क्ंधना स्पर्शने आश्रयी पचीस भागा थाय छे,—टीका.

कालप य हालिहप य ४ । सिय कालप य सुक्लिहप य ४ । सिय नीलप य लोहियप य ४ । सिय नीलप य हालिहप य ४ । सिय नीलप य सुक्लिहप य ४ । सिय लोहियप य हालिहप य ४ । सिय लोहियप य सुक्लिहप य ४ । सिय हालिहप य सुक्लिहप य ४ । एवं एप दस दुयासंजोगा भंगा पुण चत्तालीसं ४० । जइ तिचने सिय कालप य नीलप य लोहियप य १, सिय कालप नीलप लोहियगा य २, सिय कालप य नीलगा य लोहियप य ३, सिय कालगा य नीलप य लोहियप य एप भंगा ४ । एवं कालनीलहालिहपहि भंगा ४, कालनीलसुक्लिह ४, काललोहियहालिह ४, काललोहियसुक्लिह ४, कालहालिहसुक्लिह ४ । नीललोहियहालिहगाणं ४ भंगा, नीललोहियसुक्लिह ४, नीलहालिहसुक्लिह ४, लोहियहालिहसुक्लिहगाणं ४ भंगा । एवं एप दसतियासंजोगा, एक्केके संजोएचत्तारि भंगा, सधे ते चत्तालीसं भंगा ४० । जइ चउवधे सिय कालप नीलप लोहियप हालिहप य १, सिय कालप नीलप लोहियप सुक्लिहप २, सिय कालप नीलप हालिहप सुक्लिहप ३, सिय कालप लोहियप हालिहप सुक्लिहप ४, सिय नीलप लोहियप हालिहप सुक्लिहप य ५ । एवमेते चउकगसंजोए पंच भंगा । एप सधे नउइ भंगा ।

जइ एगगंधे सिय सुब्भिगंधे १ सिय दुब्भिगंधे य २, जइ दुगंधे सिय सुब्भिगंधे य सिय दुब्भिगंधे य ४ । रसा जहा वध्ना । जइ दुफासे जहेव परमाणुपोग्गले ४ । जइ तिफासे सधे सीए देसे निद्धे देसे लुक्खे १, सधे सीए देसे निद्धे देसा लुक्खा २, सधे सीए देसा निद्धा देसे लुक्खे ३, सधे सीए देसा निद्धा देसा लुक्खा ४, सधे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे । एवं भंगा ४, सधे निद्धे देसे सीए देसे उसिणे ४, सधे लुक्खे देसे सीए देसे उसिणे ४ । एप तिफासे सोलस भंगा ।

अनेक देशो लीला होय ४. (२) अथवा कदाच एक अंश काळो अने एक अंश रातो होय. अहिं पण पूर्वनी पेठे चार भागा करवा ४. (३) कदाच एक अंश काळो अने एक अंश पीळो होय ४. (४) कदाच एक अंश काळो अने एक अंश धोळो होय ४ (५) कदाच एक अंश लीलो अने एक अंश रातो होय ४. (६) कदाच लीळो अने पीळो होय ४. (७) कदाच लीळो अने धोळो होय ४. (८) कदाच रातो अने पीळो होय ४. (९) कदाच रातो अने धोळो होय ४. (१०) कदाच पीळो अने धोळो होय ४. ए प्रमाणे आ दश द्विकसंयोगना चालीश भांगा थाय छे. जो ते त्रण वर्णवाळो होय तो कदाच (१) काळो, लीळो अने रातो होय १. अथवा एक देश काळो, एक देश लीलो अने अनेक देशो राता होय २. अथवा एक देश काळो, अनेक देशो लीला अने एक देश रातो होय ३. अथवा अनेक देशो काळा, एक देश लीलो अने एक देश रातो होय ४. ए प्रमाणे एक त्रिकसंयोगनी चतुर्भंगी जाणवी. एज प्रमाणे (२) काळा, लीला अने पीळा वर्णना ४, (३) काळा, लीला अने धोळा वर्णना ४, (४) काळा, राता अने पीळा वर्णना ४, (५) काळा, राता अने धोळा वर्णना ४, (६) काळा, पीळा अने धोळा वर्णना ४. (७) अथवा लीला, राता अने पीळा वर्णना ४, (८) अथवा लीला, राता अने धोळा वर्णना ४, (९) अथवा लीला, पीळा अने धोळा वर्णना ४, (१०) अथवा कदाच राता, पीळा अने धोळा वर्णना ४. ए प्रमाणे दश त्रिकसंयोग थाय छे अने एक एक त्रिकसंयोगमां चार चार भागा थाय छे. ए वधा मळीने चालीश भांगा थाय छे. जो ते चार वर्णवाळो होय तो कदाच काळो, लीलो, रातो अने पीळो होय १. कदाच काळो, लीलो रातो अने धोळो होय २. अथवा कदाच काळो, लीलो, पीळो अने धोळो होय ३. अथवा कदाच काळो, रातो, पीळो अने धोळो होय ४. अथवा कदाच लीलो, रातो, पीळो अने धोळो होय ५. ए प्रमाणे ए वधा मळीने चतुष्कसंयोगना पाच भागा थाय छे अने वधा मळीने वर्णने आश्रयी नेहुं भागा थाय छे.

जो ते चतुःप्रदेशिक स्क्न्ध एक गंधवाळो होय तो कदाच सुगंधी होय अने कदाच दुर्गंधी होय २. जो वे गंधवाळो होय तो ते कदाच सुगंधी अने दुर्गंधी होय ४. (कुल छ भांगा थाय.) जेम वर्णोना भांगाओ कद्धा तेम *रसोना ९० भांगाओ जाणवा. जो वे स्पर्शवाळो होय तो तेना परमाणुपुद्गलनी पेठे (चार) भागा कहवा. जो ते त्रण स्पर्शवाळो होय तो सर्व शीत होय अने तेनो एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय १. अथवा सर्व शीत होय अने तेनो एक देश स्निग्ध अने अनेक देशो रुक्ष होय २. अथवा सर्व शीत होय अने अनेक देशो स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय ३. अथवा सर्व शीत होय अने अनेक देशो स्निग्ध अने अनेक देशो रुक्ष होय ४. (२) कदाच सर्व उष्ण होय अने एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय ४. (३) अथवा सर्व स्निग्ध होय अने एक

वर्णने आश्रयी ९०
भागाओ.

रसने आश्रयी ९०
भागाओ.

* ४ रसना द्विकसंयोगी अने त्रिकसंयोगी दश दश भागाओ थाय छे, अने एक एक संयोगमा एकवचन अने अनेकवचन वधे चतुर्भंगी थवापी तेने चार गुणा करता तेना कुल ८० भागा थाय छे.

चतु संयोगी भांगाओ—

- १ तीसो-२ कडवो-३ तूरो-४ खाटो.
- १ तीसो-२ कडवो-३ तूरो-५ मीठो
- १ तीसो-२ कडवो-४ खाटो-५ मीठो
- १ तीसो-३ तूरो-४ खाटो-५ मीठो
- २ कडवो-३ तूरो-४ खाटो ५ मीठो

ए प्रमाणे चतु संयोगी पाच भागाओ अने असंयोगी पाच भागाओ नेळवता रसना कुल ९० भागाओ जाणवा.

જહ ચડફાસેં દેસે સીપ દેસે ઉસિણે દેસે નિદ્દે દેસે લુખ્કે ૧, દેસે સીપ દેસે ઉસિણે દેસે નિદ્દે દેસા લુખ્કા ૨, દેસે સીપ દેસે ઉસિણે દેસા નિદ્દા દેસે લુખ્કે ૩, દેસે સીપ દેસે ઉસિણે દેસા નિદ્દા દેસા લુખ્કા ૪, દેસે સીપ દેસા ઉસિણા દેસે નિદ્દે દેસે લુખ્કે ૫, દેસે સીપ દેસા ઉસિણા દેસે નિદ્દે દેસા લુખ્કા ૬, દેસે સીપ દેસા ઉસિણા દેસા નિદ્દા દેસે લુખ્કે ૭, દેસે સીપ દેસા ઉસિણા દેસા નિદ્દા દેસા લુખ્કા ૮, દેસા સીયા દેસે ઉસિણે દેસે નિદ્દે દેસે લુખ્કે ૯, एवं एए चडफासे सोलस भंगा भाणियद्या जाव—देसा सीया देसा उसिणा देसा निददा देसा लुख्का । सद्ये एते फासेसु छत्तीसं भंगा ।

૫. [પ્ર૦] પંચપપસિપ ણં મંતે ! સંધે કતિવત્તે ૦ ? [૩૦] જહા અટ્ટારસમોસપ જાવ—સિય ચડફાસે પદ્મત્તે । જહ યગ-વત્તે યગવન્નદુવન્ના જહેવ ચડપ્પપસિપ । જહ તિવત્તે સિય કાલપ નીલપ લોહિયપ ય ૧, સિય કાલપ નીલપ લોહિયગા ય ૨, સિય કાલપ નીલગા ય લોહિય ય ૩, સિય કાલપ નીલગા ય લોહિયગા ય ૪, સિય કાલગા ય નીલપ ય લોહિયપ ય ૫, સિય કાલગા ય નીલપ ય લોહિયગા ય ૬, સિય કાલગા ય નીલગા ય લોહિયપ ય ૭ । સિય કાલપ નીલપ હાલિ-દ્દપ ય । एत्य चि सत्त भंगा ७ । एवं कालगनीलगसुकिल्लपसु सत्त भंगा, कालगलोहियहालिहेसु ७, कालगलोहियसुकिल्लेसु ७,

દેશ શીત અને એક દેશ ઉષ્ણ હોય ૪. (૪) અથવા સર્વે રુક્ષ હોય અને એક દેશ શીત અને એક દેશ ઉષ્ણ હોય ૪. ૫ પ્રમાણે વધા મઠ્ઠીને ત્રણ સ્પર્શના સોઠા ભાગા થાય છે ૧૬. કદાચ ચાર સ્પર્શવાળો હોય તો તેનો એક દેશ શીત, એક દેશ ઉષ્ણ, એક દેશ સ્નિગ્ધ અને એક દેશ રુક્ષ હોય ૧. અથવા એક દેશ શીત, એક દેશ ઉષ્ણ, એક દેશ સ્નિગ્ધ અને અનેક દેશો રુક્ષ હોય ૨. અથવા એક દેશ શીત, એક દેશ ઉષ્ણ, અનેક દેશો સ્નિગ્ધ અને એક દેશ રુક્ષ હોય ૩. અથવા એક દેશ શીત, એક દેશ ઉષ્ણ, અનેક દેશો સ્નિગ્ધ અને અનેક દેશો રુક્ષ હોય ૪. અથવા એક દેશ શીત, અનેક દેશો ઉષ્ણ, એક દેશ સ્નિગ્ધ અને એક દેશ રુક્ષ હોય ૫. અથવા એક દેશ શીત અનેક દેશો ઉષ્ણ, એક દેશ સ્નિગ્ધ અને અનેક દેશો રુક્ષ હોય ૬. અથવા એક દેશ શીત, અનેક દેશો ઉષ્ણ, અનેક દેશો સ્નિગ્ધ અને એક દેશ રુક્ષ હોય ૭. અથવા એક દેશ શીત, અનેક દેશો ઉષ્ણ, અનેક દેશો સ્નિગ્ધ અને અનેક દેશો રુક્ષ હોય ૮. અથવા અનેક દેશો શીત, એક દેશ ઉષ્ણ, એક દેશ સ્નિગ્ધ અને એક દેશ રુક્ષ હોય ૯. ૫ પ્રમાણે ચાર સ્પર્શના સોઠા ભાગા કહેવા. યાવત્—તેના અનેક દેશો શીત, અનેક દેશો ઉષ્ણ, અનેક દેશો સ્નિગ્ધ અને અનેક દેશો રુક્ષ હોય ૧૬. ૫ વધા મઠ્ઠીને [દ્વિક સંયોગી ૪, ત્રિકસંયોગી ૧૬, અને ચતુઃસંયોગી ૧૬] સ્પર્શ સંવંધે છત્રીશ ભાગા થાય છે. [ચતુપ્રદેશી સ્કંધને આશ્રયી વર્ણના ૯૦, ગંધના ૬, રસના ૯૦, અને સ્પર્શના ૩૬ મઠ્ઠી ૨૨૨ ભાગાઓ થાય છે.]

૫. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! પાચ પ્રદેશવાલો સ્કંધ કેટલા વર્ણવાલો હોય—ઇત્યાદિ પ્રશ્ન. [૩૦] હે ગૌતમ ! †અઢારમા શતકમા કહ્યા પ્રમાણે યાવત્—‘તે કદાચ ચાર સ્પર્શવાલો કહ્યો છે’ ત્યા સુધી જાણતું. જો તે એક વર્ણવાલો કે વે વર્ણવાલો હોય તો ચાર પ્રદેશવાલો સ્કંધની પેઠે તેના (૫, ૪૦) ભાગા જાણવા. જો તે ત્રણ વર્ણવાલો હોય તો (૧) કદાચ તેનો એક દેશ કાઠો, એક દેશ લીલો અને એક દેશ રાતો હોય ૧. કદાચ એક દેશ કાઠો, એક દેશ લીલો અને અનેક દેશો રાતા હોય ૨. કદાચ એક દેશ કાઠો, અનેક દેશો લીલા અને એક દેશ રાતો હોય ૩. કદાચ એક દેશ કાઠો, અનેક દેશો લીલા અને અનેક દેશો રાતા હોય ૪. અથવા તેના અનેક દેશો કાઠા, એક દેશ લીલો અને એક દેશ રાતો હોય ૫. અથવા અનેક દેશો કાઠા, એક દેશ લીલો અને અનેક દેશો રાતા હોય ૬. અથવા અનેક દેશો કાઠા, અનેક દેશો લીલા અને એક દેશ રાતો હોય ૭. અથવા કદાચ (૨) તેનો એક દેશ કાઠો, એક દેશ લીલો અને એક દેશ પીઠો હોય. આ ત્રિકસંયોગમાં પાચ ભાગા કહેવા ૭. ૫મ (૩) કાઠો, લીલો અને ધોઠો. અહિં પાચ ભાગા સમજવા ૭. (૪) અથવા કાઠો, રાતો અને પીઠો હોય ૭. (૫) અથવા કાઠો, રાતો અને ધોઠો હોય ૭. (૬) અથવા કાઠો, પીઠો અને ધોઠો હોય ૭. (૭) લીલો, રાતો અને પીઠો ૭. (૮) અથવા લીલો, રાતો અને ધોઠો ૭. (૯) અથવા લીલો, પીઠો અને ધોઠો ૭. (૧૦) અથવા રાતો, પીઠો અને ધોઠો હોય ૭. ૫ પ્રમાણે દશ ત્રિકસંયોગના સીત્તર ભાગા થાય છે. હવે જો તે ચાર સ્પર્શવાલો હોય તો (૧) કદાચ એક દેશ કાઠો, એક દેશ લીલો, એક દેશ રાતો અને એક દેશ પીઠો હોય ૧. અથવા એક દેશ કાઠો, લીલો, રાતો અને અનેક દેશ પીઠા હોય ૨, અથવા એક દેશ કાઠો, લીલો, અનેક દેશો રાતા અને એક દેશ પીઠો હોય ૩, અથવા એક દેશ કાઠો, અનેક દેશો લીલા, એક દેશ રાતો અને એક દેશ પીઠો હોય ૪. અથવા તેના અનેક દેશો કાઠા, એક દેશ લીલો, એક દેશ રાતો અને એક દેશ પીઠો હોય ૫. ૫ પ્રમાણે એક ચતુઃસંયોગમાં પાંચ ભાગા જાણવા. વઠ્ઠી ૫ રીને (૨) કદાચ એક દેશ કાઠો, લીલો, રાતો અને ધોઠો ૫. (૩) એક દેશ કાઠો, લીલો, પીઠો અને ધોઠો ૫. (૪) અથવા કાઠો, રાતો, પીઠો અને ધોઠો હોય ૫. (૫) અથવા કદાચ લીલો, રાતો, પીઠો અને ધોઠો હોય ૫. ૫ પ્રમાણે પાચ ચતુઃસંયોગના પચીશ ભાગા થાય છે. વઠ્ઠી જો તે પાચ વર્ણવાલો હોય તો કાઠો, લીલો,

† અનેક દેશો શીત, એક દેશ ઉષ્ણ, એક દેશ સ્નિગ્ધ અને અનેક દેશો રુક્ષ હોય ૧૦ અનેક દેશો શીત, એક દેશ ઉષ્ણ અનેક દેશો સ્નિગ્ધ અને એક દેશ રુક્ષ હોય ૧૧ અથવા અનેક દેશો શીત, એક દેશ ઉષ્ણ, અનેક દેશો સ્નિગ્ધ અને અનેક દેશો રુક્ષ હોય ૧૨ અથવા અનેક દેશો શીત, અનેક દેશો ઉષ્ણ, એક દેશ સ્નિગ્ધ અને એક દેશ રુક્ષ હોય ૧૩ અથવા અનેક દેશો શીત, અનેક દેશો ઉષ્ણ, એક દેશ સ્નિગ્ધ અને અનેક દેશો રુક્ષ હોય ૧૪. અથવા અનેક દેશો શીત, અનેક દેશો ઉષ્ણ, અનેક દેશો સ્નિગ્ધ અને એક દેશ રુક્ષ ૧૫. અને છેલ્લે ભાગો મૂલમાં કહેલો છે.

कालगहालिहसुक्लिहेसु ७, नीलगलोहियहालिहेसु ७, नीलगलोहियसुक्लिहेसु सत्त भंगा ७, नीलगहालिहसुक्लिहेसु ७, लोहियहालिहसुक्लिहेसु वि सत्त भंगा ७ । एवमेते तियासंजोए सत्तरि भंगा । जइ चउवन्ने सिय कालए य नीलए लोहियए हालिहए य १, सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहगा य २, सिय कालए य नीलए य लोहियगा य हालिहगे य ३, सिय कालए नीलगा य लोहियगे य हालिहगे य ४, सिय कालगा य नीलए य लोहियए य हालिहए य ५ । एए पंच भंगा । सिय कालए य नीलए य लोहियए य सुक्लिहए य एत्य वि पंच भंगा ५, एवं कालगनीलगहालिहसुक्लिहेसु वि पंच भंगा ५, कालगलोहियहालिहसुक्लिहएसु वि पंच भंगा ५, नीलगलोहियहालिहसुक्लिहेसु वि पंच भंगा ५, एवमेते चउक्कसंजोएणं पणवीसं भंगा । जइ पंचवन्ने कालए य नीलए य लोहियए य हालिहए य सुक्लिहए य । सवमेते एक्कग-दुयग-तियग-चउक्क-पंचगसंजोएणं ईयाळं भंगसयं भवति । गंधा जहा चउप्पएसियस्स । रसा जहा वन्ना । फासा जहा चउप्पएसियस्स ।

६. [प्र०] छप्पएसिए णं भंते ! खंधे कतिवन्ने ? [उ०] एवं जहा पंचपएसिए, जाव-‘सिय चउफासे पन्नत्ते’ । जइ एगवन्ने एगवन्न-दुवन्ना जहा पंचपएसियस्स । जइ तिवन्ने सिय कालए य नीलए य लोहियए य, एवं जहेव पंचपएसियस्स सत्त भंगा जाव-सिय कालगा य नीलगा य लोहियए य ७, सिय कालगा य नीलगा य लोहियगा य ८ । एए अट्ट मद्दा । एवमेते दस तियासंजोगा, एक्केक्क संजोगे अट्ट भंगा, एवं सद्ये वि तियगसंजोगे असीति भंगा । जइ चउवन्ने सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहए य १, सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहगा य २, सिय कालए य नीलए य लोहियगा य हालिहए य ३, सिय कालए य नीलए य लोहियगा य हालिहगा य ४, सिय कालए य नीलगा य लोहियए य हालिहए य ५, सिय कालए य नीलगा य लोहियए य हालिहगा य ६, सिय कालए य नीलगा य लोहियगा य हालिहए य ७, सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहए य ८, सिय कालगा य नीलए य लोहियए य हालिहगा य ९, सिय कालगा य नीलए य लोहियगा य हालिहए य १०, सिय कालगा य नीलगा य लोहियए य हालिहए य ११ । एए पक्कारस भंगा, एवमेते पंचचउक्कसंजोगा कायद्या, एक्केक्कसंजोए पक्कारस भंगा, सद्ये ते चउक्कसंजोएणं पणपत्रं भंगा । जइ पंचवन्ने सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहए य सुक्लिहए य १, सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहए य

रातो, पीळो अने धोळो होय १. ए प्रमाणे असंयोगी ५, द्विकसयोगी ४०, त्रिकसंयोगी ७०, चतुःसंयोगी २५, अने पंचसंयोगी १-एम वधा मळीने वर्णना १४१ भागा थाय छे. गंध संवधे चतुःप्रदेशिक स्कंधनी पेटे छ भागा जाणवा. अने वर्णोनी पेटे रसना पण १४१ भांगा जाणवा. तेमज स्पर्शना ३६ भागा पण चतुःप्रदेशिक स्कंधनी पेटे जाणवा. [पंच प्रदेशिक स्कंधने आश्रयी वर्णना १४१, गंधना ६, रसना १४१ अने स्पर्शना ३६ मळीने कुल ३२४ भांगाओ थाय छे.]

पंचमदेशिक स्कंध-
ना वगारिने आश्रयी
३२४ भागाओ.

६. [प्र०] हे भगवन् ! छ प्रदेशवाळो स्कंध केटला वर्णवाळो होय?—इत्यादि प्रश्न. [उ०] जेम पंचप्रदेशिक स्कंध माटे करुं छे तेम ते यावत्-‘कदाच चार स्पर्शवाळो होय’ त्यां सुधी वधुं कहेवुं. जो ते एक के वे वर्णवाळो होय तो एउ वर्ण अने वे वर्णना भागा पंचप्रदेशिकनी पेटे (५ अने ४५) जाणवा. जो त्रण वर्णवाळो होय तो (१) कदाच काळो, लीलो अने रातो होय १, ए प्रमाणे पंच प्रदेशिक स्कंधना सात भांगा कळा छे तेम अहिं कहेवा. यावत्-७ ‘कदाच तेना अनेक देशो काळा, लीला अने एक देग रातो होय.’ ८ कदाच अनेक देशो काळा, लीला अने राता होय. ए प्रमाणे एक त्रिकसंयोगना आठ भांगा जाणवा. एवा दश त्रिक संयोगना एंशी भागा थाय. जो ते चार वर्णवाळो होय तो कदाच एक देश काळो, लीलो, रातो अने पीळो होय १, कदाच एक देश काळो, एक देश लीलो, एक देश रातो अने अनेक देशो पीळा होय २, अथवा एक देश काळो, एक देश लीलो, अनेक देशो राता अने एक देश पीळो होय ३, कदाच एक देश काळो, एक देश लीलो, अनेक देशो राता अने अनेक देशो पीळा होय ४, कदाच एक देश काळो, अनेक देशो लीला, एक देश रातो अने एक देश पीळो होय ५, अथवा एक देश काळो, अनेक देशो लीला, एक देश रातो अने अनेक देशो पीळा होय ६, अथवा एक देश काळो, अनेक देशो लीला, अनेक देशो राता अने एक देश पीळो होय ७, अथवा एक देश काळो, एक देश लीलो, एक देश रातो अने एक देश पीळो होय ८, कदाच तेना अनेक देशो काळा, एक देश लीलो, एक देश रातो अने अनेक देशो पीळा होय ९, कदाच तेना अनेक देशो काळा, एक देश लीलो, अनेक देशो राता अने एक देश पीळो होय १०, अथवा अनेक देशो काळा, अनेक देशो लीला, एक देश रातो अने एक देश पीळो होय ११. ए प्रमाणे ए चतु संयोगी अगीयार भागा थया. एवा पाच चतुःसंयोग करवा. प्रत्येक चतुःसंयोगनां अगीयार अगीयार भागा गणना कथा मळीने चतु संयोगी पंचावन भांगा थाय छे. हवे जो ते पांचवर्णवाळो होय तो (१) कदाच एक देश काळो, लीलो, रातो, पीळो अने धोळो होय १, कदाच एक देश काळो, एक देश लीलो, एक देश रातो, एक देश पीळो अने अनेक देशो धोळो होय २, अथवा एक देश काळो, लीलो, रातो, अनेक देशो पीळा अने एक देश धोळो होय ३, कदाच एक देश काळो, एक देश लीलो, अनेक देशो राता, एक देश पीळो अने एक देश धोळो होय ४, अथवा एक देश काळो, अनेक देशो लीला, एक देश रातो, पीळो अने धोळो होय ५, अथवा

८ प्रदेशिक स्कंध-
ना वगारिने आश्रयी
भागा

મુક્કિહ્વા ય ૨, સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિયપ ય હાલિહ્વા ય મુક્કિહ્વ ય ૩, સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિયગા ય હાલિહ્વ ય મુક્કિહ્વ ય ૪, સિય કાલ્પ ય નીલગા ય લોહિયપ ય હાલિહ્વ ય મુક્કિહ્વ ય ૫, સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિયપ ય હાલિહ્વ ય મુક્કિહ્વ ય ૬, પવં પળ છન્નંગા ભાણિયઘા, પવમેતે સઘે ચિ પઙ્ગ-દુયગ-તિયગ-ચઠઙ્ગ-પંચગસંજોગેસુ ઘાસીયં મંગસયં ભવંતિ । ગંધા જહા પંચપણસિયસ્સ । રસા જહા પ્યસ્સેવ વન્ના । પાસા જહા ચઠપ્પણસિયસ્સ ।

૭. [પ્ર૦] સત્તપ્પણિ પં મંતે ! સંઘે કતિવન્ને ? [૩૦] જહા પંચપણસિય જાવ-‘સિય ચઠપાસે’ પઘ્નત્તે । જદ્દ પગ-વન્ને ૦ પવં પગવન્નદુવણ્ણતિવન્ના જહા છપ્પણસિયસ્સ । જદ્દ ચઠવન્ને સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિયપ ય હાલિહ્વ ય ૧, સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિયપ ય હાલિહ્વા ય ૨, સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિયગા ય હાલિહ્વ ય ૩, પવમેતે ચઠ-ઙ્ગસંજોગેણં પઘ્નરસ મંગા ભાણિયઘા જાવ-‘સિય કાલ્પ ય નીલગા ય લોહિયગા ય હાલિહ્વ ય ૧૫ । પવમેતે પંચચઠ-સંજોગા નેયઘા, પઙ્કેઠે સંજોપ પઘ્નરસ મંગા, સઘમેતે પંચસત્તરિ મંગા ભવંતિ । જદ્દ પંચવન્ને સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિ-યપ ય હાલિહ્વ ય મુક્કિહ્વ ય ૧, સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિયપ ય હાલિહ્વ ય મુક્કિહ્વા ય ૨, સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિયપ ય હાલિહ્વા ય મુક્કિહ્વ ય ૩, સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિયપ ય હાલિહ્વા ય મુક્કિહ્વા ય ૪, સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિયગા ય હાલિહ્વ ય મુક્કિહ્વ ય ૫, સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિયગા ય હાલિહ્વ ય મુક્કિહ્વા ય ૬, સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિયગા ય હાલિહ્વા ય મુક્કિહ્વ ય ૭, સિય કાલ્પ ય નીલગા ય લોહિયપ ય હાલિહ્વ ય મુક્કિહ્વ ય ૮, સિય કાલ્પ ય નીલગા ય લોહિયપ ય હાલિહ્વ ય મુક્કિહ્વા ય ૯, સિય કાલ્પ ય નીલગા ય લોહિયગે ય હાલિહ્વા ય મુક્કિહ્વ ય ૧૦, સિય કાલ્પ ય નીલગા ય લોહિયગા ય હાલિહ્વ ય મુક્કિહ્વ ય ૧૧, સિય કાલ્પ ય નીલગે ય લોહિયપ ય હાલિહ્વ ય મુક્કિહ્વ ય ૧૨, સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિયગે ય હાલિહ્વ ય મુક્કિહ્વા ય ૧૩, સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિયપ ય હાલિહ્વા ય મુક્કિહ્વ ય ૧૪, સિય કાલ્પ ય નીલપ ય લોહિયગા

અનેક દેશો કાઢ્યા, એક દેશ લીલો, રાતો, પીલો, અને ધોલો હોય. એ પ્રમાણે છ ભાગા સમજવા. એ પ્રમાણે [અનંયોગી ૫, દ્વિકસયોગી ૪૦, ત્રિકસયોગી ૮૦, ચતુસયોગી ૫૫ અને પંચસયોગી ૬-સર્વ મલીને વર્ણને આશ્રયી] ૧૮૬ ભાગા થાય છે. ગંધ સંવેધે પંચપ્રદેશિકત્તી પેટે ૬ માંગા જાણવા, રસો વર્ણોની પેટે જાણવા. અને સ્પર્શના ચતુષ્પ્રદેશિક સ્કંધની પેટે ભાગા જાણવા. [એ પ્રમાણે છ પ્રદેશિક સ્કંધને આશ્રયી વર્ણના ૧૮૬, ગંધના ૬, રસના ૧૮૬, અને સ્પર્શના ૩૬ મલી કુલ ૪૧૪ માંગાઓ થાય છે.]

છ પ્રદેશિક સ્કંધ-
ના ૪૧૪ માંગા

નાવ પ્રદેશિક સ્કં-
ધના વર્ણોદિના
માંગાઓ

૭. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! સાત પ્રદેશવાલો સ્કંધ કેટલા વર્ણવાલો હોય ?-હ્યાદિ પ્રશ્ન. [૩૦] હે ગૌતમ ! જેમ પંચપ્રદેશિક સ્કંધ સંવેધે કહ્યું તેમ અહિં પણ કહેવું. યાવત્—‘કદાચ ચાર સ્પર્શવાલો હોય.’ જો તે એક વર્ણવાલો-હ્યાદિ હોય તો એક વર્ણ, બે વર્ણ અને ત્રણ વર્ણના ભાગા છ પ્રદેશિક સ્કંધની પેટે જાણવા. હવે જો તે કદાચ ચાર વર્ણવાલો હોય તો (૧) કદાચ એક દેશ કાઢ્યો, લીલો, રાતો અને પીલો હોય. ૧, કદાચ એક દેશ કાઢ્યો, એક દેશ લીલો, એક દેશ રાતો અને અનેક દેશો પીલ્યા હોય ૨, કદાચ એક દેશ કાઢ્યો, એક દેશ લીલો, અનેક દેશો રાતા અને એક દેશ પીલો હોય ૩, [કદાચ એક દેશ કાઢ્યો, અનેક દેશો લીલા, એક દેશ રાતો અને એક દેશ પીલો હોય ૪] એ પ્રમાણે આ ચતુષ્કસયોગમા પદર ભાગા કહેવા, યાવત્—૧૫ કદાચ અનેક દેશો કાઢ્યા, અનેક દેશો લીલા, અનેક દેશો રાતા અને એક દેશ પીલો હોય. એ પ્રમાણે પાંચ ચતુષ્કસયોગ જાણવા. એક એક ચતુષ્કસયોગમા પંદર પંદર ભાગાઓ થાય છે. વધા મલીને પંચોતેર ભાગા થાય છે. જો તે પાંચવર્ણવાલો હોય તો (૧) કદાચ એક દેશ કાઢ્યો, લીલો, રાતો, પીલો અને ઘોલો હોય ૧, કદાચ એક દેશ કાઢ્યો, લીલો, રાતો, પીલો અને અનેક દેશો ધોલ્યા હોય ૨, કદાચ એક દેશ કાઢ્યો, એક દેશ લીલો, એક દેશ રાતો, અનેક દેશો પીલ્યા અને એક દેશ ધોલો હોય ૩, કદાચ એક દેશ કાઢ્યો, એક દેશ લીલો, એક દેશ રાતો, અનેક દેશો પીલ્યા અને અનેક દેશો ધોલ્યા હોય ૪, કદાચ એક દેશ કાઢ્યો, એક દેશ લીલો, એક દેશ રાતા, એક દેશ પીલો અને અનેક દેશો ધોલ્યા હોય ૫. અથવા એક દેશ કાઢ્યો, એક દેશ લીલો, અનેક દેશો રાતા, એક દેશ પીલો અને અનેક દેશો ધોલ્યા હોય ૬, કદાચ એક દેશ કાઢ્યો, એક દેશ લીલો, અનેક દેશો રાતા, અનેક દેશો પીલ્યા અને એક દેશ ધોલો હોય ૭, કદાચ એક દેશ કાઢ્યો, અનેક દેશો લીલા, એક દેશ રાતો, એક દેશ પીલો અને એક દેશ ધોલો હોય ૮, કદાચ એક દેશ કાઢ્યો, અનેક દેશો લીલા, એક દેશ રાતો, પીલો અને અનેક દેશો ધોલ્યા હોય ૯, કદાચ એક દેશ કાઢ્યો, અનેક દેશો લીલા, એક દેશ રાતો, અનેક દેશો પીલ્યા અને એક દેશ ધોલો હોય ૧૦, કદાચ એક દેશ કાઢ્યો, અનેક દેશો લીલા, રાતા, એક દેશ પીલો અને ધોલો હોય ૧૧, કદાચ અનેક દેશો કાઢ્યા, એક દેશ લીલો, રાતો, પીલો અને ધોલો હોય ૧૨, કદાચ અનેક દેશો કાઢ્યા, એક દેશ લીલો, રાતો, પીલો અને અનેક દેશો ધોલ્યા હોય ૧૩, કદાચ અનેક દેશો કાઢ્યા, એક દેશ લીલો, રાતો, અનેક દેશો પીલ્યા અને એક દેશ ધોલો હોય ૧૪, કદાચ અનેક દેશો કાઢ્યા, એક દેશ લીલો, અનેક દેશો રાતા, એક દેશ પીલો અને ધોલો હોય ૧૫, તથા કદાચ અનેક દેશો કાઢ્યા, લીલા, એક દેશ રાતો, પીલો અને ધોલો હોય ૧૬. એ પ્રમાણે સોઠ માંગાઓ થાય છે. અસંયોગી ૫, દ્વિકસયોગી ૪૦, ત્રિકસયોગી ૮૦, ચતુષ્કસયોગી ૭૫ અને પંચસંયોગી ૧૬ સોઠ. વધા મલીને વર્ણને આશ્રયી વસો ને સોઠ માંગા થાય છે. ગંધ સંવેધે ચતુષ્પ્રદેશિક સ્કંધની

य हालिह्य य सुक्लिह्य य १५, सिय कालगा य नीलगा य लोहियय य हालिह्य य सुक्लिह्य य १६ । एय सोलस भंगा, एवं सधमेते एक्कग-दुयग-तियग-चउक्कग-पंचगसंजोगेणं दो सोला भंगसया भवंति । गंधा जहा चउप्पएसियस्स । रसा जहा एयस्स चैव वन्ना । फासा जहा चउप्पएसियस्स ।

८. [प्र०] अट्टपएसियस्स णं भंते ! खंधे०-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय एगवन्ने० जहा सत्तपएसियस्स जाव-सिय चउफासे पन्नत्ते जइ एगवन्ने० एवं एगवन्नदुवन्नत्तिवन्ना जहेव सत्तपएसिय । जइ चउवन्ने सिय कालय य नीलय य लोहियय य हालिह्यय य १, सिय कालय य नीलय य लोहियय य हालिह्यय य, एवं जहेव सत्तपएसिय जाव-सिय कालगा य नीलगा य लोहियगा य हालिह्यगे य १५, सिय कालगा य नीलगा य लोहियगा य हालिह्यगा य १६' । एय सोलस भंगा, एवमेते पंच चउक्कसंजोगा, एवमेते असीति भंगा ८० । जइ पंचवन्ने सिय कालय य नीलय य लोहियय य हालिह्यय य सुक्लिह्यय य १, सिय कालय य नीलय य लोहियगे य हालिह्यगे य सुक्लिह्यगा य २, एवं एणं कमेणं भंगा चारेयद्वा जाव-सिय कालय य नीलगा य लोहियगा य हालिह्यगा य सुक्लिह्यगे य १५, एसो पन्नरसमो भंगो, सिय कालगा य नीलगे य लोहियगे य हालिह्यय य सुक्लिह्यय य १६, सिय कालगा य नीलगे य लोहियगे य हालिह्यगे य सुक्लिह्यगा य १७, सिय कालगा य नीलगे य लोहियगे य हालिह्यगा य सुक्लिह्यय य १८, सिय कालगा य नीलगे य लोहियगे य हालिह्यगा य सुक्लिह्यगा य १९, सिय कालगा य नीलगे य लोहियगा य हालिह्यय य सुक्लिह्यय य २०, सिय कालगा य नीलगे य लोहियगा य हालिह्यय य सुक्लिह्यगा य २१, सिय कालगा य नीलय य लोहियगा य हालिह्यगा य सुक्लिह्यय य २२, सिय कालगा य नीलगा य लोहियगे य हालिह्यय य सुक्लिह्यय य २३, सिय कालगा य नीलगा य लोहियगे य हालिह्यय य सुक्लिह्यगा य २४, सिय कालगा य नीलगा य लोहियगे य हालिह्यगा य सुक्लिह्यय य २५, सिय कालगा य नीलगा य लोहियगा य हालिह्यय य सुक्लिह्यय य २६, एय पंचसंजोएणं छधीसं भंगा भवंति, एवमेव सपुव्वावरेणं एक्कग-दुयग-तियग-चउक्कग-पंचगसंजोएहिं दो एक्कतीसं भंगसया भवंति । गंधा जहा सत्तपएसियस्स, रसा जहा एयस्स चैव वन्ना, फासा जहा चउप्पएसियस्स ।

पेठे जाणवुं. अहि जेम वर्णना क्खा तेम रसना भागा जाणवा अने स्पर्शना भागा चतुप्रदेशिक स्क्ंधनी पेठे जाणवा. [ए प्रमाणे सप्त-प्रदेशिक स्क्ंधने आश्रयी वर्णना २१६, गंधना ६, रसना २१६ अने स्पर्शना ३६. मळीने कुल ४७४ भागाओ थाय छे.]

८. [प्र०] हे भगवन् ! आठ प्रदेशवाळो स्क्ंध केटला वर्णवाळो होय ?—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कदाच एक वर्णवाळो होय—इत्यादि सप्तप्रदेशिक स्क्ंधनी पेठे यावत्—कदाच 'चार स्पर्शवाळो होय वगेरे कहेवुं.' हवे जो ते एक वर्णवाळो—इत्यादि होय तो तेना एक वर्ण, वे वर्ण अने त्रण वर्णना भागाओ सप्तप्रदेशिक स्क्ंधनी पेठे समजवा. जो ते चारवर्णवाळो होय तो, कदाच तेनो एक देश काळो, लीलो, रातो अने पीळो होय १. कदाच तेनो एक देश काळो, लीलो, रातो अने अनेक देशो पीळा होय २. ए प्रमाणे सप्तप्रदेशिक स्क्ंधनी पेठे पंदर भागा जाणवा, यावत्—'अनेक देशो काळा, लीला, राता अने एक देश पीळो होय' १५. सोळमो भंग—कदाच अनेक देशो काळा, लीला, राता अने पीळा होय १६. एक चतुष्कसयोगमा सोळ भागाओ थाय छे. वधा मळीने पाच चतुष्कसयोगन सोळ सोळ भांगा करता एंशी भागा थाय छे. हवे जो ते पाच वर्णवाळो होय तो कदाच एक देश काळो, लीलो, रातो, पीळो अने धोळो होय १, कदाच एक देश काळो, लीलो, रातो, पीळो अने अनेक देशो धोळा होय. ए प्रमाणे अनुक्रमे भागाओ कहेवा, यावत् एक देश काळो, अनेक देशो लीला, राता, पीळा अने एक देश धोळो होय १५. ए पंदरमो भागो जाणवो. कदाच अनेक देशो काळा, एक देश लीलो, रातो, पीळो अने अनेक देशो धोळा होय १६, कदाच अनेक देशो काळा, एक देश लीलो, रातो, पीळो अने अनेक देशो धोळा होय १७, कदाच अनेक देशो काळा, एक देश लीलो, रातो, अनेक देशो पीळा अने एक देश धोळो होय १८, कदाच अनेक देशो काळा, एक देश लीलो, रातो अने अनेक देशो पीळा अने धोळा होय १९, कदाच अनेक देशो काळा, एक देश लीलो, अनेक देशो राता, एक देश पीळो, अने अनेक देशो धोळा होय २०, कदाच अनेक देशो काळा, एक देश लीलो, अनेक देशो राता, एक देश पीळो, अने अनेक देशो धोळा होय २१, कदाच अनेक देशो काळा, एक देश लीलो, अनेक देशो राता, पीळा अने एक देश धोळो होय २२, कदाच अनेक देशो काळा, लीला, एक देश रातो, पीळो अने धोळो होय २३, कदाच अनेक देशो काळा, लीला, एक देश रातो, पीळो अने अनेक देशो धोळा होय २४, कदाच अनेक देशो काळा, लीला, एक देश रातो, अनेक देशो पीळा अने एक देश धोळो होय २५, कदाच अनेक देशो काळा, लीला, राता, एक देश पीळो अने धोळो होय २६. ए प्रमाणे ए पंच संयोगना पूर्वोक्त छन्वीश भागाओ थाय छे. अने पूर्वपर वधा मळीने असयोगी ५, द्विकसयोगी ४०, त्रिकसयोगी १८०, चतुःसयोगी ८० अने पंचसंयोगी २६—एम वर्णना वसो ने एकत्रीश भागाओ थाय छे. गंध सन्धे सप्तप्रदेशिकनी पेठे भागाओ समजवा. वर्णोनी पेठे रसो कहेवा, अने स्पर्शना भागा चतुप्रदेशिकनी पेठे कहेवा. [ए प्रमाणे अष्टप्रदेशिक स्क्ंधने आश्रयी वर्णना २३१, गंधना ६, रसना २३१, अने स्पर्शना ३६ सर्व मळीने ५०४ भागाओ थाय छे.]

सात प्रदेशिक स्क्ंधना वर्णादिने आश्रयी ४७४ भागा. आठ प्रदेशिक स्क्ंधना वर्णादिना भगो

अष्ट प्रदेशिक स्क्ंधना वर्णादिने आश्रयी ५०४ भागा

૯. [પ્ર૦] નવપ્પસિયસ્સ પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! સિય પ્ગવન્ને, જહા અટ્ટપ્પસિય જાવ—‘સિય ચરુપાસે પપ્પન્ને । જહા પ્ગવન્ને પ્ગવન્ન-દુવન્ન-તિવન્ન-ચરુવન્ના જહેવ અટ્ટપ્પસિયસ્સ । જહા પંચવન્ને સિય કાલપ ય નીલપ ય લોહિયપ ય દ્વાલિ-દ્વપ ય સુક્કિલ્લપ ય ૧, સિય કાલપ ય નીલપ ય લોહિયપ ય દ્વાલિદ્વપ ય સુક્કિલ્લપ ય ૨, પ્વં પરિયાટીપ પ્કત્તીનં મંગા માણિયદ્વા જાવ—સિય કાલગા ય નીલગા ય લોહિયગા ય દ્વાલિદ્વગા ય સુક્કિલ્લપ ય । પ્પ એકત્તીસં મંગા । પ્વં પ્કગ-દુયગ-તિયગ-ચરુક્કગ-પંચગસંજોપહિં દો છત્તીસા મંગસયા મવંતિ । ગંધા જહા અટ્ટપ્પસિયસ્સ । રસા જહા પ્પસ્સ ચેવ વન્ના, ફાસા જહા ચરુપ્પસિયસ્સ ।

૧૦. [પ્ર૦] દ્સપ્પસિય પં મંતે ! સંધે-પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! સિય પ્ગવન્ને જહા નવપ્પસિય જાવ—‘સિય ચરુ-પાસે પપ્પન્ને’ । જહા પ્ગવન્ને પ્ગવન્ન-દુવન્ન-તિવન્ન-ચરુવન્ના જહેવ નવપ્પસિયસ્સ । પંચવન્ને વિ તહેવ, નવરં વત્તીસત્તિમો મંગો મન્નતિ । પ્વમેતે પ્કગ-દુયગ-તિયગ-ચરુક્કગ-પંચગસંજોપ્પસુ દ્વોપ્પિ સત્તનીસા મંગસયા મવંતિ । ગંધા જહા નવપ્પસિયસ્સ । રસા જહા પ્પસ્સ ચેવ વન્ના । ફાસા જાવ—ચરુપ્પસિયસ્સ । જહા દ્સપ્પસિયો પ્વં સંધેજ્જપ્પસિયો વિ, પ્વં અસંગેજ્જપ્પ-સિયો વિ, સુહમપરિણયો અણંતપ્પસિયો વિ પ્વં ચેવ ।

૧૧. [પ્ર૦] વાયરપરિણપ પં મંતે ! અણંતપ્પસિય સંધે કતિવન્ને ? [ઉ૦] પ્વં જહા અટ્ટારસમસપ જાવ—‘સિય અટ્ટ-પાસે પપ્પન્ને’ । વન્ન-ગંધ-રસા જહા દ્સપ્પસિયસ્સ । જહા ચરુપાસે સધે કમ્પવડે સધે ગરુપ સધે સીપ સધે નિદ્ધે ૧, સધે કમ્પવડે સધે ગરુપ સધે સીપ સધે લુન્ને ૨, સધે કમ્પવડે સધે ગરુપ સધે ઉસિણે સધે નિદ્ધે ૩, સધે કમ્પવડે સધે ગરુપ સધે ઉસિણે સધે લુન્ને ૪, સધે કમ્પવડે સધે લહુપ સધે સીપ સધે નિદ્ધે ૫, સધે કમ્પવડે સધે લહુપ સધે સીપ સધે લુન્ને ૬, સધે કમ્પવડે સધે લહુપ સધે ઉસિણે સધે નિદ્ધે ૭, સધે કમ્પવડે સધે લહુપ સધે ઉસિણે સધે લુન્ને ૮, સધે મરુપ સધે ગરુપ સધે સીપ સધે નિદ્ધે ૯, સધે મરુપ સધે ગરુપ સધે સીપ સધે લુન્ને ૧૦, સધે મરુપ સધે ગરુપ સધે ઉસિણે સધે

નવ પ્રદેશિક સ્ક-
ન્ધના વર્ગાદિના
મંગો.

૯. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! નવ પ્રદેશિક સ્કંધ કેટલા વર્ણવાલો હોય ?—ઇત્યાદિ પ્રશ્ન. [ઉ૦] હે ગૌતમ ! અષ્ટપ્રદેશિક સ્કંધનાં પેઠે કદાચ એક વર્ણવાલો યાવત્—‘કદાચ ચાર સ્પર્શવાલો હોય છે.’ જો તે એક વર્ણવાલો ઇત્યાદિ હોય તો એક, બે, ત્રણ અને ચાર વર્ણના માંગાઓ અષ્ટપ્રદેશિક સ્કંધની પેઠે જાણવા. હવે જો તે પાચવર્ણવાલો હોય તો કદાચ એક દેશ કાલો, લીલો, રાતો, પીલો અને ધોલો હોય ૧, કદાચ એક દેશ કાલો, લીલો, રાતો, પીલો અને અનેક દેશો ધોલો હોય ૨, એ પ્રમાણે ક્રમ પૂર્વક એકત્રીશ માંગાઓ કહેવા. યાવત્—કદાચ તેના અનેક દેશો કાલો, લીલો, રાતો, પીલો અને એક દેશ ધોલો હોય ૩. એ પ્રમાણે એકત્રીશ માંગા જાણવા. એ વર્ણને આશ્રયી અસંયોગી ૫, દ્વિકસંયોગી ૪૦, ત્રિકસંયોગી ૮૦, ચતુઃસંયોગી ૮૦ અને પંચસંયોગી ૩૧—વધા મઝીને વસો ને છત્રીશ માંગા થાય છે. ગંધસંધે અષ્ટપ્રદેશિકની જેમ કહેવું. રસ સંધે પોતાના વર્ણની જેમ જાણવું અને સ્પર્શ સંધે ચતુષ્પ્રદેશિક સ્કંધની પેઠે કહેવું. [એ પ્રમાણે નવપ્રદેશિક સ્કંધને આશ્રયી વર્ણના ૨૩૬, ગંધના ૬, રસના ૨૩૬ અને સ્પર્શના ૩૬, સર્વ મઝીને ૫૧૪ માંગાઓ થાય છે.]

નવ પ્રદેશિક સ્ક-
ન્ધના વર્ગાદિને આ-
શ્રયી ૫૧૪ મંગો.

દશ પ્રદેશિક સ્ક-
ન્ધના વર્ગાદિના
મંગો.

૧૦. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! દશપ્રદેશિક સ્કંધ સંધે પ્રશ્ન. [ઉ૦] હે ગૌતમ ! નવપ્રદેશિક સ્કંધની પેઠે કદાચ એક વર્ણવાલો હોય, યાવત્—કદાચ ચાર સ્પર્શવાલો હોય. જો તે એક વર્ણવાલો ઇત્યાદિ હોય તો, એક, બે, ત્રણ અને ચાર વર્ણ સંધે નવપ્રદેશિક સ્કંધની જેમ કહેવું. જો તે પાચ વર્ણવાલો હોય તો પણ નવપ્રદેશિકની પેઠે જ જાણવું. પણ વિશેષ એ કે, અહિં ‘વત્રીશમો ભાગો અધિક કહેવો. એ પ્રમાણે અનંયોગી ૫, દ્વિકસંયોગી ૪૦, ત્રિકસંયોગી ૮૦, ચતુઃસંયોગી ૮૦ અને પંચસંયોગી ૩૨—વધા મઝીને વસોને સાડત્રીશ માંગા થાય છે. ગંધ સંધે નવપ્રદેશિક સ્કંધની પેઠે માંગા કહેવા. રસના માંગા પોતાના વર્ણની પેઠે જાણવા. અને સ્પર્શ સંધે માંગા ચતુષ્પ્રદેશિકની પેઠે જાણવા. [એ પ્રમાણે દશપ્રદેશિક સ્કંધને આશ્રયી વર્ણના ૨૩૭, ગંધના ૬, રસના ૨૩૭, અને સ્પર્શના ૩૬. વધા મઝીને ૫૧૬ માંગાઓ થાય છે.] જેમ દશપ્રદેશિક સ્કંધ કહ્યો તેમ સત્યાતપ્રદેશિક, અસંધ્યાતપ્રદેશિક અને સૂહમપરિણામવાલો અનંતપ્ર-દેશિક સ્કંધ પણ જાણવો.

દશ પ્રદેશિક સ્ક-
ન્ધના ૫૧૬ મંગો

અનંત પ્રદેશિક
સ્થૂલ પરિણામવાળા
સ્કંધના વર્ગાદિના
મંગો.

૧૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! વાદરપરિણામવાલો (સ્થૂલ) અનંતપ્રદેશિક સ્કંધ કેટલા વર્ણવાલો હોય ?—ઇત્યાદિ પ્રશ્ન. [ઉ૦] હે ગૌતમ ! અટ્ટારસા શતકમાં કહ્યા પ્રમાણે યાવત્—‘તે કદાચ આઠ સ્પર્શવાલો પણ કહ્યો છે’ ત્યા સુધી જાણવું. તેના વર્ણ, ગંધ અને રસના માંગાઓ દશપ્રદેશિક સ્કંધની પેઠે જાણવા. હવે જો તે ચારસ્પર્શવાલો હોય તો, કદાચ સર્વ કર્કશ, સર્વ ગુરુ, સર્વ શીત અને સર્વ ક્લિગ્ધ હોય ૧, કદાચ સર્વ કર્કશ, સર્વ ગુરુ, સર્વ શીત અને સર્વ રુદ્ધ હોય ૨, કદાચ સર્વ કર્કશ, સર્વ ગુરુ, સર્વ ઉષ્ણ અને સર્વ ક્લિગ્ધ હોય ૩, કદાચ સર્વ કર્કશ, સર્વ ગુરુ, સર્વ ઉષ્ણ અને સર્વ રુદ્ધ હોય ૪, કદાચ સર્વ કર્કશ, સર્વ લઘુ, સર્વ શીત અને સર્વ ક્લિગ્ધ હોય ૫, કદાચ સર્વ કર્કશ, સર્વ લઘુ, સર્વ શીત અને સર્વ રુદ્ધ હોય ૬, કદાચ સર્વ કર્કશ, સર્વ લઘુ, સર્વ ઉષ્ણ અને સર્વ ક્લિગ્ધ હોય ૭, કદાચ સર્વ કર્કશ, સર્વ લઘુ, સર્વ ઉષ્ણ અને સર્વ રુદ્ધ હોય ૮, કદાચ સર્વ મૃદુ—ક્રોમઝ, સર્વ ગુરુ, સર્વ શીત અને સર્વ ક્લિગ્ધ હોય ૯, કદાચ

૧૦ * અનેક દેશો કાલો, લીલો, રાતો, પીલો અને ધોલો હોય છે ૩૨.

૧૧ † મગ. સં. ૪ શ. ૧૮ સ. ૬ પૃ. ૬૪.

निद्धे ११, सध्वे मउए सध्वे गरुए सध्वे उसिणे सध्वे लुक्खे १२, सध्वे मउए सध्वे लहुए सध्वे सीए सध्वे निद्धे १३, सध्वे मउए सध्वे लहुए सध्वे सीए सध्वे लुक्खे १४, सध्वे मउए सध्वे लहुए सध्वे उसिणे सध्वे निद्धे १५, सध्वे मउए सध्वे लहुए सध्वे उसिणे सध्वे लुक्खे १६ । एए सोलस भंगा ।

जइ पंचफासे सध्वे कक्खडे सध्वे गरुए सध्वे सीए देसे निद्धे देसे लुक्खे १, सध्वे कक्खडे सध्वे गरुए सध्वे सीए देसे निद्धे देसा लुक्खा २, सध्वे कक्खडे सध्वे गरुए सध्वे सीए देसा निद्धा देसे लुक्खे ३, सध्वे कक्खडे सध्वे गरुए सध्वे सीए देसा निद्धा देसा लुक्खा ४, सध्वे कक्खडे सध्वे गरुए सध्वे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे ४, सध्वे कक्खडे सध्वे लहुए सध्वे सीए देसे निद्धे देसे लुक्खे ४, सध्वे कक्खडे सध्वे लहुए सध्वे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे ४, एवं एए कक्खडेणं सोलस भंगा । सध्वे मउए सध्वे गरुए सध्वे सीए देसे निद्धे देसे लुक्खे ४, एवं मउएण वि सोलस भंगा, एवं वत्तीसं भंगा । सध्वे कक्खडे सध्वे गरुए सध्वे निद्धे देसे सीए देसे उसिणे ४, सध्वे कक्खडे सध्वे गरुए सध्वे लुक्खे देसे सीए देसे उसिणे ४, एए वत्तीसं भंगा । सध्वे कक्खडे सध्वे सीए सध्वे निद्धे देसे गरुए देसे लहुए, एत्थ वि वत्तीसं भंगा, सध्वे गरुए सध्वे सीए सध्वे निद्धे देसे कक्खडे देसे मउए, एत्थ वि वत्तीसं भंगा, एवं सध्वे ते पंचफासे अट्टावीसं भंगसयं भवति ।

जइ छफासे सध्वे कक्खडे सध्वे गरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे १, सध्वे कक्खडे सध्वे गरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसा लुक्खा २, एवं जाव—सध्वे कक्खडे सध्वे गरुए देसा सीया देसा उसिणा देसा निद्धा देसा लुक्खा १६, एए सोलस भंगा । सध्वे कक्खडे सध्वे लहुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एत्थ वि सोलस भंगा । सध्वे मउए सध्वे गरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एत्थ वि । सध्वे मउए सध्वे लहुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एत्थ वि सोलस भंगा, एए चउसार्द्धं भंगा । सध्वे कक्खडे सध्वे सीए देसे गरुए देसे लहुए देसे निद्धे देसे लुक्खे, एवं जाव—सध्वे मउए सध्वे उसिणे देसा गरुया देसा लहुया देसा णिद्धा देसा लुक्खा,

सर्वं मृदु, सर्वं गुरु, सर्वं शीत अने सर्वं रुक्ष होय १०, कदाच सर्वं मृदु, सर्वं गुरु, सर्वं उष्ण अने सर्वं स्निग्ध होय ११, कदाच सर्वं मृदु, सर्वं गुरु, सर्वं उष्ण अने सर्वं रुक्ष होय १२, कदाच सर्वं मृदु, सर्वं लघु, सर्वं शीत अने सर्वं स्निग्ध होय १३, कदाच सर्वं मृदु, सर्वं लघु, सर्वं शीत अने सर्वं रुक्ष होय १४, कदाच सर्वं मृदु, सर्वं लघु, सर्वं उष्ण अने सर्वं स्निग्ध होय १५, कदाच सर्वं मृदु, सर्वं लघु, सर्वं उष्ण अने सर्वं रुक्ष होय १६. ए सोळ भांगाओ जाणवा.

हवे जो ते पाचस्पर्शवाळो होय तो (१) सर्वं कर्कश, सर्वं गुरु, सर्वं शीत, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय १, अथवा सर्वं कर्कश, सर्वं गुरु, सर्वं शीत, एक देश स्निग्ध अने अनेक देशो रुक्ष होय २, अथवा सर्वं कर्कश, सर्वं गुरु, सर्वं शीत, अनेक देशो स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय ३, अथवा सर्वं कर्कश, सर्वं गुरु, सर्वं शीत, अनेक देशो स्निग्ध अने अनेक देशो रुक्ष होय ४, अथवा (२) कदाच सर्वं कर्कश, सर्वं गुरु, सर्वं उष्ण, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय ४, [अहिं उपर प्रमाणे चार भागा जाणवा.] (३) सर्वं कर्कश, सर्वं लघु, सर्वं शीत, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय ४, (४) कदाच सर्वं कर्कश, सर्वं लघु, सर्वं उष्ण, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय ४. ए प्रमाणे कर्कशानी साथे सोळ भागा थया. अथवा सर्वं मृदु, सर्वं गुरु, सर्वं शीत, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय १६. अहिं मृदुनी साथे पण कर्कशानी पेठे सोळ भागा करवा. ए रीते वधा मळीने वत्रीश भागा थाय छे. अथवा सर्वं कर्कश, सर्वं गुरु, सर्वं स्निग्ध एक देश शीत अने एक देश उष्ण १६, अथवा सर्वं कर्कश, सर्वं गुरु, सर्वं रुक्ष, एक देश शीत अने एक देश उष्ण १६, ए वधा मळीने वत्रीश भांगा जाणवा. कदाच सर्वं कर्कश, सर्वं शीत, सर्वं स्निग्ध, एक देश गुरु अने एक देश लघु. अहिं पण वत्रीश भागा करवा. अथवा कदाच सर्वं गुरु, सर्वं शीत, सर्वं स्निग्ध, एक देश कर्कश अने एक देश मृदु ३२. अहिं पण वत्रीश भांगा करवा. ए प्रमाणे वधा मळीने पांच स्पर्शना एकसोने अठ्यावीश भांगा थाय छे.

पाच स्पर्शना भंगो.

हवे जो ते छ स्पर्शवाळो होय तो (१) सर्वं कर्कश, सर्वं गुरु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय १, कदाच सर्वं कर्कश, सर्वं गुरु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध अने अनेक देशो रुक्ष होय २, ए प्रमाणे यावत्—सर्वं कर्कश, सर्वं गुरु, अनेक देशो शीत, अनेक देशो उष्ण, अनेक देशो स्निग्ध अने अनेक देशो रुक्ष होय १६. ए प्रमाणे सोळ भागा करवा. (२) कदाच सर्वं कर्कश, सर्वं लघु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय १६. अहिं पण सोळ भांगा कहेवा. (३) कदाच सर्वं मृदु, सर्वं गुरु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय १६. अहिं पण सोळ भांगा कहेवा. (४) कदाच सर्वं मृदु, सर्वं लघु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय १६. अहिं पण सोळ भागा कहेवा. ए वधा मळीने चोसठ भागा थाय छे. अथवा कदाच सर्वं कर्कश, सर्वं शीत, एक देश गुरु, एक देश लघु, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय. ए प्रमाणे यावत्—सर्वं मृदु, सर्वं उष्ण, अनेक देशो गुरु, अनेक देशो लघु, अनेक देशो स्निग्ध अने अनेक देशो रुक्ष होय. अहिं चोसठ भागा जाणवा. कदाच सर्वं कर्कश, सर्वं स्निग्ध, एक देश गुरु, एक

छ स्पर्शना भंगो.

पत्य वि चउसार्द्धिं भंगा । सधे कम्पडे सधे निद्धे देसे गरुप देसे लहुप देसे सीप देसे उसिणे १, जाव-सधे मउप सधे लुम्पे देसा गरुया देसा लहुया देसा सीया देसा उसिणा, एण चउसार्द्धिं भंगा । सधे गरुप सधे सीप देसे कम्पडे देसे मउप देसे निद्धे देसे लुम्पे, एवं जाव-सधे लहुप सधे उसिणे देसा कम्पडा देसा मउया देसा निद्धा देसा लुम्पा, एण चउसार्द्धिं भंगा । सधे गरुप सधे निद्धे देसे कम्पडे देसे मउप देसे सीप देसे उसिणे, जाव-सधे लहुप सधे लुम्पे देसा कम्पडा देसा मउया देसा सीया देसा उसिणा, एण चउसार्द्धिं भंगा । सधे सीप सधे निद्धे देसे कम्पडे देसे मउप देसे गरुप देसे लहुप, जाव-सधे उसिणे सधे लुम्पे देसा कम्पडा देसा मउया देसा गरुया देसा लहुया, एण चउसार्द्धिं भंगा । सधे ते छफासे तिद्धि चउरासीया भंगसया भवंति ३८४ ।

जइ सत्तफासे सधे कम्पडे देसे गरुप देसे लहुप देसे सीप देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुम्पे १, सधे कम्पडे देसे गरुप देसे लहुप देसे सीप देसे उसिणे देसा निद्धा देसा लुम्पा ४, सधे कम्पडे देसे गरुप देसे लहुप देसे सीप देसा उसिणा देसे निद्धे देसे लुम्पे ४, सधे कम्पडे देसे गरुप देसे लहुप देसा सीया देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुम्पे ४, सधे कम्पडे देसे गरुप देसे लहुप देसा सीया देसा उसिणा देसे निद्धे देसे लुम्पे । सधे ते सोलस भंगा भाणियघा । सधे कम्पडे देसे गरुप देसा लहुया देसे सीप देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुम्पे, एवं गरुपणं एणत्तेणं लहुपणं पुहुत्तेणं पत्ते वि सोलस भंगा । सधे कम्पडे देसा गरुया देसे लहुप देसे सीप देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुम्पे, एण वि सोलस भंगा भाणियघा । सधे कम्पडे देसा गरुया देसा लहुया देसे सीप देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुम्पे, एण वि सोलस भंगा भाणियघा । एवमेते चउसार्द्धिं भंगा कम्पडेणं समं । सधे मउप देसे गरुप देसे लहुप देसे सीप देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुम्पे । एवं मउपण वि समं चउसार्द्धिं भंगा भाणियघा । सधे गरुप देसे कम्पडे देसे मउप देसे सीप देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुम्पे । एवं गरुपण वि समं चउसार्द्धिं भंगा कायघा । सधे लहुप देसे कम्पडे देसे मउप देसे सीप देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुम्पे । एवं लहुपण वि समं चउसार्द्धिं भंगा कायघा । सधे सीप देसे कम्पडे देसे मउप देसे गरुप देसे लहुप देसे निद्धे देसे लुम्पे । एवं सीतेण वि समं चउसार्द्धिं भंगा कायघा । सधे उसिणे देसे कम्पडे देसे मउप देसे गरुप देसे लहुप देसे निद्धे देसे

देश लघु, एक देश शीत अने एक देश उष्ण होय, यावत्-कदाच सर्वं मृदु, सर्वं रुक्ष, अनेक देशो गुरु, अनेक देशो लघु, अनेक देशो शीत अने अनेक देशो उष्ण होय. ए प्रमाणे अहिं पण चोसठ भागा करवा. कदाच सर्वं गुरु, सर्वं शीत, एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय, ए प्रमाणे यावत्-सर्वं लघु, सर्वं उष्ण, अनेक देशो कर्कश, अनेक देशो मृदु, अनेक देशो स्निग्ध अने अनेक देशो रुक्ष होय. ए प्रमाणे चोसठ भागा समजवा. कदाच सर्वं गुरु, सर्वं स्निग्ध, एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश शीत अने एक देश उष्ण होय, यावत्-कदाच सर्वं लघु, सर्वं रुक्ष, अनेक देशो कर्कश, अनेक देशो मृदु, अनेक देशो शीत अने अनेक देशो उष्ण होय. ए प्रमाणे अहिं पण चोसठ भागा जाणवा. कदाच सर्वं शीत, सर्वं स्निग्ध, एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश गुरु अने एक देश लघु होय, यावत्-कदाच सर्वं उष्ण, सर्वं रुक्ष, अनेक देशो कर्कश, अनेक देशो मृदु, अनेक देशो गुरु अने अनेक देशो लघु होय. ए प्रमाणे अहिं पण चोसठ भागा जाणवा. ते वधा मळीने छ स्पर्श संवधे ३८४ भागा थाय छे.

नात स्वर्शना भगो.

हवे जो ते सात स्पर्शाळो होय तो (१) सर्वं कर्कश, एक देश गुरु, एक देश लघु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय १, कदाच सर्वं कर्कश, एक देश गुरु, एक देश लघु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, अनेक देशो स्निग्ध अने अनेक देशो रुक्ष होय ४. [ए प्रमाणे चार भागा करवा]. (२) कदाच सर्वं कर्कश, एक देश गुरु, एक देश लघु, एक देश शीत, अनेक देशो उष्ण, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय ४. [अहिं पण चार भागा करवा]. (३) कदाच सर्वं कर्कश, एक देश गुरु, एक देश लघु, अनेक देशो शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय ४. (४) कदाच सर्वं कर्कश, एक देश गुरु, एक देश लघु, अनेक देशो शीत, अनेक देशो उष्ण, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय ४. ए वधा मळीने सोळ भागा कहेवा. (२) कदाच सर्वं कर्कश, एक देश गुरु, अनेक देशो लघु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय. ए प्रमाणे 'गुरु' पद एक वचनमा अने 'लघु' पदने अनेक वचनमा राखी उपरना ज सोळ भांगा अहिं पण कहेवा १६. (३) कदाच सर्वं कर्कश, अनेक देशो गुरु, एक देश लघु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय १६. अहिं पण सोळ भागा कहेवा. (४) कदाच सर्वं कर्कश, अनेक देशो गुरु, अनेक देशो लघु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय १६. ए पण सोळ भागा कहेवा. (१) ए प्रमाणे ए चोसठ भागा 'कर्कश' साथे कहा ६४. (२) कदाच सर्वं मृदु, एक देश गुरु, एक देश लघु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष होय. ए प्रमाणे 'मृदु'नी साथे पण चोसठ भागा करवा. (३) कदाच सर्वं गुरु, एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध अने एक देश रुक्ष. ए प्रमाणे 'गुरु'नी साथे पण चोसठ भागा कहेवा. (४) कदाच सर्वं लघु, एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश

लुक्के । एवं उस्तिणेण वि समं चउसट्ठिं भंगा कायघा । सधे निद्धे देसे कक्खडे देसे मउए देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उस्तिणे । एवं निद्धेण वि चउसट्ठिं भंगा कायघा । सधे लुक्के देसे कक्खडे देसे मउए देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उस्तिणे । एवं लुक्केण वि समं चउसट्ठिं भंगा कायघा जाव—सधे लुक्के देसा कक्खडा देसा मउया देसा गरुया देसा लहुया देसा सीया देसा उस्तिणा । एवं सत्तफासे पंच वारसुत्तरा भंगसया भवंति । १५

जइ अट्टफासे देसे कक्खडे देसे मउए देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उस्तिणे देसे निद्धे देसे लुक्के ४, देसे कक्खडे देसे मउए देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसा उस्तिणा देसे निद्धे देसे लुक्के ४, देसे कक्खडे देसे मउए देसे गरुए देसे लहुए देसा सीया देसे उस्तिणे देसे निद्धे देसे लुक्के ४, देसे कक्खडे देसे मउए देसे गरुए देसे लहुए देसा उस्तिणा देसे निद्धे देसे लुक्के ४, एए चत्तारि चउक्का सोलस भंगा । देसे कक्खडे देसे मउए देसे गरुए देसा लहुया देसे सीए देसे उस्तिणे देसे निद्धे देसे लुक्के, एवं एते गरुएणं एगत्तएणं लहुएणं पुहत्तएणं सोलस भंगा कायघा । देसे कक्खडे देसे मउए देसा गरुया देसे लहुए देसे सीए देसे उस्तिणे देसे निद्धे देसे लुक्के ४ । एए वि सोलस भंगा कायघा । देसे कक्खडे देसे मउए देसा गरुया देसा लहुया देसे सीए देसे उस्तिणे देसे निद्धे देसे लुक्के । एते वि सोलस भंगा कायघा । सधे वि ते चउसट्ठिं भंगा कक्खड—मउएहिं एगत्तएहिं । ताहे कक्खडेणं एगत्तएणं मउएणं पुहत्तेणं एते चउसट्ठिं भंगा कायघा । ताहे कक्खडेणं पुहत्तएणं मउएणं एगत्तएणं चउसट्ठिं भंगा कायघा । ताहे एतेहिं चेष दोहि वि पुहुत्तेहिं चउसट्ठिं भंगा कायघा जाव—‘देसा कक्खडा देसा मउया देसा गरुया देसा लहुया देसा सीया देसा उस्तिणा देसा निद्धा देसा लुक्खा’ एतो अपच्छिमो भंगो । सधे ते अट्टफासे दो छप्पन्ना भंगसया भवंति । एवं एते वादरपरिणए अणंतपरिसिप खंधे सधेसु संजोएसु वारस छन्नउया भंगसया भवंति ।

शीत, एक देश उष्ण, एक देश क्षिग्ध अने एक देश रुक्ष होय. ए प्रमाणे ‘लघु’नी साथे पण चोसठ भांगा कहेवा. (५) कदाच सर्व शीत, एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश गुरु, एक देश लघु, एक देश क्षिग्ध अने एक देश रुक्ष होय. ए प्रमाणे ‘शीत’नी साथे पण चोसठ भागा कहेवा. (६) कदाच सर्व उष्ण, एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश गुरु, एरु देश लघु, एक देश क्षिग्ध अने एक देश रुक्ष होय. ए प्रमाणे ‘उष्ण’नी साथे पण चोसठ भागा कहेवा. (७) कदाच सर्व क्षिग्ध, एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश गुरु, एक देश लघु, एक देश शीत, अने एक देश उष्ण होय. ए प्रमाणे ‘क्षिग्ध’नी साथे पण चोसठ भागा कहेवा. (८) कदाच सर्व रुक्ष, एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश गुरु, एक देश लघु, एक देश शीत अने एक देश उष्ण होय. ए प्रमाणे ‘रुक्ष’ साथे पण चोसठ भागा करवा. यावत्—सर्व रुक्ष, अनेक देशो मृदु, अनेक देशो गुरु, अनेक देशो लघु, अनेक देशो शीत अने अनेक देशो उष्ण होय ६४. ए रीते वधा मळीने सात स्पर्शाना पाचसोने वार भांगा घाय छे.

जो ते आठ स्पर्शावाळो होय तो (१) कदाच एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश गुरु, एक देश लघु, एक देश शीत, एरु देश उष्ण, एक देश क्षिग्ध अने एक देश रुक्ष होय ४. [अहिं चार भांगा करवा.] (२) कदाच एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश गुरु, एक देश लघु, एक देश शीत, अनेक देशो उष्ण, एक देश क्षिग्ध अने एक देश रुक्ष होय ४, (३) कदाच एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश गुरु, एक देश लघु, अनेक देशो शीत, एक देश उष्ण, एक देश क्षिग्ध अने एक देश रुक्ष होय ४. [अहिं पण चार भागा करवा.] (४) कदाच एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश गुरु, एक देश लघु, अनेक देशो शीत, अनेक देशो उष्ण, एरु देश क्षिग्ध अने एक देश रुक्ष होय ४. ए प्रमाणे चार चतुष्कना सोळ भांगा करवा. (२) कदाच एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश गुरु, अनेक देशो लघु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश क्षिग्ध अने एक देश रुक्ष होय. ए प्रमाणे ‘गुरु’ ने एक वचनमा अने ‘लघु’ने बहुवचनमा राखी (उपरना ज) सोळ भागा करवा १६. (३) कदाच एक देश कर्कश, एक देश मृदु, अनेक देशो गुरु, एक देश लघु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश क्षिग्ध अने एक देश रुक्ष होय. ए प्रमाणे अहिं पण मोळ भागा करवा. (४) कदाच एक देश कर्कश, एक देश मृदु, अनेक देशो गुरु, अनेक देशो लघु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश क्षिग्ध अने एक देश रुक्ष होय. अहिं पण सोळ भांगा करवा. ए वधा मळीने चोसठ भागा ‘कर्कश अने मृदु’ ने एक वचनमा राखणी घाव. (२) तेमा कर्कशने एक वचनमा अने मृदुने अनेक वचनमा राखी एज प्रमाणे वीजा चोसठ भागा करवा. वळी तेमां (३) कर्कशने बहुवचनमा अने मृदुने एक वचनमा राखी पुनः चोसठ भागा करवा. वळी पण (४) कर्कश अने मृदु वळेने बहुवचनमा राखी वीजा चोसठ भागा करवा. यावत्—अनेक देशो कर्कश, अनेक देशो मृदु, अनेक देशो गुरु, अनेक देशो लघु, अनेक देशो शीत, अनेक देशो उष्ण, अनेक देशो क्षिग्ध अने अनेक देशो रुक्ष होय ६४. ए छेडो भागो छे. ए वधा मळीने आठ स्पर्शाना वसो ने छप्पन्न भागा घाय छे. ए प्रमाणे वादर-परिणामवाळा अणंतप्रदेशिक स्क्ंधमां स्पर्शाना सर्व संयोगोने आश्रयी [चतुःसयोगी १६, पंचसंयोगी १२८, छत्संयोगी ३८४, सप्तसंयोगी ५१२ अने अष्टसंयोगी २५६—] वधा मळीने १२९६ भांगा घाय छे.

आठ स्पर्शाना भंगो.

१२. [प्र०] कइविहे भंते ! परमाणू पत्रत्ते ? [उ०] गौयमा ! चउविहे परमाणू पत्रत्ते तंजहा—१ दसपरमाणू, २ अणु, ३ कालपरमाणू, ४ भावपरमाणू ।

१३. [प्र०] दसपरमाणू णं भंते ! कइविहे पत्रत्ते ? [उ०] गौयमा ! चउविहे पत्रत्ते तंजहा—१ अणु, २ अणु, ३ अणु, ४ अणु ।

१४. [प्र०] तेत्तपरमाणू णं भंते ! कइविहे पत्रत्ते ? [उ०] गौयमा ! चउविहे पत्रत्ते तंजहा—१ अणु, २ अणु, ३ अणु, ४ अणु ।

१५. [प्र०] कालपरमाणू-पुच्छा । [उ०] गौयमा ! चउविहे पत्रत्ते, तंजहा—१ अणु, २ अणु, ३ अणु, ४ अणु ।

१६. [प्र०] भावपरमाणू णं भंते ! कइविहे पत्रत्ते ? [उ०] गौयमा ! चउविहे पत्रत्ते तंजहा—१ अणु, २ अणु, ३ अणु, ४ अणु ।

वीसइमे सए पंचमो उद्देशो नमसो ।

परमाणुना चार प्रकार-

१२. [प्र०] हे भगवन् ! परमाणु केटला प्रकारनो कगो छे ! [उ०] हे गौतम ! परमाणु चार प्रकारनो कगो छे, ते आ प्रमाणे—१ द्रव्यपरमाणु, २ क्षेत्रपरमाणु, ३ कालपरमाणु अने ४ भावपरमाणु ।

द्रव्यपरमाणुना प्रकार-

१३. [प्र०] हे भगवन् ! द्रव्यपरमाणु केटला प्रकारनो कगो छे ! [उ०] हे गौतम ! द्रव्यपरमाणु चार प्रकारनो कगो छे, ते आ प्रमाणे—१ अणु, २ अणु, ३ अणु अने ४ अणु ।

क्षेत्रपरमाणुना प्रकार-

१४. [प्र०] हे भगवन् ! क्षेत्रपरमाणु केटला प्रकारनो कगो छे ! [उ०] हे गौतम ! क्षेत्रपरमाणु चार प्रकारनो कगो छे, ते आ प्रमाणे—१ अणु, २ अणु, ३ अणु अने ४ अणु ।

कालपरमाणुना प्रकार-

१५. [प्र०] हे भगवन् ! कालपरमाणु केटला प्रकारनो कगो छे ! [उ०] हे गौतम ! चार प्रकारनो कगो छे, ते आ प्रमाणे—१ अणु, २ अणु, ३ अणु अने ४ अणु ।

भावपरमाणुना प्रकार-

१६. [प्र०] हे भगवन् ! भावपरमाणु केटला प्रकारनो कगो छे ! [उ०] हे गौतम ! चार प्रकारनो कगो छे, ते आ प्रमाणे—१ वर्णालो, २ गंधालो, ३ रसालो अने ४ स्पर्शालो । 'हे भगवन् ! ते एतज छे, हे भगवन् ! ते एतज छे.' एत कगो [भगवन् गौतम] यावत्-विहरे छे ।

वीशमा शतकमां पंचम उद्देशक ममाप्तः ।

छट्ठओ उद्देशो ।

१. [प्र०] पुढविकाइए णं भंते ! इमीसे खणणपमाए य सणणपमाए य पुढवीए अंतरा समोएए, समोहणित्ता जे मविए सोहम्मि कण्णे पुढविकाइएचाए उववज्जित्तए से णं भंते ! किं पुंथि उववज्जित्ता पच्छा आहारेजा पुंथि आहारित्ता

पए उद्देशकः ।

पृथिवीकायिकनु
आहार अने उरप
चित्तु वीर्णापर्य-

१. [प्र०] हे भगवन् ! जे पृथिवीकायिक जीव, आ रत्नप्रभा पृथिवी अने शर्कराप्रभा पृथिवीनी वच्चे ! मरणसमुद्घात करीने सौधर्मक-
ल्पमां पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न यवाने योग्य छे, ते जुं पहेला उत्पन्न थईने पछी आहार करे के पहेला आहार करीने पछी उत्पन्न थाय !
[उ०] हे गौतम ! ते पहेला उत्पन्न थईने पछी आहार करे, अथवा पहेला आहार करीने पछी उत्पन्न थाय—इत्यादि एकीकत 'सत्तरमा

१२ * वर्णादि धर्मनी विवक्षा विवायनो एक परमाणु द्रव्य परमाणु कहेवाय छे, कारण के अर्थ केवल श्रव्यनी ज विवक्षा छे, एक आनारा प्रदेश क्षेत्र परमाणु, समय काल परमाणु अने वर्णादि धर्मना प्राधान्यनी विवक्षा थी भाग परमाणु कहेवाय छे

१४ † परमाणुना समसंख्यावाळा अवयव नथी माटे ते अणु, विपम संख्यावाळा अवयवो नथी माटे अणु, अवयवो नथी माटे अणु अने तेनो विभाग थई शक्तो नथी माटे अविभाग कहेवाय छे ।

१ ‡ अन्तर्मुहूर्तं आयुष काकी होय लारे मरणान्त दु सखी पीठित थयेल जीव पोताना आत्मप्रवेशो वटे मुत्तादि छिद्रोने पूरीने तथा शरीर प्रमाण पहेला अने जाटाड राखी तथा लंगडमा उत्पत्ति स्थानपर्यंत क्षेत्र व्यापीने अन्तर्मुहूर्तमा मरण पाने अने आयुष कर्मना पणा पुद्गलोको धय करे ते मरणसमुद्घात कहेवाय छे कोड एक जीव समुद्घात करीने भवान्तरमा उत्पन्न थाय छे अने ला आहार करे छे अने शरीर थापे छे, कोड जीव समुद्घातथी निवृत्त थई पोताना शरीरमा आवीने फरी समुद्घात करी भवान्तरमा उत्पन्न थाय छे. जुओ भग० रं० २ श० ६ उ० ६ पृ० ३१६.

‡ जीवो देशधी अने सर्वथी एम वै प्रकारे मरणसमुद्घात करे छे, ज्यारे देशधी मरणसमुद्घात करे छे लारे ते मरणसमुद्घातथी निवृत्त थई पूरना शरीरने सर्वथा छोटी दलानी गतिथी जाय छे अने ते प्रथम उत्पन्न थाय छे अने पछी आहार करे छे. पण जे सर्व समुद्घात करे छे ते इच्छिका गतिथी ला जई पछी शरीरनो त्याग करे छे ते थी प्रथम आहार करे छे अने पछी उत्पन्न थाय छे—जुओ भग० रं० ४ श० १७ उ० ६ पृ० ४०.

पच्छा उचवजेजा ? [उ०] गोयमा ! पुर्वि वा उचवज्जित्ता० एवं जहा सत्तरसमसय छट्टुदेसे जाव-से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-‘पुर्वि वा जाव-उचवजेजा’ । नवरं तेहिं संपाउणणा, इमेहिं आहारो भन्नति, सेसं तं चेव ।

२. [प्र०] पुढविकाइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए सक्करप्पभाए य पुढवीए अंतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए ईसाणे कप्पे पुढविकाइयत्ताए उचवज्जित्तए० ? [उ०] एवं चेव, एवं जाव-ईसीपम्भाराए उचवाएयद्यो ।

३. [प्र०] पुढविकाइए णं भंते ! सक्करप्पभाए वालुयप्पभाए य पुढवीए अंतरा समोहते, समोहणित्ता जे भविए सोहम्मे जाव-ईसीपम्भाराए, एवं एतेण कमेणं जाव-तमाए अहेसत्तमाए य पुढवीए अंतरा समोहए समाणे जे भविए सोहम्मे जाव-ईसिपम्भाराए उचवाएयद्यो ।

४. [प्र०] पुढविकाइए णं भंते ! सोहम्मी-साणाणं सणंकुमार-माहिंदाण य कप्पाणं अंतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुढविकाइयत्ताए उचवज्जित्तए से णं भंते ! पुर्वि उचवज्जित्ता पच्छा आहारेजा, सेसं तं चेव जाव-से तेणट्टेणं जाव-णिक्खेवधो ।

५. [प्र०] पुढविकाइए णं भंते ! सोहम्मी-साणाणं सणंकुमार-माहिंदाण य कप्पाणं अंतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए सक्करप्पभाए पुढवीए पुढविकाइयत्ताए उचवज्जित्तए० ? [उ०] एवं चेव, एवं जाव-अहेसत्तमाए उचवाएयद्यो । एवं सणंकुमार-माहिंदाणं वंभलोगस्स य कप्पस्स अंतरा समोहए, समोहणित्ता पुणरवि जाव-अहेसत्तमाए उचवाएयद्यो, एवं वंभलोगस्स लंत-गस्स य कप्पस्स अंतरा समोहए, पुणरवि जाव-अहेसत्तमाए, एवं लंतगस्स महासुक्कस्स कप्पस्स य अंतरा समोहए, पुणरवि जाव-अहेसत्तमाए, एवं महासुक्कस्स सहस्सारस्स य कप्पस्स अंतरा पुणरवि जाव-अहेसत्तमाए, एवं सहस्सारस्स आणय-पाणयकप्पाण य अंतरा पुणरवि जाव-अहेसत्तमाए, एवं आणय-पाणयाणं आरण-अच्चुयाण य कप्पाणं अंतरा पुणरवि जाव-अहेसत्तमाए, एवं आरण-च्चुयाणं गेवेज्जविमाणाण य अंतरा जाव-अहेसत्तमाए, एवं गेवेज्जविमाणाणं अणुत्तरविमाणाण य अंतरा पुणरवि जाव-अहेसत्तमाए, एवं अणुत्तरविमाणाणं ईसीपम्भाराए य पुणरवि जाव-अहेसत्तमाए उचवाएयद्यो १ ।

६. [प्र०] आउक्काइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए सक्करप्पभाए य पुढवीए अंतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए सोहम्मे कप्पे आउकाइयत्ताए उचवज्जित्तए० सेसं जहा पुढविकाइयस्स, जाव-से तेणट्टेणं० । एवं पढम-दोचाणं अंतरा समोहए

शतकना छट्टा उद्देशकमा क्ख्वा प्रमाणे कहेवी. यावत्-ते हेतुथी हे गौतम ! एम कहेवाय छे के-‘ते पहेला उत्पन्न थईने पछी आहार करे, अथवा पहेला आहार करीने पछी उत्पन्न थाय.’ पण विशेष ए के, लां पृथिवीकायिको ‘संप्राप्त करे-पुद्गलप्रहण करे’ ए कयन छे अने अहिं ‘आहार करे’ एम कहेवानुं छे. वाकी वधुं पूर्ववत् जाणवुं.

२. [प्र०] हे भगवन् ! जे पृथिवीकायिक आ रत्नप्रभा अने शर्कराप्रभापृथिवीनी वच्चे मरणसमुद्घात करीने ईशानकल्पमां पृथिवी-कायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते ज़ुं पहेलां उत्पन्न थाय अने पछी आहार करे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्वं प्रमाणे जाणवुं. ए प्रमाणे यावत्-ईपत्त्रागभारा पृथिवी सुधी उपपात कहेवो.

३. [प्र०] हे भगवन् ! जे पृथिवीकायिक शर्कराप्रभा अने वालुकाप्रभा पृथिवीनी वच्चे मरणसमुद्घात करीने सौधर्मकल्पमा यावत्-ईपत्त्रागभारा पृथिवीमा उत्पन्न थवाने योग्य होय-इत्यादि प्रश्न अने उत्तर पूर्ववत् जाणवो. ए प्रमाणे ए क्रमवडे यावत्-तमा अने अध.सप्तम (तमता) पृथिवीनी वच्चे मरणसमुद्घातपूर्वक पृथिवीकायिकनो सौधर्मकल्पमा यावत्-ईपत्त्रागभारा पृथिवीमा उपपात कहेवो.

४. [प्र०] हे भगवन् ! जे पृथिवीकायिक सौधर्म-ईशान अने सनत्कुमार-माहेन्द्रकल्पनी वच्चे मरणसमुद्घात करीने आ रत्नप्रभा-पृथिवीमां पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य होय ते ज़ुं पहेलां उत्पन्न थईने पछी आहार करे के पहेलां आहार करीने पछी उत्पन्न थाय ? [उ०] वधुं पूर्व प्रमाणे जाणवुं. यावत्-ते हेतुथी यावत्-एम कहेवाय छे-इत्यादि उपमहार कहेवो.

५. [प्र०] हे भगवन् ! जे पृथिवीकायिक सौधर्म-ईशान अने सनत्कुमार-माहेन्द्र कल्पनी वच्चे मरणसमुद्घात करीने शर्कराप्रभा पृथिवीमां पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य होय-इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्वं प्रमाणे जाणवुं. ते प्रमाणे यावत्-अध.सप्तम पृथिवी सुधी उपपात कहेवो. एम सनत्कुमार-माहेन्द्र अने ब्रह्मलोक कल्पनी वच्चे मरणसमुद्घात पूर्वक फरीथी रत्नप्रभाथी मांडी यावत्-अध.सप्तम पृथिवी सुधी उपपात कहेवो. एज रीते ब्रह्मलोक अने लातककल्पनी वच्चे मरणसमुद्घात करी पुनः यावत्-अध.सप्तम नरक सुधी, एम लातक अने महाशुक्र कल्पनी वच्चे, महाशुक्र अने सहस्रार कल्पनी वच्चे, सहस्रार अने आनत-प्राणतकल्पनी वच्चे, आनत-प्राणत अने आरण-अच्युतकल्पनी वच्चे, आरण-अच्युत अने त्रैवेयकविमाननी वच्चे, त्रैवेयकविमान अने अनुत्तरविमाननी वच्चे तथा. अनुत्तरविमान अने ईपत्त्रागभारा पृथिवीनी वच्चे मरणसमुद्घात करवा पूर्वक रत्नप्रभाथी आरंगी अध.सप्तम पृथिवी सुधी पृथिवीकायिकनो उपपात कहेवो.

६. [प्र०] हे भगवन् ! जे अष्कायिक आ रत्नप्रभा अने शर्कराप्रभा पृथिवीनी वच्चे मरणसमुद्घात करीने सौधर्मकल्पमां अष्कायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे-इत्यादि वधुं पृथिवीकायिकनी पेठे यावत्-ते हेतुथी यावत्-[पूर्वं आहार करे अने] पछी पण उपजे’ लां सुधी कहेवुं. ए

जाव-ईसीपन्भाराए उववाप्यघो, एवं एणं कमेणं जाव-तमाए अहेसत्तमाए य पुढवीए अंतरा समोहए, समोहणित्ता जाव-ईसीपन्भाराए उववाप्यघो आउक्काइयत्ताए ।

७. [प्र०] आउयाए णं भंते ! सोहम्मी-साणार्णं सणंकुमार-माहिंदाण य कप्पाणं अंतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए घणोदहि-घणोदहिवलएसु आउक्काइयत्ताए उववज्जित्तए० सेसं तं चेव, एवं एणं चैव अंतरा समोहओ जाव-अहेसत्तमाए पुढवीए घणोदहि-घणोदहिवलएसु आउक्काइयत्ताए उववाप्यघो, एवं जाव-अणुत्तरविमाणार्णं ईसिपन्भाराए य पुढवीए अंतरा समोहए जाव-अहेसत्तमाए घणोदहि-घणोदहिवलएसु उववाप्यघो २ ।

८. [प्र०] चाउक्काइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए सफरप्पभाए य पुढवीए अंतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए सोहम्मे कप्पे वाउक्काइयत्ताए उववज्जित्तए० एवं जहा सत्तरसमसए चाउक्काइयउद्देशए तहा इह वि, नवरं अंतरेसु समोहणा नेयत्ता, सेसं तं चेव, जाव-अणुत्तरविमाणार्णं ईसीपन्भाराए य पुढवीए अंतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए घणवाय-तणुवाए घणवाय-तणुवायचलएसु चाउक्काइयत्ताए उववज्जित्तए, सेसं तं चेव, जाव-से तेणट्टेणं जाव-उवव-ज्जेत्ता । 'सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति ।

वीसहमे सए छट्ठओ उद्देशो समत्तो ।

प्रमाणे पहेली अने बीजी पृथिवीनी वच्चे मरणसमुद्घातने प्राप्त थयेळ अष्कायिकनो यावत्-ईप्राग्भारा पृथिवी सुधी उपपात कहेवो. ए प्रमाणे ए क्रम वडे यावत्-तमा अने अधःसप्तम पृथिवीनी वच्चे मरणसमुद्घातने प्राप्त थयेळ अष्कायिकनो यावत्-ईपव्याग्भारा पृथिवी सुधी अष्कायिकपणे उपपात कहेवो.

७. [प्र०] हे भगवन् ! जे अष्कायिक सौधर्म-ईज्ञान अने सनत्कुमार-माहेन्द्रकल्पनी वच्चे मरणसमुद्घात करीने आ रत्नप्रमापृथि-वीमा घनोदधि अने घनोदधिवलयोमा अष्कायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे-इत्यादि वधुं पूर्ववत् कहेवुं. ए प्रमाणे पूर्वे कहेल्या आंतराओमां मरणसमुद्घातने प्राप्त थयेळ अष्कायिकनो अधःसप्तम पृथिवी सुधीना घनोदधि अने घनोदधिवलयोमा अष्कायिकपणे उपपात कहेवो यावत्-अनुत्तर विमान अने ईपव्याग्भारा पृथिवीनी वच्चे मरणसमुद्घातने प्राप्त थयेळ अष्कायिकनो यावत्-सातमी पृथिवी सुधी घनोदधि अने घनोदधिवलयोमा अष्कायिकपणे उपपात कहेवो.

वायुकायिक.

८. [प्र०] हे भगवन् ! जे वायुकायिक आ रत्नप्रमा अने शर्कराप्रमा पृथिवीनी वच्चे मरणसमुद्घात करीने सौधर्मकल्पमा वायुकायि-कपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] जेम *सत्तरमा शतकना वायुकायिक उद्देशकमां कहुं छे ते प्रमाणे अहिं पण कहेवुं विशेष ए के, रत्नप्रमादि पृथिवीओना आतरामां मरण समुद्घातसंघने कहेवुं. वाकी वधुं पूर्ववत् जाणवुं. ए प्रमाणे यावत्-अनुत्तर विमान अने ईपव्याग्भारा पृथिवीनी वच्चे मरणसमुद्घात करीने जे वायुकायिक घनवात अने तनुवातमा तथा घनवात अने तनुवातना वलयोम वायुकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य होय-इत्यादि वाकीवुं वधुं पूर्ववत् कहेवुं. यावत्-ते हेतुपी यावत्-‘उत्पन्न थाय.’ हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे’-एम कही यावत्-विहरे छे.

वीशमा शतकमां छट्टो उद्देशक समाप्त.

सत्तमो उद्देशो ।

१. [प्र०] कइविहे णं भंते ! वंधे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! तिविहे वंधे पन्नत्ते, तं जहा-१ जीवप्पयोगबंधे, २ अणं-तरबंधे, ३ परंपरबंधे ।

२. [प्र०] नेरइयाणं भंते ! कइविहे वंधे पन्नत्ते ? [उ०] एवं चेव, एवं जाव-चेमाणियाणं ।

सप्तम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! वंध केटला प्रकारनो कहो छे ? [उ०] हे गौतम ! वंध त्रण प्रकारनो कहो छे, ते आ प्रमाणे-‘जीव-प्रयोगबंध, अन्तरबंध अने परंपरबंध.

२. [प्र०] हे भगवन् ! नेरयिकोने केटला प्रकारनो वंध कहो छे ? [उ०] पूर्व प्रमाणे जाणवुं. एम यावत्-वैमानिको सुधी कहेवुं.

८ * भग० सं० ४ श० १७ उ० १०-११ पृ० ४२

१ † जीवना प्रयोग-मन, वचन अने कायना व्यापार-वडे कर्मपुद्गलोने आत्मानो साथे सवन्ध अयो ते जीवप्रयोग वन्ध कर्मपुद्गलोने वन्ध थया पछीना समये जे वन्ध ते अनन्तर वन्ध कहेवाय छे अने तार पछी द्वितीयादि समये जे वन्ध ते परंपर वन्ध कहेवाय छे

३. [प्र०] नाणावरणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स कइविहे वंधे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! तिविहे वंधे पन्नत्ते, तंजहा—जीवप्पयोगबंधे, अणंतरबंधे, परंपरबंधे ।

४. [प्र०] नेरइयाणं भंते ! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कइविहे वंधे पन्नत्ते ? [उ०] एवं चेव, एवं जाव—वेमाणियाणं, एवं जाव—अंतराइयस्स ।

५. [प्र०] नाणावरणिज्जोदयस्स णं भंते ! कम्मस्स कइविहे वंधे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! तिविहे वंधे पन्नत्ते एवं चेव, एवं नेरइयाण वि, एवं जाव—वेमाणियाणं, एवं जाव—अंतराइउदयस्स ।

६. [प्र०] इत्थीवेदस्स णं भंते ! कइविहे वंधे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! तिविहे वंधे पन्नत्ते एवं चेव ।

७. [प्र०] असुरकुमाराणं भंते ! इत्थीवेदस्स कतिविहे वंधे पन्नत्ते ? [उ०] एवं चेव, एवं जाव—वेमाणियाणं, नवरं जस्स इत्थिवेदो अत्थि, एवं पुरिसवेदस्स वि, एवं नपुंसगवेदस्स वि, जाव—वेमाणियाणं, नवरं जस्स जो अत्थि वेदो ।

८. [प्र०] दंसणमोहणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स कइविहे वंधे पन्नत्ते ? [उ०] एवं चेव, निरंतरं जाव—वेमाणियाणं । एवं चरित्तमोहणिज्जस्स वि जाव—वेमाणियाणं । एवं एपणं क्रमेणं ओरालियसरीरस्स जाव—कम्मगसरीरस्स, आहारसन्नाए जाव—परिगहसन्नाए, कणहलेसाए जाव—सुकलेसाए, सम्मदिट्ठीए मिच्छादिट्ठीए सम्मामिच्छादिट्ठीए, आभिणिवोहियणाणस्स जाव—केवलनाणस्स, महअन्नाणस्स, सुयअन्नाणस्स, विभंगनाणस्स, एवं आभिणिवोहियणाणविसयस्स भंते ! कइविहे वंधे पन्नत्ते, जाव—केवलनाणविसयस्स महअन्नाणविसयस्स सुयअन्नाणविसयस्स विभंगणाणविसयस्स एएसिं सव्वेसिं पदाणं तिविहे वंधे पन्नत्ते । सव्वे पत्ते चउट्ठीसं दंडगा भाणियद्धा, नवरं जाणियधं जस्स जं अत्थि । जाव—[प्र०] वेमाणियाणं भंते ! विभंगणाण-

३. [प्र०] हे भगवन् ! ज्ञानावरणीय कर्मनो बंध केटला प्रकारनो कह्यो छे ? [उ०] हे गौतम ! त्रण प्रकारनो कह्यो छे, ते आ प्रमाणे—१ जीवप्रयोगबंध, २ अनंतरबंध अने ३ परंपरबंध.

ज्ञानावरणीय कर्मनो बन्ध.

४. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिकोने ज्ञानावरणीय कर्मनो बंध केटला प्रकारनो कह्यो छे ? [उ०] पूर्व प्रमाणे जाणवुं. ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी ज्ञानावरणीयनो बंध कहेवो. ए रीते यावत्—अतराय कर्मनो बंध पण जाणवो.

५. [प्र०] हे भगवन् ! *ज्ञानावरणीयोदय (उदयप्राप्त ज्ञानावरणीय) कर्मनो बंध केटला प्रकारनो कह्यो छे ? [उ०] हे गौतम ! पूर्वनी पेठे त्रण प्रकारनो कह्यो छे. ए प्रमाणे नैरयिको अने यावत्—वैमानिकोने पण बंध कहेवो. एम यावत्—अंतरायोदय कर्मनो बंध पण जाणवो.

ज्ञानावरणीयोदय कर्मनो बन्ध.

६. [प्र०] हे भगवन् ! (उदय प्राप्त) स्त्रीवेदनो बंध केटला प्रकारनो कह्यो छे ? [उ०] हे गौतम ! पूर्व प्रमाणे त्रण प्रकारनो कह्यो छे.

स्त्रीवेदनो बन्ध.

७. [प्र०] हे भगवन् ! असुरकुमारोने (उदय प्राप्त) स्त्रीवेदनो बंध केटला प्रकारनो कह्यो छे ? [उ०] हे गौतम ! पूर्वनी पेठे त्रण प्रकारनो कह्यो छे, ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी जाणवुं. विशेष ए के, जेने स्त्रीवेद होय तेने ते कहेवो. एम पुरुषवेद अने नपुंसकवेद संबंधे पण ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी कहेवुं. विशेष ए के जेने जे वेद होय तेने ते कहेवो.

८. [प्र०] हे भगवन् ! दर्शनमोहनीयकर्मनो बंध केटला प्रकारनो कह्यो छे ? [उ०] हे गौतम ! पूर्व प्रमाणे त्रण प्रकारनो कह्यो छे. ए प्रमाणे निरंतर यावत्—वैमानिको सुधी कहेवुं. तथा ए रीते चारित्रमोहनीय संबंधे पण यावत्—वैमानिको सुधी कहेवुं. ए क्रम वडे औदारिकशरीर, यावत्—कार्मणशरीरनो, आहार, संज्ञा, यावत्—परिग्रह संज्ञानो, कृष्णलेस्या, यावत्—शुक्ललेस्यानो, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि अने सम्यग्मिथ्यादृष्टिनो, मतिज्ञाननो, यावत्—केवलज्ञाननो, मतिअज्ञाननो, श्रुतअज्ञाननो अने विभंगज्ञाननो, तथा ए प्रमाणे मतिज्ञानना विपयनो, यावत्—केवलज्ञानना विपयनो, मतिअज्ञानना विपयनो, श्रुतअज्ञानना विपयनो, अने विभंगज्ञानना विपयनो, ए वधानो बंध हे भगवन् ! केटला प्रकारनो कह्यो छे ? [उ०] ए वधानो बंध त्रण प्रकारनो कह्यो छे, अने ते वधा संबंधे चोवीश चोवीश दंडको कहेवा. विशेष ए के, जेने जे होय ते तेने कहेवुं. यावत्—[प्र०] हे भगवन् ! वैमानिकोने विभंगज्ञानना विपयनो बंध केटला प्रकारनो कह्यो छे ? [उ०] हे

दर्शनमोहनीय-कर्मनो बन्ध.

* १ उदय प्राप्त ज्ञानावरणीय कर्मनो बन्ध पूर्वकाळनी अपेक्षाए जाणवो, २ अथवा ज्ञानावरणीयपणे जेनो उदय छे एवा कर्मनो बन्ध समजवो, केमके कर्म विपाक अने प्रदेश ए वन्ने रूपे वेदाय छे, माटे अहिं विपाकोदयरूपे वेदावा लायक कर्मनो बन्ध ग्रहण करवो, ३ अथवा ज्ञानावरण कर्मना उदयमा जे कर्म बंधाय अथवा वेदाय ते कर्मनो बन्ध जाणवो—आ त्रण विकल्पो टीकाकारे जणाव्या छे.

† पूर्वे कर्मनो आत्मानी साथे सवन्ध ते बन्ध एम कहेवुं छे, पण अहिं कर्मपुद्गल के इतर पुद्गलनो आत्मानी साथे संबन्ध ते बन्ध एम लइए तो औदारिकादि शरीर, आहारादिसंज्ञानक कर्म अने कृष्णादि लेस्यानो बन्ध होइ शके, पण दृष्टि, ज्ञान, अज्ञान अने तेना विपयनो बन्ध केम होइ शके ? कारण के ते वधा अपौद्गलिक छे, परन्तु अहिं बन्धनो अर्थ सवन्ध मात्र निवक्षित छे, तेथी सम्यग्दृष्टि इत्यादिनो जीवप्रयोगादि बन्ध घटी शके छे.

ચિસયસ્સ કદ્ધિદે વંધે પદ્ધત્તે ? [૩૦] ગોયમા ! તિવિદે વંધે પદ્ધત્તે, તં જહા—જીવપ્પયોગવંધે, અણંતરયંધે, પરંપરયંધે । 'સેવં મંતે ! સેવં મંતે' ! [ત્તિ] જાવ—વિહરતિ ।

વીસદ્દમે સ્સ સત્તમો ઉદ્દેમો સમત્તો ।

ગૌતમ ! પ્રણ પ્રકારનો કરો છે, તે આ પ્રમાણે—જીવપ્રયોગવંધ, અનંતરવંધ અને પરંપરવંધ. 'હિ મગવન્ ! તે એમજ છે, તે મગવન્ ! તે એમજ છે.' એમ કહી યાવત્-વિહરે છે.

વીશમા શતકમાં સપ્તમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત.

અટ્ટમો ઉદ્દેસો ।

૧. [પ્ર૦] કદ્ધ ણં મંતે ! કમ્મભૂમીઓ પદ્ધત્તાઓ ? [૩૦] ગોયમા ! પદ્ધરસ કમ્મભૂમીઓ પદ્ધત્તાઓ, તં તદ્દા—પંચ મર-હાઈં, પંચ પરવયાઈં, પંચ મહાવિદેહાઈં ।

૨. [પ્ર૦] કત્તિ ણં મંતે ! અકમ્મભૂમીઓ પદ્ધત્તાઓ ? [૩૦] ગોયમા ! તીસં અકમ્મભૂમીઓ પદ્ધત્તાઓ, તં જહા—પંચ દેમવયાઈં, પંચ દેરપ્પવયાઈં, પંચ હરિવાસાઈં, પંચ રમ્મગવાસાઈં, પંચ દેવકુરુરાઈં, પંચ ઉત્તરકુરુરાઈં ।

૩. [પ્ર૦] પ્પયાસુ ણં મંતે ! તીસાસુ અકમ્મભૂમીસુ અન્થિ ઉસ્સપ્પિણીતિ વા ઓસપ્પિણીતિ વા ? [૩૦] ણો તિણ્ટ્ટે સમટ્ટે ।

૪. [પ્ર૦] પ્પસુ ણં મંતે ! પંચસુ મરદ્દેસુ પંચસુ પરવપ્પસુ અન્થિ ઉસ્સપ્પિણીતિ વા ઓસપ્પિણીતિ વા ? [૩૦] હંતા અન્થિ । પ્પસુ ણં પંચસુ મહાવિદેહેસુ ણેવન્થિ ઉસ્સપ્પિણી, નેવન્થિ ઓસપ્પિણી, અવટ્ટિપ્પ ણં તત્થ કાલે પદ્ધત્તે સમણાઉસો ! ।

૫. [પ્ર૦] પ્પસુ ણં મંતે ! પંચસુ મહાવિદેહેસુ અરહંતા મગવંતો પંચમહદ્દશ્યં સપડિક્કમણં ધમ્મં પદ્ધવયંતિ ? [૩૦] ણો તિણ્ટ્ટે સમટ્ટે । પ્પસુ ણં મંતે ! પંચસુ મરદ્દેસુ, પંચસુ પરવપ્પસુ, પુરિમ—પદ્ધચ્છિમ્મગા ડુવે અરહંતા મગવંતો પંચમહદ્દશ્યં (પંચા-ણુદ્દશ્યં) સપડિક્કમણં ધમ્મં પદ્ધવયંતિ, અવસેસા ણં અરહંતા મગવંતો ચાઉજ્જામં ધમ્મં પદ્ધવયંતિ । પ્પસુ ણં પંચસુ મહાવિ-દેહેસુ અરહંતા મગવંતો ચાઉજ્જામં ધમ્મં પદ્ધવયંતિ ।

૬. [પ્ર૦] જંબુદ્દીવે ણં મંતે ! દ્વીવે મારદ્દે વાસે દ્ધમીસે ઓસપ્પિણીપ્પ કત્તિ તિન્થગરા પદ્ધત્તા ? [૩૦] ગોયમા ! ચ્ચઉચ્ચીસં તિત્થગરા પદ્ધત્તા, તંજહા—ઉસમ—અજિય—સંમવ—અમિનંદણ—સુમતિ—સુપ્પમ—સુપાસ—સત્તિ—પુપ્પકદંત—સીયલ—સેઙ્ગસ—વાસુ-

અટ્ટમ ઉદ્દેશક.

વર્તનમૂલિ.

૧. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! કર્મમૂલિઓ કેટલી કહી છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! પંદર કર્મમૂલિઓ કહી છે, તે આ પ્રમાણે—પાંચ મરત, પાચ દેવત અને પાચ મહાવિદેહ.

અવર્તનમૂલિ.

૨. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! અકર્મમૂલિઓ કેટલી કહી છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! ત્રીણ અકર્મમૂલિઓ કહી છે, તે આ પ્રમાણે—પાંચ દેમવત, પાંચ દેરપ્પવત, પાચ હરિવર્ષ, પાચ રમ્યકવર્ષ, પાચ દેવકુરુ અને પાચ ઉત્તરકુરુ.

અવર્તનમૂલિમા ઉત્ત-
પિણી અને અવર્તનમૂ-
લિમા કાઠ હોય ?

૩. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! એ ત્રીણ અકર્મમૂલિઓમાં ઉત્તપિણી અને અવસર્પિણીરૂપ કાઠ છે ? [૩૦] એ અર્થ સમર્થ નથી.

મરત અને દેવતમા
કાઠ

૪. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! એ પાંચ મરતોમા અને પાચ દેવતોમાં ઉત્તપિણી અને અવસર્પિણીરૂપ કાઠ છે ? [૩૦] હા છે. [પ્ર૦] એ પાંચ મહાવિદેહમા ઉત્તપિણી અને અવસર્પિણી કાઠ છે ? [૩૦] નથી. હે આયુપ્પાન્ શ્રમણ ! ત્વા દેવતરૂપે અવસ્થિત કાઠ કરો છે.

મહાવિદેહમા વર્તનનો
ઉપદેશ

૫. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! એ પાચ મહાવિદેહોમા અરહંત મગવંતો પાંચ મહાવ્રતવાઝા અને પ્રતિક્રમણ સહિત વર્તનનો ઉપદેશ કરે છે ? [૩૦] એ અર્થ સમર્થ નથી. પરન્તુ એ પાંચ મરતોમા અને પાચ દેવતોમા પહેલા અને છેલ્લા એ વે અરહંત મગવંતો પાચમહાવ્રતવાઝા (અને પાચ અશુવ્રતવાઝા) તથા પ્રતિક્રમણસહિત વર્તનનો ઉપદેશ કરે છે, વાકીના અરહંત મગવંતો ચારમહાવ્રતવાઝા વર્તનનો ઉપદેશ કરે છે. વળી એ પાચ મહાવિદેહોમા પણ અરહંત મગવંતો ચારમહાવ્રતવાઝા વર્તનનો ઉપદેશ કરે છે.

માગવનપંચમા
લોકીકનો

૬. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! જંબુદ્દીપ નામે દ્વીપના મારતવર્ષમાં આ અવસર્પિણીમાં કેટલા તોર્થકરો વ્યા છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! ચોવીણ તોર્થકરો થયા છે, તે આ પ્રમાણે—૧ ઋપમ, ૨ અજિત, ૩ સંમવ, ૪ અમિનંદન, ૫ સુમતિ, ૬ સુપ્રમ, ૭ સુપાર્થ, ૮ શક્તી-

पुञ्ज-विमल-अणंत-धम्म-संति-कुंथु-अर-मल्लि-मुणिसुव्वय-नमि-नेमि-पास-चद्धमाणा २४ ।

७. [प्र०] एप्पसि णं भंते ! चउवीसाए तित्थगराणं कति जिणंतरा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! तेवीसं जिणंतरा पन्नत्ता ।

८. [प्र०] एप्पसि णं भंते ! तेवीसाए जिणंतरेसु कस्स कर्हि कालियसुयस्स वोच्छेदे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! एप्पसु णं तेवीसाए जिणंतरेसु पुरिमपच्छिमएसु अट्टसु २ जिणंतरेसु एत्थ णं कालियसुयस्स अवोच्छेदे पन्नत्ते, मज्झिमएसु सत्तसु जिणंतरेसु एत्थ णं कालियसुयस्स वोच्छेदे पन्नत्ते, सव्वत्थ वि णं वोच्छिन्ने दिट्ठिवाए ।

९. [प्र०] जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए देवाणुप्पियाणं केवतियं कालं पुव्वगए अणुसज्जिस्सति ? [उ०] गोयमा ! जंबुद्दीवे णं दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए ममं एगं वाससहस्सं पुव्वगए अणुसज्जिस्सति ।

१०. [प्र०] जहा णं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए देवाणुप्पियाणं एगं वाससहस्सं पुव्वगए अणुसज्जिस्सइ, तहा णं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए अवसेसाणं तित्थगराणं केवतियं कालं पुव्वगए अणुसज्जित्था ? [उ०] गोयमा ! अत्थेगतियाणं संखेज्जं कालं, अत्थेगइयाणं असंखेज्जं कालं ।

११. [प्र०] जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए देवाणुप्पियाणं केवतियं कालं तित्थे अणुसज्जिस्सति ? [उ०] गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए ममं एगवीसं वाससहस्साइं तित्थे अणुसज्जिस्सति ।

१२. [प्र०] जहा णं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए देवाणुप्पियाणं एक्कवीसं वाससहस्साइं तित्थं अणुसज्जिस्सति तहा णं भंते जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे आगमेस्साणं चरिमत्तित्थगरस्स केवतियं कालं तित्थे अणुसज्जिस्सति ? [उ०] गोयमा ! जावतिए णं उअसभस्स अरहओ कोसलियस्स जिणपरियाए एवइयाइं संखेज्जाइं आगमेस्साणं चरिमत्तित्थगरस्स तित्थे अणुसज्जिस्सति ।

१३. [प्र०] तित्थं भंते ! तित्थं तित्थगरे तित्थं ? [उ०] गोयमा ! अरहा ताव नियमं तित्थकरे, तित्थं पुण चाउवन्ना-इन्ने समणसंघो, तं जहा-समणा, समणीओ, सावया, साविआओ ।

चन्द्रप्रभ, ९ पुष्पदंत—सुविधि, १० शीतल, ११ श्रेयांस, १२ वासुपूज्य, १३ विमल, १४ अनंत, १५ धर्म, १६ शांति, १७ कुंथु, १८ अर, १९ मल्लि, २० मुनिसुव्वत, २१ नमि, २२ नेमि, २३ पार्श्व अने २४ वर्धमान.

७. [प्र०] हे भगवन् ! ए चोवीश तीर्थकरोना केटला अंतरो कह्या छे ? [उ०] हे गौतम ! त्रेवीश अंतरो कह्या छे.

८. [प्र०] हे भगवन् ! ए जिना त्रेवीश अतरोमा कया जिनना अंतरमा *कालिकश्रुतनो विच्छेद कह्यो छे ? [उ०] हे गौतम ! ए त्रेवीश जिनातरोमा पहेला अने छेला आठ आठ जिनातरोमा कालिकश्रुतनो अविच्छेद कह्यो छे, अने वचला सात जिनातरोमा कालिकश्रुतनो विच्छेद कह्यो छे. दृष्टिवादनो विच्छेद तो वधाय जिनातरोमां कह्यो छे.

चोवीश जिनना
अतरो
कालिक श्रुतनो
विच्छेद अने
अविच्छेद.

९. [प्र०] हे भगवन् ! जंबूद्वीप नामे द्वीपना भारतवर्षमां आ अवसर्पिणीमां आप देवानुप्रियनुं पूर्वगत श्रुत केटला काळ सुधी रहेशे ? [उ०] हे गौतम ! जंबूद्वीप नामे द्वीपना भारतवर्षमां आ अवसर्पिणी काळमा मारं पूर्वगत श्रुत एक हजार वर्ष सुधी रहेशे.

पूर्वगत श्रुतनी स्थिति

१०. [प्र०] हे भगवन् ! जेम जंबूद्वीप नामे द्वीपना भारतवर्षमा आ अवसर्पिणी काळमां आप देवानुप्रियनुं पूर्वगत श्रुत एक हजार वर्ष सुधी रहेशे तेम वाकी वधा तीर्थकरोनुं पूर्वगत श्रुत केटला काळ सुधी रहुं हतुं ? [उ०] हे गौतम ! केटलाक तीर्थकरोनुं सख्याता काळ सुधी अने केटलाक तीर्थकरोनुं असख्याता काळ सुधी पूर्वगत श्रुत रहुं हतुं.

११. [प्र०] हे भगवन् ! जंबूद्वीप नामे द्वीपना भारतवर्षमा आ अवसर्पिणीकाळमां आप देवानुप्रियनुं तीर्थ केटला काळ सुधी रहेशे ? [उ०] हे गौतम ! जंबूद्वीप नामे द्वीपना भारत वर्षमा आ अवसर्पिणी काळमा मारं तीर्थ एकवीश हजार वर्ष सुधी रहेशे.

तीर्थनी स्थिति.

१२. [प्र०] हे भगवन् ! जेम जंबूद्वीप नामे द्वीपना भारतवर्षमां आ अवसर्पिणीकाळमा आप देवानुप्रियनुं तीर्थ एकवीश हजार वर्ष सुधी रहेशे तेम हे भगवन् ! जंबूद्वीपना भारतवर्षमा भावी तीर्थकरोमांनो छेला तीर्थकरनुं तीर्थ केटला काळ सुधी रहेशे ? [उ०] हे गौतम ! कोशलदेशना ऋषभ देव अहंतनो जेटलो जिनपर्याय कह्यो छे, तेटला (हजार वर्षन्यून लाख पूर्व) वर्ष सुधी भावी तीर्थकरोमांनो छेला तीर्थकरनुं तीर्थ रहेशे.

भावी छेला तीर्थकर-
ना तीर्थनी स्थिति.

१३. [प्र०] हे भगवन् ! तीर्थ ए तीर्थ छे के तीर्थकर तीर्थ छे ? [उ०] हे गौतम ! अहंत तो अवश्य तीर्थकर छे, (पण तीर्थ नथी.) परन्तु चार प्रकारनो श्रमण प्रधान संघ-१ साधु, २ साध्वी, ३ श्रावक अने ४ श्राविका ते तीर्थ रूप छे.

तीर्थ अने तीर्थकर

७ * जेना अथ्यनादि काळे-दिवस अने रात्रिना पहेला अने छेला ग्रहरे ज थई शके ते आचारगादि कालिक श्रुत कहेवाय छे अने जेना अथ्य-
यनादि वधा काळे थई शके ते दशविकालिकादि उरकालिक श्रुत कहेवाय छे-जुओ नंदिसूत्र श्रुतज्ञानाधिकार प० २०२

૧૪. [પ્ર૦] પવચયં મંતે ! પવચયં, પાવચયી પવચયં ? [૩૦] ગોયમા ! ધરહા તાવ નિચમં પાવચયી, પવચયં પુણ દુષ્કા-લસંગે ગણિપિટ્તે, તં જહા-આચારો, જાવ-દિટ્ઠિવાયો ।

૧૫. [પ્ર૦] જે ઇમે મંતે ! ડગ્ગા, મોગા, રાહ્ના, ર્હ્વાગા, નાયા, કોરદ્વા ઈપ્ પં અસ્સિ ધમ્મે ઓગાહંતિ, અસ્સિં ૨ ઓગાહિત્તા અટ્ટવિંદં કમ્મરચમલં પવાહંતિ, અટ્ટ ૨ પવાહિત્તા તયો પચ્છા સિજ્ઞંતિ, જાવ-અંતં કરંતિ ? [૩૦] હંતા ગોયમા ! જે ઇમે ડગ્ગા મોગા તં ચેવ જાવ-અંતં કરંતિ, અત્યેગહ્યા અન્નયરેસુ દેવલોપસુ દેવચાપ ઉવચ્ચારો ભવંતિ ।

૧૬. [પ્ર૦] કદ્ધવિહા પં મંતે ! દેવલોયા પદ્ધત્તા ? [૩૦] ગોયમા ! ચડ્ધિહા દેવલોયા પદ્ધત્તા, તંજહા-મવ્વણાસી, વાણમંતરા, જોતિસિયા વેમાણિયા । 'સેવં મંતે ! સેવં મંતે' ! ત્તિ ।

વીસહમે સપ્ અટ્ટમો ઉદ્દેસો સમત્તો ।

૧૪. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! પ્રવચન એ પ્રવચન છે, કે પ્રવચનો એ પ્રવચન છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! અહંત તો અવ્યય પ્રવચનો (પ્રવચનના ઉપદેશક) છે, (પણ પ્રવચન નથી.) અને દ્વાદશાંગગણિપિટક (આચારાદિ) પ્રવચન છે, તે આ પ્રમાણે—૧ આચારાંગ યાવત્—૨ દટ્ટિવાદ.

૧૫. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! જે આ ઉગ્ગુલના, મોગુલના, રાજન્યુલના, ર્હ્વાકુલના, જ્ઞાતકુલના અને કૌરવ્યકુલના ધર્મીયો, એ વચ્ચે આ ધર્મમાં પ્રવેશ કરે છે અને પ્રવેશ કરીને આઠ પ્રકારના કર્મરૂપ ર્જોમળને ધુણે છે, સ્વાર પછી તેઓ સિદ્ધ થાય છે, યાવત્—સર્વે દુઃખોનો અંત કરે છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! હા, જે આ ઉગ્ગુલ વગેરેના ધર્મીયો છે તે યાવત્—સર્વે દુઃખોનો અંત કરે છે, અને કેટલાક કોટ્ઠપ્પક દેવલોકોમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થાય છે.

૧૬. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! દેવલોકો કેટલા પ્રકારના કહ્યા છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! દેવલોકો ચાર પ્રકારના કહ્યા છે, તે આ પ્રમાણે—૧ મવ્વણાસી, ૨ વાનચ્ચંતર, ૩ જ્યોતિષિક અને ૪ વૈમાનિક. હિ મગવન્ ! તે એમ છે, હે મગવન્ ! તે એમ છે.'

વીશમા શતકમાં અષ્ટમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત.

નવમો ઉદ્દેસો ।

૧. [પ્ર૦] કદ્ધવિહા પં મંતે ! ચારણા પદ્ધત્તા ? [૩૦] ગોયમા ! દુવિહા ચારણા પદ્ધત્તા, તં જહા-વિજ્ઞાચારણા ય જંઘાચારણા ય ।

૨. [પ્ર૦] સે કેણટ્ટેણં મંતે ! एवं बुद्धइ-‘विज्ञाचारणा’ २ ? [૩૦] ગોયમા ! તસ્સ પં હટ્ટંહટ્ટેણં અનિન્નિલ્લેણં તવોકમ્મેણં વિજ્ઞાપ ઉત્તરગુણલ્લહિં સમમાણસ્સ વિજ્ઞાચારણલ્લહી નામં લહી સમુપ્પજ્ઞઇ, સે તેણટ્ટેણં જાવ-વિજ્ઞાચારણા ૨ ।

૩. [પ્ર૦] વિજ્ઞાચારણસ્સ પં મંતે ! કદ્ધં સીહા ગતી, કદ્ધં સીહી ગતિવિસપ્ પદ્ધત્તે ? [૩૦] ગોયમા ! અચન્નં જંબૂદ્વીપે દ્વીપે જાવ-કિંચિદિસેસાદિપ્પ પરિક્લેવેણં । દેવે પં મહદ્દીપે જાવ-મદ્દેસલ્લે જાવ-‘ઇણામેવ’ત્તિકદ્ધુ કેવલકપ્પં જંબૂદ્વીપં દીવં તિહિ અચ્છરાનિવાપ્પહિં તિન્નવુત્તો અણુપરિચદ્ધિત્તા પં હદ્ધમાગચ્છેજ્ઞા, વિજ્ઞાચારણસ્સ પં ગોયમા ! તદ્ધા સીહા ગતી, તદ્ધા સીહી ગતિવિસપ્ પદ્ધત્તે ।

નવમ ઉદ્દેશક.

૧. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! ચારણો કેટલા પ્રકારના કહ્યા છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! ચારણો વે પ્રકારના કહ્યા છે, તે આ પ્રમાણે—
*વિદ્યાચારણ અને જંઘાચારણ.

૨. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! વિદ્યાચારણ મુનિને ‘વિદ્યાચારણ’ એ શા હેતુથી કહેવાય છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! નિરંતર હટ્ટ હટ્ટના તપ-કર્મવહે અને પૂર્વગતશ્રુતરૂપ વિદ્યાવહે ઉત્તરગુણલ્લહિ-તપોલ્લહિને પ્રાપ્ત થયેલા મુનિને વિદ્યાચારણ નામે લ્લહિ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તે કારણથી તે યાવત્—વિદ્યાચારણ મુનિને ‘વિદ્યાચારણ’ કહેવાય છે.

૩. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! વિદ્યાચારણનો કેવી શીઘ્ર ગતિ હોય, અથવા તેનો ગતિવિષય કેટલો શીઘ્ર હોય ? [૩૦] હે ગૌતમ ! આ જંબૂદ્વીપ નામે દ્વીપનો યાવત્—ક્રાટક વિદ્યેપાવિક [ત્રણ લાખ, સોઠ હજાર વસો સત્તાવીશ યોજન] પરિધિ છે, તે સંપૂર્ણ જંબૂદ્વીપને કોટ્ઠપ્પક મહદ્દિક યાવત્—મોટા મુખવાળો દેવ યાવત્—‘આ ફરં છું’ એમ કહી ત્રણ ચપટી વગાડે તેટલી વારમાં ત્રણવાર ફરીને પાછો શીઘ્ર આવે, હે ગૌતમ ! વિદ્યાચારણની તેવી શીઘ્ર ગતિ અને તેવા પ્રકારનો શીઘ્ર ગતિનો વિષય કહ્યો છે.

૧ * ચરણ-આક્રમણાં લલ્લિપ્પી અતિચાય ગમન કરવાનાં શક્તિ-શાઠ્યા મુનિને ચારણ કહે છે, તેના વે પ્રકાર છે-વિદ્યા-પૂર્વગત શ્રુતદ્વારા ગમન કરવાની લલ્લિપ્પે પ્રાપ્ત થયેલ વિદ્યાચારણ અને જંઘાના વ્યાપારથી ગમન કરવાની લલ્લિપ્પાઠ્યા જંઘાચારણ કહેવાય છે.

ચારણ મુનિના પ્રકાર અને તેનું મનસ્વ.

વિદ્યાચારણ કહેવાતુ ધારણ

વિદ્યાચારણની શીઘ્ર ગતિ.

४. [प्र०] विज्ञाचारणस्स णं भंते ! तिरियं केवतियं गतिविसय पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! से णं इधो एणेणं उप्पाएणं माणुसुत्तरे पद्यय समोसरणं करेति, माणु० २ करेत्ता तर्हिं चेइयाइं वंदति, तर्हिं० २ वंदित्ता वितियणं उप्पाएणं नंदीसरवरे दीवे समोसरणं करेति, नंदीस० २ करेत्ता तर्हिं चेइयाइं वंदति, तर्हिं० २ वंदित्ता तथो पडिनियत्तति, तथो पडिनियत्तित्ता इहमागच्छइ, आगच्छित्ता इह चेइयाइं वंदति । विज्ञाचारणस्स णं गोयमा ! तिरियं एवतिय गतिविसय पन्नत्ते ।

५. [प्र०] विज्ञाचारणस्स णं भंते ! उहं केवतिय गतिविसय पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! से णं इधो एणेणं उप्पाएणं नंदणवणे समोसरणं करेइ, नंद० २ करेत्ता तर्हिं चेइयाइं वंदति, तर्हिं० २ वंदित्ता वितियणं उप्पाएणं पंडगवणे समोसरणं करेइ, पंडग० २ करेत्ता तर्हिं चेइयाइं वंदइ, तर्हिं० २ वंदित्ता तथो पडिनियत्तति, तथो पडिनियत्तित्ता इहमागच्छइ, इह-मागच्छित्ता इहं चेइयाइं वंदति । विज्ञाचारणस्स णं गोयमा ! उहं एवतिय गतिविसय पन्नत्ते । से णं तस्स ठाणस्स अणालो-इय-पडिकंते कालं करेति, नत्थि तस्स आराहणा, से णं तस्स ठाणस्स आलोइयपडिकंते कालं करेति अत्थि तस्स आराहणा ।

६. [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-‘जंघाचारणा’ २ ? [उ०] गोयमा ! तस्स णं अट्टमंअट्टमेणं अनिक्खित्तेणं तवो-कम्मेणं अप्पाणं भावेमाणस्स जंघाचारणलद्धी नाम लद्धी समुप्पज्जति, से तेणट्टेणं जाव-जंघाचारणा २ ।

७. [प्र०] जंघाचारणस्स णं भंते ! कहं सीहा गती, कहं सीहे गतिविसय पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! अयन्नं जंबुद्वीवे दीवे० एवं जहेव विज्ञाचारणस्स, नवरं तिसत्तखुत्तो अणुपरियट्टित्ता णं इधमागच्छेज्जा, जंघाचारणस्स णं गोयमा ! तद्दा सीहा गती, तद्दा सीहे गतिविसय पन्नत्ते, सेसं तं चेव ।

८. [प्र०] जंघाचारणस्स णं भंते ! तिरियं केवतिय गतिविसय पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! से णं इधो एणेणं उप्पाएणं रुयगवरे दीवे समोसरणं करेति, रुयग० २ करेत्ता तर्हिं चेइयाइं वंदइ, तर्हिं० २ वंदित्ता तथो पडिनियत्तमाणे वितियणं उप्पाएणं नंदीसरवरदीवे समोसरणं करेति, नंदी० २ करेत्ता तर्हिं चेइयाइं वंदइ, तर्हिं० २ वंदित्ता इहमागच्छइ, आगच्छित्ता इहं चेइयाइं वंदइ, जंघाचारणस्स णं गोयमा ! तिरियं एवतिय गतिविसय पन्नत्ते ।

९. [प्र०] हे भगवन् ! विद्याचारणनी तिर्यग्गतिनो विषय केटलो कह्यो छे ? [उ०] हे गौतम ! ते विद्याचारण एक उत्पात-पगलावडे मानुषोत्तर पर्वत उपर समवसरण (स्थिति) करे-त्यां जाय १, त्यां जइने त्यां रहेला चैत्योने वादे, वादीने त्यांथी वीजा उत्पातवडे नंदीश्वरद्वीपमां समवसरण-स्थिति करे २, त्यां रहेला चैत्योने वादी पछी त्यांथी पाछो वळी अहि आवे ३, अने अंहिना चैत्यो वादे. हे गौतम ! विद्याचारणनी तिर्यग् गतिनो विषय एटलो कह्यो छे.

विद्याचारणनी तिर्यग् गतिनो विषय.

५. [प्र०] हे भगवन् ! विद्याचारणनी ऊर्ध्व गतिनो विषय केटलो कह्यो छे ? [उ०] हे गौतम ! ते विद्याचारण एक उत्पातवडे नंदन-वनमा समवसरण करे १, त्यां रहेला चैत्योने वादे, पछी वीजा उत्पातवडे पांडुकवनमां समवसरण करे २, त्यां रहेलां चैत्योने वादे, पछी त्यांथी पाछो आवी अहि रहेला चैत्योने वादे ३. हे गौतम ! विद्याचारणनी ऊर्ध्व गतिनो विषय एटलो कह्यो छे. वळी हे गौतम ! जो ते विद्याचारण, गमनागमन संवंधी पापस्थानकने आलोच्या के प्रतिक्रम्या सिवाय काळ करे तो ते आराधक थतो नथी*, अने जो ते स्थानने आलोची तथा प्रतिक्रमी काळ करे तो ते आराधक थाय छे.

विद्याचारणनी ऊर्ध्वगतिनो विषय.

६. [प्र०] हे भगवन् ! जंघाचारणने ‘जंघाचारण’ शा हेतुथी कहेवाय छे ? [उ०] हे गौतम ! निरंतर अट्टम अट्टमना तपकर्मवडे आत्माने भावता मुनिने जंघाचारण नामे लब्धि उत्पन्न थाय छे. माटे ते हेतुथी जंघाचारणने ‘जंघाचारण’ एम कहेवाय छे.

जंघाचारण शशी कहेवाय छे ?

७. [प्र०] हे भगवन् ! जंघाचारणनी केवी शीघ्र गति होय छे, या तो तेनो गतिविषय केटलो शीघ्र होय छे ? [उ०] हे गौतम ! आ जंबूद्वीप नामे द्वीपनी परिधि-इत्यादि जेम विद्याचारण संवंधे कहुं छे तेम अहि कहेतुं, पण विशेष ए के, [कोई महर्द्धिक देव] आ जंबूद्वीपने थावत्-त्रण चपटी वगाडे एटली वारमा एकवीश वार फरीने शीघ्र आवे, हे गौतम ! तेची जंघाचारणनी शीघ्र गति छे, या तो तेनो गतिविषय एवो शीघ्र होय छे, बाकी वधुं ते प्रमाणे जाणतुं.

जंघाचारणनी गति.

८. [प्र०] हे भगवन् ! जंघाचारणनी तिर्यग् गतिनो विषय केटलो कह्यो छे ? [उ०] हे गौतम ! ते जंघाचारण एक उत्पातवडे रुचकवरद्वीपमा समवसरण करे १, पछी त्या रहेला चैत्योने वादे, वांदी त्यांथी पाछा वळता वीजा उत्पातवडे नंदीश्वरद्वीपमां समवसरण करे २, पछी त्यांना चैत्योने वांदी, अहिं शीघ्र आवी अंहिना चैत्योने वादे ३. हे गौतम ! जंघाचारणनी तिर्यग् गति या तेनो तिर्यग् गतिविषय एटलो शीघ्र कह्यो छे.

जंघाचारणनो तिर्यग् गतिविषय.

९. [प्र०] जंघाचारणस्स णं भंते ! उट्ठं केवतिण गतिविसण पत्तत्ते ? [उ०] गोयमा ! से णं इत्थो एणेणं उप्पाएणं पंड-
गवणे समोसरणं करेति, स० २ करेत्ता तहिं चेइयाइं वंदति, तहिं० २ वंदित्ता ततो पडिनियत्तमाणे चित्तिणं उप्पाएणं नंद-
णवणे समोसरणं करेति, नंदण० २ करेत्ता तहिं चेइयाइं वंदति, तहिं० २ वंदित्ता इह आगच्छइ, इह चेइयाइं वंदति, जंघा-
चारणस्स णं गोयमा ! उट्ठं पवतिण गतिविसण पत्तत्ते । से णं तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिकंते कालं करेइ नत्थि तस्स
आराहणा, से णं तस्स ठाणस्स आलोइयपडिकंते कालं करेति अत्थि तस्स आराहणा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।
जाव-विहरइ ।

वीसइमे राए नवमो उदेसो समत्तो ।

जंघाचारणो उट्ठं
गतिविषय

९. [प्र०] हे भगवन् ! जंघाचारणनी गति अने गतिविषय उंचे केटलो कखो छे ? [उ०] हे गौतम ! ते जंघाचारण एक "उत्पात-
वडे पाडुक्कवना समवसरण करे १, पछी लाना चैलो वादी, लाथी पाछा वळना वीजा उत्पातवडे नंदनवनमां समवसरण करे २, पछी
लाना चैलो वादी लाथी अहिं आवी, अहिंना चैलोने वाटे ३, हे गौतम ! जंघाचारणनी गति या गतिविषय उंचे एटलो कखो छे. वळी
जो ते जंघाचारण ते स्थानने आलोच्या के प्रतिक्रिया सिवाय काल करे तो ते आराधक यतो नथी अने ते स्थानकने आलोचो के
प्रतिक्रमी काल करे तो ते आराधक थाय छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.' एम कही यावत्-विहरे छे.

वीसमा शतकमा नवमो उद्देशक समाप्त.

दसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] जीवा णं भंते ! किं सोचकमाउया, निरुवकमाउया ? [उ०] गोयमा ! जीवा सोचकमाउया वि निरुवक-
माउया वि ।

२. [प्र०] नेरइयाणं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नेरइया नो सोचकमाउया, निरुवकमाउया । एवं जाव-यणियकुमारा ।
पुढविकाइया जहा जीवा, एवं जाव-मणुस्सा । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया ।

३. [प्र०] नेरइया णं भंते ! किं आतोवकमेणं उववज्जंति, परोवकमेणं उववज्जंति, निरुवकमेणं उववज्जंति ? [उ०]
गोयमा ! आतोवकमेण वि उववज्जंति, परोवकमेण वि उववज्जंति, निरुवकमेण वि उववज्जंति, एवं जाव-वेमाणियाणं ।

दशम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं जीवो सोपक्रम आयुपवाळा होय छे के निरुपक्रम आयुपवाळा होय छे ? [उ०] हे गौतम ! जीवो 'सो-
पक्रम आयुपवाळा अने निरुपक्रम आयुपवाळा होय छे.

२. [प्र०] हे भगवन् ! शुं नैरयिको सोपक्रम आयुपवाळा होय छे के निरुपक्रम आयुपवाळा होय छे ? [उ०] हे गौतम ! नैर-
यिको सोपक्रम आयुपवाळा होता नथी पण निरुपक्रमआयुपवाळा होय छे. ए प्रमाणे यावत्-स्तनितकुमारो सुधी जाणवुं. पृथिवीकाविको
जीवोनी पेठे वने प्रकारना जाणवा. ए प्रमाणे यावत्-मनुष्यो सुधी समजवुं. तेमज वानव्यंतर, ज्योतिषिक अने वैमानिकोने नैरयिकोनी
पेठे (निरुपक्रम आयुपवाळा) जाणवा.

३. [प्र०] हे भगवन् ! शुं नैरयिको आत्मोपक्रमवडे-पोते पोताना वडेज [पूर्वभवना आयुपने] उपक्रमी-घटाडी उत्पन्न थाय छे,
परोपक्रमवडे-अन्यवडे पूर्वभवना आयुपने घटाडी उत्पन्न थाय छे, के निरुपक्रमवडे-कोइ पण रीते आयुपने घटाड्या सिवाय पूरेपूरं
आयुप भोगवीने उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ आत्मोपक्रमवडे, परोपक्रमवडे अने निरुपक्रमवडे उत्पन्न थाय छे. ए प्रमाणे
यावत्-वैमानिको सुधी जाणवुं.

सोपक्रम अने
निरुपक्रम आयुप

नैरयिकोने उत्पाद
आत्मोपक्रम, परो
पक्रम अने निरु-
पक्रमथी थाय छे ?

* विद्याचारणु गमन वे उत्पातथी अने आगमन एक उत्पातथी थाय छे अने जंघाचारणु गमन एक उत्पातथी अने आगमन वे उत्पातथी थाय
छे ते लडिधना स्वभावथी जाणवु अन्य आचार्यो आ सचन्धे एवुं कहे छे के विद्याचारणनी विद्या आववाना समये वधारे अभ्यासवाळी थाय छे अने गमनसमये
सेवी होती नथी, तेथी एक उत्पातथी अहिं आगमन थाय छे अने वे उत्पाते गमन थाय छे, पण जंघाचारणनी लडिधनो जेम जेम उपयोग थाय छे तेन तेम
ते अल्पमामर्थ्यवाळी थाय छे माटे ते एक उत्पाते गमन करे छे अने वे उत्पाते अहिं आवे छे—टीका.

† जेओ अप्राप्त काले आयुपनो क्षय करे छे ते सोपक्रमायुपवाळा अने ते सिवायना वीजा निरुपक्रम आयुपवाळा कहेवाय छे. देवो, नैरयिको,
असह्यत वर्पना आयुपवाळा तिर्यंच अने मनुष्यो, उत्तम पुरुषो तथा चरमशरीरी निरुपक्रम आयुपवाळा होय छे, अने वाक्कीना सर्व संसारी जीवो सोपक्रम
आयुपवाळा अने निरुपक्रमआयुपवाळा होय छे—टीका.

४. [प्र०] नेरइया णं भंते ! किं आशोवकमेणं उच्चटंति, परोवकमेणं उच्चटंति, निरुवकमेणं उच्चटंति ? [उ०] १ ३ । जे नो आशोवकमेणं उच्चटंति, नो परोवकमेणं उच्चटंति, निरुवकमेणं उच्चटंति, एवं जाव-थणियकुमार । पुढचिकाइया णणेण मणुस्सा तिसु उच्चटंति, सेसा जहा नेरइया, नवरं जोइसिय-वेमाणिया चयंति ।

नम-

५. [प्र०] नेरइया णं भंते ! किं आइहीप उवचजंति, परिहीप उवचजंति ? [उ०] गोयमा ! आइहीप उवचजंति, नः परिहीप उवचजंति, एवं जाव-वेमाणिया ।

६. [प्र०] नेरइया णं भंते ! किं आइहीप उच्चटंति, परिहीप उच्चटंति ? [उ०] गोयमा ! आइहीप उच्चटंति, नो परिहीप उच्चटंति, एवं जाव-वेमाणिया, नवरं जोइसिया वेमाणिया य चयंतीति अभिळावो ।

७. [प्र०] नेरइया णं भंते ! किं आयकम्मुणा उवचजंति, परकम्मुणा उवचजंति ? [उ०] गोयमा ! आयकम्मुणा उवचजंति, नो परकम्मुणा उवचजंति । एवं जाव-वेमाणिया । एवं उच्चट्टणादंडओ वि ।

८. [प्र०] नेरइया णं भंते ! किं आयप्पओगेणं उवचजंति, परप्पओगेणं उवचजंति ? [उ०] गोयमा ! आयप्पओगेणं उवचजंति, नो परप्पओगेणं उवचजंति, एवं जाव-वेमाणिया, एवं उच्चट्टणादंडओ वि ।

९. [प्र०] नेरइया णं भंते ! किं कतिसंचिया, अकतिसंचिया, अवत्तघगसंचिया ? [उ०] गोयमा ! नेरइया कतिसंचिया वि, अकतिसंचिया वि, अवत्तघगसंचिया वि । [प्र०] से केणेट्टणं जाव-अवत्तघगसंचिया वि ? [उ०] गोयमा ! जे णं नेरइया संखेज्जएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरइया कतिसंचिया, जे णं नेरइया असंखेज्जएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरइया

४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं नैरयिको आत्मोपक्रमवडे उद्धर्ते-मरे छे, परोपक्रमवडे उद्धर्ते छे के निरुपक्रमवडे उद्धर्ते छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ आत्मोपक्रमवडे के परोपक्रमवडे उद्धर्तता नथी, पण निरुपक्रमवडे उद्धर्ते छे. ए प्रमाणे यावत्-स्तानितकुमारो सुधी जाणुं. पृथिवीकायिको अने यावत्-मनुष्यो त्रणे-आत्मोपक्रम, परोपक्रम अने निरुपक्रम-वडे उद्धर्ते छे. वाकी वधा नैरयिकोनी पेटे जाणवा. विशेष ए के ज्योतिपिको अने वैमानिको 'व्यवे छे' एम कहेवुं.

नैरयिकोनी उद्धर्तता आत्मोपक्रमवी परोपक्रमवी के निरुपक्रमवी भाय छे ?

५. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको आत्मर्द्धि-पोताना सामर्थ्य-वडे उपजे छे के परर्द्धि-वीजाना सामर्थ्य-वडे उपजे छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ पोताना सामर्थ्यवडे उपजे छे, पण वीजाना सामर्थ्यवडे उपजता नथी. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुधी कहेवुं.

नैरयिकोनी उद्धर्तता आत्मर्द्धि की, परनी शक्ति की ?

६. [प्र०] हे भगवन् ! शुं नैरयिको आत्मर्द्धि पोताना सामर्थ्य-वडे उद्धर्ते छे के अन्यना सामर्थ्यवडे उद्धर्ते छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ आत्मशक्तिवडे उद्धर्ते छे पण परनी शक्तिवडे उद्धर्तता नथी. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुधी जाणुं. विशेष ए के ज्योतिपिक अने वैमानिको 'व्यवे छे' एवो अभिळाप-पाठ कहेवो.

७. [प्र०] हे भगवन् ! शुं नैरयिको पोताना कर्म वडे उत्पन्न थाय छे के वीजाना कर्मवडे उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ पोताना कर्मवडे उत्पन्न थाय छे, पण वीजाना कर्मवडे उत्पन्न यता नथी. ए रीते यावत्-वैमानिको सुधी जाणुं. अने ए प्रमाणे उद्धर्तनानो दंडक पण कहेवो.

नैरयिको उद्धर्तता कर्मवडे के अन्यना कर्मवडे की ?

८. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको आत्मप्रयोग-आत्मप्रयत्न-वडे उत्पन्न थाय छे, के परप्रयोगवडे उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ आत्मप्रयोगवडे उत्पन्न थाय छे पण परप्रयोगवडे उत्पन्न यता नथी. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुधी जाणुं. तथा उद्धर्तना दंडक पण एज प्रमाणे कहेवो.

नैरयिको उद्धर्तता आत्मप्रयोगवडे के परप्रयोगवडे की ?

९. [प्र०] हे भगवन् ! शुं नैरयिको कतिसंचित-एकसमये संख्याता उत्पन्न थएला, अकतिसंचित-एक समये अनेग्याना उत्पन्न थएला के अवक्तव्यसंचित-एकसमये एक ज उत्पन्न थएला होय छे ? [उ०] हे गौतम ! नैरयिको कतिमंचित पण छे, अकतिसंचित पण छे अने अवक्तव्यसंचित पण छे. [प्र०] हे भगवन् ! आ हेतुथी तेओ यावत्-अवक्तव्यसंचित पण होय छे ? [उ०] हे गौतम ! जे नैरयिको नरकगतिमा एक साथे संख्याता प्रवेश करे छे ते कतिसंचित छे, वळी जे नैरयिको अवक्तव्य-

नैरयिको कतिसंचित, अकतिसंचित के अवक्तव्यसंचित होय छे ? नैरयिको कतिसंचित पण छे, अकतिसंचित पण छे, अने अवक्तव्यसंचित पण छे. [प्र०] हे भगवन् ! आ हेतुथी तेओ यावत्-अवक्तव्यसंचित पण होय छे ? [उ०] हे गौतम ! जे नैरयिको नरकगतिमा एक साथे संख्याता प्रवेश करे छे ते कतिसंचित छे, वळी जे नैरयिको अवक्तव्य-

९-१०-११ । जेओ नीजी जानिमाथी आती एक साथे संख्याता उत्पन्न थाय छे ते कतिसंचित, अकतिसंचित उत्पन्न थाय छे ते अवक्तव्यसंचित कहेवाय छे तेनां वेधी माथी कतिप्रहेरिका सुधी संख्याता व्यवहार थाय छे अने न्हाए पछी अकतिसंचित व्यवहार थाय छे. तेनां नारयो त्रणे प्रकारना छे, कारण के एक समये एकथी माथी अवक्तव्यसंचित सुधी उत्पन्न थाय छे. पृथिवीकायिकादि काने संख्याता कतिसंचित छे, अने एक समये अवक्तव्यसंचित उत्पन्न थाय छे यथपि कान्यपि कानिरो जगन्ता उत्पन्न थाय छे, परन्तु भिज्जतापी जीवोधी कानिने उत्पन्न थाय केनी ज अति विचारा होवाथी तेओ पण अवक्तव्यसंचित ज उपजे छे. थियो अकतिसंचित नथी, कारण के एक साथे एकथी माथी संख्याता ज उत्पन्न काने छे.

नैरयिको कतिसंचित, अकतिसंचित के अवक्तव्यसंचित होय छे ? नैरयिको कतिसंचित पण छे, अकतिसंचित पण छे, अने अवक्तव्यसंचित पण छे. [प्र०] हे भगवन् ! आ हेतुथी तेओ यावत्-अवक्तव्यसंचित पण होय छे ? [उ०] हे गौतम ! जे नैरयिको नरकगतिमा एक साथे संख्याता प्रवेश करे छे ते कतिसंचित छे, वळी जे नैरयिको अवक्तव्य-

૯. [પ્ર

ગવણે સમોસ્ત્રયા, જે ણં નેરહ્યા ઇક્ષણં પવેસણણં પવિસંતિ તે ણં નેરહ્યા અવત્તઘગસંચિયા, સે તેણટ્ટેણં ગોયમા ! જાવ-અવત્તઘગવણે સન્ધેયા વિ । એવં જાવ-થણિયકુમારા વિ ।

ચારણસ્ ૧૦. [પ્ર૦] પુઠવિક્કાહયાણં પુચ્છા । [૩૦] ગોયમા ! પુઠવિકાહયા નો કહસંચિયા, અકહસંચિયા, નો અવત્તઘગસંચારણતા । [પ્ર૦] સે કેણટ્ટેણં એવં બુચ્છહ-જાવ-‘નો અવત્તઘગસંચિયા’ ? [૩૦] ગોયમા ! પુઠવિકાહયા અસંલેક્ષણં પવેસણણં જા પવિસંતિ સે તેણટ્ટેણં જાવ-નો અવત્તઘગસંચિયા, એવં જાવ-વણસ્સહકાહયા, વેદિયા જાવ-વેમાણિયા જહા નેરહ્યા ।

૧૧. [પ્ર૦] સિદ્ધાણં પુચ્છા । [૩૦] ગોયમા ! સિદ્ધા કતિસંચિયા, નો અકતિસંચિયા, અવત્તઘગસંચિયા વિ । [પ્ર૦] સે કેણટ્ટેણં જાવ-‘અવત્તઘગસંચિયા વિ’ ? [૩૦] ગોયમા ! જે ણં સિદ્ધા સંલેક્ષણં પવેસણણં પવિસંતિ તે ણં સિદ્ધા કતિસંચિયા, જે ણં સિદ્ધા ઇક્ષણં પવેસણણં પવિસંતિ તે ણં સિદ્ધા અવત્તઘગસંચિયા, સે તેણટ્ટેણં જાવ-અવત્તઘગસંચિયા વિ ।

૧૨. [પ્ર૦] ઇસિ ણં મંતે ! નેરહ્યાણં કતિસંચિયાણં અકતિસંચિયાણં અવત્તઘગસંચિયાણં ય કયરે ૨ જાવ-વિસેસાહિયા વા ? [૩૦] ગોયમા ! સઘ્થોવા નેરહ્યા અવત્તઘગસંચિયા, કતિસંચિયા સંલેક્ષણા, અકતિસંચિયા અસંલેક્ષણા, એવં ઇન્દ્રિયવજ્ઞાણં જાવ-વેમાણિયાણં અપ્પાવહુગં, ઇન્દ્રિયાણં નત્થિ અપ્પાવહુગં ।

૧૩. [પ્ર૦] ઇસિ ણં મંતે ! સિદ્ધાણં કતિસંચિયાણં અવત્તઘગસંચિયાણં ય કયરે ૨ જાવ-વિસેસાહિયા વા ? [૩૦] ગોયમા ! સઘ્થોવા સિદ્ધા કતિસંચિયા, અવત્તઘગસંચિયા સંલેક્ષણા ।

૧૪. [પ્ર૦] નેરહ્યાણં મંતે ! કિં છક્કસમજ્ઞિયા ૧, નોછક્કસમજ્ઞિયા ૨, છક્કેણ ય નોછક્કેણ ય સમજ્ઞિયા ૩, છક્કેહિ ય સમજ્ઞિયા ૪, છક્કેહિ ય નોછક્કેણ ય સમજ્ઞિયા ૫ ? [૩૦] ગોયમા ! નેરહ્યા છક્કસમજ્ઞિયા વિ ૧, નોછક્કસમજ્ઞિયા વિ ૨, છક્કેણ ય નોછક્કેણ ય સમજ્ઞિયા વિ ૩, છક્કેહિ ય સમજ્ઞિયા વિ ૪, છક્કેહિ ય નોછક્કેણ ય સમજ્ઞિયા વિ ૫ । [પ્ર૦] સે કેણટ્ટેણં મંતે ! એવં બુચ્છહ-‘નેરહ્યા છક્કસમજ્ઞિયા વિ જાવ-છક્કેહિ ય નોછક્કેણ ય સમજ્ઞિયા વિ’ ? [૩૦] ગોયમા ! જે ણં નેરહ્યા છક્કેણં પવેસણણં પવિસંતિ તે ણં નેરહ્યા છક્કસમજ્ઞિયા ૧ । જે ણં નેરહ્યા જહ્ણેણં ઇક્ષેણ વા દોહિં વા તીહિં વા ઉક્કોસેણં પંચણં પવેસણણં પવિસંતિ તે ણં નેરહ્યા નોછક્કસમજ્ઞિયા ૨ । જે ણં નેરહ્યા ઇક્ષેણં અન્નેણ ય જહ્ણેણં

તા પ્રવેશ કરે છે તે નૈરયિકો અકનિસચિત છે, અને જે નૈરયિકો એક એક પ્રવેશ કરે છે તે નૈરયિકો યાવત્-અવત્તઘગસંચિત છે. એ પ્રમાણે યાવત્-સ્તાનિતકુમારો સુધી જાણવું.

પૃથિવીકાવિકાદિ.

૧૦. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! પૃથિવીકાવિકો કતિસચિત છે-હ્યાદિ પ્રશ્ન. [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓ કતિસચિત નથી, અવત્તઘગસંચિત નથી પણ અકતિસચિત છે. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! ‘તેઓ યાવત્-અવત્તઘગસંચિત નથી’ તેનું શું કારણ છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! પૃથિવીકાવિકો એક સાથે અસહ્ય પ્રવેશ કરે છે માટે તેઓ અકતિસચિત છે, પણ યાવત્-અવત્તઘગસચિત નથી. એ પ્રમાણે યાવત્-વનસ્પતિકાવિકાવિકો સુધી જાણવું. વેદિન્દ્રિયથી યાવત્-વૈમાનિકો સુધી નૈરયિકોની પેઠે જાણવા.

ન્દિ

૧૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! શું સિદ્ધો કતિસચિત છે-હ્યાદિ પ્રશ્ન. [૩૦] હે ગૌતમ ! સિદ્ધો કતિસચિત અને અવત્તઘગસચિત છે, પણ અકતિસચિત નથી. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! સિદ્ધો યાવત્-શા હેતુથી અવત્તઘગસચિત છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! જે સિદ્ધો સંલ્યાતા પ્રવેશ કરે છે તેઓ કતિસચિત છે, અને જે સિદ્ધો એક એક પ્રવેશનકવડે પ્રવેશ કરે છે તે અવત્તઘગસચિત છે, માટે સિદ્ધો યાવત્-અવત્તઘગસચિત છે.

નૈરયિકોને આશ્રયી
કતિસચિનાદિનુ
અપવહુત્વ

૧૨. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! કતિસચિત, અકતિસચિત અને અવત્તઘગસચિત નૈરયિકોમા કોણ કોનાથી યાવત્-વિશેષાધિક છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! અવત્તઘગસચિત નૈરયિકો સૌથી યોગ્ય છે, કતિસચિત નૈરયિકો સહ્યાતગુણ છે અને અકતિસચિત નૈરયિકો અસંલ્યાતગુણ છે. એ પ્રમાણે એકેન્દ્રિય સિવાય યાવત્-વૈમાનિકો સુધી અલ્પવહુત્વ કહેવું. એકેન્દ્રિયોનું અલ્પવહુત્વ નથી.

મિદ્ધને આશ્રયી
વનિન્દિનાદિનુ
અપવહુત્વ

૧૩. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! કતિસચિત અને અવત્તઘગસચિત સિદ્ધોમા કોણ કોનાથી યાવત્-વિશેષાધિક છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! કતિસચિત સિદ્ધો સૌથી યોગ્ય છે, અને અવત્તઘગસચિત સિદ્ધો સહ્યાતગુણ છે.

નૈરયિકોને આશ્રયી
પરક સમાજિનાદિ

૧૪. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! શું નૈરયિકો પટ્ટસમર્જિત-એક સાથે છ ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે ? નોપટ્ટસમર્જિત-એકથી આરંભી પાંચ સુધી ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે ? એક પટ્ટ અને એક નોપટ્ટરૂપે ઉત્પન્ન થયા હોય છે ? અથવા એક પટ્ટ અને એક નોપટ્ટની સહ્યામા ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે ? અનેક પટ્ટની સહ્યાવડે ૪, કે અનેક પટ્ટ અને એક નોપટ્ટની સહ્યાવડે ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! નૈરયિકો એક સાથે એક પટ્ટની સહ્યાથી ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે ૧, નોપટ્ટની સહ્યાથી ઉત્પન્ન થયા હોય છે ૨, એક પટ્ટ અને નોપટ્ટવડે ઉત્પન્ન થયા હોય છે ૩, અનેક પટ્ટની સહ્યાવડે ઉત્પન્ન થયા હોય છે ૪, અને અનેક પટ્ટ તથા એક નોપટ્ટની સહ્યાવડે પણ ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે ૫. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! આપ શા હેતુથી એમ કહો છો કે, નૈરયિકો પટ્ટસહ્યાવડે ઉત્પન્ન થયા હોય છે, યાવત્-અનેક પટ્ટ તથા

एकेण वा दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेणं पंचएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरइया छकेण य नोछकेण य समज्जिया ३ । जे णं नेरइया णेगेहिं छकेहिं पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरइया छकेहिं य समज्जिया ४ । जे णं नेरइया णेगेहिं छकेहिं अण्णेण य जहन्नेणं एकेण वा दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेणं पंचएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरइया छकेहिं य नोछकेण य समज्जिया ५ । से तेणट्ठेणं तं चव जाव—समज्जिया वि । एवं जाव—थणियकुमारा ।

१५. [प्र०] पुढविकाइयाणं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! पुढविकाइया नो छकसमज्जिया १, नो नोछकसमज्जिया २, नो छकेण य नोछकेण य समज्जिया ३, छकेहिं समज्जिया ४, छकेहिं य नोछकेण य समज्जिया वि ५ । [प्र०] से केणट्ठेणं जाव—‘समज्जिया वि’ ? [उ०] गोयमा ! जे णं पुढविकाइया णेगेहिं छकएहिं पवेसणं पविसंति ते णं पुढविकाइया छकेहिं समज्जिया । जे णं पुढविकाइया णेगेहिं छकएहिं य अन्नेण य जहन्नेणं एकेण वा दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेणं पंचएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं पुढविकाइया छकेहिं य नोछकेण य समज्जिया, से तेणट्ठेणं जाव—‘समज्जियावि’ । एवं जाव—वणस्सइकाइया । वेइदिया जाव—वेमाणिया, सिद्धा जहा नेरइया ।

१६. [प्र०] एपसि णं भंते ! नेरइयाणं छकसमज्जियाणं, नोछकसमज्जियाणं, छकेण य नोछकेण य समज्जियाणं, छकेहिं य समज्जियाणं, छकेहिं य नोछकेण य समज्जियाणं कयरे २ जाव—विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! सधत्थोवा नेरइया छकसमज्जिया, नोछकसमज्जिया संखेज्जगुणा, छकेण य नोछकेण य समज्जिया संखेज्जगुणा, छकेहिं य समज्जिया असंखेज्जगुणा, छकेहिं य नोछकेण य समज्जिया संखेज्जगुणा । एवं जाव—थणियकुमारा ।

१७. [प्र०] एपसि णं भंते ! पुढविकाइयाणं छकेहिं समज्जियाणं, छकेहिं य नोछकेण य समज्जियाणं कयरे २ जाव—विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! सधत्थोवा पुढविकाइया छकेहिं समज्जिया, छकेहिं य नोछकेण य समज्जिया संखेज्जगुणा । एवं जाव—वणस्सइकाइयाणं । वेइदियाणं जाव—वेमाणियाणं जहा नेरइयाणं ।

एक नोपट्ट सख्यावडे पण उत्पन्न थयेला होय छे ? [उ०] हे गौतम ! जे नैरयिको एक समये छनी सख्याथी प्रवेश करे छे ते नैरयिको षट्कसमर्जित कहेवाय छे, जे नैरयिको जघन्य एक, वे के त्रण अने उत्कृष्ट पांच सख्यावडे प्रवेश करे छे ते नैरयिको नोपट्टसमर्जित कहेवाय छे, जे नैरयिको एक पट्टसख्याथी अने बीजा जघन्य एक, वे के त्रण तथा उत्कृष्ट पांचनी सख्यावडे प्रवेश करे छे ते नैरयिको एक पट्ट अने नोपट्टवडे समर्जित कहेवाय छे, जे नैरयिको अनेक पट्टनी संख्यामा प्रवेश करे छे ते नैरयिको अनेक पट्टसमर्जित कहेवाय छे, जे नैरयिको अनेक पट्ट तथा जघन्यथी एक, वे के त्रण अने उत्कृष्ट पांच संख्यावडे प्रवेश करे छे ते नैरयिको अनेक पट्ट तथा नोपट्ट समर्जित कहेवाय छे. ते हेतुथी हे गौतम ! ए प्रमाणे कहुं छे के यावत्—अनेक पट्टवडे अने नोपट्टवडे समर्जित पण होय छे. ए प्रमाणे यावत्—स्तनितकुमारो सुधी जाणहुं.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! जुं पृथिवीकायिको षट्कसमर्जित छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! पृथिवीकायिको षट्कसमर्जित नथी, नोपट्टसमर्जित नथी, एक पट्ट अने नोपट्टवडे समर्जित नथी, पण अनेक पट्टवडे समर्जित छे, अने अनेक पट्ट तथा नोपट्टवडे पण समर्जित छे. [प्र०] हे भगवन् ! आप शा हेतुथी एम कहो छो के, तेओ यावत्—[अनेक पट्ट तथा नोपट्ट] समर्जित छे ? [उ०] हे गौतम ! जे पृथिवीकायिको अनेक पट्टवडे प्रवेश करे छे ते पृथिवीकायिको अनेक पट्ट समर्जित छे, अने जे पृथिवीकायिको अनेक पट्टो तथा जघन्यथी एक, वे के त्रण अने उत्कृष्ट पांचनी सख्या वडे प्रवेश करे छे ते पृथिवीकायिको अनेक पट्टो तथा नोपट्टवडे पण समर्जित कहेवाय छे, माटे ते हेतुथी तेओ यावत्—‘समर्जित छे.’ ए प्रमाणे यावत्—वनस्पतिकायिको सुधी जाणहुं. अने वेइन्द्रियथी आरंभी यावत्—वैमानिको अने सिद्धो नैरयिकोनी पेटे जाणवा.

पृथिवीकायिकादिने आश्रयी पट्टकमम-जित्तिदि.

१६. [प्र०] हे भगवन् ! १ पट्टसमर्जित, २ नोपट्टसमर्जित, ३ एक पट्ट अने नोपट्टवडे समर्जित, ४ अनेक पट्ट समर्जित, ५ अनेक पट्ट तथा नोपट्टसमर्जित नैरयिकोमा कोण कोनाथी यावत्—विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! १ एक पट्टसमर्जित नैरयिको सौथी थोडा छे, २ नोपट्टसमर्जित नैरयिको सख्यातगुण छे, ३ तेथी एक पट्ट अने नोपट्टवडे समर्जित नैरयिको सख्यातगुणा छे, ४ तेथी अनेक पट्ट समर्जित नैरयिको असख्यातगुणा छे, ५ अने तेथी अनेक पट्ट तथा नोपट्टसमर्जित नैरयिको सख्यातगुणा छे. ए प्रमाणे यावत्—स्तनितकुमारो सुधी जाणहुं.

नैरयिकादिने आश्रयी पट्टकममर्जितदि-नु अत्पवट्टव

१७. [प्र०] हे भगवन् ! अनेकपट्टसमर्जित तथा अनेक पट्टो अने नोपट्टसमर्जित पृथिवीकायिकोमां कोण कोनाथी यावत्—विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! अनेकपट्टवडे समर्जित पृथिवीकायिको सौथी थोडा छे. अने तेथी अनेक पट्टो तथा नोपट्टसमर्जित पृथिवीकायिको संख्यातगुण छे. ए प्रमाणे यावत्—वनस्पतिकायिको सुधी जाणहुं. वेइन्द्रियो यावत्—वैमानिको नैरयिकोनी पेटे जाणवा.

पृथिवीकायिकादिने आश्रयी अत्पवट्टव

१८. [प्र०] एषसि णं भंते ! सिद्धाणं छक्कसमज्जियाणं नोच्छसमज्जियाणं जाव-छक्केहि य नोच्छेण य समज्जियाणं य कयरे २ जाव-विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! सधत्थोवा सिद्धा छक्केहि य नोच्छेण य समज्जिया, छक्केहि समज्जिया संखेज्जगुणा, छक्केण य नोच्छेण य समज्जिया संखेज्जगुणा, छक्कसमज्जिया संखेज्जगुणा, नोच्छसमज्जिया संखेज्जगुणा ।

१९. [प्र०] नेरइया णं भंते ! किं वारससमज्जिया १, नोवारससमज्जिया २, वारसएण य नोवारसएण य समज्जिया ३, वारसएहिं समज्जिया ४, वारसएहिं य नोवारसएण य समज्जिया ५ ? [उ०] गोयमा ! नेरतिया वारससमज्जिया वि, जाव-वारसएहिं य नोवारसएण य समज्जिया वि । [प्र०] से केणट्टेणं जाव-‘समज्जिया वि’ ? [उ०] गोयमा ! जे णं नेरइया वारसएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरइया वारससमज्जिया १ । जे णं नेरइया जट्टेणं पवेण वा दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेणं, एक्कारसएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरइया नोवारससमज्जिया २ । जे णं नेरइया वारसएणं अट्टेण य जट्टेणं एक्केण वा दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेणं एक्कारसएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरइया वारसएण य नोवारसएण य समज्जिया ३ । जे णं नेरइया णेगेहिं वारसएहिं पवेसणं पविसंति ते णं नेरतिया वारसएहिं समज्जिया ४ । जे णं नेरइया णेगेहिं वारसएहिं अट्टेण य जट्टेणं एक्केण वा दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेणं एक्कारसएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरइया वारसएहिं य नोवारसएण य समज्जिया ५ । से तेणट्टेणं जाव-समज्जिया वि । एवं जाव-धणियकुमारा ।

२०. [प्र०] पुढविक्काइयाणं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! पुढविक्काइया नोवारससमज्जिया १, नो नोवारससमज्जिया २ नो वारसएण य नोवारसएण य समज्जिया ३, वारसएहिं समज्जिया ४, वारसेहिं य नोवारसेण य समज्जिया वि ५ । [प्र०] से केणट्टेणं जाव-‘समज्जिया वि’ ? [उ०] गोयमा ! जे णं पुढविक्काइया णेगेहिं वारसएहिं पवेसणं पविसंति ते णं पुढविक्काइया वारसएहिं समज्जिया । जे णं पुढविक्काइया णेगेहिं वारसएहिं अट्टेण य जट्टेणं पवेण वा दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेणं

सिद्धोने आश्रमी
अपरह्व

१८. हे भगवन् ! पट्टसमज्जित, नोपट्टसमज्जित, यावत्-अनेक पट्ट अने नोपट्ट समज्जित सिद्धोमा कोण कोनाथी यावत्-विशेषाधिकरुं छे ? [उ०] हे गौतम ! अनेक पट्टो तथा नोपट्टसमज्जित सिद्धो सौथी थोटा छे. तेथी अनेक पट्टसमज्जित सिद्धो सख्यानगुण छे, तेथी एक पट्ट तथा नोपट्टसमज्जित सिद्धो सख्यातगुण छे, तेथी पट्टकसमज्जित सिद्धो संख्यातगुण छे, अने तेथी नोपट्टसमज्जित सिद्धो संख्यातगुण छे.

नैरयिकोने आश्र-
मी द्वादशसमज्जि
वादि

१९. [प्र०] हे भगवन् ! शुं नैरयिको १ द्वादशसमज्जित (एक समये वारनी संख्यावडे उत्पन्न थएल) छे, २ नोद्वादशसमज्जित (एक समये एकथी आरमी अगियार सुधी उत्पन्न थएल) छे, ३ द्वादश अने नोद्वादशसमज्जित (एकथी आरमी अगियार सुधी उत्पन्न थएल) छे, ४ अनेक द्वादश समज्जित (एकसमये अनेक वारनी संख्यामा उत्पन्न थयेल) छे, के ५ अनेक द्वादश तथा नोद्वादशसमज्जित (एक समये एकथी अगियार सुधी उत्पन्न थएल) छे ? [उ०] हे गौतम ! नैरयिको १ द्वादशसमज्जित पण छे, यावत्-५ अनेक द्वादश तथा नोद्वादशसमज्जित पण छे. [प्र०] हे भगवन् ! आ हेतुथी आप एम कहो छो के तेओ यावत्-अनेक द्वादश तथा नोद्वादश समज्जित पण छे ? [उ०] हे गौतम ! जे नैरयिको एक समये वारनी संख्यामा प्रवेश करे छे तेओ १ द्वादशसमज्जित छे, जे नैरयिको जवन्यथी एक, वे के त्रण अने उट्टथी अगियार प्रवेश करे छे तेओ २ नोद्वादशसमज्जित छे, जे नैरयिको एक समये वार अने जवन्यथी एक, वे के त्रण तथा उट्टथी अगियार प्रवेश करे छे तेओ ३ द्वादश तथा नोद्वादशसमज्जित छे, जे नैरयिको एक समये अनेक वारनी संख्यामा प्रवेश करे छे तेओ ४ अनेक द्वादशसमज्जित छे, वळी जे नारको एक समये अनेक वार तथा जवन्यथी एक, वे के त्रण तथा उट्टथी अगियार प्रवेश करे छे तेओ ५ अनेक द्वादश अने नोद्वादश समज्जित छे. ते हेतुथी हे गौतम ! यावत्-तेओ अनेक द्वादश अने नोद्वादश समज्जित कहेवाय छे ए प्रमाणे यावत्-सन्नितकुमारो सुधी जाणुं.

पृथिवीकायिकोने
आश्रमी द्वादशसम-
ज्जि वादि

२०. [प्र०] हे भगवन् ! शुं पृथिवीकायिको द्वादशसमज्जित छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! पृथिवीकायिको १ द्वादशसमज्जित नथी, २ नोद्वादशसमज्जित नथी, ३ द्वादश तथा नोद्वादश समज्जित नथी, पण ४ अनेक द्वादशसमज्जित छे, ५ तेम ज अनेक द्वादश तथा नोद्वादश समज्जित छे. [प्र०] हे भगवन् ! आप आ हेतुथी एम कहो छो के तेओ यावत्-‘अनेक द्वादश तथा नोद्वादश समज्जित छे’ ? [उ०] हे गौतम ! पृथिवीकायिको १ द्वादशसमज्जित-एक समये वारनी संख्यामा उत्पन्न थता-नथी, २ नोद्वादशसमज्जित-एकथी माडीने अगियार सुधी पण उत्पन्न थता-नथी, ३ द्वादश तथा नोद्वादशसमज्जित पण नथी, पण ४ अनेकद्वादशसमज्जित छे, तेमज ५ अनेक द्वादशो अने नोद्वादशसमज्जित छे. [प्र०] हे भगवन् ! आप आ हेतुथी एम कहो छो के तेओ यावत्-अनेक द्वादशो अने नोद्वादशसमज्जित छे ? [उ०] हे गौतम ! जे पृथिवीकायिको एक समये [असंख्य उपजता होवाथी] अनेक वारनी संख्यामा प्रवेश करे छे ते अनेक द्वादशसमज्जित कहेवाय छे, अने जे पृथिवीकायिको एक समये अनेक द्वादश तथा नोद्वादश-एकथी अगियार सुधी-प्रवेश करे छे तेओ

एकारसर्पणं पवेसणपणं पविसंति ते णं पुढविकाइया वारसएहिं य नोवारसएण य समज्जिया, से तेणट्टेणं जाव—‘समज्जिया वि’ । एवं जाव—वणस्सइकाइया । वेइंदिया जाव—सिद्धा जहा नेरइया ।

२१. [प्र०] एएसि णं भंते ! नेरतियाणं वारससमज्जियाणं० सवेसिं अप्पावहुगं जहा छक्कसमज्जियाणं, नवरं वारसा-मिलावो, सेसं तं चेव ।

२२. [प्र०] नेरतिया णं भंते ! किं चुलसीतिसमज्जिया १, नोचुलसीतिसमज्जिया २, चुलसीतीए य नोचुलसीतीए य समज्जिया ३, चुलसीतीहिं समज्जिया ४, चुलसीतीहिं य नोचुलसीतीए य समज्जिया ५ ? [उ०] गोयमा ! नेरतिया चुलसी-तिसमज्जिया वि, जाव—चुलसीतीहिं य नोचुलसीतीए य समज्जिया वि । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जाव—‘समज्जिया वि’ ? [उ०] गोयमा ! जे णं नेरइया चुलसीतीएणं पवेसणपणं पविसंति ते णं नेरइया चुलसीतिसमज्जिया १ । जे णं नेरइया जहचेणं एकेण वा दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेणं तेसीतिपवेसणपणं पविसंति ते णं नेरइया नोचुलसीतिसमज्जिया २ । जे णं नेरइया चुलसीतीए णं अन्नेण य जहचेणं एकेण वा दोहिं वा तीहिं वा जाव—उक्कोसेणं तेसीतीएणं पवेसणपणं पविसंति ते णं नेरतिया चुलसीतीए य नोचुलसीतीए य समज्जिया ३ । जे णं नेरइया णेगेहिं चुलसीतीएहिं पवेसणं पविसंति ते णं नेर-तिया चुलसीतीएहिं समज्जिया ४ । जे णं नेरइया णेगेहिं चुलसीतीएहिं य अन्नेण य जहचेणं एकेण वा जाव—उक्कोसेणं तेसी-इएणं जाव—पविसंति ते णं नेरतिया चुलसीतीहिं य नोचुलसीतीए य समज्जिया ५, से तेणट्टेणं जाव—‘समज्जिया वि’ । एवं जाव—यणियकुमारा । पुढविकाइया तहेव पच्छिलएहिं दोहिं, नवरं अभिलावो चुलसीतीओ, एवं जाव—वणस्सइकाइया । वेइंदिया जाव—वेमाणिया जहा नेरतिया ।

२३. [प्र०] सिद्धाणं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिद्धा चुलसीतिसमज्जिया वि १, नोचुलसीतिसमज्जिया वि २, चुल-सीतीए य नोचुलसीतीए य समज्जिया वि ३, नो चुलसीतीहिं समज्जिया ४, नोचुलसीतीहिं य नोचुलसीतीए य समज्जिया ५ । [प्र०] से केणट्टेणं जाव—‘समज्जिया’ ? [उ०] गोयमा ! जे णं सिद्धा चुलसीतीएणं पवेसणपणं पविसंति ते णं सिद्धा चुलसी-तिसमज्जिया । जे णं सिद्धा जहचेणं एकेण वा दोहिं तीहिं वा उक्कोसेणं तेसीतएणं पवेसणपणं पविसंति ते णं सिद्धा नोचुल-

अनेक द्वादश तथा नोद्वादशसमर्जित कहेवाय छे ते हेतुथी हे गौतम ! तेओ यावत्—‘समर्जित’ छे. ए प्रमाणे यावत्—वनस्पतिकायिको सुधी जाणवुं. तथा वेइन्द्रियथी मांडी वैमानिको सुधीना जीवो अने सिद्धो नैरयिकोनी पेटे जाणवा.

२१. [प्र०] हे भगवन् ! १ द्वादशसमर्जित, २ नोद्वादशसमर्जित, ३ द्वादश तथा नोद्वादशसमर्जित, ४ अनेक द्वादशसमर्जित अने ५ अनेक द्वादश तथा नोद्वादशसमर्जित एवा नैरयिकादिक सर्वनुं अल्पवहुत्व जेम पट्कसमर्जितोनुं अल्पवहुत्व कखुं तेम कहेवुं. विशेष ए, के, पट्कने स्थाने द्वादशनो पाठ कहेवो. वाकी बधुं पूर्ववत् जाणवुं.

नैरयिकादिने आश्रयी
थी द्वादशसमर्जिता-
दिनुं अपवहुत्व.

२२. [प्र०] हे भगवन् ! जुं नैरयिको एक समये १ चोरासी समर्जित—एक समये चोरासीनी सख्यामां उत्पन्न थएला छे, २ नोचो-रासीसमर्जित—एक समये एकथी मांडी त्र्यासी सुधी उत्पन्न थएला छे, ३ चोरासी अने नोचोरासी समर्जित—एकथी आरंभी त्र्याशी सुधी उत्पन्न थएला छे, ४ अनेक चोरासी समर्जित छे, के अनेक चोरासी अने नोचोरासी समर्जित छे ? [उ०] हे गौतम ! नैरयिको १ चोरासी-समर्जित छे, अने यावत्—५ अनेक चोरासी तथा नोचोरासीसमर्जित पण छे. [प्र०] हे भगवन् ! आप गा हेतुथी एम कहो छो के तेओ यावत्—‘अनेक चोरासी तथा नोचोरासी समर्जित छे ? [उ०] हे गौतम ! १ जे नैरयिको एक समये चोरासीनी सख्यामा प्रवेश करे छे तेओ चोरासीसमर्जित छे, २ जे नैरयिको जघन्यथी एक, वे के प्रण अने उत्कृष्ट त्र्यासीनी सख्यावडे प्रवेश करे छे तेओ नोचोरासीसमर्जित छे, ३ जे नैरयिको एक चोरासी अने नोचोरासी—एकथी त्र्यासी सुधी प्रवेश करेछे तेओ चोरासी तथा नोचोरासीसमर्जित छे, ४ जे नैरयिको अनेक चोरासीनी संख्या वडे प्रवेश करे छे तेओ अनेक चोरासीसमर्जित छे, ५ अने जेओ अनेक चोरासी तथा नोचोरासी सख्यावडे प्रवेश करे छे तेओ अनेक चोरासी तथा नोचोरासीसमर्जित छे माटे हे गौतम ! ते हेतुथी तेओ यावत्—‘समर्जित छे.’ ए प्रमाणे यावत्—स्तनितकुमारो सुधी जाणवुं. पृथिवीकायिको संबंधे ए प्रमाणे ४ अनेक चोरासी समर्जित अने ५ अनेक चोरासी तथा नोचोरासीसमर्जित ए वे भंगो कहेवा. एम यावत्—वनस्पतिकायिको सुधी जाणवुं. वेइन्द्रियो अने यावत्—वैमानिको पण नैरयिकोनी पेटे कहेवा.

नैरयिकादिने आश्रयी
चोरासीसमर्जित.

२३. [प्र०] सिद्धो संबंधे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सिद्धो चोरासीसमर्जित छे १, नोचोरासीसमर्जित छे २, चोरासी तथा नोचो-रासीसमर्जित छे ३, पण अनेक चोरासीसमर्जित नथी अने ५ अनेक चोरासी तथा नोचोरासीसमर्जित पण नथी. [प्र०] हे भगवन् ! आप गा हेतुथी एम कहो छो के सिद्धो यावत्—‘समर्जित छे’ ? [उ०] हे गौतम ! जे सिद्धो एक समये चोरासीनी सख्यामां प्रवेश करे छे तेओ चोरासीसमर्जित छे १, जे सिद्धो जघन्यथी एक, वे के प्रण अने उत्कृष्ट त्र्यासीनी सख्यामा प्रवेश करे छे तेओ नोचोरासी

सिद्धने आश्रयी
चोरासीसमर्जित-
त्तारि.

सीतिसमज्ञिया । जे णं सिद्धा चुलसीतण्णं अत्रेण य जह्नेणं पक्केण वा दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेणं तेसातण्णं पवेसणणं पविसंति ते णं सिद्धा चुलसीतीप य नोचुलसीतीप य समज्ञिया । से तेणट्टेणं जाव—‘समज्ञिया’ ।

२४. [प्र०] एएसि णं संते ! नेरतियाणं चुलसीनिसमज्ञियाणं नोचुलसीतिसमज्ञियाणं० सध्वेसि अप्पावहुगं जहा छक्क-समज्ञियाणं जाव—वेमाणियाणं, नवरं अमिलावो चुलसीतीयो ।

२५. [प्र०] एएसि णं संते ! सिद्धाणं चुलसीतिसमज्ञियाणं, नोचुलसीतिसमज्ञियाणं, चुलसीतीप य नोचुलसीतीप य समज्ञियाणं कयरे २ जाव—विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! सवत्थोवा सिद्धा चुलसीतीप य नोचुलसीतीप य समज्ञिया, चुलसीतीसमज्ञिया अणंतगुणा, नोचुलसीतिसमज्ञिया अणंतगुणा । ‘सेवं संते ! सेवं संते’ ! ति जाव—विहरइ ।

वीसहमे सए दसमो उद्देशो समत्तो ।

वीसतिर्यं सयं समत्तं ।


समर्जित छे २, जे सिद्धो एक समये एक चोरसी अने जवन्थी एक, वे के त्रण अने उल्लट त्र्यासी सुधी प्रवेश करे छे तेओ चोरसी तथा नोचोरसीसमर्जित छे ३. माटे ते हेतुथी यावत्—तेओ ‘समर्जित छे.’

२४. [प्र०] हे भगवन् ! चोरसीसमर्जित, नोचोरसीसमर्जित—इत्यादि यावत्—त्रधा नैरयिकोत्तुं अल्पवहुत्व पट्टसमर्जितोनां पेटे कहेवुं. ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी जाणवुं. विशेष ए के, अहिं पट्टेन वदले चोरसीनो पाठ कहेवो.

२५. [प्र०] हे भगवन् ! १ चोरसीसमर्जित, २ नोचोरसीसमर्जित अने ३ चोरसीनोचोरसीसमर्जित सिद्धोमां कोण कोनाथी यावत्—विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! चोरसी तथा नोचोरसीसमर्जित सिद्धो सौथी थोडा छे, तेथी चोरसीसमर्जित सिद्धो अनंत गुण छे अने नोचोरसीसमर्जित सिद्धो अनंतगुण छे. हे भगवन् ! ते एम ज छे, हे भगवन् ! ते एम ज छे.—एम कही यावत्—विहरे छे.

वीशमा शतकमां दशमो उद्देशक सम्पूर्ण.

वीशमं शतक समाप्त.



एगवीसइमं सयं ।

सालि कळ अयसि वंसे ईक्खू दँब्भे य अँब्भ तुलसी य ।
अट्टेए दस वग्गा असीतिं पुण होंति उद्देसा ॥

पढमो वग्गो

पढमो उद्देसो ।

१. [प्र०] रायगिहे जाव—एवं वयासी—अह भंते ! साली—वीही—गोधूम०जाव—जवजवाणं, एयसि णं भंते ! जीवा मूल-
त्ताए वकमंति ? ते णं भंते ! जीवा कओहिंतो उववज्जंति—किं नेरइएहिंतो० जाव—उववज्जंति ? तिरि०, मणु०, देवे—जहा
वकंतीए तहेव उववाओ, नचरं देववज्जं ।

२. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! जहजेणं एको वा दो वा तिसि वा,
उकोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा उववज्जंति । अवहारो जहा उप्पलुद्देसे ।

एकवीशमुं शतक.

१ सालि वगरे धान्य संबंधे दश उद्देशात्मक प्रथम वर्ग, २ कलाय—वटाणा वगरे धान्य विपे वीजो वर्ग, ३ अळसीप्रमुख धान्य
संबंधे व्रीजो वर्ग, ४ वास वगरे पर्ववाली वनस्पतिसंबंधे चतुर्थ वर्ग, ५ इक्षु वगरे पर्ववाली वनस्पति विपे पाचमो वर्ग, ६ दर्भ वगरे
तृण संबंधे छठो वर्ग, ७ अन्न वगरे वनस्पति संबंधे सातमो वर्ग, ८ तुलसी प्रमुख वनस्पति विपे आठमो वर्ग. ए प्रमाणे एकवीशमा
शतकमा *दश दश उद्देशकना समूहरूप आठ वर्ग अने एंशी उद्देशको कहेवाना छे.

प्रथम वर्ग

प्रथम उद्देशक.

१. [प्र०] राजगृह नगरमां [भगवान् गौतम] यावत्—आ प्रमाणे वोल्या के, हे भगवन् ! सालि, व्रीहि, घउं, यावत्—जवजव—
ए वधाना मूलतरीके जे जीवो उत्पन्न थाय छे, हे भगवन् ! ते जीवो क्यांथी आवीने उपजे छे ?—हुं नैरयिकोथी आवीने उपजे छे के
तिर्यंचो, मनुष्यो अने देवोथी पण आवीने उपजे छे ? [उ०] इयुक्कान्तिपदमा कह्या प्रमाणे तेओनो उपपात जाणवो. विशेष ए के, तेओ
देवगतिथी आवीने मूलपणे उपजता नथी.

२. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्यथी एक, वे के त्रण अने उत्कृष्टथी
सख्याता के असंख्याता उत्पन्न थाय छे. तेओनो अपहार ईउत्पलोद्देशकमा कह्या प्रमाणे जाणवो.

शात्त्यादि वर्ग.

उत्पाद-पण समये
केटला उपजे ?

१ उक्खू क । २ असीती क-ग-ड ।

१ मूळ, कन्द, स्कध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, (कोमल पाददा) पादडा, पुष्प, फल अने नीज—ए दश उद्देशको एक एक वर्गमा जाणवा—टीका.

‡ प्रज्ञा० पद ६ प० २१२

¶ व्युत्क्रान्तिपदमा देवोनी वनस्पतिमा उत्पत्ति कही छे, देवो वनस्पतिमा पुष्पादि शुभ अंगमा उत्पन्न थाय छे, परन्तु मूलादि अशुभ अंगमा उत्पन्न
थता नथी, माटे एम कछु छे के 'तेओ देवगतिथी आवीने मूलपणे उत्पन्न थता नथी'—टीका

२ ई अपहार—ते उत्पलना जीवो असख्य उत्सर्पिणी अने अवसर्पिणी सुधी प्रतिमसय असंख्याता काटवाना आवे तो पूरा काटी शक्य नहि.
जुओ—भग. खं० ३ श० ११ उ० १ पृ० २०८.

३. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवणं केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्ज-इभागं, उक्कोसेणं धणुदपुट्टुत्तं ।

४. [प्र०] ते णं भंते जीवा ! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स किं वंधगा, अवंधगा ? [उ०] जहा उप्पलुद्देसे, एवं वेदे वि, उदए वि, उदीरणाए वि ।

५. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं कण्हलेस्सा, नील० काउ० छवीसं भंगा, दिट्ठी जाव-इंदिया जहा उप्पलुद्देसे ।

६. [प्र०] ते णं भंते ! साली-वीही-गोधूम० जाव-जवजवगमूलगजीवे कालओ केवचिरं होति ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुट्टुत्तं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं ।

७. [प्र०] से णं भंते ! साली-वीही-गोधूम०जाव-जवजवगमूलगजीवे पुढवीर्जाये, पुणरवि साली-वीही-जाव-जव-जवगमूलगजीवे केवतियं कालं सेवेजा, केवतियं कालं गतिरार्गतिं करिजा ? [उ०] एवं जहा उप्पलुद्देसे । एणं अभिलायेणं जाव-मणुस्सजीवे, आहारो जहा उप्पलुद्देसे, टिठी जहन्नेणं अंतोमुट्टुत्तं, उक्कोसेणं वासपुट्टुत्तं, समुग्वाय(या),समोहया, उदट्टणा य जहा उप्पलुद्देसे ।

८. [प्र०] अह भंते ! सद्यपाणा, जाव-सद्यसत्ता साली-वीही-जाव-जवजवगमूलगजीवत्ताए उववन्नपुट्टा ? [उ०] हंता गोयमा ! असतिं अट्टुवा अणंतखुत्तो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

एकवीसहमे सए पढमवग्गस्स पढमो उद्देशो समत्तो ।

अवगाहना ३. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवोना शरीरनी केटली मोटी अवगाहना कही छे ? [उ०] जवन्यथी अंगुलनो असंख्यातमो भाग अने उत्कृष्टथी धनुपपृथक्त्व-वेथी नव धनुप सुधीनी-कही छे ।

कर्मना बन्धक ४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं ते जीवो ज्ञानावरणीयकर्मना बंधक छे के अवंधक छे ? [उ०] जेम उत्पलोद्देशकमां कहुं छे ते प्रमाणे अहिं कहेहुं. ए प्रमाणे कर्मना वेदक (वेदनार) संबंधे जाणवुं. उदय अने उदीरणा विषे पण ए प्रमाणे समजवुं.

लेख्या. ५. [प्र०] हे भगवन् ! शुं ते जीवो कृष्णलेख्यावाळा, नीललेख्यावाळा के कापोतलेख्यावाळा होय ? [उ०] अहिं लेख्यासंबंधे छव्वीश भागा कहेवा. दृष्टि अने यावत्-इन्द्रियो नवंधे इत्पलोद्देशकमां कह्या प्रमाणे कहेहुं.

शात्यादिना मूलपणे जीवनी स्थिति ६. [प्र०] हे भगवन् ! शालि, व्रीहि, गोधूम, यावत्-जवजव-ए वधाना मूलनो जीव काळथी काळ सुधी रहे ? [उ०] हे गौतम ! जवन्यथी अंतर्मुहूर्त, अने उत्कृष्टथी असंख्याता काळ सुधी रहे.

शात्यादि अने पृथि-वीरायिकनो सवेध ७. [प्र०] हे भगवन् ! शालि, व्रीहि, गोधूम, यावत्-जवजव-ए वधाना मूलनो जीव पृथिवीकायिकमां उत्पन्न थाय, पाछो फरीने शालि, व्रीहि अने यावत्-जवजवना मूलपणे उपजे-ए प्रमाणे केटला काळ सुधी सेवे-केटला काळ सुधी गमनागमन करे ? [उ०] जेम उत्पल उद्देशकमां कहुं छे ते प्रमाणे अहिं कहेहुं. अने ए अभिलाप बडे यावत्-मनुष्य सुधी समजवुं. वळी तेओनो आहार पण उत्पलोद्देशकमा कह्या प्रमाणे जाणवो. स्थिति जवन्यथी अंतर्मुहूर्त अने उत्कृष्टथी वर्षपृथक्त्व (वे वर्षथी नव वर्ष सुधी) समजवी. वळी संसमुद्घात, समवहत-समुद्घातनी प्राप्ति अने उद्वर्तना उत्पलोद्देशकमा कह्या प्रमाणे जाणवी.

८. [प्र०] हे भगवन् ! सर्वप्राणो, यावत्-सर्वं सत्त्वो शालि, व्रीहि, यावत्-जवजवना मूलना जीवपणे पूर्वे उत्पन्न थएला छे ? [उ०] हा गौतम ! अनेक वार अथवा अनंतवार उत्पन्न थएला छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

एकवीसमा शतकमां प्रथमवर्गनो प्रथम उद्देशक समाप्त.

४ * (शात्यादिना जीवो) अवंधक नथी, तेमानो एक जीव ज्ञानावरणीय कर्मनो बंधक छे, घना जीवो पण बन्धक छे ए प्रमाणे वेदक-उदयवाळा अने उदीरक जाणवा. जुओ भग० सं० ३ श० ११ उ० १ पृ० २०८

५ † कृष्ण, नील अने कापोत-ए त्रण लेख्याना एकवचन अने बहुवचनना असयोगी त्रण त्रण भागा गणता छ भागा थाय छे तथा तेना द्विकसयोगी 'कृष्ण नील, कृष्ण कापोत अने नील कापोत ए त्रण विकल्प थाय, अने प्रत्येकना एक अने अनेकना चार चार भागा गणता वार भागा थाय तेमज त्रिकसयोगी एक अने अनेकना आठ निकल्प थाय-ए प्रमाणे वधा मळीने छव्वीश भागा जाणवा-टीक

‡ भग० सं० ३ श० ११ उ० १ पृ० २१०

७ ‡ जवन्यथी वे भव अने उत्कृष्टथी असंख्यात भव सुधी गमनागमननी स्थिति जाणवी-इत्यादि जुओ भग० सं० ३ श० ११ उ० १ पृ० २१२

§ 'तेओने (शात्यादि जीवोने) वेदना, कपाय अने मरण-ए त्रण समुद्घातो कहेला छे, 'तेओ समुद्घातने प्राप्त भईने मरे अने प्राप्त थया जिवय पण मरे,' तेओ मरीने मनुष्य अने तिर्थचगतिमा जाय छे -इत्यादि माटे जुओ-भग० सं० ३ श० ११ उ० १ पृ० २१२

पढमवगसस बीआईआ उद्देशा ।

१. [प्र०] अह भंते ! साली-वीही०जाव-जवजवाणं एएसि णं जे जीवा कंदत्ताए वक्कमंति ते णं भंते ! जीवा कओ-हिंतो उववज्जंति ? [उ०] एवं कंदाहिगारेण सञ्चेव मूलुद्देशो अपरिसेसो भाणियद्यो, जाव-असति अटुवा अणंतखुत्तो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! ति । २१-२ । एवं खंधे वि उद्देशयो नेयद्यो । २१-३ । एवं तथाप वि उद्देशो भाणियद्यो । २१-४ । साले वि उद्देशो भाणियद्यो । २१-५ । पवाले वि उद्देशो भाणियद्यो । २१-६ । पत्ते वि उद्देशो भाणियद्यो । एए सत्त वि उद्देशगा अपरिसेसं जहा मूले तथा नेयद्या । २१-७ । एवं पुप्फे वि उद्देशयो, नवरं देवा उववज्जंति जहा उप्पलुद्देशे । चत्तारि लेस्साओ, असीति भंगा । ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जइमागं, उक्कोसेणं अंगुलपुहुत्तं, सेसं तं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! ति । २१-८ । जहा पुप्फे एवं फले वि उद्देशयो अपरिसेसो भाणियद्यो । २१-९ । एवं वीप वि उद्देशयो । २१-१० । एए दस उद्देशगा ॥

एगवीसइमे सए पढमो वगो समत्तो ।

प्रथमवर्गना २-१० उद्देशको.

१. [प्र०] हे भगवन् ! शालि, ग्रीहि, यावत्-जवजव-ए वधाना कंदरूपे जे जीवो उत्पन्न थाय छे तेओ हे भगवन् ! क्याथी आवीने उपजे छे ? [उ०] आ कंदना अधिकारमां तेज समप्र मूलनो उद्देशक यावत्-'अनेक वार अथवा अनंतवार उत्पन्न थयेला छे' त्यां सुधी कहेवो. विशेष ए के मूलने बदले कंदनो पाठ कहेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.' (२१-२.) ए प्रमाणे स्कंध संबंधे तथा त्वचा, शाखा, प्रवाल-कुंपळो अने पादबां संबंधे पण एक एक उद्देशक कहेवो. ए साते उद्देशको जेम मूल संबंधे वधुं कहुं छे तेम कहेवा. (२१-७.) वळी पुप्पसंबंधे पण पूर्वनी पेटे उद्देशक कहेवो. पण तेमां विशेष ए के 'पुप्पमां देवो पण उत्पन्न थाय छे' एम कहेवुं. जेम उत्पलोद्देशकमां चार लेस्या अने तेना 'एंशी भागा कह्या छे तेम अहिं कहेवा. अवगाहना जघन्य अंगुलनो असंख्यातमो भाग अने उत्कृष्ट अंगुलपृथक्त्व-वेथी नव अंगुल जाणवी. वाकी वधुं ते प्रमाणे जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.' (२१-८.) जेम पुप्प संबंधे कहुं तेम फळ अने वीज संबंधे पण समप्र उद्देशक कहेवो (२१-१०.) ए प्रमाणे ए दश उद्देशको जाणवा.

एकवीशमा शतकमां प्रथम वर्ग समाप्त.

बीओ वगो ।

१. [प्र०] अह भंते ! 'कलाय-मसूर-तिल-मुग्ग-मास-निप्फाव-कुलत्थ-आलिसंदग-सडिण-पल्लिमंयगाणं एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति ते णं भंते ! जीवा कओहिंतो उववज्जंति ? [उ०] एवं मूलादीया दस उद्देशगा भाणियद्या जहेव सालीणं निरवसेसं तह्वेव ।

एगवीसइमे सए वितिओ वगो समत्तो ।

द्वितीय वर्ग.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कलाय-वटाणा, मसुर, तळ, मग, अडद, वाल, कलयी, आलिसंदक, सटिन अने पल्लिमंयक-चणा-ए वधाना मूलपणे जे जीवो उत्पन्न थाय छे ते क्याथी आवीने उपजे छे ? [उ०] पूर्वे कह्या प्रमाणे मूलादिक दश उद्देशको अहि कहेवा अने जेम शालिसंबंधे कहुं तेम वधुं अहि कहेवुं.

कथय वगेरे धान्य.

एकवीशमा शतकमां द्वितीय वर्ग समाप्त.

तईओ वगो ।

१. [प्र०] अह भंते ! अयसि-कुसुंभ-कोइव-कंगु-रालग-तुवरी-कोदूसा-सण-सरिसव-मूलगवीयाणं एएसि णं तृतीय वर्ग.

१. [प्र०]-हे भगवन् ! अळसी, कुसुंभ, कोद्व, कांग, राल, तुवेर, कोदूसा, सण, सरसव अने मूळकवीज-ए वनस्पतिना

१ * प्रथमनी चार लेस्याना एकत्व अने बहुत्वने आश्रयी असयोगी चार चार भागा गणता आठ भागा, द्विकसयोगी छ विकल्प, अने प्रत्येकना एकत्व अने बहुत्वने आश्रयी चार चार भंग गणता चौबीस भागाओ, त्रिकसयोगी आठ विकल्प अने तेना पूर्वोक्त रीते चार चार भंग गणता वत्रीग विकल्पो तथा चतु सयोगी सोळ विकल्पो-ए वधा मळीने एंशी विकल्पो थाय छे -टीका

१ † × × कल-मसूर-तिल-मुग्ग-मास-निप्फाव-कुलत्थ-आलिसंद-सत्तीण-पल्लिमया । ×× जुओ प्रज्ञा० पद १ प० ३३.

१ ‡ अयसी-कुसुंभ-कोइव-कंगू-रालग-मास-कोइसा । सण-सरिसव-मूलगवीया जे यावधे तहप्पगारा । सेत्त ओसहीओ । जुओ प्रज्ञा० पद १ प० ३३.

जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति ते णं भंते ! जीवा कओर्हितो उववज्जति ? [उ०] एवं एत्थ वि मूलादीया दस उद्देशगा जहेव सालीणं निरवसेसं तहेव भाणियघं ।

एगवीसहमे सए तइओ वग्गो समत्तो ।

मूलपणे जे जीवो उत्पन्न थाय छे ते जीवो क्यांथी आवीने उपजे छे ? [उ०] अहिं पण शालिउद्देशकनी पेठे मूलादिक दश उद्देशको समग्र कहेवा.

एकवीशमा शतकमां तृतीय वर्ग समाप्त.

चउत्थो वग्गो ।

१. [प्र०] अह भंते ! *वंस-वेणु-कणक-कक्कावंस-चारुवंस-दंडा-कुंडा-विमा-चंडा-वेणुया-फह्णाणीणं एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति० ? [उ०] एवं एत्थ वि मूलादीया दस उद्देशगा जहेव सालीणं, नवरं देवो सघत्थ वि न उववज्जति, तिन्नि लेसाओ, सघत्थ वि छधीसं भंगा, सेसं तं चेव ।

एगवीसहमे सए चउत्थो वग्गो समत्तो ।

चतुर्थ वर्ग.

वांस वगेरे पर्ववाली
वनस्पति.

१. [प्र०] हे भगवन् ! वांस, वेणु, कनक, कर्कावंश, चारुवंश, दडा, कुडा, विमा, चंडा, वेणुका अने कल्याणी-ए वधी वनस्पतिना मूलपणे जे जीवो उत्पन्न थाय छे ते जीवो क्यांथी आवीने उपजे छे ? [उ०] पूर्व प्रमाणे शालिवर्गनी पेठे अहिं पण मूलादिक दश उद्देशको कहेवा. विशेष ए के अहिं कोइ पण ठेकाणे देवो उत्पन्न यता नथी. त्रण लेस्याओ तथा ते संवंधे छवीश भागा कहेवा. वाकी वधुं पूर्वनी पेठे जाणवुं.

एकवीशमा शतकमां चतुर्थ वर्ग समाप्त.

पंचमो वग्गो ।

१. [प्र०] अह भंते ! †उक्खु-इक्खुवाडिया-वीरण-इक्कड-भमास-सुंठि-सरं-वेत्त-तिमिर-सतपोरग-नलाणं एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति ? [उ०] एवं जहेव वंसवग्गो तहेव एत्थ वि मूलादीया दस उद्देशगा, नवरं वंधुद्देशे देवो उववज्जति, चचारि लेसाओ, सेसं तं चेव ।

एगवीसहमे सए पंचमो वग्गो समत्तो ।

पंचम वर्ग.

इक्खुवगेरे पर्ववाली
वनस्पति.

१. [प्र०] हे भगवन् ! इक्खु-शेळडी, इक्खुवाटिका, वीरण, इक्कड, भमास, सुंठ, शर, वेत्त (नेतर), तिमिर, सतपोरग अने नड-ए वधी वनस्पतिना मूलपणे जे जीवो उपजे छे तेओ क्यांथी आवीने उपजे छे ? [उ०] जेम वंशवर्गसबंधे कथुं छे तेम अहिं पण मूलादिक दश उद्देशको कहेवा. विशेष ए के स्कंधोद्देशकमां 'देवो पण उत्पन्न थाय छे अने तेओने चार लेस्याओ होय छे'-एम कहेवुं. वाकी वधुं पूर्वनी पेठे जाणवुं.

एकवीशमा शतकमां पंचम वर्ग समाप्त.

छट्ठओ वग्गो ।

१. [प्र०] अह भंते ! ‡सेडियं-भंतिय-दम्म-कौतिय-दम्मकुस-पव्वग-पोदेइल-अज्जुण-आसाढग-रोहिय-समु-भव-पष्ठ वर्ग.

सेडिय वगेरे वन-
स्पति.

१. [प्र०] हे भगवन् ! सेडिय, भंतिय (भंडिय), दर्भ, कौतिय, दर्भकुश, पर्वक, पोदेइल (पोइदइल), अर्जुन (अजन), आपाढक,

१ कंडा-वे-ड्ड । २ सत्तवत्त-ग । ३ भंडिय-ग । ४ पोइदइल-ग । ५ अज्जण-ग ।

१ * वंसे वेच्छु (ण) कणए कंकाषंसे य चाववचे य ।

उदए इक्कए विसए कडा वेत्ते य कलाणे ॥ ३२ ॥ सुओ प्रज्ञा० पद १ प० ३२

१ † इक्खु य इक्खुवाली वीरणी तह इक्कडे य मासे य ।

सुंठे सरे य वेत्ते तिमिरे सतपोरग नले य ॥ सुओ प्रज्ञा० पद १ प० ३२.

१ ‡ संडिय भंतिय हो(को)त्तिय दम्मकुसे पव्वए य पोइइल ।

अज्जुण असाढए होहियसे सुयवेय खीरसुसे ॥

एरंटे कुणविदे फरजर सुठे तहा विभग्गु य ।

महुरतण छुरय सिप्पिय बोदन्वे सुकलितणे य ॥ ३४ ॥ सुओ प्रज्ञा० पद १ प० ३२.

कीर-भुस-परंड-कुरुकुंद-करकर-सुंठ-विमंगु-मंहुवरयण-थुरग-सिपिय-सुंकलितणाणं एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्क-
मंति० ? [उ०] एवं एत्थ वि दस उद्देशगा निरवसेसं जहेव वंसवग्गो ।

एगवीसइमे सए छट्ठो वग्गो समत्तो ।

रोहितक, समु, अ(त)वखीर, सुस, परंड, कुरुकुंद, करकर, सुंठ, विमंग, मधुरयण (मधुवयण), थुरग, शिल्पिक अने सुंकलित्ण-ए वधाना
मूल तरीके जे जीवो उपजे छे, तेओ क्याथी आवीने उपजे छे ? [उ०] ए प्रमाणे समप्र वंशवर्गनी पेठे मूळादिक दश उद्देशको कहेवा.

एकवीशमा शतकमां पट्ट वर्ग समाप्त.

सत्तमो वग्गो

१. [प्र०] अह भंते ! *अभ्ररुह-वायण-हरितग-तंदुलेजग-तण-वत्थुल-पोरंग-मज्जारयाई-विळ्ळि-पालक-दगपिप्प
लिय-द्वि-सोत्थिय-सायमंडुक्कि-मूलग-सरिसव-अंविळसाग-जियंतगाणं एएसि णं जे जीवा मूल० ? [उ०] एवं एत्थ वि
दस उद्देशगा जहेव वंसवग्गो ।

एगवीसइमे सए सत्तमो वग्गो समत्तो ।

सप्तम वर्ग.

१. [प्र०] हे भगवन् ! †अभ्ररुह, वायण, हरितक, तांदळजे, तण, वत्थुल, पोरक, मार्जारक, विळ्ळि (चिळ्ळि), पालक, दग-
पिप्पली, द्वि-दर्वी, खस्तिक, शाकमंडुकी, मूलक, सरसव, अविळशाक, जियंतग, ए वधाना मूलपणे जे जीवो उपजे छे ते जीवो
क्याथी आवीने उपजे छे ? [उ०] पूर्वोक्त वंशवर्गनी पेठे अहिं पण मूळादिक दश उद्देशको कहेवा.

अभ्ररुहादि.

एकवीशमा शतकमां सप्तम वर्ग समाप्त.

अट्ठमो वग्गो

१. [प्र०] अह भंते ! तुलसी-कण्ह-दराल-फणेजा-अजा-चूयणा-चोरा-जीरा-दमणा-मरुया-इंदीवर-सयपुष्पाणं
एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति० ? [उ०] एत्थ वि दस उद्देशगा निरवसेसं जहा वंसाणं । एवं एएसु अट्ठसु वग्गोसु
असीति उद्देशगा भवति ।

एगवीसइमे सए अट्ठमो वग्गो समत्तो ।

एकवीसतिमं सयं समत्तं.

अष्टम वर्ग.

१. [प्र०] हे भगवन् ! तुलसी, कृष्ण, दराल, फणेजा, अजा, चूतणा, चोरा, जीरा, दमणा, मरुया, इंदीवर अने शतपुष्प-ए
वधाना मूलपणे जे जीवो उपजे छे ते जीवो क्याथी आवीने उपजे छे ? [उ०] वंशवर्गनी पेठे अहिं पण मूळादिक दश उद्देशको
कहेवा. ए प्रमाणे ए वधा मळीने आठ वर्गना एशी उद्देशको जाणवा. (२१-८)

तुलसी वगेरे हरित
वर्ग.

एकवीशमा शतकमां अष्टम वर्ग समाप्त.

एकवीशमं शतक समाप्त.

१ कुन-क । २ महुवयण-ग । ३ चायण-क । ४ चोरग-ग-घ । ५ वळिपाइ-क, चिळियाल-ग । ६ भूणा-क, भूयणा-ळ ।

१ *

अजो(व्भ)रुह वोडाणे हरितग तह तदुलेज तणे य

वत्थुल पोरग मज्जारयाइ विळ्ळी य पालका ॥ ३७ ॥

दगपिप्पली य दव्वी सोत्तिय साए तहेव मडुक्की ।

मूलग सरिसव अविळसाए य जियतए चैव ॥ ३८ ॥ जुओ प्रज्ञा० पद १ प० ३३.

१ † दस उपर अमुक प्रकारनी वनस्पति थाय छे तेने अभ्ररुह कहे छे.

१ ‡

तुलस कण्ह उराले फणेजाए अजाए य भूयणाए ।

वारग दमणग मरुययग सतपुष्पीदीवरे य तहा ॥३९॥ जे यावचे तहप्पगारा । सेतं हरिया । जुओ प्रज्ञा० पद १ प० ३३.

वावीसतिमं सयं ।

ताले-गड्डिय-बहुवीयगा य गुच्छा य गुम्म वल्ली य ।
छद्स वग्गा एए सट्टिं पुण होंति उद्देसा ॥

पढमो वग्गो ।

१. [प्र०] रायगिहे जाव-एवं वयासी-अह भंते ! *ताल-तमाल-तकालि-तेतलि-साल-सरला-सारगह्माणं जाव-केयति-कदलि-कंदलि-चम्मरुक्ख-गुंतुरुक्ख-हिंगुरुक्ख-लवंगुरुक्ख-पूयफल-खजूरि-नालपरीणं एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति ते णं भंते ! जीवा कओहिंतो उववज्जति ? [उ०] एवं पत्य वि मूलादीया दस उद्देसगा कायघा जहेव सालीणं, नवरं इमं नाणत्तं-मूले कंदे खंधे तयाए साले य एएसु पंचसु उद्देसगेषु देवो न उववज्जति । तिप्पि लेसाओ । ठिती जह्वेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दसवाससहस्साइं । उवरिहेसु पंचसु उद्देसपसु देवो उववज्जति । चत्तारि लेसाओ । ठिती जह्वेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वासपुहुत्तं । ओगाहणा मूले कंदे धणुहपुहुत्तं, खंधे तयाए साले य गाउयपुहुत्तं, पवाले पत्ते धणुहपुहुत्तं, पुप्फे हत्यपुहुत्तं, फले वीप य अंगुलपुहुत्तं । सघोसिं जह्वेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं । सेसं जहा सालीणं । एवं पए दस उद्देसगा ।

वावीसतिमे सए पढमो वग्गो समत्तो ।

वावीशमुं शतक.

१ ताल-तमालप्रमुख वृक्ष सवंधे दश उद्देशकना समुदायरूप प्रथम वर्ग, २ एकवीजवाद्या वृक्ष सवंधे वीजो वर्ग, ३ जेना फलोमां घणा वीज छे तेवा बहुवीज वृक्षो सवंधे त्रीजो वर्ग, ४ रींगणी वगरे गुच्छ वनस्पति विषे चोयो वर्ग, ५ सिरिय, नवमालिका वगरे गुल्म वनस्पति विषे पाचमो वर्ग अने ६ वल्लि-पुंकली वगरे वेल् सवंधे छट्टो वर्ग-ए प्रमाणे दश दश उद्देशकना छ वर्ग अने तेना वधा मळीने साठ उद्देशको आ शतकमा कहेवामां आवशे.

प्रथम वर्ग.

ताह वगरे बलयवर्ग.

१. [प्र०] राजगृहनगरमा यावत्-[भगवान् गीतम] आ प्रमाणे वोल्या के, हे भगवन् ! ताह, तमाल, तकालि, तेतलि, साल, सरल-देवदार, सारगळ, यावत्-केतकी (केवडो), केळ, कंदली, चर्मवृक्ष, गुंदवृक्ष, हिंगुवृक्ष, लवंगवृक्ष, सोपारीलुं वृक्ष, खजूरी अने नाळीपरी-ए वधाना मूलपणे जे जीवो उपजे छे ते जीवो क्याथी आवीने उपजे छे ? [उ०] शालिवर्गनी पेठे अहिं पण मूलादिक दश उद्देशको कहेवा. परंतु तेमा विशेष ए छे के, आ वृक्षना मूळ, कंद, स्कंध, छाल, अने शाखा-ए पांचे उद्देशकमां देवो आवी उपजता नथी, तेथी त्यां तेओने त्रण लेइयाओ होय छे. तेओनी स्थिति जघन्य अंतर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट दश हजार वर्ष छे. अने वाकीना पाच उद्देशकमां देवो उत्पन्न थाय छे, माटे त्यां तेओने चार लेइयाओ होय छे. तेओनी स्थिति जघन्य अंतर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट वर्षपृथक्त्व-वे वरसथी नव वरस सुधीनी होय छे. अवगाहना-शरीर प्रमाण मूळ अने कंदनी धनुपपृथक्त्व, तथा शाखानी गाउपृथक्त्व होय छे, प्रवाल अने पांदडानी अवगाहना धनुपपृथक्त्व, पुष्पनी हस्तपृथक्त्व अने वीजनी अंगुलपृथक्त्व उत्कृष्ट अवगाहना होय छे. ए वधानी जघन्य अवगाहना अंगुलना असंख्यातमा भागनी जाणवी. वाकी वधुं शालिवर्गनी पेठे कहेवुं. ए प्रमाणे ए दस उद्देशको कहेवा.

वावीशमा शतकमां प्रथम वर्ग समाप्त.

१ गुंदरु ग-ड ।

१ *

ताल तमाले तकालि तो(ते)वली साली (छे) य सारकत्ताणे ।

सरले जावति केतइ कदली तह ध(च)म्मरुक्खे य ॥ ३६ ॥

मुयरुक्ख हिंगुरुक्खे लवंगुरुक्खे य होइ बोद्धवे ॥ ३६ ॥

पूयफली खज्जुरी बोद्धव्या णालिपरी य ॥ ३७ ॥ जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्तं बलया । जुओ प्रहा० पद १ प० ३३-१.

बीओ वग्गो ।

१. [प्र०] अह भंते ! *निंबं-व-जंबु-कोसंब-ताल-अंकोल्ल-पील्ल-सेल्ल-सल्लइ-मोयइ-मालुय-वउल-पलास-करंज-पुत्तंजीवग-रिट्ठे-विहेल्लग-हरित्तग-भल्लाय-उंबे(वे)भरिय-खीरणि-धायइ-पियाल-पूतियाणंभौयग-(करंज)-सेण्हय-पासिय-सीसव-अयसि-पुन्नाग-नागरुक्ख-सीवन्न-असोगाणं एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति० ? [उ०] एवं मूलादीया दस उद्देशगा कायञ्जा निरवसेसं जहा तौलवग्गो ।

बाविसतिमे सए वितिओ वग्गो समत्तो ।

द्वितीय वर्ग.

१. [प्र०] हे भगवन् ! लीमडो, आंवि, जांव, कोशंव, ता(सा)ल, अंकोल्ल, पील्ल, सेल्ल, सल्लकी, मोचकी, मालुक, बकुल, पलाश, करंज, पुत्रंजीवक, अरिष्ट-अरिठा, वहेडा, हरडे, मिलामा, उंबेभरिका, क्षीरिणी, धावडी, प्रियाल-चारोळी, पूतिनिंब, [करंज], सेण्हय, पासिय, सीसम, अतसी (असन), नागकेसर, नागवृक्ष, श्रीपर्णी (सेवन) अने अशोक-ए वधा वृक्षोना मूलपणे जे जीवो उपजे छे ते जीवो क्यांथी आवीने उपजे छे ? [उ०] ए प्रमाणे अहिं पण मूलादिक दश उद्देशको समप्र ताडवर्गनी पेठे कहेवा.

लीमडा वगेरे एका-
सिक वर्ग.

वाचीशमा शतकमां द्वितीय वर्ग समाप्त.

तइओ वग्गो ।

१. [प्र०] अह भंते ! †अत्थिय-तिट्ठुय-वोर-कविट्ठे-अवाडग-माउलिंग-विह्ल-आमलग-फणस-दाडिम-आसत्थ-उं-वर-वड-णग्गोह-नंदिरुक्ख-पिप्पल-सतर-पिलक्खुरुक्ख-काउंवरिय-कुच्छुंभरिय-देवदालि-तिलग-लउय-छत्तोह-सि-रीस-सत्तवन्न-दहिवन्न-लोद्ध-धव-चंदण-अज्जुण-णीव-कुडु(ड)ग-कलंवाणं एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति ते णं भंते !० ? [उ०] एवं एत्थ वि मूलादीया दस उद्देशगा तालवग्गसरिसा नेयञ्जा जाव-वीयं ।

बाविसतिमे सए तइओ वग्गो समत्तो ।

तृतीय वर्ग.

१. [प्र०] हे भगवन् ! अगस्तिक, तिंटुक, वोर, कोठी, अवाडग, वीजोरं, विल्व, आमलक, फणस, दाडिम, अश्वत्थ-पीपळो, उंबरो, वड, न्यग्रोध, नंदिवृक्ष, पीपर, सतर, पृक्षवृक्ष (खाखरो), काकोदुंबरी, कुस्तुंभरि, देवदालि, तिलक, लकुच, छत्रौघ, शिरिप, सतपर्ण-सादड, दधिपर्ण, लोधक, धव, चंदन, अर्जुन, नीप, कुटज अने कदंब-ए वधा वृक्षोना मूलपणे जे जीवो उपजे छे ते जीवो क्यांथी आवीने उपजे छे ? [उ०] ए वधुं ताडवर्गनी पेठे कहेवुं. अहिं पण मूलथी मांडी वीज सुधी दश उद्देशको जाणवा.

अगस्तिक वगेरे
बहुचीज वर्ग.

वाचीशमा शतकमां तृतीय वर्ग समाप्त.

१ वहेडग-ग, वहेल्लग ड । २ उंबभरिय क । ३-णिवारग-क । ४-वग्गे क । ५ अत्थिया-ग-ड ।

१ *

णिंबं-व-जंबु-कोसंब-साल-अकुल्ल-पिल्ल सेल्ल य ।

सल्लइ-मोयइ-मालुय-वउल-पलासे करजे य ॥ १२ ॥

पुत्तंजीवय-रिट्ठे विहेल्लए हरिडए य भिन्नाए ।

उंबेभरिया खीरिणी बोद्धवे धायइ पियाले ॥ १३ ॥

पूइयनिंब-करजे सुण्हा तह सीसवा य असणे य ।

पुन्नाग-नागरुक्खे सीवणि तह असोणे य ॥ १४ ॥

बुओ प्रज्ञा० पद १ प० ३१-१.

१ †

अत्थिय तेंदु कविट्ठे अवाडग-माउलिंग-विह्ले य ।

आमलग फणस दालिम आसोटे(त्थे)उंवर वडे य ॥ १५ ॥

णग्गोह णदिरुक्खे पिप्परी सयरी पिल्लक्खुक्खे य ।

काउंवरि कुच्छुंभरि बोद्धवा देवदाली य ॥ १६ ॥

तिलए लउए छत्तोह सिरीस सत्तवन्न दहिवन्ने ।

लोद्धव-चंदण-अज्जुण-णीए कुटए करंवे य ॥ १७ ॥

चउत्थो वर्गो ।

१. [प्र०] अह भंते ! *वाइंगणि-अल्लइ-पोंडइ० एवं जहा पन्नवणाप गाहाणुसारेणं णेयधं, जाय- गंज-पाडला-वासि-अंकोल्लाणं प्पसि णं जे जीवा मूलत्ताप वक्कमंति० ? [उ०] एवं पत्थ वि मूलादीया दस उद्देसगा नेयघा जाव-वीयं ति निरवसेसं जहा वंसवर्गो ।

वावीसतिमे सए चउत्थो वर्गो समत्तो ।

चतुर्थ वर्ग.

१. [प्र०] हे भगवन् ! वेंगण, अल्लइ, पोंडइ-इत्यादि वृक्षोना नामो प्रज्ञापनासूत्रनी गायाने अनुसारे यावत्-गंज, पाटला, वासी अने अंकोल्ल सुधी जाणवां. ए वधा वृक्षोना मूलपणे जे जीवो उपजे छे ते जीवो क्यायी आवीने उपजे छे ? [उ०] अहिं पण मूत्रादिक यावत्-वीजपर्यंत दश उद्देशको वंशवर्गनी पेटे कहेवा.

वावीशमा शतकमां चतुर्थ वर्ग समाप्त.

पंचमो वर्गो ।

१. [प्र०] अह भंते ! †सिरियका-णवमालिय-कोरंटग-बंधुजीवग-मणोज्ञा० जहा पन्नवणाप पढमपदे गाहाणुसारेणं जाव- नलणीय-कुंद-महाजाइणं प्पसि णं जे जीवा मूलत्ताप वक्कमंति० ? [उ०] एवं पत्थ वि मूलादीया दस उद्देसगा निरवसेसं जहा सालीणं ।

वावीसतिमे सए पंचमो वर्गो समत्तो ।

पंचम वर्ग.

१. [प्र०] हे भगवन् ! सिरियक, नवमालिका, कोरटक, बंधुजीवक, मणोज्ञा-इत्यादि वधां नामो प्रज्ञापनासूत्रमां कहेल प्रथमपदनी गायाने अनुसारे यावत्-नलिनी, कुंद अने महाजाति सुधी जाणवां. ए वधा वृक्षोना मूलपणे जे जीवो उपजे छे ते जीवो क्यायी आवीने उपजे छे ? [उ०] अहिं पण शालिवर्गनी पेटे मूलादिक दश उद्देशको समग्र कहेवा.

वावीशमा शतकमां पंचम वर्ग समाप्त.

छट्टो वर्गो ।

१. [प्र०] अह भंते ! ‡पूसफलि-कालिंगी-तुंधी-तउसी-एल्लवालुंकी० एवं पदाणि छिंदियघाणि पन्नवणागाहाणुसारेणं जहा तालवग्गे जाव-दधिफोइइ-काकलि-सोकलि-अक्कवोंदीणं प्पसि णं जे जीवा मूलत्ताप वक्कमंति० ? [उ०]

षष्ठ वर्ग.

१. [प्र०] हे भगवन् ! पूसफलिका, कालिंगी, तुंधी, त्रपुपी-चीभडी, एल्लवालुंकी-इत्यादि नामो प्रज्ञापनासूत्रनी गायाने अनुसारे ताडवर्गमां कक्षा प्रमाणे समजवां, यावत्-दधिफोइइ, काकलि, सोकलि अने अर्कवोंदी, ए वधा वृक्षोना मूलपणे जे जीवो उपजे छे ते

१ उद्देसगा तालवग्गसरिसा ने-ग-घ । २-नालिय-ग-ड ।

१ * वाइंगणि-सल्लइ-धुंडइ य तह कल्लुरी य जीभुमणा ।

रुवी आडइ णीली तुलसी तह माजलिगी य ॥ १८ ॥ इत्यादि यावत्—

जीवइ केयइ तह गज पाटला दा(वा)मि अकोले ॥ २२ ॥ जुओ प्रजा० पद १ प० ३२-२

१ † सेण(सिरि)यए णोमात्रिय कोरंटय बंधुजीवग-मणोजे ।

पिइय पाण कणयर कुजय तह सिद्धवारे य ॥ २३ ॥

जाइ मोगगर तह ज्हिया य तह मल्लिया य वासती ।

वत्थुल कथुल सेवाल गठी मगदतिया चेव ॥ २४ ॥

चपकजी(जा)इ णीइया डुंवे तहा महाजाइ । ×× जुओ प्रजा० पद १ प० ३२-२

१ ‡ पूसफली कालिंगी तुंधी तउसी य एल्लवालुंकी ।

घोनाटइ पडोला पचगुली आयणीली य ॥ २६ ॥ यावत्—

दधिफोइइ कागली मोगली य तह अक्कवोंदी य ॥ ३० ॥ जुओ प्रजा० पद १ प० ३३-१

वेंगण वगेरे शुच
वर्ग.

सिरियक वगेरे
शुचवर्ग.

पूसफली वगेरे वडी
वर्ग

एवं मूलादीया दस उद्देशगा कायञ्चा जहा तालवग्गो । नवरं फलउद्देशे ओगाहणाए जह्मेणं अंगुळस्स असंखेत्तमागं,
उक्कोसेणं धणुहपुट्टं । तिती सवत्थ जह्मेणं अंतोमुट्टं, उक्कोसेणं वासपुट्टं, सेसं तं चेव । छट्ठो वग्गो समत्तो । एवं
छत्तु वि वग्गेसु सट्ठि उद्देशगा भवंति ।

वावीसतिमे सए छट्ठो वग्गो समत्तो ।

वावीसतिमं सयं समत्तं ।

जीवो क्याथी आवीने उपजे छे ? [उ०] अहिं पण ताडवर्गनी पेठे मूलादिक दश उद्देशको संपूर्ण कहेवा. विशेष ए के फलेद्देशकमां फलनी जघन्य अवगाहना अंगुलना असंख्यातमा भागनी अने उत्कृष्ट धनुपपृथक्त्व—वेथी नव धनुषनी होय छे. वधे स्थळे स्थिति जघन्य अंतर्मुहूर्तनी अने उत्कृष्ट वेथी नव वरसनी जाणवी. वाकी वधुं पूर्व प्रमाणे जाणवुं. ए प्रमाणे छ वर्गना मळीने साठ उद्देशको थाय छे.

वावीशमा शतकमां पट्ट वर्गं समाप्त.

वावीशमुं शतक समाप्त.



तेवीसतिमं सयं ।

आलुय लोही अर्वाए पाढा तह मासवन्नि वल्ली य ।
पंचेते दसवग्गा पञ्जासं ह्येति उद्देशा ॥

पढमो वग्गो ।

१. [प्र०] रायगिहे जाव-एवं वयासी-अह भंते ! *आलुय-मूलग-सिंगवेर-हलिद्-रु-कंडरिय-जीरु-च्छीरविरालि-किट्टि-कुंडुक-कणह-कंडउसु-महु-पयलद्-महुसिंगि-गिरुहा-संपसुगंधा-छिन्नरुहा-वीयरुहाणं प्पसि णं जे जीवा मूलचाए वक्कमंति०? [उ०] एवं मूलादीया दस उद्देशगा कायद्या वंसवग्गसरिसा, नवरं परिमाणं जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा असंखेज्जा वा अणंता वा उववज्जंति । अवहारो-गोयमा ! ते णं अणंता समये २ अवहीरमाणा २ अणंताहिं ओसप्पिणीहिं उस्सप्पिणीहिं एवतिकालेणं अवहीरंति, नो चेव णं अवहरिया सिया । ठिती जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुच्चं, सेसं तं चेव ।

तेवीसतिमे सए पढमो वग्गो समत्तो ।

त्रेवीशमुं शतक.

[उद्देशकार्यसंग्रह-] १ आलुक वगेरे साधारण वनस्पतिना मेढ संवन्वे दश उद्देशान्मक प्रथम वर्ग, २ लोही प्रमुख अनंतकायिक वनस्पति संबंधे वीजो वर्ग, ३ अत्रक वगेरे वनस्पति विषे त्रीजो वर्ग, ४ पाठा, भृगवालुंकी वगेरे वनस्पति संबंधे चतुर्थ वर्ग अने ५ मापपर्णी वगेरे वनस्पति विषे पंचम वर्ग. ए प्रमाणे पांच वर्गना दस दस उद्देशको मळीने पचास उद्देशको आ त्रेवीशमा शतकमा कहेवाना छे.

प्रथम वर्ग.

१. [प्र०] राजगृहनगरमा भगवान् गौतम यावत्-आ प्रमाणे वोल्या के-हे भगवन् ! आलुक, मूला, आहु, हल्लर, रु, कंडरिक्, जीरुं, क्षीरविराली (क्षीरविटारीकण्ड), किट्टि, कुंडुक, कृष्ण, कडसु, मधु, पयलड, मधुसिंगी, निरुहा, सर्पसुगंधा, छिन्नरुहा अने वीजरुहा-ए ववा वृक्षोना मूळपणे जे जीवो उपजे छे ते जीवो क्यांथी आवीने उपजे छे ? [उ०] अहिं वंशवर्गनी पेठे मूलादिक दश उद्देशको कहेवा. विशेष ए के तेओसुं परिमाण जवन्थी एक समये एक, वे के त्रण अने उत्कृष्ट सख्याता, असख्याता अने अनंता आवीने उपजे छे. वळी हे गौतम ! तेओनो अपहार आ प्रमाणे छे-जो ते अनंत जीवो, समये समये अपहरीए तो अनंत उत्सर्पिणी अने अवसर्पिणी काले अपहराय, पण ए प्रमाणे अपहराता नथी. वळी तेओनी जवन्थ अने उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्तनी छे. वाकी वधुं तेज प्रमाणे जाणवुं.

त्रेवीशमा शतकमां प्रथम वर्ग समाप्त.

१ अवय-ग । २ पञ्जासा-ग । ३ जारु-क । ४ कटुकण-ट । ५ कडसु-ग । ६ मधुमयलद्-क । ७ र्पसुगंधा ट ।

१ *

अवए पणए सेवाले निहुरुधु हुरिभाग य ।

अस्सकन्नि सिहकन्नि सिटि तत्तो सुसुंटी य ॥ ४३ ॥

रुड कुंडरिया जीरु छीरविराली तहेव किट्टीया ।

हाडिद्दा सिंगवेरे य आलुग्गा मूलए इय ॥ ४४ ॥ जुओ प्रजा० पद १ प० ३४-२

वीओ वग्गो ।

१. [प्र०] अह भंते ! लोही-णीह-थीह-थिभगा-अस्सकन्नी-सिंहकन्नी-सीउंढी-मुसंढीणं एप्पसि णं जीवा मूल० ? [उ०] एवं पत्थ वि दस उद्देशगा जहेव आलुवग्गे । नवरं ओगाहणा तालवग्गसरिसा, सेसं तं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

तेवीसतिमे सए वितिओ वग्गो समत्तो ।

द्वितीय वर्ग.

१. [प्र०] हे भगवन् ! *लोही, नीह, थीह, थिभगा, अश्वकर्णी, सिंहकर्णी, सीउंढी अने मुसुंढी-ए वधा वृक्षोना मूलपणे जे जीवो उपजे छे तेओ क्याथी आवीने उपजे छे ? [उ०] आलुवर्गनी पेठे अहि पण मूलादिक दस उद्देशको कहेवा. परंतु विशेष ए के, अवगाहना ताडवर्गनी पेठे जाणवी. वाकी वधुं तेज प्रमाणे समजवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

लोही वगेरे अनन्त-
कामिक वनस्पति-

त्रेवीशमा शतकमां द्वितीय वर्ग समाप्त.

तइओ वग्गो ।

१. [प्र०] अह भंते ! आय-काय-कुहुण-कुंदुरुक्क-उध्वेहलिय-सफा-सजा-छत्ता-वंसाणिय-कुमारारणं एतेसि णं जे जीवा मूलत्ताए० ? [उ०] एवं पत्थ वि मूलादीया दस उद्देशगा निरवसेसं जहा आलुवग्गो, नवरं ओगाहणा तालवग्ग-सरिसा, सेसं तं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

तेवीसतिमे सए तइओ वग्गो समत्तो ।

तृतीय वर्ग.

१. [प्र०] हे भगवन् ! †आय, काय, कुहुणा, कुंदुरुक्क, उध्वेहलिय, सफा, सेजा, छत्रा, वंशानिका अने कुमारी-ए वधा वृक्षोना मूल तरीके जे जीवो उपजे छे ते जीवो क्याथी आवीने उपजे छे ? [उ०] हे गौतम ! वधुं आलुवर्गनी पेठे कहेवुं. अने ए प्रमाणे दशे उद्देशको कहेवा. विशेष ए के, अवगाहना ताडवर्गनी पेठे कहेवी. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

आयादि कुहुणावर्ग-

त्रेवीशमा शतकमां तृतीय वर्ग समाप्त.

चउत्थो वग्गो ।

१. [प्र०] अह भंते ! पाढा-मियवालुंकि-मधुररसा-रायवह्लि-पउमा-मोढरि-दंति-चंडीणं एतेसि णं जे जीवा मूल० ? [उ०] एवं पत्थ वि मूलादीया दस उद्देशगा आलुवग्गसरिसा, नवरं ओगाहणा जहा वल्लीणं, सेसं तं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

तेवीसइमे सए चउत्थो वग्गो समत्तो ।

चतुर्थ वर्ग.

१. [प्र०] हे भगवन् ! ‡पाढा, मृगवालुंकी, मधुररसा, राजवल्ली, पद्मा, मोढरी, दंती अने चंडी-ए वधाना मूलपणे जे जीवो उपजे छे ते जीवो क्याथी आवीने उपजे छे ? [उ०] आलुवर्गनी पेठे अहि पण मूलादिक दस उद्देशको कहेवा. विशेष ए के शरीरुं प्रमाण वल्लीनी पेठे जाणवुं. वाकी वधुं तेज प्रमाणे कहेवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

पाढावर्ग-

त्रेवीशमा शतकमां चतुर्थ वर्ग समाप्त.

१ * लुओ प्रज्ञा० पद १ प० ३४—२

१ 'नवर ओगाहणा ! तालवग्गसरिसा' इति पाठो क-ग पुस्तके नोपलभ्यते । २ मोढरि ग-य ।

१ † कुहुणा अणेगविहा पत्ता, तंजहा-आए, काए, कुहुणे, कुण्के, दव्वहलिया, सफाए, सज्जाए, छत्तोए, वंसीण, हिताकरए । लुओ—प्रज्ञा० पद १ प० ३३—२

१ ‡

पाढा-मियवालुंकी मधुररसा चेव रायवत्ती(ली)य ।

पउमा माढरि दंतीति चमी किट्टीति यावरा ॥ लुओ—प्रज्ञा० पद १ प० ३४—२

पंचमो वर्गो ।

१ [प्र०] अहं भंते ! *मासपत्री-मुग्गपत्री-जीवग-सरिसव-करेणुय-काओलि-खीरकाओलि-भंगि-णहि-किमिरासि-भद्दमुच्छ-णंगलड-पद्योय-किंणा (किण्हाय) पडल-पा(ह)ढे-हरेणुया-लोहीणं पपसि णं जे जीवा मूल० ? [उ०] एवं एत्थं वि दस उद्देशगा निरवसेसं आलुयवग्गसरिसा । एवं एत्थं पंचसु वि वर्गेषु पचासं उद्देशगा भाणियत्था । सद्यत्थं देवा ण उचयजंति, तिन्नि लेसाओ । 'सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ।

तेवीसतिमे सए पंचमो वर्गो समत्तो ।

तेवीसइसं सयं समत्तं ।

पंचम वर्ग.

मासपर्णा आदि
वटिवर्ग.

१. [प्र०] हे भगवन् ! मासपर्णा, मुद्गपर्णा, जीवक, सरसव (?), करेणुक, काकोली, क्षीरकाकोली, भंगी, णही, कृमिराशि, भद्द-मुस्ता, लागली, पडय (पयोद), किण्णापडलय, पाड (हट), हरेणुका अने छोही-ए वधा वृक्षोना मूलपणे जे जीवो उपजे छे ते क्यायी आवीने उपजे छे ? [उ०] आलुवर्गनी पेठे अहि पण मूलादिक दश उद्देशको कहेवा. ए प्रमाणे अहिं आ पाच वर्गोमा वधा मळीने पचास उद्देशको कहेवा. वधे ठेकाणे देवो उपजता नथी, तेयी दरेक ठेकाणे प्रथमनी त्रणज लेख्याओ होय छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

त्रेवीशमा शतकमां पंचम वर्ग समाप्त.

त्रेवीशसुं शतक समाप्त.



चउवीसइमं सयं ।

१ उववाय २ परीमाणं ३ संघयणु-४ चत्तमेव ५ संठाणं ।
६ लेस्सा ७ दिट्ठी ८ णाणे अन्नाणे ९ जोग १० उवओगे ॥
११ सन्ना १२ कसाय १३ इंदिय १४ समुग्घाया १५ वेदणा य १६ वेदे य ।
१७ आउं १८ अज्झवसाणा १९ अणुबंधो २० कायसंवेहो ॥
जीवपदे जीवपदे जीवाणं दंडगंमि उद्देसो ।
चउवीसतिमंमि सए चउवीसं होंति उद्देसा ॥

पढमो उद्देसो ।

१. [प्र०] रायगिहे जाव-एवं वयासी-णेरइया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति, किं नेरइपहिंतो उववज्जंति, तिरिक्खजोणिपहिंतो उववज्जंति, मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, देवेहिंतो उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! णो नेरइपहिंतो उववज्जंति, तिरिक्खजोणिपहिंतो उववज्जंति, मणुस्सेहिंतो वि उववज्जंति, णो देवेहिंतो उववज्जंति ।

२. [प्र०] जइ तिरिक्खजोणिपहिंतो उववज्जंति किं एगिंदियतिरिक्खजोणिपहिंतो उववज्जंति, वेइंदियतिरि०, तेइंदियतिरि० चउरिंदियतिरि० पंचिंदियतिरिक्खजोणिपहिंतो उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! नो एगिंदियतिरिक्खजोणिपहिंतो उववज्जंति, णो वेइंदिय०, णो तेइंदिय०, णो चउरिंदिय०, पंचिंदियतिरिक्खजोणिपहिंतो उववज्जंति ।

चोवीशमुं शतक.

[उद्देशकसंग्रह-] १ *उपपात, २ परिमाण, ३ सहनन-सघयण, ४ उंचाई, ५ संस्थान-आकार, ६ लेइया, ७ दृष्टि, ८ ज्ञान-अज्ञान, ९ योग, १० उपयोग, ११ सन्ना, १२ कपाय, १३ इन्द्रिय, १४ समुद्घात, १५ वेदना, १६ वेद, १७ आयुष, १८ अघ्य-वसाय, १९ अनुबंध, अने २० कायसंवेध-आ वधा विपयो चोवीश दंडकाने आश्रयी प्रत्येक जीवपदे कहेवाना छे. अर्थात्-एक एक दंडके आ चीश द्वारे कहेवाना छे. ए रीते चोवीशमा शतकमा चोवीश दंडकाने आश्रयी चोवीश उद्देशको कहेवामा आवशे.

प्रथम उद्देशक.

१. [प्र०] राजगृह नगरमा [भगवान् गौतम] यावत्-आ प्रमाणे वोल्या के, हे भगवन् ! नैरयिको क्यांथी आवीने उत्पन्न थाय छे, शुं नैरयिकोथी आवी उत्पन्न थाय छे, तिर्यंचयोनिकोथी, मनुष्योथी के देवोथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! नैरयिको नैरयिकोथी आवी उत्पन्न थता नथी, तेम देवोथी आंवी उत्पन्न थता नथी, पण तिर्यंचयोनिकोथी अने मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय छे.

नैरयिकोनो उपपात.

२. [प्र०] हे भगवन् ! जो तिर्यंचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं एकेन्द्रिय तिर्यंचयोनिकोथी आवीने उत्पन्न थाय छे के वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय अने पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय के चउरिन्द्रिय तिर्यंचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थता नथी, पण पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय छे.

तिर्यंचोनो नैरयिकोमा उपपात.

* १ उपपातद्वारमा चोवीश दंडकाने आश्रयी नारकादि जीवो क्याथी आवीने उत्पन्न थाय छे ? परिमाणद्वारमा जे जीवो नारकादिमा उत्पन्न थवाना छे तेओ पोतानी कायमा केटला उत्पन्न थाय छे ? सहननद्वारमा नारकादिमा उत्पन्न थवाने योग्य जीवोने कसु संघयण होय ? उच्चत्वद्वारमा नारकादि गतिमा जनारा जीवोनी उंचाई केटली होय ? ए प्रमाणे बीजा सस्थानादि द्वारे जाणवा, अनुबन्ध-विवक्षित पर्यायनुं सातल, असुक फायथी अन्य कायमां अथवा तेनी समान कायमा जई पुनं त्या आववुं ते कायसंवेध आ वधा द्वारे प्रत्येक उद्देशकमा कहेवाना छे.

३. [प्र०] जह पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिपहिंतो उववजंति किं सन्निपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिपहिंतो उववजंति, असन्निपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिपहिंतो उववजंति ? [उ०] गोयमा ! सन्निपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिपहिंतो उववजंति, असन्निपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिपहिंतो वि उववजंति ।

४. [प्र०] जह असन्निपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिपहिंतो उववजंति किं जलचरोहिंतो उववजंति, थलचरोहिंतो उववजंति, खहचरोहिंतो उववजंति ? [उ०] गोयमा ! जलचरोहिंतो उववजंति, थलचरोहिंतो वि उववजंति, चहचरोहिंतो वि उववजंति ।

५. [प्र०] जह जलचर-थलचर-चहचरोहिंतो उववजंति किं पज्जत्तपहिंतो उववजंति अपज्जत्तपहिंतो उववजंति ? [उ०] गोयमा ! पज्जत्तपहिंतो उववजंति, णो अपज्जत्तपहिंतो उववजंति ।

६. [प्र०] पज्जत्ताअसन्निपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिप णं भंते ! जे भविण् नेरइप्पसु उववज्जित्तप से णं भंते ! कतिसु पुढवीसु उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! एगाए रयणप्पमाए पुढवीए उववज्जेजा ।

७. [प्र०] पज्जत्ताअसन्निपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिप णं भंते ! जे भविण् रयणप्पमाए पुढवीए नेरइप्पसु उववज्जित्तप से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससंहस्सट्टितीएसु, उक्कोसेणं पल्लिओवमस्स असंखेज्जभागट्टितीएसु उववज्जेजा ? ।

८. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववजंति ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एक्को वा दोवा वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा उववजंति २ ।

९. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किंसंघयणी पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! छेवट्टसंघयणी पन्नत्ता ३ ।

१०. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जभागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं ४.

११. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किंसंठिता पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! हुंडसंठाणसंठिया पन्नत्ता ५ ।

पं० तिर्यचोचो नारकोमा उपपात

३. [प्र०] हे भगवन् ! जो नैरयिको पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोयी आवी उत्पन्न थाय छे तो शुं संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोयी आवी उत्पन्न थाय छे के असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोयी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक अने असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकयी आवी उत्पन्न थाय छे.

असंज्ञी पं० तिर्यचोचो नारकोमा उपपात

४. [प्र०] हे भगवन् ! जो (नारको) असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकयी आवी उत्पन्न थाय छे तो शुं जलचरोयी, स्थलचरोयी के खेचरोयी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ जलचरोयी, स्थलचरोयी अने खेचरोयी आवीने उत्पन्न थाय छे.

पर्यासा असंज्ञी पं० तिर्यचोचो नारकोमा उपपात.

५. [प्र०] जो तेओ जलचरोयी, स्थलचरोयी अने खेचरोयी आवी उत्पन्न थाय छे तो शुं ते पर्यासा के अपर्यासा जलचरो, स्थलचरो के खेचरोयी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! पर्यासा जलचरो, स्थलचरो अने खेचरोयी आवी उत्पन्न थाय छे, पण अपर्यासायी आवी उत्पन्न थता नयी.

असंज्ञी पं० तिर्यचोचो केटली नरकपृथिवी सुधी उत्पन्न थाय ?

६. [प्र०] पर्यासा असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव, जे नैरयिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटली नरकपृथिवीमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते प्रथम रत्नप्रभा नरकपृथिवीमा उत्पन्न थाय.

केटला आयुपवाळा नारकोमा असंज्ञी तिर्यचोचो उपपत्ते ?

७. [प्र०] हे भगवन् ! पर्यासा असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव, जे रत्नप्रभापृथिवीना नैरयिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला कालना आयुपवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य दस हजार वर्ष अने उत्कृष्ट पल्योपमना असंख्यातमा भागनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय.

२ परिमाण

८. [प्र०] हे भगवन् ! तेओ (रत्नप्रभापृथिवीमा उत्पन्न थवाने योग्य असंज्ञी तिर्यचो) एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ जघन्ययी एक, वे के त्रण अने उत्कृष्ट सख्याता के असख्याता उत्पन्न थाय.

३ समय.

९. [प्र०] हे भगवन् ! ते असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोचो शरीरो कया सघयणवाळा होय ? [उ०] हे गौतम ! छेवट्ट-सेवार्तसवयणवाळा होय.

४ शरीरनी अगगाटना.

१०. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवोनी केटली मोटी शरीरावगाहना-उंचाई होय ? [उ०] हे गौतम ! तेओनी शरीरावगाहना जघन्य अगुलना असख्यातमा भागनी अने उत्कृष्ट एक हजार योजननी होय छे.

५ सम्मान.

११. [प्र०] तेओना शरीरोहुं कयुं सस्थान होय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओना शरीरहुं हुंडकसंस्थान होय छे.

१२. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं कति लेस्साओ पन्नत्ताओ ? [उ०] गोयमा ! तिन्नि लेस्साओ पन्नत्ताओ । तं जहा—
कणहलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा ६ ।

१३. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं सम्मदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, सम्मामिच्छादिट्ठी ? [उ०] गोयमा ! णो सम्मदिट्ठी, मिच्छा-
दिट्ठी, णो सम्मामिच्छादिट्ठी ७ ।

१४. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं णाणी, अन्नाणी ? [उ०] गोयमा ! णो णाणी, अन्नाणी, नियमा दुअन्नाणी, तं
जहा—मइअन्नाणी य सुयअन्नाणी य ८ ।

१५. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं मणजोगी, वयजोगी, कायजोगी ? [उ०] गोयमा ! णो मणजोगी, वयजोगी वि,
कायजोगी वि ९ ।

१६. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता ? [उ०] गोयमा ! सागारोवउत्ता वि अणागारो-
वउत्ता वि १० ।

१७. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं कति सन्नाओ पन्नत्ताओ ? [उ०] गोयमा ! चत्तारि सन्ना पन्नत्ता, तं जहा—आहा-
रसन्ना, भयसन्ना, मेहुणसन्ना, परिग्गहसन्ना ११ ।

१८. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं कति कसाया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! चत्तारि कसाया पन्नत्ता, तं जहा—कोह-
कसाए, माणकसाए, मायाकसाए, लोभकसाए १२ ।

१९. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं कति इंदिया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचिंदिया पन्नत्ता, तं जहा—सोइंदिय,
चर्क्खिंदिय, जाव—फासिंदिय १३ ।

२०. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं कति समुग्घाया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! तओ समुग्घाया पन्नत्ता, तं जहा—
वेयणासमुग्घाए, कसायसमुग्घाए, मारणंतियसमुग्घाए, १४ ।

२१. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं सायावेयगा असायावेयगा ? [उ०] गोयमा ! सायावेयगा वि, असायावेयगा
वि १५ ।

१२. [प्र०] हे भगवन् ! तेओने (असञ्जी पंचेन्द्रियतिर्यंचोने) केटली लेइयाओ कही छे ? [उ०] हे गौतम ! त्रण लेइयाओ
कही छे. ते आ प्रमाणे—कृष्णलेइया, नीललेइया अने कापोतलेइया. ६ लेइया

१३ [प्र०] हे भगवन् ! जुं ते जीवो सम्यग्दृष्टि छे, मिथ्यादृष्टि छे के सम्यग्मिथ्यादृष्टि छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ सम्यग्दृष्टि के
सम्यग्मिथ्यादृष्टि नथी, पण मिथ्यादृष्टि छे. ७ दृष्टि.

१४. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो ज्ञानी छे के अज्ञानी छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ ज्ञानी नथी, पण अज्ञानी छे अने तेओने
अवश्य वे अज्ञान होय छे, ते आ प्रमाणे—मतिअज्ञान अने श्रुतअज्ञान. ८ ज्ञान अने अज्ञान.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! ते असञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यंचो मनयोगवाळा, वचनयोगवाळा के काययोगवाळा छे ? [उ०] हे गौतम !
तेओ मनयोगवाळा नथी पण वचनयोग अने काययोगवाळा छे. ९ योग

१६. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो साकार उपयोगवाळा छे के अनाकार उपयोगवाळा छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ साकार अने
अनाकार बने उपयोगवाळा छे. १० उपयोग

१७. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवोने केटली संज्ञाओ होय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने चार संज्ञाओ होय छे, ते आ
प्रमाणे—१ आहारसज्ञा, २ भयसज्ञा, ३ मैथुनसंज्ञा अने ४ परिग्रहसज्ञा. ११ संज्ञा

१८. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवोने केटला कपायो होय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने चार कपायो होय छे, ते आ प्रमाणे—१
क्रोधकपाय, २ मानकपाय, ३ मायाकपाय अने ४ लोभकपाय. १२ कपाय.

१९. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवोने केटली इन्द्रियो होय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने पाच इन्द्रियो होय छे, ते आ प्रमाणे—
१ श्रोत्रेन्द्रिय, २ चक्षुइन्द्रिय, यावत्—५ स्पर्शेन्द्रिय. १३ इन्द्रिय.

२०. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवोने केटला समुद्घातो कहा छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने त्रण समुद्घातो कहा छे, ते आ
प्रमाणे—१ वेदनासमुद्घात, २ कपायसमुद्घात अने ३ मारणान्तिक समुद्घात. १४ समुद्घात.

२१. [प्र०] हे भगवन् ! जुं ते जीवो साता—सुख अनुभवे छे के असाता—दुःख अनुभवे छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ सुख
अनुभवे छे अने दुःख पण अनुभवे छे. १५ वेदना.

२२. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं इत्थीवेयगा, पुरिस्वेयगा, नपुंसगवेयगा ? [उ०] गोयमा ! णो इत्थीवेयगा, णो पुरिस्वेयगा, नपुंसगवेयगा १६ ।

२३. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं केवतियं कालं ठिती पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी १७ ।

२४. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं केवतिया अज्झवसाणा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! असंखेजा अज्झवसाणा पन्नत्ता ।

२५. [प्र०] ते णं भंते ! किं पसत्था अप्पसत्था ? [उ०] गोयमा ! पसत्था वि अप्पसत्था वि १८ ।

२६. [प्र०] से णं भंते ! पज्जत्ताअसन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणियत्ति कालो केवचिरं होइ ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी १९ ।

२७. [प्र०] से णं भंते ! पज्जत्ताअसन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिय रयणप्पमाप पुढवीए णेरइए, पुणरवि पज्जत्ताअसन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणियत्ति केवतियं कालं सेवेजा—केवतियं कालं गतिरागतिं करेजा ? [उ०] गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहाणइं, कालादेसेणं जट्ठेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं, उक्कोसेणं पल्लिवोवमस्स असंखेज्जभागं पुव्वकोडिमम्महियं, एवतियं कालं सेवेजा—एवतियं कालं गतिरागतिं करेजा २० ।

२८. [प्र०] पज्जत्ताअसन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिय णं भंते ! जे भविए जहन्नकालट्टितीएसु रयणप्पमापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवइकालट्टितीएसु उववजेजा ? [उ०] गोयमा ! जट्ठेणं दसवाससहस्सट्टितीएसु, उक्कोसेणं वि दसवाससहस्सट्टितीएसु उववजेजा ।

२९. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमणं केवतिया उववज्जंति ? [उ०] एवं सच्चेव वत्तवया निरवसेसा भाणियव्वा, जाव—अणुबंधो त्ति ।

१६ वेद. २२. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो स्त्रीवेदवाळा, पुरुषवेदवाळा के नपुंसकवेदवाळा होय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ स्त्रीवेदवाळा के पुरुषवेदवाळा नथी, पण नपुंसकवेदवाळा छे.

१७ आयुष २३. [प्र०] हे भगवन् ! तेओनी केटला काळनी स्थिति—आयुष कही छे ? [उ०] हे गौतम ! जघन्यथी अंतर्मुहूर्तनी अने उत्कृष्टथी पूर्वकोटीनी स्थिति कही छे.

१८ जघन्यथाय २४. [प्र०] हे भगवन् ! तेओना अध्यवसायस्थानो केटलां कह्या छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओना असख्याता अध्यवसायस्थानो कायां छे.

२५. [प्र०] हे भगवन् ! ते अध्यवसायस्थानो प्रशस्त छे के अप्रशस्त छे ? [उ०] हे गौतम ! ते प्रशस्त पण छे अने अप्रशस्त पण छे.

१९ अनुवध २६. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीव पर्याप्त असञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिकरूपे केटला काळ सुधी रहे ? [उ०] हे गौतम ! जघन्यथी अंतर्मुहूर्त सुधी अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी सुधी रहे.

२० कायमनेर २७. [प्र०] हे भगवन् ! ते पर्याप्त असञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिक थाय, पछी रत्नप्रभा पृथिवीमा नैरयिकपणे उपजे अने फरीवार पर्याप्त असञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिक थाय—एम केटलो काळ सेवे, केटलो काळ गमनागमन करे ? [उ०] हे गौतम ! भवादेश—भवनी अपेक्षाए वे भव अने काळनी अपेक्षाए जघन्य अंतर्मुहूर्त अधिक दसहजार वर्ष तथा उत्कृष्टथी पूर्वकोटी अधिक पल्लोपमनो अत्यन्तमो भाग—एटलो काळ सेवे, एटलो काळ गमनागमन करे (१).

२८. [प्र०] हे भगवन् ! पर्याप्त असञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिक जीव, जे रत्नप्रभा पृथिवीमा जघन्य काळनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला वर्षनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य दस हजार वर्ष अने उत्कृष्ट पण दस हजार वर्षनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय.

२९. [प्र०] हे भगवन् ! ते (असञ्जी पंचेन्द्रियतिर्यचो) एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! पूर्वे कहेली वधी वज्जयन्ता यावत्—'अनुवध' (सु. ७—२६) सुधी अहि कहेवी.

१० प्रथम भवमा असञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिक थाय अने बीजा भवमा नारक थाय, त्याची नीकळी ते पुन असञ्जी प० तिर्यच्योनिक न थाय, पण अतएव नानुप प्राप्त करे, माटे भवनी अपेक्षाए वे भवनी कायसवेध जाणवो अने काळनी अपेक्षाए जघन्य कायसवेध असञ्जी जघन्य अंतर्मुहूर्त आयुषात्त नागवनी जघन्य दस हजार वर्षनी स्थिति अने उत्कृष्ट कायसवेध असञ्जीना पूर्वकोटिवर्ष प्रमाण उत्कृष्ट आयुष महित रत्नप्रभामा उत्कृष्ट आयुष पल्लोपमना अत्यन्तमो भाग प्रमाण जाणवो—टीका

३०. [प्र०] से णं भंते ! पञ्जत्ताअसन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिए जहन्नकालट्टितीयरयणप्पभापुढविनेरइए, पुणरवि पञ्जत्ताअसन्नि० जाव—गतिरागतिं करेज्जा ? [उ०] गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहन्नेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमम्भहियाइं, उक्कोसेणं पुद्दकोडी दसाहिं वाससहस्सेहिं अम्महियाइं, एवतियं कालं सेवेज्जा—एवतियं कालं गतिरागतिं करेज्जा २ ।

३१. [प्र०] पञ्जत्ताअसन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिए णं जे भविए उक्कोसकालट्टितीएसु रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवतियकालट्टितीएसु उववजेज्जा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागट्टितीएसु उववजेज्जा, उक्कोसेण वि पलिओवमस्स असंखेज्जइभागट्टितीएसु उववजेज्जा ।

३२. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा० [उ०] अवसेसं तं चेव, जाव—अणुबंधो ।

३३. [प्र०] से णं भंते ! पञ्जत्ताअसन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिए उक्कोसकालट्टितीयरयणप्पभापुढविनेरइए, पुणरवि पञ्जत्ता० जाव—करेज्जा ? [उ०] गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहन्नेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं अंतोमुहुत्तमम्भहियं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं पुद्दकोडिअम्महियं, एवतियं कालं सेवेज्जा—एवइयं कालं गतिरागतिं करेज्जा ३ ।

३४. [प्र०] जहन्नकालट्टितीयपञ्जत्ताअसन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवतियकालट्टितीएसु उववजेज्जा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्सट्टितीएसु, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागट्टितीएसु उववजेज्जा ।

३५. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिआ० ? [उ०] सेसं तं चेव, णवरं इमाइं तित्ति णाणत्ताइं—आउं, अज्झवसाणा, अणुबंधो य । जहन्नेणं टिती अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । २ तेसि णं भंते ! जीवाणं केवतिया अज्झवसाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! असंखेज्जा अज्झवसाणा पन्नत्ता । ते णं भंते ! किं पसत्था अप्पसत्था ? गोयमा ! णो पसत्था, अप्पसत्था । ३ अणुबंधो अंतोमुहुत्तं, सेसं तं चेव ।

३०. [प्र०] हे भगवन् ! पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिक यई जघन्यस्थितिवाळा रत्नप्रभा पृथिवीना नैरयिकपणे उत्पन्न थाय, अने पुनः पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिक थाय—एम यावत् केटला काळ सुधी गति आगति करे ? [उ०] हे गौतम ! भवनी अपेक्षाए वे भव अने काळनी अपेक्षाए जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक दस हजार वर्ष, तथा उत्कृष्ट पूर्वकोटी अधिक दस हजार वर्ष—एटलो काळ सेवे, एटलो काळ गति आगति करे (२).

कायमनेप.

३१. [प्र०] हे भगवन् ! पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिक, जे उत्कृष्टस्थितिवाळा रत्नप्रभानैरयिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला वर्षनी स्थितिवाळा नारकने विपे उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य अने उत्कृष्ट पल्योपमना असंख्यातमा भागनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय.

३ असंज्ञी ५० विद्वानो उल्लट्टिनिर्वा रत्नप्रभानाएवमा उपपात्त

३२. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय—इत्यादि वाकीनी वधी हकीकत यावत्—अनुबंध सुधी (सू० ७—२६) पूर्वनी पेठे कहेवी.

परिमाणारि

३३. [प्र०] हे भगवन् ! ते पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिक थाय, पछी उत्कृष्ट स्थितिवाळा रत्नप्रभामा नैरयिकपणे उत्पन्न थाय, वळी पाछो पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिक थाय—एम केटला काळ सुधी यावत्—गमनागमन करे ? [उ०] हे गौतम ! भवनी अपेक्षाए वे भवो अने काळनी अपेक्षाए जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक पल्योपमनो असंख्यातमो भाग तथा उत्कृष्ट पूर्वकोटी अधिक पल्योपमनो असंख्यातमो भाग—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (३).

वायमनेप.

३४. [प्र०] हे भगवन् ! जघन्यस्थितिवाळो पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिक जीव, जे रत्नप्रभा पृथिवीना नैरयिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला वर्षनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य दस हजारवर्षनी स्थितिवाळा अने उत्कृष्ट पल्योपमना असंख्यातमा भागनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय.

४ जघन्य स्थितिवाळा आगती विद्वानो रत्नप्रभामा उपपात्त

३५. [प्र०] हे भगवन् ! ते जघन्यआयुपवाळा असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिको एक समये केटला उत्पन्न थाय—इत्यादि वधी वक्तव्यता पूर्वनी पेठे कहेवी. पण तेमा आयुप, अघ्यवसाय अने अनुबंध तत्रेच *विशेषता आ प्रमाणे छे—१ | आयुप जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तनु छे. [प्र०] हे भगवन् ! तेओने केटलां अघ्यवसायो होय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने असंख्याता अघ्यवसायो होय छे २. [प्र०] हे भगवन् ! ते अघ्यवसायो प्रशस्त छे के अप्रशस्त छे ? [उ०] हे गौतम ! ते प्रशस्त नथी पण अप्रशस्त छे. ३ अनुबंध अन्तर्मुहूर्तनो छे. वाकी वधुं पूर्वोक्त जाणवुं.

परिमाणारि.

३५ * असंज्ञीनु जघन्य आयुप अन्तर्मुहूर्त होय छे, तेथी तेने अघ्यवसायनो अप्रशस्त होय छे, आयुपनी क्षीर्प स्थिति होय तो बंधे प्रकारान् प्रशस्त अने अप्रशस्त अघ्यवसायनो सम्य छे. अनुबंध अर्द्ध आयुपना समान जाणवो—टीका.

૩૬. [પ્ર૦] સે ણં મંતે ! જહ્નકાલટ્ટિતીયપજ્જત્તઅસન્નિપિંચિદિયં રયણપ્પમાં જાવ-કરેજ્જા ? [ઉ૦] ગોયમા ! ભવાદેસેણં દો ભવગ્ગહણાદં, કાલાદેસેણં જહ્નકેણં દસવાસસહસ્સાદં અંતોમુહુત્તમન્મહિયાદં, ઉક્કોસેણં પલિઓવમસ્સ અસંસેજ્જદ્દમાગં અંતોમુહુત્તમન્મહિયં, એવતિયં કાલં સેવેજ્જા, જાવ-ગતિરાગતિં કરેજ્જા ૪ ।

૩૭. [પ્ર૦] જહ્નકાલટ્ટિતીયપજ્જત્તઅસન્નિપિંચિદિયતિરિક્કરજોણિયં ણં મંતે ! જે ભવિયં જહ્નકાલટ્ટિદ્દપ્પસુ રયણપ્પમા-પુઢવિનેરદ્દપ્પસુ ઉવવજ્જિત્તપ્પ, સે ણં મંતે ! કેવતિયકાલટ્ટિતીયપ્પસુ ઉવવજ્જેજ્જા ? [ઉ૦] ગોયમા ! જહ્નકેણં દસવાસસહસ્સટ્ટિ-તીયપ્પસુ, ઉક્કોસેણ વિ દસવાસસહસ્સટ્ટિતીયપ્પસુ ઉવવજ્જેજ્જા ૩ ।

૩૮. [પ્ર૦] તે ણં મંતે ! જીવાં ? [ઉ૦] સેસં તં ચેવ, તાદં ચેવ તિન્નિ ણાણત્તાદં, જાવ—

૩૯. [પ્ર૦] સે ણં મંતે ! જહ્નકાલટ્ટિતીયપજ્જત્તં જાવ-જોણિયં જહ્નકાલટ્ટિતીયરયણપ્પમાં પુણરવિ જાવ- ? [ઉ૦] ગોયમા ! ભવાદેસેણં દો ભવગ્ગહણાદં, કાલાદેસેણં જહ્નકેણં દસવાસસહસ્સાદં અંતોમુહુત્તમન્મહિયાદં, ઉક્કોસેણ વિ દસવાસસહસ્સાદં અંતોમુહુત્તમન્મહિયાદં, એવદ્દયં કાલં સેવેજ્જા-જાવ-કરેજ્જા ૫ ।

૪૦. [પ્ર૦] જહ્નકાલટ્ટિતીયપજ્જત્તં જાવ-તિરિક્કરજોણિયં ણં મંતે ! જે ભવિયં ઉક્કોસકાલટ્ટિતીયપ્પસુ રયણપ્પમાપુઢ-વિનેરદ્દપ્પસુ ઉવવજ્જિત્તપ્પ સે ણં મંતે ! કેવતિયકાલટ્ટિતીયપ્પસુ ઉવવજ્જેજ્જા ? [ઉ૦] ગોયમા ! જહ્નકેણં પલિઓવમસ્સ અસંસેજ્જ-દ્દમાગટ્ટિતીયપ્પસુ ઉવવજ્જેજ્જા, ઉક્કોસેણ વિ પલિઓવમસ્સ અસંસેજ્જદ્દમાગટ્ટિતીયપ્પસુ ઉવવજ્જેજ્જા ।

૪૧. [પ્ર૦] તે ણં મંતે ! જીવાં ? [ઉ૦] અવસેસં તં ચેવ । તાદં ચેવ તિન્નિ ણાણત્તાદં-જાવ—

૪૨. [પ્ર૦] સે ણં મંતે ! જહ્નકાલટ્ટિતીયપજ્જત્તં જાવ-તિરિક્કરજોણિયં ઉક્કોસકાલટ્ટિતીયરયણં જાવ-કરેજ્જા ? [ઉ૦] ગોયમા ! ભવાદેસેણં દો ભવગ્ગહણાદં, કાલાદેસેણં જહ્નકેણં પલિઓવમસ્સ અસંસેજ્જદ્દમાગં, અંતોમુહુત્તમન્મહિયં, ઉક્કોસેણ વિ પલિઓવમસ્સ અસંસેજ્જદ્દમાગં અંતોમુહુત્તમન્મહિયં, એવતિયં કાલં જાવ-કરેજ્જા ૬ ।

કાયસવેધ

૩૬. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! જઘ્ન્યસ્થિતિવાલો પર્યાપ્ત અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચયોનિક જીવ થાય, પછી રત્નપ્રમામાં નૈરયિકપણે ઉત્પન્ન થાય અને પાછો જઘ્ન્યસ્થિતિવાલો પર્યાપ્ત અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચયોનિક થાય—એમ કેટલા કાઠસુધી સેવે, ક્યાં સુધી ગમનાગમન કરે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! ભવની અપેક્ષા એ ભવ સુધી અને કાઠની અપેક્ષા જઘ્ન્ય અન્તર્મુહૂર્ત અધિક દસ હજાર વર્ષ અને ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્ત અધિક પલ્યોપમનો અસંસ્થાતમો ભાગ—એટલો કાઠ યાવત્—ગમનાગમન કરે (૪).

૫ જઘ્ન્યં અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચનો જઘ્નં રત્નપ્રમા નૈર-યિકમા ઉપપાત

૩૭. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! જઘ્ન્ય આયુપવાલો પર્યાપ્ત અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચયોનિક જીવ, જે જઘ્ન્ય આયુપવાલો રત્નપ્રમાપૃથિવીના નૈરયિકોમા ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય છે તે કેટલા આયુપવાલો નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! જઘ્ન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ દસ હજાર વર્ષના આયુપવાલો નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય.

પરિમાણાદિ

૩૮. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! તે જઘ્ન્ય આયુપવાલો અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ જીવો એક સમયે કેટલા ઉત્પન્ન થાય—ઇત્યાદિ વધી વક્ત-વ્યતા પૂર્વવત્ જાણવી. તથા આયુપ, અધ્યવસાય અને અનુવંધ—એ વધી વિશેષતાઓ પણ પૂર્વવત્ જાણવી. યાવત્—

કાયસવેધ

૩૯. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! તે જઘ્ન્ય આયુપવાલો પર્યાપ્ત અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચયોનિક થાય, ત્યાર પછી તે જઘ્ન્ય આયુપવાલો રત્નપ્રમા પૃથિવીના નૈરયિકપણે ઉત્પન્ન થાય, વળી પુનઃ અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચયોનિક થાય—એમ કેટલા કાઠ સુધી યાવત્—ગમનાગમન કરે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! ભવાદેશ્યથી વે ભવ સુધી અને કાઠાદેશ્યથી જઘ્ન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્ત અધિક દસ હજાર વર્ષ—એટલો કાઠ સેવે, એટલો કાઠ ગતિ આગતિ કરે (૫).

૬ જઘ્નં અસંજ્ઞી તિર્યંચની ઉત્કૃષ્ટં રત્નપ્રમાનૈરયિકમા ઉત્પન્નિ

૪૦. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! જઘ્ન્યસ્થિતિવાલો પર્યાપ્ત અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચયોનિક જીવ જે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાલો રત્નપ્રમા નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય છે તે કેટલા વર્ષની સ્થિતિવાલો નૈરયિકોમા ઉત્પન્ન થાય ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તે જઘ્ન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ પલ્યોપમના અસંસ્થાતમા ભાગની સ્થિતિવાલો નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય.

પરિમાણાદિ

૪૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! તે (પર્યાપ્ત અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચો) એક સમયે કેટલા ઉત્પન્ન થાય—ઇત્યાદિ વધી વક્તવ્યતા પૂર્વની પેટે જાણવી. આયુપ, અધ્યવસાય તથા અનુવંધસંવંધે ત્રણ વિશેષતા છે તે પૂર્વવત્ જાણવી.

કાયસવેધ

૪૨. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! તે જઘ્ન્યસ્થિતિવાલો પર્યાપ્ત અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચયોનિક થઈ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાલો રત્નપ્રમા નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય અને પાછો પર્યાપ્ત અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચયોનિક થાય—એમ કેટલા કાઠ સુધી યાવત્—ગમનાગમન કરે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! ભવની અપેક્ષા એ ભવ અને કાઠની અપેક્ષા જઘ્ન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ અન્તર્મુહૂર્ત અધિક પલ્યોપમનો અસંસ્થાતમો ભાગ—એટલો કાઠ યાવત્—ગમનાગમન કરે (૬).

४३. [प्र०] उक्कोसकालद्वितीयपञ्चत्तअसन्निपांचिदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए रयणप्पभापुढविनेरइप्सु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवतियकाल० जाव-उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्सट्ठिप्सु, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइ० जाव-उववज्जेजा ।

४४. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं० ? [उ०] अवसेसं जहेव ओहियगमएणं तहेव अणुगंतघं । नवरं इमाहं दोन्नि नाणत्ताहं-ठिती जहन्नेणं पुच्चकोडी, उक्कोसेण वि पुच्चकोडी, एवं अणुवंधो वि, अवसेसं तं चेव ।

४५. [प्र०] से णं भंते ! उक्कोसकालद्वितीयपञ्चत्तअसन्नि० जाव-तिरिक्खजोणिए रयणप्पभा० जाव-? [उ०] गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाहं, कालादेसेणं जहन्नेणं पुच्चकोडी दसाहं वाससहस्सेहं अब्भहिया, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखे-ज्जइभागं पुच्चकोडीए अब्भहियं, एवतियं जाव-करेजा ७ ।

४६. [प्र०] उक्कोसकालद्वितीयपञ्चत्त० तिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए जहन्नकालद्वितीयेषु रयण० जाव-उवव-ज्जित्तए से णं भंते ! केवति० जाव-उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेण दसवाससहस्सट्ठितीयेषु, उक्कोसेण वि दसवास-सहस्सट्ठितीयेषु उववज्जेजा ।

४७. [प्र०] ते णं भंते ! ०? [उ०] सेसं तं चेव, जहा सत्तमगमए । जाव-

४८. [प्र०] से णं भंते ! उक्कोसकालद्वितीय-जाव-तिरिक्खजोणिए जहन्नकालद्वितीयरयणप्पभा० जाव-करेजा ? [उ०] गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाहं, कालादेसेणं जहन्नेणं पुच्चकोडी दसाहं वाससहस्सेहं अब्भहिया, उक्कोसेण वि पुच्चकोडी दसवाससहस्सेहं अब्भहिया, एवतियं जाव-करेजा ८ ।

४९. [प्र०] उक्कोसकालद्वितीयपञ्चत्त- जाव-तिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए उक्कोसकालद्वितीयेषु रयण० जाव-उववज्जित्तए से णं भंते ! केवतियकाल० जाव-उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागद्वितीयेषु, उक्कोसेण वि पलिओवमस्स असंखेज्जइभागद्वितीयेषु उववज्जेजा ।

४३. [प्र०] हे भगवन् ! उत्कृष्ट आयुपवाळो पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव, जे रत्नप्रभा नैरयिकोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला वर्पनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्यथी दस हजारवर्पनी अने उत्कृष्टथी पल्योप-मना असंख्यातमा भागनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय.

७ उत्कृष्ट० असंज्ञी तिर्यचनी रत्नप्रभा नारकमा उत्पत्ति.

४४. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय-इत्यादि वधी वक्तव्यता सामान्य पाठमां कक्षा प्रमाणे जाणवी. परन्तु स्थिति अने अनुबंध ए वे वावत विशेषता छे. स्थिति जघन्य अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी वर्पनी छे अने अनुबंध पण ए प्रमाणे ज जाणवो. वाकी बंधुं पूर्ववत् जाणवुं.

परिमाणादि.

४५. [प्र०] हे भगवन् ! ते उत्कृष्टस्थितिवाळो पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक थई रत्नप्रभामा नैरयिकोपणे उपजे अने पुनः उत्कृष्ट स्थितिवाळो असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक थाय-एम केटला काळ सुधी यावत्-गमनागमन करे ? [उ०] हे गौतम ! भवनी अपेक्षाए वे भवसुधी अने काळनी अपेक्षाए जघन्य दश हजारवर्ष अधिक पूर्वकोटी, अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी अधिक पल्योपमनो असंख्यातमो भाग-एटला काळ सुधी यावत्-गमनागमन करे (७).

कायसवेध-

४६. [प्र०] हे भगवन् ! उत्कृष्ट स्थितिवाळो पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव जे जघन्यस्थितिवाळा रत्नप्रभानैरयिकोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्यथी अने उत्कृष्टथी दस हजारव-र्पनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय.

८ उत्कृष्ट० असंज्ञी तिर्यचनी जघन्य० रत्नप्रभानारकमा उत्पत्ति

४७. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] वाकी बंधुं यावत्-अनुबंध सुधी सातमा गमकमा कक्षा प्रमाणे जाणवुं.

परिमाणादि.

४८. [प्र०] हे भगवन् ! ते उत्कृष्ट स्थितिवाळो पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक थई जघन्य स्थितिवाळा रत्नप्रभानैरयिकोमां उत्पन्न थाय अने पुनः उत्कृष्टस्थितिवाळो पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक थाय-एम केटलो काळ यावत्-गमनागमन करे ? [उ०] गौतम ! भवनी अपेक्षाए वे भव सुधी अने काळनी अपेक्षाए जघन्य अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी अधिक दस हजार वर्ष-एटलो काळ यावत्-गमनागमन करे (८).

कायसवेध.

४९. [प्र०] हे भगवन् ! उत्कृष्ट स्थितिवाळो पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक, जे उत्कृष्ट स्थितिवाळा रत्नप्रभा नैरयिकोमां उपजवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा रत्नप्रभानारकने विपे उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्यथी अने उत्कृष्टथी पल्योपमना असंख्यातमा भागनी स्थितिवाळा नैरयिकोमां उत्पन्न थाय.

९ उत्कृष्ट० जघन्यथी १० तिर्यचनी उत्कृष्ट० रत्नप्रभानारकमा उत्पत्ति

५०. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमणं ? [उ०] सेसं जहा सत्तमगमण । जाव—

५१. [प्र०] से णं भंते ! उक्कोसकालट्टितीयपज्जत्त० जाव—तिरिक्खजोणिण उक्कोसकालट्टितीयरणप्पमा० जाव—करेजा ? [उ०] गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाद्दं, कालादेसेणं जहत्तेणं पल्लोचमस्स असंजेज्जइभागं पुट्टकोडीए अम्महियं, उक्कोसेण चि पल्लोचमस्स असंजेज्जइभागं पुट्टकोडीए अम्महियं, एवतियं कालं सेवेजा, जाव—गतिरागतिं करेजा ९ । एवं एते ओहिया तिन्नि गमगा ३, जहत्तकालट्टितीएसु तिन्नि गमगा ६, उक्कोसकालट्टितीएसु तिन्नि गमगा ९, सत्ते ते णव गमा भवंति ।

५२. [प्र०] जइ सन्निपांचिदियतिरिक्खजोणिणहिंतो उववज्जंति किं संजेज्जवासाउयसन्निपांचिदियतिरिक्खजोणिणहिंतो उववज्जंति, असंजेज्जवासाउयसन्निपांचिदियतिरिक्ख० जाव—उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! संजेज्जवासाउयसन्निपांचिदियतिरिक्खजोणिणहिंतो उववज्जंति, णो असंजेज्जवासाउय० जाव—उववज्जंति ।

५३. [प्र०] जइ संजेज्जवासाउयसन्निपांचिदिय० जाव—उववज्जंति किं जलचरोहिंतो उववज्जंति—पुच्छा [उ०] गोयमा ! जलचरोहिंतो उववज्जंति, जहा असन्नी, जाव—पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति, णो अपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति ।

५४. [प्र०] पज्जत्तसंजेज्जवासाउयसन्निपांचिदियतिरिक्खजोणिणं णं भंते ! जे भविण्णेरइएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! कतिसु पुढवीसु उववजेजा ? [उ०] गोयमा ! सत्तसु पुढवीसु उववजेजा, तंजहा—रणप्पमाए, जाव—अहेसत्तमाए ।

५५. [प्र०] पज्जत्तसंजेज्जवासाउयसन्निपांचिदियतिरिक्खजोणिणं णं भंते ! जे भविण्णरणप्पमपुढविनेरइएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवतियकालट्टितीएसु उववजेजा ? [उ०] गोयमा ! जहत्तेणं दसवाससहस्सट्टितीएसु, उक्कोसेणं सागरोवमट्टितीएसु उववजेजा ।

५६. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमणं केवतिया उववज्जंति ? [उ०] जहेव असन्नी ।

परिमाणदि.

५०. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय—इत्यादि सातमा गमकमां (सू० ४३) कदा प्रमाणे जाणवुं.

कायसवेध

५१. [प्र०] हे भगवन् ! ते उत्कृष्ट स्थितिवाळो पर्याप्त असन्नी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक थई उत्कृष्टस्थितिवाळा रत्नप्रभा नैरयिकोमां यावत्—उत्पन्न थाय अने पाछो असन्नी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक थाय—ए प्रमाणे केटला काळ सुधी यावत्—गमनागमन करे ? [उ०] हे गौतम ! भवनी अपेक्षाए वे भव अने काळनी अपेक्षाए जघन्य अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी अधिक पत्योपमनो असल्यातमो भाग—एटलो काळ सेवे, यावत्—गतिआगति करे (९). ए प्रमाणे औधिक—सामान्य त्रण गम, जघन्यकाळनी स्थितिवाळा संवंधे त्रण गम अने उत्कृष्ट काळनी स्थितिवाळा संवंधे त्रण गम—ए वधा मळीने नव गमो थाय छे.

संज्ञी पंचेन्द्रिय
तिर्यचनो नारकमा
उपपात

५२. [प्र०] हे भगवन् ! जो [नैरयिको] संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं संख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोयोनिकथी आवी उत्पन्न थाय के असंख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते सख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकथी आवी उत्पन्न थाय, पण असंख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकथी आवी उत्पन्न न थाय.

सरयाता० स० प०
तिर्यचनो नारकमा
उपपात

५३. [प्र०] हे भगवन् ! जो [नैरयिको] संख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकथी आवी उत्पन्न थाय तो जलचरोथी, स्थलचरोथी के खेचरोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जलचरोथी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि वधुं असंज्ञीनी पेटे जाणवुं. यावत्—पर्याताथी आवी उत्पन्न थाय, पण अपर्याताथी आवी न उत्पन्न थाय.

पर्याप्त संख्याता०
स० प० तिर्यचनो
नारकमा उपपात

५४. [प्र०] हे भगवन् ! पर्याप्त संख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिको जे नैरयिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटली नरक पृथिवीओमा उत्पन्न थाय ? [उ०] ते साते नरक पृथिवीओमा उत्पन्न थाय. ते आ प्रमाणे—रत्नप्रभा, यावत्—अधः सत्तम पृथिवी.

सरयाता० स० प०
तिर्यचनो रत्नप्रमा
नारकमा उपपात

५५. [प्र०] हे भगवन् ! पर्याप्त संख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीवो, जे रत्नप्रभा पृथिवीना नैरयिकोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते केटला वर्पनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य दस हजार वर्पनी स्थितिवाळा अने उत्कृष्ट सागरोपमनी स्थितिवाळा नैरयिकोमां उत्पन्न थाय.

परिमाण

५६. [प्र०] हे भगवन् ! ते [संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीवो] एक समये केटला उपजे—इत्यादि वधुं असंज्ञीनी पेटे जाणवुं.

५७. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किंसंघयणी पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! छद्विहसंघयणी पन्नत्ता, तं जहा—वद्दरोसभनारायसंघयणी, उसभनारायसंघयणी, जाव—छेवट्टसंघयणी । सरीरोगाहणा जहेव असत्तीणं जहत्तेणं अंगुलस्स असंखेज्जभागं उक्कोसेणं जोयणसहस्सं ।

५८. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किंसंठिया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! छद्विहसंठिया पन्नत्ता, तंजहा—समचउरंसा, निग्गोहा, जाव—हुंडा ।

५९. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं कति लेस्साओ पन्नत्ताओ ? [उ०] गोयमा ! छल्लेसाओ पन्नत्ताओ । तंजहा—कण्ह-लेस्सा, जाव—सुक्कलेस्सा । दिट्ठी तिचिहा वि । तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा भयणाए । जोगो तिचिहो वि । सेसं जहा असत्तीणं जाव—अणुबंधो । नवरं पंच समुग्घाया आदिल्लगा । वेदो तिचिहो वि, अवसेसं तं चेव । जाव—

६०. [प्र०] से णं भंते ! पज्जत्तसंखेज्जासाउय० जाव—तिरिक्खजोणिए रयणप्पभा० जाव—करेज्जा ? [उ०] गोयमा ! भवादेसेणं जहत्तेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं । कालादेसेणं जहत्तेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहु-त्तम्व्भहियाइं, उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं पुच्चकोडीहिं अ्व्भहियाइं, एवतियं कालं सेवेज्जा, जाव—करेज्जा १ ।

६१. [प्र०] पज्जत्तसंखेज्ज० जाव—जे भविए जहत्तकाल० जाव—से णं भंते ! केवतियकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ? [उ०] गोयमा ! जहत्तेणं दसवाससहस्सट्टितीएसु, उक्कोसेणं वि दसवाससहस्सट्टितीएसु जाव—उववज्जेज्जा ।

६२. [प्र०] ते णं भंते जीवा० ? [उ०] एवं सो चेव पढमो गमओ निरवसेसो भाणियद्वो, जाव—कालादेसेणं जहत्तेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तम्व्भहियाइं, उक्कोसेणं चत्तारि पुच्चकोडीओ चत्तालीसाए वाससहस्सेहिं अ्व्भहियाओ, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागतं करेज्जा २ ।

६३. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववज्जे जहत्तेणं सागरोवमट्टितीएसु, उक्कोसेणं वि सागरोवमट्टितीएसु उववज्जेज्जा । अवसेसो परिमाणादीओ भवादेसपज्जवसाणो सो चेव पढमगमो णेयद्वो जाव—कालादेसेणं जहत्तेणं सागरो-

५७. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवोना शरीरो केटलो सघयणवाळा होय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओना शरीरो छए संघयण-सघयण-वाळां होय छे, ते आ प्रमाणे—१ वज्ररूपभनाराच संघयणवाळां, २ ऋपभनाराच संघयणवाळा, यावत्—६ छेवट्ट संघयणवाळा. शरीरनी उंचाइ असंज्ञीनी पेटे जघन्य अंगुलनो असंख्यातमो भाग अने उत्कृष्ट एक हजार योजन होय छे.

५८. [प्र०] हे भगवन् ! तेओना शरीरो कया संस्थानवाळां होय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओना शरीरो छए संस्थानवाळां होय छे, ते आ प्रमाणे—१ समचतुरस्रसंस्थानवाळां, २ न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थानवाळां अने यावत्—६ हुंडकसंस्थानवाळां.

५९. [प्र०] हे भगवन् ! ते संज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यचोने केटली लेइयाओ होय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने छए लेइयाओ होय छे. ते आ प्रमाणे—१ कृष्णलेइया, यावत्—शुक्कलेइया. तेओने दृष्टि त्रणे होय छे, तथा त्रण ज्ञान अने त्रण अज्ञान भजनाए—विकल्पे होय छे. योग त्रणे होय छे. वाकी बधुं असंज्ञीनी पेटे यावत्—अनुबंध सुधी जाणवुं. पण विशेष ए छे के तेओने प्रथमना पाच समुद्घातो होय छे. वेद त्रणे होय छे. वाकी बधुं पूर्ववत् जाणवुं. यावत्—

६०. [प्र०] हे भगवन् ! ते पर्याप्त संख्याता वर्पना आयुपवाळो संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच ऋई रत्नप्रभामा नैरयिकपणे उत्पन्न थाय, पुनः संख्याता वर्पना आयुपवाळो संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच थाय—एम केटला काळ सुधी यावत्—गमनागमन करे ? [उ०] हे गौतम ! भवनी अपेक्षाए जघन्यथी वे भव अने उत्कृष्टथी आठ भव सुधी, तथा काळनी अपेक्षाए जघन्यथी अन्तर्मुहूर्त अधिक दस हजार वर्ष अने उत्कृष्टथी चार पूर्वकोटी अधिक चार सागरोपम—एटलो काळ सेवे, यावत्—गमनागमन करे (१).

६१. [प्र०] हे भगवन् ! पर्याप्त संख्याता वर्पना आयुपवाळो संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव, जे जघन्य आयुपवाळा रत्नप्रभामा नैरयिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला वर्पनी स्थितिवाळा नैरयिकोमां उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्यथी अने उत्कृष्टथी पण दस हजार वर्पनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा यावत्—उत्पन्न थाय.

६२. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय—इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्वोक्त (सू० ५६—५८) प्रथम गमक सम्पूर्ण कहेवो, यावत्—कालादेश वडे जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक दस हजार वर्ष अने उत्कृष्टथी चालीश हजार वर्ष अधिक चार पूर्वकोटी—एटलो काळ सेवे, यावत्—गमनागमन करे (२).

६३. ते (संख्याता वर्पना—आयुपवाळो संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच) उत्कृष्ट स्थितिवाळा रत्नप्रभानैरयिकोमा उत्पन्न थाय तो जघन्य सागरोपमस्थितिवाळा अने उत्कृष्ट पण सागरोपम स्थितिवाळा नैरयिकोमां उत्पन्न थाय. वाकी परिमाणथी माडी भवादेश सुवीनो

सघयण.

संस्थान.

लेइया.

दृष्टि ज्ञान
अने अज्ञान.

कायसवेध

मल्याना० सर्गी
पं० तिर्यचनी जप०
रत्नप्रभानारकमा
उत्पत्ति

परिमाण.

વર્ષ અંતોમુહુત્તમમ્મહિયં, ઉક્લોસેણં ચચારિ સાગરોવમાઈં ચડઈં પુષ્કોડીઈં અન્મહિયાઈં, પ્વતિયં કાલં સેવેજા, જાવ-કરેજા ૩ ।

૬૪. [પ્ર૦] જહ્નકાલદ્વિતીયપજ્જસંસંજવાસાડયસન્નિપંચિદિયતિરિન્નવજોણિણં ણં મંતે ! જે મહિપ ર્યણપ્પમપુઢવિં૦ જાવ-ઉવવજ્જિત્તપ સે ણં મંતે ! કેવતિકાલદ્વિતીપ્પુ ઉવવજ્જેજા ? [ઉ૦] ગોયમા ! જહ્નકાલદ્વિતીપ્પુ, ઉક્લોસેણં સાગરોવમદ્વિતીપ્પુ ઉવવજ્જેજા ।

૬૫. [પ્ર૦] તે ણં મંતે ! જીવાં ? [ઉ૦] અવસેસો સો ચેવ ગમથો । નવરં ઇમાઈં અટ્ટ ણાણચાઈં—૧ સરીરોગાહણા જહ્નકાલ અંગુલસ્સ અસંસંજદમાગં, ઉક્લોસેણં ધણુહપુહુત્તં, ૨ લેસ્સાથો તિન્નિ આદિહ્હાથો, ૩ ણો સમ્મદિટ્ઠી, મિચ્છાદિટ્ઠી, ણો સમ્મામિચ્છાદિટ્ઠી, ૪ ણો ણાણી, દો અન્નાણા ણિયમં, ૫ સમુગ્વાયા આદિહ્હા તિન્નિ, ૬ આડં, ૭ અજ્જવસાણા, ૮ ધણુવંધો ય જહેવ અસત્તીણં । અવસેસં જહા પઢમગમણ જાવ-કાલાદેસેણં જહ્નકાલદ્વિતીપ્પુ દસવાસસહસ્સાઈં અંતોમુહુત્તમમ્મહિયાઈં, ઉક્લોસેણં ચચારિ સાગરોવમાઈં ચડઈં અંતોમુહુત્તમમ્મહિયાઈં, પ્વતિયં કાલં-જાવ કરેજા ૪ ।

૬૬. સો ચેવ જહ્નકાલદ્વિતીપ્પુ ઉવવજ્જો જહ્નકાલદ્વિતીપ્પુ દસવાસસહસ્સાઈં અંતોમુહુત્તમમ્મહિયાઈં, ઉક્લોસેણં ચિ દસવાસસહસ્સાઈં અંતોમુહુત્તમમ્મહિયાઈં, ઉક્લોસેણં ચચારિ સાગરોવમાઈં ચડઈં અંતોમુહુત્તમમ્મહિયાઈં, પ્વતિયં કાલં-જાવ કરેજા ૫ ।

૬૭. સો ચેવ ઉક્લોસકાલદ્વિતીપ્પુ ઉવવજ્જો જહ્નકાલદ્વિતીપ્પુ સાગરોવમદ્વિતીપ્પુ ઉવવજ્જેજા, ઉક્લોસેણં ચિ સાગરોવમદ્વિતીપ્પુ ઉવવજ્જેજા । તે ણં મંતે ! એવં સો ચેવ ચડઈયો ગમથો નિરવસેસો માણિયવો, જાવ-કાલાદેસેણં જહ્નકાલદ્વિતીપ્પુ સાગરોવમદ્વિતીપ્પુ અંતોમુહુત્તમમ્મહિયાઈં, ઉક્લોસેણં ચચારિ સાગરોવમાઈં ચડઈં અંતોમુહુત્તમમ્મહિયાઈં, પ્વતિયં જાવ-કરેજા ૬ ।

૬૮. [પ્ર૦] ઉક્લોસકાલદ્વિતીયપજ્જસંસંજવાસાડયં જાવ-તિરિન્નવજોણિણં ણં મંતે ! જે મહિપ ર્યણપ્પમાપુઢવિને-રૂપ્પુ ઉવવજ્જિત્તપ સે ણં મંતે ! કેવતિકાલદ્વિતીપ્પુ ઉવવજ્જેજા ? [ઉ૦] ગોયમા ! જહ્નકાલદ્વિતીપ્પુ, ઉક્લોસેણં સાગરોવમદ્વિતીપ્પુ ઉવવજ્જેજા ।

પૂર્વોક્ત પ્રથમ ગમક અર્હિ જાણવો. યાવત્-કાલની અપેક્ષા જવન્યથી અન્તર્મુદ્ધૂર્ત અધિક સાગરોપમ અને ઉત્ક્રુષ્ટથી ચાર પૂર્વકોટી અધિક ચાર સાગરોપમ-પટલો કાલ સેવે, યાવત્-ગમનાગમન કરે (૩).

૬૪. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! જવન્ય સ્થિતિવાલો પર્વાસ સહ્યાતા વર્ષના આયુપવાલો સંજી પંચેન્દ્રિય તિર્યચયોનિક જીવ, જે રત્નપ્રમા પૃથિવીમાં નૈરયિકોપણે ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય છે તે કેટલા વર્ષના આયુપવાલો નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તે જવન્યથી દસ હજાર વર્ષ અને ઉત્ક્રુષ્ટથી સાગરોપમની સ્થિતિવાલો નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય.

૬૫. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! તે જીવો એક સમયે કેટલા ઉત્પન્ન થાય-હ્યાદિ વધી વક્તવ્યતા માટે પ્રથમ ગમક કહેવો. પણ આ આઠ યાવત સંવંધે વિગેપતા છે—૧ તેઓના શરીરની ડંચાઈ જવન્યથી અંગુલનો અસહ્યાતમો ભાગ અને ઉત્ક્રુષ્ટથી ધનુપપૃથક્ત્વ-વેથી નવ ધનુપ સુધીની જાણવી. ૨ તેઓને પ્રથમની ત્રણ લેડ્યાઓ હોય છે, ૩ તેઓ સમ્યગ્દષ્ટિ કે મિશ્રદષ્ટિ નથી, પણ નિચ્યાદષ્ટિ હોય છે. ૪ તેઓ જ્ઞાની નથી પણ વે અજ્ઞાનવાલો હોય છે. ૫ તેઓને પ્રથમના ત્રણ સમુદ્ઘાતો હોય છે. ૬ આયુષ. ૭ અધ્યવસાય અને ૮ અનુવંધ અસંજીની પેટે જાણવા. વાકી વધું પ્રથમ ગમકની પેટે જાણવું, યાવત્-કાલની અપેક્ષા અન્તર્મુદ્ધૂર્ત અધિક દસ હજાર વર્ષ અને ઉત્ક્રુષ્ટ ચાર અન્તર્મુદ્ધૂર્ત અધિક ચાર સાગરોપમ-પટલો કાલ યાવત્-ગમનાગમન કરે (૪).

૬૬. તે (જવન્ય સ્થિતિવાલો સંજી પંચેન્દ્રિય તિર્યચ) જવન્ય કાલની સ્થિતિવાલો રત્નપ્રમા નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય તો જવન્ય અને ઉત્ક્રુષ્ટ દસ હજાર વર્ષની સ્થિતિવાલો નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય. હે મગવન્ ! તે જીવો એક સમયે કેટલા ઉત્પન્ન થાય-હ્યાદિ સંવંધે સંપૂર્ણ ચોથો ગમ કહેવો. યાવત્-કાલની અપેક્ષા જવન્ય અન્તર્મુદ્ધૂર્ત અધિક દસ હજાર વર્ષ અને ઉત્ક્રુષ્ટ ચાર અન્તર્મુદ્ધૂર્ત અધિક ચાલીશ હજાર વર્ષ-પટલો કાલ સેવે, યાવત્-ગમનાગમન કરે (૫).

૬૭. તે (જવન્ય આયુપવાલો સંજી પંચેન્દ્રિય તિર્યચ) ઉત્ક્રુષ્ટ સ્થિતિવાલો રત્નપ્રમા નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય તો જવન્ય અને ઉત્ક્રુષ્ટ સાગરોપમ સ્થિતિવાલો નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય. હે મગવન્ ! તે જીવો એક સમયે કેટલા ઉત્પન્ન થાય-હ્યાદિ ચોથો ગમ સમ્પૂર્ણ કહેવો. યાવત્-કાલની અપેક્ષા જવન્ય અન્તર્મુદ્ધૂર્ત અધિક સાગરોપમ અને ઉત્ક્રુષ્ટ ચાર અન્તર્મુદ્ધૂર્ત અધિક ચાર સાગરોપમ-પટલો કાલ યાવત્-ગમનાગમન કરે (૬).

૬૮. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! ઉત્ક્રુષ્ટ સ્થિતિવાલો સંજી પંચેન્દ્રિય તિર્યચયોનિક જીવ, જે રત્નપ્રમા પૃથિવીમાં ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય છે તે કેટલા વર્ષની સ્થિતિવાલો નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તે જવન્યથી દસ હજાર વર્ષની અને ઉત્ક્રુષ્ટથી એક સાગરોપમની સ્થિતિવાલો નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય.

ઉવ૦ સરી ૫૦
નિર્યચની રત્નપ્રમા-
નારકમાં ઉત્પન્ન

પરિમાણ.

ઉવ૦ સરી ૫૦ તિર્ય-
ચની જવ૦ રત્નપ્રમા-
નારકમાં ઉત્પન્ન
પરિમાણ

ઉવ૦ સરી ૫૦
નિર્યચની ઉત્ક્રુષ્ટ૦
રત્નપ્રમા નાર-
કમાં ઉત્પન્ન

ઉત્ક્રુષ્ટ૦ સરી ૫૦
નિર્યચની ઉત્ક્રુષ્ટ૦
રત્નપ્રમાનારકમાં
ઉત્પન્ન.

६९. ते णं भंते ! जीवा० अवसेसो परिमाणादीथो भवापसपजवसाणो एप्पसिं चेव पढमगमओ णेयघो, नवरं टिठी जहन्नेणं पुघकोडी, उक्कोसेण वि पुघकोडी । एवं अणुबंधो वि, सेसं तं चेव । कालादेसेणं जहन्नेणं पुघकोडी दसहिं वाससहस्सोहिं अब्भहिया, उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं पुघकोडीहिं अब्भहियाइं, एवतियं कालं जाव—करेजा ७ ।

७०. सो चेव जहन्नकालट्टितीपसु उचवन्नो जहन्नेणं दसवाससहस्सट्टितीपसु, उक्कोसेण वि दसवाससहस्सट्टितीपसु उचवज्जेजा ।

७१. ते णं भंते ! जीवा० सो चेव सत्तमो गमओ निरवसेसो. भाणियघो, जाव—‘भवादेशो’त्ति । कालादेसेणं जहन्नेणं पुघकोडी दसहिं वाससहस्सोहिं अब्भहिया, उक्कोसेणं चत्तारि पुघकोडीथो चत्तलीसाए वाससहस्सोहिं अब्भहियाओ, एवतियं जाव—करेजा ८ ।

७२. [प्र०] उक्कोसकालट्टितीयपज्जच० जाव—तिरिक्खज्जोणिणं णं भंते ! जे भविण्ण उक्कोसकालट्टितीय० जाव—उचवज्जित्तए से णं भंते ! केवत्तिकालट्टितीपसु उचवज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमट्टितीपसु, उक्कोसेण वि सागरोवमट्टितीपसु उचवज्जेजा ।

७३. ते णं भंते ! जीवा० सो चेव सत्तमगमओ निरवसेसो भाणियघो, जाव—‘भवादेशो’त्ति । कालादेसेणं जहन्नेणं सागरोवमं पुघकोडीए अब्भहियं, उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं पुघकोडीहिं अब्भहियाइं, एवइयं जाव—करेजा ९ । एवं एते णव गमका उक्खेवनिक्खेवथो नवसु वि जहेव असन्नीणं ।

७४. [प्र०] पज्जत्तसंखेज्जासाउयसन्निपंचिदियतिरिक्खज्जोणिणं णं भंते ! जे भविण्ण सक्करप्पभाए पुढवीए णेरइएसु उचवज्जित्तए से णं भंते ! केवत्तिकालट्टितीपसु उचवज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमट्टितीपसु, उक्कोसेणं तिसागरोवमट्टितीपसु उचवज्जेजा ।

७५. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं० [उ०] एवं जहेव रयणप्पभाए उचवज्जंतगस्स लद्धी सखेव निरवसेसा भाणियघा जाव—‘भवादेशो’त्ति । कालादेसेणं जहन्नेणं सागरोवमं अंतोमुहुत्तमव्वहियं, उक्कोसेणं वारस सागरोवमाइं

६९. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय इत्यादि—परिमाणथी मांडी भवादेश सुधीनी वक्तव्यता कहेना माटे एओनो (सङ्गी पंचेन्द्रियोनो) प्रथम गम कहेवो. परन्तु विशेष ए के स्थिति जघन्य अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी वर्पनी छे. ए प्रमाणे अनुबंध पण जाणवो. वाकी वधुं पूर्ववत् समजवुं. तथा काळनी अपेक्षाए जघन्यथी दस हजार वर्ष अधिक पूर्वकोटी वर्ष अने उत्कृष्टथी चार पूर्वकोटी अधिक चार सागरोपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (७).

७०. जो ते (उत्कृष्ट० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच) जघन्य स्थितिवाळा रत्नप्रभा पृथिवीना नैरयिकोमां उत्पन्न थाय तो ते जघन्य अने उत्कृष्ट दस हजार वर्षनी स्थितिवाळा नैरयिकोमां उत्पन्न थाय.

७१. हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय—इत्यादि यावत्—भवादेश सुधी सातमो गम कहेवो. काळनी अपेक्षाए जघन्यथी दस हजार अधिक पूर्वकोटी वर्ष अने उत्कृष्टथी चालीश हजार अधिक चार पूर्वकोटी वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (८).

७२. [प्र०] हे भगवन् ! उत्कृष्ट स्थितिवाळो पर्याप्त यावत्—तिर्यचयोनिक, जे उत्कृष्ट स्थितिवाळा रत्नप्रभा नैरयिकोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा नैरयिकोमां उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्यथी अने उत्कृष्टथी एक सागरोपमनी स्थितिवाळा नैरयिकोमां उत्पन्न थाय.

७३. हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय—इत्यादि यावत्—भवादेश सुधी पूर्वे कहेउ सातमो गम संपूर्ण कहेवो. यावत्—काळनी अपेक्षाए जघन्यथी पूर्वकोटी अधिक सागरोपम अने उत्कृष्टथी चार पूर्वकोटी अधिक चार सागरोपम—एटला काळ सुधी यावत्—गमनागमन करे, (९). ए प्रमाणे ए नव गमो जाणवा. अने नवे गमोमां प्रारंभ अने उपसंहार असंज्ञीनां पेटे कहेवो.

७४. [प्र०] हे भगवन् ! पर्याप्त संख्याता वर्पना आयुषवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव, जे शर्कराप्रभा पृथिवीना नैरयिकोपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते केटला वर्पनी स्थितिवाळा नैरयिकोमां उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्यथी एक सागरोपमनी स्थितिवाळा अने उत्कृष्टथी त्रण सागरोपमनी स्थितिवाळा नैरयिकोमां उत्पन्न थाय.

७५. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] रत्नप्रभा नरकमां उत्पन्न पनार पर्याप्त नरी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकनी समग्र वक्तव्यता अहि भवादेश सुधी कहेवी. तथा काळनी अपेक्षाए अन्तर्मुक्त अधिक सागरोपम अने उत्कृष्टथी चार

उत्कृष्ट० संज्ञी पंचेन्द्रिय
तिर्यचनी वक्तव्यता
रत्नप्रभाप्रकारका
जाणवि
परिमाण.

उत्कृष्ट० संज्ञी पंचेन्द्रिय
तिर्यचनी वक्तव्यता
रत्नप्रभाप्रकारका
जाणवि.

परिमाण.

संज्ञी पंचेन्द्रिय
तिर्यचनी वक्तव्यता
रत्नप्रभाप्रकारका
जाणवि.

परिमाण.

ચરહિં પુલ્કોડીહિં અન્મહિયાઈં, ઇવતિયં જાવ-કરેજા ૧ । ઇવં રયણપ્પમપુલ્કવિગમસરિલા ણવ વિ ગમગા માણિયદ્ધા । નવરં સદ્ગમપ્પસુ વિ નેરદ્દયટ્ટિતીસંઘેસુ સાગરોવમા માણિયદ્ધા, ઇવં જાવ-‘છટ્ટપુલ્કવિ’ત્તિં । ણવરં નેરદ્દયટ્ટિં જા જત્ય પુલ્કવીપ જહ્લુક્કોસિયા સા તેણં ચેવ કમેણ ચરુગુણા કાયદ્ધા । વાલુયપ્પમાપ. પુલ્કવીપ અદ્ધાવીસં સાગરોવમાઈં ચરુગુણિયા મવંતિ, પંકપ્પમાપ ચચાલીસં, ધૂમપ્પમાપ અદ્ધસાટ્ટિં, તમાપ અદ્ધાસીઈં । સંઘયણાઈં-વાલુયપ્પમાપ પંચવિહસંઘયણી, તં જહા-વયરો-સહનારાયસંઘયણી, જાવ-સીલિયાસંઘયણી, પંકપ્પમાપ ચરુદ્ધિહસંઘયણી, ધૂમપ્પમાપ તિવિહસંઘયણી, તમાપ દુવિહ-સંઘયણી, તં જહા-વયરોસમનારાયસંઘયણી ય ૧ ઉસમનારાયણસંઘયણી ય ૨, સેસં તં ચેવ ।

૭૬. [પ્ર૦] પજ્જતસંઘેજ્જવાસાડયં જાવ-તિરિમ્મલ્લોણિણ ણં મંતે ! જે મવિણ અદ્દેસત્તમાપ પુલ્કવીપ નેરદ્દપ્પસુ ઉવવ-જ્જિત્તપ્પ સે ણં મંતે ! કેવતિકાલટ્ટિતીપ્પસુ ઉવવજ્જેજા ? [૩૦] ગોયમા ! જહ્લેણં વાવીસંસાગરોવમટ્ટિતીપ્પસુ, ઉક્કોસેણં તેત્તીસંસાગરોવમટ્ટિતીપ્પસુ ઉવવજ્જેજા ।

૭૭. [પ્ર૦] તે ણં મંતે ! જીવાં [૩૦] ઇવં જદ્દેવ રયણપ્પમાપ ણવ ગમગા લદ્ધી વિ સદ્ધેવ । ણવરં વયરોસમના-રાયસંઘયણી । ઇત્થિવેયગા ન ઉવવજ્જંતિ, સેસં તં ચેવ, જાવ-‘અણુવંધો’ત્તિ, । સંવેદ્ધો મવાદેસેણં જહ્લેણં તિપ્પિ મવગ્ગહ-ણાઈં, ઉક્કોસેણં સત્ત મવગ્ગહણાઈં । કાલાદેસેણં જહ્લેણં વાવીસં સાગરોવમાઈં દોહિં અંતોમુદ્ધુત્તેહિં અન્મહિયાઈં, ઉક્કોસેણં છાવટ્ટિં સાગરોવમાઈં ચરહિં પુલ્કોડીહિં અન્મહિયાઈં, ઇવતિયં જાવ-કરેજા ૧ ।

૭૮. સો ચેવ જહ્લકાલટ્ટિતીપ્પસુ ઉવવધ્ધો સદ્ધેવ વત્તધ્ધયા જાવ-‘મવાદેસો’ત્તિ । કાલાદેસેણં જહ્લેણં કાલાદેસો વિ તદ્દેવ, જાવ-ચરહિં પુલ્કોડીહિં અન્મહિયાઈં, ઇવતિયં જાવ-કરેજા ૨ ।

૭૯. [પ્ર૦] સો ચેવ ઉક્કોસકાલટ્ટિતીપ્પસુ ઉવવધ્ધો સદ્ધેવ લદ્ધી જાવ-‘અણુવંધો’ત્તિ । મવાદેસેણં જહ્લેણં તિપ્પિ

પૂર્વકોટી અધિક વાર સાગરોપમ-પટલો કાઠ યાવત્-ગમનાગમન કરે ૧. એ પ્રમાણે રત્નપ્રમા પૃથિવીના ગમકની સમાન નવે ગમક જાણવા. પણ વિગ્રેપ એ છે કે વધા ગમકોમાં નૈરયિકની સ્થિતિ અને સંવેધને વિષે ‘સાગરોપમો’ કહેવા. અને એમ યાવત્-છટ્ટી નરક પૃથિવી સુધી જાણવું. પરન્તુ જે નરક પૃથિવીમાં જવન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ જેટલા કાઠની હોય તે સ્થિતિને તેજ ક્રમથી ચારગુણી કરવી. જેમકે વાલુકાપ્રમા નરકપૃથિવીમાં સાત સાગરોપમની સ્થિતિને ચારગુણી કરતા અટવાવોશ સાગરોપમ થાય. તે પ્રમાણે પંચપ્રમામાં ચાલીશ સાગરોપમ, ધૂમપ્રમામા અડસઠ, અને તમઃપ્રમામાં અટવાગી સાગરોપમ થાય છે. હવે સંઘયણને આશ્રયી વાલુકાપ્રમામા વજ્રરૂપ-મનારાચ, યાવત્-કીલિકા એ પાંચ સંઘયણવાઠા, પંકપ્રમામા પ્રયમના ચાર સંઘયણવાઠા, ધૂમપ્રમામાં પ્રયમના ત્રણ સંઘયણવાઠા અને તમ પ્રમામાં પ્રયમના વે સંઘયણવાઠા નારકો ઉત્પન્ન થાય છે. વાકી વધું પૂર્ણવત્ જાણવું.

૭૬. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! પર્યાપ્ત સંલ્યાતા વર્ષના આયુષવાઠા સંજી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચયોનિક, જે સત્તમ નરક પૃથિવીના નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય છે તે કેટલા વર્ષની સ્થિતિવાઠા નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય ? [૩૦] હે ગૌતમ ! જવન્ય વાવીશ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ તેત્રીશ સાગરોપમની સ્થિતિવાઠા નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય.

૭૭. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! તે જીવો એક સમયે કેટલા ઉત્પન્ન થાય-હ્યાલિ રત્નપ્રમાના નવ ગમકોની અને વીજી વધી વક્તવ્યતા કહેવી. પણ વિગ્રેપ એ કે ત્યા વજ્રરૂપમનારાચ સંઘયણવાઠા (પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ) ઉપજે છે, ‘હીવેદવાઠા જીવો ત્યાં ઉત્પન્ન થતા નથી. વાકી વધું યાવત્-અનુવંધ સુધી પૂર્વોક્ત કહેવું. સંવેધ-જવન્યથી મવની અપેક્ષા ત્રણ મવ અને ઉત્કૃષ્ટ સાત મવ, તયા ફાઠની અપેક્ષા જવન્ય વે અન્તર્મૂહૂર્ત અધિક વાવીશ સાગરોપમ અને ઉત્કૃષ્ટ ચાર પૂર્વકોટી અધિક છાસઠ સાગરોપમ-પટલો કાઠ યાવત્-ગમના-ગમન કરે (૧).

૭૮. તે (સંજી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ) જવન્ય સ્થિતિવાઠા સત્તમ નરક પૃથિવીના નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય-હ્યાલિ વક્તવ્યતા યાવત્-મવાદેશ સુધી પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે કહેવી. જવન્યથી કાઠાદેશ પણ તેજ પ્રકારે કહેવો, યાવત્-ચાર પૂર્વકોટી અધિક (છાસઠ સાગરોપમ)-પટલો કાઠ યાવત્-ગમનાગમન કરે (૨).

૭૯. તે જીવ ઉત્કૃષ્ટસ્થિતિવાઠા નૈરયિકોમાં ઉત્પન્ન થાય-હ્યાલિ વક્તવ્યતા યાવત્-અનુવંધ સુધી પૂર્વે પ્રમાણે કહેવી.

૧ છટ્ટીપુલ્ક-ગ-ઘ । ૨ કીલિયા-ગ-હ ।

૭૬. * રત્નપ્રમામા નૈરયિકની જવન્ય સ્થિતિ દશ હજાર વર્ષ અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એક સાગરોપમનો છે અને ચર્કરાપ્રમાદિ નરકપૃથિવીને વિષે ત્રણ, સાત, દસ, સત્તર, ચાર્વાસ, અને તેત્રીશ સાગરોપમનો ક્રમચ. ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે. પૂર્વે પૂર્વેની નરકપૃથિવીમા જે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ હોય તે પછી પછીની નરક-પૃથિવીમા કનિષ્ઠ સ્થિતિ જાણવી, નાદે સ્થિતિ અને સંવેધમા સાગરોપમો કહેવા-એમ કરવું છે

* ૭૭ હીવો છટ્ટી નરક પૃથિવી સુધી જ ઉપજે છે.—ટીકા.

† જે મત્સ્યના મવ અને એટ નારકમવ-એમ જવન્ય ત્રણ મવ, અને ઉત્કૃષ્ટ ચાર મત્સ્યમવ અને ત્રણ નારકમવ-એમ સાત મવ જાણવા —ટીકા.

‡ સાતની નરકપૃથિવીના જવન્ય સ્થિતિવાઠા નારકમા ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ વારજ ઉપજે છે, જો એમ ન હોય તો ઉપર કહેલો કાઠ ઘટી શકે નહિ —ટીકા.

સંજ્યાનાં ૪૦
૫૦ વિર્યંચનો સત્તમ
નરકમા ઉપમાત.

સંજી વિર્યંચની ૪૦
સત્તમ નરક પૃથિવી-
ના નારકમા ઉત્પન્ન

સંજી ૫૦ વિર્યંચનો
ઉત્કૃષ્ટ ૪૦ સત્તમ નાર-
કમા ઉપમાત.

भवग्गणाई, उक्कोसेणं पंच भवग्गहणाई । कालादेसेणं जहन्नेणं तेत्तीसं सागरोवमाई दोहिं अंतोमुहुत्तेहिं अब्भहियाई, उक्कोसेणं छावट्ठिं सागरोवमाई तिहिं पुच्चकोडीहिं अब्भहियाई, एवतियं जाव-करेजा ३ ।

८०. सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्टितीओ जाओ० सच्चेव रयणप्पमपुढविजहन्नकालट्टितीयवत्तघया भाणियघ्वा, जाव-‘भवादेसो’त्ति, नवरं पढमसंघयणं, णो इत्थिवेयगा । भवादेसेणं जहन्नेणं तिन्नि भवग्गहणाई, उक्कोसेणं सत्त भवग्गहणाई । कालादेसेणं जहन्नेणं वावीसं सागरोवमाई दोहिं अंतोमुहुत्तेहिं अब्भहियाई, उक्कोसेणं छावट्ठिं सागरोवमाई चउहिं अंतोमुहुत्तेहिं अब्भहियाई, एवतियं जाव-करेजा ४ ।

८१. सो चेव जहन्नकालट्टितीएसु उववन्नो० एवं सो चेव चउत्थो गमओ निरवसेसो भाणियघ्वा, जाव-‘कालादेसो’त्ति ५ ।

८२. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववन्नो० सच्चेव लद्धी जाव-‘अणुवंधो’त्ति । भवादेसेणं जहन्नेणं तिन्नि भवग्गहणाई, उक्कोसेणं पंच भवग्गहणाई । कालादेसेणं जहन्नेणं तेत्तीसं सागरोवमाई दोहिं अंतोमुहुत्तेहिं अब्भहियाई, उक्कोसेणं छावट्ठिं सागरोवमाई तिहिं अंतोमुहुत्तेहिं अब्भहियाई, एवइयं कालं जाव-करेजा ६ ।

८३. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्टितीओ जहन्नेणं वावीससागरोवमट्टिइएसु, उक्कोसेणं तेत्तीससागरोवमट्टितीएसु उववज्जेजा ।

८४. ते णं भंते !० अवसेसा सच्चेव सत्तमपुढविपढमगमवत्तघया भाणियघ्वा, जाव-‘भवादेसो’त्ति । नवरं टिती अणुवंधो य जहन्नेणं पुच्चकोडी उक्कोसेण वि पुच्चकोडी, सेसं तं चेव । कालादेसेणं जहन्नेणं वावीसं सागरोवमाई दोहिं पुच्चकोडीहिं अब्भहियाई, उक्कोसेणं छावट्ठिं सागरोवमाई चउहिं पुच्चकोडीहिं अब्भहियाई, एवइयं जाव-करेजा ७ ।

८५. सो चेव जहन्नकालट्टितीएसु उववन्नो० सच्चेव लद्धी संवेहो वि तहेव सत्तमगमगसरिसो ८ ।

८६. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववन्नो० एस चेव लद्धी जाव-‘अणुवंधो’त्ति । भवादेसेणं जहन्नेणं तिन्नि

भवन्ती अपेक्षाए जघन्यथी त्रण भव अने उत्कृष्टथी पाच भव, तथा काळनी अपेक्षाए जघन्य वे अन्तर्मुहूर्त अधिक तेत्तीश सागरोपम अने उत्कृष्टथी त्रण पूर्वकोटी अधिक छासठ सागरोपम-एटलो काळ यावत्-गमनागमन करे (३).

८०. जो ते (संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच) जीव पोते जघन्य स्थितिवाळो होय अने ते सत्तम नरक पृथिवीना नैरयिकोमा उत्पन्न थाय-ते संवंधे वधी वक्तव्यता रत्तप्रभामा उत्पन्न थनार जघन्यस्थितिवाळा संज्ञी पंचेन्द्रियनी वक्तव्यता प्रमाणे यावत्-भवादेश सुधी कहेवी. परन्तु विशेष ए के ते (सत्तम नरक पृथिवीमा उत्पन्न थनार) प्रथम संघयणवाळो होय छे, अने खीवेदी होतो नथी. भवनी अपेक्षाए जघन्य त्रण भव अने उत्कृष्ट सात भव, तथा काळनी अपेक्षाए जघन्य वे अन्तर्मुहूर्त अधिक वावीश सागरोपम अने उत्कृष्ट चार अन्तर्मुहूर्त अधिक छासठ सागरोपम-एटलो काळ यावत्-गमनागमन करे (४).

८१. ते (जघन्यस्थितिवाळो संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिक जीव) जघन्यस्थितिवाळा सत्तम नरक पृथिवीमा नैरयिकपणे उत्पन्न थाय तो ते संवंधे चोयो गम यावत्-कालादेश सुधी समग्र कहेवो (५).

८२. ते (जघ० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच) उत्कृष्टस्थितिवाळा सत्तम नरक पृथिवीना नैरयिकोमा उत्पन्न थाय तो ते संवंधे यावत्-अनुबंध सुधी पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. भवनी अपेक्षाए जघन्य त्रण भव, उत्कृष्ट पांच भव, तथा काळनी अपेक्षाए जघन्य वे अन्तर्मुहूर्त अधिक तेत्तीश सागरोपम अने उत्कृष्ट त्रण अन्तर्मुहूर्त अधिक छासठ सागरोपम-एटलो काळ यावत्-गमनागमन करे (६).

८३. ते पोते उत्कृष्ट स्थितिवाळो (संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच) होय अने सत्तम नरक पृथिवीमा उत्पन्न थाय तो ते जघन्य वावीश सागरोपमनी अने उत्कृष्ट तेत्तीश सागरोपमनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय.

८४. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय-इत्यादि वधी वक्तव्यता सत्तम नरक पृथिवीना प्रथम गमकनी पेठे यावत्-भवादेश सुधी कहेवी. परन्तु विशेष ए के स्थिति अने अनुबंध जघन्य अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी जाणवो. वाकी वधुं पूर्ववत् जाणवुं. संवेध काळनी अपेक्षाए जघन्य वे पूर्वकोटी अधिक वावीश सागरोपम अने उत्कृष्ट चार पूर्वकोटी अधिक छासठ सागरोपम-एटलो काळ यावत्-गमनागमन करे (७).

८५. जो ते (उत्कृष्ट० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच) जघन्यस्थितिवाळा सत्तम नरकपृथिवीना नैरयिकोमा उत्पन्न थाय तो ते संवंधे ते ज वक्तव्यता अने संवेध सातमा गमकनी पेठे कहेवो (८).

८६. [प्र०] जो ते उत्कृष्ट स्थितिवाळो संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिक उत्कृष्टस्थितिवाळा सत्तम नरकपृथिवीना नैरयिकोमा उत्पन्न थाय तो ए ज पूर्वोक्त वक्तव्यता यावत्-अनुबंध सुधी कहेवी. संवेध-भवनी अपेक्षाए जघन्य त्रण भव अने उत्कृष्ट पांच भव

जघ० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी सत्तम नरकमा उत्पत्ति

जघ० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी जघ० सत्तम नरकमा उत्पन्न थाय तो ते संवंधे यावत्-अनुबंध सुधी पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. भवनी अपेक्षाए जघन्य त्रण भव, उत्कृष्ट पांच भव, तथा काळनी अपेक्षाए जघन्य वे अन्तर्मुहूर्त अधिक तेत्तीश सागरोपम अने उत्कृष्ट त्रण अन्तर्मुहूर्त अधिक छासठ सागरोपम-एटलो काळ यावत्-गमनागमन करे (६).

उत्कृष्ट० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी सत्तम नरकमा उत्पत्ति परिमाण.

उत्कृष्ट० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी जघ० सत्तम नरकमा उत्पत्ति.

उत्कृष्ट० संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी २० सत्तम नरकमा उत्पत्ति.

भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं पंच भवग्गहणाइं । कालादेसेणं जहन्नेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं दोहिं पुच्चकोडीहिं अच्चमहियाइं, उक्कोसेणं छावट्ठिं सागरोवमाइं तिहिं पुच्चकोडीहिं अच्चमहियाइं, एवतियं कालं सेवेजा, जाव—करेजा ।

८७. [प्र०] जइ मणुस्सेहिंतो उववज्जंति किं सन्निमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, असन्निमणुस्सेहिंतो उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! सन्निमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, णो असन्निमणुस्सेहिंतो उववज्जंति ।

८८. [प्र०] जइ सन्निमणुस्सेहिंतो उववज्जन्ति किं संखेज्जवासाउयसन्निमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, असंखेज्ज० जाव—उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! संखेज्जवासाउयसन्निमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, णो असंखेज्जवासाउय० जाव—उववज्जन्ति ।

८९. [प्र०] जइ संखेज्जवासाउय० जाव—उववज्जन्ति किं पज्जत्तसंखेज्जवासाउय०, अपज्जत्तसंखेज्जवासाउय० ? [उ०] गोयमा ! पज्जत्तसंखेज्जवासाउय०, नो अपज्जत्तसंखेज्जवासाउय० जाव—उववज्जंति ।

९०. [प्र०] पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं भंते ! जे भविये नेरइएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! कति पुढवीसु उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! सत्तसु पुढवीसु उववज्जेजा, तं जहा—रयणप्पभाए, जाव—अहेसत्तमाए ।

९१. [प्र०] पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं भंते ! जे भविये रयणप्पभाए पुढवीए नेरइएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवतिकालट्ठिइएसु उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्सट्ठितीएसु, उक्कोसेणं सागरोवमट्ठितीएसु उववज्जेजा ।

९२. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जंति । संघयणा छ, सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलपुहुत्तं, उक्कोसेणं पंचयणुसयाइं । एवं सेसं जहा सन्निपंचिदियतिरिक्खज्जोणियाणं जाव—‘भवादेशो’त्ति । नवरं चत्तारि णाणा तिन्नि अन्नाणा मयणाए । छ समुग्घाया केवलि-

तथा काळनी अपेक्षाए जघन्यथी वे पूर्वकोटी अधिक तेत्रीश सागरोपम अने उत्कृष्ट त्रण पूर्वकोटी अधिक छासठ सागरोपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (९).

सही मनुष्योनो
नरकमा उपपात

८७. [प्र०] जो ते (नारक) मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय के असंज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय, पण असंज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न न थाय.

मंरयात० सही म-
नुष्योनी नारकपणे
उत्पत्ति.

८८. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं संख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय के असंख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते संख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय, पण असंख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न न थाय.

पर्याप्त मनुष्योनी
नारकपणे उत्पत्ति

८९. [प्र०] जो ते संख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं पर्याप्ता संख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय के अपर्याप्ता संख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते पर्याप्ता संख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय, पण अपर्याप्ता संख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न न थाय.

उपपात

९०. [प्र०] हे भगवन् ! संख्याता वर्पना आयुपवाळो पर्याप्त संज्ञी मनुष्य जे नैरयिकोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते हे भगवन् ! केटली नरकपृथिवीओमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते साते नरक पृथिवीओमा उत्पन्न थाय. ते आ प्रमाणे—१ रत्नप्रभा, यावत्—७ अधःसप्तम नरकपृथिवीमा.

१ संख्याता० मनु-
ष्यनो रत्नप्रभानारक-
पणे उपपात

९१. [प्र०] हे भगवन् ! संख्याता वर्पना आयुपवाळो पर्याप्त संज्ञी मनुष्य, जे रत्नप्रभाना नैरयिकोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते हे भगवन् ! केटला काळनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्यथी दस हजार वर्पना आयुपवाळा अने उत्कृष्टथी एक सागरोपमना आयुपवाळा नैरयिकोमां उत्पन्न थाय.

परिनाम

९२. [प्र०] हे भगवन् ! तेओ (संख्यात वर्पना आयुपवाळा मनुष्यो) एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्यथी एक वे के त्रण अने उत्कृष्टथी संख्याता उत्पन्न थाय छे. तेओने छए सवयण होय छे. शरीरनी उंचाई जघन्य वेथी नव आगळ प्रमाण अने उत्कृष्ट पाचसो धनुष प्रमाण होय छे. वाकी वधुं संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिकोनी पेटे थावत्—भवादेश सुधी कहेतुं. पण विशेष एके मनुष्योने चार ज्ञान अने त्रण अज्ञान भजनाए होय छे. केवलिसमुद्घात सिवाय छ समुद्घात होय छे. स्थिति अने

१२* अहि चूर्णिकार कहे छे के, जे मनुष्य अवधि, मन पर्यव अने आहारक शरीर प्राप्त करी लाथी पढी नरकमा उपजे छे' ते मनुष्यने चार ज्ञान अने त्रण अज्ञान विन्तपे होय छे

वज्रा । ठिती अणुबंधो य जहन्नेणं मासपुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी. सेसं तं चेव । कालादेसेणं जहन्नेणं दसवाससहस्साइं मासपुहुत्तमम्भहियाइं, उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं पुव्वकोडीहिं अम्भहियाइं—एवतियं जाव—करेजा १ ।

९३. सो चेव जहन्नकालट्टितीएसु उववन्नो—एस चेव वत्तद्यया । नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं दसवाससहस्साइं मासपुहुत्तमम्भहियाइं, उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ चत्तालीसाए वाससहस्सेहिं अम्भहियाओ—एवतियं० २ ।

९४. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववन्नो—एस चेव वत्तद्यया । नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं सागरोवमं मासपुहुत्तमम्भहियं, उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं पुव्वकोडीहिं अम्भहियाइं—एवतियं जाव—करेजा ३ ।

९५. सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्टितीओ जाओ—एस चेव वत्तद्यया । नवरं इमाइं पंच नाणत्ताइं—१ सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलपुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंगुलपुहुत्तं, २ तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए, ३ पंच समुग्घाया आदिह्हा, ४ ठिती ५ अणुबंधो य जहन्नेणं मासपुहुत्तं, उक्कोसेण वि मासपुहुत्तं, सेसं तं चेव, जाव—‘भवादेशो’त्ति । कालादेसेणं जहन्नेणं दसवाससहस्साइं मासपुहुत्तमम्भहियाइं, उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं मासपुहुत्तेहिं अम्भहियाइं—एवतियं जाव—करेजा ४ ।

९६. सो चेव जहन्नकालट्टितीएसु उववन्नो—एस चेव वत्तद्यया चउत्थगमगसरिसा णेयद्या । नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं दसवाससहस्साइं मासपुहुत्तमम्भहियाइं, उक्कोसेणं चत्तालीसं वाससहस्साइं चउहिं मासपुहुत्तेहिं अम्भहियाइं—एवतियं जाव—करेजा ५ ।

९७. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववन्नो—एस चेव गमगो । नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं सागरोवमं मासपुहुत्तमम्भहियं, उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं मासपुहुत्तेहिं अम्भहियाइं—एवइयं जाव—करेजा ६ ।

अनुबंध जघन्यथी *मासपृथक्त्व—वे मासथी नवमास सुधी अने उत्कृष्ट पूर्वकोटीनो होय छे. वाकी बंधुं पूर्ववत् जाणवुं. संवेध—काळनी अपेक्षाए जघन्यथी †मासपृथक्त्व अधिक दस हजार वर्ष अने उत्कृष्ट चार पूर्वकोटी अधिक चार सागरोपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे, (१).

९३. जो ते मनुष्य जघन्य काळनी स्थितिवाळा रत्नप्रभा नैरयिकोमां उत्पन्न थाय तो तेने उपर कहेली सर्व वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए छे के काळनी अपेक्षाए जघन्य मासपृथक्त्व अधिक दस हजार वर्ष अने उत्कृष्ट चार पूर्वकोटी अधिक चालीश हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (२).

२ सं० मनुष्यनी जघ० रत्नप्रभानार० कमां उत्पत्ति

९४. जो ते मनुष्य उत्कृष्ट - स्थितिवाळा रत्नप्रभा नैरयिकोमां उत्पन्न थाय तो तेने ए ज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के काळादेशथी मासपृथक्त्व अधिक एक सागरोपम अने उत्कृष्ट चार पूर्वकोटी अधिक चार सागरोपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (३).

३ सं० मनुष्यनी उत्कृष्ट० रत्नप्रभा नैरयिकमा उत्पत्ति

९५. जो ते मनुष्य पोते जघन्य काळनी स्थितिवाळो होय अने रत्नप्रभा नैरयिकोमां उत्पन्न थाय तो तेने पण ए ज वक्तव्यता कहेवी. तेमां आ पांच वावतनी विशेषता छे—१ तेओना शरीरनी अवगाहना जघन्य अने उत्कृष्ट अंगुलपृथक्त्व होय छे, २ तेओने त्रण ज्ञान अने त्रण अज्ञान भजनाए होय छे, ३ प्रथमना पांच समुद्घातो होय छे, ४—५ स्थिति अने अनुबंध जघन्य अने उत्कृष्ट मासपृथक्त्व होय छे. वाकी बंधुं यावत्—भवादेश सुधी पूर्व प्रमाणे जाणवुं. काळनी अपेक्षाए जघन्यथी मासपृथक्त्व अधिक दस हजार वर्ष अने उत्कृष्ट चार मासपृथक्त्व अधिक चार सागरोपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (४).

४ जघ० सं० ५० मनुष्यनी रत्नप्रभामा उत्पत्ति

९६. जो ते (जघन्य स्थितिवाळो) मनुष्य जघन्य काळनी स्थितिवाळा रत्नप्रभा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय तो तेने पूर्वोक्त चोथा गमकना समान वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के काळनी अपेक्षाए जघन्य मासपृथक्त्व अधिक दस हजार वर्ष अने उत्कृष्ट चार मासपृथक्त्व अधिक चालीश हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (५).

५ जघ० मनुष्यनी जघ० रत्नप्रभामा उत्पत्ति

९७. हवे तेज (जघन्य स्थितिवाळो) मनुष्य उत्कृष्ट काळनी स्थितिवाळा रत्नप्रभा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय तो तेने एज (पूर्वोक्त) गमक कहेवो. पण विशेष ए के काळादेश वडे जघन्य मासपृथक्त्व अधिक सागरोपम अने उत्कृष्ट चार मासपृथक्त्व अधिक चार सागरोपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (६).

६ जघ० मनुष्यनी उत्कृष्ट० रत्नप्रभामा उत्पत्ति

* ९२ वे मासनी अदरना आयुपवाळो मनुष्य नरकगतिमा जतो नथी, तेथी नरकगतिमा जनार मनुष्यनु जघन्य आयुप मासपृथक्त्व होय छे. —टीका.

† मनुष्य थईने नरकगतिमा जाय तो एक नरकपृथिवीमा चार ज वार नारकपणे उपजे छे अने पछीथी अवश्य तियंच थाय छे, माटे मनुष्यमय संबंधी चार पूर्वकोटी अधिक चार सागरोपम संवेध जाणवो.—टीका.

९८. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्टितीथो जाथो, सो चेव पढमगमथो णेयथो । नवरं सररीरोगाहणा जहन्नेणं पंचधणुसयाई, उक्कोसेण वि पंचधणुसयाई, टिती जहन्नेणं पुधकोडी, उक्कोसेण वि पुधकोडी, एवं अणुयंथो वि । कालादेसेणं जहन्नेणं पुधकोडी दसहिं वाससहस्सेहिं अम्महिया, उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं पुधकोडीहिं अम्महियाइं-एव-तियं कालं जाव-करेजा ७ ।

९९. सो चेव जहन्नकालट्टितीएसु उववन्नो, स चेव सत्तमगमगवत्तधया । नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं पुधकोडी दसहिं वाससहस्सेहिं अम्महिया, उक्कोसेणं चत्तारि पुधकोडीथो चत्तालीसाए वाससहस्सेहिं अम्महियाथो-एवतियं कालं जाव-करेजा ८ ।

१००. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववन्नो, स चेव सत्तमगमगवत्तधया । नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं सागरोवमं पुधकोडीए अम्महियं, उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं पुधकोडीहिं अम्महियाइं-एवतियं कालं जाव-करेजा ९ ।

१०१. [प्र०] पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं भंते ! जे भविए सक्करप्पभाए पुढवीए नेरइएसु जाव-उववज्जि-त्तए से णं भंते ! केवति० जाव-उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमट्टितीएसु, उक्कोसेणं तिसागरोवमट्टिती-एसु उववज्जेजा ।

१०२. [प्र०] ते णं भंते ! [उ०] सो चेव रयणप्पमपुढविगमथो णेयथो । नवरं सररीरोगाहणा जहन्नेणं रयणिपुहुत्तं, उक्कोसेणं पंचधणुसयाई । टिती जहन्नेणं वासपुहुत्तं, उक्कोसेणं पुधकोडी । एवं अणुयंथो वि । सेसं तं चेव, जाव-‘भवादे-सो’त्ति । कालादेसेणं जहन्नेणं सागरोवमं, वासपुहुत्तमम्महियं, उक्कोसेणं वारस सागरोवमाइं चउहिं पुधकोडीहिं अम्महियाइं-एवतियं जाव-करेजा । एवं एसा थोहिएसु तिसु गमएसु मणूसस्स लद्धी । नाणत्तं-नेरइयट्टिती कालादेसेणं संवेहं च जाणेजा १-२-३ ।

१०३. सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्टितीथो जाथो, तस्स वि तिसु वि गमएसु एस चेव लद्धी । नवरं सररीरोगाहणा

७ उक्कट्ट० मनुष्यनी
रत्नप्रभामां उत्पत्ति.

९८. जो ते मनुष्य पोते उत्कृष्ट स्थितिवाळो होय अने रत्नप्रभा नैरयिकोमां उत्पन्न थाय तो ते संबंधे प्रथम गमक कहेवो. पण विशेष ए के शरीरनी अवगाहना जघन्य अने उत्कृष्ट पाचसो धनुपनी होय छे. स्थिति जघन्य अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी वर्पनी अने अनुबंध पण ते प्रमाणे जाणवो. काळनी अपेक्षाए जघन्य पूर्वकोटी अधिक दस हजार वर्ष अने उत्कृष्ट चार पूर्वकोटी अधिक चार सागरोपम-एटलो काळ यावत्-गमनागमन करे (७).

८ उक्कट्ट० मनुष्यनी
जव० रत्नप्रभामा
उत्पत्ति

९९. जो ते ज मनुष्य जघन्यकाळनी स्थितिवाळा रत्नप्रभा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय तो ते संबंधे ए ज सातमा गमकनी वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के काळनी अपेक्षाए जघन्य दश हजार वर्ष अधिक पूर्वकोटी अने उत्कृष्ट चालीस हजार वर्ष अधिक चार पूर्वकोटी-एटलो काळ यावत्-गमनागमन करे (८).

उक्कट्ट० मनुष्यनी
उक्कट्ट० रत्नप्रभामां
उत्पत्ति

१००. जो ते उत्कृष्टस्थितिवाळो मनुष्य उत्कृष्ट स्थितिवाळा रत्नप्रभा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय तो तेने सातमा गमकनी वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए छे के काळनी अपेक्षाए जघन्य पूर्वकोटी अधिक सागरोपम अने उत्कृष्ट चार पूर्वकोटी अधिक चार सागरोपम-एटलो काळ यावत्-गमनागमन करे (९).

मनुष्यनी शर्कराप्र-
भामा उत्पत्ति.

१०१. [प्र०] हे भगवन् ! सख्याता वर्पना आयुपवाळो पर्याप्त सज्ञी मनुष्य जे शर्कराप्रभामा उत्पन्न धवाने योग्य छे ते हे भगवन् ! केटला वर्पना आयुपवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्यथी एक सागरोपमनी स्थितिवाळा अने उत्कृष्टथी त्रण सागरोपमनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय.

परिमाण

१०२. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय ! [उ०] अहिं रत्नप्रभा नैरयिकनो गमक कहेवो. परन्तु विशेष ए के शरीरनी अवगाहना जघन्यथी रत्निपृथक्त्व-वेथी नव हाय अने उत्कृष्ट पाचसो धनुप होय छे. स्थिति जघन्यथी वर्पपृथक्त्व अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी वर्पनी होय छे. एवी रीते अनुबंध पण जाणवो. वाकी वधुं ते ज पूर्वीक यावत्-भवादेश सुधी कहेवुं. काळनी अपेक्षाए जघन्य वर्पपृथक्त्व अविक्क एक सागरोपम अने उत्कृष्ट चार पूर्वकोटी अविक्क वार सागरोपम-एटलो काळ यावत्-गमनागमन करे. ए प्रमाणे औधिक त्रणे गमकमा मनुष्योनी वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए छे के नैरयिकनी स्थिति अने काळादेश वडे तेनो संवेध जाणवो १-२-३.

२ जघन्य० मनुष्यनी
शर्कराप्रभामां
उत्पत्ति.

१०३. [प्र०] ते सज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त मनुष्य पोते जघन्य काळनी स्थितिवाळो होय अने ते शर्कराप्रभामा उत्पन्न थाय तो ते संबंधे

जहन्नेणं रयणिपुहुत्तं, उक्कोसेण वि रयणिपुहुत्तं, ठिती जहन्नेणं वासपुहुत्तं, उक्कोसेण वि वासपुहुत्तं, एवं अणुवंधो वि । सेसं जहा ओहियाणं । संवेहो संघो उवजुंजिऊण भाणियघो ४-५-६ ।

१०४. सो चेव अण्णणा उक्कोसकालद्धितीओ जाओ । तस्स वि तिसु वि गमपसु इमं णाणत्तं—सरीरोगाहणा जहन्नेणं पंचधणुसयाइं, उक्कोसेण वि पंचधणुसयाइं, ठिती जहन्नेणं पुच्चकोडी, उक्कोसेण वि पुच्चकोडी, एवं अणुवंधो वि । सेसं जहा पढमगमए । नवरं नेरइयटिई य कायसेवेहं च जाणेज्जा ७-८-९ । एवं जाव—छट्टुपुदवी । नवरं तच्चाए आढवेत्ता एक्केकं संघयणं परिहायति जहेव तिरिक्खजोणियाणं । कालादेसो वि तहेव, नवरं मणुस्सट्टिनी भाणियघा ।

१०५. [प्र०] पज्जत्तसंखेज्जावासाउयसन्निमणुस्से णं भंते ! जे भविए अहेसत्तमाए पुढवि (वीए) नेरइयसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवतिकालद्धितीएसु उववज्जेज्जा ! [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं वावीसंसागरोवमठितीएसु, उक्कोसेणं तेत्तीसंसागरो-वमठितीएसु उववज्जेज्जा ।

१०६. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं ? [उ०] अवसेसो सो चेव सक्करण्णभापुढविगमओ णेयघो । नवरं पढमं संघयणं, इत्थिवेयगा न उववज्जंति, सेसं तं चेव, जाव—‘अणुवंधो’त्ति । भवादेसेणं दोभवग्गहणाइं । कालादेसेणं जहन्नेणं वावीसं सागरोवमाइं वासपुहुत्तमम्भहियाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं पुच्चकोडीए अम्भहियाइं—पचतियं जाव—करेजा १ ।

१०७. सो चेव जहन्नकालद्धितीएसु उववन्नो—एस चेव वत्तघया । नवरं नेरइयट्टिंति संवेहं च जाणेज्जा २ ।

१०८. सो चेव उक्कोसकालद्धितीएसु उववन्नो—एस चेव वत्तघया । नवरं संवेहं च जाणेज्जा ३ ।

१०९. सो चेव अण्णणा जहन्नकालद्धितीओ जाओ, तस्स वि तिसु वि गमपसु एस चेव वत्तघया । नवरं सरी-

त्रणे गमकर्मा ए पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के शरीरनी उंचाई जघन्य अने उत्कृष्ट *वेधी नव हाथ सुधीनी होय छे, अने आयुष जघन्य तथा उत्कृष्ट वर्षपृथक्त्व होय छे. अनुबंध पण ए ज प्रमाणे जाणवो. वाकी बधु सामान्य गमकनी पेठे कहेवुं. अने सर्व संवेध पण विचारीने कहेवो. (४-५-६.)

१०४. [प्र०] जो ते मनुष्य पोते उत्कृष्टकाळनी स्थितिवाळो होय अने ते शर्कराप्रभामां नैरयिक थाय तो ते संवेधे त्रणे गमक्रोमां आ प्रमाणे विशेषता छे—१ शरीरनी अवगाहना जघन्य अने उत्कृष्ट पाचसो धनुपनी होय छे, २ स्थिति जघन्य अने उत्कृष्ट पूर्वकोटीनी होय छे, ३ अनुबंध पण ए ज प्रमाणे जाणवो. वाकी बधु प्रथम गमकनी पेठे समजवुं. पण विशेष ए के नैरयिकनी स्थिति अने कायसंवेध विचारीने कहेवो (७-८-९). ए प्रमाणे यावत्—छट्टी नरक पृथिवी सुधी जाणवुं. पण विशेष ए छे के त्रीजी नरकथी माडी तिर्यचयोनिकनी पेठे एक एक संघयण घटाडवुं, अने काळादेश पण तेमज कहेवो. पण विशेष ए छे के अहिं मनुष्योनी स्थिति कहेवी.

३ उत्कृष्ट० मनुष्यनी शर्कराप्रभामां उत्पत्ति.

१०५. [प्र०] हे भगवन् ! सख्याता वर्धना आयुषवाळो पर्याप्त सज्ञी पंचेन्द्रिय मनुष्य जे सप्तम नरक पृथिवीना नैरयिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते हे भगवन् ! केटला काळनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्यथी वावीश सागरोपमनी स्थितिवाळा अने उत्कृष्टथी तेत्रीश सागरोपमनी स्थितिवाळा नैरयिकोमा उत्पन्न थाय.

१ सख्याता० स० मनुष्यनी सप्तम नरकमा उत्पत्ति

१०६. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] वाकीनी वधी वक्तव्यता शर्कराप्रभा पृथिवीना गमकनी पेठे जाणवी. परन्तु विशेष ए छे के सप्तम नरकमा प्रथम संघयणवाळा उपजे छे, अने स्त्रीवेदवाळा नथी उपजता, वाकी बधु यावत्—अनुबंध सुधी पूर्ववत् जाणवुं. भवादेशथी वे भव, अने काळादेशथी जघन्य वर्षपृथक्त्व अधिक वावीश सागरोपम तथा उत्कृष्टथी पूर्वकोटी अधिक तेत्रीश सागरोपम—एटलो काळ यावत् गमनागमन करे (१).

परिमाण

१०७. जो ते ज मनुष्य जघन्यकाळनी स्थितिवाळा सप्तम नरकपृथिवीना नैरयिकोमा उत्पन्न थाय तो तेने पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए छे के अहिं नैरयिकनी स्थिति तथा संवेध विचारीने कहेवो (२).

२ मनुष्यनी जघन्य सप्तम नरकमा उत्पत्ति

१०८. जो ते मनुष्य उत्कृष्ट काळनी स्थितिवाळा सप्तम नरकमा नैरयिकपणे उत्पन्न थाय तो तेने पण ए ज वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए छे के संवेध विचारीने कहेवो (३).

३ मनुष्यनी उत्कृष्ट० सप्तम नरकमा उत्पत्ति

१०९. जो ते सज्ञी मनुष्य पोते जघन्यकाळनी स्थितिवाळो होय अने सप्तम पृथिवीना नैरयिकोमा उत्पन्न थाय तो तेने त्रणे

जघन्य० मनुष्यनी सप्तम नरकमा उत्पत्ति

१ 'सव्वो' क-ग-ङ् इत्येतत्पुल्लकत्रये नास्ति ।

१०३ * आ कथनथी एम जणाय छे के वे हाथथी ओछी शरीरनी उचाइवाळा अने वे वरनथी ओछा आयुषवाळा मनुष्यो वीजी नरकपृथिवीमां उत्पन्न थता नथी—टीका

रोगाहणा जहन्नेणं रयणिपुद्गुचं, उक्कोसेण वि रयणिपुद्गुचं । टिती जहन्नेणं वासपुद्गुचं, उक्कोसेण वि वासपुद्गुचं, एवं अणुबंधो वि । संवेहो उवहुंजिऊण भाणियद्यो ४-५-६ ।

११०. सो चैव अप्पणा उक्कोसकालट्टिनीथो जाथो, तस्म वि तिन्नु वि गमएसु एस चैव वचधया । नवरं सरी-रोगाहणा जहन्नेणं पंचधणुसयाइं, उक्कोसेण वि पंचधणुसयाइं । टिती जहन्नेणं पुद्गकोटी, उक्कोसेण वि पुद्गकोटी, एवं अणुबंधो वि । णवसु वि एनेसु गमएसु नेरइयट्टिनी (तिं) संवेहं च जाणेजा । सवत्थ भयग्गहणाइं दोधि, जाय-णयमगमए । कालादेसेणं जहन्नेणं तेत्तीसं सागरोयमाइं पुद्गकोटीए अम्महियाइं, उक्कोसेण वि तेत्तीसं सागरोयमाइं पुद्गकोटीए अम्महियाइं—एवतियं कालं संवेजा, एवतियं कालं गतिरार्गात्तं करेजा ७-८-९ । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति जाय-विहरति ।

चउर्वासतिमे सए पटमो उद्देशो समत्तो ।

गमकोमा ए ज वक्तव्यता कहेयी. पण निशेप ए के अरीरनी अगगाएना जवन्थ अने उट्टट वेधी नत्र हाय सुधी तथा स्थिति जवन्थ अने उट्टट वर्णयुक्त्त होय छे. ए प्रमाणे अनुबंध पण जाणयो. तथा संवेध प्यान रागाने कहेयो. (४-५-६).

उट्टट० मनुष्यनी
सत्तम नरकमा
एवत्ति.

११०. जो ते सरी मनुष्य पोते उट्टट काळनी स्थितिवाळो होय अने समम नरक पृथिवीमां उत्पन्न थाय तो तेने त्रणे गमकमा ए ज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेयी. परन्तु निशेप ए छे के अरीरनी उंचाई जवन्थ अने उट्टट पाचमो अनुपनी होय छे, स्थिति जवन्थ अने उट्टट पूर्वकोटी वर्णनी होय छे. ए प्रमाणे अनुबंध पण जाणयो. तथा उपर कहेय नवे गमोमा नैरयिकनी स्थिति अने संवेध निचाराने कहेयो. सर्वत्र वे भव जाणवा. यावत्-नयना गमकमां काळनी अपेक्षाए जवन्थ अने उट्टट पूर्वकोटी अधिक नैरीय सागरोयम-एट्टो काळ मेवे, यावत्-गमनागमन करे (७-८-९). 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एम ज छे.'—एम कही यावत्-निहरे छे.

चोर्वाशमा शतकमां प्रथम उद्देशक समाप्त.

वीओ उद्देशो ।

१. [प्र०] रायगिहे जाय-एवं वयासी-असुरकुमार पणं भंते ! कन्नोहितो उववज्जंति—किं नेरइयट्टिनी उववज्जंति, तिरि०, मणु०, देवोहितो उववज्जंति ? [उ०] गौयमा ! णो णेरइयट्टिनी उववज्जंति, तिरिक्कजोणिणहितो उववज्जंति, मणु-स्सेहितो उववज्जंति, नो देवोहितो उववज्जंति । एवं जहेव नेरइयउद्देशए । जाय-

२. [प्र०] पज्जत्तअसन्नियं चिदियतिरिक्कजोणिण पणं भंते ! जे भविए असुरकुमारोसु उववज्जित्तए से पणं भंते ! केवत्तिका-लट्टिनीएसु उववज्जेजा ? [उ०] गौयमा ! जहन्नेणं दसयाससहस्सट्टिनीएसु, उक्कोसेणं पल्लिओवमस्स अस्संखेज्जमागट्टिनीएसु उववज्जेजा ।

३. [प्र०] ते पणं भंते ! जीवा० ? [उ०] एवं रयण्यभागमगसरिसा णव वि गमा भाणियद्या । नवरं जाहे अप्पणा जहन्नेकालट्टिनीथो भवति ताहे अज्जवसाणा पसत्था, णो अप्पसत्था निसु वि गमएसु । अवसेसं तं चैव ९ ।

द्वितीय उद्देशक.

असुरकुमारना
उपमा

१. [प्र०] राजगृह नगरमा यावत्—[भगवान् गौतम] आ प्रमाणे बोल्या के—हे भगवन् ! असुरकुमारो क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे—हुं तेओ नैरयिकोथी आवी उत्पन्न थाय छे, तिर्यचोथी, मनुष्योथी के देवोथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ नैरयिकोथी के देवोथी आवी उत्पन्न थता नथी, परन्तु तिर्यचोथी अने मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय छे. ए प्रमाणे वहुं यावत्-नैरयिको-देशकनी पेठे जाणहुं. यावत्—

असुरी प० तिर्यचनी
असुरकुमारमा
एवत्ति.

२. [प्र०] हे भगवन् ! पर्याप्त असंखी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव जे असुरकुमारोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते केटला काळनी स्थितिवाळ असुरकुमारोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जवन्थ दस हजार वर्णनी अने उट्टट पल्लोपमना असंख्यातमा भागनी स्थितिवाळ असुरकुमारोमां उत्पन्न थाय.

परिभाषा

३. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] ए प्रमाणे रत्तप्रमाना गमकनी पेठे नव गमको अहिं कहेवा. पण निशेप ए के प्यारे ते पोते जवन्थकाळनी स्थितिवाळो होय थारे तेना (वचला) त्रणे गमकोमां अव्यवसायो प्रशस्त होय छे, पण अप्रशस्त होता नथी. वाकी वहुं ते प्रमाणे जाणहुं ९.

२ * अहिं पल्लोपमनो असंख्यातनो भाग पूर्वकोटीरूप छे, कारण के समुच्चय तिर्यचहुं उट्टट आनुप पूर्वकोटीप्रमाण होय छे, अने ते पीताना आधुपना समान देवाधुप थाये छे, अधिक बांधतो नथी.—टीका.

४. [प्र०] जइ सन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिण्हितो उववज्जंति किं संखेज्जवासाउयसन्नि०—जाव उववज्जंति, असं-
खेज्जवासाउय० जाव—उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! संखेज्जवासाउय० जाव—उववज्जंति, असंखेज्जवासाउय० जाव—
उववज्जंति ।

५. [प्र०] असंखेज्जवासाउयसन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिणं भंते ! जे भविण असुरकुमारेसु उववज्जित्तए से णं
भंते ! केवइकालट्टितीएसु उववजेज्जा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्सट्टितीएसु, उक्कोसेणं तिपलिओवमट्टितीएसु
उववजेज्जा ।

६. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं
संखेज्जा उववज्जंति । वयरोसभनारायसंघयणी । ओगाहणा जहन्नेणं धणुपुहुत्तं, उक्कोसेणं छ गाउयाइं । समचउरंसंठा-
णसंठिया पन्नत्ता । चत्तारि लेस्साओ आदिल्लाओ । णो सम्मदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, णो सम्मामिच्छादिट्ठी । णो णाणी, अन्नाणी,
नियमं दुअन्नाणी—मतिअन्नाणी सुयअन्नाणी य । जोगो तिचिहो वि । उवओगो दुचिहो वि । चत्तारि सत्ताओ । चत्तारि
कसाया । पंच इंदिया । तिन्नि समुग्घाया आदिल्लगा । समोहया वि मरंति, असमोहया वि मरंति । वेदणा दुविहा वि—
सायावेयगा असायावेयगा । वेदो दुविहो वि—इत्थिवेयगा वि पुरिसवेयगा वि, णो नपुंसगवेदगा । ठिती जहन्नेणं साइरेगा
पुघकोडी, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं । अज्झवसाणा पसत्था वि अप्पसत्था वि । अणुबंधो जहेव ठिती । कायसंवेहो भवादे-
सेणं दो भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहन्नेणं सातिरेगा पुघकोडी दसहिं वाससहस्सेहिं अब्भहिया, उक्कोसेणं छप्पलिओवमाइं—
एवतियं जाव—करेज्जा १ ।

७. सो चेव जहन्नकालट्टितीएसु उववन्नो—एस चेव वत्तवया । नवरं असुरकुमारट्टिती (तिं) संवेहं च जाणेज्जा २ ।

८. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववन्नो जहन्नेणं तिपलिओवमट्टितीएसु, उक्कोसेणं वि तिपलिओवमट्टितीएसु उवव-
जेज्जा—एस चेव वत्तवया । नवरं ठिती से जहन्नेणं तिन्नि पलिओवमाइं, उक्कोसेणं वि तिन्नि पलिओवमाइं । एवं अणुबंधो
वि । कालादेसेणं जहन्नेणं छप्पलिओवमाइं, उक्कोसेणं वि छप्पलिओवमाइं—एवतियं० सेसं तं चेव ३ ।

९. [प्र०] जो सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं सख्यात वर्पना आयुपवाळा सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचयो-
निकोथी आवी उत्पन्न थाय के असख्यात वर्पना आयुपवाळा सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम !
सख्यातवर्पना आयुपवाळा अने असख्यात वर्पना आयुपवाळा वन्ने प्रकारना तिर्यंचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय.

सज्ञी प० पंचेन्द्रिय
असुरकुमारमां
उत्पत्ति

५. [प्र०] हे भगवन् ! असख्या तवर्पना आयुपवाळा सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिक, जे असुरकुमारोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते
केटला काळनी स्थितिवाळा असुरकुमारोमां उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य दस हजारवर्पनी स्थितिवाळा अने उत्कृष्ट त्रण पत्यो-
पमनी स्थितिवाळा असुरकुमारोमां उत्पन्न थाय.

असं० सज्ञी प०
तिर्यंचनी अष्टादश
रमा उत्पत्ति.

६. [प्र०] हे भगवन् ! ते (असख्यात० सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचो) एक समये केटला उत्पन्न थाय—ए प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! जघ-
न्यथी एक, वे के त्रण अने उत्कृष्ट सख्याता उत्पन्न थाय. तेओ (अस० पंचेन्द्रिय तिर्यंचो) वज्ररूपभनाराचसघयणवाळा होय छे. तेओना
शरीरनी उंचाई जघन्य वनपृथक्त्व अने उत्कृष्ट छ गाउनी होय छे. तेओ समचतुरस्र संस्थानवाळा होय छे, सुसम्यगदृष्टि के मिश्रदृष्टि
होता नथी, पण मिथ्यादृष्टि होय छे. ज्ञानी नथी पण अज्ञानी छे अने तेने अवश्य मतिअज्ञान अने श्रुत अज्ञान ए वे अज्ञान होय छे. योग
त्रणे होय छे. उपयोग साकार अने अनाकार वन्ने प्रकारनो होय छे. चार सज्ञाओ, चार कपायो अने पाच इन्द्रियो होय छे. समुद्रघात
प्रथमना त्रणे होय छे. समुद्रघात करीने पण मरे छे अने कर्मा विना पण मरे छे. वेदना सुखरूप अने दुःखरूप—ए वन्ने प्रकारनी
होय छे. पुरुषवेद अने स्त्रीवेद—ए व वेद होय छे, पण नपुंसक वेद होतो नथी. स्थिति जघन्यथी काइक अधिक पूर्वकोटी अने
उत्कृष्ट त्रण पत्योपमनी होय छे. अध्यवसायो प्रशस्त अने अप्रशस्त वन्ने प्रकारना होय छे. स्थितिनी पेटे अनुबंध पण जाणवो. कायसं-
वेध—भवनी अपेक्षाए वे भव अने काळनी अपेक्षाए जघन्यथी कंइक अधिक पूर्वकोटी सहित दस हजार वर्ष तथा उत्कृष्ट छ पत्योपम-
एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (१).

परिमाण-

७. जो ते (असख्यात वर्पना आयुपवाळो सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच) जघन्यकाळनी स्थितिवाळा असुरकुमारमा उत्पन्न थाय तो तेने
एज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण अहिं असुरकुमारनी स्थिति अने सवेध विचारिने कहेवो (२).

२ असख्या० प०
तिर्यंचनी न्यप०
असुरकुमारमां
उत्पत्ति.
३ असं०या० प०
तिर्यंचनी दृष्टि०
असुरकुमारमां
उत्पत्ति.

८. जो ते उत्कृष्टकाळनी स्थितिवाळा असुरकुमारमा उत्पन्न थाय तो ते जघन्य अने उत्कृष्ट त्रण पत्योपमनी स्थितिवाळा असुरकु-
मारोमां उत्पन्न थाय—इत्यादि पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए छे के तेनी स्थिति जघन्य अने उत्कृष्ट त्रण पत्योपमनी होय
छे. ए प्रमाणे अनुबंध पण जाणवो. काळनी अपेक्षाए जघन्य अने उत्कृष्ट छ पत्योपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे, बाकी वधुं
पूर्वे कहा प्रमाणे जाणहुं (३).

९. सो चेव अणुपणा जहन्नकालद्वितीयो जाओ, जहन्नेणं दसवाससहस्सद्वितीयसु, उक्कोसेणं सानिरेगपुधकोटीआउपसु उववजेजा ।

१०. ते णं मंते !० अवसेसं तं चेव जाव—'भवादेशो'त्ति । नवरं ओगादृणा जहन्नेणं धणुहपुद्धत्तं, उक्कोसेणं सातिरेगं धणुसहस्सं । ठिती जहन्नेणं सातिरेगा पुधकोटी, उक्कोसेण वि सातिरेगा पुधकोटी । एवं अणुवंधो वि । फालादेशेणं जहन्नेणं सातिरेगा पुधकोटी दसाहिं वाससहस्सेहिं अम्महिया, उक्कोसेणं सातिरेगाओ दो पुधकोटीओ—एवतियं० ४ ।

११. सो चेव जहन्नकालद्वितीयसु उववओ, एस चेव वत्तघया । नवरं असुरकुमारद्विं संवेहं च जाणेजा ५ ।

१२. सो चेव उक्कोसकालद्वितीयसु उववओ, जहन्नेणं सातिरेगपुधकोडिआउपसु, उक्कोसेण वि सातिरेगपुधकोटीआउपसु उववजेजा, सेसं तं चेव । नवरं कालादेशेणं जहन्नेणं सातिरेगाओ दो पुधकोटीओ, उक्कोसेण वि सानिरेगाओ दो पुधकोटीओ—एवतियं कालं सेवेजा ६ ।

१३. सो चेव अणुपणा उक्कोसकालद्वितीयो जाओ, सो चेव पढमगमगो माणियओ । नवरं ठिती जहन्नेणं तिन्नि पलिओ-वमाइं, उक्कोसेण वि तिन्नि पलिओवमाइं । एवं अणुवंधो वि । फालादेशेणं जहन्नेणं तिन्नि पलिओवमाइं दसाहिं वाससहस्सेहिं अम्महियाइं, उक्कोसेणं छ पलिओवमाइं—एवतियं० ७ ।

१४. सो चेव जहन्नकालद्वितीयसु उववओ, एस चेव वत्तघया । नवरं असुरकुमारद्विं संवेहं च जाणिजा ८ ।

१५. सो चेव उक्कोसकालद्वितीयसु उववओ, जहन्नेणं तिपलिओवमं०, उक्कोसेण तिपलिओवमं० एस चेव वत्तघया । नवरं कालादेशेणं जहन्नेणं छप्पलिओवमाइं, उक्कोसेण वि छप्पलिओवमाइं—एवतियं० ९ ।

१६. [प्र०] जह संलेज्जवासाउयसन्निपंचिदियं० जाव—उववजंति किं जलचरं०, एवं जाव—पज्जत्तसंगेज्जवासाउयस-

९. जो ते (असह्यात वर्षना आयुपवाळो संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोयोनिक) पोते जघन्यकाळनी स्थितिवाळो होय अने असुरकुमारमां उत्पन्न थाय तो ते जघन्य दस हजार वर्ष अने उत्कृष्ट काटक अधिक पूर्वकोटी वर्षना आयुपवाळा असुरकुमारमां उत्पन्न थाय.

१०. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटळा उत्पन्न थाय ? [उ०] वाकी वधुं यावत्—भवादेश सुधी तेज प्रमाणे जाणवुं. विशेष ए छे के शरीरनी उंचाई जघन्यथी वेथी *नव धनुष सुधी अने उत्कृष्ट कांडक अधिक एक हजार धनुष होय छे. स्थिति जघन्य अने उत्कृष्ट कांडक अधिक पूर्वकोटी वर्षनी होय छे. ए प्रमाणे अनुबंध पण जाणवो. काळनी अपेक्षाए जघन्यथी कांडक अधिक पूर्वकोटी सहित दस हजार वर्ष अने उत्कृष्ट कांडक अधिक वे पूर्वकोटी वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (४).

११. जो ते जघन्यकाळनी स्थितिवाळा असुरकुमारमा उत्पन्न थाय तो तेने एव वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के अहिं असुरकुमारनी स्थिति अने सवेध विचारिने कहेवो (५).

१२. हवे जो तेज जीव उत्कृष्टकाळनी स्थितिवाळा असुरकुमारमा उत्पन्न थाय तो जघन्य अने उत्कृष्ट कांडक अधिक पूर्वकोटी वर्षनी स्थितिवाळा असुरकुमारमा उत्पन्न थाय. वाकी वधुं पूर्वं कक्षा प्रमाणे जाणवुं. पण विशेष ए के काळादेशथी जघन्य अने उत्कृष्ट कांडक अधिक वे पूर्वकोटी वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (६).

१३. हवे तेज पोते उत्कृष्टकाळनी स्थितिवाळो होय अने असुरकुमारमा उत्पन्न थाय तो तेने प्रथम गमक कहेवो. पण विशेष ए के स्थिति जघन्य अने उत्कृष्ट त्रण पल्योपमनी होय छे, तथा अनुबंध पण एज प्रमाणे जाणवो. काळादेशथी जघन्य दस हजार वर्ष अधिक त्रण पल्योपम अने उत्कृष्ट छ पल्योपम एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (७).

१४. जो ते (उत्कृष्ट स्थितिवाळो पंचेन्द्रिय तिर्यच) जघन्य काळनी स्थितिवाळा असुरकुमारमां उत्पन्न थाय तो तेने एव वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के अहिं असुरकुमारनी स्थिति अने सवेध विचारिने कहेवो (८).

१५. जो ते (उत्कृष्ट स्थितिवाळो पंचेन्द्रिय तिर्यच) उत्कृष्टकाळनी स्थितिवाळा असुरकुमारमा उत्पन्न थाय तो ते जघन्य अने उत्कृष्ट त्रण पल्योपमनी स्थितिवाळा असुरकुमारमा उत्पन्न थाय—इत्यादि पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी पण विशेष ए के काळनी अपेक्षाए जघन्य अने उत्कृष्ट छ पल्योपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे ९.

१६. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते असुरकुमारो संख्याता वर्षना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोयी आवीने उत्पन्न थाय तो शुं जलचरोयी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि यावत्—हे भगवन् ! पर्याप्त सख्याता वर्षना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोयोनिक, जे

जव० असह्यात०
संज्ञी प० तिर्यचनी
असुरकुमारमा
उत्पत्ति.
परिमाणान्दि

असह्यात० प०
तिर्यचनी जघ०
असुरकुमारमा
उत्पत्ति
असह्यात० प०
तिर्यचनी उत्कृष्ट०
असुरकुमारमा
उत्पत्ति

उत्कृष्ट० असह्यात०
तिर्यचनी असुरकुमा-
रमा उत्पत्ति

उत्कृष्ट० असह्यात०
प० तिर्यचनी जघ०
असुरकुमारमा
उत्पत्ति
उत्कृष्ट असह्यात०
तिर्यचनी उत्कृष्ट०
असुरकुमारमा
उत्पत्ति

असह्यात० संज्ञी तिर्य-
चनी असुरकुमारमा
उत्पत्ति

त्रिपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिय णं भंते ! जे भविण असुरकुमारेसु उववज्जित्तप, से णं भंते ! केवदयकालद्वितीपसु उववजेज्जा ! [उ०] गोयमा ! जहद्वेणं दसवाससदहस्सद्वितीपसु, उक्कोसेणं सातिरेगसागरोवमद्वितीपसु उववजेज्जा ।

१७. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा पगसमपणं० ? [उ०] एवं पतेसि रयणप्पमपुढविगमगसरिसा नव गमगा णेयघा । नवरं जाहे अप्पणा जहद्वकालद्विओ भवइ, ताहे तिसु चि गमपसु इमं णाणत्तं—चचारि केस्साओ, अज्जवसाणा पसत्या, नो अप्पसत्या, सेसं तं चेव । संवेहो सातिरेगेण सागरोवमेण कायघो ९ ।

१८. [प्र०] जइ मणुस्सेहिंतो उववज्जंति किं सन्निमणुस्सेहिंतो० असन्निमणुस्सेहिंतो० ? [उ०] गोयमा ! सन्निमणुस्सेहिंतो०, नो असन्निमणुस्सेहिंतो उववज्जंति ।

१९. [प्र०] जइ सन्निमणुस्सेहिंतो उववज्जंति किं संखेज्जासाउयसन्निमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, असंखेज्जासाउयसन्निमणुस्सेहिंतो उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! संखेज्जासाउय० जाव—उववज्जंति, असंखेज्जासाउय० जाव—उववज्जंति ।

२०. [प्र०] असंखेज्जासाउयसन्निमणुस्से णं भंते ! जे भविण असुरकुमारेसु उववज्जित्तप से णं भंते ! केवतिकालद्वितीपसु उववजेज्जा ? [उ०] गोयमा ! जहद्वेणं दसवाससदहस्सद्वितीपसु, उक्कोस्सेणं तिपलिओवमद्वितीपसु उववजेज्जा । एवं असंखेज्जासाउयतिरिक्खजोणियसरिसा आदिह्हा तिन्नि गमगा नेयघा । नवरं सरीरोगाहणा पढमवित्तिपसु गमपसु जहद्वेणं सातिरेगाइं पंचघणुसयाइं, उक्कोसेणं तिन्नि गाउयाइं, सेसं तं चेव । तईयगमे ओगाहणा जहद्वेणं तिन्नि गाउयाइं, उक्कोसेण चि तिन्नि गाउयाइं, सेसं जहेच तिरिक्खजोणियाणं ३ ।

२१. सो चेव अप्पणा जहद्वकालद्वितीओ जाओ, तस्स चि जहद्वकालद्वितियतिरिक्खजोणियसरिसा तिन्नि गमगा भाणियघा । नवरं सरीरोगाहणा तिसु चि गमपसु जहद्वेणं साहरेगाइं पंचघणुसयाइं, उक्कोसेण चि सातिरेगाइं पंचघणुसयाइं, सेसं तं चेव ६ ।

असुरकुमारोमा उत्पन्न यवाने योग्य छे ते हे भगवन् ! केटळा काळनी स्थितिवाळा असुरकुमारोमा उत्पन्न थाय ! [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य दस हजार वर्षनी अने उत्कृष्ट काइक अधिक एक सागरोपमनी स्थितिवाळा असुरकुमारोमा उत्पन्न थाय'.

१७. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो (संज्ञी पंचेन्द्रिय त्रिपंचो) एक समये केटळा उत्पन्न थाय ! [उ०] पूर्वे कदा प्रमाणे राप्रमा-पृथिवीना समान नवे गमको अहिं जाणवा. पण विशेष ए के प्यारे पोते जघन्यकाळनी स्थितिवाळो होय ल्यारे वधेना त्रणे गमोमां आ मेद जाणवो—तेने चार लेश्याओ होय छे, अष्ववसापो प्रशस्त होय छे, पण अप्रशस्त होता नथी. वाकी वधुं पूर्वे कदा प्रमाणे जाणवुं. *संवेध काइक अधिक सागरोपमथी करवो.

इतिमात्र.

१८. [प्र०] जो ते असुरकुमारो मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं सज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय के अन्तरी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय ! [उ०] हे गौतम ! तेओ सज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय, पण अज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न न थाय.

मनुष्योथी ए
सागरोमां वद'

१९. [प्र०] हे भगवन् ! जो तेओ सज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं नह्याता वर्षना आयुपवाळा सज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय के असह्याता वर्षना आयुपवाळा सज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय ! [उ०] हे गौतम ! तेओ वने प्रकारना आयुपवाळा मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय छे.

मती मनुष्ये
असुरकुमारोमा
ए

२०. [प्र०] हे भगवन् ! असह्याता वर्षना आयुपवाळो सज्ञी मनुष्य, जे असुरकुमारोमा उत्पन्न धराने योग्य छे ते केटळा काळनी स्थितिवाळा असुरकुमारोमा उत्पन्न थाय ! [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य दस हजार वर्षनी अने उत्कृष्ट त्रण मनुष्योपमनी स्थितिवाळा असुरकुमारोमा उत्पन्न थाय. ए प्रमाणे असह्याता वर्षना आयुपवाळा त्रिपंचोनिज्ञानी पेटे प्रथमना त्रण गमको जाणता. पण विशेष ए के शरीरनी उंचाई प्रथम अने द्वितीय गमकमां काइक अधिक पाचसो धनुष अने उत्कृष्टथी त्रण गाउनी होय छे. वाकी वधुं पूर्वोक्त करवुं. शीना गमकमां शरीरनी उंचाई जघन्य अने उत्कृष्ट पण त्रण गाउनी जाणवी. वाकी वधु त्रिपंचोनिज्ञानी पेटे नमजवुं. १-२-३.

इतिमात्र .
ती उत्पन्न
मनुष्यो

२१. जो ते पोते जघन्यकाळनी स्थितिवाळो होय तो तेने जघन्यकाळनी स्थितिवाळा त्रिपंचोनिज्ञानी पेटे त्रणे गमो करेरा. पण विशेष ए के अहिं त्रणे गममा शरीरनी उंचाई जघन्य अने उत्कृष्ट काइक अधिक पाचसो धनुष जाणवी. वाकी वधुं पूर्वोक्त करवुं (४-५-६).

असुरकुमारोमा
उत्पन्न
मनुष्यो

२२. सो चैव अप्पणा उक्कोसकालट्टितीओ जाओ, तस्स वि ते चैव पच्छिह्लगा तिन्नि गमगा भाणियद्धा । नवरं सरीरो-
गाहणा तिसु वि गमपसु जहन्नेणं तिन्नि गाउयादं, उक्कोसेण वि तिन्नि गाउयादं, अचसेसं तं चैव ९ ।

२३. [प्र०] जइ संखेज्जवासाउयसन्निमणुस्सेहिंदो उववज्जंति किं पज्जत्तसंपेज्जवासाउय०, अपज्जत्तसंपेज्जवासाउय० ?
[उ०] गोयमा ! पज्जत्तसंपेज्ज०, णो अपज्जत्तसंपेज्ज० ।

२४. [प्र०] पज्जत्तसंपेज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं भंते ! जे भविण अमुरकुमारसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केव-
तिकालट्टितीपसु उववज्जेज्जा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्सट्टितीपसु, उक्कोसेणं सादरेगसागरोवमट्टितीपसु
उववज्जेज्जा ।

२५. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा० ? [उ०] एवं जहेव पतेसिं रयणप्पमाण उववज्जमाणणं णव गमगा तहेव इह चि णव
गमगा भाणि यद्धा । णवरं संवेहो सातिरेगेण सागरोवमेण कायद्धो, सेसं तं चैव ९ । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! ति ।

चडवीसतिमे सए वीओ उद्देशो समत्तो ।

उक्कट्ट० सधी मट्ट
पनी अमुरकुमारमा
उत्पत्ति.

२२. जो ते पोते उक्कट्टकाळनी स्थितिवाळो होय तो ते संवेधे पण पूर्वोक्त छेळा त्रण गमो कहेवा. पण विशेष ए के त्रणे गमोम
शरीरुं प्रमाण जवन्य अने उक्कट्ट त्रण गाउनुं होय छे. बाकी वधुं ते प्रमाणे जाणवुं (७-८-९).

संख्यात० सधी मट्ट
पनी अमुरकुमारमा
उत्पत्ति

२३. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते अमुरकुमारो संख्याता वर्पना आयुपवाळा संझी मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय तो शुं पर्याप्त संख्या-
ता वर्पना आयुपवाळा के अपर्याप्त संख्याता वर्पना आयुपवाळा संझी मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! पर्याप्त संख्याता
वर्पना आयुपवाळा संझी मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय, पण अपर्याप्ता संझी मनुष्योयी आवी उत्पन्न न थाय.

२४. [प्र०] हे भगवन् ! पर्याप्त संख्याता वर्पना आयुपवाळो संझी मनुष्य, जे अमुरकुमारोमा उत्पन्न यवाने योग्य छे ते केटला
काळनी स्थितिवाळा अमुरकुमारोमां उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जवन्य दस हजार वर्ष अने उक्कट्ट कांडक अधिक सागरोपमनी
स्थितिवाळा अमुरकुमारोमां उत्पन्न थाय.

परिभागादि

२५. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] ए प्रमाणे जेम रत्तप्रभामा उत्पन्न यनार मनुष्योना नव
गमो कहेवा तेम अहि पण नव गमो कहेवा. पण विशेष ए के अहीं संवेध पूर्वकोटी सहित सागरोपमनी कहेवो. बाकी वधुं पूर्वोक्त जाणवुं.
'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

चौवीशमा शतकमां द्वितीय उद्देशक समाप्त.

तईआइआ उद्देशा ।

१. [प्र०] रायणिहे जाव-एवं वयासी-नागकुमारा णं भंते ! कओहिंदो उववज्जंति, किं नेरइएहिंदो उववज्जंति,
तिरि० मणु०, देवेहिंदो उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! णो णेरइएहिंदो उववज्जंति, तिरिक्खजोणि०, मणुस्सेहिंदो उववज्जंति,
नो देवेहिंदो उववज्जंति ।

२. [प्र०] जइ तिरिक्ख० ? [उ०] एवं जहा अमुरकुमारणं वत्तद्यया तहा पतेसिं पि जाव-‘असन्नित्ति’ ।

३-११ उद्देशको.

नागकुमारमां वप
पाठ

१. [प्र०] राजगृहमां [भगवान् गौतम !] यावत्-आ प्रमाणे वोल्या के-हे भगवन् ! नागकुमारो क्यायी आवीने उत्पन्न थाय
छे-शुं नैरथिकोयी, तिर्यचोयी, मनुष्योयी के देवोयी आवीने उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ नैरथिकोयी के देवोयी आवी
उत्पन्न यता नयी, पण तिर्यचोयी अने मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय छे.

२. जो तेओ तिर्यचोयी आवी उत्पन्न थाय छे-इत्यादि जेम अमुरकुमारोनी वक्तव्यता कही तेम एओनी पण वक्तव्यता यावत्-
असंझी सुधी कहेवी.

३. [प्र०] जइ सन्निर्पंचिदियतिरिक्खजोणिर्हिंतो० किं संखेज्जवासाउय०, असंखेज्जवासाउय० ? [उ०] गोयमा ! संखेज्जवासाउय०, असंखेज्जवासाउय० जाव—उववज्जंति ।

४. [प्र०] असंखेज्जवासाउयसन्निर्पंचिदियतिरिक्खजोणिणं णं भंते ! जे भविए नागकुमारेसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवतिकालट्ठित्ति० ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्सट्ठित्तिएसु, उक्कोसेणं देसूणदुपल्लिओवमट्ठित्तीएसु उववज्जेज्जा ।

५. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा० [उ०] अवसेसो सो चेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स गमगो भाणियद्वो जाव—‘भवादेशो’त्ति । कालादेशेणं जहन्नेणं सातिरेगा पुच्चकोडी दसाहिं वाससहस्सेहिं अब्भहिया, उक्कोसेणं देसूणाइं पंच पल्लिओवमाइं—एवतियं जाव—करेज्जा १ ।

६. सो चेव जहन्नकालट्ठित्तीएसु उववज्जो, एस चेव वत्तघया । नवरं नागकुमारट्ठित्तिं संवेहं च जाणेज्जा २ ।

७. सो चेव उक्कोसकालट्ठित्तीएसु उववज्जो, तस्स वि एस चेव वत्तघया । नवरं ठित्ती जहन्नेणं देसूणाइं दो पल्लिओवमाइं, उक्कोसेणं तिन्नि पल्लिओवमाइं, सेसं तं चेव जाव—‘भवादेशो’त्ति । कालादेशेणं जहन्नेणं देसूणाइं चत्तारि पल्लिओवमाइं, उक्कोसेणं देसूणाइं पंच पल्लिओवमाइं—एवतियं कालं ३ ।

८. सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्ठित्तीओ जाओ, तस्स वि तिसु वि गमएसु जहेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स जहन्नकालट्ठित्तियस्स तहेव निरवसेसं ६ ।

९. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्ठित्तीओ जाओ, तस्स वि तहेव तिन्नि गमगा जहा असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स । नवरं नागकुमारट्ठित्तिं संवेहं च जाणेज्जा सेसं तं चेव ७—८—९ ।

१०. [प्र०] जइ संखेज्जवासाउयसन्निर्पंचिदिय० जाव—किं पज्जत्तसंखेज्जवासाउय०, अपज्जत्तसंखेज्ज० ? [उ०] गोयमा ! पज्जत्तसंखेज्जवासाउय०, णो अपज्जत्तसंखेज्जवासाउय० ।

३. [प्र०] जो सञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय तो झुं संख्याता वर्पना आयुपवाळा सञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यचयो-
निकोथी आवी उत्पन्न थाय के असख्याता वर्पना आयुपवाळा सञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम !
तेओ वने प्रकारना तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय.

सञ्जी तिर्य
चयोनिको
त्तपत्ति

४. [प्र०] हे भगवन् ! असख्यात वर्पना आयुपवाळा सञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक, जे नागकुमारोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते
केटला काळनी स्थितिवाळा नागकुमारोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्यथी दश हजार वर्पनी स्थितिवाळा अने उत्कृष्टथी
काइक न्यून वे पल्लोपमनी स्थितिवाळा नागकुमार देवोमा उत्पन्न थाय.

५. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय—इत्यादि असुरकुमारमां उत्पन्न थनार असंख्याता वर्पना आयुपवाळा
तिर्यचोनी यावत्—भवादेश सुधी समग्र पाठ कहेवो. काळनी अपेक्षाए जघन्य काइक अधिक पूर्वकोटी सहित दस हजार वर्ष अने
उत्कृष्ट काइक न्यून पाच पल्लोपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (१).

६. जो ते जीव जघन्यकाळनी स्थितिवाळा नागकुमारोमा उत्पन्न थाय तो तेने एज वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के अहिं
नागकुमारोनी स्थिति अने सवेध जाणवो (२).

असख्यात
तिर्यचनी
कुमारमा ७८५

७. जो ते जीव उत्कृष्ट काळनी स्थितिवाळा नागकुमारमां उत्पन्न थाय तो तेने पण एज वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के
जघन्य स्थिति काइक न्यून वे पल्लोपमनी अने उत्कृष्ट त्रण पल्लोपमनी होय छे. वाकी वधुं पूर्वे कख्या प्रमाणे यावत्—भवादेश सुधी
जाणवुं. काळादेशथी जघन्य काइक न्यून चार पल्लोपम अने उत्कृष्ट काइक न्यून पाच पल्लोपम—एटलो काळ यावत्—गमना-
गमन करे (३).

असख्यात सं
तिर्यचनी ७८६
नागकुमार
उत्पत्ति

८. जो ते जीव पोते जघन्य काळनी स्थितिवाळो होय तो तेने पण त्रणे गमकोमा असुरकुमारोमां उत्पन्न थनार जघन्य काळनी
स्थितिवाळा (असख्यातवर्पना आयुपवाळा तिर्यचनी) पेटे वधुं कहेवुं (४—५—६).

जघन्य० अस
संजी ५० ति
नागकुमारोमा

९. जो ते पोते उत्कृष्ट काळनी स्थितिवाळो होय तो तेने पण त्रणे गमको असुरकुमारोमा उत्पन्न थता तिर्यचयोनिकनी पेटे कहेवा.
पण विशेष ए के अहिं नागकुमारोनी स्थिति अने सवेध कहेवो. वाकी वधुं तेज प्रमाणे कहेवुं (७—८—९).

उट्टो ५
५० तिर्यचनी
कुमारमा ७८५

१०. [प्र०] जो ते नागकुमारो संख्याता वर्पना आयुपवाळा सञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय तो झुं तेओ
पर्याता के अपर्याता संख्याता वर्पना आयुपवाळा सञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ पर्याता
संख्याता वर्पना आयुपवाळा सञ्जी तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय, पण अपर्याताथी आवी न उत्पन्न थाय.

५० मर्यात
५० तिर्यचनी
कुमारमा ७८६

११. [प्र०] पञ्चसंखेज्जवासाउय० जाव—जे भविण्ण णागकुमारेसु उचवज्जित्तण से णं भंते ! केवतिकालट्टिनीएसु उचवज्जेजा ? [उ०] जहन्नेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं देसुणाइं दो पल्लिओवमाइं । एवं जहेव असुरकुमारेसु उचवज्जमाणस्स वत्तघया तहेव इह वि णवसु वि गमएसु । णवरं णागकुमारट्टित्ति संवेहं च जाणेजा, सेसं तं चेव ९ ।

१२. [प्र०] जइ मणुस्सेहिंतो उचवज्जंति किं सन्निमणु०, असन्निमणु० ? [उ०] गोयमा ! सन्निमणु०, णो असन्निमणु-स्सेहिंतो, जहा असुरकुमारेसु उचवज्जमाणस्स जाव—

१३. [प्र०] असंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं भंते ! जे भविण्ण णागकुमारेसु उचवज्जित्तण से णं भंते ! केवतिकाल-ट्टिनीएसु उचवज्जइ ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्साइं उक्कोसेणं देसुणाइं दो पल्लिओवमाइं, एवं जहेव असंखेज्ज-वासाउयारणं तिरिञ्चजोणियारणं नागकुमारेसु आट्टिहा तिमि गमगा तहेव इमस्स वि । नवरं पढमविनिण्णसु गमएसु सरीरो-गाहणा जहन्नेणं सातिरेगाइं पंचधणुसयाइं, उक्कोसेणं तिमि गाउयाइं, तइयगमे ओगाहणा जहन्नेणं देसुणाइं दो गाउयाइं, उक्कोसेणं तिमि गाउयाइं, सेसं तं चेव ३ ।

१४. सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्टितीओ जाओ, तस्स तिसु वि गमएसु जहा तस्स चेव असुरकुमारेसु उचवज्ज-माणस्स तहेव निरवसेसं ६ ।

१५. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्टितीओ जाओ, तस्स तिसु वि गमएसु जहा तस्स चेव उक्कोसकालट्टितियस्स असुरकुमारेसु उचवज्जमाणस्स, नवरं णागकुमारट्टित्ति संवेहं च जाणेजा, सेसं तं चेव ९ ।

१६. [प्र०] जइ संखेज्जवासाउयसन्निमणु० किं पञ्चसंखेज्ज०, अपञ्चसंखेज्ज० ? [उ०] गोयमा ! पञ्चसंखेज्ज०, णो अपञ्चसंखेज्ज० ।

११. [प्र०] हे भगवन् ! पर्याप्त संख्याता वर्षना आयुषवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिक, जे नागकुमारमा उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते केटळा काळनी स्थितिवाळा नागकुमारमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य टम हजार वर्षनी अने उत्कृष्ट काडक न्यून वे पल्योपमनी स्थितिवाळा नागकुमारोमां उत्पन्न थाय—इत्यादि जेम असुरकुमारोमां उत्पन्न थता संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी वक्तव्यता कही छे तेम अहिं नवे गमकोमा कहेवी. पण विशेष ए के अही नागकुमारनी स्थिति अने संवेव जाणवो. वाकी वहुं तेज प्रमाणे समजहुं.

१२. [प्र०] जो तेओ मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय के असंज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय, पण असंज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न न थाय—इत्यादि जेम असुरकुमारोमा उत्पन्न थवाने योग्य मनुष्योनी वक्तव्यता कही छे तेम कहेवी. यावत्—

१३. [प्र०] हे भगवन् ! असंख्याता वर्षना आयुषवाळा संज्ञी मनुष्य जे नागकुमारोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते केटळा काळनी स्थितिवाळा नागकुमारोमां उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य दस हजार वर्षनी अने उत्कृष्ट काडक न्यून वे पल्योपमनी स्थिति-वाळा नागकुमारोमां उत्पन्न थाय. ए प्रमाणे वहुं असंख्यात वर्षना आयुषवाळा तिर्यंचयोनिकोना नागकुमारोमा उत्पन्न थवा संवेवे आदिना त्रण गमको कहा छे ते अहिं पण कहेवा. पण विशेष ए के प्रथम अने बीजा गमकमा शरीरनुं प्रमाणे जघन्य काडक अविक पाचसो धनुष अने उत्कृष्ट त्रण गाउनुं छे. त्रीजा गमकमा शरीरनी उंचाई जघन्य काडक न्यून वे गाउ अने उत्कृष्ट त्रण गाउनी छे. वाकी वहुं ते प्रमाणे जाणहुं (३).

१४. जो ते पोते जघन्य काळनी स्थितिवाळो होय तो तेने पण त्रणे गमकोमा असुरकुमारमा उत्पन्न थवाने योग्य असंख्याता वर्षना आयुषवाळा संज्ञी मनुष्यनी पेटे वधी हकीकत कहेवी (६).

१५. जो ते पोते उत्कृष्ट काळनी स्थितिवाळो होय तो ते संवघे पण त्रणे गमकोमा असुरकुमारोमा उत्पन्न थवाने योग्य उत्कृष्ट काळनी स्थितिवाळा संज्ञी असंख्यातवर्षीय मनुष्यनी पेटे जाणहुं. पण विशेष ए के अही नागकुमारोनी स्थिति अने संवेव जाणवो, वाकी वहुं तेज प्रमाणे समजहुं (९).

१६. [प्र०] जो तेओ संख्याता वर्षना आयुषवाळा संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं पर्याप्ता संख्याता वर्षना आयुषवाळा संज्ञी मनुष्योथी के अपर्याप्ता संख्याता वर्षना आयुषवाळा संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ पर्याप्ता संख्याता वर्षना आयुषवाळा संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय, पण अपर्याप्ता संख्याता वर्षना आयुषवाळा संज्ञी मनुष्योथी आवी न उत्पन्न थाय.

संज्ञी मनुष्यनी
नागकुमारमा
उत्पत्ति.

असंख्यातवर्षीय संज्ञी
मनुष्यनी
नागकुमारमा
उत्पत्ति

उत्पन्न
असंख्यात०
मनुष्यनी नाग-
कुमारमा उत्पत्ति.

उत्कृष्ट० असंख्यात०
मनुष्यनी नागकु-
मारमा उत्पत्ति.

अपर्याप्तवर्षीय
संज्ञी मनुष्योनी
नागकुमारमां
उत्पत्ति.

१७. [प्र०] पञ्चसंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं भंते ! जे भविए णागकुमारेसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवति० ? [उ०] गोयमा ! जह्वेणं दसवाससहस्सट्ठितिएसु, उक्कोसेणं देसूणदोपल्लिओवमट्ठितिएसु उववज्जंति, एवं जहेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स सच्चेव लद्धी निरवसेसा नवसु गमएसु, णवरं णागकुमारट्ठितिं संवेहं च जाणेज्जा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते !' त्ति ।

चउवीसतिमे सए ततिओ उद्देशो समत्तो ।

१७. [प्र०] हे भगवन् ! पर्याप्त संख्याता वर्षना आयुपवाळा संज्ञी मनुष्य जे नागकुमारोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटळा काळनी स्थितिवाळा नागकुमारोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते कनिष्ठ दस हजार वर्षनी स्थितिवाळा अने उत्कृष्ट काइक न्यून वे पल्योपमनी स्थितिवाळा नागकुमारोमा उत्पन्न थाय—इत्यादि जेम असुरकुमारोमा उत्पन्न थवाने योग्य मनुष्यनी वक्तव्यता कही छे तेम अही पण नवे गमकोमा वधी कहेवी. पण विशेष ए के अहींआ नागकुमारनी स्थिति अने संवेध जाणवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

चोवीशमां शतकमां तृतीय उद्देशक समाप्त.

चउत्थयाई उद्देशा ।

अवसेसा सुवन्नकुमाराई जाव—थणियकुमारा एए अट्ट वि उद्देशगा जहेव नागकुमारा तहेव निरवसेसा भाणियव्वा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते !' त्ति ।

चउवीसतिमे सते चउत्थयाई उद्देशा समत्ता ।

४—११ उद्देशको.

सुवर्णकुमारथी भाडी स्तनितकुमार सुधीना वाकीना आठे उद्देशको नागकुमारोनीं पेटे कहेवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

चोवीशमा शतकमां ४—११ उद्देशको समाप्त.

दुवालसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] पुढविकाइया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति, किं नेरइपहिंतो उववज्जंति, तिरिक्ख०, मणुस्से०, देवेहिंतो उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! णो णेरइपहिंतो उववज्जंति, तिरि०, मणु०, देवेहिंतो वि उववज्जंति ।

२. [प्र०] जइ तिरिक्खजोणिपहिंतो० किं एगिंदियतिरिक्खजोणिप० एवं जहा वक्कंतीए उववाओ, जाव—[प्र०] जइ वायरपुढविकाइयएगिंदियतिरिक्खजोणिपहिंतो उववज्जंति किं पज्जत्तवादर० जाव—उववज्जंति, अपज्जत्तवादरपुढवि० ? [उ०] गोयमा ! पज्जत्तवादरपुढवि०, अपज्जत्तवादरपुढवि० जाव—उववज्जंति ।

बारमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! पृथिवीकायिको क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे—शुं नैरयिकोथी, तिर्यचोथी, मनुष्योथी के देवोथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ नैरयिकोथी आवी उत्पन्न थता नथी, पण तिर्यच, मनुष्य अने देवोथी आवी उत्पन्न थाय छे.

२. [प्र०] हे भगवन् ! जो तेओ [पृथिवीकायिको] तिर्यचयोनिक्कोथी आवी उत्पन्न थाय, तो शुं एकेन्द्रिय तिर्यचयोनिक्कोथी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! जेम व्युत्क्रान्तिपदमा कह्युं छे ते प्रमाणे अहि उपपात कहेवो, यावत्—हे भगवन् ! जो तेओ वादर पृथिवीकायिको एकेन्द्रिय तिर्यचयोनिक्कोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं पर्याप्त वादर पृथिवीकायिकोथी के अपर्याप्त वादर पृथिवीकायिकोथी आवी यावत्—उत्पन्न थाय छे ? हे गौतम ! तेओ पर्याप्त अने अपर्याप्त वने प्रकारना वादर पृथिवीकायिकोथी आवी उत्पन्न थाय छे'.

पृथिवीकायिको
७५५

तिर्यचोनी
वादिक्कमा

३. [प्र०] पुढविकाइए णं भंते ! जे भविए पुढविकाइएसु उववज्जित्तण से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववजेज्जा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तट्टितीएसु, उक्कोसेणं वावीसवाससहस्सट्टितीएसु उववजेज्जा ।

४. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अणुसमयं अविरहिया असंखेज्जा उववज्जंति । छेवट्टसंघयणी । सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं । मग्गूचंदसंठिया । चत्तारि लेस्साओ । णो सम्मदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, णो सम्मामिच्छादिट्ठी । णो णाणी, अघ्राणी, दो अघ्राणा नियमं । णो मण-जोगी, णो वडजोगी, कायजोगी । उवओगो दुविहो वि । चत्तारि सत्ताओ । चत्तारि कसाया । एगे फांसिदिए पन्नत्ते । तिन्नि समुघाया । वेदणा दुविहा । णो इत्थिवेदगा, णो पुरिसवेदगा, नपुंसगवेदगा । टितीए जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साइं । अज्जवसाणा पसत्था वि, अपसत्था वि । अणुबंधो जहा टिनी ? ।

५. [प्र०] से णं भंते ! पुढविकाइए पुणरवि 'पुढविकाइए'त्ति केवतियं कालं संवेज्जा, केवतियं कालं गतिरागतिं करेज्जा ? [उ०] गोयमा ! भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं असंखेजाइं भवग्गहणाइं । फालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं—एवतियं जाव—करेज्जा ? ।

६. सो चेव जहन्नकाट्टितीएसु उववन्नो जहन्नेणं अंतोमुहुत्तट्टितीएसु, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तट्टितीएसु—एवं चेव वत्त-व्या निखसेसा २ ।

७. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववन्नो, जहन्नेणं वावीसवाससहस्सट्टितीएसु, उक्कोसेण वि वावीसवासस-हस्सट्टितीएसु, सेसं तं चेव, जाव—'अणुबंधो'त्ति । णवरं जहन्नेणं एको वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असं-खेज्जा वा उववज्जिज्जा । भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहन्नेणं वावीसं वासस-हस्साइं अंतोमुहुत्तमम्भहियाइं, उक्कोसेणं छावत्तारिवाससहस्सुत्तरं सयसहस्सं—एवतियं कालं—जाव—करेज्जा ३ ।

३. [प्र०] हे भगवन् ! जे पृथिवीकायिक पृथिवीकायिकोमां उत्पन्न थयाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा पृथिवीका-यिकोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] गौतम ! ते जघन्य अन्तर्मुहूर्तनी स्थितिवाळा अने उत्कृष्ट वावीश हजार वर्षनी स्थितिवाळा पृथिवीकायि-कमा उत्पन्न थाय.

परिभागादि.

४. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ समये समये निरतर असंख्याता उत्पन्न थाय. तेओ छेवट्ट संघयणवाळा होय छे. तेओनुं शरीर जघन्य अने उत्कृष्ट पण अंगुलना असंख्यातमा भाग प्रमाण होय छे. तेओनुं संस्थान—आकार मसुरनी दाळ जेवुं छे. तेओने चार लेख्याओ होय छे. ते सम्यग्दृष्टि के मिश्रदृष्टि नथी होता, पण मिथ्यादृष्टि होय छे. ज्ञानी नथी होता पण अज्ञानी होय छे, तेओने अवय्य मतिअज्ञान अने श्रुतअज्ञान ए वे अज्ञान होय छे. तेओ मनोयोगी के वचन-योगी नथी, पण काययोगी छे. उपयोग साकार अने निराकार वन्ने प्रकारनी छे, चार संज्ञाओ अने चारे कथायो होय छे. इन्द्रियोमां एक स्पर्शेन्द्रिय होय छे. आदिना त्रण समुद्घातो अने वेदना वन्ने प्रकारनी होय छे. तेओने खीवेट के पुरुषवेद होतो नथी, पण नपुंसक-वेद होय छे. स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्तनी अने उत्कृष्ट वावीश हजार वर्षनी होय छे. अव्यवसायो प्रशस्त अने अप्रशस्त वन्ने प्रकारनां होय छे. अनुबंध स्थिति प्रमाणे जाणवो.

कायसवेध

५. [प्र०] हे भगवन् ! ते पृथिवीकायिक मरीने पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न थाय, पुन पृथिवीकायिक थाय—एम केटला काळ सुधी सेवे—केटला काळ सुधी गमनागमन करे ? [उ०] हे गौतम ! भवनी अपेक्षाए जघन्य वे भव अने उत्कृष्ट संख्याता भवो, काळनी अपेक्षाए जघन्य वे अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट असंख्याता वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (१).

पृथिवीकायिकनी
उ० पृथिवीका-
यिकमा उत्पत्ति

६. जो ते पृथिवीकायिक जघन्यकाळनी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थाय तो ते जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तनी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थाय. ए प्रमाणे वधी वक्तव्यना कहेवी (२).

पृथिवीकायिकनी
उ० पृथिवीका-
यिकमा उत्पत्ति

७. जो ते पृथिवीकायिक उत्कृष्ट काळनी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थाय तो ते जघन्य अने उत्कृष्ट वावीश हजार वर्षनी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकमां उत्पन्न थाय. वाकी वधुं अनुबंध सुधी पूर्वे कत्ता प्रमाणे जाणवुं. पण विधेप ए के जघन्य एक, वे के त्रण अने उत्कृष्ट संख्याता के असंख्याता उत्पन्न थाय छे. भवनी अपेक्षाए जघन्य वे भव अने उत्कृष्ट *आठ भव तथा काळ-नी अपेक्षाए जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक वावीश हजार वर्ष अने उत्कृष्ट एक लाखने छोतेर हजार (१७६०००) वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (३).

* ७ जे संवेवमा वे पक्षमाना कोड पण पक्षमा उत्कृष्ट स्थिति होय ला वधारेमा वधारे आठ भवनी कायस्थिति होय छे अने ते सिवाय वीजे असंख्यात भवो जाणवा तेथी वावीश हजारने आठे गुणता एक लाख अने छोतेर हजार वर्ष थाय छे

८. सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्टितीओ जाओ, सो चेव पढमिल्लओ गमओ भाणियव्वो । नवरं लेस्साओ तिन्नि । ठिती जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । अप्पसत्था अज्झवसाणा । अणुबंधो जहा ठिती । सेसं तं चेव ४ ।

९. सो चेव जहन्नकालट्टितिएसु उववन्नो स चेव चउत्थगमगवत्तच्चया भाणियव्वो ५ ।

१०. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववन्नो, एस चेव वत्तच्चया । नवरं जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा, जाव—भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ठ भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहन्नेणं वावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमम्भहियाइं, उक्कोसेणं अट्ठासीइं वाससहस्साइं चउहिं अंतोमुहुत्तेहिं अम्भहियाइं—एवतियं ६ ।

११. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्टितीओ जाओ, एवं तइयगमगसरिसो निरवत्तेसो भाणियव्वो । नवरं अप्पणा से ठिई जहन्नेणं वावीसं वाससहस्साइं, उक्कोसेण वि वावीसं वाससहस्साइं ७ ।

१२. सो चेव जहन्नकालट्टितीएसु उववन्नो जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । एवं जहा सत्तमगमगो जाव—‘भवादेसो’ । कालादेसेणं जहन्नेणं वावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमम्भहियाइं, उक्कोसेणं अट्ठासीइं वाससहस्साइं चउहिं अंतोमुहुत्तेहिं अम्भहियाइं—एवतियं ८ ।

१३. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववन्नो जहन्नेणं वावीसंवाससहस्सट्टितीएसु, उक्कोसेण वि वावीसवाससहस्सट्टितीएसु, एस चेव सत्तमगमगवत्तच्चया भाणियव्वो जाव—‘भवादेसो’त्ति । कालादेसेणं जहन्नेणं चोयालीसं वाससहस्साइं, उक्कोसेणं छावत्तरिवाससहस्सुत्तरं सयसहस्सं—एवतियं ९ ।

१४. [प्र०] जइ आउक्काइयणं गिंदियतिरिक्खजोणियहिंतो उववज्जंति किं सुहुमआउ०, वादरआउ० । [उ०] एवं चउक्कओ भेदो भाणियव्वो जहा पुढविक्काइयाणं ।

१५. [प्र०] आउक्काइए णं भंते ! जे भविए पुढविक्काइएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवइकालट्टितीएसु उववजेज्जा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तट्टितीएसु, उक्कोसेणं वावीसंवाससहस्सट्टितिएसु उववजेज्जा । एवं पुढविक्काइयग-

८. जो ते पृथिवीकायिक पोते जघन्य काल्नी स्थितिवाळो होय अने पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थाय तो ते सबंधे पूर्वोक्त प्रथम गमक कहेवो. विशेष ए के अर्हा त्रण लेख्याओ होय छे. स्थिति जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तनी होय छे. अध्यवसायो अप्रशस्त होय छे. अनुबंध स्थिति समान जाणवो. वाकी वर्षुं पूर्वें कक्षा प्रमाणे कहेवुं (४).

९. जो ते पृथिवीकायिक जघन्य काल्नी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थाय तो तेने पूर्वोक्त चोया गमकमां कहेली वक्तव्य कहेवी (५).

१०. जो ते (जघन्य स्थितिवाळो) पृथिवीकायिक उत्कृष्ट काल्नी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थाय तो ते सबंधे ए ज वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के जघन्य एक, वे अने त्रण अने उत्कृष्ट संख्याता के असख्याता उत्पन्न थाय. यावत्—भवादेशथी जघन्य वे भव अने उत्कृष्टथी आठ भव तथा काल्नी अपेक्षाए जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक वावीश हजार वर्ष अने उत्कृष्टथी चार अन्तर्मुहूर्त अधिक अठ्ठाशी हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (६).

११. जो ते पोते उत्कृष्ट काल्नी स्थितिवाळो होय तो तेने ए प्रमाणे त्रीजा गमकना समान आखो गमक कहेवो. पण विशेष ए के तेनी पोतानी स्थिति जघन्य अने उत्कृष्ट वावीश हजार वर्षनी होय छे (७).

१२. जो ते जीव जघन्यकाल्नी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थाय, तो ते जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तनी स्थितिवाळामा उत्पन्न थाय—ए प्रमाणे अर्हा सातमा गमकनी वक्तव्यता यावत्—भवादेश सुधी कहेवी. कालादेशथी जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक वावीश हजार वर्ष अने उत्कृष्ट चार अन्तर्मुहूर्त अधिक अठ्ठाशी हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (८).

१३. जो ते जीव उत्कृष्ट काल्नी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थाय तो जघन्य अने उत्कृष्ट वावीश हजार वर्षनी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थाय. अर्हा वधी सप्तम गमकनी वक्तव्यता यावत्—भवादेश सुधी कहेवी. कालादेशथी जघन्य चुम्बालीश हजार वर्ष अने उत्कृष्ट एक लाखने छोतेर हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (९).

१४. [प्र०] जो ते (पृथिवीकायिक) अप्कायिक एकेन्द्रिय तिर्यच्योनिकथी आधी उत्पन्न थाय तो शुं सूक्ष्म अप्कायिकथी के वादर अप्कायिकथी आधी उत्पन्न थाय—इत्यादि पृथिवीकायिकनी पेठे सूक्ष्म, वादर, पर्याप्ता अने अपर्याप्ता—ए चार भेद कहेवा.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! जे अप्कायिक पृथिवीकायिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काल्नी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकमां उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट वावीश हजार वर्षनी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकमां उत्पन्न थाय.

मगसरिसा नव गमगा भाणियद्या ९ । नवरं थियुर्गावदुन्डिण । टिती जहनेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साइं । एवं अणुवंधो वि । एवं तिसु वि गमपसु । टिती संवेहो तइयच्छट्टसत्तमट्टमणघमगमेसु—मवादेसेणं जहनेणं वो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं थट्ट भवग्गहणाइं, सेसेसु चउसु गमपसु जहनेणं वो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं असंगेज्जाइं भवग्गहणाइं । ततियगमप कालादेसेणं जहनेणं वावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं, उक्कोसेणं सोलमुत्तरं वाससयसहस्सं—एवतियं० । छट्टे गमप कालादेसेणं जहनेणं वावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं, उक्कोसेणं अट्टासीतिं वाससहस्साइं चउहिं अंतोमुहुत्तेहिं अम्महियाइं—एवतियं० । सत्तमे गमप कालादेसेणं जहनेणं सत्त वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं, उक्कोसेणं सोलमुत्तरं वाससयसहस्सं—एवतियं० । अट्टमे गमप कालादेसेणं जहनेणं सत्त वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं, उक्कोसेणं अट्टावीसं वाससहस्साइं चउहिं अंतोमुहुत्तेहिं अम्महियाइं—एवतियं० । णवमे गमप भवादेसेणं जहनेणं वो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं थट्ट भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहनेणं णवमेणं पक्कणतीसं वाससहस्साइं, उक्कोसेणं सोलमुत्तरं वाससयसहस्सं—एवतियं० । एवं णवसु वि गमपसु आउक्काइयट्टिइं जाणियद्या ९ ।

१६. [प्र०] जइ तेउक्काइयट्टिइं उववजंति० ? [उ०] तेउक्काइयाण वि पस चैव वचन्या । नवरं नवसु वि गमपसु तिचि छेस्साओ । तेउक्काइया णं सुइकलावसंठिया । टिइं जाणियद्या । तइयगमप कालादेसेणं जहनेणं वावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं उक्कोसेणं अट्टासीतिं वाससहस्साइं वारसहिं राइंठिणहिं अम्महियाइं—एवतियं० । एवं संवेहो उवजुंजिऊण भाणियद्यो ।

१७. [प्र०] जइ वाउक्काइयट्टिइं उववजंति० ? [उ०] वाउक्काइयाण वि एवं चैव णव गमगा जहेव तेउक्काइयाणं । णवरं पडागासंठिया पक्कत्ता । संवेहो वाससहस्सेहिं कायजो । तइयगमप कालादेसेणं जहनेणं वावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं, उक्कोसेणं एणं वाससयसहस्सं । एवं संवेहो उवजुंजिऊण भाणियद्यो ।

१८. [प्र०] जइ वणस्सइकाइयट्टिइं उववजंति० ? [उ०] वणस्सइकाइयाणं आउक्काइयगमगसरिसा णव गमगा भाणियद्या । नवरं णाणासंठिया । सरीरोगाहणा—पढमपसु पच्छिहपसु य तिसु गमपसु जहनेणं अंगुलस्स असंखेज्जइमागं,

ए प्रमाणे पृथिवीकायिकनी पेटे अहि अष्काय संवेधे णव नवे गमको कहेवा. णव विशेष ए के अष्कायिकना शरीरुं संस्थान स्तियुक्—पाणीना परपोटाना आकारे छे. स्थिति जवन्यथी अन्तर्मुहूर्त अने उक्कट्ट सात हजार वर्षेनां होय छे. अनुबंध णव ए प्रमाणे जाणवो. ए रीते त्रणे गममां जाणवुं. त्रीजा, छट्टा, सातमा, आठमा अने नवमा गममा संवेध भवादेशथी जवन्य वे भव अने उक्कट्ट आठ भव होय छे, तथा वाक्कीना चारे गममा जवन्य वे भव अने उक्कट्ट असंख्याता भवो होय छे. त्रीजा गममां काळादेशथी जवन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक वाक्कीना हजार वर्ष अने उक्कट्टथी एक लाख अने सोल हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे. छट्टा गममा काळादेशथी जवन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक वाक्कीना हजार वर्ष अने उक्कट्ट चार अन्तर्मुहूर्त अधिक अठ्याशी हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे. सातमा गममां काळादेशथी जवन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक सात हजार वर्ष अने उक्कट्ट एक लाखने सोळ हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे. आठमा गममा काळादेशथी जवन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक सात हजार वर्ष अने उक्कट्ट अठ्याशी हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे. तथा नवमा गममा भवादेशथी जवन्य वे भव अने उक्कट्ट आठ भवो, तथा काळादेशथी जवन्य ओगणत्रीजा हजार वर्ष अने उक्कट्ट एक लाख सोळ हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे. ए प्रमाणे नवे गमोना अष्कायिकनी स्थिति जाणवी (९).

१६. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते तेउक्कायथी (अग्निऋषिकथी) आथी उपजे तो तेउक्कायिकने णव एव वक्तव्यता कहेवी. णव विशेष ए के नवे गममा त्रण लेख्याओ कहेवी. तेउक्कायतुं संस्थान सोयना समूहना आकारे होय छे, अने स्थिति (त्रण अहोरात्रनी) जाणवी. त्रीजा गममा काळादेशथी जवन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक वाक्कीना हजार वर्ष अने उक्कट्ट वार अहोरात्र (रात्रिदिवस) अधिक अठ्याशी हजार वर्ष एटलो काळ—यावत्—गमनागमन करे. ए प्रमाणे संवेध व्यान राखीने कहेवो (९).

१७. जो तेओ वायुकायिकथी आथी उत्पन्न थाय तो तेने तेजस्कायिकनी पेटे नवे गमको कहेवा. णव विशेष ए के वायुकायिकनी शरीरोना आकार (संस्थान) ध्वजाना आकारे होय छे. संवेध हजारो वर्षवडे करवो. त्रीजा गममा काळादेशथी जवन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक वाक्कीना हजार वर्ष अने उक्कट्ट एक लाख वर्ष—ए प्रमाणे संवेध विचारीने कहेवो.

१८. [प्र०] हे भगवन् ! जो तेओ वनस्पतिकायिकथी आथी उत्पन्न थाय तो—इत्यादि वनस्पतिकायिकना नवे गमको अष्कायिकनी पेटे कहेवा. णव विशेष ए के वनस्पतिना शरीरो अनेक प्रकारना संस्थान—आकृतिवाळा होय छे. पहला अने छेछा त्रणे गमकोना शरीरुं प्रमाणे जवन्य अंगुलना असंख्यातमा भाग जेटहुं अने उक्कट्ट एक हजार वोजन करता अधिक होय छे. मध्यमना त्रणे

वेज-ऋषिकनी
पृथिवीकायिकनी
वक्तव्य

वायुकायिकनी पृथिवीकायिकनी
वक्तव्य

वनस्पतिकायिकनी
पृथिवीकायिकनी
वक्तव्य

उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसहस्सं, मज्झिज्जपसु तिसु तहेव जहा पुढविकाइयाणं । संवेहो ठिती य जाणियघा । तइयगमे काला-
देसेणं जहन्नेणं वावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमन्महियाइं, उक्कोसेणं अट्टावीसुत्तरं वाससयसहस्सं—एवतियं० । एवं
संवेहो उवज्जिऊण भाणियघो ९ ।

१९. [प्र०] जइ वेइदिपहिंतो उववज्जंति किं पज्जत्तवेइदिपहिंतो उववज्जंति, अपज्जत्तवेइदिपहिंतो० ? [उ०] गोयमा !
पज्जत्तवेइदिपहिंतो उववज्जंति, अपज्जत्तवेइदिपहिंतो वि उववज्जंति ।

२०. [प्र०] वेइदिप णं भंते ! जे भविण पुढविकाइएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवतिकाल० ? [उ०] गोयमा !
जहन्नेणं अंतोमुहुत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं वावीसंवाससहस्सद्वितीएसु ।

२१. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं० ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं पक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा
वा असंखेज्जा वा उववज्जंति । छेवट्टसंघयणी । ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं वारस जोयणाइं ।
हुंडसंठिया । तिन्नि लेसाओ । सम्मदिट्ठी वि, मिच्छादिट्ठी वि, नो सम्मामिच्छादिट्ठी । दो णाणा, दो अज्ञाणा नियमं । णो
मणजोगी, वयजोगी वि कायजोगी वि । उवओगो दुविहो वि । चत्तारि सन्नाओ । चत्तारि कसाया । दो इंदिया पन्नत्ता, तं
जहा—जिंमिदिप य फासिदिप य । तिन्नि समुग्घाया । सेसं जहा पुढविकाइयाणं । णवरं ठिती जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्को-
सेणं वारस संवच्छराइं । एवं अणुवंधो वि, सेसं तं चेव । भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं भव-
ग्गहणाइं, कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ताइं उक्कोसेणं संखेज्जं कालं—एवतियं० १ ।

२२. सो चेव जहन्नकालद्वितीएसु उववन्नो एस चेव वत्तघया सद्वा २ ।

२३. सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववन्नो एस चेव वेदियस्स लद्धी । नवरं भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं,
उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं । कालादेसेणं जहन्नेणं वावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमन्महियाइं, उक्कोसेणं अट्टासीति वासस-
हस्साइं अडयालीसाए संवच्छरेहिं अन्महियाइं—एवतियं० ३ ।

गममा पृथिवीकायिकोनी पेटे जाणवुं. सवेध अने स्थिति (भिन्न) जाणवी. त्रीजा गममां काळनी अपेक्षाए जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक
वावीश हजार वर्ष अने उत्कृष्ट एक लाखने अठ्याशी हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे. ए प्रमाणे सवेध उपयोग पूर्वक
कहेवो (९).

१९. [प्र०] जो तेओ वेइन्द्रियथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं पर्याता वेइन्द्रियथी के अपर्याता वेइन्द्रियथी आवी उत्पन्न थाय ?
[उ०] हे गौतम ! पर्यात अने अपर्यात वन्ने प्रकारना वेइन्द्रियोथी आवी उत्पन्न थाय.

वेइन्द्रिय
कायिकमां

२० [प्र०] हे भगवन् ! जे वेइन्द्रिय, पृथिवीकायिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते केटला काळनी स्थितिवाळा पृथिवीकायि-
कमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तनी स्थितिवाळा अने उत्कृष्ट वावीश हजार वर्षनी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकमां
उत्पन्न थाय.

२१. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य एक, वे के त्रण, अने उत्कृष्ट
सख्याता के असख्याता उत्पन्न थाय. तेओ छेवट्ट सघयणवाळा होय छे. तेओना शरीरुं प्रमाण जघन्य अगुळना असंख्यातमा भाग
प्रमाण अने उत्कृष्ट वार योजन होय छे, तेओना शरीर हुंडकसस्थानवाळा होय छे. तेओने त्रण लेइयाओ होय छे तेओ सम्यग्दृष्टि अने
मिथ्यादृष्टि होय छे, पण मिश्रदृष्टि होता नथी. तेओने वे ज्ञान अने वे अज्ञान अवश्य होय छे. तेओ मनोयोगी नथी, पण वचनयोगी
अने काययोगी होय छे. उपयोग वन्ने प्रकारनो होय छे. चार संज्ञाओ, चार कपायो, वे इन्द्रियो—जीह्वेन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रिय अने त्रण
समुद्घातो होय छे. वाकी वधुं पृथिवीकायिकोनी पेटे कहेवुं. पण विशेष ए के स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्तनी अने उत्कृष्ट वार वर्षनी
होय छे. ए प्रमाणे अनुवंध पण जाणवो. वाकी वधुं पूर्वं कख्या प्रमाणे जाणवुं. भवादेशथी जघन्य वे भव अने उत्कृष्ट सख्याता भवो
तथा काळादेशथी जघन्य वे अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट सख्यातो काळ—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे.

परिमा

२२. जो ते वेइन्द्रिय जघन्य काळनी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थाय तो तेने वधी ए ज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी (२).

वेइन्द्रियनी
स्थिति
उत्पत्ति
वेइन्द्रियनी
स्थिति
उत्पत्ति

२३. जो ते वेइन्द्रिय, उत्कृष्टकाळनी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थाय तो तेने पण आ ज वक्तव्यता कहेवी. विशेष
एके भवादेशथी जघन्य वे भव अने उत्कृष्ट आठ भव, तथा कालादेशथी जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक वावीश हजार वर्ष अने उत्कृष्ट अड-
तालीश वर्ष अधिक अठ्याशी हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (३).

२४. सो चैव अष्पणा जहन्नकालद्वितीयो जायो, तस्स वि एस चैव वत्तघया तिसु वि गमपसु । नवरं इसाइं सत्त णाणत्ताइं—१ सरीरोगाहणा जहा पुढविकाइयाणं । २ णो सम्मदिट्ठी, मिच्छदिट्ठी, णो सम्मामिच्छादिट्ठी । ३ दो अन्नाणा णियमं । ४ णो मणजोगी, णो वयजोगी, कायजोगी । ५ टिती जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । ६ अज्जयसाणा अप-सत्था । ७ अणुबंधो जहा टिती । संवेहो तहेव आदिहेसु दोसु गमपसु, तइयगमप भवादेसो तहेव अट्ट भवग्गहणाइं । कालादेसेणं जहन्नेणं वावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं, उक्कोसेणं अट्टासीति वाससहस्साइं चउहिं अंतोमुहुत्तेहिं अम्महियाइं ६ ।

२५. सो चैव अष्पणा उक्कोसकालद्वितीयो जायो, एयस्स वि ओहियगमगसरिस्ता तिन्नि गमगा भाणियघा । नवरं तिसु वि गमपसु टिती जहन्नेणं वारस संवच्छराइं, उक्कोसेण वि वारस संवच्छराइं । एवं अणुबंधो वि । भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं । कालादेसेणं उवजुंजिऊण भाणियघं, जाव-णवमे गमप जहन्नेणं वावीसं वास-सहस्साइं वारसाहिं संवच्छरेहिं अम्महियाइं, उक्कोसेणं अट्टासीति वाससहस्साइं अडयालीसाप संवच्छरेहिं अम्महियाइं—एवतियं ९ ।

२६. [प्र०] जइ तेइदिपरहितो उववज्जंति०? [उ०] एवं चैव नव गमगा भाणियघा, नवरं आदिहेसु तिसु वि गमपसु सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं तिन्नि गाउयाइं । तिन्नि इंदियाइं । टिती जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पगूणपन्नं राइंदियाइं । तइयगमप कालादेसेणं जहन्नेणं वावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं, उक्कोसेणं अट्टा-सीति वाससहस्साइं छन्नउइं राइंदियसयमम्महियाइं—एवतियं० । मज्जिमा तिन्नि गमगा तहेव, पच्छिमा वि तिन्नि गमगा तहेव । नवरं टिती जहन्नेणं पगूणपन्नं राइंदियाइं, उक्कोसेण वि पगूणपन्नं राइंदियाइं । संवेहो उवजुंजिऊण भाणियघो ९ ।

२७. [प्र०] जइ चउरिदिपरहितो उववज्जंति० ? [उ०] एवं चैव चउरिंदियाण वि नव गमगा भाणियघा । नवरं एतेसु

२४. जो ते वेइन्द्रिय जघन्यकालनी स्थितिवाळो होय अने ते पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थाय तो तेने पण त्रणे गमकोमां पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण अहिं आ सात विशेषता छे—? शरीरनुं प्रमाण पृथिवीकायिकोनी पेटे (अगुलना अनस्यतामा भागनुं) जाणवुं, २ सम्यग्दृष्टि अने मिश्रदृष्टि नथी पण मिध्यादृष्टि छे, ३ तेने अवश्य वे अज्ञान होय छे, ४ मनयोग के वचनयोग नथी, पण काययोग छे, ५ स्थिति जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तनी होय छे, ६ अव्यवसायो अप्रशस्त होय छे. ७ अनुबंध स्थितिनी पेटे जाणवो. तथा वीजा त्रिकाना प्रयमना वे गमकोमा संवेध पण ते ज प्रमाणे जाणवो. त्रीजा गमकोमा भवादेश ते ज प्रमाणे आठ भव सुवीनी जाणवो. अने कालादेशयी जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक वावीश हजार वर्ष अने उत्कृष्ट चार अन्तर्मुहूर्त अधिक अठ्याशी हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (४-५-६).

२५. जो ते वेइन्द्रिय पोते उत्कृष्टकालनी स्थितिवाळो होय अने पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थाय तेने औधिक गमक समान त्रण गमक कहेवा. पण विशेष ए के ए त्रण गमोमा स्थिति जघन्य अने उत्कृष्ट वार वर्षनी होय छे, अनुबंध पण ए ज प्रमाणे छे. भवादेशयी जघन्य वे भव अने उत्कृष्ट आठ भव तथा कालादेशयी विचारिने संवेध कहेवो. यावत्—नवमा गममां जघन्य वार वर्ष अधिक वावीश हजार वर्ष, अने उत्कृष्ट अडतालीश वर्ष अधिक अठ्याशी हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (९).

२६. जो ते पृथिवीकायिको तेइन्द्रियोयी आवी उत्पन्न थाय तो तेने पण ए प्रमाणे नव गमको कहेवा. पण विशेष ए के प्रथ-मना त्रणे गमकोमा शरीरनु प्रमाण जघन्य अगुलना अस्यतामा भागनुं अने उत्कृष्ट त्रण गाउनुं होय छे. त्रण इन्द्रियो होय छे. स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट ओगणपचास रात्रिदिवसनी छे. त्रीजा गमकोमा कालनी अपेक्षाए जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक वावीश हजार वर्ष अने उत्कृष्ट एकसो छनुं रात्रिदिवस अधिक अठ्याशी हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे. वच्चेना त्रण गमको पण ते ज प्रमाणे जाणवा. छेळा त्रण गम पण एम ज जाणवा. पण विशेष ए के स्थिति जघन्य अने उत्कृष्ट ओगणपचास रात्रिदिवसनी छे अने संवेध विचारिने कहेवो (९).

२७. जो ते पृथिवीकायिको चउरिन्द्रिययी आवी उपजे तो तेने पण ए ज प्रमाणे नवे गमो कहेवा. परन्तु आ नीचेनी विशेषता

२४ * अहिं वेइन्द्रिय त्रिण स्थितिवाळो होवाथी तेनु शरीर अगुलना अव्यवसायो भागनुं जाणवु वळी तेओनी जघन्य स्थिति होवाथी तेमा मास्सा-दन सम्यग्दृष्टि उत्पन्न थतो नथी, तेथी एा सम्यग्दृष्टि नथी. तेम मिश्रदृष्टि पण नथी केमके मास्सादन सम्यग्दृष्टि अजघन्य स्थितिवाळो वेइन्द्रियोमा उत्पन्न थाय छे

† अहिं वे अज्ञान वला छे अने पूर्वं ज्ञान अने अज्ञान वने कहेला छे योगद्वारमा जघन्य स्थितिवाळो होवाथी तेओने वचन योग होतो नथी, अने पूर्वना गमकोमा वचन योग पण कहेलो छे स्थिति अन्तर्मुहूर्तनी जाणवी, अने पूर्वना गममा वार वरसनी कही छे. पूर्वं प्रशस्त अने अप्रशस्त—एम वने प्रचारना अव्यवसायो होय छे, पण अहिं अप्रशस्त अव्यवसायो होय छे. अनुबन्ध तो स्थिति प्रमाणे जाणवो.

जघन्य० वेइन्द्रियनी
पृथिवीकायिकमा
उत्पत्ति

उत्कृष्ट० वेइन्द्रियनी
पृथिवीकायिकमा
उत्पत्ति

तेइन्द्रियनी पृथिवी-
कायिकमा उत्पत्ति

चउरिन्द्रियनी पृथि-
वी कायिकमा
उत्पत्ति

चेव टाणेषु नाणत्ता भाणियद्वा । सरीरोगाहणा जहन्नेण अंगुलस्स असंखेज्जभागं, उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाइं । ठिती जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण य छम्मासा । एवं अणुवंधो वि । चत्तारि इंदियाइं, सेसं तं चेव जाव—नवमगमप 'कालादेसेणं जहन्नेणं वा-
वीसं वाससहस्साइं छहिं मासेहिं अब्भहियाइं, उक्कोसेणं अट्टासीति वाससहस्साइं चउवीसाप मासेहिं अब्भहियाइं'—एवतियं० ९ ।

२८. [प्र०] जइ पंचिदियतिरिक्खजोणिण्हितो उववज्जंति किं सन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिण्हितो उववज्जंति, अस-
न्निपंचिदियतिरिक्खजोणिणं ? [उ०] गोयमा ! सन्निपंचिदियं, असन्निपंचिदियं ।

२९. [प्र०] जइ असन्निपंचिदियं किं जलचरोहिंतो उववज्जंति जाव—किं पज्जत्तण्हितो उववज्जंति, अपज्जत्तण्हितो उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! जाव—पज्जत्तण्हितो वि उववज्जंति, अपज्जत्तण्हितो वि उववज्जंति ।

३०. [प्र०] असन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिणं णं भंते ! जे भविप पुढविक्काइएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवतिं ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साइं ।

३१. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा० [उ०] एवं जहेव वेइंदियस्स ओहियगमप लद्धी तहेव । नवरं सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जभागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं । पंचिदिया । ठिती अणुवंधो (य) जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुघकोडी । सेसं तं चेव । भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं । कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं चत्तारि पुघकोडीओ अट्टासीतीए वाससहस्सेहिं अब्भहियाओ—एवतियं० । णवसु वि गमपसु कायसंवेहो—भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं । कालादेसेणं उवज्जिऊण भाणियद्वं । नवरं मज्झिमपसु तिसु गमपसु जहेव वेइंदियस्स, पच्छिल्लपसु तिसु गमपसु जहा एतस्स चेव पढमगमपसु । नवरं ठिती अणुवंधो (य) जहन्नेणं पुघकोडी, उक्कोसेणं वि पुघकोडी, सेसं तं चेव जाव—नवमगमपसु—'जहन्नेणं पुघकोडी वावीसाए वाससहस्सेहिं अब्भहिया, उक्कोसेणं चत्तारि पुघकोडीओ अट्टासीतीए वाससहस्सेहिं अब्भहियाओ'—एवतियं कालं सेवेजा ९ ।

३२. [प्र०] जइ सन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिण्हितो उववज्जंति किं संखेज्जवासाउयं, असंखेज्जवासाउयं ? [उ०] गोयमा ! संखेज्जवासाउयं, णो असंखेज्जवासाउयं ।

जाणवी—'शरीरनी अवगाहना जघन्य अंगुलनो असल्यातमो भाग अने उत्कृष्ट चार गाउनी होय छे. स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट छ मासनी होय छे. अनुबंध पण एमज जाणवो. इन्द्रियो चार होय छे.' वाकी वधुं तेज प्रमाणे जाणवुं, यावत्—नवमा गमकमा काळादेशथी जघन्य छ मास अधिक वावीश हजार वर्ष अने उत्कृष्ट चोवीश मास अधिक अठ्याशी हजार वर्ष—एटलो काळ सेवे—यावत्—गमनागमन करे (९).

२८. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते पृथिवीकायिक पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय, तो शुं सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयो-
निकोथी आवी उत्पन्न थाय के असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! संज्ञी अने असंज्ञी वज्जे प्रकारना पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय.

पंचेन्द्रिय तिर्यचनी
पृथिवीकायिकमा
उत्पत्ति.

२९. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं जलचरोथी आवी उत्पन्न थाय के यावत्—पर्याप्ता के अपर्याप्ताथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! पर्याप्ता अने यावत्—अपर्याप्ताथी पण आवी उत्पन्न थाय.

असंज्ञी तिर्यचनी
पृथिवीकायिकमा
उत्पत्ति.

३०. [प्र०] हे भगवन् ! असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक, जे पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते केटल काळनी स्थिति-
वाळा पृथिवीकायिकोमां उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट वावीश हजार वर्षनी स्थितिवाळा पृथिवीका-
यिकोमा उत्पन्न थाय.

परिमाणादि-

३१. [प्र०] हे भगवन् ! ते असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचो एक समये केटल उत्पन्न थाय—इत्यादि जेम वेइन्द्रियना औषिक—सामान्य गमकमा जे वक्तव्यता कही छे ते वक्तव्यता अहिं कहेवी. पण विशेष ए के अहिं शरीरनी जघन्य अवगाहना अंगुलनो असल्यातमो भाग अने उत्कृष्ट एक हजार योजन जेटली छे. तेओने पांच इन्द्रियो छे. स्थिति अने अनुबंध जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट पूर्वकोटीनो छे. वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणवुं. भवनी अपेक्षाए जघन्य वे भव अने उत्कृष्ट आठ भव तथा काळनी अपेक्षाए जघन्य वे अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट अठ्याशी हजार वर्ष अधिक चार पूर्वकोटी—एटलो काळ यावत्—गतिआगति करे. नवे गमकोमा भवनी अपेक्षाए जघन्य वे भव अने उत्कृष्ट आठ भव होय छे. अने काळनी अपेक्षाए उपयोगपूर्वक कायसवेध कहेवो. पण विशेष एके वच्चेना त्रणे गमकोमा वेइन्द्रियना वच्चेना गमको पेठे जाणवुं अने छेला त्रणे गमकोमां आना प्रथमना त्रण गमकोनी पेठे समजवुं. पण विशेष ए के स्थिति अने अनुबंध जघन्य तथा उत्कृष्ट पूर्वकोटी होय छे. वाकी वधुं पूर्वं प्रमाणे जाणवुं. यावत्—नवमा गमकमा जघन्य पूर्वकोटी अधिक वावीश हजार वर्ष अने उत्कृष्ट चार पूर्वकोटी अधिक अठ्याशी हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गतिआगति करे (९).

३२. [प्र०] जो ते पृथिवीकायिक सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं सख्याता वर्षना आयुपवाळा के असं-
ख्याता वर्षना आयुपवाळा सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते सख्याता वर्षना आयुपवाळा तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय पण असख्याता वर्षना आयुपवाळा तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न न थाय.

सज्ञी तिर्यचनी पृथि-
वीकायिकमा
उत्पत्ति.

૨૪. સો ચેવ અપ્પણા જહ્નકાલટ્ટિતીઓ જાઓ, તસ્સ વિ एस चैव वत्तघ्या तिसु वि गमएसु । नवरं इमाइं सत्त पाणत्ताइं—? सरीरोगाहणा जहा पुढविकाइयाणं । २ णो सम्मदिट्ठी, मिच्छदिट्ठी, णो सम्मामिच्छादिट्ठी । ३ दो अत्ताणा णियमं । ४ णो मणजोगी, णो वयजोगी, कायजोगी । ५ टिती जहन्नेण अंतोमुहत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहत्तं । ६ अज्जवसाणा अप-सत्था । ७ अणुबंधो जहा टिती । संवेहो तहेव आदिह्हेसु दोसु गमएसु, तदयगमप भवादेसो तहेव अट्ट भवग्गहणाइं । कालादेसेणं जहन्नेणं वाचीसं वाससहस्साइं अंतोमुहत्तमव्महियाइं, उक्कोसेणं अट्टासीति वाससहस्साइं चउरिं अंतोमुहत्तेहिं अन्महियाइं ६ ।

૨૫. સો ચેવ અપ્પણા ઉક્કોસકાલટ્ટિતીઓ જાઓ, एसस्स वि ओहियगमगरिसा तिच्चि गमगा भाणियघा । नवरं तिसु वि गमएसु टिती जहन्नेणं वारस संवच्छराइं, उक्कोसेण वि वारस संवच्छराइं । एवं अणुबंधो वि । भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं । कालादेसेणं उवजुंजिऊण भाणियघं, जाच-णयमे गमप जहन्नेणं वाचीसं वास-सहस्साइं वारसहिं संवच्छरेहिं अन्महियाइं, उक्कोसेणं अट्टासीति वाससहस्साइं अडवालीसाए संवच्छरेहिं अन्महियाइं—एवतियं ० ९ ।

૨૬. [પ્ર૦] જહ તેહંદિપાઈતો ઉવવજ્ઞંતિં? [ઉ૦] एवं चैव नव गमगा भाणियघा, नवरं आदिह्हेसु तिसु वि गमएसु सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जइमागं, उक्कोसेणं तिच्चि गाउयाइं । तिच्चि इंदियाइं । टिती जहन्नेणं अंतोमुहत्तं, उक्कोसेणं एगूणपन्नं राइंदियाइं । तदयगमप कालादेसेणं जहन्नेणं वाचीसं वाससहस्साइं अंतोमुहत्तमव्महियाइं, उक्कोसेणं अट्टा-सीति वाससहस्साइं छउउउं राइंदियसयमव्महियाइं—एवतियं ० । मज्झिमा तिच्चि गमगा तहेव, पच्छिमा वि तिच्चि गमगा तहेव । नवरं टिती जहन्नेणं एगूणपन्नं राइंदियाइं, उक्कोसेण वि एगूणपन्नं राइंदियाइं । संवेहो उवजुंजिऊण भाणियघो ९ ।

૨૭. [પ્ર૦] જહ ચરિંદિપાઈતો ઉવવજ્ઞંતિં? [ઉ૦] एवं चैव चउरिंदियाण वि नव गमगा भाणियघा । नवरं एतेसु

जघन्य० वेइन्द्रियनी
पृथिवीकायिकमा
उत्पत्ति

૨૪. જો તે વેઇન્દ્રિય જઘન્યકાલની સ્થિતિવાલો હોય અને તે પૃથિવીકાયિકમા ઉત્પન્ન થાય તો તેને પળ ત્રણે ગમકોમાં પૂર્વોક્ત વક્તવ્યતા કહેવી. પળ અહિં આ સાત વિશેષતા છે—૧ શરીરનું પ્રમાણ પૃથિવીકાયિકોની પેટે (અંગુલના અમર્યાતમા ભાગતું) જાણવું, ૨ સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિશ્રદષ્ટિ નથી પણ મિધ્યાદષ્ટિ છે, ૩ તેને અવચ્ચે વે અજ્ઞાન હોય છે, ૪ મનયોગ કે વચનયોગ નથી, પણ કાયયોગ છે, ૫ સ્થિતિ જઘન્ય અને ઉત્ક્રુષ્ટ અન્તર્મુહૂર્તની હોય છે, ૬ અવ્યવસાયો અપ્રગસ્ત હોય છે. ૭ અનુવંધ સ્થિતિની પેટે જાણવો. તથા વીજા ત્રિકના પ્રથમના વે ગમકોમાં સંવેધ પળ તે જ પ્રમાણે જાણવો. ત્રીજા ગમકમા ભવાદેશ તે જ પ્રમાણે આઠ ભવ સુધીનો જાણવો. અને કાલાદેશથી જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત અધિક વાવીશ હજાર વર્ષ અને ઉત્ક્રુષ્ટ ચાર અન્તર્મુહૂર્ત અધિક અઠ્યાશી હજાર વર્ષ—૯ટલો કાલ યાવત્—ગમનાગમન કરે (૪-૫-૬).

उत्कृष्ट० वेइन्द्रियनी
पृथिवीकायिकमा
उत्पत्ति

૨૫. જો તે વેઇન્દ્રિય પોતે ઉત્ક્રુષ્ટકાલની સ્થિતિવાલો હોય અને પૃથિવીકાયિકમા ઉત્પન્ન થાય તેને ઔચિક ગમક સમાન ત્રણ ગમક કહેવા. પળ વિશેષ એ કે એ ત્રણ ગમોમાં સ્થિતિ જઘન્ય અને ઉત્ક્રુષ્ટ વાર વર્ષની હોય છે, અનુવંધ પળ એ જ પ્રમાણે છે. ભવાદેશથી જઘન્ય વે ભવ અને ઉત્ક્રુષ્ટ આઠ ભવ તથા કાલાદેશથી વિચારીને સંવેધ કહેવો. યાવત્—નવમા ગમમા જઘન્ય વાર વર્ષ અચિક વાવીશ હજાર વર્ષ, અને ઉત્ક્રુષ્ટ અડતાલીશ વર્ષ અચિક અઠ્યાશી હજાર વર્ષ—૯ટલો કાલ યાવત્—ગમનાગમન કરે (૯).

तेइन्द्रियनी पृथिवी-
कायिकमा उत्पत्ति

૨૬. જો તે પૃથિવીકાયિકો તેઇન્દ્રિયથી આવી ઉત્પન્ન થાય તો તેને પળ એ પ્રમાણે નવ ગમકો કહેવા. પળ વિશેષ એ કે પ્રથ-મના ત્રણે ગમકમા શરીરનું પ્રમાણ જઘન્ય અંગુલના અમર્યાતમા ભાગતું અને ઉત્ક્રુષ્ટ ત્રણ ગાડતું હોય છે. ત્રણ ઇન્દ્રિયો હોય છે. સ્થિતિ જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત અને ઉત્ક્રુષ્ટ ઓગણપચાસ રાત્રિદિવસની છે. ત્રીજા ગમકમા કાલની અપેક્ષાએ જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત અધિક વાવીશ હજાર વર્ષ અને ઉત્ક્રુષ્ટ એકસો ટુનુ રાત્રિદિવસ અધિક અઠ્યાશી હજાર વર્ષ—૯ટલો કાલ યાવત્—ગમનાગમન કરે. વચ્ચેના ત્રણ ગમકો પળ તે જ પ્રમાણે જાણવા. છેલ્લા ત્રણ ગમ પળ એ જ જાણવા. પળ વિશેષ એ કે સ્થિતિ જઘન્ય અને ઉત્ક્રુષ્ટ ઓગણપચાસ રાત્રિદિવસની છે અને સંવેધ વિચારીને કહેવો (૯).

चउरिन्द्रियनी पृथि-
वी कायिकमा
उत्पत्ति

૨૭. જો તે પૃથિવીકાયિકો ચउरिन्द्रियથી આવી ઉપજે તો તેને પળ એ જ પ્રમાણે નવે ગમો કહેવા. પરન્તુ આ નોંચેની વિશેષતા

૨૪ " અહિં વેઈ ઇય કનિઠ મ્થિતિવાલો હોવાથી તેનુ શરીર અંગુલના અમર્યાતમા ભાગતુ જાણતુ વર્કા તેઓની જઘન્ય સ્થિતિ હોવાથી તેમા નાના-વન નમ્યગ્દષ્ટિ ઉત્પન્ન થતો નથી, તેથી ત્વા સમ્યગ્દષ્ટિ નથી તેમ મિ-શ્રદષ્ટિ પણ નથી કેમકે સાસ્તાવન સમ્યગ્દષ્ટિ અજઘન્ય સ્થિતિવાલો વેઇન્દ્રિયોમા ઉત્પન્ન થાય છે

† અહિં વે અજ્ઞાન વ્તા છે અને પૂર્વે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન વચ્ચે નહેલ્ય છે યોગદ્વારમા જઘન્ય સ્થિતિવાલો હોવાથી તેઓને વચન યોગ હોતો નથી, અને પૂર્વના ગમકમા વચન યોગ પણ કહેલો છે સ્થિતિ અન્તર્મુહૂર્તની જાણવી, અને પૂર્વના ગમમા વાર વરનની કહી છે. પૂર્વે પ્રગસ્ત અને અપ્રગસ્ત—એમ વચ્ચે પ્રકારના અધ્યવસાયો હોય છે, પણ અહિં અપ્રગસ્ત અધ્યવસાયો હોય છે. અનુવંધ તો સ્થિતિ પ્રમાણે જાણવો.

चेव ठाणेसु नाणत्ता भाणियद्वा । सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जभागं, उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाइं । ठिती जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण य लम्मासा । एवं अणुवंधो वि । चत्तारि इंदियाइं, सेसं तं चेव जाव—नवमगमए 'कालादेसेणं जहन्नेणं वा—वीसं वाससहस्साइं छहिं मासेहिं अब्भहियाइं, उक्कोसेणं अट्टासीतिं वाससहस्साइं चउवीसाए मासेहिं अब्भहियाइं'—एवतियं० ९ ।

२८. [प्र०] जइ पंचिंदियतिरिक्खजोणिण्हितो उववज्जंति किं सन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिण्हितो उववज्जंति, असन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिण० ? [उ०] गोयमा ! सन्निपंचिंदिय०, असन्निपंचिंदिय० ।

२९. [प्र०] जइ असन्निपंचिंदिय० किं जलचरोहंतो उववज्जंति जाव—किं पज्जत्तएहंतो उववज्जंति, अपज्जत्तएहंतो उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! जाव—पज्जत्तएहंतो वि उववज्जंति, अपज्जत्तएहंतो वि उववज्जंति ।

३०. [प्र०] असन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिणं णं भंते ! जे भविए पुढविकाइएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवति० ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साइं ।

३१. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा० [उ०] एवं जहेव वेइंदियस्स ओहियगमए लद्धी तहेव । नवरं सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जभागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं । पंचिंदिया । ठिती अणुवंधो (य) जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुधकोडी । सेसं तं चेव । भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं । कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं चत्तारि पुधकोडीओ अट्टासीतीए वाससहस्सेहिं अब्भहियाओ—एवतियं० । णवसु वि गमएसु कायसंवेहो—भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं । कालादेसेणं उवज्जुजिऊण भाणियच्चं । नवरं मत्तिम्मएसु तिसु गमएसु जहेव वेइंदियस्स, पच्छिहएसु तिसु गमएसु जहा एतस्स चेव पढमगमएसु । नवरं ठिती अणुवंधो (य) जहन्नेणं पुधकोडी, उक्कोसेणं वि पुधकोडी, सेसं तं चेव जाव—नवमगमएसु—'जहन्नेणं पुधकोडी वावीसाए वाससहस्सेहिं अब्भहिया, उक्कोसेणं चत्तारि पुधकोडीओ अट्टासीतीए वाससहस्सेहिं अब्भहियाओ'—एवतियं कालं सेवेज्जा ९ ।

३२. [प्र०] जइ सन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिण्हितो उववज्जंति किं संखेज्जवासाउय०, असंखेज्जवासाउय० ? [उ०] गोयमा ! संखेज्जवासाउय०, णो असंखेज्जवासाउय० ।

जाणवी—'शरीरनी अवगाहना जघन्य अंगुलनो असंख्यातमो भाग अने उत्कृष्ट चार गाउनी होय छे. स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट छ मासनी होय छे. अनुबंध पण एमज जाणवो. इन्द्रियो चार होय छे.' वाकी वधुं तेज प्रमाणे जाणवुं, यावत्—नवमा गमकमां काळादेशयी जघन्य छ मास अधिक वावीश हजार वर्ष अने उत्कृष्ट चोवीश मास अधिक अठ्याशी हजार वर्ष—एटलो काळ सेवे—यावत्—गमनागमन करे (९).

२८. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते पृथिवीकायिक पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय, तो शुं संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयो-निकोथी आवी उत्पन्न थाय के असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! संज्ञी अने असंज्ञी वने प्रकारना पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय.

पंचेन्द्रिय तिर्य-
पृथिवीकायिकमा
उत्पत्ति.

२९. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं जलचरोथी आवी उत्पन्न थाय के यावत्—पर्याप्ता के अपर्याप्ताथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! पर्याप्ता अने यावत्—अपर्याप्ताथी पण आवी उत्पन्न थाय.

असंज्ञी तिर्यच-
पृथिवीकायिकमा
उत्पत्ति.

३०. [प्र०] हे भगवन् ! असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक, जे पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते केटला काळनी स्थिति-वाळा पृथिवीकायिकोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट वावीश हजार वर्षनी स्थितिवाळा पृथिवीका-यिकोमा उत्पन्न थाय.

परिमाणादि-

३१. [प्र०] हे भगवन् ! ते असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचो एक समये केटला उत्पन्न थाय—इत्यादि जेम वेइन्द्रियना औघिक—सामान्य गमकमा जे वक्तव्यता कही छे ते वक्तव्यता अहिं कहेवी. पण विशेष ए के अहिं शरीरनी जघन्य अवगाहना अंगुलनो असंख्यातमो भाग अने उत्कृष्ट एक हजार योजन जेटली छे. तेओने पाच इन्द्रियो छे. स्थिति अने अनुबंध जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट पूर्वकोटीनो छे. वाकी वधुं पूर्वे कक्षा प्रमाणे जाणवुं. भवनी अपेक्षाए जघन्य वे भव अने उत्कृष्ट आठ भव तथा काळनी अपेक्षाए जघन्य वे अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट अठ्याशी हजार वर्ष अधिक चार पूर्वकोटी—एटलो काळ यावत्—गतिआगति करे. नवे गमकोमा भवनी अपेक्षाए जघन्य वे भव अने उत्कृष्ट आठ भव होय छे. अने काळनी अपेक्षाए उपयोगपूर्वक कायसवेध कहेवो पण विशेष एके वच्चेना त्रणे गमकोमा वेइन्द्रियना वच्चेना गमको पेठे जाणवुं. अने छेह्हा त्रणे गमकोमा आना प्रथमना त्रण गमकोनी पेठे समजवुं. पण विशेष ए के स्थिति अने अनुबंध जघन्य तथा उत्कृष्ट पूर्वकोटी होय छे. वाकी वधुं पूर्व प्रमाणे जाणवुं. यावत्—नवमा गमकमा जघन्य पूर्वकोटी अधिक वावीश हजार वर्ष अने उत्कृष्ट चार पूर्वकोटी अधिक अठ्याशी हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गतिआगति करे (९).

३२. [प्र०] जो ते पृथिवीकायिक संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं सख्याता वर्पना आयुपवाळा के असंख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते सख्याता वर्पना आयुपवाळा तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय पण असंख्याता वर्पना आयुपवाळा तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न न थाय.

मरी तिर्यचनी पृथि-
वीकायिकमा
उत्पत्ति.

३३. [प्र०] जइ संखेजवासाउय० किं जलयरोहिंतो० ? [उ०] सेसं जहा असचीणं, जाव—

३४. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववजंति ? [उ०] एवं जहा रयणप्पभाए उववजमाणस्स सन्निस्स तहेव इह वि । नवरं ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंयोज्जमार्गं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं; सेसं तहेव जाव—काला-देसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं चत्तारि पुद्दकोडीथो अट्टासीतीए वाससहस्सेहिं अन्महियाओ—एवतियं० । एवं संवेहो णवसु वि गमएसु जहा असचीणं तहेव निरवसेसं । लद्धी से आदिहएसु तिसु वि गमएसु एस चेव मज्जिहएसु तिसु वि गमएसु एस चेव । नवरं इमाइं नव णाणत्ताइं—१ ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंयोज्जतिमार्गं, उक्कोसेणं अंगु-लस्स असंखेजतिमार्गं । तिन्नि लेस्साओ । मिच्छादिट्ठी । दो अच्चाणा । कायजोगी । तिन्नि समुग्घाया । ठिती जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं । अप्पसत्था अज्जवसाणा । अणुबंधो जहां ठिती, सेसं तं चेव । पच्छिहएसु तिसु वि गमएसु जहेव पढमगमए । णवरं ठिती अणुबंधो जहन्नेणं पुद्दकोडी, उक्कोसेण वि पुद्दकोडी, सेसं तं चेव ९ ।

३५. [प्र०] जइ मणुस्सेहिंतो उववजंति किं सन्निमणुस्सेहिंतो उववजंति, असन्निमणुस्सेहिंतो० ? [उ०] गोयमा ! सन्निमणुस्सेहिंतो०, असन्निमणुस्सेहिंतो वि उववजंति ।

३६. [प्र०] असन्निमणुस्से णं भंते ! जे भविए पुढचिक्काइएसु से णं भंते ! केवतिकाल० ? [उ०] एवं जहा असन्नि-पंचिदियतिरिक्खजोणियस्स जहन्नकालट्ठितीयस्स तिन्नि गमगा तहा एयस्स वि ओहिया तिन्नि गमगा भाणियद्धा तहेव निरवसेसं, सेसा छ न भणंति १ ।

३७. [प्र०] जइ सन्निमणुस्सेहिंतो उववजंति किं संखेजवासाउय०, असंखेजवासाउय० ? [उ०] गोयमा ! संखेज-वासाउय०, णो असंखेजवासाउय० ।

३८. [प्र०] जइ संखेजवासाउय० किं पज्जत्त०, अपज्जत्त० ? [उ०] गोयमा ! पज्जत्तसंखेज०, अपज्जत्तसंखेजवासा-उय० जाव—उववजंति ।

३९. [प्र०] जो संख्याता वर्पना आयुपवाळा सं० पं० निर्यचयोनिक्कोयी आवी उत्पन्न थाय तो शुं जलचरोयी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि वाकीनी वधी वक्क्यता असंजी पंचेन्द्रिय तिर्यचनी पेटे जाणवी. यावत्—

३४. [प्र०] हे भगवन् ! ते (पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थवा योग्य संख्याता वर्पना आयुपवाळा संजी पंचेन्द्रिय तिर्यचो) एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जेम रत्तप्रमामा उपजवाने योग्य संजी पंचेन्द्रिय तिर्यचनी वक्क्यता कही छे तेम अहिं पण कहेवी. पण विदोप ए के शरीरनी अवगाहना जवन्य अंगुलनो असंख्यातमो माग अने उक्कट एक हजार योजन होय छे. वाकी वधुं ते प्रमाणे जाणवुं. यावत्—काळनी अपेक्षाए जवन्य वे अन्तर्मुहूर्त अने उक्कट चार पूर्वकोटी अधिक अट्टाशी हजार वर्ष—एटलो काळ यावत्—गतिआगति करे. ए प्रमाणे नवे गमकोमां बधो संवेध असंजी पंचेन्द्रिय तिर्यचनी पेटे कहेवो. प्रयमना त्रणे अने वधेना त्रणे गमकोमां पण ए ज लब्धि—वक्क्यता कहेवी. पण वधेना त्रणे गमकोमा आ नव विशेषताओ छे—१ शरीरनी अवगाहना जवन्य अने उक्कट अंगुलनो असंख्यातमो माग होय छे, २ तेओने त्रण लेख्याओ होय छे, ३ तेओ मिथ्यादृष्टि होय छे, ४ तेने वे अज्ञान छे, ५ तेओ काययोगवाळा छे, ६ तेओने त्रण समुद्वातो होय छे, ७ स्थिति जवन्य अने उक्कट अन्तर्मुहूर्त होय छे, ८ अव्यवसायो अप्रगस्त छे अने ९ अनुबंध स्थितिनी प्रमाणे जाणवो. वाकी वधुं पूर्वे कहा प्रमाणे कहेवुं. तथा छेला त्रणे आलापकमा प्रयम गमकनी पेटे वक्क्यता कहेवी. पण विदोप ए के स्थिति अने अनुबंध जवन्य अने उक्कट पूर्वकोटीनो होय छे. वाकी वधुं पूर्वे कहा प्रमाणे जाणवुं (९).

३५. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते पृथिवीकायिको मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय तो शुं संजी मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय के असंजी मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! संजी अने असंजी वन्ने प्रकारना मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय.

३६. [प्र०] हे भगवन् ! असंजी मनुष्य, जे पृथिवीकायिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा पृथिवीका-यिकमां उत्पन्न थाय ? [उ०] जेम जवन्यकाळनी स्थितिवाळा असंजी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक्क संवन्वे त्रण गमो कहा छे तेम आ सवंधे पण सामान्य त्रण गमको सम्पूर्ण कहेवा अने वाकीना छ गमको न कहेवा.

३७. [प्र०] जो तेओ संजी मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय तो शुं संख्याता वर्पना आयुपवाळा के असंख्याता वर्पना आयुपवाळा संजी मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ संख्याता वर्पना आयुपवाळा संजी मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय, पण असंख्याता वर्पना आयुपवाळा संजी मनुष्योयी आवी उत्पन्न न थाय.

३८. [प्र०] जो तेओ संख्याता वर्पना आयुपवाळा मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय तो शुं पर्याता के अपर्याता मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! पर्याता अने अपर्याता वन्ने प्रकारना संजी मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय छे.

मनुष्योनी पृथिवी-
यिकोमा उत्पत्ति.

संजी मनुष्योनी
पृथिवीकायिकोमा
उत्पत्ति

संजी मनुष्योनी
पृथिवीकायिकोमा
उत्पत्ति

३९. [प्र०] सन्निमणुस्त्रे णं भंते ! जे भविण्ण पुढविकाइएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवत्तिकाल० ? [उ०] गोयमा ! जह्णेणं अंतोमुहुत्तं०, उक्कोसेणं थावीसंवाससहस्सट्ठितीएसु ।

४०. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा० ? [उ०] एवं जहेव रयणप्पमाए उववज्जमाणस्स तहेव तिसु वि गमएसु लद्धी । नवरं ओगाहणा जह्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोस्सेणं पंचधणुसयाइं । टिती जह्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुध्-कोडी । एवं अणुवंधो । संवेहो नवसु गमएसु जहेव सन्निपिंचिदियस्स । मज्झिहएसु तिसु गमएसु लद्धी जहेव सन्निपिंचि-दियस्स, सेसं तं चेव निरवसेसं, पच्छिह्हा तिन्नि गमगा जहा एयस्स चेव ओहिया गमगा । नवरं ओगाहणा जह्णेणं पंच धणुसयाइं, उक्कोसेणं पंच धणुसयाइं । टिती अणुवंधो जह्णेणं पुध्कोडी, उक्कोसेणं वि पुध्कोडी, सेसं तहेव ।*

४१. [प्र०] जइ देवेहिंतो उववज्जंति किं भवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति, वाणमंतर०, जोइसियदेवेहिंतो०, वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! भवणवासिदेवेहिंतो वि उववज्जंति, जाव-वेमाणियदेवेहिंतो वि उववज्जंति ।

४२. [प्र०] जइ भवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति किं असुरकुमारभवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति, जाव-यणियकुमार-भवणवासिदेवेहिंतो ? [उ०] गोयमा ! असुरकुमारभवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति, जाव-यणियकुमारभवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति ।

४३. [प्र०] असुरकुमारेणं भंते ! जे भविण्ण पुढविकाइएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवत्ति० ? [उ०] गोयमा ! जह्णेणं अंतोमुहुत्तं०, उक्कोसेणं वावीसंवाससहस्सट्ठिती० ।

४४. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा० पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जह्णेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा उववज्जंति ।

४५. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं सररीरगा किसंघयणी पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! छण्हं संघयणाणं असंघयणी, जाव-परिणमंति ।

३९. [प्र०] हे भगवन् ! संख्याता वर्षना आयुपवाळा पर्याप्त संज्ञी मनुष्य, जे पृथिवीकायिकोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकोमां उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तनी अने उत्कृष्ट वावीश हजार वर्षनी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकोमां उत्पन्न थाय.

४०. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] रत्नप्रमामां उत्पन्न थवाने योग्य मनुष्यनी जे वक्तव्यता कही छे ते अहिं त्रणे आलापकमां कहेवी. पण विशेष ए के शरीरनी अवगाहना जघन्य अंगुलनो असल्यातमो भाग अने उत्कृष्ट पांचसो धनुप होय छे. स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट पूर्वकोटीनी छे. ए प्रमाणे अनुबंध पण जाणवो. संवेध जेम सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनो कखो छे तेम नवे गमोमा कहेवो. वञ्जेना त्रण गमोमा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी वक्तव्यता कहेवी. वाकी वधुं पूर्वे कर्या प्रमाणे जाणवुं. तथा छेह्हा त्रण गमको आ औधिक-सामान्य गमनी पेटे कहेवा. विशेष ए के शरीरनी अवगाहना जघन्य अने उत्कृष्ट पांचसो धनुपनी होय छे. स्थिति अने अनुबंध जघन्य अने उत्कृष्ट पूर्वकोटीनो होय छे. वाकी वधुं ते प्रमाणे जाणवुं.

४१. [प्र०] जो ते पृथिवीकायिको देवोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं भवनपति देवोथी, वानव्यन्तर देवोथी, ज्योतिषिक देवोथी के वैमानिक देवोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! भवनवासी देवोथी यावत्-वैमानिकोथी पण आवीने उत्पन्न थाय.

४२. [प्र०] जो ते भवनपति देवोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं असुरकुमारोथी आवी उत्पन्न थाय के यावत्-स्तानितकुमारोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते असुरकुमार भवनवासी देवोथी यावत्-स्तानितकुमार भवनवासी देवोथी पण आवी उत्पन्न थाय.

४३. [प्र०] हे भगवन् ! असुरकुमार जे पृथिवीकायिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकोमां उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य अन्तर्मुहूर्तनी अने उत्कृष्ट वावीश हजार वर्षनी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकोमां उत्पन्न थाय.

४४. [प्र०] हे भगवन् ! ते असुरकुमारो एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ जघन्य एक, वे के त्रण अने उत्कृष्ट संख्याता के असल्याता उत्पन्न थाय.

४५. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवोना शरीरो केटला संघयणाळां होय छे. ? [उ०] हे गौतम ! तेओना शरीरो छ प्रसङ्गना संघयण रहित होय छे [किमके तेने अस्थि, शिरा, क्वापु-इत्यादि नथी. परन्तु जे पुद्गलो इष्ट, कान्त अने मनोन छे ते शरीरसंघयणरूपे] यावत्-परिणमे छे.

परिणमति.

देवोनी पृथिवी
दितोमां उत्पत्तिभवनपति देवोथी
पृथिवीकायिकोमां
उत्पत्ति.असुरकुमारो
पृथिवीकायिकोमां
उत्पत्ति.

परिणमति.

परिणमति.

* 'नवरं परिउहएसु गमएसु मंतेना उववज्जंति, नो धसंतेना उववज्जंति'-इति पाठो न-सुत्रे एव द्रव्यभवे, पर ए-न-उ-पुत्रेणु गति, नच संभाव्यते ।

૪૬. [પ્ર૦] તેસિ પં મંતે ! જીવાણં કેમહાલિયા સરીરોગાહણા ? [ઉ૦] ગોયમા ! ડુવિદ્યા પન્નત્તા, તં જહ્દા—ભવધાર-
ણિજ્ઞા ય ઉત્તરવેડવિયા ય । તત્થ પં જા સા ભવધારણિજ્ઞા સા જહ્દેણં અંગુલસ્સ અસંખેજ્ઞદમાર્ગં, ઉક્કોસેણં સત્ત રયણીઘો ।
તત્થ પં જા સા ઉત્તરવેડવિયા સા જહ્દેણં અંગુલસ્સ સંખેજ્ઞદમાર્ગં, ઉક્કોસેણં જોયણસયસહસ્સં ।

૪૭. [પ્ર૦] તેસિ પં મંતે ! જીવાણં સરીરગા કિંસંઠિયા પન્નત્તા ? [ઉ૦] ગોયમા ! ડુવિદ્યા પન્નત્તા, તં જહ્દા—ભવધારણિજ્ઞા
ય ઉત્તરવેડવિયા ય । તત્થ પં જે તે ભવધારણિજ્ઞા તે સમચરંસસંઠિયા પન્નત્તા । તત્થ પં જે સે ઉત્તરવેડવિયા તે ણાણાસં-
ઠાણસંઠિયા પન્નત્તા । લેસ્સાઓ ચત્તારિ । દિટ્ઠી તિવિદ્યા વિ । તિવિ ણાણા નિયમં, તિવિ અગ્ગાણા મયણાપ । જોગો તિવિદ્દો
વિ । ઉચ્ચોગો ડુવિદ્દો વિ । ચત્તારિ સન્નાઓ । ચત્તારિ કસાયા । પંચ ઈંદિયા । પંચ સમુઘયાયા । વેયણા ડુવિદ્યા વિ ।
ઈથિવેદગા વિ પુરિસવેયગા વિ, ણો ણપુંસગવેયગા । ઠિત્ઠી જહ્દેણં દસવાસસહસ્સાઈ, ઉક્કોસેણં સાતિરેગં સાગરોવમં । અગ્ગ-
વસાણા અસંખેજ્ઞા પસત્યા વિ અપ્પસત્યા વિ । અણુવંધો જહ્દા ઠિત્ઠી । મવાદેસેણં દો મવગ્ગહણાઈ, કાલાદેસેણં જહ્દેણં દસ-
વાસસહસ્સાઈ અંતોમુહુત્તમ્મહિયાઈ, ઉક્કોસેણં સાતિરેગં સાગરોવમં વાધીસાપ વાસસહસ્સેઈ અમ્મહિયં—પવતિયં ૦ । एवं
णव वि गमा णेयद्वा । नवरं मञ्जिह्लपसु पच्छिह्लपसु तिसु गमपसु असुरकुमारारणं टिइविसेसो जाणियघो, सेसा ओहिया
चेव लद्धी कायसंवेहं च जाणेजा । सद्यत्थ दो भवग्गहणाई, जाव-णवमगमप कालादेसेणं जह्द्रेणं सातिरेगं सागरोवमं
वाधीसाप वाससहस्सेई अम्महियं । उक्कोसेण वि सातिरेगं सागरोवमं वाधीसाप वाससहस्सेई—अम्महियं—पवतियं. ९ ।

૪૮. [પ્ર૦] ણાગક્કુમારે પં મંતે ! જે મવિપ પુઢવિક્કાણપસુ ૦ ? [ઉ૦] એસ ચેવ વત્તદ્વયા જાવ—‘મવાદેસો’ત્તિ ! ણવરં
ઠિત્ઠી જહ્દેણં દસવાસસહસ્સાઈ, ઉક્કોસેણં દેસૂણાઈ દો પલિઓવમાઈ । एवं अणुवंधो वि । कालादेसेणं जह्द्रेणं दसवाससह-
स्साई अंतोमुहुत्तमम्महियाई, उक्कोसेणं देसूणाई दो पलिओवमाई वाधीसाप वाससहस्सेई अम्महियाई । एवं णव वि गमगा
असुरकुमारगमगरिसा, नवरं टिटि कालादेसं च जाणेजा, एवं जाव-थणियकुमारारणं ।

શરીરની ઉચાર

૪૬. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! તે જીવોના શરીરોની કેટલી મોટી અવગાહના કહી છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તેઓને મવધારણીય અને
ઉત્તરવૈક્રિય એમ બે જાતની અવગાહના હોય છે. તેમાં જે મવધારણીય અવગાહના છે તે જઘન્ય અંગુલનો અસલ્યાતમો ભાગ અને ઉત્ક્રુષ્ટ
સાત હાયની છે, અને જે ઉત્તરવૈક્રિય અવગાહના છે તે જઘન્ય અંગુલનો સલ્યાતમો ભાગ અને ઉત્ક્રુષ્ટ એક ટાણ યોજન હોય છે.

સંસ્થાન.

૪૭. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! તે જીવોના શરીરો કેટલા સંસ્થાનવાળા કહ્યા છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તેઓના શરીરો મવધારણીય અને
ઉત્તરવૈક્રિય એમ બે જાતના કહ્યા છે. તેમાં જે મવધારણીય શરીર છે તેને સમચતુરસ્ત્ર સંસ્થાન હોય છે, અને જે ઉત્તરવૈક્રિય છે તેને અનેક.
પ્રકારનું સંસ્થાન હોય છે. લેસ્યાઓ ચાર છે. દષ્ટિ ત્રણે પ્રકારની હોય છે. તેઓને ત્રણ જ્ઞાન અવસ્થા હોય છે અને અજ્ઞાન ત્રણ મજનાપ
હોય છે. તેઓને ત્રણ યોગ, વન્ને ઉપયોગ, ચાર સન્નાઓ, ચાર કપાયો, પાંચ ઈન્દ્રિયો અને પાંચ સમુદ્ધાત હોય છે. વેદના વન્ને પ્રકારની હોય
છે. સ્ત્રીવેદ અને પુરુષવેદ હોય છે પણ નપુંસકવેદ નથી હોતો. સ્થિતિ જઘન્ય દસ હજાર વર્ષની અને ઉત્ક્રુષ્ટ કાંઈક અધિક સાગરોપમ.
હોય છે. અચ્ચવસાયો પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત એમ વન્ને પ્રકારના હોય છે. અનુવંધ સ્થિતિની પેઠે જાણવો. (સવેધ—) મવની અપેક્ષા એ મવ
અને કાલ્હની અપેક્ષા જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત અધિક દસ હજાર વર્ષ અને ઉત્ક્રુષ્ટ વાધીશ હજાર વર્ષ અધિક સાધિક સાગરોપમ—એટલો કાલ
યાવત્—ગતિ આગતિ કરે. એ પ્રમાણે નવે ગમો જાણવા. પણ વિશેષ એ કે મથ્યના ત્રણ અને છેલ્લા ત્રણ ગમોમા અસુરકુમારોની સ્થિતિસંવન્ધે
વિશેષતા હોય છે, વાકી વધી ઔધિક વત્કચ્યતા અને કાયસવેવ જાણવો. સવેધમા વધે ઠેકાણે વે મવ જાણવા. એ પ્રમાણે યાવત્—
નવમા ગમમાં કાલ્હદેશથી જઘન્ય અને ઉત્ક્રુષ્ટ સાધિક સાગરોપમ સહિત વાધીશ હજાર વર્ષ—એટલો કાલ યાવત્—ગતિઆગતિ કરે (૯).

નાગકુમારની પૃથિ-
વીકાયિકમા
ઉત્પત્તિ.

૪૮. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! જે નાગકુમાર દેવ પૃથિવીકાયિકમા ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય છે તે કેટલા કાલ્હની સ્થિતિવાળા પૃથિવીકાયિ-
કમા ઉત્પન્ન થાય ? [ઉ૦] અહિં પૂર્વોક્ત વધી અસુરકુમારની વત્કચ્યતા યાવત્—મવાદેશ સુધી કહેવી. પણ વિશેષ એ કે સ્થિતિ જઘન્ય દસ
હજાર વર્ષ અને ઉત્ક્રુષ્ટ કાંઈક ન્યૂન વે પલ્યોપમની હોય છે. એ પ્રમાણે અનુવંધ પણ જાણવો. કાલ્હની અપેક્ષા જઘન્ય અન્તર્મુહૂર્ત અધિક
દસ હજાર વર્ષ અને ઉત્ક્રુષ્ટ કાંઈક ન્યૂન વે પલ્યોપમ સહિત વાધીશ હજાર વર્ષ—એટલો કાલ યાવત્—ગમનાગમન કરે. એ પ્રમાણે નવે
આલપત્તો અસુરકુમારના આલપકની પેઠે જાણવા. પણ વિશેષ એ કે અહિં સ્થિતિ અને કાલ્હદેશ (મિત્ર) જાણવો. એ પ્રમાણે યાવત્—
સ્થાનિતકુમારો સુધી જાણવું.

૪૭ * જેઓ સમ્યગ્દષ્ટિ છે તેઓને ત્રણ જ્ઞાન અવસ્થા હોય છે અને મિથ્યાદષ્ટિને ત્રણ અજ્ઞાન હોય છે પણ જેઓ અસત્તીથી આવીને ઉત્પન્ન થાય છે
તેઓને અપર્યાપ્તાનસ્યામા વિમંગ હોવું નથી, વાકીના જીવોને વિમંગ હોય છે તેથી મિથ્યાદષ્ટિને ત્રણ અજ્ઞાન મજનાપ હોય છે—એમ કહ્યું છે.

४९. [प्र०] जइ वाणमंतरेहितो उववज्जंति किं पिसायवाणमंतरं जाव-गंधद्ववाणमंतरं ? [उ०] गोयमा ! पिसाय-वाणमंतरं, जाव-गंधद्ववाणमंतरं ।

५०. [प्र०] वाणमंतरदेवे णं भंते ! जे भविण पुढविकाइपसुं ? [उ०] पत्तेसिं पि असुरकुमारगमगसरिस्ता नव गमगा भाणियद्या । नवरं ठिर्ति कालादेसं च जाणेज्जा । ठिती जहन्नेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं पल्लिओवमं, सेसं तहेव ।

५१. [प्र०] जइ जोइसियदेवेहितो उववज्जंति किं चंदविमाणजोतिसियदेवेहितो उववज्जंति, जाव-ताराविमाणजोइसियं ? [उ०] गोयमा ! चंदविमाणं, जाव-ताराविमाणं ।

५२. [प्र०] जोइसियदेवे णं भंते ! जे भविण पुढविकाइपसुं ? [उ०] लद्धी जहा असुरकुमाराणं । णवरं एगा तेउ-लेस्सा पन्नत्ता । तिन्नि णाणा, तिन्नि अन्नाणा णियमं । ठिती जहन्नेणं अट्टभागपल्लिओवमं, उक्कोसेण पल्लिओवमं वाससयसह-स्सअन्महियं । एवं अणुबंधो वि । कालादेसेणं जहन्नेणं अट्टभागपल्लिओवमं अंतोमुहुत्तमन्महियं, उक्कोसेणं पल्लिओवमं वास-सयसहस्सेणं वावीसाए वाससहस्सेहिं अन्महियं, एवतियं । एवं सेसा वि अट्ट गमगा भाणियद्या । नवरं ठिर्ति कालादे-सं च जाणेज्जा ।

५३. [प्र०] जइ वेमाणियदेवेहितो उववज्जंति किं कप्पोवगवेमाणियं, कप्पातीयवेमाणियं ? [उ०] गोयमा ! कप्पो-वगवेमाणियं, णो कप्पातीतवेमाणियं ।

५४. [प्र०] जइ कप्पोवगवेमाणियं किं सोहम्मकप्पोवगवेमाणियं, जाव-अञ्चुकप्पोवगवेमां ? [उ०] गोयमा ! सोहम्मकप्पोवगवेमाणियं, ईसाणकप्पोवगवेमाणियं, णो सणकुमारं, जाव-णो अञ्चुकप्पोवगवेमाणियं ।

५५. [प्र०] सोहम्मदेवे णं भंते ! जे भविण पुढविकाइपसु उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवतियं ? [उ०] एवं जहा जोइसियस्स गमगो । णवरं ठिती अणुबंधो य जहन्नेणं पल्लिओवमं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाइं । कालादेसेणं जहन्नेणं पल्लि-

४९. [प्र०] जो तेओ वानव्यन्तरोधी आवी उत्पन्न थाय तो शुं पिशाच वानव्यन्तरोधी, के यावत्-गांधर्वव्यानव्यन्तरोधी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ पिशाच व्यानव्यन्तरोधी यावत्-गांधर्वव्यानव्यन्तरोधी आवी उत्पन्न थाय.

वानव्यन्तरोधी-
वीकायिकमां
उत्पत्ति.

५०. [प्र०] हे भगवन् ! वानव्यन्तरदेव जे पृथिवीकायिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा पृथिवीका-यिकोमा आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] अहिं पण असुरकुमारोनी पेटे नवे गमको कहेवा. पण विशेष ए के अहिं स्थिति तथा काळादेश (भिन्न) जाणवो. स्थिति जघन्य दस हजार वर्षनी अने उत्कृष्ट पल्योपमनी होय छे. वाकी वधुं तेज प्रमाणे जाणवुं.

५१. [प्र०] जो तेओ ज्योतिष्क देवोधी आवी उत्पन्न थाय तो शुं चन्द्र विमान ज्योतिष्क देवोधीके यावत्-ताराविमान ज्योतिष्क देवोधी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ चन्द्रविमान ज्योतिष्क देवोधी, अने यावत्-ताराविमान ज्योतिष्क देवोधी आवी उत्पन्न थाय.

ज्योतिष्क देवनी
पृथिवीकायिकमा
उत्पत्ति.

५२. [प्र०] हे भगवन् ! जे ज्योतिष्कदेव पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते केटला काळनी स्थितिवाळा पृथिवीका-यिकमा उत्पन्न थाय ? [उ०] अहिं असुरकुमारोनी लब्धि-वक्तव्यतानी पेटे सघळी वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के तेओने एक तेजो-लेइया होय छे. त्रण ज्ञान अथवा त्रण अज्ञान अवश्य होय छे. स्थिति जघन्य पल्योपमनो आठमो भाग अने उत्कृष्ट एक लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम होय छे. ए प्रमाणे अनुबंध पण जाणवो. (सवेध-) काळनी अपेक्षाए जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक पल्योपमनो आठमो भाग अने उत्कृष्ट एक लाख वावीश हजार वर्ष अधिक एक पल्योपम-एटलो काळ यावत्-गमनागमन करे. ए प्रमाणे वाकीना आठ गमो पण जाणवा. पण विशेष ए के अहिं स्थिति अने कालादेश (पूर्व करतां भिन्न) जाणवो.

५३. [प्र०] जो तेओ (पृथिवीकायिको) वैमानिक देवोधी आवी उत्पन्न थाय, तो शुं कल्पोपपन्नक वैमानिक देवोधी आवी उत्पन्न थाय, के कल्पातीत वैमानिक देवोधी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ कल्पोपपन्नक वैमानिक देवोधी आवी उत्पन्न थाय, पण कल्पातीत वैमानिक देवोधी आवी उत्पन्न न थाय.

वैमानिक देवोनी
पृथिवीकायिकमा
उत्पत्ति.

५४. [प्र०] हे भगवन् ! जो तेओ कल्पोपपन्न वैमानिक देवोधी आवी उत्पन्न थाय तो शुं सौधर्मकल्पोपपन्न वैमानिक देवोधी आवी उत्पन्न थाय के यावत्-अच्युत कल्पोपपन्न वैमानिक देवोधी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! सौधर्म अने ईशान कल्पोपपन्न देवोधी आवी उत्पन्न थाय, पण सनत्कुमार, यावत्-अच्युतकल्पोपपन्न वैमानिक देवोधी आवी उत्पन्न न थाय.

५५. [प्र०] हे भगवन् ! जे सौधर्मकल्पोपपन्न वैमानिक देव पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते केटला काळनी स्थितिवाळा पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थाय ? [उ०] अहिं ज्योतिष्कना गमकनी पेटे कहेवुं. पण विशेष ए के स्थिति अने अनुबंध जघन्य पल्योपम

ओचमं अंतोमुत्तमन्महियं, उक्तोसेणं दो सागरोवमाहं वाचीसाण वाससहस्तेहि अम्महियाहं—पवतियं फालं० । एवं सेसा वि अट्ट गमगा भाणियघा । णवरं टितीं फालादेसं च जाणेजा ।

५६. [प्र०] ईसाणदेवे णं मंते ! जे भविण्० ? [उ०] एवं इस्ताणदेवेण चि णव गमगा भाणियघा । नवरं टिती अणुवंधो जह्द्रेणं सातिरेणं पल्लिओचमं, उक्तोसेणं सातिरेगाई दो सागरोवमाहं; सेसं तं चेष । 'सेवं मंते ! सेवं मंते !' त्ति जाय—विहरति ।

चउवीसतिमे सए दुवालसमो उद्देशो समत्तो ।

अने उत्कृष्ट वे सागरोपन होय छे. (संवेध—) काळनी अपेक्षाए जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिका पल्लोपम अने उत्कृष्ट वाचीय हजार वर्ष अधिका वे सागरोपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे. ए प्रमाणे वाचीना आटे गमो जाणया. परन्तु विशेष ए के अहि स्थिति अने काळादेश (पूर्व करता भिन्न) जाणवो.

५६. [प्र०] हे भगवन् ! जे इगानदेव, पृथिवीकायिकोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे—इत्यादि संवेधे पण नवे गमो करेया. पण विशेष ए के स्थिति, अनुबंध जघन्य साधिका पल्लोपम, अने उत्कृष्ट साधिका वे सागरोपम. अने वाकी वधुं तेज प्रमाणे जाणवुं. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'—एम कही यावत्—विहरे छे.

चोवीशमा शतकमां वारमो उद्देशक समाप्त.

तेरसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] आउक्काइया णं मंते ! कओहिंतो उचवज्जंति [उ०] एवं जहेव पुढविक्काइयउद्देशए, जाय—[प्र०] पुढविक्कारए णं मंते ! जे भविण् आउक्काइएसु उचवज्जित्तए से णं मंते ! केवति० ? [उ०] गोयमा ! जह्द्रेणं अंतोमुत्त०, उक्तोसेणं सत्तवाससहस्सट्टिइएसु उचवज्जेजा—एवं पुढविक्काइयउद्देशगसरिसो भाणियघो । णवरं टिती(तिं) संवेहं च जाणेजा, सेसं तहेव । 'सेवं मंते ! सेवं मंते !' त्ति ।

चउवीसतिमे सए तेरसमो उद्देशो समत्तो ।

तेरमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! अष्कायिको क्याथी आवीने उत्पन्न थाय—इत्यादि जेम पृथिवीकायिकना उद्देशकमा करुं छे तेम जाणवुं. यावत्—[प्र०] हे भगवन् ! जे पृथिवीकायिको अष्कायिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा अष्कायिकमां उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट सात हजार वर्षनी स्थितिवाळा अष्कायिकमा उत्पन्न थाय. ए प्रमाणे पृथिवीकायिकना उद्देशकनी पेठे आ उद्देशक कहेवो. परन्तु विशेष ए के अहां स्थिति अने संवेध जुदो जाणवो. वाकी वधुं प्रमाणे कहेवुं. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

चोवीशमा शतकमां तेरमो उद्देशक समाप्त.

चोदसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] तेउक्काइया णं मंते ! कओहिंतो उचवज्जंति ? [उ०] एवं जहेव पुढविक्काइयउद्देशगसरिसो उद्देशो भाणियघो । नवरं टितीं संवेहं च जाणेजा, देवोहिंतो ण उचवज्जंति, सेसं तं चेष । 'सेवं मंते ! सेवं मंते !' त्ति जाय—विहरति ।

चउवीसतिमे सए चोदसमो उद्देशो समत्तो ।

चउदमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! तेजस्कायिको क्याथी आवीने उत्पन्न थाय—इत्यादि पृथिवीकायिक उद्देशकनी पेठे आ उद्देशक पण कहेवो. पण विशेष ए के अहां स्थिति अने संवेध (भिन्न) जाणवो—तया तेजस्कायिको देवोथी आवी उत्पन्न थता नथी, वाकी वधुं पूर्वे कत्था प्रमाणे जाणवुं. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे' एम कही यावत्—विहरे छे.

चोवीशमा शतकमां चउदमो उद्देशक समाप्त.

पन्नरसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] वाउक्काइया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? [उ०] एवं जहेव तेउक्काइयउद्देशओ तहेव । नवरं ठिती(तिं) संवेहं च जाणेज्जा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति ।

चउवीसतिमे सए पन्नरसमो उद्देशो समत्तो ।

पंदरमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! वायुकायिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे—इत्यादि जेम तेजस्कायिक उद्देशकमा कह्युं छे तेम कहेवुं. पण विशेष ए के अही स्थिति अने संवेध (भिन्न) जाणवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

वायुकायिकनो
उपपात.

चौवीशमा शतकमां पंदरमो उद्देशक समाप्त.

सोलसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] वणस्सइकाइया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? [उ०] एवं पुढविकाइयसरिसो उद्देशो । नवरं जाहे वणस्सइकाइओ वणस्सइकाइएसु उववज्जति ताहे पढम—चितिय—चउत्थ—पंचमेसु गमएसु परिमाणं अणुसमयं अविरहियं अणंता उववज्जंति । भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अणंताइं भवग्गहणाइं । कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतो-सुहुत्ता, उक्कोसेणं अणंतां कालं—एवतियं० । सेसा पंच गमा अट्टभवग्गहणिया तहेव । नवरं ठिंति संवेहं च जाणेज्जा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

चउवीसतिमे सए सोलसमो उद्देशो समत्तो ।

सोळमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! वनस्पतिकायिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि पृथिवीकायिकना उद्देशकनी पेटे आ उद्देशक कहेवो. पण विशेष ए के ज्यारे वनस्पतिकायिक वनस्पतिकायिकोमां उत्पन्न थाय ल्यारे पहेला, वीजा, चोया अने पाचमा आलापकमां 'प्रतिसमय निरन्तर अनंत जीवो उत्पन्न थाय छे'—एम कहेवुं. भवनी अपेक्षाए जघन्य वे भव अने उत्कृष्ट अनंत भव तथा काळनी अपेक्षाए जघन्य वे अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट अनंत काळ—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे. वाकीना पाच आलापकोमां तेज रीते आठ भव जाणवा. पण विशेष ए के अहीं *स्थिति अने संवेध ए भिन्न भिन्न जाणवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

वनस्पतिकायिक

चौवीशमा शतकमां सोळमो उद्देशक समाप्त.

सत्तरसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] वैदिया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? जाव—पुढविकाइए णं भंते ! जे भविण वैदिपसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवति० ? [उ०] स च्चेव पुढविकाइयस्स लद्धी, जाव—कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोसुहुत्ता, उक्कोसेणं संवेज्जाइं भवग्गहणाइं—एवतियं० । एवं तेसु च्चेव चउसु गमएसु संवेहो, सेसेसु पंचसु तहेव अट्ट भवा । एवं जाव—चउरिदिपणं समं

सत्तरमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! वेइन्द्रिय जीवो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे—इत्यादि यावत्—[प्र०] हे भगवन् ! जे पृथिवीकायिक जीव वेइन्द्रियमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा वेइन्द्रियमा उत्पन्न थाय ? [उ०] अहिं पूर्वोक्त [पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थवाने योग्य] पृथिवीकायिकनी वक्तव्यता कहेवी, यावत्—काळनी अपेक्षाए जघन्य वे अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट संख्याता भवो—एटलो काळ यावत्—गति आगति करे. जेम (पृथिवीकायिकनी साथे वेइन्द्रियनो संवेध कह्यो छे) ते प्रमाणे पहेला, वीजा, चोया अने पाचमा—ए चार

वेइन्द्रिय-

१ * सर्वे गमोमा जघन्य अने उत्कृष्ट स्थिति प्रतिद्ध छे संवेध—त्रीजा अने सातमा गममा जघन्यथी अन्तर्मुहूर्त अधिक दश हजार वर्ष अने उत्कृष्ट आठ भवने आश्रयी एशी हजार वर्ष छट्टा अने आठमा गममा जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक दश हजार वर्ष अने उत्कृष्ट चार अन्तर्मुहूर्त अधिक चाळीदा हजार वर्ष, नवमा गममा जघन्य वीश हजार वर्ष अने उत्कृष्ट एंशी हजार वर्ष होय छे—टीका.

चउसु संघेजा भवा, पंचसु अट्ट भवा । पंचिन्द्रियतिरिक्त्तजोणियमणुस्सेसु समं तहेव अट्ट भवा । देवेषु न चेष उचचजंति, टिर्ती (तिं) संवेहं च जाणेजा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते !' च्ति ।

चउवीसतिमे सए सचरसमो उद्देशो समत्तो ।

आलापकमां संवेध कहेवो अने वाकीना पांच आलापकमां पूर्वोक्त आठ भवो जाणवा. ए प्रमाणे अष्ठाधिकार्या मांठी यावत्—चउरिन्द्रियो साधे चार आलापकमा सट्याता भवो अने वाकीना पांच आलापकमा आठ भवो जाणवा. पंचेन्द्रिय तिर्यंचो अने मनुष्योनी माधे पूर्वोक्त आठ भवो जाणवा. तथा देवोमाथी आथी उत्पन्न थता नथी. अहिं स्थिति अने संवेध भिन्न जाणवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

चौवीशमा शतकमां सचरसमो उद्देशक समाप्त.

अट्टारसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] तेइन्द्रिया णं भंते ! कथोहिंतो उचचजंति ? [उ०] ण्यं तेइन्द्रियाणं जहेव वेइन्द्रियाणं उद्देशो । नवरं टिर्ती संवेहं च जाणेजा । तेउक्काइपसु समं ततियगमे उक्कोसेणं अट्टुत्तराई वेराइन्द्रियसयाइं, वेइन्द्रियाइं समं ततियगमे उक्कोसेणं अडयालीसं संवच्छराइं छउउयराइंन्द्रियसतमम्मन्द्रियाइं, तेइन्द्रियाइं समं ततियगमे उक्कोसेणं वाणउयाइं तिन्नि राइंन्द्रियसयाइं । एवं सद्यत्थ जाणेजा जाव—'सन्निमणुस्स'त्ति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते !' च्ति ।

चउवीसतिमे सए अट्टारसमो उद्देशो समत्तो ।

अष्टादश उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! तेइन्द्रियो क्याथी आथी उत्पन्न थाय छे—इत्यादि वेइन्द्रियना उद्देशवनी पेटे त्रीन्द्रियो संवेधे पण कहेवुं. विशेष ए के अर्हा स्थिति अने संवेध (भिन्न भिन्न) जाणवो. तेजस्काधिकोनी साधे [तेइन्द्रियोनी संवेध] त्रीजा गमनां उरुहट्ट 'वसोने आठ रात्रिदिवसोनी होय छे अने वेइन्द्रियोनी साधे त्रीजा गमनां उरुहट्ट एकसो छुंनुं रात्रिदिवस अधिक अटतालीय वर्ष होय छे. तेइन्द्रियोनी साधे त्रीजा गमनां उरुहट्ट त्रणसोने वाणुं रात्रिदिवस जाणवो. ए प्रमाणे यावत्—संघी मनुष्य सुधी 'सर्वत्र जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

चौवीशमा शतकमां अट्टारसमो उद्देशक समाप्त.

एगूणवीसइसो उद्देशो ।

१. [प्र०] चउरिन्द्रिया णं भंते ! कथोहिंतो उचचजंति ? [उ०] जहा तेइन्द्रियाणं उद्देशयो तहेव चउरिन्द्रियाण वि । नवरं टिर्ती संवेहं च जाणेजा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते !' च्ति ।

चउवीसतिमे सए एगूणवीसतिमो उद्देशो समत्तो ।

ओगणीशमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! चउरिन्द्रिय जीवो क्याथी आथी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] जेम तेइन्द्रियोनी उद्देशक कलो तेम चउरिन्द्रियो संवेधे पण कहेवो. परन्तु विशेष ए के स्थिति अने संवेध भिन्न जाणवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

चौवीशमा शतकमां ओगणीशमो उद्देशक समाप्त.

१ * तेजस्काधिकोनी उरुहट्ट स्थिति त्रण रात्रि-दिवसनी छे तेने चार भवनी स्थिति माधे गुणता चार रात्रि-दिवस थाय तेइन्द्रियोनी उरुहट्ट स्थिति ओगण पचास दिवसनी छे, ते चार भवने आथयी १९६ रात्रि-दिवस थाय वजे राथि मेळवता २०८ रात्रि-दिवस थाय छे—टीका

† ए प्रमाणे चउरिन्द्रिय, अचंजी, सजी तिर्यंच अने मनुष्य माधे त्रीजा गमनां संवेध जाणवो. त्रीजा गमनां संवेध वताववा वटे छट्टा वगेरे गमनां संवेध सूचित थनेलो जाणवो. केमके तेमा पण आठ भवो होय छे प्रथम वगेरे चार गमनां संवेध भवनी जपेथाए सरयाता भवरूप अने काळनी अपेक्षाए चट्यात काळ रूप जाणवो

वीसइमो उद्देशो ।

१. [प्र०] पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? [उ०] किं नेरइएहिंतो, तिरिक्ख०, मणुस्सेहिंतो देवेहिंतो उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! नेरइएहिंतो उववज्जंति, तिरिक्ख०, मणुस्सेहिंतो चि०, देवेहिंतो वि उववज्जंति ।

२. [प्र०] जइ नेरइएहिंतो उववज्जंति, किं रयणप्पभपुढविनेरइएहिंतो उववज्जंति, जाव—अहेसत्तमपुढविनेरइएहिंतो उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! रयणप्पभपुढविनेरइएहिंतो उववज्जंति, जाव—अहेसत्तमपुढविनेरइएहिंतो० ।

३. [प्र०] रयणप्पभपुढविनेरइए णं भंते ! जे भविए पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवइकाल-ट्टितीएसु उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तट्टितीएसु, उक्कोसेणं पुव्वकोडिआउएसु उववज्जेजा ।

४. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? [उ०] एवं जहा असुरकुमाराणं वत्तवया । नवरं संघयणे पोग्गला अणिट्टा अकंता जाव—परिणमंति । ओगाहणा डुविहा पन्नत्ता, तं जहा—भवधारणिजा उत्तरवेउच्चिया य । तत्थ णं जा सा भवधारणिजा सा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं सत्त धणूइं तिन्नि रयणीओ छच्चंगुलाइं । तत्थ णं जा सा उत्तरवेउच्चिया सा जहन्नेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं एन्नरस धणूइं अट्टाइजाओ रयणीओ ।

५. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किंसंठिया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! डुविहा पन्नत्ता, तं जहा—भवधारणिजा य उत्तरवेउच्चिया य । तत्थ णं जे ते भवधारणिजा ते हुंडसंठिया पन्नत्ता । तत्थ णं जे ते उत्तरवेउच्चिया ते वि हुंडसंठिता पन्नत्ता । एगा काउलेस्सा पन्नत्ता । समुग्घाया चत्तारि । णो इत्थिवेदगा, णो पुरिसवेदगा, णपुंसगवेदगा । ठिती जहन्नेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं सागरोपमं । एवं अणुबंधो चि, सेसं तहेव । भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं । कालादेसेणं जहन्नेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमम्भहियाइं, उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं पुव्वकोडीहिं अब्भहियाइं—एवतियं० ।

६. सो चेव जहन्नकालट्टितीएसु उववच्चो, जहन्नेणं अंतोमुहुत्तट्टितीएसु०, उक्कोसेणं चि अंतोमुहुत्तट्टितीएसु०, अवसेसं तहेव । नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं तहेव, उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं अंतोमुहुत्तोहिं अब्भहियाइं—एव-

वीशमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिको क्यायी आवी उत्पन्न थाय ? शुं नैरयिकोथी, तिर्यचयोनिकोथी, मनुष्योथी के देवोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ नैरयिकोथी, तिर्यचोथी, मनुष्योथी अने देवोथी पण आवी उत्पन्न थाय छे.

२. [प्र०] जो तेओ नैरयिकोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं रत्तप्रभापृथिवीना नैरयिकोथी के यावत्—अधःसप्तम पृथिवीना नैरयिकोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ रत्तप्रभापृथिवीना नैरयिकोथी आवी उत्पन्न थाय, यावत्—अधःसप्तमपृथिवीना नैरयिकोथी पण आवी उत्पन्न थाय.

३. [प्र०] हे भगवन् ! रत्तप्रभा पृथिवीनो नैरयिक जे पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटळा काळनी स्थितिवाळा तिर्यचोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट पूर्वकोटीनी स्थितिवाळा पंचेन्द्रिय तिर्यचोमा उत्पन्न थाय.

४. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटळा उत्पन्न थाय ? [उ०] जेम असुरकुमारनी वक्तव्यता कही छे तेम अहिं कहेवी. पण विशेष ए के [रत्तप्रभाना नारकोने] सघयणमा अनिए अने अमनोज्ञ पुद्गलो यावत्—परिणमे छे. अवगाहना भवधारणीय अने उत्तरवैक्रिय—एम वे प्रकारनी छे. तेमा जे भवधारणीय शरीरनी अवगाहना छे ते [उत्पत्तिसमयनी अपेक्षाए] जघन्य अंगुलना असल्यातमा भागनी अने उत्कृष्ट सात धनुप, त्रण हाथ अने छ अंगुलनी छे. तथा जे उत्तरवैक्रिय शरीरनी अवगाहना छे ते जघन्य अंगुलनो सल्यातमो भाग अने उत्कृष्ट पंदर धनुप अने अठी हाथनी होय छे.

५. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवोना शरीरो केटळा सस्यानवाळा कह्या छे ? [उ०] हे गौतम ! तेनां शरीरो वे प्रकारना कह्या छे, भवधारणीय अने उत्तरवैक्रिय. तेमा जे भवधारणीय शरीर छे, ते हुंडकसंस्थानवालुं होय छे, अने जे उत्तरवैक्रिय छे ते पण हुंडकसस्यानवालुं छे. तेने एक कापोतलेस्या छे. समुद्घात चार छे. स्त्रीवेद अने पुरुष वेद नथी, पण एक नपुंसक वेद छे. स्थिति जघन्य दस हजार वर्षनी अने उत्कृष्ट सागरोपम प्रमाण छे. ए प्रमाणे अनुबंध पण जाणवो. वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणवुं. भवनी अपेक्षाए जघन्य वे भव अने उत्कृष्ट आठ भव, तथा काळनी अपेक्षाए जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक दस हजार वर्ष अने उत्कृष्ट चार पूर्वकोटी अधिक चार सागरोपम—एटलो काळ यावत्—गतिआगति करे. (१).

६. जो ते [रत्तप्रभा नैरयिक] जघन्य काळनी स्थितिवाळा पंचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पन्न थाय तो जघन्य अने उत्कृष्ट पण अन्तर्मुहूर्तनी स्थितिवाळा पंचेन्द्रिय तिर्यचमा उत्पन्न थाय. वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे कहेवुं. पण विशेष ए के काळनी अपेक्षाए जघन्य उपर

पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिको ५८

नैरयिकोनी पंचेन्द्रिय तिर्यचमा ५८५

रत्तप्रभानैरयिको पंचेन्द्रिय तिर्यचमा ५८५

परिमाण.

शरीर.

रत्तप्रभानैरयिको जघन्य पंचेन्द्रिय तिर्यचमा उत्पत्ति.

तियं कालं २ । एवं सेसा चि सत्त गमगा भाणियद्वा जहेव नेरइयउद्देशण सत्तिपंचिदिण्णिं नमं । णेरइयाणं मज्झिमणसु य तिसु चि गमणसु पच्छिमणसु तिसु चि गमणसु टित्तिपाणत्तं भवति, सेसं तं चैव । नवत्थ टित्ति संवेदं च जाणंजा ९ ।

७. [प्र०] सक्करप्पभापुढविनेरइए णं भंते ! जे भविणं ? [उ०] एवं जडा रयणप्पमाण णव गमगा तदेव नवरप्पभाए वि । नवरं सररीरोगाहणा जडा ओगाहणासंज्ञणे । तिप्पि णाणा तिप्पि अघाणा नियमं । टिती अणुबंधा पुद्दमणिया । एवं णव चि गमगा उवजुंजिऊण भाणियद्वा, एवं जाव-उट्टपुट्ठी । नवरं ओगाहणा लेस्सा टित्ति अणुबंधो संवेदो य जाणियद्वा ।

८. [प्र०] अहेसत्तमपुढवीनेरइए णं भंते ! जे भविणं ? [उ०] एवं चैव णव गमगा । णवरं ओगाहणा-लेस्सा-टित्ति-अणुबंधा जाणियद्वा । संवेदो भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाए, उक्कोसेणं छम्मवग्गहणाए । कालादेसेणं जहन्नेणं वाधीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं, उक्कोसेणं छावाट्ठिं सागरोवमाइं तिहिं पुव्वकोडीहिं अम्महियाइं-एवतियं० । आदिहणसु छसु चि गमणसु जहन्नेणं दो भवग्गहणाए, उक्कोसेणं छ भवग्गहणाए, पच्छिमणसु तिसु गमणसु जहन्नेणं दो भवग्गहणाए, उक्कोसेणं चत्तारि भवग्गहणाइं । उक्की नवसु चि गमणसु जहा पढमगमण । नवरं टित्तिविसेसो कालादेसो य चिनियगमणसु जहन्नेणं वाधीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं, उक्कोसेणं छावाट्ठिं सागरोवमाइं तिहिं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं-एवतियं कालं० । तदयगमए जहन्नेणं वाधीसं सागरोवमाइं पुव्वकोडीए अम्महियाइं, उक्कोसेणं छावाट्ठिं सागरोवमाइं तिहिं पुव्वकोडीहिं अम्महियाइं । चउत्थगमे जहन्नेणं वाधीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं, उक्कोसेणं छावाट्ठिं सागरोवमाइं तिहिं पुव्वकोडीहिं अम्महियाइं । पंचमगमए जहन्नेणं वाधीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं, उक्कोसेणं छावाट्ठिं सागरोवमाइं तिहिं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं । छट्ठमगमए जहन्नेणं वाधीसं सागरोवमाइं पुव्वकोडीहिं अम्महियाइं, उक्कोसेणं छावाट्ठिं सागरोवमाइं तिहिं पुव्वकोडीहिं अम्महियाइं । सत्तमगमए जहन्नेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं, उक्कोसेणं छावाट्ठिं सागरोवमाइं दोहिं पुव्वकोडीहिं अम्महियाइं । अट्ठमगमए जहन्नेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं, उक्कोसेणं छावाट्ठिं सागरोवमाइं दोहिं अंतोमुहुत्तमम्महियाइं । णवमगमए जहन्नेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं पुव्वकोडीहिं अम्महियाइं, उक्कोसेणं छावाट्ठिं सागरोवमाइं दोहिं पुव्वकोडीहिं अम्महियाइं-एवतियं० ९ ।

प्रमाणे अने उक्कट्ट चार अन्तर्मुहूर्त अधिक चार सागरोपम-एटलो काल यावत्-गतिआगति करे (२). ए प्रमाणे वाकीना नात गमो जेम नैरयिकउद्देशकमा सत्ती पचेन्द्रियो साथे कहा छे तेम अरि पण जाणवा. वचेना त्रण गमको अने छेडा त्रण गमकोमा स्थितिनी विशेषता छे वाकी वहुं पूर्वे कहा प्रमाणे जाणवुं. वधे टेकाणे स्थिति अने संवेध भिन्न भिन्न विचारिने कहेयो ९.

शंकराप्रमाणारक-
नी ५० निर्वचमा
उत्पत्ति.

७. [प्र०] हे भगवन् ! शंकराप्रमाणो नैरयिक जे पंचेन्द्रिय तिर्यचोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे-एत्यादि जेम रत्तप्रभा संवेधे नव गमको कहा छे तेम शंकराप्रभा संवेधे पण नव गमको कहेवा. परंतु विशेष ए के शरीरनी अवगाहना अवगाहना-सत्त्वानपट्टमा का प्रमाणे जाणवी तेने त्रण ज्ञान अने त्रण अज्ञान अवश्य होय छे. स्थिति अने अनुबंध पूर्वे कहेल छे. ए प्रमाणे नवे गमो विचारपूर्वक कहेवा. एम यावत्-उट्टी नरकपृथिवी सुधी जाणवुं पण विशेष ए के अर्हा अवगाहना, लेइया, स्थिति, अनुबंध अने संवेध भिन्न भिन्न जाणवा

सत्तमनरकना नैर-
यिकनी ५० निर्वच-
मा उत्पत्ति

८. [प्र०] हे भगवन् ! अधःसत्तम नरक पृथिवीनो नैरयिक जे पंचेन्द्रिय निर्वचयोनिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला कालनी स्थितिवाळा पचेन्द्रिय निर्वचमा उत्पन्न थाय ? [उ०] पूर्वे प्रमाणे नवे गमको कहेवा. विशेष ए के अर्हा अवगाहना, लेइया, स्थिति अने अनुबंध भिन्न भिन्न जाणवा. संवेध-भवनी अपेक्षाए जवन्थ वे भव अने उक्कट्ट छ भव, तथा कालनी अपेक्षाए जवन्थ अन्तर्मुहूर्त अधिक वाधीश सागरोपम अने उक्कट्ट त्रण पूर्वकोटी अधिक छसठ सागरोपम-एटलो काल यावत्-गमनागमन करे. पहिले छ ए गमकोमा जवन्थ वे भव अने उक्कट्ट छ भव, तथा पाटळना त्रणे गमकोमा जवन्थ वे भव अने उक्कट्ट चार भव जाणवा नवे गमकोमा प्रथम गमकनी पेटे वक्तव्यता कहेवी. पण बीजा गममा स्थितिनी विशेषता छे. तथा कालनी अपेक्षाए जवन्थ अन्तर्मुहूर्त अधिक वाधीश सागरोपम अने उक्कट्ट त्रण अन्तर्मुहूर्त अधिक छसठ सागरोपम-एटलो काल यावत्-गमनागमन करे. त्रीजा गममा जवन्थ पूर्वकोटी अधिक वाधीश सागरोपम अने उक्कट्ट त्रण पूर्वकोटी अधिक छसठ सागरोपम, चौथा गममा जवन्थ अन्तर्मुहूर्त अधिक वाधीश सागरोपम अने उक्कट्ट त्रण पूर्वकोटी अधिक छसठ सागरोपम, पाचमा गममा जवन्थ अन्तर्मुहूर्त अधिक वाधीश सागरोपम अने उक्कट्ट त्रण अन्तर्मुहूर्त अधिक छसठ सागरोपम, छट्टा गममा जवन्थ पूर्वकोटी अधिक वाधीश सागरोपम अने उक्कट्ट त्रण अन्तर्मुहूर्त अधिक छसठ सागरोपम, सातमा गममा जवन्थ अन्तर्मुहूर्त अधिक तेत्रीश सागरोपम अने उक्कट्ट वे पूर्वकोटी अधिक छसठ सागरोपम, आठमा गममा जवन्थ अन्तर्मुहूर्त अधिक तेत्रीश सागरोपम, अने उक्कट्ट वे अन्तर्मुहूर्त अधिक छसठ सागरोपम, तथा नवमा गममा जवन्थ पूर्वकोटी अधिक तेत्रीश सागरोपम, अने उक्कट्ट वे पूर्वकोटी अधिक छसठ सागरोपम-एटलो काल यावत्-गमनागमन करे.

९. [प्र०] जइ तिरिक्खजोणिपहिंतो उववज्जन्ति किं एग्गिदियतिरिक्खजोणिपहिंतो ? [उ०] एवं उववाओ जहा पुढविकाइयउद्देशए, जाव—

१०. [प्र०] पुढविकाइए णं भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्खजोणिपसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवति० ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तट्टित्तिएसु, उक्कोसेणं पुद्दकोडीआउएसु उववज्जंति ।

११. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा० ? [उ०] एवं परिमाणादीया अणुबंधपज्जवसाणा जञ्जेव अप्पणो सट्टाणे वत्तवया सञ्जेव पंचिदियतिरिक्खजोणिपसु वि उववज्जमाणस्स भाणियव्वा । णवरं णवसु वि गमपसु परिमाणे जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा उववज्जंति । भवादेसेण वि णवसु वि गमपसु जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं, सेसं तं चेव । कालादेसेणं उभओ द्वितीए करेज्जा ।

१२. [प्र०] जइ आउक्काइएहिंतो उववज्जंति० ? [उ०] एवं आउक्काइयाण वि । एवं जाव—चउरिंदिया उववापयव्वा । नवरं सच्चत्थ अप्पणो लद्धी भाणियव्वा । णवसु वि गमपसु भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं । कालादेसेणं उभओ ठित्तिं करेज्जा सर्वेसि सच्चगमपसु । जहेव पुढविकाइएसु उववज्जमाणं लद्धी तहेव सच्चत्थ ठित्तिं संवेहं च जाणेज्जा ।

१३. [प्र०] जइ पंचिदियतिरिक्खजोणिपहिंतो उववज्जंति किं सन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिपहिंतो उववज्जंति, असन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिपहिंतो उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! सन्निपंचिदिय०, असन्निपंचिदिय०, भेओ जहेव पुढविकाइएसु उववज्जमाणस्स, जाव—

१४. [प्र०] असन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिप णं भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्खजोणिपसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवतिकाल० ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त०, उक्कोसेणं पल्लिओवमस्स असंखेज्जइभागट्टितीपसु उववज्जंति ।

१५. [प्र०] ते णं भंते !० ? [उ०] अवसेसं जहेव पुढविकाइएसु उववज्जमाणस्स असन्निस्स तहेव निरवसेसं, जाव—‘भवादेसो’त्ति । कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं पल्लिओवमस्स असंखेज्जइभागं पुद्दकोडिपुहुत्तमम्भहियं—

९. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते (सञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यंच) तिर्यंचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं एकेन्द्रिय तिर्यंचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि पृथिवीकायिक उद्देशकमा क्ख्या प्रमाणे अहीं उपपात कहेवो. यावत्—

१०. [प्र०] हे भगवन् ! जे पृथिवीकायिक, पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिकोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट पूर्वकोटीनी स्थितिवाळामा उत्पन्न थाय.

११. [प्र०] हे भगवन् ! ते (पृथिवीकायिको) एक समये केटला उत्पन्न थाय—इत्यादि परिमाणथी माडी अनुबंध सुधी जे पोताना स्वस्थानमा वक्तव्यता कही छे तेज प्रमाणे अहिं पण कहेवी. परन्तु विशेष ए के नवे गमकोमा परिमाण जघन्य एक, वे के त्रण अने उत्कृष्ट सख्याता के असंख्याता उत्पन्न थाय छे. सवेध—भवनी अपेक्षाए नवे गमोमा जघन्य वे भव अने उत्कृष्ट आठ भव जाणवा. वाकी वधुं पूर्वे क्ख्या प्रमाणे जाणवुं. काळनी अपेक्षाए वनेनी स्थिति एकठी करवावडे सवेध करवो.

१२. जो ते (पंचेन्द्रिय तिर्यंचो) अष्कायिकोथी आवी उत्पन्न थाय तो—इत्यादि पूर्व प्रमाणे अष्काय सर्ववे पण कहेवुं. अने ए प्रमाणे यावत्—चउरिन्द्रिय सुधीनो उपपात कहेवो. परन्तु सर्व ठेकाणे पोतपोतानी वक्तव्यता कहेवी. नवे गमकोमा भवादेश जघन्य वे भव अने उत्कृष्ट आठ भव, तथा काळादेश वनेनी स्थिति जोडीने करवो. जे प्रमाणे पृथिवीकायिकोमा उत्पन्न थनारनी वक्तव्यता कही छे तेज प्रमाणे वधा गमोमा वधा जीवो सर्ववे कहेवी, अने वधे ठेकाणे स्थिति अने सवेध भिन्न जाणवो.

१३. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते (पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिको) पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं सञ्जी पंचेन्द्रिय-तिर्यंचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय के असञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ वने प्रकारना तिर्यंचोमाथी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि पृथिवीकायिकोमा उत्पन्न थनार तिर्यंचोना भेदो क्ख्या छे तेम अहीं पण कहेवा. यावत्—

१४. [प्र०] हे भगवन् ! असञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिक, जे पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा स० पंचेन्द्रिय तिर्यंचमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट पल्योपमना असख्यातमा भागनी स्थितिवाळा पंचेन्द्रिय तिर्यंचमा उत्पन्न थाय.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! ते (असञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिको) एक समये केटला उत्पन्न थाय—इत्यादि संबंधे पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थनार असञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यंचोनी वक्तव्यता कही छे ते प्रमाणे यावत्—भवादेश सुधी कहेवी. काळनी अपेक्षाए जघन्य वे

तिर्यंचयोनिको
पंचेन्द्रिय तिर्यंच
उत्पत्ति
परिमाण.

अष्कायिकोनी प
तिर्यंचमा उत्पत्ति

प० तिर्यंचोनी प
तिर्यंचोमा उत्पत्ति

असञ्जी प० तिर्यंच
स० प० तिर्यंचमा
उत्पत्ति.

उत्पात परिमाण.

एवतियं० १ । चित्तिगमए एस चैव लङ्गी । नवरं फालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोटियो चउहिं अंतोमुहुत्तेहिं अम्महियाओ-एवतियं० २ ।

१६. सो चैव उक्कोसकालट्टितीएसु उववन्नो जहन्नेणं पल्लिओवमस्स असंखेज्जतिमागट्टिइएणु, उक्कोसेणं वि पल्लिओवमस्स असंखेज्जइमागट्टितीएसु उववज्जंति । [प्र०] ते णं भंते ! जीवा० ? [उ०] एवं जहा रयणप्पभाण उववज्जमाणस्स असन्निस्स तद्देव निरवसेसं जाव-‘कालादेसो’त्ति । नवरं परिमाणे जहन्नेणं एको वा दो वा तिग्घि वा, उक्कोसेणं संखेजा उववज्जंति, सेसं तं चैव ३ ।

१७. सो चैव अप्पणा जहन्नकालट्टितीओ जाओ जहन्नेणं अंतोमुहुत्तट्टितीएसु, उक्कोसेणं पुव्वकोटिआउएणु उववज्जंति । ते णं भंते !- अवसेसं जहा एयस्स पुव्वविक्काइएणु उववज्जमाणस्स मज्जिमेसु तिसु गमएणु तद्दा इह वि मज्जिमेसु तिसु गमएणु जाव-अणुबंधोत्ति । भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाटं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाटं । कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोटीओ चउहिं अंतोमुहुत्तेहिं अम्महियाओ ४ ।

१८. सो चैव जहन्नकालट्टितीएसु उववन्नो एस चैव वत्तघया । नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं अट्ट अंतोमुहुत्ता-एवतियं० ५ ।

१९. सो चैव उक्कोसकालट्टितीएसु उववन्नो जहन्नेणं पुव्वकोटिआउएणु, उक्कोसेणं वि पुव्वकोटिआउएणु उववज्जइ-एस चैव वत्तघया । नवरं कालादेसेणं जाणेजा ६ ।

२०. सो चैव अप्पणा उक्कोसकालट्टितीओ जाओ सधेव पढमगमगचत्तघया । नवरं टिती जहन्नेणं पुव्वकोटी, उक्कोसेणं वि पुव्वकोटी, सेसं तं चैव । कालादेसेणं जहन्नेणं पुव्वकोटी अंतोमुहुत्तम्महिया, उक्कोसेणं पल्लिओवमस्स असंखेज्जइमागं पुव्वकोटिपुहुत्तम्महियं-एवतियं० ७ ।

२१. सो चैव जहन्नकालट्टितीएसु उववन्नो, एस चैव वत्तघया जहा सत्तमगमे । नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं पुव्वकोटी अंतोमुहुत्तम्महिया, उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोटीओ चउहिं अंतोमुहुत्तेहिं अम्महियाओ-एवतियं० ८ ।

अन्तर्मुहूर्त अने उक्कट्ट पूर्वकोटीपृथक्च अधिक पल्योपमनो असल्यातमो भाग-एटलो काळ यावत्-गमनागमन करे (१). वीजा गमना पण एज वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के काळादेशयी जवन्य वे अन्तर्मुहूर्त अने उक्कट्ट चार अन्तर्मुहूर्त अधिक चार पूर्वकोटी-एटलो काळ यावत्-गतिआगति करे (२).

१६. जो ते (असङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक्) उक्कट्ट काळनी स्थितिवाळा सङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिक्कोमा उत्पन्न थाय तो जघन्य अने उक्कट्ट पल्योपमना असल्यातमा भागनी स्थितिवाळा संङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचमा उत्पन्न थाय. हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय-इत्यादि जेम रत्नप्रभा पृथिवीमा उत्पन्न थनार असङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचनी वक्तव्यता कही छे तेम यावत्-काळादेश सुधी वधी वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के परिमाण-जघन्य एक, वे, के त्रण अने उक्कट्ट सल्याता उत्पन्न थाय छे. वाकी वधुं ते प्रमाणे जाणवुं (३).

१७. जो ते पोते जघन्यकाळनी स्थितिवाळो होय तो जघन्य अन्तर्मुहूर्तनी स्थितिवाळा अने उक्कट्ट पूर्वकोटी वर्पनी स्थितिवाळा संङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचमा उत्पन्न थाय, हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय-इत्यादि पृथिवीकायिकोमां उत्पन्न थता जघन्य आयुपवाळा असंङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचने वच्चेना त्रण गममा जेम कहुं छे तेम अहि पण त्रणे गमकोमा यावत्-अनुबंध सुधी वधुं कहेवुं. भवादेशयी जघन्य वे भव अने उक्कट्ट आठ भव तथा काळादेश वडे जघन्य वे अन्तर्मुहूर्त अने उक्कट्ट चार अन्तर्मुहूर्त अधिक चार पूर्वकोटी वर्प-एटलो काळ यावत्-गमनागमन करे (४).

१८. जो ते (असङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यच) जघन्य काळनी स्थितिवाळा सङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचोमां उत्पन्न थाय तो तेने पण एज वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के काळादेशयी जघन्य वे अन्तर्मुहूर्त अने उक्कट्ट आठ अन्तर्मुहूर्त-एटलो काळ यावत्-गतिआगति करे (५).

१९. जो ते ज उक्कट्ट काळनी स्थितिवाळा संङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक्कोमा उत्पन्न थाय तो जघन्य अने उक्कट्ट पूर्वकोटी वर्पनी स्थितिवाळा सङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचमा उत्पन्न थाय. अही एज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के अही काळादेश भिन्न जाणवो (६).

२०. जो ते ज जीव पोते उक्कट्टकाळनी स्थितिवाळो होय तो तेने प्रथम गमकनी वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के स्थिति जघन्य अने उक्कट्ट पूर्वकोटीनी होय छे. वाकी वधुं पूर्वे कखा प्रमाणे जाणवुं. काळादेशयी जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक चार पूर्वकोटी अने उक्कट्ट पूर्वकोटीपृथक्च अधिक पल्योपमनो असल्यातमो भाग-एटलो काळ यावत्-गमनागमन करे (७).

२१. जो ते जीव जघन्यकाळनी स्थितिवाळा तिर्यचमा उत्पन्न थाय तो तेने पण एज (सातमा गमकनी) वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के काळादेशयी जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक पूर्वकोटी अने उक्कट्ट चार अन्तर्मुहूर्त अधिक चार पूर्वकोटी-एटलो काळ यावत्-गमनागमन करे (८).

असङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक्कोमा उत्पन्न थाय तो जघन्य अने उक्कट्ट पल्योपमना असल्यातमा भागनी स्थितिवाळा संङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचमा उत्पन्न थाय. हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय-इत्यादि जेम रत्नप्रभा पृथिवीमा उत्पन्न थनार असङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचनी वक्तव्यता कही छे तेम यावत्-काळादेश सुधी वधी वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के परिमाण-जघन्य एक, वे, के त्रण अने उक्कट्ट सल्याता उत्पन्न थाय छे. वाकी वधुं ते प्रमाणे जाणवुं (३).

जघ० असङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक्कोमा उत्पन्न थाय तो जघन्य अने उक्कट्ट पूर्वकोटी वर्पनी स्थितिवाळा संङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचमा उत्पन्न थाय. अही एज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के अही काळादेश भिन्न जाणवो (६).

असङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक्कोमा उत्पन्न थाय तो जघन्य अने उक्कट्ट पूर्वकोटी वर्पनी स्थितिवाळा संङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचमा उत्पन्न थाय. अही एज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के अही काळादेश भिन्न जाणवो (६).

जघ० असङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक्कोमा उत्पन्न थाय तो जघन्य अने उक्कट्ट पूर्वकोटी वर्पनी स्थितिवाळा संङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचमा उत्पन्न थाय. अही एज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के अही काळादेश भिन्न जाणवो (६).

जघ० असङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक्कोमा उत्पन्न थाय तो जघन्य अने उक्कट्ट पूर्वकोटी वर्पनी स्थितिवाळा संङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचमा उत्पन्न थाय. अही एज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के अही काळादेश भिन्न जाणवो (६).

जघ० असङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक्कोमा उत्पन्न थाय तो जघन्य अने उक्कट्ट पूर्वकोटी वर्पनी स्थितिवाळा संङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यचमा उत्पन्न थाय. अही एज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के अही काळादेश भिन्न जाणवो (६).

२२. सो चेव उक्कोसकालट्टिइएसु उववन्नो, जहन्नेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेण वि पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं, एवं जहा रयणप्पभाए उववज्जमाणस्स असन्निस्स नचमगमए तद्देव निरवसेसं जाव—'कालादेसो'त्ति । नवरं परिमाणं जहा एयस्सेव ततियगमे, सेसं तं चेव ९ ।

२३. [प्र०] जइ सन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिपहिंतो उववज्जंति किं संखेज्जवासाउय०, असंखेज्जवासाउय० ? [उ०] गोयमा ! संखेज्ज०, गो असंखेज्ज० ।

२४. [प्र०] जइ संखेज्ज० जाव—किं पज्जत्तसंखेज्ज०, अपज्जत्तसंखेज्ज० ? [उ०] दोसु वि ।

२५. [प्र०] संखेज्जवासाउयसन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिए जे भविए पंचिदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवतिं ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त०, उक्कोसेणं तिपलिओवमट्टितीएसु उववज्जेज्जा ।

२६. [प्र०] ते णं भंते ! अवसेसं जहा एयस्स चेव सन्निस्स रयणप्पभाए उववज्जमाणस्स पढमगमए । नवरं ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं, सेसं तं चेव जाव—'भवादेसो'त्ति । कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं पुव्वकोडीपुहुत्तमव्वहियाइं—एवतियं० १ ।

२७. सो चेव जहन्नकालट्टितीएसु उववन्नो एस चेव वत्तद्यया । नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहि अंतोमुहुत्तेहिं अव्वहियाओ २ ।

२८. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववन्नो जहन्नेणं तिपलिओवमट्टितीएसु, उक्कोसेण वि तिपलिओवमट्टितीएसु उववज्जति—एस चेव वत्तद्यया । नवरं परिमाणं जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जंति । ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं, सेसं तं चेव जाव—'अणुबंधो'त्ति । भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं । कालादेसेणं जहन्नेणं तिन्नि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तमव्वहियाइं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं पुव्वकोडीए अव्वहियाइं ३ ।

२२. जो ते उत्कृष्टकाळनी स्थितिवाळा सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचमा उत्पन्न थाय तो ते जघन्य अने उत्कृष्ट पल्योपमना असंख्या-तमा भागनी स्थितिवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचमां, उत्पन्न थाय—इत्यादि जेम रत्नप्रभामा उत्पन्न थनार असज्ञी पंचेन्द्रियनी वक्तव्यता कही छे तेम यावत्—काळादेश सुधी वधी वक्तव्यता कहेवी. परन्तु आना त्रीजा गममा कह्या प्रमाणे परिमाण कहेवुं. वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणवुं (९).

उ० असगी प० ति
चनी उ० सगी प
तिर्यचमा उत्पत्ति

२३. [प्र०] जो ते (संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच) सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोधी आवी उत्पन्न थाय तो शुं सख्याता वर्पना आयु-पवाळा के असंख्याता वर्पना आयुपवाळांमाथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ संख्याता वर्पना आयुपवाळा तिर्यचोमाथी आवी उत्पन्न थाय, पण असंख्याता वर्पना आयुपवाळा तिर्यचोमाथी आवी न उत्पन्न थाय.

१ संज्ञी प० तिर्य
सं० प० तिर्यचमा
उत्पत्ति

२४. [प्र०] जो तेओ सख्याता वर्पना आयुपवाळा सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचमाथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं पर्याप्त सख्याता वर्पना आयुपवाळा के अपर्याप्त सख्याता वर्पना आयुपवाळा सज्ञी पं० तिर्यचमाथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] तेओ वन्नेमाथी आवी उत्पन्न थाय.

२५. [प्र०] हे भगवन् ! सख्याता वर्पना आयुपवाळो संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक, जे सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा संज्ञी पं० तिर्यचमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट त्रण पल्योपमनी स्थितिवाळा सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचमा उत्पन्न थाय.

२६. [प्र०] हे भगवन् ! ते सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचो एक समये केटला उत्पन्न थाय—इत्यादि रत्नप्रभामां उत्पन्न थनार आ संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचना प्रथम गमकनी पेटे वधुं जाणवुं. परन्तु शरीरप्रमाण जघन्य अंगुलनो असंख्यातमो भाग अने उत्कृष्ट एक हजार योजन होय छे. वाकी वधुं ते ज प्रमाणे यावत्—भवादेश सुधी जाणवुं. काळादेशधी जघन्य वे अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी पृथक्कव अधिक त्रण पल्योपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (१).

परिमाणादि.

२७. जो ते ज जीव जघन्यकाळनी स्थितिवाळा सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पन्न थाय तो तेने ए ज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. परन्तु काळादेशधी जघन्य वे अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट चार अन्तर्मुहूर्त अधिक चार पूर्वकोटी—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे. (२)

० सगी प० तिर्यचम
जघन्य० सगी प
तिर्यचमा उत्पत्ति

२८. जो ते ज उत्कृष्ट काळनी स्थितिवाळा सज्ञी पं० तिर्यचमा उत्पन्न थाय तो जघन्य अने उत्कृष्ट त्रण पल्योपमनी स्थितिवाळा संज्ञी पं० तिर्यचमा उत्पन्न थाय—इत्यादि पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण परिमाण—जघन्य एक, वे के त्रण अने उत्कृष्ट *सख्याता जीवो उत्पन्न थाय. तेनुं शरीर जघन्य अंगुलनो असंख्यातमो भाग अने उत्कृष्ट एक हजार योजन होय छे. वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे यावत्—अनुबंध सुधी जाणवुं. भवादेशधी वे भव अने काळादेशधी जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक त्रण पल्योपम तथा उत्कृष्ट पूर्वकोटी अधिक त्रण पल्योपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (३).

३ सगी पं० तिर्यचम
उत्कृष्ट० सगी प०
तिर्यचमा उत्पत्ति.

२८ * उत्कृष्ट स्थितिवाळा सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचो असख्यात वर्पना आयुपवाळा ज होय छे, अने ते सख्याता होवाथी उत्कृष्टपणे पण सख्याता ज चपजे छे.

२९. सो चैव अय्यणा जह्वनकालद्वितीयो जातो, जह्वनेण अंतोमुहुच०, उक्कोसेणं पुव्वकोडीयाउपसु उववज्जति । लङ्गी से जहा एयस्स चैव सन्निरपिचिदियस्स पुव्वविक्काउपसु उववज्जमाणस्स मज्झिमेषु तिसु गमपसु सचैव इह वि मज्झिमेसु तिसु गमपसु कायवा । संवेहो जह्व चैव असन्निसु मज्झिमेसु तिसु गमपसु ६ ।

३०. सो चैव अय्यणा उक्कोसकालद्वितीयो जातो जहा पढमगमयो । णवरं द्विती अणुबंधो जह्वनेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी । कालादेसेणं जह्वनेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुचमम्महिया, उक्कोसेणं तिन्नि पल्लिओवमाइं पुव्वकोडीपुहुत्तमम्महियाइं ७ ।

३१. सो चैव जह्वनकालद्वितीपसु उववन्नो एस चैव वत्तघया । नवरं कालादेसेणं जह्वनेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुचमम्महिया, उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहिं अंतोमुहुचेहिं अम्महियाओ ८ ।

३२. सो चैव उक्कोसकालद्वितीपसु उववन्नो जह्वनेणं तिपल्लिओवमद्वितीपसु, उक्कोसेण वि तिपल्लिओवमद्वितीपसु, अयसेसं तं चैव । नवरं परिमाणं श्रोगाहणा य जहा एयस्सेच तयगमप । सवादेसेणं दो भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जह्वनेणं तिन्नि पल्लिओवमाइं पुव्वकोडीप अम्महियाइं, उक्कोसेणं तिन्नि पल्लिओवमाइं पुव्वकोडीप अम्महियाइं—एवतियं ९ ।

३३. [प्र०] जट मणुस्सेहिंतो उववज्जति किं सन्निमणु०, असन्निमणु० ? [उ०] गोयमा ! सन्निमणुस्सेहिंतो वि, असन्निमणुस्सेहिंतो वि उववज्जति ।

३४. [प्र०] असन्निमणुस्से णं मंते ! जे मविए पंचिदियतिरिक्खजोणिपसु उववज्जित्तए से णं मंते ! केवतिकाल० ? [उ०] गोयमा ! जह्वनेणं अंतोमुहुच०, उक्कोसेणं पुव्वकोडियाउपसु उववज्जति । लङ्गी से तिसु वि गमपसु जह्वेव पुव्वविक्काउपसु उववज्जमाणस्स । संवेहो जहा एय चैव असन्निरपिचिदियस्स मज्झिमेसु तिसु गमपसु तहैव निरयसेसो भाणियधो ।

२९. जो ते (मंत्री पंचेन्द्रिय निबंध) पोते ज जवन्य स्थितिवायो होय [अने ते संज्ञी पं० निबंधमा उपन्न थाय] तो ते जवन्य अन्तर्मुहूर्त आनुप्रवाजा अने उच्छ्रष्ट पूर्वकोटीनी स्थितिवाया संज्ञी पंचेन्द्रिय निबंधयोनिकर्मा उत्पन्न थाय तेने पृथिवीकायिकर्मा उत्पन्न यता आज मंत्री पंचेन्द्रियनी जे वक्तव्यता कही छे ते आ उद्देशकमा मय्यना चोया, पाचमा अने उच्छ्रा ए त्रण गमकर्मा कहेवी. अने [संज्ञी पंचेन्द्रिय निबंधमा उत्पन्न यता] असंज्ञी पंचेन्द्रियने मय्यना त्रण गमकर्मा जे संवेव कह्यो छे ते प्रमाणे अहिं कहेवो (६).

३०. जो ते पोते उच्छ्रष्ट काळनी स्थितिवायो होय तो तेने प्रथम गमकर्मा पेठे कहेवुं. परन्तु स्थिति अने अनुबंध जवन्य तथा उच्छ्रष्ट पूर्वकोटी होय छे. काळादेवार्थी जवन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक पूर्वकोटी अने उच्छ्रष्ट पूर्वकोटी पृथक्च अधिक त्रण पल्लोपम—पट्टयो काळ यावत्—गमनागमन करे (७).

३१. जो ते ज जीव (उ० संज्ञी पंचेन्द्रिय निबंध) जवन्य स्थितिवाया संज्ञी पंचेन्द्रिय निबंधयोनिकर्मा उत्पन्न थाय तो तेने ए ज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवो. पण विशेष ए के काळादेवार्थी जवन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक पूर्वकोटी अने उच्छ्रष्ट चार अन्तर्मुहूर्त अधिक चार पूर्वकोटी—पट्टयो काळ यावत्—गमनागमन करे (८).

३२. जो ते उच्छ्रष्टकाळनी स्थितिवाया संज्ञी पंचेन्द्रिय निबंधयोनिकर्मा उत्पन्न थाय तो ते जवन्य अने उच्छ्रष्ट त्रण पल्लोपमनी स्थितिवाया सं० पं० निबंधमा उत्पन्न थाय. आकी वधु पूर्वे कया प्रमाणे जाणवुं. पण विशेष ए के परिमाण अने अवगाहना आना आना गमकर्मा वया प्रमाणे जाणवो. नवादेवार्थी वे मव अने काळादेवार्थी जवन्य अने उच्छ्रष्ट पूर्वकोटी अधिक त्रण पल्लोपम—पट्टयो काळ यावत्—गतिआगति करे (९).

३३. [प्र०] जो (सं० पं० निबंधो) मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय तो शुं संज्ञी मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय के असंज्ञी मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! नेओ संज्ञी अने असंज्ञी ए अने प्रचारना मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय.

३४. [प्र०] हे मगध् ! असंज्ञी मनुष्य, जे पंचेन्द्रिय निबंधयोनिकर्मा उत्पन्न यवाने योग्य छे ते केटवा काळनी स्थितिवाया संज्ञी पं० निबंधमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जवन्य अन्तर्मुहूर्त अने उच्छ्रष्ट पूर्वकोटीनी स्थितिवाया संज्ञी पं० निबंधमा उत्पन्न थाय. पृथिवीकायिकर्मा उत्पन्न यता असंज्ञी मनुष्यनी प्रथमना त्रण गमकर्मा जे वक्तव्यता कही छे ते अही प्रथमना त्रणे गमकर्मा कहेवी. अने संवेव असंज्ञी पंचेन्द्रियना मय्यना त्रण गमकर्मा कह्यो छे ते प्रमाणे अहिं कहेवो.

४ अन्तः १ सं० पं०
निबंधमा उत्पन्न
विषयमा उत्पन्न

७ उच्छ्रष्ट १ सं० पं०
निबंधमा उत्पन्न
विषयमा उत्पन्न

८ उच्छ्रष्ट १ सं० पं०
निबंधमा उत्पन्न
विषयमा उत्पन्न

९ उच्छ्रष्ट १ सं० पं०
निबंधमा उत्पन्न
विषयमा उत्पन्न

१० उच्छ्रष्ट १ सं० पं०
निबंधमा उत्पन्न
विषयमा उत्पन्न

११ उच्छ्रष्ट १ सं० पं०
निबंधमा उत्पन्न
विषयमा उत्पन्न

३५. [प्र०] जइ सन्निमणुस्सेहिंतो० किं संखेज्जवासाउयसन्निमणुस्सेहिंतो०, असंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्सेहिंतो० ? [उ०] गोयमा ! संखेज्जवासाउय०, नो असंखेज्जवासाउय० ।

३६. [प्र०] जइ संखेज्जवासाउय० किं पज्जत्त०, अपज्जत्त० ? [उ०] गोयमा ! पज्जत्तसंखेज्जवासाउय०, अपज्जत्तसंखेज्जवासाउय० ।

३७. [प्र०] सन्निमणुस्से णं भंते ! जे भविण् पंचिदियतिरिक्खजोणिण्णु उववज्जित्तण्णं से णं भंते ! केवति० ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिपलिओवमट्ठित्तिण्णु उववज्जित्ति ।

३८. [प्र०] ते णं भंते !० [उ०] लद्धी से जहा एयस्सेव सन्निमणुस्सस्स पुढविक्काइण्णु उववज्जमाणस्स पढमगमण्णं जाव—'भवादेसो'त्ति । कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं पुढकोडिपुहत्तमम्भहियाइं १ ।

३९. सो चेव जहन्नकालट्ठित्तिण्णु उववन्नो एस चेव वत्तघया । णवरं कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं चत्तारि पुढकोडीओ चउहिं अंतोमुहुत्तेहिं अम्महियाओ २ ।

४०. सो चेव उक्कोसकालट्ठित्तिण्णु उववन्नो जहन्नेणं तिपलिओवमट्ठिण्णु, उक्कोसेणं वि तिपलिओवमट्ठिण्णु—सचेव वत्तघया । नवरं ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलपुहत्तं, उक्कोसेणं पंच धणुत्तयाइं । ठिती जहन्नेणं मासपुहत्तं, उक्कोसेणं पुढकोडी । एवं अणुबंधो वि । भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहन्नेणं तिन्नि पलिओवमाइं मासपुहत्तमम्भहियाइं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं पुढकोडीण्णु अम्महियाइं—एवतियं० ३ ।

३५. [प्र०] हे भगवन् ! जो (सञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यंच) सञ्जी मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय तो तुं सख्याता वर्पना आयुपवाळा सञ्जी मनुष्योयी के असख्याता वर्पना आयुपवाळा सञ्जी मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ सख्याता वर्पना आयुपवाळा सञ्जी मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय, पण असख्याता वर्पना आयुपवाळा मनुष्योयी आवी उत्पन्न न थाय.

सञ्जी मनुष्योयी संखे
पंचेन्द्रिय
तिर्यंचमा
उत्पत्ति

३६. [प्र०] जो तेओ (सञ्जी पंचेन्द्रिय) सख्याता वर्पना आयुपवाळा मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय तो तुं पर्याप्ता मनुष्योयी के अपर्याप्ता मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ पर्याप्ता अने अपर्याप्ता वने प्रकारना मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय.

३७. [प्र०] सख्याता वर्पना आयुपवाळो सञ्जी पंचेन्द्रिय मनुष्य, जे सञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यंचमा उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते केटला कालनी स्थितिवाळा सञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यंचमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट त्रण पल्योपमनी स्थितिवाळा स० पंचेन्द्रिय तिर्यंचमा उत्पन्न थाय.

३८. [प्र०] हे भगवन् ! ते सञ्जी मनुष्यो एक समये केटला उत्पन्न थाय—इत्यादि पृथिवीकायिकोमा उत्पन्न थता ए ज सञ्जी मनुष्यनी प्रथम गमकमा कहेली वक्तव्यता यावत्—भवादेश सुधी अही कहेवी. काळादेशथी जघन्य वे अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी पृथक्त्व अधिक त्रण पल्योपम—एटलो काल यावत्—गतिआगति करे (१).

परिमाणदि.

३९. जो ते सञ्जी मनुष्य जघन्य काळनी स्थितिवाळा सञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिकमा उत्पन्न थाय तो तेने ए ज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. परन्तु काळादेशथी जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट चार अन्तर्मुहूर्त अधिक चार पूर्वकोटी वर्प—एटलो काल यावत्—गमनागमन करे (२).

सञ्जी मनुष्यनी जघन्य
स० पंचेन्द्रिय
तिर्यंचमा
उत्पत्ति.

४०. जो ते ज मनुष्य उत्कृष्ट काळनी स्थितिवाळा तिर्यंचमा उत्पन्न थाय तो ते जघन्य अने उत्कृष्ट त्रण पल्योपमनी स्थितिवाळा सञ्जी पंचेन्द्रिय तिर्यंचमा उत्पन्न थाय. (अही पण) ए ज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के शरीरप्रमाण जघन्य अंगुलपृथक्त्व अने उत्कृष्ट पाचसो धनुप होय छे. आयुप जघन्य मासपृथक्त्व अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी होय छे. ए प्रमाणे अनुबंध पण जाणवो. भवादेशथी वे भव तथा काळादेशथी जघन्य मासपृथक्त्व अधिक त्रण पल्योपम अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी अधिक त्रण पल्योपम—एटलो काल यावत्—गमनागमन करे (३).

सञ्जी मनुष्यनी उ०
स० पंचेन्द्रिय
तिर्यंचमा
उत्पत्ति.

३८-३९ * पृथिवीकायिकमा उत्पन्न थता सञ्जी मनुष्यनी प्रथम गममा कहेली वक्तव्यता आ प्रमाणे छे. परिमाण—एक समये जघन्य एक, वे अने उत्कृष्ट सख्याता उत्पन्न थाय छे कारण के सञ्जी मनुष्यो हमेशा सख्याता ज होय छे तेने छ सघयण होय छे. उत्कृष्ट पाचसो धनुपनी अवगाहना, छ सम्यान, त्रण दृष्टि, विकल्पे चार ज्ञान अने त्रण अज्ञान, त्रण योग, वे प्रकारनो उपयोग, चार सजा, चार रूपाय, पाच इन्द्रिय, छ मसुद्घात, माता अने असाता, त्रण वेद, ज० अन्तर्मुहूर्तनु आयुप, उ० पूर्वकोटिनु आयुप, प्रज्ञान अने अज्ञान अथर्वसाध, स्थितिना गमान धनुबन्ध अने सवेध. जघन्य वे भव अने उत्कृष्ट आठ भव होय छे बीजा गममा प्रथम गममा कहेली वक्तव्यता कहेवी. परन्तु काळनी अपेक्षाए ज० वे अन्तर्मुहूर्त अने उ० चार अन्तर्मुहूर्त अधिक चार पूर्वकोटि सवेध जाणवो.—टीका.

४० † त्रीजा गममा पूर्वे कया प्रमाणे जाणवु परन्तु अवगाहना अंगुलपृथक्त्व—वे अंगुली नव अंगुल प्रमाण अने आयुप मासपृथक्त्व जाणवु आ कथनथी एटल जाणी शक्य छे के अंगुलपृथक्त्वथी न्यून शरीरवाळो तथा मासपृथक्त्वथी हीन आयुपवाळो मनुष्य उत्कृष्ट आयुपवाळा तिर्यंचमा उत्पन्न थतो नथी.—टीका.

४१. सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्टिट्ठिओ जाओ, जहा सन्निपंचंदियतिरिक्खजोणियस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स उववज्जमाणस्स मज्झिमेसु तिसु गमएसु वत्तघया भणिया एस चेव एसस्स वि मज्झिमेसु तिसु गमएसु निरवसेसा भाणि-यघा । नवरं परिमाणं उक्कोसेणं संपेज्जा उववज्जंति, सेसं तं चेव ६ ।

४२. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्टिट्ठिओ जातो सच्चय पढमगमगवत्तघया । नवरं ओगाहणा जहन्नेणं पंच धणुसयाइं । उक्कोसेणं पंच धणुसयाइं । ठित्ठी अणुबंधो जहन्नेणं पुच्चकोडी, उक्कोसेण वि पुच्चकोडी, सेसं तद्देव जाव—‘भवादेशो’त्ति, कालादेशेणं जहन्नेणं पुच्चकोडी अंतोमुहुत्तमम्महिया, उक्कोसेणं तिन्नि पल्लिओवमाइं पुच्चकोडिपुच्चत्तमम्महियाइं—एवतियं ७ ।

४३. सो चेव जहन्नकालट्टिट्ठिएसु उववन्नो एस चेव वत्तघया । नवरं कालादेशेणं जहन्नेणं पुच्चकोडी अंतोमुहुत्तमम्महिया, उक्कोसेणं चत्तारि पुच्चकोडीओ चउहिं अंतोमुहुत्तेहिं अम्महियाओ ८ ।

४४. सो चेव उक्कोसकालट्टिट्ठिएसु उववन्नो, जहन्नेणं तिन्नि पल्लिओवमाइं, उक्कोसेण वि तिन्नि पल्लिओवमाइं, एस चेव लद्धी जहेव सत्तमगमे । भवादेशेणं दो भवगहणाइं । कालादेशेणं जहन्नेणं तिन्नि पल्लिओवमाइं पुच्चकोडीए अम्महियाइं, उक्कोसेण वि तिन्नि पल्लिओवमाइं पुच्चकोडीए अम्महियाइं—एवतियं ९ ।

४५. [प्र०] जइ देवेहिंतो उववज्जंति किं भवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति, वाणमंतरं, जोहसियं, वेमाणियदेवेहिंतो ? [उ०] गोयमा ! भवणवासिदेवेहिंतो विं, जाव—वेमाणियदेवेहिंतो विं ।

४६. [प्र०] जइ भवणवासिं किं असुरकुमारभवणं, जाव—थणियकुमारभवणं ? [उ०] गोयमा ! असुरकुमारं, जाव—थणियकुमारभवणं ।

४७. [प्र०] असुरकुमारे णं भंते ! जे भविण पंचिंदियतिरिक्खजोणियएसु उववज्जित्तप से णं भंते ! केवतिं ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तट्टिट्ठिएसु, उक्कोसेणं पुच्चकोडिआउएसु उववज्जति । असुरकुमाराणं लद्धी णवसु वि गमएसु जहा पुढविक्काइएसु उववज्जमाणस्स, एवं जाव—ईसाणदेवस्स तद्देव लद्धी । भवादेशेणं सच्चय अट्ट भवगहणाइं, उक्कोसेणं जहन्नेणं दोन्नि भवगहणाइं । ठित्ठी संवेहं च सच्चय जाणेजा ९ ।

जव० संज्ञी मनुष्यनी
सं० प० तिर्यचमा
उत्पत्ति

४१. जो ते सज्ञी मनुष्य पोते जघन्यस्थितिवाळो होय तो तेने जेम पंचेन्द्रिय तिर्यचमा उत्पन्न थता पंचेन्द्रिय तिर्यचनी मध्यम त्रण गमकोनी वक्तव्यता कही छे तेम आनी पण मध्यम त्रण गमकोनी वधी वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के परिमाण ‘उत्कृष्ट सत्याता उपजे’ एम कहेवुं, अने वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणवुं. (६)

उत्कृष्ट० संज्ञी मनु-
ष्यनी सं० प० तिर्य-
चमा उत्पत्ति.

४२. जो ते (सज्ञी मनुष्य) पोते उत्कृष्ट काळनी स्थितिवाळो होय तो तेने प्रथम गमकनी वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के शरीरनी अवगाहना जघन्य अने उत्कृष्ट पाचसो धनुपनी होय छे. स्थिति अने अनुबंध जघन्य अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी होय छे. वाकी वधुं यावत्—भवादेश सुधी ते ज प्रमाणे जाणवुं. काळादेशाथी जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक पूर्वकोटी अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी पृथक्त्व अधिक त्रण पल्योपम—एटलो काळ यावत्—गतिआगति करे (७).

उ० सज्ञी मनुष्यनी
जव० सं० प० तिर्य-
चमा उत्पत्ति.

४३. जो ते ज मनुष्य जघन्य स्थितिवाळा तिर्यचमा उत्पन्न थाय तो तेने ए ज वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के काळादेशाथी जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक पूर्वकोटी अने उत्कृष्ट चार अन्तर्मुहूर्त अधिक चार पूर्वकोटी—एटलो काळ यावत्—गतिआगति करे (८).

उ० सज्ञी मनुष्यनी
उ० सज्ञी प० तिर्य-
चमा उत्पत्ति

४४. जो ते ज मनुष्य उत्कृष्टकाळनी स्थितिवाळा सज्ञी पं० तिर्यचयोनिकमा उत्पन्न थाय तो ते जघन्य अने उत्कृष्ट त्रण पल्यो-पमनी स्थितिवाळा सज्ञी० पं० तिर्यचमा उत्पन्न थाय. अहि पूर्वोक्त सातमा गमकनी वक्तव्यता कहेवी. भवादेशथी वे भव अने काळादे-शाथी जघन्य अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी अधिक त्रण पल्योपम—एटलो काळ यावत्—गतिआगति करे (९).

देवोनी सं० प०
तिर्यचोमा उत्पत्ति.

४५. जो ते (सं० पं० तिर्यचो) देवोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं भवनवासी देवोथी, वानव्यन्तर देवोथी, ज्योतिषिक देवोथी के वैमानिक देवोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ भवनवासी देवोथी, अने यावत्—वैमानिक देवोथी पण आवी उत्पन्न थाय.

असुरकुमार-
भवनवासी देवोनी
सं० प० तिर्यचोमा
उत्पत्ति

४६. [प्र०] जो ते भवनवासी देवोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं असुरकुमार भवनवासीथी के यावत्—स्तनितकुमार भवनवासी देवोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ असुरकुमारोथी, यावत्—स्तनितकुमार भवनवासी देवोथी आवी उत्पन्न थाय छे.

४७. [प्र०] हे भगवन् ! जे असुरकुमार भवनवासी देव सं० पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा सज्ञी पं० तिर्यचमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट पूर्वकोटीनी स्थितिवाळा संज्ञी पं० तिर्यचमा उत्पन्न थाय. तेने नवे गमकमा जे वक्तव्यता पृथिवीकायिकोमा उत्पन्न थता असुरकुमारोनी कही छे तेम कहेवी. ए प्रमाणे यावत्—ईशानदेव लोक सुधी पण ते प्रमाणे वक्तव्यता कहेवी. भवादेश वधे ठेकाणे उत्कृष्ट आठ भव अने जघन्य वे भव होय छे. अहीं सर्व ठेकाणे स्थिति अने सवेध भिन्न जाणवो (९).

४८. [प्र०] नागकुमारे णं भंते ! जे भविणं ? [उ०] एस चेव वत्तव्या । नवरं ठिंति संवेहं च जाणेज्जा । एवं जाव-यणियकुमारे ९ ।

४९. [प्र०] जइ वाणमंतरेहिंतो० किं पिसाय० ? [उ०] तहेव । जाव-

५०. [प्र०] वाणमंतरे णं भंते ! जे भविणं पंचिंदियतिरिक्ख० ? [उ०] एवं चेव । नवरं ठिंति संवेहं च जाणेज्जा ९ ।

५१. [प्र०] जइ जोतिसिय० ? [उ०] उववाओ तहेव । जाव-

५२. [प्र०] जोतिसिय णं भंते ! जे भविणं पंचिंदियतिरिक्ख० ? [उ०] एस चेव वत्तव्या । जहा पुढविकाइयउदे-सण भवग्गहणाइं णवसु वि गमपसु अट्ट, जाव-कालादेसेणं जहन्नेणं अट्टभागपल्लिवोवमं अंतोमुहुत्तमम्महियं, उक्कोसेणं चत्तारि पल्लिवोवमाइं चउहिं पुषकोडीहिं चउहि य वाससयसहस्सेहिं अब्महियाइं-एवतियं० । एवं नवसु वि गमपसु, नवरं ठिंति संवेहं च जाणेज्जा ९ ।

५३. [प्र०] जइ वेमाणियदेवेहिंतो० किं कप्पोवगवेमाणिय०, कप्पातीतवेमाणिय० ? [उ०] गोयमा ! कप्पोवगवेमा-णिय०, नो कप्पातीतवेमाणिय० । जइ कप्पोवग० जाव-सहस्सारकप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो वि उववज्जंति, नो आणय०, जाव-णो अञ्चयकप्पोवगवेमाणिय० ।

५४. [प्र०] सोहम्मदेवे णं भंते ! जे भविणं पंचिंदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवति० ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त०, उक्कोसेणं पुषकोडीआउपसु, सेसं जहेव पुढविकाइयउदेसए नवसु वि गमपसु । नवरं नवसु वि गमपसु जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं । ठिंति कालादेसं च जाणिज्जा, एवं ईसाणदेवे वि । एवं एणं कमेणं अवसेसा वि जाव-सहस्सारदेवेसु उववापयवा । नवरं ओगाहणा जहा ओगाहणासंठाणे, लेस्सा-सणकुमार-

४८. [प्र०] हे भगवन् ! जे नागकुमार, पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा सं० पं० तिर्यचमां उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! अहीं वधी पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के स्थिति अने संवेध (भिन्न) जाणवो. ए प्रमाणे यावत्-स्तानितकुमारो सुधी जाणवुं.

नागकुमारनी सं० पं० तिर्यचमा उत्पत्ति.

४९. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते (संज्ञी पं० तिर्यचो) वानव्यन्तरोधी आवी उत्पन्न थाय तो शुं पिशाच वानव्यन्तरोधी आवी उत्पन्न थाय-इत्यादि वधुं पूर्वे कहा प्रमाणे जाणवुं. यावत्-

वानव्यन्तरोधी सं० पं० तिर्यचमा उत्पत्ति.

५०. [प्र०] हे भगवन् ! जे वानव्यन्तर, पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिकोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा संज्ञी पं० तिर्यचमां उत्पन्न थाय ? [उ०] पूर्वे कहा प्रमाणे जाणवुं. पण विशेष ए के अहीं स्थिति अने संवेध भिन्न जाणवो.

५१. [प्र०] जो ते (संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच) ज्योतिषिकोधी आवी उत्पन्न थाय तो तेने पूर्वे कहा प्रमाणे-पृथिवीकायिकमां, उत्पन्न थता संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचने कहा प्रमाणे उपपात कहेवो. यावत्-

ज्योतिषिकोनी सं० पं० तिर्यचमा उत्पत्ति.

५२. [प्र०] हे भगवन् ! जे ज्योतिषिक, पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिकोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा सं० पं० तिर्यचमा उत्पन्न थाय ? [उ०] ए ज पूर्वोक्त वक्तव्यता जेम पृथिवीकायिक उद्देशकमां कहेली छे तेम कहेवी. नवे गमकमां आठ भवो जाणवा. यावत्-काळादेशधी जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक पल्योपमनो आठमो भाग अने उत्कृष्ट चार पूर्वकोटी अधिक पल्योपम-एटलो काळ यावत्-गतिआगति करे. ए प्रमाणे नवे गमकोमा जाणवुं. पण विशेष ए के अहीं स्थिति अने संवेध भिन्न जाणवो. (९)

५३. [प्र०] जो तेओ वैमानिक देवोधी आवी उत्पन्न थाय तो शुं कल्पोपन्न वैमानिक देवोधी के कल्पातीत वैमानिक देवोधी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ कल्पोपन्नक वैमानिक देवोधी आवी उत्पन्न थाय, पण कल्पातीत वैमानिक देवोधी आवी न उत्पन्न थाय. जो कल्पोपन्न वैमानिक देवोधी आवी उत्पन्न थाय तो यावत्-सहस्रार कल्पोपन्नक वैमानिक देवोधी आवी उत्पन्न थाय, पण आनत कल्पोपन्नक, यावत्-अच्युतकल्पोपन्नकधी आवी उत्पन्न न थाय.

वैमानिक देवोनी सं० पं० तिर्यचमा उत्पत्ति

५४. [प्र०] हे भगवन् ! जे सौधर्म देव, पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिकोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा पंचेन्द्रिय तिर्यचमां उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी आयुपवाळा पंचेन्द्रिय तिर्यचमा उत्पन्न थाय. वाकी वधुं नवे गमकोने आश्रयी पृथिवीकायिक उद्देशकमां कहा प्रमाणे कहेवुं. पण विशेष ए के नवे गमकोमां संवेध-भवनी अपेक्षाए जघन्य वे भव अने उत्कृष्ट आठ भवनो होय छे. स्थिति अने काळादेश (भिन्न भिन्न) जाणवा. ए प्रमाणे ईशान देव संवेधे पण जाणवुं.

सौधर्मयी सहस्रार-पर्यंत देवोनी सं० पं० तिर्यचमा उत्पत्ति.

मार्हिद—वंमलोपसु एगा पम्हलेस्सा, सेसाणं एगा सुफलेस्सा । वेदे नो इत्यिवेदगा, पुरिसवेदगा, णो नपुंसगवेदगा । आउ—
अंणुयंघा जहा ङित्तिपदे, सेसं जहेव ईसाणगाणं कायसंवेहं च जाणेजा । 'सेवं मंते ! सेवं मंते' ! त्ति ।

चउवीसतिमे सए वीसतिमो उद्देमो समत्तो ।

तया ए ज क्रमवडे वाकी वधा देवो नो यावत्—सहस्रार देव सुधी उपपात कहेवो. परन्तु अवगाहना, *अवगाहनासंस्थानपदमां कगा प्रमाणे जाणवी. लेस्या—सनत्तुमार, माहेन्द्र अने ब्रह्मलोकमां एक पम्हलेस्या अने वाकी वधाने एक शुभलेस्या जाणवी. वेदमां स्त्रीवेदवाय्य अने नपुंसकवेदवाळा नयी, पण पुरुषवेदवाळा होय छे. †स्थितिपदमां कगा प्रमाणे आयुप अने अनुबंध जाणवो. वाकी वधुं ईशान देवोनी पेटे जाणवुं, तेमज अहि कायसवेव जुदो कहेवो 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

चोवीशमा शतकमां वीशमो उद्देशक समाप्त.

एगवीसतिमो उद्देसो ।

१. [प्र०] मणुस्सा णं मंते ! कओर्हितो उववजंति ? किं नेरइपरहितो उववजंति ? जाव—देवेर्हितो उववजंति ? [उ०] गोयमा ! णेरइपरहितो वि उववजंति, जाव—देवेर्हितो वि उववजंति—एवं उववाओ जहा पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिउद्देसए जाव—
'तमापुढविनेरइपरहितो वि उववजंति, णो अहेसत्तमपुढविनेरइपरहितो उववजंति ।

२. [प्र०] रयणप्पमपुढविनेरइए णं मंते ! जे मविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए से णं मंते ! केवत्तिकाल० ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं मासपुढचट्टित्तिसु, उक्कोसेणं पुढकोडिआउण्णु, अवसेसा वत्तवया जहा पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिणन्तु उववजंतस्स तहेव । नवरं परिमाणे जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेजा उववजंति । जहा तर्हि अंतोमुहत्तेर्हि तहा इहं मासपुढत्तेर्हि संवेहं करेजा, सेसं तं चेव ९ । जहा रयणप्पमाए वत्तवया तहा सक्करप्पमाए वि । नवरं जहन्नेणं वासपुढत्त-
ट्टिसु, उक्कोसेणं पुढकोडी० । ओगाहणा—लेस्सा—णाण—ट्टित्ति—अणुयंघ—संवेहं णाणत्तं च जाणेजा जहेव तिरिक्खजोणिय-
उद्देसए । एवं—जाव—तमापुढविनेरइए ९ ।

३. [प्र०] जइ तिरिक्खजोणिपरहितो उववजंति किं एगिन्द्रियतिरिक्खजोणिपरहितो उववजंति ? जाव—पंचिन्द्रियतिरि-
क्खजोणिपरहितो उववजंति ? [उ०] गोयमा ! एगिन्द्रियतिरिक्खजोणि० भेदो जहा पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिउद्देसए । नवरं
तेउ—वाऊ पडिसेहेयघा, सेसं तं चेव । जाव—

एकवीशमो उद्देशक.

मनुष्यो नो व्यपात

१. [प्र०] हे भगवन् ! मनुष्यो क्यायी आवी उत्पन्न थाय ? शुं नैरयिकोयी, के यावत्—देवोयी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ नैरयिकोयी आवी उत्पन्न थाय, यावत्—देवोयी पण आवी उत्पन्न थाय. ए प्रमाणे अही पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिक उद्देशकमां कहा प्रमाणे उपपात कहेवो. यावत्—छटी तमा पृथिवीना नैरयिकोयी आवी उत्पन्न थाय, पण सातमी तमतमा पृथिवीना नैरयिकोयी आवी न उत्पन्न थाय.

रत्नप्रमानैरयिकनो
मनुष्यमा उपपात

२. [प्र०] हे भगवन् ! रत्नप्रमापृथिवीनो नैरयिक जे मनुष्योमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा मनुष्यमां उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य वे मासयी आरमी नव मास सुधीनी अने उक्कट्ट पूर्वकोटीनी स्थितिवाळा मनुष्यमा उत्पन्न थाय. वाकी वधी वक्तव्यता पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिकमा उत्पन्न यता रत्नप्रमानैरयिकनी पेटे कहेवी. परन्तु परिमाण—जघन्य एक, वे के त्रण अने उक्कट्ट संख्याता उत्पन्न थाय छे. जेम त्या अन्तमुद्भूतवडे सवेध कर्यो छे तेम अहां मासपृथक्त्ववडे सवेध करवो. वाकी वधुं पूर्वे कहा प्रमाणे जाणवुं, रत्नप्रमानी वक्तव्यतानी पेटे शर्कराप्रमानी पण वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के जघन्य वर्णपृथक्त्वनी स्थिति-
वाळा अने उक्कट्ट पूर्वकोटीनी स्थितिवाळा मनुष्यमा उत्पन्न थाय. तथा अवगाहना, लेस्या, ज्ञान, स्थिति, अनुबंध अने सवेध अने तेनी विशेषता तिर्यच्योनिकना उद्देशकमा कहा प्रमाणे जाणवी. ए प्रमाणे यावत्—तमा पृथिवीना नैरयिक सुवी जाणवुं.

तिर्यच्योनिकनो
मनुष्यमा उपपात

३. [प्र०] जो तेओ तिर्यच्योनिकोयी आवी उत्पन्न थाय तो शुं एकेन्द्रिय तिर्यच्योनिकोयी के यावत्—पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिकोयी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! एकेन्द्रिय तिर्यच्योनिकोयी आवी उत्पन्न थाय—इलादि वक्तव्यता पंचेन्द्रियतिर्यच्योनिक उद्देशकमां कहा प्रमाणे जाणवी. पण विशेष ए के, तेजस्काय अने वायुकायनो निषेध करवो. [त्यायी आवी मनुष्यमां उत्पन्न न थाय.] वाकी वधुं पूर्वे कहा प्रमाणे जाणवुं. यावत्—

४. [प्र०] पुढविकाइए णं भंते ! जे भविण मणुस्सेसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवति० ? [उ०] गोयमा ! जहद्रेणं अंतोमुहुत्तट्टितिएसु, उक्कोसेणं पुधकोडीआउएसु उववज्जिजा ।

५. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा० ? [उ०] एवं जहेव पंचिंदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जमाणस्स पुढविकाइयस्स वत्त-
द्वया सा चेव इह वि उववज्जमाणस्स भाणियद्या णवसु वि गमएसु । नवरं ततिय-छट्ट-णवमेसु गमएसु परिमाणं जहद्रेणं
एक्को वा दो वा तित्ति वा, उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जंति । जाहे अप्पणा जहन्नकाळट्टित्तियो भवति ताहे पढमगमए अज्झ-
वसाणा पसत्था वि अप्पसत्था वि, वित्तियगमए अप्पसत्था, ततियगमए पसत्था भवंति, सेसं तं चेव निरवसेसं ९ ।

६. [प्र०] जइ आउक्काइए० ? [उ०] एवं आउक्काइयाण वि । एवं वणस्सइकाइयाण वि । एवं जाव-चउरिंदियाण
वि । असन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिय-सन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिय-असन्निमणुस्स-सन्निमणुस्सा य एते सद्धे वि जहा
पंचिंदियतिरिक्खजोणियउद्देशए तहेव भाणियद्या । नवरं एयाणि चेव परिमाण-अज्झवसाण-णाणत्ताणि जाणिज्जा पुढविका-
इयस्स पत्थ चेव उद्देशए भाणियाणि । सेसं तहेव निरवसेसं ।

७. [प्र०] जइ देवेहिंतो उववज्जंति किं भवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति, वाणमंतर०, जोइसिय०, वेमाणियदेवेहिंतो
उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! भवणवासिदेवेहिंतो वि०, जाव-वेमाणियदेवेहिंतो वि उववज्जंति ।

८. [प्र०] जइ भवणवासि० किं असुर०, जाव-थणिय० ? [उ०] गोयमा ! असुरकुमार०, जाव-थणिय० ।

९. [प्र०] असुरकुमारे णं भंते ! जे भविण मणुस्सेसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवति० ? [उ०] गोयमा ! जहद्रेणं
मासपुहत्तट्टितिएसु, उक्कोसेणं पुधकोडिआउएसु उववज्जेजा । एवं जच्चेव पंचिंदियतिरिक्खजोणियउद्देशए वत्तद्वया सच्चेव पत्थ
वि भाणियद्या । नवरं जहा तहिं जहन्नगं अंतोमुहुत्तट्टितिएसु तहा इहं मासपुहत्तट्टिएसु । परिमाणं जहद्रेणं एक्को वा दो वा

४. [प्र०] हे भगवन् ! जे पृथिवीकायिक, मनुष्योमां उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटळा काळनी स्थितिवाळा मनुष्यमां उत्पन्न
थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य अन्तर्मुहूर्त अने उल्कृष्ट पूर्वकोटीनी स्थितिवाळा मनुष्यमा उत्पन्न थाय.

पृथिवीकायिकोनी
मनुष्यमां उपपात.

५. [प्र०] हे भगवन् ! ते (पृथिवीकायिको) एक समये केटळा उत्पन्न थाय—इत्यादि पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकमां उत्पन्न यथा
पृथिवीकायिकनी पेठे अहीं मनुष्यमां उत्पन्न थनार पृथिवीकायिकनी वक्तव्यता नवे गमकोमा कहेवी. विशेष एके त्रीजा, छट्टा, अने नवमा
गमकमां परिमाण जघन्य एक, वे के त्रण अने उल्कृष्ट सख्याता उत्पन्न थाय छे. ज्यारे (पृथिवीकायिक) पोते जघन्यकाळनी स्थितिवाळो
होय ल्यारे [मध्यमना त्रण गमकमां] *प्रथम गमकमां अध्यवसायो प्रशस्त अने अप्रशस्त वन्ने प्रकारना होय छे. वीजा गमकमां अप्रशस्त
अने त्रीजा गमकमां प्रशस्त होय छे. वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणवुं.

६. [प्र०] हे भगवन् ! जो तेओ (मनुष्यो) अप्कायिकोथी आवी उत्पन्न थाय तो अप्कायिकोने तथा वनस्पतिकायिकोने पूर्वोक्त
वक्तव्यता कहेवी. ए प्रमाणे यावत्-चउरिन्द्रियो सुधी जाणवुं. असज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक, संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक, असंज्ञी मनुष्य
अने सज्ञी मनुष्य ए वधाने पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकउद्देशकमां कह्या प्रमाणे कहेवुं. परन्तु विशेष ए के वधाने परिमाण अने अध्यवसायोनी
भिन्नता पृथिवीकायिकने आज उद्देशकमा कह्या प्रमाणे जाणवी. वाकी वधुं पूर्वोक्त जाणवुं.

अप्कायिकोनी मनु-
ष्यमां उपपात.

७. [प्र०] हे भगवन् ! जो तेओ (मनुष्यो) देवोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं भवनवासी, व्यानव्यन्तर, ज्योतिपिक के वैमानिक
देवोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ भवनवासी देवोथी, यावत्-वैमानिक देवोथी पण आवी उत्पन्न थाय.

देवोनी मनुष्योमां
उपपात

८. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते भवनवासी देवोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं असुरकुमारोथी आवी उत्पन्न थाय के यावत्-स्तनित-
कुमारोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ असुरकुमारोथी, यावत्-स्तनितकुमारोथी पण आवी उत्पन्न थाय.

भवनवासी देवोनी
मनुष्यमा उपपात.

९. [प्र०] हे भगवन् ! असुरकुमारदेव, जे मनुष्यमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटळा काळनी स्थितिवाळा मनुष्यमा उत्पन्न थाय ?
[उ०] हे गौतम ! ते जघन्य मासपृथक्त्व अने उल्कृष्ट पूर्वकोटीनी स्थितिवाळा मनुष्यमां उत्पन्न थाय. ए प्रमाणे पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकना
उद्देशकमा जे वक्तव्यता कही छे ते वक्तव्यता अहि पण कहेवी. पण विशेष ए के जेम त्या जघन्य अन्तर्मुहूर्तनी स्थितिवाळा तिर्यचमां
उत्पन्न थवानुं कहुं छे तेम अहीं मासपृथक्त्वनी स्थितिवाळामा उत्पन्न थवानुं कहेवुं. परिमाण-जघन्य एक, वे के त्रण अने उल्कृष्ट
सख्याता उत्पन्न थाय छे. वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणवुं. ए प्रमाणे यावत्-ईशानदेवो सुधी वक्तव्यता कहेवी. ए ज-उपर कह्या

असुरकुमारादि
देवोनी मनुष्यमां
उपपात

५ * मध्यमत्रिकना प्रथम गमकमा जघन्य० पृथिवीकायिकोनी मनुष्यमा औधिक उपपात थाय छे ज्यारे पृथिवीकायिक उ० मनुष्यमा उत्पन्न
थवानो होय ल्यारे तेना अध्यवसायो प्रशस्त होय छे, जघन्य० मनुष्यमा उत्पन्न थवानो होय ल्यारे अप्रशस्त अध्यवसायो होय छे मध्यत्रिकना वीजा गमकमा
जघन्य० पृथिवीकायिक जघन्य० मनुष्यमा उपजवानो होवाथी तेना अध्यवसायो अप्रशस्त होय छे, कारण के प्रशस्त अध्यवसायोथी जघन्य स्थितिपणे उप-
पात थतो नथी. त्रीजा गमकमा जघन्य० पृथिवीकायिक उ० मनुष्यमा उपजतो होवाथी तेना प्रशस्त अध्यवसायो होय छे.—टीका.

तित्रि वा, उक्त्वासेणं संखेजा उच्यञ्जति, सेसं तं चेव । एवं जाव—‘ईसाणदेवो’त्ति । पयाणि चेव णाणत्ताणि । सणंकुमार-
दीया जाव—‘सहस्सारो’त्ति जहेव पंचिन्द्रियतिरिक्त्वाजोणुउदेसण । नवरं परिमाणं जहन्नेणं पक्को धा दो वा तित्रि वा, उक्त्वासेणं
संखेजा उच्यञ्जति । उच्यवाथो जहन्नेणं वासपुहत्तट्टित्तिपमु, उक्त्वासेणं पुव्वकोटीआउपमु उच्यञ्जति, नेसं तं चेव । संवेहं
वासपुहुत्तं पुव्वकोटीसु करेजा । सणंरुमारो टिती चउगुणिया अट्टावीसं सागरोवमा भवन्ति, माहिंदे ताणि चेव सातिरेगाणि,
वम्हलोप चत्तालीसं, छंतप छप्पन्नं, मद्दासुक्के अट्टसाट्ठिं, सहस्सारो वायत्तरिं सागरोवमाइं । एसा उक्त्वासा टिती भणिया । जह-
न्नट्टित्ति पि चउ गुणेजा ९ ।

१०. [प्र०] आणयदेवे णं भंते ! जे भविण मणुस्सेसु उच्यञ्जित्तप से णं भंते ! केवत्ति० ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं
वासपुहत्तट्टित्तिपमु, उक्त्वासेणं पुव्वकोटीटितीपमु० ।

११. [प्र०] ते णं भंते !० [उ०] एवं जहेव सहस्सारदेवाणं वत्तधया । नवरं ओगाहणा—टिट्ठि—अणुबंधे य जाणेजा,
सेसं तं चेव । भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं, उक्त्वासेणं छ भवग्गहणाइं । फालादेसेणं जहन्नेणं अट्टारस सागरोवमाइं
वासपुहुत्तमम्महियाइं, उक्त्वासेणं सत्तावन्नं सागरोवमाइं तिहिं पुव्वकोटीहिं अम्महियाइं—एवत्तियं फालं० । एवं णव पि गमा,
नवरं टिट्ठि अणुबंधं संवेहं च जाणेजा, एवं जाव—अच्युयदेवो, नवरं टिट्ठि अणुबंधं संवेहं च जाणेजा । पाणयदेवस्स टिती
तिगुणिया साट्ठिं सागरोवमाइं, आरणगस्स वेचट्ठिं सागरोवमाइं, अच्युयदेवस्स छावट्ठिं सागरोवमाइं ।

१२. [प्र०] जइ कप्पातीतवेमाणियदेवेहिंतो उच्यञ्जति किं गेवेज्जकप्पातीत०, अणुत्तरोववातियकप्पातीत० ? [उ०]
गोयमा ! गेवेज्जकप्पातीत०, अणुत्तरोववातिय० ।

१३. [प्र०] जइ गेवेज्ज० किं हेट्टिम २ गेविज्जकप्पातीत० जाव—उवरिम २ गंवेज्ज० ? [उ०] गोयमा ! हेट्टिम २
गेवेज्ज०, जाव—उवरिम २० ।

१४. [प्र०] गेवेज्जदेवे णं भंते ! जे भविण मणुस्सेसु उच्यञ्जित्तप से णं भंते ! केवत्तिकाल ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं

बावव सहस्रार
देवो नो मनुष्यमा
उपपाव.

प्रमाणे विशेषता पण जाणवी. जेम पंचेन्द्रियतियं चयोनिकउद्देशकमां कणुं छे तेम सनत्कुमारयी माडी यावत्—सहस्रारमुधाना देवो संवेवे
कहेवुं. पण विशेष ए के परिमाण जवन्य एक, वे के त्रण अने उक्त्वा संख्याता उत्पन्न थाय छे. तेओ जवन्य वर्षपृथक्च स्थितिवाज्ज
अने उक्त्वा पूर्वकोटीनी स्थितिवाज्ज मनुष्यमा उत्पन्न थाय छे. वाकी वधुं पूर्वे काला प्रमाणे कहेवुं. संवेव जवन्य वर्षपृथक्च अने उक्त्वा
पूर्वकोटी वडे करवो. सनत्कुमारमां पोताना आयुपनी स्थितियी चारुणी करतां अट्टावीस सागरोपम थाय छे. माहेन्द्रमां काइंक अविक
अट्टावीस सागरोपम, ब्रह्मलोकमां चालीस, लांतकमा छप्पन्न, महाशुक्रमां अडसठ अने सहस्रारमां वहाँतेर सागरोपम थाय छे. ए प्रमाणे
उक्त्वा स्थिति कहेवी. अने जवन्य स्थितिने पण चारुणी करवी. [एम कायसंवेव कहेवो.] (९.)

भानव देवो नो
मनुष्यमा उपपाव.

१०. [प्र०] हे भगवन् ! जे आनतदेव, मनुष्योमां उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाज्ज मनुष्योमा उत्पन्न थाय
[उ०] हे गौतम ! जवन्य वर्षपृथक्चनी अने उक्त्वा पूर्वकोटीनी स्थितिवाज्ज मनुष्यमां उत्पन्न थाय.

परिमा गदि.

११. [प्र०] हे भगवन् ! ते (मनुष्यो) एक समये केटला उत्पन्न थाय—इत्यादि जेम सहस्रार देवनी वक्तव्यता कही छे तेम
कहेवी. पण अत्रगाहना, स्थिति अने अनुबंधनी विशेषता जाणवी. वाकी वधुं पूर्वे काला प्रमाणे जाणहुं. भवादेशयी जवन्य वे भव अने
उक्त्वा छ भव तथा काळदेशयी जवन्य वर्षपृथक्च अविक अट्टार सागरोपम, अने उक्त्वा त्रण पूर्वकोटी अविक सत्तावन सागरोपम—
एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे. ए प्रमाणे नवे गमकोमा जाणहुं. परन्तु विशेष ए के स्थिति, अनुबंध अने संवेव भेदपूर्वक जाणवो.
ए प्रमाणे यावत्—अच्युत देव सुवी समजहुं. विशेष ए के स्थिति, अनुबंध अने संवेव भिन्न भिन्न जाणवा. प्राणत देवनी स्थिति त्रणुणी
करतां साठ सागरोपम, आरणनी त्रेसठ सागरोपम, अने अच्युतदेवनी छसठ सागरोपम स्थिति थाय छे.

कल्पातीत देवो नो
मनुष्यमा उपपाव.

१२. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते (मनुष्यो) कल्पातीत वैमानिक देवोयी आनी उत्पन्न थाय तो शुं त्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक
देवोयी आनी उत्पन्न थाय के अनुत्तरौपातिक कल्पातीत देवोयी आनी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ त्रैवेयक अने अनुत्तरौपा-
तिक ए त्रे प्रकारना कल्पातीत देवोयी आनी उत्पन्न थाय.

त्रैवेयक देवो नो
मनुष्यमा उपपाव.

१३. [प्र०] जो (मनुष्यो) त्रैवेयककल्पातीत देवोयी आनी उत्पन्न थाय तो शुं सौथी नीचेना के सौथी उपरना त्रैवेयक-
कल्पातीत देवोयी आनी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ सौथी नीचेना यावत्—सौथी उपरना त्रैवेयककल्पातीत देवोयी पण
उत्पन्न थाय.

१४. [प्र०] हे भगवन् ! त्रैवेयक देव, जे मनुष्यमां उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाज्ज मनुष्यमा उत्पन्न थाय ?

वासपुहृत्तृतीपसु, उक्कोसेणं पुषकोडी०, अवसेसं जहा आणयदेवस्स वत्तध्या । नवरं ओगाहणा—गौतमा ! एगे भवधारणिजे सरीरप, से जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जभागं उक्कोसेणं दो रयणीओ । संटाणं—एगे भवधारणिजे सरीरे, से समचउरंससं-टिए पन्नत्ते । पंच समुग्घाया पन्नत्ता, तं जहा—वेदणासमुग्घाप, जाव—तेयगसमुग्घाप, णो चैव णं वेउच्चियतेयगसमुग्घापहिं समोहणिसु वा, समोहणंति वा, समोहणिसंसंति वा । ठिती अणुबंधो जहन्नेणं वावीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एकतीसं सागरोवमाइं, सेसं तं चैव । कालादेसेणं जहन्नेणं वावीसं सागरोवमाइं वासपुहृत्तमम्भहियाइं, उक्कोसेणं तेणउतिं सागरोवमाइं तिहिं पुषकोडीहिं अम्भहियाइं—एवतियं० । एवं सेसेसु वि अट्टगमपसु । नवरं ठितिं संवेहं च जाणेज्जा ९ ।

१५. [प्र०] जइ अणुत्तरोववाइयकप्पातीतवेमाणिय० किं विजयअणुत्तरोववाइय०, वैजयंतअणुत्तरोववातिय०, जाव—सव्वट्टसिद्ध० ? [उ०] गौयमा ! विजयअणुत्तरोववातिय० जाव—सव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववातिय० ।

१६. [प्र०] विजय—वैजयंत—जयंत—अपराजियदेवे णं भंते ! जे भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तप से णं भंते ! केवति० [उ०] एवं जहेव गेवेज्जदेवाणं । नवरं ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्ज भागं, उक्कोसेणं एगा रयणी । सम्मदिट्ठी, णो भिच्छदिट्ठी, णो सम्मानिच्छदिट्ठी । णाणी, णो अन्नाणी, नियमं तिन्नाणी, तं जहा—आभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, ओहि. णाणी । ठिती जहन्नेणं एकतीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं, सेसं तं चैव । भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्ग-हणाइं, उक्कोसेणं चत्तारि भवग्गहणाइं । कालादेसेणं जहन्नेणं एकतीसं सागरोवमाइं वासपुहृत्तमम्भहियाइं, उक्कोसेणं छावट्ठिं सागरोवमाइं दोहिं पुषकोडीहिं अम्भहियाइं—एवतियं० । एवं सेसा वि अट्ट गमगा भाणियद्धा । नवरं ठितिं अणुबंधं संवेधं च जाणेज्जा, सेसं एवं चैव ।

१७. [प्र०] सव्वट्टसिद्धगदेवे णं भंते ! जे भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तप० ? [उ०] सा चैव विजयादिदेववत्तध्या भाणियद्धा । णवरं ठिती अनहन्नमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं । एवं अणुबंधो वि, सेसं तं चैव । भवादेसेणं दो भवग्ग-हणाइं, कालादेसेणं जहन्नेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं वासपुहृत्तमम्भहियाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं पुषकोडीए अम्भहियाइं—एवतियं० १ ।

[उ०] हे गौतम ! ते जघन्य वर्षपृथक्त्व अने उत्कृष्ट पूर्वकोटीनी स्थितिवाळा मनुष्यमां उत्पन्न थाय. वाकी वधी वक्तव्यता आनत देवनी पेटे कहेवी. परन्तु हे गौतम ! तेने एक भवधारणीय शरीर होय छे अने तेनी अवगाहना जघन्य अंगुलनो असंख्यातमो भाग अने उत्कृष्ट वे हायनी होय छे. तेने एक भवधारणीय शरीर समचतुरस्र संस्थानवाळुं होय छे. पाच समुद्घातो होय छे, ते आ प्रमाणे—१ वेदना समुद्घात अने यावत्—तैजस समुद्घात. पण तेओए वैक्रिय के तैजस समुद्घात करी नथी, करता नथी अने करशे पण नहि. स्थिति अने अनुबंध जघन्य वावीश सागरोपम तथा उत्कृष्ट एकत्रीश सागरोपम होय छे. वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणवुं. काळादेशथी जघन्य वर्षपृथक्त्व अधिक त्राणुं सागरोपम अने उत्कृष्ट त्रण पूर्वकोटी अधिक त्राणुं सागरोपम—एटलो काळ—यावत्—गमनागमन करे. वाकीना आठे गमकोमा पण ए प्रमाणे जाणवुं. विशेष ए के स्थिति अने संवेध (भिन्न) जाणवो.

१५. जो तेओ (मनुष्यो) अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक देवोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं विजय, वैजयंत के यावत्—सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देवोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ विजय अनुत्तरौपपातिकथी यावत्—सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौ-पपातिकथी आवीने उत्पन्न थाय छे.

१६. [प्र०] हे भगवन् ! अनुत्तरौपपातिक विजय, वैजयंत, जयंत अने अपराजित देव, जे मनुष्यमां उत्पन्न थवाने योग्य छे, ते केटला काळनी स्थितिवाळा मनुष्यमा उत्पन्न थाय ? [उ०] इत्यादि जेम त्रैवेयक देवो सवंधे कहुं तेम अहीं कहेवुं. विशेष ए के अवगाहना जघन्य अंगुलनो असंख्यातमो भाग अने उत्कृष्ट एक हायनी होय छे. ते सम्यग्दृष्टि होय छे पण मिय्यादृष्टि के मिश्रदृष्टि नथी होता. ज्ञानी होय छे पण अज्ञानी नथी. तेने अवश्य मति, श्रुत अने अवधि—ए त्रण ज्ञान होय छे. तेओनी स्थिति जघन्य एकत्रीश सागरोपमनी अने उत्कृष्ट तेत्रीश सागरोपमनी छे. वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणवुं. भवादेशथी जघन्य वे भव, अने उत्कृष्ट चार भव, तथा काळादेशथी जघन्य वर्षपृथक्त्व अधिक एकत्रीश सागरोपम अने उत्कृष्ट वे पूर्वकोटी अधिक छासठ सागरोपम—एटलो काळ यावत्—गतिआगति करे. ए प्रमाणे वाकीना आठे गमको कहेवा. परन्तु विशेष ए के स्थिति, अनुबंध अने संवेध (भिन्न भिन्न) जाणवो. तथा वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणवुं.

१७. [प्र०] हे भगवन् ! सर्वार्थसिद्ध देव, जे मनुष्योमां उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा मनुष्यमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओनी वक्तव्यता विजयादिदेवनी वक्तव्यता पेटे कहेवी. विशेष ए के अहीं जघन्य नहि तेम उत्कृष्ट नहि एथी एकज प्रकारे तेत्रीश सागरोपमनी स्थिति होय छे. ए प्रमाणे अनुबंध पण जाणवो. वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणवुं. भवादेशथी वे भव तथा काळादेशथी जघन्य वर्षपृथक्त्व अधिक तेत्रीश सागरोपम अने उत्कृष्टथी पूर्वकोटी अधिक तेत्रीश सागरोपम—एटलो काळ यावत्—गतिआगति करे (१).

अनुत्तरौपपातिक देवोनी उपपात.

सर्वार्थसिद्ध देवोनी मनुष्यमा उपपात.

१८. सो चैव जहन्नकालद्वितीएसु उचवन्नो एस चैव वत्तधया । नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं तेत्तीसं सागरोवमाई वास-
पुहत्तमम्महियाई, उक्कोसेण वि तेत्तीसं सागरोवमाई वासपुहत्तमम्महियाई—एवतियं० २ ।

१९. सो चैव उक्कोसकालद्वितीएसु उचवन्नो एस चैव वत्तधया । नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं तेत्तीसं सागरोवमाई पुव्व-
कोडीए अम्महियाई, उक्कोसेण वि तेत्तीसं सागरोवमाई पुव्वकोडीए अम्महियाई—एवतियं० ३ । एते चैव तिन्नि गमगा, सेसा
न मणंगति । 'सेवं मंते ! सेवं मंते !' च्चि ।

चउवीसतिमे सए एकवीसतिमो उद्देशो समत्तो ।

१८. जो ते (सर्वार्थसिद्ध देव) जघन्यकाळनी स्थितिवाळा मनुष्यमा उत्पन्न थाय तो तेने ए ज वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए
के काळादेशी जघन्य अने उत्कृष्ट वर्णपृथक्च अधिक तेत्रीण सागरोपम—एटलो काळ यावत्—गतिआगति करे (२).

१९. जो ते उत्कृष्टकाळनी स्थितिवाळा मनुष्यमा उत्पन्न थाय तो तेने पण ए ज वक्तव्यता करेवी. परन्तु विशेष ए के काळा-
देशी जघन्य अने उत्कृष्ट पूर्वकोटी अधिक तेत्रीण सागरोपम—एटलो काळ यावत्—गतिआगति करे (३). अहींआ व्रण गमको ज कहे-
वाना छे, वाकीना गमको अहीं कहेवाना नयी. 'हे भगवन् ! ते एम ज छे, हे भगवन् ! ते एम ज छे.'

चौवीशमा शतकमां एकवीशमो उद्देशक समाप्त.

वावीसतिमो उद्देशो ।

१. [प्र०] वाणमन्तरा णं मंते ! कवोहिंत्तो उचवज्जंति ? किं नैरइएहिंत्तो उचवज्जंति, तिरिन्सु० ? [उ०] एवं जहेव
णागकुमारउद्देशेसए असन्नी तहेव निरवसेसं । जइ सन्निर्पांचिदिय० जाव—असंखेज्जवासाउय० ।

२. [प्र०] सन्निर्पांचिदिय० जे भविप वाणमंतरेसु उचवज्जिचप से णं मंते ! केवति० ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं दस-
वाससहस्सठितीएसु, उक्कोसेणं पल्लिओवमठितिएसु, सेसं तं चैव जहा नागकुमारउद्देशेसए, जाव—कालादेसेणं जहन्नेणं साति-
रेगा पुव्वकोडी दसाई वाससहस्सेहिं अम्महिया, उक्कोसेणं चत्तारि पल्लिओवमाई—एवतियं १ ।

३. सो चैव जहन्नकालद्वितीएसु उचवन्नो जहेव णागकुमारानं वितियगमे वत्तधया २ ।

वावीशमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! वानव्यन्तर देवो क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे—शुं नैरयिकोथी, तिर्यच्योनिकोथी, के देवोथी आवी उत्पन्न
थाय छे ? [उ०] इत्यादि जेम *नागकुमारना उद्देशकमा कळुं छे ते प्रमाणे असंजी सुवी ववी वक्तव्यता कहेवी. जो ते (वानव्यन्तर देव)
सङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिकथी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि यावत्—पूर्व प्रमाणे जाणवुं.

२. [प्र०] हे भगवन् ! असख्याता वर्पना आयुपवाळो सङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिक, जे वानव्यन्तरोमां उत्पन्न धवाने योग्य छे ते
केटला काळनी स्थितिवाळा वानव्यन्तरोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जवन्व दस हजार वर्पनी अने उत्कृष्ट पल्योपमनी स्थिति-
वाळा वानव्यन्तरमां उत्पन्न थाय. वाकी वधुं नागकुमारना उद्देशकमा कळुं छे तेम जाणवुं. यावत्—काळादेशी जघन्य काडक अधिक
पूर्वकोटी सहित दस हजार वर्ष अने उत्कृष्ट चार पल्योपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (१).

३. जो ते जघन्यकाळनी स्थितिवाळा वानव्यन्तरमा उत्पन्न थाय तो ते सर्वेधे नागकुमारना ईवीजा गमकमा कहेली वक्तव्यता
कहेवी (२).

१ * भग० श० २४ उ० ३ पृ० ११

† शुं सख्याता वरसना आयुपवाळा स० प० तिर्यच्योनी उत्पन्न थाय के असख्याता वरसना आयुपवाळा स० प० तिर्यच्योनी आवी उत्पन्न थाय ? हे
गौतम ! वधे प्रकारना तिर्यच्योनी आवी उत्पन्न थाय छे जुधो—सू० ३

२ † व्रण पल्योपमना आयुपवाळो सङ्गी पंचेन्द्रिय तिर्यच्योनी पल्योपमना आयुपवाळा व्यन्तरमा उत्पन्न थाय एटले उत्कृष्ट चार पल्योपमनो कावसवेध
थाय छे.

३ ‡ नागकुमारना वीजा गमनी वक्तव्यता प्रथम गम नमान ज छे, परन्तु अहिं जघन्य अने उत्कृष्ट स्थिति दश हजार वर्पनी जाणवी. सवेध काळादेश-
ी जघन्य दश हजार वर्ष अधिक साधिक पूर्वकोटी अने उत्कृष्ट दश हजार वर्ष अधिक व्रण पल्योपमनो जाणवो वीजा गमना जघन्य स्थिति पल्योपमनी
होय छे. जो के असख्यात वर्पना आयुपवाळा स० प० तिर्यच्योनी जघन्य स्थिति साधिक पूर्व कोटी वर्पनी होय छे, तो पण अहिं पल्योपमनी वही तेजुं कारण
ए छे के तेने पल्योपमना आयुपवाळा व्यन्तरमा उपजवानुं छे अने असख्यात वर्पना आयुपवाळा पोताना आयुप करता अधिक आयुपवाळा देवोमा उपजता
नयी—टीका

सर्वार्थसिद्ध देवो
ज० मनुष्यमा
उपपात

सर्वार्थसिद्धनो उ०
मनुष्यमा उपपात.

व्यन्तर देवो
उपपात
नशी

असख्याता० म०
प० तिर्यच्योनी वान-
व्यन्तरमा उपपात

असख्याता० स० प०
तिर्यच्योनी ज० वान-
व्यन्तरमा उत्पत्ति

४. सो चेव उक्कोसकालट्टितिएसु उचवन्नो जहन्नेणं पलिओवमट्टितिएसु, उक्कोसेण वि पलिओवमट्टितिएसु एस चेव वत्तघ्नया । नवरं ठिती से जहन्नेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं । संवेहो जहन्नेणं दो पलिओवमाइं, उक्कोसेणं चत्तारि पलिओवमाइं—एवतियं० ३ । मज्झिममग्गा तिन्नि वि जहेव नागकुमारेसु पच्छिमेसु तिसु गमएसु तं चेव जहा नागकुमारुहेसए । नवरं ठिती संवेहं च जाणेजा । संखेज्जवासाउय० तहेव, नवरं ठिती अणुबंधो संवेहं च उभओ ठितीए जाणेजा ।

५. जइ मणुस्स० असंखेज्जवासाउयाणं जहेव नागकुमारणं उद्देशे तहेव वत्तघ्नया । नवरं तइयगमए ठिती जहन्नेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं । ओगाहणा जहन्नेणं गाउयं, उक्कोसेणं तिन्नि गाउयाइं, सेसं तहेव । संवेहो से जहा पत्थ चेव उद्देशए असंखेज्जवासाउयसन्निपंचिदियाणं । संखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से जहेव नागकुमारुहेसए । नवरं वाणमंतरे ठिती संवेहं च जाणेजा । 'सेवं मंते ! सेवं मंते' त्ति ।

चउवीसतिमे सए वावीसतिमो उद्देशो समत्तो ।

४. जो ते ज उत्कृष्ट काळनी स्थितिवाळा वानव्यन्तरमा उत्पन्न थाय तो जघन्य अने उत्कृष्ट पल्योपमनी स्थितिवाळा वानव्यतरमां उत्पन्न थाय—इत्यादि पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के तेनी स्थिति जघन्य पल्योपमनी अने उत्कृष्ट त्रण पल्योपमनी जाणवी. संवेध जघन्य वे पल्योपम अने उत्कृष्ट चार पल्योपमनो होय—एटलो काळ यावत्—गतिआगति करे (३). मध्यमना त्रण गमको नागकुमारना मध्यम त्रण गमकोनी पेटे कहेवा. अने छेला त्रण गमको नागकुमारना उद्देशकमां कहा प्रमाणे कहेवा. परन्तु विशेष ए के स्थिति अने संवेध भिन्न भिन्न जाणवो. संख्याता वर्पना आयुपवाळा सं० पं० तिर्यचोनी वक्तव्यता ते ज प्रमाणे जाणवी. पण विशेष ए के स्थिति अने अनुबंध भिन्न भिन्न जाणवो. तथा संवेध वनेनी स्थितिने एकठी करीने कहेवो.

असंख्यात० स०
पं० तिर्यचनी उ०
वानव्यतरमां
उत्पत्ति.

५. [प्र०] जो तेओ (वानव्यन्तरो) मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय तो तेने नागकुमारना उद्देशकमां कहा प्रमाणे असंख्याता वर्पना आयुपवाळा मनुष्योनी वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के त्रीजा गमकमा स्थिति जघन्य पल्योपमनी अने उत्कृष्ट त्रण पल्योपमनी जाणवी. अवगाहना जघन्यथी एक गाउ अने उत्कृष्ट त्रण गाउनी होय छे. वाकी बधुं पूर्वे कहा प्रमाणे जाणवुं. वळी तेनो संवेध आज उद्देशकमा जेम असंख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचनो कह्यो छे तेम कहेवो. तथा जेम नागकुमारना उद्देशकमा कहुं छे ते प्रमाणे संख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी मनुष्योनी वक्तव्यता कहेवी. पण विशेष ए के वानव्यन्तरनी स्थिति अने संवेध भिन्न जाणवो. 'हे भगवन् ! ते एम ज छे, हे भगवन् ! ते एम ज छे.'

असंख्याता० मनु-
ष्योनी वानव्यतरमां
उपपात

चोवीशमा शतकमां वावीशमो उद्देशक समाप्त.

तेवीसतिमो उद्देशो ।

१. [प्र०] जोइसिया णं मंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? किं नेरइए० ? [उ०] भेदो जाव—सन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिणहिंतो उववज्जंति, नो असन्निपंचिदियतिरिक्ख० ।

२. [प्र०] जइ सन्नि० किं संखेज्ज०, असंखेज्ज० ? [उ०] गोयमा ! संखेज्जवासाउय० असंखेज्जवासाउय० ।

३. [प्र०] असंखेज्जवासाउअसन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिण णं मंते ! जे भविए जोतिसिएसु उववज्जिचए से णं मंते ! केवत्ति० ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अट्टभागपलिओवमट्टितिएसु, उक्कोसेणं पलिओवमवाससयसहस्सट्टितिएसु उववज्जइ, अवसेसं जहा असुरकुमारुहेसए । नवरं ठिती जहन्नेणं अट्टभागपलिओवमं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं । एवं अणुबंधो

त्रेवीशमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! ज्योतिपिको क्याथी आवी उत्पन्न थाय ?—शुं नैरथिकोथी—इत्यादि भेद कहेवो. यावत्—तेओ संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी आवी उत्पन्न थाय, पण असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थता नथी.

ज्योतिपिको
उपपात

२. [प्र०] जो संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी आवी उत्पन्न थाय तो शुं संख्याता वर्पना आयुपवाळा सं० पं० तिर्यचोथी के असंख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! संख्याता के असंख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोथी आवी उत्पन्न थाय.

स० पं० तिर्यचनो
ज्योतिपिकमां
उपपात

३. [प्र०] हे भगवन् ! असंख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक, जे ज्योतिपिकोमां उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा ज्योतिपिकोमां उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य पल्योपमना आठमा भागनी अने उत्कृष्ट एक लाख

असंख्यात० स० पं०
तिर्यचोनो ज्योति-
पिकमां उपपात

वि, सेसं तहेव । नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं दो अट्टमागपलिओवमाइं, उक्कोसेणं चत्तारि पलिओवमाइं वाससयसहस्समन्म-
हियाइं-एवतियं० १ ।

४. सो चेव जहन्नकालट्टितीएसु उववघो, जहन्नेणं अट्टमागपलिओवमट्टितीएसु, उक्कोसेणं चि अट्टमागपलिओवमट्टिती-
एसु एस चेव वत्तघया । नवरं कालादेसेणं जाणेजा २ ।

५. सो चेव उक्कोसकालट्टिइएसु उववघो, एस चेव वत्तघया । नवरं टिती जहन्नेणं पलिओवमं वाससयसहस्समन्म-
हियं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं । एवं अणुवंघो चि । कालादेसेणं जहन्नेणं दो पलिओवमाइं दोहिं वाससयसहस्सेहिं अ-
व्महियाइं, उक्कोसेणं चत्तारि पलिओवमाइं वाससयसहस्समन्महियाइं ३ ।

६. सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्टितीओ जाओ, जहन्नेणं अट्टमागपलिओवमट्टितीएसु, उक्कोसेणं चि अट्टमागपलिओवम-
ट्टितीएसु उववज्जिजा ४ ।

७. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा० ? [उ०] एस चेव वत्तघया । नवरं ओगाहणा जहन्नेणं घणुपुहत्तं, उक्कोसेणं सातिरे-
गाइं अट्टारसघणुसयाइं । टिती जहन्नेणं अट्टमागपलिओवमं, उक्कोसेणं चि अट्टमागपलिओवमं । एवं अणुवंघोऽवि, सेसं
तहेव । कालादेसेणं जहन्नेणं दो अट्टमागपलिओवमाइं, उक्कोसेणं चि दो अट्टमागपलिओवमाइं-एवतियं । जहन्नकालट्टिती-
यस्स एस चेव एको गमो ६ ।

८. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्टितीओ जाओ, सा चेव ओहिया वत्तघया । नवरं टिती जहन्नेणं तिन्नि पलिओव-
माइं, उक्कोसेणं चि तिन्नि पलिओवमाइं । एवं अणुवंघो चि, सेसं तं चेव । एवं पच्छिमा तिन्नि गमगा गेयघा । नवरं टिती
सवेहं च जाणेजा । एते सत्त गमगा ।

९. [प्र०] जइ संखेज्जासाउयसन्निपंचिदिय० ? [उ०] संखेज्जासाउयाणं जहेव असुरकुमारोसु उववज्जमाणणं तटेव
नव चि गमा भाणियघा । नवरं जोतिसियट्ठिं संवेहं च जाणेजा, सेसं तहेव निरवसेसं भाणियघं ९ ।

वर्ष अधिक एक पल्योपमनी स्थितिवाळा ज्योतिषिकोमां उत्पन्न थाय. वाकी वधुं असुरकुमारना उद्देशकमां कथा प्रमाणे जाणवुं. विशेष ए
के जघन्य स्थिति पल्योपमना आठमा भागनी अने उत्कृष्ट स्थिति त्रण पल्योपमनी होय छे. अनुबंध पण ए प्रमाणे जाणवो. वाकी वधुं ते
ज प्रमाणे जाणवुं. परन्तु काळादेशयी जघन्य पल्योपमना वे आठमा भाग अने उत्कृष्ट लाख वर्ष अधिक चार पल्योपम-एटलो काळ
यावत्-गतिआगति करे (१).

४. जो ते (संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच) जघन्यकाळनी स्थितिवाळा ज्योतिषिकमा उत्पन्न थाय तो जघन्य अने उत्कृष्ट पल्योपमना
आठमा भागनी स्थितिवाळा ज्योतिषिकमा उत्पन्न थाय-इत्यादि पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. विशेष ए के अहीं काळ्यदेश [मिन्न]
जाणवो. (२).

५. जो ते ज जीव उत्कृष्टकाळनी स्थितिवाळा ज्योतिषिकमां उत्पन्न थाय तो तेने पण ए ज वक्तव्यता कहेवी. परन्तु स्थिति
जघन्य एक लाख वर्ष अधिक पल्योपम अने उत्कृष्ट त्रण पल्योपमनी होय छे. अनुबंध पण ए ज प्रमाणे जाणवो. काळ्यदेशयी जघन्य वे
लाख वर्ष अधिक वे पल्योपम अने उत्कृष्ट एक लाख वर्ष अधिक चार पल्योपम-एटलो काळ यावत्-गतिआगति करे (३).

६. जो ते (संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच) पोते जघन्य काळनी स्थितिवाळो होय अने ज्योतिषिकमां उत्पन्न थाय तो ते जघन्य अने
उत्कृष्ट पल्योपमना आठमा भागनी स्थितिवाळा ज्योतिषिकमां उत्पन्न थाय (४).

७. [प्र०] हे भगवन् ! ते (असंख्य वर्षना आयुषवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचो) एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] पूर्वोक्त
वक्तव्यता कहेवी. विशेष ए के शरीरुं प्रमाण जघन्य धनुषपृथक्त्व अने उत्कृष्ट अट्टारसो धनुष करतां काइक अधिक होय छे. स्थिति
जघन्य अने उत्कृष्ट पल्योपमना आठमा भागनी अने अनुबंध पण ए ज प्रमाणे होय छे. वाकी वधुं पूर्वे कथा प्रमाणे जाणवुं. काळादे-
शयी जघन्य अने उत्कृष्ट पल्योपमना वे आठमा भाग-एटलो काळ यावत्-गतिआगति करे. जघन्यकाळनी स्थितिवाळा माटे आ एक ज
गम होय छे (६).

८. जो ते (असंख्यात० संज्ञी पंच० तिर्यंच) पोते उत्कृष्टकाळनी स्थितिवाळो होय (अने ज्योतिषिकमां उत्पन्न थाय) तो तेने
सामान्य गमकानी जेम वक्तव्यता कहेवी. परन्तु स्थिति जघन्य अने उत्कृष्ट त्रण पल्योपमनी जाणवो. अनुबंध पण ए ज प्रमाणे छे. वाकी
वधुं ते ज प्रमाणे जाणवुं. ए रीते छेळा त्रण गमको जाणवा. पण विशेष ए के, स्थिति अने संवेध मेदपूर्वक जाणवो. ए प्रमाणे ए
सात गमको थया. (७).

९. जो तेओ संख्याता वर्षना आयुषवाळा संज्ञी पंच० तिर्यंचोयी आवी उत्पन्न थाय तो तेने असुरकुमारोमां उत्पन्न थता संख्याता
वर्षना आयुषवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी पेठे नवे गमको कहेवा. विशेष ए के ज्योतिषिकनी स्थिति अने संवेध मेदपूर्वक जाणवो. तथा
वाकी वधुं ते ज प्रमाणे जाणवुं (९).

असंख्यात० सं० पंच०
तिर्यंचोनी ज्योतिषि-
कमा उपपात.

जघ० असंख्यात०
सं० पंच० तिर्यंचोनी
ज्योतिषिकमा
उपपात
असंख्यात० सं० पंच०
तिर्यंचोनी उपपात-
सख्या

असंख्यात० सं० पंच०
तिर्यंचोनी ज्योति-
षिकमा उपपात.

सख्यात० सं० पंच०
तिर्यंचोनी ज्योति-
षिकमा उपपात

१०. [प्र०] जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति० ? [उ०] भेदो तहेव । जाव—

११. [प्र०] असंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं भंते ! जे भविए जोइसिएसु उववज्जित्तए से णं भंते ! ० ? [उ०] एवं जहा असंखेज्जवासाउयसन्निपंचिदियस्स जोइसिएसु चेव उववज्जमाणस्स सत्त गमगा तहेव मणुस्साण वि । नवरं ओगाहणा-विसेसो पढमेसु तिसु गमपसु । ओगाहणा जहद्रेणं सातिरेगाइं नव धणुसयाइं, उक्कोसेणं तिन्नि गाउयाइं । मज्झिममगए जह-द्रेणं सातिरेगाइं नव धणुसयाइं, उक्कोसेण वि सातिरेगाइं नव धणुसयाइं । पच्छिमेसु तिसु गमपसु जहद्रेणं तिन्नि गाउयाइं, उक्कोसेण वि तिन्नि गाउयाइं । सेसं तहेव निरवसेसं जाव—‘संवेहो’त्ति ।

१२. [प्र०] जइ संखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से० ? [उ०] सखेज्जवासाउयाणं जहेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणं तहेव नव गमगा भाणियघा । नवरं जोतिसियठित्ति संवेहं च जाणेज्जा, सेसं तं चेव निरवसेसं । ‘सेवं भंते ! सेवं भंते’ ! त्ति ।

चउवीसतिमे सए तेवीसइमो उद्देशो समत्तो ।

१०. जो तेओ मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय तो तेने वधी विशेषता पूर्वे कहेला संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनी पेठे कहेवी. यावत्—

मनुष्योनी ज्योतिषि-
कमां उपपाद.

११. [प्र०] हे भगवन् ! असंख्याता वर्पना आयुपवाळो संज्ञी मनुष्य जे ज्योतिषिकोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा ज्योतिषिकोमां उत्पन्न थाय ? [उ०] जेम ज्योतिषिकोमां उत्पन्न थता असंख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचने सात गमको कहा छे तेम ज मनुष्योने पण सात गमको कहेवा. परन्तु प्रथमना त्रण गमकोमां शरीरनी अवगाहनानो विशेष छे. अवगाहना जघन्य कांडक अधिक नवसो धनुप अने उत्कृष्ट त्रण गाउनी होय छे. मध्यमना गमकोमां जघन्य अने उत्कृष्ट कांडक अधिक नवसो धनुप अने छेला त्रण गमकोमा जघन्य अने उत्कृष्ट त्रण गाउनी छे. वाकी वधुं यावत्—संवेध सुधी ते ज प्रमाणे छे.

१२. जो ते संख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी मनुष्योथी आवी उत्पन्न थाय तो तेने असुरकुमारोमां उपजता संख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी मनुष्योनी पेठे नवे गमको कहेवा. पण ज्योतिषिकनी स्थिति अने संवेध भिन्न जाणवो. वाकी वधुं ते ज प्रमाणे जाणवुं. हे भगवन् ! ते एम ज छे, हे भगवन् ! ते एम ज छे.†

संख्याता० सं० मनु-
ष्योनी ज्योतिषिकमां
उपपाद.

चोवीशमा शतकमां त्रेवीशमो उद्देशक समाप्त.

चउवीसतिमो उद्देशो ।

१. [प्र०] सोहम्मदेवा णं भंते ! कओहितो उववज्जंति ? किं नेरइपहितो उववज्जंति ? [उ०] भेदो जहा जोइसिय-उद्देशए ।

२. [प्र०] असंखेज्जवासाउयसन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए सोहम्मगदेवेसु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवतिकाल० ? [उ०] गोयमा ! जहद्रेणं पलिओवमट्ठितिएसु, उक्कोसेणं तिपलिओवमट्ठितिएसु उववज्जेजा ।

३. [प्र०] ते णं भंते ! [उ०] अवसेसं जहा जोइसिएसु उववज्जमाणस्स । नवरं सम्मदिट्ठी वि, मिच्छादिट्ठी वि, णो

चोवीशमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! सौधर्मदेवो क्याथी आवी उत्पन्न थाय ? शुं नेरयिकोथी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि. [उ०] त्रेवीशमा ज्योतिषिक उद्देशकमा कहा प्रमाणे भेद कहेवो.

वैमानिकोनी
उपपाद.

२. [प्र०] हे भगवन् ! असंख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचनोिक, जे सौधर्मदेवलोका उतपन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा सौधर्म देवमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य *पल्योपमनी अने उत्कृष्ट त्रण पल्योपमनी स्थितिवाळा सौधर्मदेवोमां उत्पन्न थाय.

असंख्यात० सं० ए०
तिर्यंचनी सौधर्म
देवलोका उपपाद.

३. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय—इत्यादि वाकीनी हकीकत ज्योतिषिकमां उत्पन्न थता असंख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी तिर्यंचनी पेठे कहेवी. परन्तु विशेष ए के ते सम्यग्दृष्टि पण होय अने मिथ्यादृष्टि पण होय, पण मिश्रदृष्टि न

परिमाणादि.

२ * सौधर्म देवलोका जघन्य आयुप एक पल्योपमनुं होय छे, तेथी तिर्यंचो जघन्य पल्योपमनी स्थितिवाळा देवोमा उत्पन्न थाय छे, अने उत्कृष्ट आयुप जे सागरोपमतु होय छे. पण तिर्यंचो उत्कर्षेथी त्रण पल्योपम आयुपवाळा ज होय छे, तेनाथी अधिक देवायुप बांधता नथी. माटे तिर्यंचो उत्कृष्ट त्रण पल्योपमना आयुपवाळा सौधर्म देवोमा उत्पन्न थाय छे एम कलुं छे.

सम्मामिच्छादिद्वी । णाणी वि, अन्नाणी वि, दो णाणा दो अन्नाणा नियमं । टिती जहन्नेणं पल्लिवोवमं, उक्कोसेणं तिन्नि पल्लिवोवमाइं । एवं अणुयंघो वि, सेसं तहेव । कालादेसेणं जहन्नेणं दो पल्लिवोवमाइं, उक्कोसेणं छप्पल्लिवोवमाइं—एवतियं० १ ।

४. सो चेव जहन्नकालट्टितिपसु उचवन्नो एस चेव वत्तघया । नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं दो पल्लिवोवमा, उक्कोसेणं चत्तारि पल्लिवोवमाइं—एवतियं० २ ।

५. सो चेव उक्कोसकालट्टितिपसु उचवन्नो जहन्नेणं तिपल्लिवोवम०, उक्कोसेणं वि तिपल्लिवोवम०—एस चेव वत्तघया । नवरं टिती जहन्नेणं तिन्नि पल्लिवोवमाइं, उक्कोसेणं वि तिन्नि पल्लिवोवमाइं, सेसं तहेव । कालादेसेणं जहन्नेणं छप्पल्लिवोवमाइं, उक्कोसेणं वि छप्पल्लिवोवमाइं—एवतियं० ३ ।

६. सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्टितियो जायो, जहन्नेणं पल्लिवोवमट्टितिपसु, उक्कोसेणं वि पल्लिवोवमट्टितिपसु०, एस चेव वत्तघया । नवरं ओगाहणा जहन्नेणं घणुपुहत्तं, उक्कोसेणं दो गाउयाइं । टिती जहन्नेणं पल्लिवोवमं, उक्कोसेणं वि पल्लिवोवमं, सेसं तहेव । कालादेसेणं जहन्नेणं दो पल्लिवोवमाइं, उक्कोसेणं पि दो पल्लिवोवमाइं—एवतियं० ६ ।

७. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्टितियो जायो, आदिह्लगमगरिसा तिन्नि गमगा णेयघा । नवरं टिती कालादेसं च जाणेजा ९ ।

८. [प्र०] जइ संखेज्जासाउयसत्तिपंचिदियं ? [उ०] संखेज्जासाउयस्स जहेव असुरकुमारसेसु उचवज्जमाणस्स तहेव नव वि गमा । नवरं टिती संवेहं च जाणेजा । जाहे य अप्पणा जहन्नकालट्टितियो भवति ताहे तिसु वि गमएसु सम्मदिद्वी वि, मिच्छादिद्वी वि, णो सम्मामिच्छादिद्वी । दो नाणा दो अन्नाणा नियमं, सेसं तं चेव ।

९. [प्र०] जइ मणुस्सोहिंतो उचवज्जति० ? [उ०] भेदो जहेव जोतिसिपसु उचवज्जमाणस्स । जाव—

१०. [प्र०] असंखेज्जासाउयसत्तिमणुस्से णं मंते ! जे भविए सोहम्मो कप्पे देवत्ताए उचवज्जित्तप० ? [उ०] एवं

होय, ज्ञानी पण होय अने अज्ञानी पण होय. तेओने वे ज्ञान के वे अज्ञान अवश्य होय छे. तेओनी स्थिति जवन्य पल्योपमनी अने उत्कृष्ट त्रण पल्योपमनी होय छे. ए प्रमाणे अनुबंध पण जाणवो. बाकी वधुं ते ज प्रमाणे जाणवुं. कालादेशयी जवन्य वे पल्योपम अने उत्कृष्ट छ पल्योपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (१).

असंख्यात० सं० प०
विद्वचनो सौधर्म
देवलोक्रमा उपपात.

४. हवे जो ते (असंख्यात वर्पना आयुपवाळो संज्ञी तिर्यचनोनि क) जवन्यकाळनी स्थितिवाळा सौधर्मदेवमां उत्पन्न थाय तो तेने ए ज वक्तव्यता कहेवी. विशेष ए के कालादेशयी जवन्य वे पल्योपम अने उत्कृष्ट चार पल्योपम—एटलो काळ यावत्—गतिआ-गति करे (२).

असंख्यात० सं० प०
विद्वचनो सौधर्म
देवलोक्रमा उपपात.

५. जो ते ज जीव उत्कृष्टकाळनी स्थितिवाळा सौधर्म देवमां उत्पन्न थाय तो जवन्य अने उत्कृष्ट त्रण पल्योपमनी स्थितिवाळा सौधर्म देवलोक्रमां उत्पन्न थाय—इत्यादि पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. विशेष ए के स्थिति जवन्य अने उत्कृष्ट त्रण पल्योपमनी जाणवी. बाकी वधुं पूर्वे कक्षा प्रमाणे कहेवुं. कालादेशयी जवन्य अने उत्कृष्ट छ पल्योपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (३).

असंख्यात० सं० प०
विद्वचनो सौधर्म
देवलोक्रमा उपपात.

६. जो ते पोते जवन्य स्थितिवाळो होय (अने सौधर्म देवमा उत्पन्न) थाय तो ते जवन्य अने उत्कृष्ट पल्योपमनी स्थितिवाळा सौधर्म देवलोक्रमां उत्पन्न थाय. तेने पण ए ज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. विशेष ए के शरीरनुं प्रमाणे जवन्य धनुपपुयक्व अने उत्कृष्ट वे गाउनुं होय छे. स्थिति जवन्य अने उत्कृष्ट पल्योपमनी होय छे. बाकी वधुं पूर्वे कक्षा प्रमाणे जाणवुं. कालादेशयी जवन्य अने उत्कृष्ट वे पल्योपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे (६).

असंख्यात० सं० प०
विद्वचनो सौधर्म
देवलोक्रमा उपपात.

७. जो ते पोते उत्कृष्ट स्थितिवाळो होय तो तेने प्रथम गमक जेवा त्रण गमको कहेवा. विशेष ए के स्थिति अने कालादेश मित्र जाणवो (९).

असंख्यात० सं० प०
विद्वचनो सौधर्म
देवलोक्रमा उपपात.

८. जो तेवो (सौधर्म देवो) संख्याता वर्पना आयुपवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोयी आवी उत्पन्न थाय तो तेने असुरकुमारोमां उत्पन्न यता संख्याता वर्पना आयुपवाळा तिर्यचनी पेटे नवे गमको कहेवा. विशेष ए के अर्ही स्थिति अने संवेध मित्र मित्र जाणवो. प्यारे ते पोते जवन्य स्थितिवाळो होय स्यारे त्रणे गमकोमा सम्मगट्टि अने मिध्याट्टि होय, पण मिश्रट्टि न होय. वे ज्ञान अने वे अज्ञान अवश्य होय. बाकी वधुं पूर्वे कक्षा प्रमाणे जाणवुं.

मनुष्योनी सौधर्म
देवलोक्रमा उपपात.

९. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते (सौधर्म देवो) मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय तो—इत्यादि ज्योतिषिकमां उत्पन्न यता संज्ञी मनुष्यनी पेटे भेद कहेवो. यावत्—

१०. [प्र०] हे भगवन् ! असंख्य वर्पना आयुपवाळो संज्ञी मनुष्य, जे सौधर्मकल्पमां देवपणे उत्पन्न यवाने योग्य छे ते केटळ.

जह्वे असंखेज्जवासाउयस्स सन्निपंचिदियतिरिक्खजोणियस्स सोहम्मे कप्पे उववज्जमाणस्स तहेव सत्त गमगा । नवरं आदि-
ह्णप्पु दोसु गमपसु ओगाहणा जह्वेण गाउयं, उक्कोसेणं तिन्नि गाउयाइं । ततियगमे जह्वेणं तिन्नि गाउयाइं, उक्कोसेण वि
तिन्नि गाउयाइं । चउत्थगमप जह्वेणं गाउयं, उक्कोसेण वि गाउयं । पच्छिमपसु तिसु गमपसु जह्वेणं तिन्नि गाउयाइं, उक्को-
सेण वि तिन्नि गाउयाइं । सेसं तहेव निरवसेसं ९ ।

११. [प्र०] जइ संखेज्जवासाउयसन्निमणुस्सेहिंतो ? [उ०] एवं संखेज्जवासाउयसन्निमणुस्साणं जह्वे असुरकुमारोसु
उववज्जमाणं तहेव णव गमगा भाणियव्वा । नवरं सोहम्मदेवद्विंति संवेहं च जाणेज्जा, सेसं तं चेव ९ ।

१२. [प्र०] ईसाणदेवा णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? [उ०] ईसाणदेवाणं पस चेव सोहम्मगदेवसरिसा वत्तव्या ।
नवरं असंखेज्जवासाउयसन्निपंचिदियतिरिक्खजोणियस्स जेसु ठाणेसु सोहम्मे उववज्जमाणस्स पलिओवमडिती तेसु ठाणेसु
इह सातिरेगं पलिओवमं कायव्वं । चउत्थगमे ओगाहणा—जह्वेणं धणुपुहत्तं, उक्कोसेणं सातिरेगाइं दो गाउयाइं, सेसं तहेव ९ ।

१३. असंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्स वि तहेव ठिती जहा पंचिदियतिरिक्खजोणियस्स असंखेज्जवासाउयस्स ।
ओगाहणा वि जेसु ठाणेसु गाउयं तेसु ठाणेसु इहं सातिरेगं गाउयं, सेसं तहेव ९ ।

१४. संखेज्जवासाउयाणं तिरिक्खजोणियाणं मणुस्साण य जह्वे सोहम्मोसु उववज्जमाणं तहेव निरवसेसं णव वि
गमगा । नवरं ईसाणठिंति संवेहं च जाणेज्जा ९ ।

१५. [प्र०] सणकुमारदेवा णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? [उ०] उववाओ जहा सक्करप्पभापुढविनेरइयाणं । जाव—

१६. [प्र०] पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविप सणकुमारदेवोसु उववज्जित्तप० ?
[उ०] अवसेसा परिमाणादीया भवादेसपज्जवसाणा सखेव वत्तव्या भाणियव्वा जहा सोहम्मे उववज्जमाणस्स । नवरं सण-
कुमारद्विंति संवेहं च जाणेज्जा । जाहे य अप्पणा जह्वेणकालद्वितीओ भवति ताहे तिसु वि गमपसु पंच लेस्साओ आदिल्लाओ
कायव्वाओ, सेसं तं चेव ९ ।

काळनी स्थितिवाळा सौधर्म देवोमां उत्पन्न थाय ? [उ०] सौधर्मकल्पमां उत्पन्न थता असंख्यवर्पना आयुषवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयो-
निकनी पेठे साते गमको कहेवा. विशेष ए के प्रथमना वे गमकमां शरीरनुं प्रमाण जघन्य एक गाउनुं अने उत्कृष्ट त्रण गाउनुं, त्रीजा
गमकमां जघन्य अने उत्कृष्ट त्रण गाउनुं, चोया गमकमा जघन्य अने उत्कृष्ट एक गाउनुं, अने छेळा त्रण गमकोमां जघन्य अने उत्कृष्ट
त्रण गाउनुं होय छे. वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणतुं (९).

११. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते संख्याता वर्पना आयुषवाळा संज्ञी मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि असुरकुमारोमां
उत्पन्न थता संख्याता वर्पना आयुषवाळा संज्ञी मनुष्योनी पेठे नवे गमको कहेवा. विशेष ए के अहीं सौधर्मदेवनी स्थिति अने संवेध भिन्न
जाणवो. वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणतुं (९).

संख्यात० स० मनु-
ष्योनी सौधर्म देव-
कोकमा उपपात.

१२. [प्र०] हे भगवन् ! ईशान देवो क्याथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] ईशानदेवोनी वक्तव्यता सौधर्मदेवनी पेठे कहेवी. परन्तु
जे स्थानोमा असंख्यात वर्पना आयुषवाळा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकनी पल्योपमनी स्थिति कही छे, ते स्थानोमां अहीं काइक अधिक
पल्योपमनी कहेवी. चोया गमकमां शरीरनुं प्रमाण जघन्य धनुपपृथक्त्व अने उत्कृष्ट काइक अधिक वे गाउनुं होय छे. वाकी वधुं पूर्वे कह्या
प्रमाणे जाणतुं (९).

ईशान देवोनी
उपपात.

१३. असंख्याता वर्पना आयुषवाळा संज्ञी मनुष्यनी स्थिति तेमज जाणवी—एटले असंख्यातवर्पना आयुषवाळा पंचेन्द्रियतिर्यचयो-
निकनी पेठे जाणवी. अने जे स्थानोमां शरीरनुं प्रमाण गाउनुं कहुं छे ते स्थानोमा अहीं साधिक गाउ कहेतुं. वाकी वधुं ते ज प्रमाणे जाणतुं ९.

१४. सौधर्ममा उत्पन्न थनार संख्याता वर्पना आयुषवाळा तिर्यचयोनिको अने मनुष्यो संवंधे नवे गमको कह्या छे तेम ईशान देवो
संवंधे अहीं कहेवा. विशेष ए के अहीं ईशानदेवोनी स्थिति अने संवेध जाणवो (९).

सख्यात० सत्री० प०
तिर्यचो अने मनु-
ष्योनी ईशान देव-
कोकमा उपपात
सनकुमार देवोनी
उपपात.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! सनकुमारदेवो क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] शर्कराप्रमाना नैरथिको पेठे तेनो उपपात कहेवो. यावत्—

१६. [प्र०] हे भगवन् ! सख्याता वर्पना आयुषवाळो पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक, जे सनकुमार देवोमा उत्पन्न थवाने
योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा सनकुमार देवमा उत्पन्न थाय—इत्यादि परिमाणथी मांडी भवादेश सुधीनी वधी वक्तव्यता सौध-
र्ममा उत्पन्न थनार संख्याता वर्पना आयुषवाळा संज्ञी तिर्यचनी पेठे कहेवी. विशेष ए के अहीं सनकुमारोनी स्थिति अने संवेध जुदो
जाणवो. ज्यारे ते पोते जघन्य स्थितिवाळो होय ल्यारे त्रणे गमकोमां प्रथमनी पांचि लेख्याओ जाणवी. वाकी वधुं ते ज प्रमाणे कहेतुं (९).

सख्यात० सं० पं०
तिर्यचो सनकुमा-
रमा उपपात

१७. [प्र०] जद मणुस्सेहितो उववजंति० ? [उ०] मणुस्साणं जहेव सकरप्पभाए उववज्जमाणाणं तहेव णव वि गमा भाणियद्या । नवरं सणकुमारट्टित्ति संवेहं च जाणेजा ९ ।

१८. [प्र०] माहिंदगदेवा णं भंते ! कयोहितो उववजंति ? [उ०] जहा सणकुमारगदेवाणं वचघया तहा माहिंदगदेवाणं भाणियद्या । नवरं माहिंदगदेवाणं ठिती सातिरेगा भाणियद्या स घेव । एवं वंमलोगदेवाण वि वचघया । नवरं वंमलोगट्टित्ति संवेहं च जाणेजा । एवं जाव-सहस्सारे । णवरं ठित्ति संवेहं च जाणेजा । लंतगादीणं जहन्नकालट्टितियस्स तिरिक्खजो-णियस्स तिसु वि गमएसु छण्णि लेस्साओ कायद्वाओ । संघयणाइं वंमलोग-लंतपसु पंच आदिह्णगणि, महासुकसहस्सारेसु चत्तारि । तिरिक्खजोणियाण वि मणुस्साण वि, सेसं तं चेव ९ ।

१९. [प्र०] आणयदेवा णं भंते ! कयोहितो उववजंति ? [उ०] उववाओ जहा सहस्सारदेवाणं । णवरं तिरिक्खजो-णिया खोडेयद्या, जाव-

२०. [प्र०] पज्जत्तसंखेज्जावासाउयत्तमणुस्से णं भंते ! जे भविए आणयदेवेसु उववज्जित्तए० ? [उ०] मणुस्साण य वचघया जहेव सहस्सारेसु उववज्जमाणाणं । णवरं तिननि संघयणाणि, सेसं तहेव जाव-अणुवंधो । भवादेसेणं जहन्नेणं तिननि भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं सत्त भवग्गहणाइं । कालादेसेणं जहन्नेणं अट्टारस सागरोवमाइं दोहिं वासपुहत्तेहिं अम्महियाइं, उक्कोसेणं सत्तावन्नं सागरोवमाइं चउहिं पुव्वकोडीहिं अम्महियाइं-एवतियं० । एवं सेसा वि अट्ट गमगा भाणियद्या । नवरं ठित्ति संवेहं च जाणेजा, सेसं तं चेव ९ । एवं जाव-अच्युयदेवा, नवरं ठित्ति संवेहं च जाणेजा ९ । चउसु वि संघयणा तिननि आणयादीसु ।

२१. [प्र०] गेवेज्जगदेवा णं भंते ! कयोहितो उववजंति ? [उ०] एस चेव वचघया । नवरं दो संघयणा । ठित्ति संवेहं च जाणेजा ।

२२. [प्र०] विजय-वैजयंत-जयंत-अपराजितदेवा णं भंते ! कतोहितो उववजंति ? [उ०] एस चेव वचघया निर-

१७. [प्र०] जो मनुष्योयी आवी उत्पन्न थाय तो तेने शर्कराप्रभामां उपजता मनुष्योनी पेटे नवे गमको कहेवा. विशेष ए के अहीं सनत्कुमारनी स्थिति अने संवेध जुदो जाणवो (९).

१८. [प्र०] हे भगवन् ! माहेन्द्र देवो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] जेम सनत्कुमार देवनी वक्तव्यता कही छे तेम माहेन्द्र-देवोनी पण जाणवी. विशेष ए के, माहेन्द्र देवोनी स्थिति सनत्कुमार देवो करता काइक वधारे कहेवी. ए प्रमाणे ब्रह्मलोकना देवोनी पण वक्तव्यता कहेवी. विशेष ए के अहीं ब्रह्मलोकनी स्थिति अने संवेध जुदो जाणवो. ए प्रमाणे यावत्-सहस्रार देवलोक सुधी जाणवुं. विशेष ए के अहीं स्थिति अने संवेध जुदो जाणवो. टातक वगरे देवलोकमा उत्पन्न थता जघन्यस्थितिवाळा तिर्यंचयोनिकने त्रणे गम-कोमां छ ए लेख्यओ जाणवी. ब्रह्मलोक अने लांतकमां प्रथमना पाच संघयण होय छे, अर्थात् आदिना पांच सुधीना संघयणवाळा त्यां उत्पन्न थाय छे. महासुक अने सहस्रारमा प्रथमना चार संघयणवाळा उपजे छे. आ वक्तव्यता तिर्यंचो अने मनुष्योने आश्रयी जाणवी. वाकी वधुं ते ज प्रमाणे कहेवुं (९).

१९. [प्र०] हे भगवन् ! आनत देवो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] सहस्रार देवोनी पेटे उपपात कहेवो. विशेष ए के अहीं तिर्यंचयोनिकोनी निषेध करवो. अर्थात् तेओ अहिं उपजता नथी. यावत्-

२०. [प्र०] हे भगवन् ! सत्याना वर्पना आयुपवाळो पर्यात संज्ञी मनुष्य, जे आनतदेवोमा उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला काळनी स्थितिवाळा आनत देवोमां उत्पन्न थाय-इत्यादि प्रश्न. [उ०] सहस्रारदेवोमां उत्पन्न थनार मनुष्योनी वक्तव्यता अहीं कहेवी. विशेष ए के प्रथमना त्रण संघयणो अहिं कहेवा. अर्थात्-प्रथमना त्रण संघयणवाळा अहिं उपजे छे. वाकी वधुं पूर्वे कखा प्रमाणे यावत्-अनुबंध सुधी जाणवुं. भवादेशयी जघन्य त्रण भव अने उत्कृष्ट सात भव तथा काळादेशयी जघन्य वे वर्पपृथक्त्व अधिक अट्टार सागरोपम अने उत्कृष्ट चारपूर्वकोटी अधिक सत्तावन सागरोपम-एट्टो काळ यावत्-गतिआगति करे. ए प्रमाणे वाकीना आठ गमको कहेवा. विशेष ए के अहीं स्थिति अने संवेध भिन्न जाणवो. तथा वाकी वधुं तेज प्रमाणे कहेवुं (९). ए प्रमाणे यावत्-अच्युतदेव सुधी जाणवुं. पण विशेष ए के पोतपोतानी स्थिति अने संवेध भिन्न जाणवा. आनतादि चारे खर्गोमां प्रथमना त्रण संघयणवाळा उपजे छे.

२१. [प्र०] हे भगवन् ! त्रैवेयक देवो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय-इत्यादि पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. विशेष ए के अहीं प्रथमना वे संघयणवाळा उपजे छे. तथा पोतानी स्थिति अने संवेध जुदो जाणवो.

२२. [प्र०] हे भगवन् ! विजय, वैजयंत, जयंत अने अपराजित देवो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे-इत्यादि पूर्वोक्त वधी

मनुष्योनी धनत्कु-
मारमां उपपात.

माहेन्द्र देवोनी
उपपात.

आनत देवोनी
उपपात

त्रैवेयकोनी उपपात.

विजयादिमां
उपपात.

वसेसा, जाव—‘अणुवंधो’त्ति । नवर पढमं संघयणं, सेसं तहेव । भवादेसेणं जहन्नेणं तिन्नि भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं पंच भव-
ग्गहणाइं । कालादेसेणं जहन्नेणं एकतीसं सागरोवमाइं दोहिं वासपुहत्तोहिं अब्भहियाइं, उक्कोसेणं छावट्ठिं सागरोवमाइं तिहिं
पुव्वकोडीहिं अब्भहियाइं—एवतियं० । एवं सेसा चि अट्ट गमगा भाणियच्च । नवरं ठिर्ति संवेहं च जाणेज्जा । मणूसे लद्धी
णवसु चि गमएसु जहा गेवेज्जेसु उववज्जमाणस्स । नवरं पढमसंघयणं ।

२३. [प्र०] सच्चट्टगसिद्धगदेवा णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? [उ०] उववाओ जहेव विजयादीणं । जाव—

२४. [प्र०] से णं भंते ! केवतिकालट्टितिएसु उववज्जेज्जा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं तेत्तीसंसागरोवमट्टितिएसु,
उक्कोसेण वि तेत्तीससागरोवमट्टितिएसु उववज्जंति, अवसेसा जहा विजयाइंसु उववज्जंताणं । नवरं भवादेसेणं तिन्नि भग-
ग्गहणाइं, कालादेसेणं जहन्नेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं दोहिं वासपुहत्तोहिं अब्भहियाइं, उक्कोसेण वि तेत्तीसं सागरोवमाइं दोहिं
पुव्वकोडीहिं अब्भहियाइं—एवतियं० ।

२५. सो चेव अण्णणा जहन्नकालट्टितियो जाओ एस वत्तच्चया । नवरं ओगाहणाठितीओ रयणिपुहत्त—वासपुहत्ताणि,
सेसं तहेव, संवेहं च जाणेज्जा २ ।

२६. सो चेव अण्णणा उक्कोसकालट्टितियो जाओ, एस चेव वत्तच्चया । नवरं ओगाहणा जहन्नेणं पंच धणुसयाइं, उक्को-
स्सेणं पंचधणुसयाइं । ठिती जहन्नेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी, सेसं तहेव जाव—‘भवादेसो’त्ति । कालादेसेणं जहन्नेणं
तेत्तीसं सागरोवमाइं दोहिं पुव्वकोडीहिं अब्भहियाइं, उक्कोसेण वि तेत्तीसं सागरोवमाइं, दोहिं वि पुव्वकोडीहिं अब्भहियाइं
—एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागतिं करेज्जा ३ । एते तिन्नि गमगा सच्चट्टसिद्धगदेवाणं । ‘सेवं भंते ! सेवं
भंते’ ! त्ति भगवं गोयमे जाव—विहरइ ।

चउवीसतिमे सए चउवीसइमो उद्देशो समत्तो ।

चउवीसतिमं सयं समत्तं ।

वक्तव्यता यावत्—अनुबंध सुधी कहेवी. विशेष ए के अहीं प्रथम संघयणवाळा उपजे छे, वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणवुं. भवादेशथी
जघन्य त्रण भव अने उत्कृष्ट पांच भव सुधी तथा काळादेशथी जघन्य वे वर्षपृथक्त्व अधिक एकत्रीश सागरोपम अने उत्कृष्ट त्रण
पूर्वकोटी अधिक छासठ सागरोपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे. ए प्रमाणे वाकीना आठे गमको कहेवा. विशेष ए के पोतानी
स्थिति अने संवेध भिन्न भिन्न जाणवो. मनुष्यने नवे गमकोमा त्रैवेयकमां उत्पन्न थनार मनुष्यनी पेटे लट्ठि—उत्पत्ति कहेवी. विशेष
ए के स्वां [विजयादिमा] प्रथम संघयणवाळो उपजे छे.

२३. [प्र०] हे भगवन् ! सर्वार्थसिद्धना देवो क्वाथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओनो उपपात विजयादिकनी
पेटे कहेवो. अने ते यावत्—

सर्वार्थसिद्ध देवोमां
उपपात.

२४. [प्र०] हे भगवन् ! ते (संज्ञी मनुष्यो) केटला काळ सुधीनी स्थितिवाळा सर्वार्थसिद्ध देवोमां उत्पन्न थाय ? [उ०]
हे गौतम ! तेओ जघन्य अने उत्कृष्ट तेत्रीश सागरोपमनी स्थितिवाळा सर्वार्थसिद्ध देवोमा उत्पन्न थाय. ए संवेधे वीजी वधी वक्तव्यता
विजयादिकमां उत्पन्न यता मनुष्यनी पेटे कहेवी. विशेष ए के भवादेशथी त्रण भव अने काळादेशथी जघन्य वे वर्षपृथक्त्व अधिक
तेत्रीश सागरोपम तथा उत्कृष्ट वे पूर्वकोटी अधिक तेत्रीश सागरोपम—एटलो काळ यावत्—गतिआगति करे.

२५. जो ते (संज्ञी पं० मनुष्य) पोते जघन्य काळनी स्थितिवाळो होय तो तेने पण ए ज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी.
विशेष ए के शरीरुं प्रमाण वेधी नव हाय, अने स्थिति वेधी नव वर्ष सुधीनी जाणवी. वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे कहेवुं. तथा अहीं
स्थिति अने संवेध भिन्न जाणवो.

ज० सधी मनुष्यनो
सर्वार्थसिद्ध देवोमां
उपपात.

२६. जो ते (संज्ञी मनुष्य) पोते उत्कृष्टकाळनी स्थितिवाळो होय तो तेने ए ज पूर्वोक्त वक्तव्यता कहेवी. विशेष ए के
शरीरुं प्रमाण जघन्य अने उत्कृष्ट पांचसो धनुपनुं तथा स्थिति जघन्य अने उत्कृष्ट पूर्वकोटीनी होय छे. वाकी वधुं पूर्व प्रमाणे यावत्—
भवादेश सुधी जाणवुं. काळादेशथी जघन्य अने उत्कृष्ट वे पूर्वकोटी अधिक तेत्रीश सागरोपम—एटलो काळ यावत्—गमनागमन करे. सर्वार्-
थसिद्ध देवोने आ त्रण गमको ज होय छे. ‘हे भगवन् ! ते एम ज छे, हे भगवन् ! ते एम ज छे’—एम कही भगवान् गौतम यावत्—विहरे छे.

उ० सधी मनुष्यनो
सर्वार्थसिद्धमा
उपपात.

चोवीशमा शतकमां चोवीशमो उद्देशक समाप्त.

चोवीशमुं शतक समाप्त.

पंचवीसतिमं सयं ।

१ लेसा य २ दव ३ संठाण ४ जुम्म ५ पज्जव ६ नियंठ, ७ समणा य ।
८ ओहे ९-१० भवियाभविण ११ सम्मा १२ मिच्छे य उद्देसा ॥

पढमो उद्देसो ।

१. [प्र०] तेणं कालेणं तेणं समणं रायगिहे जाव-एवं वयासी-कति णं मंते ! लेस्साओ पन्नचाओ ? [उ०] गोयमा ! छल्लेसाओ पन्नचाओ, तंजहा-कण्हलेसा-जहा पढमसए चितिण उद्देसए तहेव लेस्साविमाणो । अप्पावहुगं च जाव-चउच्चिहाणं देवाणं चउच्चिहाणं देवीणं. मीसगं अप्पावहुगंति ।

२. [प्र०] कतिविहा णं मंते ! संसारसमावन्नगा जीवा पन्नचा ? [उ०] गोयमा ! चोइसविहा संसारसमावन्नगा जीवा पन्नचा, तंजहा-१ सुहुमअप्पज्जत्तगा, २ सुहुमपज्जत्तगा, ३ चादरअपज्जत्तगा, ४ वादरपज्जत्तगा, ५ वेइंदिया अप्पज्जत्तगा, ६ वेइंदिया पज्जत्तगा, ७-८ एवं तेइंदिया, ९-१० एवं चउरिंदिया, ११ असन्निपंचिंदिया अप्पज्जत्तगा, १२ असन्निपंचिंदिया पज्जत्तगा, १३ सन्निपंचिंदिया अप्पज्जत्तगा, १४ सन्निपंचिंदिया पज्जत्तगा ।

पचीशमुं शतक.

[उद्देशकार्यसंग्रह-] १ लेइया वगेरे संबन्धे प्रथम उद्देशक, २ द्रव्य विषे वीजो उद्देशक, ३ संस्यान वगेरे सबन्धे वीजो उद्देशक, ४ युग्म-कृतयुग्मादि राशि संबन्धे चोपो उद्देशक, ५ पर्यावादि संबन्धे पाचमो उद्देशक, ६ पुलाकादि निर्गन्ध विषे छट्ठो उद्देशक, ७ श्रमणो संबन्धे सातमो उद्देशक, ८ ओव-सामान्य नारकादिनी उत्पत्ति विषे आठमो उद्देशक, ९ भव्य नारकादि संबन्धे नवमो उद्देशक, १० अमव्य नारकादि संबन्धे दशमो उद्देशक, ११ सम्यग्दृष्टि नारकादि सबन्धे अगियारमो उद्देशक अने १२ मिध्या-दृष्टि नारकादि संबन्धे बारमो उद्देशक-ए प्रमाणे पचीशमा शतकने विषे आ वार उद्देशको कहेवाना छे.

प्रथम उद्देशक.

लेइया.

१. [प्र०] ते काले अने ते समये राजगृह नगरमा [भगवान् गौतम] यावत्-आ प्रमाणे वोल्या-हे भगवन् ! केटली लेइयाओ कही छे ? [उ०] हे गौतम ! छ लेइयाओ कहीं छे, ते आ प्रमाणे-कृष्णलेइया-इत्यादि *प्रथम शतकना वीजा उद्देशकमां कहा प्रमाणे लेइयाओनो विभाग अने तेहुं अल्पबहुत्व यावत्-चार प्रकारना देवो अने चार प्रकारनी देवीओना †मिश्र अल्पबहुत्व सुधी कहेहुं.

२. [प्र०] हे भगवन् ! संसारी जीवो केटला प्रकारना कहा छे ? [उ०] हे गौतम ! संसारी जीवो चौद प्रकारना कहा छे, ते आ प्रमाणे-१ अपर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, २ पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, ३ अपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय, ४ पर्याप्त वादर एकेन्द्रिय, ५ अपर्याप्त वेइन्द्रिय, ६ पर्याप्त वेइन्द्रिय, ७-८ ए प्रमाणे पर्याप्त अने अपर्याप्त तेइन्द्रिय, ९-१० पर्याप्त अने अपर्याप्त चउरिन्द्रिय, ११ अपर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय, १२ पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय, १३ अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय अने १४ पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय.

१ * भग० सं० १ श० १ उ० २ पृ० १०४.

† जुओ-प्रज्ञा० पद १७ उ० २ प० ३४३-३४९.

३. [प्र०] एतेसि णं मंते ! चोद्दसविहाणं संसारसमावन्नगाणं जीवाणं जहद्दुक्कोसगस्स जौगस्स कयरे कयरे० जाव-
विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! सधत्थोवे सुहुमस्स अपज्जत्तगस्स जहद्दण जोप १, वादरस्स अपज्जत्तगस्स जहद्दण जोप
असंखेज्जगुणे २, वेद्दियस्स अपज्जत्तगस्स जहद्दण जोप असंखेज्जगुणे ३, एवं तेद्दियस्स ४, एवं चउरिद्दियस्स ५, अस्-
न्निस्स पंचिद्दियस्स अपज्जत्तगस्स जहद्दण जोप असंखेज्जगुणे ६, सन्निस्स पंचिद्दियस्स अपज्जत्तगस्स जहद्दण जोप असंखे-
ज्जगुणे ७, सुहुमस्स पज्जत्तगस्स जहद्दण जोप असंखेज्जगुणे ८, वादरस्स पज्जत्तगस्स जहद्दण जोप असंखेज्जगुणे ९, सुहु-
मस्स अपज्जत्तगस्स उक्कोसए जोप असंखेज्जगुणे १०, वादरस्स अपज्जत्तगस्स उक्कोसए जोप असंखेज्जगुणे ११, सुहुमस्स
पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोप असंखेज्जगुणे १२, वादरस्स पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोप असंखेज्जगुणे १३, वेद्दियस्स पज्जत्तगस्स
जहद्दण जोप असंखेज्जगुणे १४, एवं तेद्दियस्स० १५, एवं जाव-सन्निपंचिद्दियस्स पज्जत्तगस्स जहद्दण जोप असंखेज्जगुणे १८,
वेद्दियस्स अपज्जत्तगस्स उक्कोसए जोप असंखेज्जगुणे १९, एवं तेद्दियस्स वि २०, एवं चउरिद्दियस्स वि २१, एवं जाव-
सन्निपंचिद्दियस्स अपज्जत्तगस्स उक्कोसए जोप असंखेज्जगुणे २३, वेद्दियस्स पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोप असंखेज्जगुणे २४, एवं
तेद्दियस्स वि पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोप असंखेज्जगुणे २५, चउरिद्दियस्स पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोप असंखेज्जगुणे २६, अस्-
न्निपंचिद्दियस्स पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोप असंखेज्जगुणे २७, एवं सन्निपंचिद्दियस्स पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोप असंखेज्जगुणे २८।

३. [प्र०] हे भगवन् ! ए चोद्द प्रकारना संसारी जीवोना जघन्य अने उत्कृष्ट योगने आश्रयी कया जीवो कोनाथी यावत्-
विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! सूक्ष्म अपर्याप्त जीवो जघन्य योग सौथी थोडो छे १. तेथी वादर अपर्याप्त जीवो जघन्य योग
असंख्य गुण छे २. तेथी वेद्दिन्द्रिय अपर्याप्तनो जघन्य योग असंख्यातगुण छे ३. तेथी तेद्दिन्द्रिय अपर्याप्तनो जघन्य योग असंख्यात गुण
छे ४. तेथी चउरिन्द्रिय अपर्याप्तनो जघन्य योग असंख्यात गुण छे ५. तेथी अपर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रियनो जघन्य योग असंख्यातगुण छे
६. तेथी अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रियनो जघन्य योग असंख्यात गुण छे ७. तेथी पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रियनो जघन्य योग असंख्यात गुण छे ८.
तेथी पर्याप्त वादर एकेन्द्रियनो जघन्य योग असंख्यात गुण छे ९. तेथी अपर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रियनो उत्कृष्ट योग असंख्यात गुण छे १०.
तेथी अपर्याप्त वादर एकेन्द्रियनो उत्कृष्ट योग असंख्यात गुण छे. ११. तेथी पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रियनो उत्कृष्ट योग असंख्यात गुण छे १२.
तेथी पर्याप्त वादर एकेन्द्रियनो उत्कृष्ट योग असंख्यात गुण छे १३. तेथी पर्याप्त वेद्दिन्द्रियनो जघन्य योग असंख्यात गुण छे १४. ए
प्रमाणे पर्याप्त तेद्दिन्द्रिय, यावत्-पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रियनो जघन्य योग (उत्तरोत्तर) असंख्यात गुण छे १५-१८. तेथी अपर्याप्त वेद्दिन्द्रियनो
उत्कृष्ट योग असंख्यात गुण छे १९. ए प्रमाणे अपर्याप्त तेद्दिन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, यावत्-संज्ञी पंचेन्द्रियनो उत्कृष्ट योग असंख्यात गुण
छे २०-२३. तेथी पर्याप्त वेद्दिन्द्रियनो उत्कृष्ट योग असंख्यात गुण छे २४. ए प्रमाणे अपर्याप्त तेद्दिन्द्रियनो उत्कृष्ट योग असंख्यात गुण
छे २५. तेथी पर्याप्त चउरिन्द्रियनो उत्कृष्ट योग असंख्यात गुण छे २६. तेथी पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रियनो उत्कृष्ट योग असंख्यात गुण
छे २७. अने तेथी पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रियनो उत्कृष्ट योग असंख्यात गुण छे २८.

योगसु अल्पबहुत्व.

* आत्मप्रदेशना परिस्पन्दन के कंपनने योग कहे छे ते योग वीर्यान्तरायकर्मना क्षयोपशमादिनी विचित्रताथी अनेकविध होय छे कोद्द जीवने
आश्रयी अल्प योग होय छे अने तेज बीजा जीवनी अपेक्षाए उत्कृष्ट होय छे. तेना चोद्द जीवस्थानकोने आश्रयी प्रत्येकना जघन्य अने उत्कृष्ट मेद गणतां
अख्यावीश प्रकार थाय छे. आ सूत्रमा तेना अल्पबहुत्वतुं कथन छे. तेमा सूक्ष्म अपर्याप्त एकेन्द्रियनो जघन्य योग सौथी अल्प होय छे. कारण के
तेथोतुं शरीर सूक्ष्म होवाथी अने अपर्याप्त होवाने लीधे अपूर्ण होवाथी बीजा बधा योगो करता तेनो योग सौथी थोडो छे अने ते कर्मणशरीर द्वारा
औदारिक पुद्गलो ग्रहण करवाना प्रथम समये होय छे अने पछी समये समये योगनी वृद्धि थाय छे अने ते उत्कृष्ट योगपर्यन्त वधे छे.

जघन्य अने उत्कृष्ट योगसु अल्पबहुत्व

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
सूक्ष्म एके- न्द्रिय अप- र्याप्त	सूक्ष्म एके- न्द्रिय पर्याप्त	वादर एके- न्द्रिय अप- र्याप्त	वादर एके- न्द्रिय पर्याप्त	वेद्दिन्द्रिय अपर्याप्त	वेद्दिन्द्रिय पर्याप्त	तेद्दिन्द्रिय अपर्याप्त	तेद्दिन्द्रिय पर्याप्त	चउरिन्द्रिय अपर्याप्त	चउरिन्द्रिय पर्याप्त	असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त	असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त	संज्ञी पंचे- न्द्रिय अपर्याप्त	संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त
जघन्य १	जघन्य ८	जघन्य २	जघन्य ९	जघन्य ३	जघन्य १४	जघन्य ४	जघन्य १५	जघन्य ५	जघन्य १६	जघन्य ६	जघन्य १७	जघन्य ७	जघन्य १८
उत्कृष्ट १०	उत्कृष्ट १२	उत्कृष्ट ११	उत्कृष्ट १३	उत्कृष्ट १९	उत्कृष्ट २४	उत्कृष्ट २०	उत्कृष्ट २५	उत्कृष्ट २१	उत्कृष्ट २६	उत्कृष्ट २२	उत्कृष्ट २७	उत्कृष्ट २३	उत्कृष्ट २८

४. [प्र०] दो भंते ! नेरतिया पदमसमयोववन्नगा किं समजोगी, किं विसमजोगी ? [उ०] गोयमा ! सिय समजोगी, सिय विसमजोगी । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चति—'सिय समजोगी, सिय विसमजोगी' ? [उ०] गोयमा ! आहार-याओ वा से अणाहारय, अणाहारयाओ वा से आहारय सिय हीणे, सिय तुहे, सिय अम्महिय । जइ हीणे असंखेज्जग्गमा-गहीणे वा, संखेज्जग्गमागहीणे वा, असंखेज्जगुणहीणे वा, संखेज्जगुणहीणे वा । अह अम्महिय असंखेज्जग्गमागमम्महिय वा, संखेज्जग्गमागमम्महिय वा, संखेज्जगुणमम्महिय वा, असंखेज्जगुणमम्महिय वा, से तेणट्टेणं जाव—सिय 'विसमजोगी' । एवं जाव—ब्रेमाणियाणं ।

५. [प्र०] कतिविहे णं भंते ! जोप पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! पन्नरसविहे जोप पन्नत्ते, तंजटा—सच्चमणजोप १, मोसमण-जोप २, सच्चामोसमणजोप ३, असच्चामोसमणजोप ४, सच्चवइजोप ५, मोसवइजोप ६, सच्चामोसवइजोप ७, असच्चामोस-वइजोप ८, ओरालियसरीरकायजोप ९, ओरालियमीसासरीरकायजोप १०, वेउद्वियसरीरकायजोप ११, वेउद्वियमीसास-रीरकायजोगे १२, आहारगसरीरकायजोगे १३, आहारगमीसासरीरकायजोगे १४, कम्मासरीरकायजोगे १५ ।

६. [प्र०] एयस्स णं भंते ! पन्नरसविहस्स जहन्नमोसगस्स कयरे कयरे० जाव—विसेसादिया वा ? [उ०] गोयमा ! सच्चथोवे कम्मगसरीरगस्स जहन्नपजोप १, ओरालियमीसगस्स जहन्नप जोप असंखेज्जगुणे २, वेउद्वियमीसगस्स जहन्नप जोप असंखेज्जगुणे ३, ओरालियसरीरगस्स जहन्नप जोप असंखेज्जगुणे ४, वेउद्वियसरीरस्स जहन्नप जोप असंखेज्जगुणे ५, कम्मग-सरीरस्स उक्कोसप जोप असंखेज्जगुणे ६, आहारगमीसस्स जहन्नप जोप असंखेज्जगुणे ७, तस्स चैव उक्कोसप जोप असंखे-ज्जगुणे ८, ओरालियमीसगस्स, वेउद्वियमीसगस्स य एयसि णं उक्कोसप जोप दोणह्विय तुहे असंखेज्जगुणे ९—१०, असच्चामो-समणजोगस्स जहन्नप जोप असंखेज्जगुणे ११, आहारगसरीरस्स जहन्नप जोप असंखेज्जगुणे १२, तिचिहस्स मणजोगस्स चउ-

प्रथम समयमां
उत्पन्न थयेला वे नेर-
पिकने आशयी योग.

७. [प्र०] हे भगवन् ! प्रथम समये उत्पन्न थयेला वे नेरयिको समान योगवाळा होय के विप्रम योगवाळा होय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ कदाच समान योगवाळा होय अने कदाच विप्रम योगवाळा पण होय. [प्र०] हे भगवन् ! शा हेतुपी एम कहेवाय छे के तेओ कदाच समान योगवाळा होय अने कदाच विप्रम योगवाळा होय ? [उ०] हे गौतम ! *आहारक नारकयी अनाहारक नारक अने अनाहारकयी आहारक नारक कदाच हीन योगवाळो, कदाच तुल्य योगवाळो अने कदाच अधिक योगवाळो होय. अर्थात् आहारक नारकयी अनाहारक नारक हीन योगवाळो, अनाहारकयी आहारक नारक अधिक योगवाळो, अने वने आहारक के वने अनाहारक नारको परस्पर तुल्य योगवाळा होय. जो ते हीनयोगवाळो होय तो ते असंख्यातमा भाग हीन, संख्यातमा भाग हीन, संख्यातगुण हीन के असंख्यात गुण हीन होय. जो अधिक योगवाळो होय तो असंख्यातमा भाग अधिक, संख्यातमा भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक के असंख्यात गुण अधिक होय छे. ते कारणयी यावत्—ते कदाच विप्रम योगवाळो पण होय. ए प्रमाणे धैमानिको सुधी जाणतुं.

योगना प्रकार.

५. [प्र०] हे भगवन् ! केट्ठ प्रकारनो योग कओ छे ? [उ०] हे गौतम ! पंदर प्रकारनो योग कओ छे, ते आ प्रमाणे—
१ सत्व मनोयोग, २ मृषा मनोयोग, ३ सत्यमृषा मनोयोग, ४ असत्वामृषा मनोयोग, ५ सत्व वचनयोग, ६ असत्व वचनयोग, ७ सत्यमृषा वचनयोग, ८ असत्वामृषा वचनयोग, ९ औदारिकशरीरकाययोग, १० औदारिकमिश्रशरीरकाययोग, ११ वैक्रिय शरीरकाययोग, १२ वैक्रियमिश्रशरीरकाययोग, १३ आहारकशरीरकाययोग, १४ आहारकमिश्रशरीरकाययोग अने १५ कार्मणशरीरकाययोग.

योगसु रूपवद्वत्त्व.

६. [प्र०] हे भगवन् ! जवन् अने उच्छ्रष्ट पंदर प्रकारना योगमां कयो योग कोनायी यावत्—विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! कार्मण शरीरनो जवन् योग सौयी अल्प छे १, तेयी औदारिकमिश्रनो जवन् योग असंख्यात गुण छे २, तेयी वैक्रियमिश्रनो जवन् योग असंख्यात गुण छे ३, तेयी औदारिक शरीरनो जवन् योग असंख्यात गुण छे ४, तेयी वैक्रिय शरीरनो जवन् योग असंख्यात गुण छे ५, तेयी कार्मण शरीरनो उच्छ्रष्ट योग असंख्यात गुण छे ६, तेयी आहारकमिश्रनो जवन् योग असंख्यातगुण छे ७, तेयी आहारकशरीरनो उच्छ्रष्ट योग असंख्यात गुण छे ८, तेयी औदारिकमिश्र अने वैक्रियमिश्रनो उच्छ्रष्ट योग असंख्यात गुण अने परस्पर समान छे ९—१०, तेयी असत्वामृषा मनोयोगनो जवन् योग असंख्यातगुण छे ११, तेयी आहारक शरीरनो जवन् योग असंख्यातगुण छे,

* आहारक नारकनी अपेक्षाए अनाहारक नारक हीन योगवाळो होय छे, कारण के जे नारक ऋजु गतियी आवीने आहारकपणे उत्पन्न थाय छे, ते निरन्तर आहारक होवाने छंभे पुद्गलोधी उपचित होय छे तेयी ते अधिक योगवाळो होय छे, जे नारक विप्रह गतिवटे अनाहारक पणे उत्पन्न थाय छे ते अनाहारक होवानी पुद्गलोधी अनुपचित होवाने छंभे हीन योगवाळो होय छे. जेओ समान समयनी विप्रह गतियी अनाहारकपणे उत्पन्न थाय, अथवा ऋजुगतियी आवीने आहारकपणे उत्पन्न थाय ते वने एक बीजानी अपेक्षाए समानयोगवाळा होय छे.—टीका.

द्विहस्स वयजोगस्स—एएसि णं सत्तण्ह वि तुल्ले जहन्नप जोए असंखेज्जगुणे १३—१९, आहारगसररस्स उक्कोसए जोए असंखेज्जगुणे २०, ओरालियसररस्स, वेउद्वियसररस्स, चउद्विहस्स य मणजोगस्स, चउद्विहस्स य वइजोगस्स—एएसि णं दसण्ह वि तुल्ले उक्कोसए जोए असंखेज्जगुणे २१—३० । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

पणवीसइमे सए पढमो उद्देशो समत्तो ।

१२, तेथी त्रण प्रकारना मनोयोग-अने चार प्रकारना वचनयोग—ए सातनो जघन्य योग असख्यातगुण अने परस्पर तुल्य होय छे १३—१९, तेथी आहारक शरीरनो उत्कृष्ट योग असख्यातगुण होय छे २०, तेथी औदारिक शरीर, वैक्रियशरीर, चार प्रकारना मनोयोग अने चार प्रकारना वचनयोग—ए दसनो उत्कृष्ट योग असख्यातगुण अने परस्पर तुल्य होय छे २१—३०. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.' ।

पचीशमा शतकमां प्रथम उद्देशक समाप्त.

वीओ उद्देशो ।

१. [प्र०] कतिविहा णं भंते ! द्वा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! दुविहा द्वा पन्नत्ता, तंजहा—जीवद्वा य अजीव-द्वा य ।

२. [प्र०] अजीवद्वा णं भंते ! कतिविहा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता, तंजहा—रूविअजीवद्वा य अरू-विअजीवद्वा य । एवं एएणं अमिलावेणं जहा अजीवपज्जावा, जाव—से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ—'ते णं नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता' ।

३. [प्र०] जीवद्वा णं भंते ! किं संखेज्जा, असंखेज्जा, अणंता ? [उ०] गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता । [प्र०] केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—'जीवद्वा णं नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता' ? [उ०] गोयमा ! असंखेज्जा नेरइया, जाव—असंखेज्जा वाउक्काइया, अणंता वणस्सइकाइया, असंखेज्जा वैदिया, एवं जाव—वेमाणिया, अणंता सिद्धा, से तेणट्टेणं जाव—'अणंता' ।

४. [प्र०] जीवद्वाणं भंते ! अजीवद्वा परिभोगत्ताए हइमागच्छंति, अजीवद्वाणं जीवद्वा परिभोगत्ताए हइमाग-च्छंति ? [उ०] गोयमा ! जीवद्वाणं अजीवद्वा परिभोगत्ताए हइमागच्छंति, नो अजीवद्वाणं जीवद्वा परिभोगत्ताए हइ-मागच्छंति । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—जाव—'हइमागच्छंति' ? [उ०] गोयमा ! जीवद्वा णं अजीवद्वा परियादि-

द्वितीय उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! द्रव्यो केटलां प्रकारनां क्हां छे ? [उ०] हे गौतम ! द्रव्यो वे प्रकारनां क्हां छे. ते आ प्रमाणे—जीवद्रव्य अने अजीवद्रव्य.

द्रव्यना प्रकार.

२. [प्र०] हे भगवन् ! अजीवद्रव्यो केटलां प्रकारनां क्हां छे ? [उ०] हे गौतम ! ते वे प्रकारनां क्हां छे. ते आ प्रमाणे—रूपी अजीवद्रव्यो अने अरूपी अजीवद्रव्यो, ए प्रमाणे ए सूत्रपाठवडे जेम [*प्रज्ञापना सूत्रना विशेष नामना पाचमा] पटमा अजीवपर्यवो संबन्धे क्हुं छे तेम अहिं अजीव द्रव्यसंबन्धे यावत्—'हे गौतम ! ते कारणथी एम क्हुं छे के, ते [अजीव द्रव्य] संख्याता नथी, असख्याता नथी, पण अनंत छे' त्यां सुधी कहेवुं.

अजीव द्रव्योना प्रकार.

३. [प्र०] हे भगवन् ! शुं जीवद्रव्यो संख्याता छे, असंख्याता छे के अनंत छे ? [उ०] हे गौतम ! जीवो संख्याता नथी, असंख्याता नथी, पण अनंत छे. [प्र०] हे भगवन् ! शा हेतुथी एम कहेवाय छे के 'जीवद्रव्यो संख्याता नथी, असंख्याता नथी, पण अनंत छे' ? [उ०] हे गौतम ! नैरयिको असंख्य छे, यावत्—वायुकायिक असंख्य छे, वनस्पतिकायिको अनंत छे, वेइंद्रियो अने ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको असंख्याता छे, तथा सिद्धो अनंत छे. माटे ते हेतुथी जीवो यावत्—अनंत छे.

जीवद्रव्यी मत्था-जीवद्रव्यो अनंत होवासु कारण ?

४. [प्र०] हे भगवन् ! अजीवद्रव्यो जीवद्रव्योना परिभोगमा तुरत आवे के जीवद्रव्यो अजीवद्रव्योना परिभोगमां तुरत आवे ? [उ०] हे गौतम ! अजीवद्रव्यो जीवद्रव्योना परिभोगमा तुरत आवे पण जीवद्रव्यो अजीवद्रव्योना परिभोगमां तुरत आवता नथी ! [प्र०] हे भगवन् ! शा हेतुथी एम क्हुं छे के यावत्—'जीवद्रव्यो अजीवद्रव्योना परिभोगमां यावत्—तुरत आवता नथी' ! [उ०] हे गौतम !

अजीवद्रव्योना परिभोग.

३ * सुवो—प्रज्ञा० पद ५ प० १९६.

४ † जीवद्रव्यो सचेतन होवाथी अजीवद्रव्योने प्रहण करी तेनो शरीरादिरूपे परिभोग करे छे, नाटे ते परिभोगा छे, अने अजीवद्रव्यो अचेतन होवाथी प्रहण योग्य छे माटे ते भोग्य छे.

यन्ति, अजीवद्वे परियादिदत्ता ओरालियं वेउद्वियं आहारगं तेयगं कम्मगं, सोदंदिंयं जाव-फासिदिंयं, मणजोगं वदजोगं कायजोगं, आणापाणुत्तं च निव्वत्तयंति, से तेणद्वेणं जाव-‘हद्वमागच्छंति’ ।

५. [प्र०] नेरतियाणं मंते ! अजीवद्वया परिमोगत्ताए हद्वमागच्छंति, अजीवद्वयाणं नेरतिया परिमोगत्ताए० ? [उ०] गोयमा ! नेरतियाणं अजीवद्वया जाव-हद्वमागच्छंति, नो अजीवद्वयाणं नेरतिया हद्वमागच्छंति । [प्र०] से केणद्वेणं० ? [उ०] गोयमा ! नेरतिया अजीवद्वे परियादिंयंति, अ० २ परियादिदत्ता वेउद्विय-तेयग-कम्मगं सोदंदिंयं० जाव-फासिदिंयं आणापाणुत्तं च निव्वत्तयंति, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-एवं जाव-वेमाणिया । नवरं सरीरदंदिंयजोगा भाणियद्वया जत्स जे अत्थिय ।

६. [प्र०] से नूणं मंते ! असंखेजे लोए अणंताइं द्वाइं आगासे भइयद्वाइं ? [उ०] हंता गोयमा ! असंखेजे लोए जाव-भट्टयद्वाइं ।

७. [प्र०] लोगस्स णं मंते ! एगंमि आगासपएसे कतिदिंसिं पोगगला चिजंति ? [उ०] गोयमा ! निद्वयावाएणं छदिंसिं, वावायं पटुच्च सिय तिदिंसिं, सिय चउदिंसिं, सिय पंचदिंसिं ।

८. [प्र०] लोगस्स णं मंते ! एगंमि आगासपएसे कतिदिंसिं पोगगला छिजंति ? [उ०] एवं चेव, एवं उवचिजंति, एवं अवचिजंति ।

९. [प्र०] जीवे णं मंते ! जाइं द्वाइं ओरालियसरीरत्ताए गेण्हइ तादं किं टियाइं गेण्हइ, अटियाइं गेण्हइ ? [उ०] गोयमा ! टियाटं पि गेण्हइ, अटियाटं पि गेण्हइ ।

१० [प्र०] ताइं मंते ! किं द्वाओ गेण्हइ, खेत्तओ गेण्हइ, कालओ गेण्हइ, भावओ गेण्हइ ? [उ०] गोयमा ! द्वाओ वि गेण्हइ, खेत्तओ वि गेण्हइ, कालओ वि गेण्हइ, भावओ वि गेण्हइ । ताइं द्वाओ अणंतपपसियाइं द्वाइं, खेत्तओ असं-

जीवद्रव्यो अजीवद्रव्योने ग्रहण करे छे अने ग्रहण करी तेने आंतरिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, अने कार्मण-ए पांच शरीररूपे, श्रोत्रेन्द्रिय, वायत्-स्पर्शेन्द्रिय-ए पांच इन्द्रियपणे, मनोयोग, वचनयोग अने काययोग तथा आसोच्छ्वासपणे परिणमात्रे, ते कारणथी अजीवद्रव्यो जीवद्रव्योना परिमोगमां वायत्-तुरत आवे छे, पण जीवद्रव्यो अजीवद्रव्योना परिमोगमा तुरत आवता नथी.

५. [प्र०] हे भगवन् ! अजीवद्रव्यो नैरयिकोना परिमोगमां तुरत आवे के नैरयिको अजीवद्रव्योना परिमोगमां तुरत आवे ? [उ०] हे गौतम ! अजीवद्रव्यो नैरयिकोना परिमोगमा आत्र आवे छे, पण नैरयिको अजीवद्रव्योना परिमोगमां तुरत आवतां नथी. [प्र०] हे भगवन् ! शा हेतुथी एम कहेवाय छे ? [उ०] हे गौतम ! नैरयिको अजीवद्रव्योने ग्रहण करे छे अने ग्रहण करीने वैक्रिय, तैजस, अने कार्मणशरीररूपे, श्रोत्रेन्द्रिय वायत्-स्पर्शेन्द्रियरूपे तथा आसोच्छ्वासरूपे परिणमात्रे छे, ते हेतुथी हे गौतम ! एम कहुं छे, ए रीते वायत्-वैमानिको सुत्री जाणहुं. परन्तु जेने जेटलां शरीर, इन्द्रिय अने योग होउं तेदलां तेने कहेवा.

६. [प्र०] हे भगवन् ! असंख्य लोकाकाशमा अनंत द्रव्यो रही शके ? [उ०] हे गौतम ! हा, असंख्य प्रदेशात्मक लोकाकाशमां अनन्त द्रव्यो रही शके.

७. [प्र०] हे भगवन् ! लोकना एक आकाशप्रदेशमां केटली दिशाओथी (आवीने) पुद्गलो एकठां थाय ? [उ०] हे गौतम ! व्यावान (प्रतिबंध) न होय तो छए दिशांमाथी आवीने अने जो प्रतिबंध होय तो कदाच त्रण दिशामाथी, कदाच चार दिशांमाथी अने कदाच पांच दिशांमाथी आवी पुद्गलो एकठा थाय छे.

८. [प्र०] हे भगवन् ! लोकना एक आकाशप्रदेशमां केटली दिशाओमाथी आवी पुद्गलो छेदाय-छूटां थाय ? [उ०] हे गौतम ! पूरं प्रमाणे जाणहुं. ए प्रमाणे स्कन्वरूपे पुद्गलो [अन्य पुद्गलोना मळवाथी] उपचित थाय अने (जुदा पडवाथी) अपचित थाय.

९. [प्र०] हे भगवन् ! जीव जे पुद्गल द्रव्योने औदारिकशरीरपणे ग्रहण करे ते स्थित द्रव्योने ग्रहण करे के अस्थित द्रव्योने ग्रहण करे ? [उ०] हे गौतम ! ते स्थित द्रव्योने ग्रहण करे अने अस्थित द्रव्योने पण ग्रहण करे.

१०. [प्र०] हे भगवन् ! शुं ते द्रव्योने द्रव्यथी, क्षेत्रथी, कालथी अने भावथी ग्रहण करे ? [उ०] हे गौतम ! ते द्रव्योने द्रव्यथी, क्षेत्रथी, कालथी अने भावथी ग्रहण करे छे. द्रव्यथी अनंतप्रदेशिक द्रव्यने ग्रहण करे छे. क्षेत्रथी असंख्य प्रदेशाश्रित द्रव्यने ग्रहण करे छे.

१ * जेटग आकाशक्षेत्रमा जीव रहले छे तेनी अदर रहले जे पुद्गलद्रव्यो ते स्थित द्रव्यो कहेवाय छे अने तेनी बहारना क्षेत्रमा रहले पुद्गलद्रव्यो ते अस्थित द्रव्यो कहेवाय छे, तेने त्वाथी संचाने ग्रहण करे छे ते उचन्वे अन्य आचार्य एम कहे छे के गति रहित द्रव्यो ते स्थितद्रव्यो अने गतिद्रव्यो ते अस्थित द्रव्यो कहेवाय छे-टीका.

नैरयिकोने अजीवद्रव्योना परिमोग

असंख्य लोकाकाशमा अनन्त द्रव्योनी शक्ति.

पुद्गल आकाश प्रदेशमा पुद्गलोनी चणवचन.

उपचित द्रव्योने अस्थित द्रव्यो कहेवाय छे अने अपचित द्रव्योने अस्थित द्रव्यो कहेवाय छे-टीका.

खेजपपसोगाढाङ्—एवं जहा पन्नवणाए पढमे आहाखेसए, जाव—निद्यावाएणं छद्दिसिं, वाघायं पडुच्च सिय तिदिंसिं सिय चउदिसिं, सिय पंचदिसिं ।

११. [प्र०] जीवे णं भंते ! जाई द्वाइं वेउद्वियसरीरत्ताए गेण्हइ ताइं किं ठियाइं गेण्हइ, अठियाइं गेण्हइ ? [उ०] एवं चेव, नवरं नियमं छद्दिसिं, एवं आहारगसरीरत्ताए वि ।

१२. [प्र०] जीवे णं भंते ! जाइं द्वाइं तेयगसरीरत्ताए गिण्हइ—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ठियाइं गेण्हइ, नो अठियाइं गेण्हइ, सेसं जहा ओरालियसरीरस्स । कम्मगसरीरे एवं चेव । एवं जाव—भावओ वि गिण्हइ ।

१३. [प्र०] जाइं द्वाइं द्दओ गेण्हइ ताइं किं एगपएसियाइं गेण्हइ, दुपएसियाइं गेण्हइ ? [उ०] एवं जहा भासा-पदे, जाव—‘आणुपुद्धिं गेण्हइ, नो अणाणुपुद्धिं गेण्हइ ।

१४. [प्र०] ताइं भंते ! कतिदिसिं गेण्हइ ? [उ०] गोयमा ! निद्यावाएणं०, जहा ओरालियस्स ।

१५. [प्र०] जीवे णं भंते ! जाइं द्वाइं सोईदियत्ताए गेण्हइ० ? [उ०] जहा वेउद्वियसरीरं, एवं जाव—जिर्भिमदियत्ताए, फासिदियत्ताए जहा ओरालियसरीरं, मणजोगत्ताए जहा कम्मगसरीरं । नवरं नियमं छद्दिसिं, एवं वइजोगत्ताए वि, काय—जोगत्ताए वि जहा ओरालियसरीरस्स ।

१६. [प्र०] जीवे णं भंते ! जाइं द्वाइं आणापाणुत्ताए गेण्हइ जहेव ओरालियसरीरत्ताए, जाव—सिय पंचदिसिं । ‘सेवं भंते ! सेवं भंते’ ! [त्ति] केइ चउवीसदंडणं एयाणि पदाणि भन्ति—‘जस्स जं अत्थि’

पणवीसइमे सए वीओ उदेसो समत्तो ।

ए प्रमाणे *प्रज्ञापनासूत्रना प्रथम आहारोद्देशकमा क्हा प्रमाणे यावत्—‘प्रतिबंध सिवाय छए दिशाओमांथी अने प्रतिबंध होय तो कदाच त्रण दिशामांथी, कदाच चार दिशामांथी अने कदाच पांच दिशामांथी आवेला पुद्गलोने ग्रहण करे’—त्यां सुधी कहेहुं.

११. [प्र०] हे भगवन् ! जीव जे पुद्गल द्रव्योने वैक्रियशरीरपणे ग्रहण करे ते स्थित द्रव्यो होय छे के अस्थित द्रव्यो होय छे ? [उ०] हे गौतम ! पूर्वं प्रमाणे जाणहुं. विशेष ए के वैक्रियशरीरपणे जे द्रव्योने ग्रहण करे छे ते अवश्य छए दिशामांथी आवेला होय छे. ए प्रमाणे आहारकशरीर संबंधे पण जाणहुं.

१२. [प्र०] हे भगवन् ! जीव जे द्रव्योने तैजसशरीरपणे ग्रहण करे छे, ते स्थित द्रव्यो होय तो ग्रहण करे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते द्रव्यो स्थित होय तो ग्रहण करे छे, पण अस्थित होय तो ग्रहण करतो नथी. वाकी वहुं औदारिक शरीरनी पेटे जाणहुं. तथा कार्मण शरीर संबंधे पण एमज समजहुं, ए प्रमाणे यावत्—‘भावथी पण ग्रहण करे छे’ त्या सुधी कहेहुं.

१३. [प्र०] हे भगवन् ! द्रव्यथी जे द्रव्योने ग्रहण करे छे, ते द्रव्यो शुं (द्रव्यथी) एक प्रदेशवाळां ग्रहण करे, वे प्रदेशवाळां ग्रहण करे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] ए प्रमाणे †भापापदमा क्हा प्रमाणे यावत्—क्रमपूर्वक ग्रहण करे छे, पण क्रम सिवाय ग्रहण करतो नथी’ त्या सुधी जाणहुं.

१४. [प्र०] हे भगवन् ! ते केटली दिशामांथी आवेला पुद्गलोने ग्रहण करे छे ? [उ०] हे गौतम ! प्रतिबंध सिवाय—[छए दिशाथी आवेला स्कन्धो ग्रहण करे—इत्यादि] औदारिक शरीरनी पेटे (सू० ८) जाणहुं.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! जे जीव जे द्रव्योने श्रोत्रेन्द्रियपणे ग्रहण करे छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! वैक्रिय शरीरनी पेटे [सू० ९] यावत्—जिह्वेन्द्रिय सुधी जाणहुं, अने स्पर्शेन्द्रिय संबंधे औदारिक शरीरनी पेटे समजहुं. मनोयोग संबंधे कार्मण शरीरनी पेटे जाणहुं. पण विशेष एके अवश्य छए दिशामांथी आवेलां पुद्गलो ग्रहण करे छे. ए प्रमाणे वचनयोग संबंधे पण जाणहुं. काययोग संबंधे औदारिक शरीरनी पेटे समजहुं.

१६. [प्र०] हे भगवन् ! जीव जे द्रव्योने श्वासोच्छ्वासपणे ग्रहण करे छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] औदारिक शरीरनी पेटे जाणहुं, यावत्—कदाच त्रण दिशा, चार दिशा, के पांच दिशामांथी आवेलां पुद्गलो ग्रहण करे छे. कोई आचार्यां ‘जेने जे होय तेने ते कहेहुं’—ए पदोने चोवीस दंडके कहे छे. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.

पचीशमा शतकर्मा द्वितीय उद्देशक समाप्त.

१० * प्रज्ञा० पद []

११ † वैक्रियशरीरप्रायोग्य द्रव्यो छए दिशामांथी आवेला ग्रहण करे छे—ते कहेवानो एवो अमिप्राय छे के उपयोगपूर्वक वैक्रिय शरीर करनार पंचेन्द्रिय ज होय छे अने ते त्रसनाबीना मध्यभागमा होवाथी तेने अवश्य छ दिशाना आहारनो संभव छे यद्यपि वायुक्रियके वैक्रिय शरीर होवाथी तेनी अपेक्षाए वैक्रिय शरीरने आश्रयी लोकान्त निष्कटने विपे पाच दिशादिना आहारनो संभव छे, परन्तु तेओ उपयोगपूर्वक वैक्रिय शरीर करता नथी, तेमज तेने सातिशय वैक्रिय शरीर नथी, तेथी तेनी विवक्षा कर्या सिवाय कहुं छे.

१३ ‡ यावत्—अनन्तप्रदेशिक स्कन्ध ग्रहण करे ? हे गौतम ! एक प्रदेशिक, यावत्—असंख्य प्रदेशिक स्कन्धो न ग्रहण करे, पण अनन्त प्रदेशिक स्कन्धो ग्रहण करे.—सुओ प्रज्ञा० पद ११ प० २६१-१.

તર્કીઓ ઉદ્દેસી ।

૧. [પ્ર૦] કતિ ણં મંતે ! સંઠાણા પત્રત્તા ? [ઉ૦] ગોયમા ! છ સંઠાણા પત્રત્તા, તં જદ્દા-૧ પરિમંડલે, ૨ વટ્ટે, ૩ તંસે, ૪ ચરરંસે, ૫ આયતે, ૬ અણિત્યંથે ।

૨. [પ્ર૦] પરિમંડલા ણં મંતે ! સંઠાણા દ્વઘટ્ટયાપ કિં સંસેજ્ઞા, અસંસેજ્ઞા, અર્ણતા ? [ઉ૦] ગોયમા ! નો સંસેજ્ઞા, નો અસંસેજ્ઞા, અર્ણતા ।

૩. [પ્ર૦] વટ્ટા ણં મંતે ! સંઠાણાં ? [ઉ૦] ઇવં ચેવ, ઇવં જાવ-અણિત્યંથા, ઇવં પપ્પસટ્ટયાપ વિ, ઇવં દ્વઘટ્ટપપ્પ-સટ્ટયાપ વિ ।

૪. [પ્ર૦] ઇપ્પસિ ણં મંતે ! પરિમંડલ-વટ્ટ-તંસ-ચરરંસ-ત્રાયત-અણિત્યંથાણં સંઠાણાણં દ્વઘટ્ટયાપ પપ્પસટ્ટયાપ દ્વઘટ્ટ-પપ્પસટ્ટયાપ કયરે કયરેહિંતો જાવ-વિસેસાદિયા વા ? [ઉ૦] ગોયમા ! સઘત્થોવા પરિમંડલસંઠાણા દ્વઘટ્ટયાપ, વટ્ટા સંઠાણા દ્વઘટ્ટયાપ સંસેજ્ઞગુણા, ચરરંસા સંઠાણા દ્વઘટ્ટયાપ સંસેજ્ઞગુણા, તંસા સંઠાણા દ્વઘટ્ટયાપ સંગેજ્ઞગુણા, આયતસંઠાણા દ્વઘટ્ટ-યાપ સંસેજ્ઞગુણા, અણિત્યંથા સંઠાણા દ્વઘટ્ટયાપ અસંસેજ્ઞગુણા । પપ્પસટ્ટયાપ-સઘત્થોવા પરિમંડલા સંઠાણા પપ્પસટ્ટયાપ, વટ્ટા સંઠાણા પદેસટ્ટયાપ સંસેજ્ઞગુણા; જદ્દા દ્વઘટ્ટયાપ તદ્દા પપ્પસટ્ટયાપ વિ, જાવ-અણિત્યંથા સંઠાણા પપ્પસટ્ટયાપ અસંસેજ્ઞગુણા । દ્વઘટ્ટપપ્પસટ્ટયાપ-સઘત્થોવા પરિમંડલા સંઠાણા દ્વઘટ્ટયાપ, સો ચેવ ગમથો માણિયથ્થો, જાવ-અણિત્યંથા સંઠાણા દ્વઘટ્ટયાપ અસંસેજ્ઞગુણા, અણિત્યંથેહિંતો સંઠાણેહિંતો દેવટ્ટયાપ પરિમંડલા સંઠાણા પપ્પસટ્ટયાપ અસંસેજ્ઞગુણા, વટ્ટા સંઠાણા પપ્પસટ્ટયાપ સંસેજ્ઞગુણા-સો ચેવ પપ્પસટ્ટયાપ ગમથો માણિયથ્થો, જાવ-અણિત્યંથા સંઠાણા પપ્પસટ્ટયાપ અસંસેજ્ઞગુણા ।

૫. [પ્ર૦] કતિ ણં મંતે ! સંઠાણા પત્રત્તા ? [ઉ૦] ગોયમા ! પંચ સંઠાણા પત્રત્તા, તં જદ્દા-પરિમંડલે, જાવ-આયતે ।

તૃતીય ઉદ્દેશક.

સસ્યાન

૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! સંસ્યાનો—પૌદ્ગલિક સ્કંધના આકારો કેટલાં કહ્યાં છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! છ સંસ્યાનો કહ્યાં છે, તે આ પ્રમાણે—૧ પરિમંડલ-વલયાકાર, ૨ વૃત્ત-ગોળ, ૩ ત્ર્યજ્ઞ-ત્રિકોણ, ૪ ચતુન્ન-ચતુષ્કોણ, ૫ આયત-દીર્ઘ અને ૬ અનિત્યંસ-પરિમંડલાદિયી ભિન્ન આકારવાલું.

પરિમંડલની સસ્યાન.

૨. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! પરિમંડલ સસ્યાન દ્રવ્યાર્થરૂપે શું સંસ્યાતા છે, અસંસ્યાતા છે કે અનંત છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તે સંસ્યાતા નથી, અસંસ્યાતા નથી, પણ અનંત છે.

વૃત્તાદિની સસ્યાન.

૩. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! વૃત્ત સંસ્યાન દ્રવ્યાર્થરૂપે શું સંસ્યાતા છે—ઈત્યાદિ પ્રશ્ન. [ઉ૦] પૂર્વ પ્રમાણે જાણવું. એમ યાવત્-અનિત્યંસ સસ્યાન સુધી જાણવું. એ પ્રમાણે પ્રદેશાર્થપણે અને દ્રવ્યાર્થ-પ્રદેશાર્થપણે પણ સમજવું.

અસંસ્યાન

૪. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! પરિમંડલ, વૃત્ત, ત્ર્યજ્ઞ, ચતુરસ, આયત અને અનિત્યંસ સંસ્યાનોમાં દ્રવ્યાર્થરૂપે, પ્રદેશાર્થરૂપે અને દ્રવ્યાર્થ-પ્રદેશાર્થરૂપે કયાં સંસ્યાનો કોનાથી યાવત્-વિશેષાધિક છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! દ્રવ્યાર્થરૂપે *પરિમંડલ સસ્યાનો સૌથી થોડા છે, તેથી વૃત્ત સસ્યાનો દ્રવ્યાર્થરૂપે સંસ્યાતાગુણા છે. તેથી ચતુરસ સસ્યાનો દ્રવ્યાર્થરૂપે સંસ્યાતાગુણા છે, તેથી ત્ર્યજ્ઞસસ્યાનો દ્રવ્યાર્થરૂપે સંસ્યાતા-ગુણા છે, તેથી આપત સસ્યાનો દ્રવ્યાર્થરૂપે સંસ્યાતાગુણા છે, અને તેથી અનિત્યંસ સસ્યાનો દ્રવ્યાર્થરૂપે અસંસ્યાતાગુણા છે. પ્રદેશાર્થરૂપે પરિમંડલ સસ્યાનો સૌથી થોડાં છે, તેથી વૃત્ત સસ્યાનો પ્રદેશાર્થરૂપે સંસ્યાતાગુણા છે—ઈત્યાદિ જેમ દ્રવ્યાર્થરૂપે કહ્યું છે તેમ પ્રદેશાર્થરૂપે પણ યાવત્—‘પ્રદેશાર્થરૂપે અનિત્યંસ સંસ્યાનો અસંસ્યાતાગુણા છે’ ત્યા સુધી કહેવું. દ્રવ્યાર્થ-પ્રદેશાર્થરૂપે-પરિમંડલ સસ્યાનો સૌથી થોડાં છે—ઈત્યાદિ દ્રવ્યાર્થ સંવન્ધી પૂર્વોક્ત ગમક-પાઠ કહેવો, યાવત્-‘અનિત્યંસ સંસ્યાનો દ્રવ્યાર્થરૂપે અસંસ્યાતાગુણા છે.’ દ્રવ્યાર્થરૂપે અનિત્યંસ સંસ્યાનો કરતા પરિમંડલ સંસ્યાનો પ્રદેશાર્થરૂપે અસંસ્યાતાગુણ છે, તેથી વૃત્ત સંસ્યાનો પ્રદેશાર્થરૂપે સંસ્યાતાગુણા છે—ઈત્યાદિ પૂર્વોક્ત પ્રદેશાર્થપણાનો પાઠ યાવત્-‘અનિત્યંસ સસ્યાનો અસંસ્યાતા ગુણ છે’ ત્યા સુધી કહેવો.

સસ્યાન

૫. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! કેટલાં †સંસ્યાનો કહ્યા છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! પાચ સંસ્યાનો કહ્યા છે, તે આ પ્રમાણે—૧ પરિમંડલ, યાવત્-૫ આપત.

૧ ‘દ્વઘટ્ટયાપ હિંતો’ગ-દ ।

* ૪ અહિં સસ્યાનોની જઘન્ય અવગાહનાનો વિચાર કર્યો છે જે સસ્યાનો જે સસ્યાનની અપેક્ષાે બહુપ્રદેશાવગાહી છે તે સામાનિક રીતે થોડાં છે. પરિમંડલ સસ્યાન જઘન્યથી વીશ પ્રદેશની અવગાહનાવાલું હોય છે, અને વૃત્ત, ચતુરસ, ત્ર્યજ્ઞ અને આપત સસ્યાન જઘન્યથી અનુક્રમે પાચ, ચાર, ત્રણ અને એ પ્રદેશાવગાહી છે માટે પરિમંડલ બહુપ્રદેશાવગાહી હોવાથી સર્વથી થોડા છે, તેથી વૃત્તાદિ સસ્યાનો અલ્પ અલ્પ પ્રદેશાવગાહી હોવાથી સંસ્યાતાગુણા અધિક અધિક હોય છે.

† † સસ્યાનની સામાન્ય પ્રહ્વણા કરી હવે રત્નપ્રભાદિને વિષે પ્રહ્વણા કરવાની ઇચ્છાથી પુનઃ સસ્યાન સંવન્ધી પ્રશ્ન કરે છે. અહીં અન્ય સસ્યાનોના સંયોગજન્ય હોવાથી છટ્ટા અનિત્યંસ સસ્યાનની વિવક્ષા કરી નથી, તેથી પાચ જ સસ્યાન કયા છે—ટીકા.

६. [प्र०] परिमंडला णं भंते ! संठाणा किं संखेज्जा, असंखेज्जा, अणंता ? [उ०] गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ।
७. [प्र०] वट्ठा णं भंते ! संठाणा किं संखेज्जा० ? [उ०] एवं चेव । एवं जाव—आयता ।
८. [प्र०] इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए परिमंडला संठाणा किं संखेज्जा, असंखेज्जा, अणंता ? [उ०] गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ।
९. [प्र०] वट्ठा णं भंते ! संठाणा किं संखेज्जा, असंखेज्जा० १ [उ०] एवं चेव, एवं जाव—आयया ।
१०. [प्र०] सक्करप्पभाए णं भंते ! पुढवीए परिमंडला संठाणा० ? [उ०] एवं चेव, एवं जाव—आयया । एवं जाव—अहेसत्तमाए ।
११. [प्र०] सोहम्मो णं भंते ! कप्पे परिमंडला संठाणा० ? [उ०] एवं चेव, एवं जाव—अच्चुए ।
१२. [प्र०] गेवेज्जविमाणणं भंते ! परिमंडलसंठाणा० ? [उ०] एवं चेव, एवं अणुत्तरविमाणेसु वि, एवं ईसिपन्भाराए वि ।
१३. [प्र०] जत्थ णं भंते ! एगे परिमंडले संठाणे जवमज्जे तत्थ परिमंडला संठाणा किं संखेज्जा, असंखेज्जा, अणंता ? [उ०] गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ।
१४. [प्र०] वट्ठा णं भंते ! संठाणा किं संखेज्जा, असंखेज्जा० ? [उ०] एवं चेव, जाव—आयता ।
६. [प्र०] हे भगवन् ! परिमंडल संस्थानो शुं सख्याता छे, असख्याता छे के अनंत छे ? [उ०] हे गौतम ! संख्याता नथी, असंख्याता नथी, पण अनंत छे. परिमंडली संख्या
७. [प्र०] हे भगवन् ! वृत्त संस्थान शुं सख्याता छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्वं प्रमाणे समजहुं. ए प्रमाणे यावत्—आयत संस्थान सुधी जाणहुं. वृत्तनी संख्या
८. [प्र०] हे भगवन् ! आ रत्तप्रभा पृथिवीमा परिमंडल संस्थानो शुं सख्याता छे, असंख्याता छे के अनंत छे ? [उ०] हे गौतम ! ते संख्याता नथी, असंख्याता नथी, पण अनंत छे. रत्तप्रभा परिमंडल संस्थानो.
९. [प्र०] हे भगवन् ! वृत्त संस्थानो शुं सख्याता छे, असंख्याता छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्वं प्रमाणे. यावत्—आयत संस्थान सुधी समजहुं. वृत्तसंस्थान
१०. [प्र०] हे भगवन् ! शर्कराप्रभा पृथिवीमां परिमंडल संस्थानो शुं सख्याता छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्वं कह्या प्रमाणे जाणहुं. ए प्रमाणे यावत्—आयत संस्थान सुधी समजहुं. यावत्—अधःसत्तम पृथिवी सुधी ए प्रमाणे जाणहुं. शर्कराप्रभा परिमंडल संस्थानो.
११. [प्र०] हे भगवन् ! सौधर्म कल्पमां परिमंडल संस्थानो शुं सख्याता छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्वं कह्या प्रमाणे जाणहुं. एम यावत्—अच्युतकल्प सुधी जाणहुं. सौधर्मदि कल्पमा परिमंडल संस्थानो.
१२. [प्र०] हे भगवन् ! त्रैवेयक विमानोमा शुं परिमंडल संस्थानो सख्याता छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्वं कह्या प्रमाणे जाणहुं. एम यावत्—अनुत्तर विमानो तथा ईषट्थाग्भाराने विपे पण समजहुं. त्रैवेयक विमानमा परिमंडल संस्थान
१३. [प्र०] हे भगवन् ! ज्यां एक यवाकार परिमंडलसंस्थानसमुदाय छे त्यां यवाकार परिमंडलसमुदाय सिवाय वीजा परिमंडल संस्थानो सख्याता, असंख्याता के अनंत छे ? [उ०] हे गौतम ! सख्याता नथी, असंख्याता नथी पण अनंत छे. यवमध्यक्षेत्रमा वीजा परिमंडल संस्थानो.
१४. [प्र०] हे भगवन् ! त्यां वृत्त संस्थानो शुं सख्याता छे, असंख्याता छे के अनंत छे ? [उ०] पूर्वं प्रमाणे जाणहुं. एम यावत्—आयत संस्थान सुधी समजहुं. वृत्त संस्थानो

११ * सर्वे लोक परिमंडलसंस्थानवाळा पुद्गलस्कन्धोवडे निरंतर भरेलो छे. तेमा तुल्यप्रदेशवाळा, तुल्यप्रदेशावगाही अने तुल्य वर्णादि पर्यायवाळा जे जे परिमंडल द्रव्यो होय ते वधाने कल्पनाथी एक एक पंक्तिमा स्थापित करवा. अने तेना उपर अने नीचे एक एक जातिवाळा परिमंडल द्रव्यो एक एक पंक्तिमा स्थापित करवा तेथी तेमां अल्पबहुत्व धवाथी परिमंडल संस्थाननो समुदाय यवना आकारवाळो थाय छे तेमा जघन्य प्रदेशिक द्रव्यो स्वभावथी अल्प होवाथी प्रथम पंक्ति नानी होय छे अने सार पछी वाकीनी पंक्ति अधिक अधिकतर प्रदेशवाळी होवाथी अनुक्रमे मोटी अने वधारे मोटी थाय छे. सार पछी क्रमशः घटता छेवटे उत्कृष्ट प्रदेशवाळा द्रव्यो अत्यंत अल्प होवाथी छेळी पंक्ति अल्पत नानी होय छे ए प्रमाणे तुल्य प्रदेशवाळा अने तेथी अन्य परिमंडल द्रव्यो वडे यवाकार क्षेत्र थाय छे.

१३ † ज्या एक यवाकृतितिप्पादक परिमंडलसंस्थानसमुदाय होय छे ते क्षेत्रमा यवाकारतिप्पादक परिमंडल सिवाय वीजा केदला परिमंडल संस्थानो होय छे—ए प्रश्न छे. तेनो उत्तर अनंत परिमंडल संस्थानो होय छे. ए प्रमाणे वृत्तादि संस्थानो चयन्धे पण जाणहुं—टीका.

૧૫. [પ્ર૦] જત્ય ણં મંતે ! ઘ્ને વદ્ટે સંટાણે જઘમજ્ઞે તત્થ પરિમંડલા સંટાણાં ? [ઉ૦] ઇવં ચેવ, વદ્ટા સંટાણા ઇવં ચેવ, ઇવં જાવ-આયતા । ઇવં ઇક્કેઞ્ઞેણં સંટાણેણં પંચ વિ ચારેયદ્વા ।

૧૬. [પ્ર૦] જત્ય ણં મંતે ! ડ્મીસે રયણપ્પમાપ પુદ્ધવીપ ઇમે પરિમંડલે સંટાણે જઘમજ્ઞે તત્થ ણં પરિમંડલા સંટાણાં કિં સંયેજ્ઞા-પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! નો સંયેજ્ઞા, નો અસંયેજ્ઞા, અણંતા । [પ્ર૦] વદ્ટા ણં મંતે ! સંટાણા કિં સંયેજ્ઞાં-? [ઉ૦] ઇવં ચેવ, ઇવં જાવ-આયતા ।

૧૭. [પ્ર૦] જત્ય ણં મંતે ! ડ્મીસે રયણપ્પમાપ પુદ્ધવીપ ઇમે વદ્ટે સંટાણે જઘમજ્ઞે તત્થ ણં પરિમંડલા સંટાણાં કિં સંયેજ્ઞાં-પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! નો સંયેજ્ઞા, નો અસંયેજ્ઞા, અણંતા । વદ્ટા સંટાણા ઇવં ચેવ, ઇવં જાવ-આયતા । ઇવં પુણ-ત્તિ ઇક્કેઞ્ઞેણં સંટાણેણં પંચ વિ ચારેયદ્વા જહેવ હેદ્ધિહા, જાવ-આયતેણં, ઇવં જાવ-અહેસત્તમાપ, ઇવં કપ્પેમુ વિ, જાવ-ઈસી-પ્પમારાપ પુદ્ધવીપ ।

૧૮. [પ્ર૦] વદ્ટે ણં મંતે ! સંટાણે કતિપદેસિપ કતિપદેસોગાદે પવ્વત્તે ? [ઉ૦] ગોયમા ! વદ્ટે સંટાણે દુવિદે પવ્વત્તે, તે જહા-વણવદ્ટે ય પયરવદ્ટે ય । તત્થ ણં જે સે પયરવદ્ટે સે દુવિદે પવ્વત્તે, તેજહા-ઓયપ્પસિપ ય જુમ્મપ્પસિપ ય । તત્થ ણં જે સે ઓયપ્પસિપ સે જહદ્ધેણં પંચપ્પસિપ, પંચપ્પસોગાદે; ઉક્કોસેણં અણંતપ્પસિપ, અસંયેજ્ઞપ્પસોગાદે । તત્થ ણં જે સે જુમ્મપ્પસિપ સે જહદ્ધેણં વારસપ્પસિપ, વારસપ્પસોગાદે; ઉક્કોસેણં અણંતપ્પસિપ, અસંયેજ્ઞપ્પસોગાદે । તત્થ ણં જે સે વણ-વદ્ટે સે દુવિદે પવ્વત્તે, તેજહા-ઓયપ્પસિપ ય જુમ્મપ્પસિપ ય । તત્થ ણં જે સે ઓયપ્પસિપ સે જહદ્ધેણં સત્તપ્પસિપ, સત્ત-પ્પસોગાદે પવ્વત્તે, ઉક્કોસેણં અણંતપ્પસિપ અસંયેજ્ઞપ્પસોગાદે પવ્વત્તે । તત્થ ણં જે સે જુમ્મપ્પસિપ સે જહદ્ધેણં વત્તીસપ્પસિપ વત્તીસપ્પસોગાદે પવ્વત્તે, ઉક્કોસેણં અણંતપ્પસિપ અસંયેજ્ઞપ્પસોગાદે ।

ન માયે
વિવા
"

૧૫. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! જ્યાં (યવાકૃતિ નિપ્પાદક) એક વૃત્ત નંસ્થાન છે ત્યાં પરિમંડલ નંસ્થાનો કેટલાં છે ? [ઉ૦] પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે જાણવું, ત્યાં વૃત્ત નંસ્થાનો પણ એજ પ્રમાણે અનન્ત સમજવાં. એ પ્રમાણે યાવત્-આયત નંસ્થાન સુધી જાણવું. એક એક નંસ્થાન સાથે પાંચ નંસ્થાનોનો સંબંધ વિચારવો.

પરિમ-
નાનો

૧૬. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! આ રક્ષપ્રમા પૃથિવીમાં જ્યાં યવાકારનિપ્પાદક એક પરિમંડલ નંસ્થાન સમુદાય છે ત્યાં વીજા પરિમંડલ નંસ્થાનો શું સંખ્યાતા છે-સ્વાદિ પ્રશ્ન. [ઉ૦] હે ગૌતમ ! સંખ્યાતા નથી, પણ અનંત છે. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! વૃત્ત નંસ્થાનો શું સંખ્યાતા છે-સ્વાદિ પ્રશ્ન. [ઉ૦] એ પ્રમાણે (અનંત) છે. એ યાવત્-આયત સુધી જાણવું.

૧૭. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! આ રક્ષપ્રમા પૃથિવીમાં જ્યાં એક (યવાકૃતિનિપ્પાદક) વૃત્તનંસ્થાનસમુદાય હોય છે ત્યાં પરિમંડલ નંસ્થાનો શું સંખ્યાતા છે-સ્વાદિ પ્રશ્ન. [ઉ૦] હે ગૌતમ ! સંખ્યાતા નથી, અસંખ્યાતા નથી, પણ અનંત છે. વૃત્ત નંસ્થાનો પણ એજ પ્રમાણે જાણવા. એ આયત નંસ્થાન સુધી સમજવું. વળી એ પ્રમાણે પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે અહિં ફરીને પણ એક એક નંસ્થાન સાથે પાંચ નંસ્થાનોનો આયત નંસ્થાન સુધી વિચાર કરવો, તથા યાવત્-અધઃસતમ પૃથિવી, કલ્પો અને ઈપત્ત્યાગમારા પૃથિવીને વિષે પણ સમજવું.

મ્થાન કેટલા
વૃત્ત અને
પ્રદેશમાં
શોધ ?

૧૮. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! વૃત્ત નંસ્થાન કેટલા પ્રદેશવાલું છે અને કેટલા આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ-રહેલું છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! વૃત્ત નંસ્થાન વે પ્રકારનું કહ્યું છે, તે આ પ્રમાણે-ઘનવૃત્ત અને પ્રતરવૃત્ત. તેમાં જે પ્રતરવૃત્ત છે, તે વે પ્રકારનું કહ્યું છે, તે આ પ્રમાણે-ઓજપ્રદેશવાલું-એકીસંખ્યાવાલું અને યુગ્મનંસ્થાપ્રદેશવાલું-બેકી સંખ્યાવાલું. તેમાં જે ઓજપ્રદેશવાલું પ્રતરવૃત્ત છે તે જઘન્યથી પાંચ પ્રદેશવાલું અને પાંચ આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે, તથા ઉલ્કટ અનંત પ્રદેશવાલું અને અસંખ્યાત આકાશપ્રદેશમાં અવગાઢ છે. તેમાં જે યુગ્મપ્રદેશવાલું પ્રતરવૃત્ત છે તે જઘન્ય વાર પ્રદેશવાલું અને વાર આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે, તથા ઉલ્કટ અનંત પ્રદેશવાલું અને અસંખ્યાત આકાશપ્રદેશમાં અવગાઢ છે. તેમાં જે ઘનવૃત્ત છે તે વે પ્રકારનું કહ્યું છે, તે આ પ્રમાણે-ઓજપ્રદેશિક-એકીસંખ્યાવાલું અને યુગ્મપ્રદેશિક-બેકી સંખ્યાવાલું. તેમાં જે ઓજપ્રદેશિક ઘનવૃત્ત છે તે જઘન્ય સાત પ્રદેશવાલું અને સાત આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે, અને ઉલ્કટ અનંત પ્રદેશવાલું અને અસંખ્યાત આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે. તેમાં જે યુગ્મપ્રદેશિક ઘનવૃત્ત છે તે જઘન્ય ત્રણ પ્રદેશવાલું અને ત્રણ આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે, અને ઉલ્કટથી અનંત પ્રદેશવાલું અને અસંખ્યાત આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે.

૧ 'પુચ્છા ગોયમા' નો સંયેજ્ઞા, નો અસંયેજ્ઞા, અણંતા'-હૃદિ ઘણુક્રે ।

૧૮ * ટાળની પેટે મ્થ વાપુ નમપ્રમાણ તે ઘનવૃત્ત અને માંડાની પેટે માત્ર જાડામા ઓટ્ટુ હોય તે પ્રતરવૃત્ત. ઓજપ્રદેશિક પ્રતરવૃત્ત ઃ આ પ્રમાણે પાંચ પ્રદેશનું અને યુગ્મપ્રદેશિક પ્રતરવૃત્ત આ પ્રમાણે ઃ વાર પ્રદેશોનું હોય છે ઓજ પ્રદેશિક ઘનવૃત્ત એક મધ્ય પરમાણુની નીચે એક પરમાણુ અને ઉપર એક પરમાણુ, તથા તેની ચારે ત્રણ ચાર પરમાણુઓ એમ એ જઘન્ય સાત પ્રદેશોનું છે. તે આ પ્રમાણે — ઃ.

† યુગ્મપ્રદેશિક ઘનવૃત્ત ત્રણ પ્રદેશોનું હોય છે તેમાં પ્રથમ આ પ્રમાણે ઃ વાર પ્રદેશોનો પ્રતર સ્થાપવો, તેના ઉપર એજ રીતે વીજો વાર પ્રદેશોનો પ્રતર મૂકવો અને બંને પ્રતરના મધ્ય માળના ચાર ચાર અણુઓની ઉપર વીજા ચાર અણુઓ મૂકવા. એ રીતે ત્રણ પ્રદેશોનો યુગ્મપ્રદેશિક ઘનવૃત્ત થાય છે.

૧૯. [પ્ર૦] તંસે ણં મંતે ! સંઠાણે કતિપદેસિય કતિપદેસોગાઢે પન્નત્તે ? [ઉ૦] ગોયમા ! તંસે ણં સંઠાણે ઢુવિઢે પન્નત્તે । તંજહા—ઘનતંસે ય પયરતંસે ય । તત્થ ણં જે સે પયરતંસે સે ઢુવિઢે પન્નત્તે, તંજહા—ઓયપ્પસિય ય જુમ્મપ્પસિય ય । તત્થ ણં જે સે ઓયપ્પસિય સે જહન્નેણં તિપ્પસિય તિપ્પસોગાઢે પન્નત્તે, ઉક્કોસેણં અણંતપ્પસિય અસંઘેજ્જપ્પસોગાઢે પન્નત્તે । તત્થ ણં જે સે જુમ્મપ્પસિય સે જહન્નેણં છપ્પસિય છપ્પસોગાઢે પન્નત્તે, ઉક્કોસેણં અણંતપ્પસિય અસંઘેજ્જપ્પસોગાઢે પન્નત્તે । તત્થ ણં જે સે ઘનતંસે સે ઢુવિઢે પન્નત્તે, તંજહા—ઓયપ્પસિય ય જુમ્મપ્પસિય ય । તત્થ ણં જે સે ઓયપ્પસિય સે જહન્નેણં પળતીસપ્પસિય પળતીસપ્પસોગાઢે, ઉક્કોસેણં અણંતપ્પસિય—તં ચેવ । તત્થ ણં જે સે જુમ્મપ્પસિય સે જહન્નેણં ચડપ્પસિય ચડપ્પસોગાઢે પન્નત્તે, ઉક્કોસેણં અણંતપ્પસિય—તં ચેવ ।

૨૦. [પ્ર૦] ચડરંસે ણં મંતે ! સંઠાણે કતિપદેસિય—પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! ચડરંસે સંઠાણે ઢુવિઢે પન્નત્તે, મેદો જહેવ વટ્ટસ્સ, જાવ—તત્થ ણં જે સે ઓયપ્પસિય સે જહન્નેણં નવપ્પસિય નવપ્પસોગાઢે પન્નત્તે, ઉક્કોસેણં અણંતપ્પસિય અસંઘેજ્જપ્પસોગાઢે પન્નત્તે । તત્થ ણં જે સે જુમ્મપ્પસિય સે જહન્નેણં ચડપ્પસિય ચડપ્પસોગાઢે પન્નત્તે, ઉક્કોસેણં અણંતપ્પસિય—તં ચેવ । તત્થ ણં જે સે ઘનચડરંસે સે ઢુવિઢે પન્નત્તે, તંજહા—ઓયપ્પસિય ય જુમ્મપ્પસિય ય । તત્થ ણં જે સે ઓયપ્પસિય સે જહન્નેણં સત્તાવીસપ્પસિય સત્તાવીસતિપ્પસોગાઢે, ઉક્કોસેણં અણંતપ્પસિય તહેવ । તત્થ ણં જે સે જુમ્મપ્પસિય સે જહન્નેણં અટ્ટપ્પસિય અટ્ટપ્પસોગાઢે પન્નત્તે, ઉક્કોસેણં અણંતપ્પસિય તહેવ ।

૨૧. [પ્ર૦] આયય ણં મંતે ! સંઠાણે કતિપદેસિય કતિપ્પસોગાઢે પન્નત્તે ? [ઉ૦] ગોયમા ! આયય ણં સંઠાણે તિવિઢે પન્નત્તે । તંજહા—સેઢિઆયતે, પયરાયતે, ઘણાયતે । તત્થ ણં જે સે સેઢિઆયતે સે ઢુવિઢે પન્નત્તે, તંજહા—ઓયપ્પસિય ય જુમ્મ-

૧૯. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! ત્ર્યસ્ય સંસ્થાન કેટલા પ્રદેશવાલું અને કેટલા આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! ત્ર્યસ્ય સંસ્થાન વે પ્રકારંતું કહ્યું છે. તે આ પ્રમાણે—ઘન ત્ર્યસ્ય અને પ્રતરત્ર્યસ્ય. તેમાં જે પ્રતર ત્ર્યસ્ય છે તે વે પ્રકારંતું કહ્યું છે તે આ પ્રમાણે—ઓજપ્રદેશિક અને યુગ્મપ્રદેશિક. તેમાં જે ઓજપ્રદેશિક પ્રતર ત્ર્યસ્ય છે તે જઘન્ય ત્રણ પ્રદેશવાલું અને ત્રણ આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે, તથા ઉત્કૃષ્ટથી અનંતપ્રદેશવાલું અને અસંઘ્ય આકાશપ્રદેશમાં અવગાઢ છે. તેમાં જે યુગ્મ પ્રદેશિક પ્રતર ત્ર્યસ્ય છે તે જઘન્ય છ પ્રદેશવાલું અને છ આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે, અને ઉત્કૃષ્ટથી અનંત પ્રદેશવાલું અને અસંઘ્ય આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે. તેમાં જે ઘન ત્ર્યસ્ય છે તે વે પ્રકારંતું કહ્યું છે, તે આ પ્રમાણે—ઓજપ્રદેશિક અને યુગ્મપ્રદેશિક. તેમાં જે ઓજપ્રદેશિક ઘન ત્ર્યસ્ય છે તે જઘન્ય પાત્રીશ પ્રદેશવાલું અને પાત્રીશ આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે. ઉત્કૃષ્ટ અનંત પ્રદેશવાલું અને અસંઘ્ય પ્રદેશમાં અવગાઢ છે. તેમાં જે યુગ્મપ્રદેશિક ઘન ત્ર્યસ્ય છે તે જઘન્ય ચાર પ્રદેશવાલું અને ચાર આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે, તથા ઉત્કૃષ્ટથી અનંત પ્રદેશવાલું અને અસંઘ્ય પ્રદેશમાં અવગાઢ છે.

૨૦. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! ચતુરસ્ર સંસ્થાન કેટલા પ્રદેશવાલું છે અને કેટલા આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ હોય છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! ચતુરસ્ર—ચતુષ્કોણ સંસ્થાન વે પ્રકારંતું છે, તેના વૃત્ત સંસ્થાનની પેઠે ઘન ચતુરસ્ર અને પ્રતર ચતુરસ્ર મેદ કહેવા. યાવત્—તેમાં જે ઓજ પ્રદેશિક પ્રતર ચતુરસ્ર છે તે જઘન્ય નવ પ્રદેશવાલું અને નવ આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અનંત પ્રદેશવાલું અને અસંઘ્ય આકાશપ્રદેશમાં અવગાઢ છે. અને જે યુગ્મ પ્રદેશિક પ્રતર ચતુરસ્ર છે તે જઘન્ય ચાર પ્રદેશવાલું અને ચાર આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અનંત પ્રદેશવાલું અને અસંઘ્ય આકાશપ્રદેશમાં અવગાઢ છે. તેમાં જે ઘન ચતુરસ્ર છે તે વે પ્રકારંતું કહ્યું છે, તે આ પ્રમાણે—ઓજપ્રદેશિક અને યુગ્મપ્રદેશિક. તેમાં જે ઓજપ્રદેશિક ઘન ચતુરસ્ર છે તે જઘન્ય સત્તાવીશ પ્રદેશવાલું અને સત્તાવીશ આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે, તથા ઉત્કૃષ્ટ અનંતપ્રદેશવાલું અને અસંઘ્ય આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે. અને જે યુગ્મ પ્રદેશિક ઘન ચતુરસ્ર છે તે જઘન્ય આઠ પ્રદેશવાલું અને આઠ આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અનંત પ્રદેશવાલું અને અસંઘ્ય આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ છે.

૨૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! આયત સંસ્થાન કેટલા પ્રદેશવાલું છે અને કેટલા આકાશપ્રદેશમાં અવગાઢ છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! આયત સંસ્થાન ત્રણ પ્રકારંતું છે, તે આ પ્રમાણે—શ્રેણિઆયત, પ્રતરાયત અને ઘનાયત. તેમાં જે શ્રેણિ આયત છે તે વે પ્રકારંતું છે, તે આ

૧૯ * ઓજપ્રદેશિક ઘન ત્ર્યસ્ય જઘન્ય પાત્રીશ પ્રદેશોત્ત ધાય છે તેમાં પ્રથમ આ પ્રમાણે પ્રથમ પદર પ્રદેશોના પ્રતર ઉપર વીજો દશ પ્રદેશોનો પ્રતર, તેના ઉપર વીજો છ પ્રદેશોનો પ્રતર, તેના ઉપર વીજો એક પ્રદેશોનો પ્રતર અને તેના ઉપર એક પ્રમાણ મૂકવો એ પ્રમાણે પાત્રીશ પ્રદેશો ધાય છે.

૨૦ † આ પ્રમાણે નવપ્રદેશિક પ્રતરની ઉપર તેવા વીજો વે પ્રતર મૂકવા એટલે સત્તાવીશ પ્રદેશોત્ત ઓજપ્રદેશિક ઘન ચતુરસ્ર ધાય છે.

‡ ચતુ પ્રદેશિક પ્રતરની ઉપર વીજો ચતુષ્પ્રદેશિક પ્રતર મૂકવાથી આઠ પ્રદેશોત્ત યુગ્મપ્રદેશિક ઘન ચતુરસ્ર ધાય છે

૨૧ § પ્રદેશની શ્રેણિરૂપ શ્રેણ્યાયત કહેવાય છે તેમાં જઘન્ય ઓજપ્રદેશિક શ્રેણ્યાયત ત્રણપ્રદેશાત્મક હોય છે. યુગ્મપ્રદેશિક શ્રેણ્યાયત વે પ્રદેશોત્ત હોય છે —

વે ત્રણ—ઇલાદિ વિષ્કમ્ભ શ્રેણિરૂપ પ્રતરાયત કહેવાય છે જાડાઈ અને વિષ્કમ્ભ સહિત અનેક શ્રેણિઓને ઘનાયત કહે છે. ઓજપ્રદેશિક શ્રેણ્યાયત જઘન્ય ત્રિપ્રદેશિક હોય છે — અને યુગ્મ પ્રદેશિક શ્રેણ્યાયત દ્વિપ્રદેશિક છે. —

ત્ર્યસ્યસંસ્થાન કેટલા પ્રદેશવાલું અને કેટલા આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ હોય ?

ચતુરસ્ર સંસ્થાન કેટલા પ્રદેશવાલું અને કેટલા આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ હોય ?

આયત સંસ્થાન કેટલા પ્રદેશવાલું અને કેટલા આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઢ હોય ?

पपत्तिय य । तत्प णं जे ओयपपत्तिय से जहन्नेणं तिपपत्तिय तिपपत्तिसोगाढे, उक्कोसेणं अणंतपपत्तिय-तं चैव । तत्प णं जे से जुम्मपपत्तिय से जहन्नेणं दुपपत्तिय दुपपत्तिसोगाढे, उक्कोसेणं अणंत० तहेव । तत्प णं जे से पयरायते से दुविहे पन्नत्ते तंजहा-ओयपपत्तिय य जुम्मपपत्तिय य । तत्प णं जे से ओयपपत्तिय से जहन्नेणं पन्नरसपपत्तिय पन्नरसपपत्तिसोगाढे, उक्कोसेणं अणंत० तहेव । तत्प णं जे से जुम्मपपत्तिय से जहन्नेणं छप्पपत्तिय छप्पपत्तिसोगाढे, उक्कोसेणं अणंत० तहेव । तत्प णं जे से घणायते से दुविहे पन्नत्ते, तंजहा-ओयपपत्तिय य जुम्मपपत्तिय य । तत्प णं जे से ओयपपत्तिय से जहन्नेणं पणयालीसपपत्तिय पणयालीसपपत्तिसोगाढे, उक्कोसेणं अणंत० तहेव । तत्प णं जे से जुम्मपपत्तिय से जहन्नेणं वारसपपत्तिय वारसपपत्तिसोगाढे, उक्कोसेणं अणंत० तहेव ।

२२. [प्र०] परिमंडले णं भंते ! संठाणे कतिपदेसिए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! परिमंडले णं संठाणे दुविहे पन्नत्ते, तंजहा-वणपरिमंडले य पयरपरिमंडले य । तत्प णं जे से पयरपरिमंडले से जहन्नेणं वीसतिपदेसिए वीसइपपत्तिसोगाढे, उक्कोसेणं अणंतपदेसिए तहेव । तत्प णं जे से वणपरिमंडले से जहन्नेणं चत्तालीसतिपदेसिए चत्तालीसपपत्तिसोगाढे पन्नत्ते, उक्कोसे णं अणंतपपत्तिय असंखेजपपत्तिसोगाढे पन्नत्ते ।

२३. [प्र०] परिमंडले णं भंते ! संठाणे दघट्टयाए किं कडजुम्मे, तेओप, दावरजुम्मे, कलियोए ? [उ०] गोयमा ! नो कडजुम्मे, णो तेओप, णो दावरजुम्मे, कलियोए । वट्टे णं भंते ! संठाणे दघट्टयाए० ? [उ०] एवं चैव, एवं जाव-आयते ।

प्रमाणे-ओजप्रदेशिक अने युग्मप्रदेशिक. तेमा जे ओजप्रदेशिक श्रेणि आयत छे ते जघन्य व्रण प्रदेशवाळुं अने व्रण आकाशप्रदेशमां अगगाड छे, अने उक्कट अर्नंत प्रदेशवाळुं अने असंख्य आकाशप्रदेशमां अवगाड छे. जे युग्मप्रदेशिक श्रेणि आयत छे ते जघन्य वे प्रदेशवाळुं अने वे आकाशप्रदेशमां अगगाड छे, तथा उक्कट अर्नंत प्रदेशवाळुं अने असंख्य आकाशप्रदेशमां अवगाड छे. तेमां जे प्रतारायत छे ते वे प्रकारुं कलुं छे, ते आ प्रमाणे-ओजप्रदेशिक अने युग्मप्रदेशिक. जे ओजप्रदेशिक प्रतारायत छे ते जघन्य पंदर प्रदेशवाळुं अने पंदर आकाशप्रदेशमां अवगाड छे, अने उक्कट अर्नंत प्रदेशवाळुं अने असंख्य आकाश प्रदेशमां अवगाड छे. तेमां जे युग्मप्रदेशिक प्रतारायत ते जघन्य छ प्रदेशवाळुं अने छ आकाश प्रदेशमां अवगाड छे, अने उक्कट अर्नंत प्रदेशवाळुं अने असंख्यात आकाश प्रदेशमां अवगाड छे. तेमा जे घनायत छे ते वे प्रकारुं कलुं छे, ते आ प्रमाणे-ओजप्रदेशिक अने युग्मप्रदेशिक. तेमां जे ओजप्रदेशिक प्रतारायत छे ते जघन्य पिस्ताळीय प्रदेशवाळुं अने पिस्ताळीय आकाश प्रदेशमां अवगाड छे, अने उक्कट अर्नंत प्रदेशवाळुं अने असंख्यात आकाश प्रदेशमां अवगाड छे. तेमा जे युग्मप्रदेशिक घनायत छे ते जघन्य वार प्रदेशवाळुं अने वार आकाश प्रदेशमां अवगाड छे, तथा उक्कट अर्नंत प्रदेशवाळुं अने असंख्य आकाशप्रदेशमां अवगाड छे.

२२. [प्र०] हे भगवान् ! परिमंडल संस्थान केटला प्रदेशवाळुं, अने केटला आकाशप्रदेशमां अवगाड होय ? [उ०] हे गौतम परिमंडल नस्थान वे प्रकारुं कलुं छे, ते आ प्रमाणे-घन परिमंडल अने प्रतर परिमंडल. तेमा जे प्रतर परिमंडल छे ते जघन्य वीश प्रदेशवाळुं अने वीश आकाश प्रदेशमां अवगाड छे, अने उक्कट अर्नंत प्रदेशवाळुं अने असंख्यात आकाश प्रदेशमां अवगाड छे. तेमां जे वन परिमंडल छे ते जघन्य चाळीस प्रदेशवाळुं अने चाळीस आकाश प्रदेशमां अवगाड छे, तथा उक्कट अर्नंत प्रदेशवाळुं अने असंख्य प्रदेशमां अवगाड छे.

२२. [प्र०] हे भगवान् ! परिमंडल संस्थान केटला प्रदेशवाळुं, अने केटला आकाशप्रदेशमां अवगाड होय ? [उ०] हे गौतम परिमंडल नस्थान वे प्रकारुं कलुं छे, ते आ प्रमाणे-घन परिमंडल अने प्रतर परिमंडल. तेमा जे प्रतर परिमंडल छे ते जघन्य वीश प्रदेशवाळुं अने वीश आकाश प्रदेशमां अवगाड छे, अने उक्कट अर्नंत प्रदेशवाळुं अने असंख्यात आकाश प्रदेशमां अवगाड छे. तेमां जे वन परिमंडल छे ते जघन्य चाळीस प्रदेशवाळुं अने चाळीस आकाश प्रदेशमां अवगाड छे, तथा उक्कट अर्नंत प्रदेशवाळुं अने असंख्य प्रदेशमां अवगाड छे.

२३. [प्र०] हे भगवान् ! परिमंडल नस्थान द्रव्यारूपे शुं कृतयुग्म छे, त्र्योज छे, द्वापरयुग्म छे के कल्योज छे ? [उ०] हे गौतम ! ते वृत्तयुग्म नथी, त्र्योज नथी, द्वापरयुग्म नथी, पण कल्योजरूप छे. [प्र०] हे भगवान् ! वृत्तसंस्थान द्रव्यारूपे शुं कृतयुग्म छे-कदाचित् प्रश्न. [उ०] उत्तर पूर्वे प्रमाणे जाणवो. ए प्रमाणे यावत्-आयत संस्थान सुधी समजवुं.

२३. [प्र०] हे भगवान् ! परिमंडल नस्थान द्रव्यारूपे शुं कृतयुग्म छे, त्र्योज छे, द्वापरयुग्म छे के कल्योज छे ? [उ०] हे गौतम ! ते वृत्तयुग्म नथी, त्र्योज नथी, द्वापरयुग्म नथी, पण कल्योजरूप छे. [प्र०] हे भगवान् ! वृत्तसंस्थान द्रव्यारूपे शुं कृतयुग्म छे-कदाचित् प्रश्न. [उ०] उत्तर पूर्वे प्रमाणे जाणवो. ए प्रमाणे यावत्-आयत संस्थान सुधी समजवुं.

२१ " ओजप्रदेशिक प्रमाणे जघन्य पंदर प्रदेशमां होय छे — ::::, अने युग्मप्रदेशिक प्रतारायत छ प्रदेशमां होय छे — :::: एम पंदर प्रदेशमां प्रतारायत छे ते वे तेमा प्रमाणे मूलवाची जघन्य वीनाज्जमा प्रदेशमां ओजप्रदेशिक घनायत थाय छे, अने छ प्रदेशमां युग्म प्रदेशिक प्रतारायत उपर छे, तेमा प्रमाणे मूलवाची पंदर प्रदेशमां युग्मप्रदेशिक घनायत थाय छे.

२२ * परिमंडल संस्थान मान युग्मप्रदेशिक छे, तेमा प्रतर परिमंडल जघन्य वीश प्रदेशवाळुं छे, तेमा वीशुं प्रतर परिमंडल मूलवाची जघन्य पंदर प्रदेशमां अवगाड छे.

२३ ! परिमंडल संस्थान प्रमाणे वृत्त छे, अने एम वस्तुनो चार चारथी अवहार धनो नथी, तेथी एवज वाकी रहै छे माटे ते कल्योजरूप छे ए प्रमाणे परिमंडल संस्थान कते कल्योज वस्तु प्रमाणे वीश वस्तु परिमंडल संस्थाननो नियार करीए तारे तेनो चार चारथी अवहार करता कोइ वस्तुते कांइ पण कते कते, कल्योज पण, द्वापरयुग्म छे अने कदाचित् एम पण वाकी रहै, माटे कदाचित् वृत्तयुग्मरूप होय अने यावत्-कदाचित् कल्योजरूप पण होय. एम वस्तुनो चार चारथी अवहार करीए तारे चारथी अवहार न धनो होवाकी एवज वाकी रहै तेथी कल्योजरूप होय.

२४. [प्र०] परिमंडला णं भंते ! संठाणा दवट्टयाए किं कडजुम्मा, तेयोर्या-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा, सिय तेओगा, सिय दावरजुम्मा, सिय कलियोगा; विहाणादेसेणं नो कडजुम्मा, नो तेओगा, नो दावरजुम्मा, कलिओगा, एवं जाव-आयता ।

२५. [प्र०] परिमंडले णं भंते ! संठाणे पएसट्टयाए किं कडजुम्मे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय कडजुम्मे, सिय ते-योगे, सिय दावरजुम्मे, सिय कलियोए । एवं जाव-आयते ।

२६. [प्र०] परिमंडला णं भंते ! संठाणा पएसट्टयाए किं कडजुम्मा-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कड-जुम्मा, जाव-सिय कलियोगा; विहाणादेसेणं कडजुम्मा वि, तओगा वि, दावरजुम्मा वि, कलियोगा वि । एवं जाव-आयता ।

२७. [प्र०] परिमंडले णं भंते ! संठाणे किं कडजुम्मपएसोगाढे, जाव-कलियोगपएसोगाढे ? [उ०] गोयमा ! कडजु-म्मपएसोगाढे, णो तेयोगपएसोगाढे, नो दावरजुम्मपएसोगाढे, नो कलियोगपएसोगाढे ।

२८. [प्र०] वट्टे णं भंते ! संठाणे किं कडजुम्मे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय कडजुम्मपदेसोगाढे, सिय तेयोगप-सोगाढे, नो दावरजुम्मपएसोगाढे, सिय कलियोगपएसोगाढे ।

२९. [प्र०] तंसे णं भंते ! संठाणे०-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय कडजुम्मपएसोगाढे, सिय तेयोगपएसोगाढे, सिय दावरजुम्मपदेसोगाढे, नो कलिओगपएसोगाढे ।

३०. [प्र०] चउरंसे णं भंते ! संठाणे० ? [उ०] जहा वट्टे तहा चउरंसे वि ।

३१. [प्र०] आयए णं भंते !०-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय कडजुम्मपएसोगाढे, जाव-सिय कलिओगपएसोगाढे ।

२४. [प्र०] हे भगवन् ! परिमंडल संस्थानो द्रव्यार्थपणे शुं कृतयुग्म छे, त्र्योज छे, द्वापरयुग्म छे के कलियोग छे ? [उ०] हे गौतम ! ओघादेश-सामान्यतः सर्वसमुदितरूपे कदाच कृतयुग्म, कदाच त्र्योज, कदाच द्वापरयुग्म, अने कदाच कल्योजरूप होय छे. तथा विधानादेश-प्रत्येकनी अपेक्षाए कृतयुग्म रूप नथी, त्र्योज नथी, द्वापरयुग्म नथी, पण कल्योजरूप छे. ए प्रमाणे यावत्-आयत संस्थान सुधी जाणवुं.

परिमंडलादिसंस्थान-
नी कृतयुग्मादि-
रूपता

२५. [प्र०] हे भगवन् ! परिमंडल संस्थान प्रदेशार्थपणे शुं कृतयुग्म छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कदाच कृतयुग्म होय, कदाच त्र्योज, कदाच द्वापरयुग्म अने कदाच कल्योजरूप होय छे. ए प्रमाणे यावत्-आयत संस्थान सुधी जाणवुं.

परिमंडलादिसंस्थान-
नी प्रदेशरूपे कृ-
तयुग्मादिरूपता.

२६. [प्र०] हे भगवन् ! परिमंडल संस्थानो प्रदेशार्थपणे शुं कृतयुग्म छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ओघादेश-सामान्यरूपे कदाच कृतयुग्म होय, यावत्-कदाच कल्योजरूप पण होय. विधानादेश-एक एकनी अपेक्षाए कृतयुग्म होय, त्र्योज पण होय, द्वापर-युग्म पण होय अने कल्योजरूप पण होय. ए प्रमाणे यावत्-आयत संस्थानो सुधी जाणवुं.

परिमंडलादिसंस्थानो
प्रदेशरूपे शुं कृ-
तयुग्मादिरूपे ?

२७. [प्र०] हे भगवन् ! परिमंडल संस्थान शुं कृतयुग्मप्रदेशावगाढ छे के यावत्-कल्योजप्रदेशावगाढ छे ? [उ०] हे गौतम ! कृतयुग्मप्रदेशावगाढ छे, पण त्र्योज प्रदेशावगाढ नथी, द्वापरयुग्मप्रदेशावगाढ नथी, तेम कल्योजप्रदेशावगाढ पण नथी.

परिमंडलसंस्थान
कैदला प्रदेशा-
वगाढ होय.

२८. [प्र०] हे भगवन् ! वृत्त संस्थान शुं कृतयुग्मप्रदेशावगाढ छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कदाच कृतयुग्म प्रदेशाव-गाढ होय, कदाच त्र्योजप्रदेशावगाढ होय, कदाच कल्योजप्रदेशावगाढ होय, पण द्वापरयुग्मप्रदेशावगाढ न होय.

वृत्तसंस्थान.

२९. [प्र०] हे भगवन् ! त्र्यस्र संस्थान शुं कृतयुग्मप्रदेशावगाढ होय-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कदाच कृतयुग्मप्रदे-शावगाढ होय, कदाच त्र्योजप्रदेशावगाढ होय, कदाच द्वापरयुग्मप्रदेशावगाढ होय, पण कल्योजप्रदेशावगाढ न होय.

त्र्यस्रसंस्थान

३०. [प्र०] हे भगवन् ! चतुरस्र-चौरस संस्थान शुं कृतयुग्मप्रदेशावगाढ छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] वृत्तसंस्थाननी पेठे चतुरस्र संस्थान जाणवुं.

चतुरस्रसंस्थान.

३१. [प्र०] हे भगवन् ! आयतसंस्थान सवन्धे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कदाच कृतयुग्मप्रदेशावगाढ होय अने यावत्-कदाच कल्योजप्रदेशावगाढ पण होय.

आयतसंस्थान.

३२. [प्र०] परिमंडला णं भंते ! संटाणा किं कडजुम्मपपसोगाढा, तेयोगपपसोगाढा—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघा-
देसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मपपसोगाढा, णो तेयोगपपसोगाढा, नो दावरजुम्मपपसोगाढा, नो कलियोगपप-
सोगाढा ।

३३. [प्र०] वट्टा णं भंते ! संटाणा किं कडजुम्मपपसोगाढा—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपपसो-
गाढा, नो तेयोगपपसोगाढा, नो दावरजुम्मपपसोगाढा, नो कलियोगपपसोगाढा । विहाणादेसेणं कडजुम्मपपसोगाढा वि,
तेयोगपपसोगाढा वि, नो दावरजुम्मपपसोगाढा, कलियोगपपसोगाढा वि ।

३४. [प्र०] तंसा णं भंते ! संटाणा किं कडजुम्म०—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपपसोगाढा, नो
तेयोगपपसोगाढा, नो दावरजुम्मपपसोगाढा, नो कलियोगपपसोगाढा । विहाणादेसेणं कडजुम्मपपसोगाढा वि, तेयोगपप-
सोगाढा वि, नो दावरजुम्मपपसोगाढा, कलियोगपपसोगाढा । चउरंसा जहा वट्टा ।

३५. [प्र०] आयया णं भंते ! संटाणा—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपपसोगाढा, नो तेयोगपपसो-
गाढा, नो दावरजुम्मपपसोगाढा, नो कलियोगपपसोगाढा । विहाणादेसेणं कडजुम्मपपसोगाढा वि, जाव—कलियोगपपसो-
गाढा वि ।

३६. [प्र०] परिमंडले णं भंते ! संटाणे किं कडजुम्मसमयटितीप, तेयोगसमयटितीप, दावरजुम्मसमयटितीप, कलि-
ओगसमयटितीप ? [उ०] गोयमा ! सिय कडजुम्मसमयटितीप, जाव—सिय कलियोगसमयटितीप; एवं जाव—आयते ।

३७. [प्र०] परिमंडला णं भंते ! संटाणा किं कडजुम्मसमयटितीया—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कड-
जुम्मसमयटितीया, जाव—सिय कलियोगसमयटितीया । विहाणादेसेणं कडजुम्मसमयटितीया वि, जाव—कलियोगसमयटि-
तीया वि । एवं जाव—आयता ।

३८. [प्र०] परिमंडले णं भंते ! संटाणे कालवन्नपज्जवेहिं किं कडजुम्मे, जाव—कलियोगे ? [उ०] गोयमा ! सिय कड-
जुम्मे; एवं एणं अभिलावेणं जहेच टितीप; एवं नीलवन्नपज्जवेहिं, एवं पंचहिं वन्नेहिं, दोहिं गंधेहिं, पंचहिं रसेहिं, अट्टहिं
फासेहिं, जाव—लुक्खफासपज्जवेहिं ।

परिमटलसंस्थानो.

३२. [प्र०] हे भगवन् ! परिमंडल सस्थानो शुं कृतयुग्मप्रदेशावगाढ होय, त्र्योजप्रदेशावगाढ होय—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे
गौतम ! ते सामान्यतः वधा मळीने तथा विधानादेश—एक एकनी अपेक्षाए कृतयुग्मप्रदेशावगाढ छे, पण त्र्योजप्रदेशावगाढ नथी, द्वापर-
युग्मप्रदेशावगाढ नथी, तेम कल्योजप्रदेशावगाढ पण नथी.

वृत्तसंस्थानो

३३. [प्र०] हे भगवन् ! वृत्त संस्थानो शुं कृतयुग्मप्रदेशावगाढ छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते सामान्यतः वधा मळीने
कृतयुग्मप्रदेशावगाढ छे, पण त्र्योजप्रदेशावगाढ नथी, द्वापरयुग्मप्रदेशावगाढ नथी, तेम कल्योजप्रदेशावगाढ पण नथी. विधानादेश वडे
कृतयुग्मप्रदेशावगाढ पण छे, त्र्योजप्रदेशावगाढ पण छे, द्वापरयुग्मप्रदेशावगाढ नथी, पण कल्योजप्रदेशावगाढ छे.

यत्नसंस्थानो

३४. [प्र०] हे भगवन् ! यत्न संस्थानो शुं कृतयुग्मप्रदेशावगाढ छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सामान्य विवक्षाए कृतयुग्म
प्रदेशावगाढ छे, पण त्र्योज, द्वापर के कल्योज प्रदेशावगाढ नथी. विशेषनी अपेक्षाए कृतयुग्मप्रदेशावगाढ पण छे, त्र्योजप्रदेशावगाढ पण
छे, पण द्वापरयुग्मप्रदेशावगाढ नथी, कल्योज प्रदेशावगाढ छे. चतुरस्र—चोरससंस्थानो वृत्त संस्थाननी पेटे जाणवां.

जायतसंस्थानो

३५. [प्र०] हे भगवन् ! आयत संस्थानो शुं कृतयुग्मप्रदेशावगाढ छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते ओघादेशावडे कृतयुग्म
प्रदेशावगाढ छे, पण त्र्योज, द्वापर के कल्योजप्रदेशावगाढ नथी. विधानादेशावडे कृतयुग्मप्रदेशावगाढ पण छे अने यावत्—कल्योज-
प्रदेशावगाढ पण छे.

परिमटलसंस्थानो
ननी स्थिति.

३६. [प्र०] हे भगवन् ! परिमंडल संस्थान शुं कृतयुग्मसमयनी स्थितिवाळुं छे, त्र्योज समयनी स्थितिवाळुं छे, द्वापरसमयनी
स्थितिवाळुं छे के कल्योजसमयनी स्थितिवाळुं छे ? [उ०] हे गौतम ! कदाच कृतयुग्मसमयनी स्थितिवाळुं छे, अने यावत्—कदाच
कल्योजसमयनी स्थितिवाळुं पण छे. ए प्रमाणे यावत्—आयत संस्थान सुधी जाणवुं.

परिमटल संस्था-
नानी स्थिति

३७. [प्र०] हे भगवन् ! परिमंडल संस्थानो शुं कृतयुग्म समयनी स्थितिवाळां छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ओघादेश-
वडे कदाच कृतयुग्मसमयनी स्थितिवाळा छे, यावत्—कदाच कल्योजसमयनी स्थितिवाळा पण छे. विधानादेशावडे कृतयुग्म समयनी
स्थितिवाळा पण छे, यावत्—कल्योज समयनी स्थितिवाळा पण छे. ए प्रमाणे यावत्—आयत संस्थानो सुधी समजवुं.

परिमटलदि संस्था-
नना वगादि पर्यायो

३८. [प्र०] हे भगवन् ! परिमंडल संस्थानना काळावर्णना पर्यायो शुं कृतयुग्म छे के यावत्—कल्योजरूप छे ? [उ०] हे गौतम !
कदाच कृतयुग्मरूप होय—इत्यादि पूर्वोक्त पाठवडे जेम स्थिति सवन्वे कहुं छे तेम कहेवुं. एम लीला वगेरे पाच वर्ण, वे गंध, पाच रस,
अने आठ स्पर्श संवन्वे यावत्—रुक्ष स्पर्शपर्यवो सुधी कहेवुं.

३९. [प्र०] सेढीओ णं भंते ! दव्वट्टयाए किं संखेज्जाओ, असंखेज्जाओ, अणंताओ ? [उ०] गोयमा ! नो संखेज्जाओ, नो असंखेज्जाओ, अणंताओ ।

४०. [प्र०] पाईणपडीणायताओ णं भंते ! सेढीओ दव्वट्टयाए किं संखेज्जाओ ? [उ०] एवं चेव । एवं दाहिणुत्तरायताओ वि; एवं उहमहायताओ वि ।

४१. [प्र०] लोगागाससेढीओ णं भंते ! दव्वट्टयाए किं संखेज्जाओ, असंखेज्जाओ, अणंताओ ? [उ०] गोयमा ! नो संखेज्जाओ, असंखेज्जाओ, नो अणंताओ ।

४२. [प्र०] पाईणपडीणायताओ णं भंते ! लोगागाससेढीओ दव्वट्टयाए किं संखेज्जाओ ? [उ०] एवं चेव; एवं दाहिणुत्तरायताओ वि; एवं उहमहायताओ वि ।

४३. [प्र०] अलोयागाससेढीओ णं भंते ! दव्वट्टयाए किं संखेज्जाओ, असंखेज्जाओ, अणंताओ ? [उ०] गोयमा ! नो संखेज्जाओ, नो असंखेज्जाओ, अणंताओ । एवं पाईणपडीणायताओ वि, एवं दाहिणुत्तरायताओ वि, एवं उहमहायताओ वि ।

४४. [प्र०] सेढीओ णं भंते ! पएसट्टयाए किं संखेज्जाओ ? [उ०] जहा दव्वट्टयाए तहा पएसट्टयाए वि, जाव-उहमहायताओ वि, सव्वाओ अणंताओ ।

४५. [प्र०] लोयागाससेढीओ णं भंते ! पएसट्टयाए किं संखेज्जाओ-पुच्छ । [उ०] गोयमा ! सिय संखेज्जाओ, सिय असंखेज्जाओ, नो अणंताओ । एवं पाईणपडीणायताओ वि, दाहिणुत्तरायताओ वि एवं चेव, उहमहायताओ वि नो संखेज्जाओ, असंखेज्जाओ, नो अणंताओ ।

३९. [प्र०] हे भगवन् ! (आकाशप्रदेशनी) श्रेणिओ द्रव्यरूपे शुं संख्याती छे, असंख्याती छे, के अनंत छे ? [उ०] हे गौतम ! ते संख्याती नथी, असंख्याती नथी, पण अनंत छे.

द्रव्यरूपे आकाश प्रदेशनी श्रेणिओनी संख्या-

४०. [प्र०] हे भगवन् ! पूर्व अने पश्चिम लांवी श्रेणिओ द्रव्यरूपे शुं संख्याती छे, असंख्याती छे के अनंत छे ? [उ०] पूर्व प्रमाणे (अनंत) जाणवी. एज प्रमाणे दक्षिण अने उत्तर लांवी तथा ऊर्ध्व अने अधो लांवी श्रेणिओ संबंधे पण जाणहुं.

४१. [प्र०] हे भगवन् ! लोकाकाशनी श्रेणिओ द्रव्यरूपे शुं संख्याती छे, असंख्याती के अनंत छे ? [उ०] हे गौतम ! ते संख्याती नथी, तेम अनंत नथी, पण असंख्याती छे.

लोकाकाशनी श्रेणिओ

४२. [प्र०] हे भगवन् ! पूर्व अने पश्चिम लांवी लोकाकाशनी श्रेणिओ द्रव्यरूपे शुं संख्याती छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! पूर्व प्रमाणे (असंख्याती) जाणवी. दक्षिण अने उत्तर लांवी तथा ऊर्ध्व अने अधो लांवी लोकाकाशनी श्रेणिओ संबंधे पण ए प्रमाणे जाणहुं.

४३. [प्र०] हे भगवन् ! अलोकाकाशनी श्रेणिओ द्रव्यरूपे शुं संख्याती छे, असंख्याती छे के अनंत छे ? [उ०] हे गौतम ! ते संख्याती नथी, असंख्याती नथी, पण अनंत छे. ए प्रमाणे पूर्व अने पश्चिम लांवी, दक्षिण अने उत्तरमा लांवी तथा उंचे अने नीचे लांवी अलोकाकाशनी श्रेणिओ संबंधे पण जाणहुं.

अलोकाकाशनी श्रेणिओ

४४. [प्र०] हे भगवन् ! आकाशनी श्रेणिओ प्रदेशरूपे शुं संख्याती छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! जेम द्रव्यरूपे कहुं छे तेम प्रदेशरूपे पण कहेंहुं. ए प्रमाणे यावत्-ऊर्ध्व अने अधो लांवी वधी श्रेणिओ अनंत जाणवी.

४५. [प्र०] हे भगवन् ! लोकाकाशनी श्रेणिओ प्रदेशरूपे शुं संख्याती छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कोई संख्यात प्रदेशरूप छे, कोई असंख्यात प्रदेशरूप छे, पण अनंतप्रदेश रूप नथी. ए प्रमाणे पूर्व अने पश्चिम, दक्षिण अने उत्तर लांवी श्रेणिओ जाणवी. तथा ऊर्ध्व अने अधो लांवी लोकाकाशनी श्रेणिओ संख्यात प्रदेशरूप नथी, पण असंख्यात प्रदेशरूप छे.

आकाश श्रेणिनी प्रदेशरूपे संख्या

४५ * लोकाकाशनी पूर्व-पश्चिम अने उत्तर-दक्षिण श्रेणिओ संख्याता प्रदेशरूपे शी रीते होय ? आ सवन्धे टीकामा नीचे प्रमाणे चूर्णिकार अने प्राचीन टीकाकारना उद्धरणो टाकी समाधान करे छे-अहिं चूर्णिकार जणावे छे के वृत्ताकार लोकना दन्तक जे अलोकमा गयेला छे तेनी श्रेणिओ संख्यातप्रदेशात्मक अने वाक्कीनी श्रेणिओ असंख्यात प्रदेशात्मक होय छे. प्राचीन टीकाकार कहेंछे के लोकाकाश वृत्ताकार होवाधी पर्यन्तवर्ती श्रेणिओ संख्यात प्रदेशनी होय छे.

† लोकाकाशनी ऊर्ध्व लोकथी आरमी अधोलोक पर्यन्त ऊर्ध्व-अधो लांवी श्रेणि असंख्यात प्रदेशनी छे, पण संख्यात के अनन्त प्रदेशनी नथी, अधोलोकना खुणाथी के ब्रह्मदेव लोकना तीरछा प्रान्त भागथी जे श्रेणिओ नीकछे छे ते पण आ सूत्रना कथनथी संख्यात प्रदेशनी नथी होती, पण असंख्यात प्रदेशनीज होय छे.

४६. [प्र०] अलोगागाससेदीओ णं भंते ! पपसट्टयाप-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय संरोज्जाओ, सिय असंरोज्जाओ, सिय अणंताओ ।

४७. [प्र०] पार्हणपडीणाययाओ णं भंते ! अलोया०-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो संरोज्जाओ, नो असंरोज्जाओ, अणंताओ । एवं दाहिणुत्तरायताओ चि ।

४८. [प्र०] उट्टमहायताओ-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय संरोज्जाओ, सिय असंरोज्जाओ, सिय अणंताओ ।

४९. [प्र०] सेदीओ णं भंते ! किं साइयाओ सपज्जवसियाओ १, साइयाओ अपज्जवसियाओ २, अणादीयाओ सपज्जवसियाओ ३, अणादीयाओ अपज्जवसियाओ ४ ? [उ०] गोयमा ! नो सादीयाओ सपज्जवसियाओ, नो सादीयाओ अपज्जवसियाओ, णो अणादीयाओ सपज्जवसियाओ, अणादीयाओ अपज्जवसियाओ । एवं जाव-उट्टमहायताओ ।

५०. [प्र०] लोयागाससेदीओ णं भंते ! किं सादीयाओ सपज्जवसियाओ-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सादीयाओ सपज्जवसियाओ, नो सादीयाओ अपज्जवसियाओ, नो अणादीयाओ सपज्जवसियाओ, नो अणादीयाओ अपज्जवसियाओ । एवं जाव-उट्टमहायताओ ।

५१. [प्र०] अलोयागाससेदीओ णं भंते ! किं सादीयाओ-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय साइयाओ सपज्जवसियाओ १, सिय साइयाओ अपज्जवसियाओ २, सिय अणादीयाओ सपज्जवसियाओ ३, सिय अणादीयाओ अपज्जवसियाओ ४ । पार्हणपडीणाययाओ दाहिणुत्तरायताओ य एवं चेव । नवरं नो सादीयाओ सपज्जवसियाओ, सिय साइयाओ अपज्जवसियाओ; सेसं तं चेव । उट्टमहायताओ जहा ओहियाओ तहेव चउभंगो ।

अलोकाणी श्रेणि.

४६. [प्र०] हे भगवन् ! अलोकाकाशनी श्रेणिओ शुं सख्यातप्रदेशरूप छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कोइक सख्यात प्रदेशरूप होय, कोई असख्यात प्रदेशरूप होय अने कोई अनंतप्रदेशात्मक पण होय.

४७. [प्र०] हे भगवन् ! पूर्व अने पश्चिम लांबी अलोकाकाशनी श्रेणिओ शुं सख्यात प्रदेशनी होय-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सख्यात प्रदेशनी नथी, पण अनंत प्रदेशनी होय छे. ए प्रमाणे दक्षिण अने उत्तर लांबी श्रेणिओ संबन्धे पण जाणवुं.

४८. [प्र०] हे भगवन् ! उंचे अने नीचे लांबी अलोकाकाशनी श्रेणिओ संबन्धे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कदाच ते सख्यात प्रदेशनी होय, कदाच असख्यात प्रदेशनी होय, अने कदाच अनंत प्रदेशनी होय.

४९. [प्र०] हे भगवन् ! श्रेणिओ शुं १ सादि-आदिवाळी अने सपर्यवसित-सान्त छे, २ सादि अने अन्तरहित छे, ३ अनादि अने सान्त छे के ४ अनादि अने अनन्त (अन्तरहित) छे ? [उ०] हे गौतम ! १ सादि अने सान्त नथी, २ सादि अने अनंत नथी, ३ अनादि अने सान्त नथी, पण ४ अनादि अने अनन्त छे. ए प्रमाणे यावत्-ऊर्ध्व अने अधो लांबी श्रेणिओ संबन्धे समजवुं.

अलोकाकाश श्रेणिओ अने सादि सपर्यवसित भग

५०. [प्र०] हे भगवन् ! अलोकाकाशनी श्रेणिओ शुं सादि अने सान्त छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते सादि अने सान्त छे, पण सादि अने अनन्त नथी, अनादि अने सान्त नथी, तेम अनादि अने अनन्त पण नथी. ए प्रमाणे यावत्-ऊर्ध्व अने अधो लांबी श्रेणिओ संबन्धे पण जाणवुं.

अलोकाकाशनी श्रेणिओ सभचे सादि सपर्यवसितादि भंग्ना.

५१. [प्र०] हे भगवन् ! अलोकाकाशनी श्रेणिओ शुं सादि अने सान्त छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कोइक सादि अने सान्त होय, कोइक सादि अने अनन्त होय, कोइक अनादि अने सान्त होय, तथा कोइक अनादि अने अनन्त होय. ए प्रमाणे पूर्व-पश्चिम लांबी अने दक्षिण-उत्तर लांबी श्रेणिओ संबन्धे जाणवुं. परन्तु ते सादि अने सांत नथी, पण कोइक सादि अने अनन्त छे-इत्यादि वाकी वधुं पूर्वोक्त कहेवुं. तथा सामान्य श्रेणिओनी पेटे ऊर्ध्व-अधो लांबी श्रेणिओ संबन्धे पण पूर्व प्रमाणे चार भाग करवा.

४६ * अलोकाकाशनी सख्यात अने असख्यात प्रदेशनी श्रेणिओ कही छे ते लोकमध्यवर्ती छुट्टक प्रतरनी नजीकमा आवेली ऊर्ध्व-अधो लांबी अधो लोकनी श्रेणिओने आश्रयी समजवुं तेमा जे प्रारम्भमा आवेली श्रेणिओ छे ते सख्यात प्रदेशनी छे, अने त्वार पछी आवेली श्रेणिओ असख्यात प्रदेशनी छे. तिरछी लांबी अलोकाकाशनी श्रेणिओ तो अत्यन्त अनंत प्रदेशरूप होय छे

५१ † मध्यलोकात्वा छुट्टक प्रतरनी नजीक आवेली ऊर्ध्व अने अधो लांबी श्रेणिओने आश्रयी प्रथम सादि सान्त भागो जाणवो लोकान्तधी आरंभी चोत्तरफ जती श्रेणिओने आश्रयी बीजो नादि अनन्त भग जाणवो लोकान्तनी पासे यती श्रेणिओनो अन्त यती होवादी तेने आश्रयी बीजो अनादि सान्त भागो जाणवो लोकने छोडीने जे श्रेणिओ आवेली छे ते आश्रयी चोयो अनादि अनन्त भागो थाय छे.

‡ अलोकाकाशनी श्रेणिओनी पेटे ऊर्ध्व-अधो लांबी श्रेणिओनी आदि छे, पण तेनो अन्त नथी तेथी प्रथम सादि सान्त भागो पछी शकतो नथी. ते चिवायना वाझीना त्रण भागाओ सभचे छे

५२. [प्र०] सेढीओ णं भंते ! द्दट्टयाए किं कडजुम्माओ, तेओयाओ-पुच्छ । [उ०] गोयमा ! कडजुम्माओ, नो तेओयाओ, नो दावरजुम्माओ, नो कलियोगाओ । एवं जाव-उद्धमहायताओ । लोगागाससेढीओ एवं चेव । एवं अलोगागास-सेढीओ वि ।

५३. [प्र०] सेढीओ णं भंते ! पप्सट्टयाए किं कडजुम्माओ-पुच्छ । [उ०] एवं चेव; एवं जाव-उद्धमहायताओ ।

५४. [प्र०] लोयागाससेढीओ णं भंते ! पप्सट्टयाए-पुच्छ । [उ०] गोयमा ! सिय कडजुम्माओ, नो तेओयाओ, सिय दावरजुम्माओ, नो कलियोगाओ । एवं पाईणपडीणायताओ वि, दाहिणुत्तरायताओ वि ।

५५. [प्र०] उद्धमहायताओ णं-पुच्छ । [उ०] गोयमा ! कडजुम्माओ, नो तेओयाओ, नो दावरजुम्माओ, नो कलियोगाओ ।

५६. [प्र०] अलोगागाससेढीओ णं भंते ! पप्सट्टयाए-पुच्छ । [उ०] गोयमा ! सिय कडजुम्माओ, जाव-सिय कलियोगाओ । एवं पाईणपडीणायताओ वि; एवं दाहिणुत्तरायताओ वि; उद्धमहायताओ वि एवं चेव । नवरं नो कलियोगाओ, सेसं तं चेव ।

५७. [प्र०] कति णं भंते ! सेढीओ पन्नत्ताओ ? [उ०] गोयमा ! सत्त सेढीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-१ उज्जुआयता, २ एगओवंका, ३ दुहओवंका, ४ एगओखहा, ५ दुहओखहा, ६ चक्कवाला, ७ अद्धचक्कवाला ।

५२. [प्र०] हे भगवन् ! आकाशनी श्रेणिओ द्रव्यार्थपणे-द्रव्यरूपे शुं कृतयुग्म छे, त्र्योज छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कृतयुग्मरूप छे. पण त्र्योज, द्वापरयुग्म के कल्योजरूप नथी. ए प्रमाणे यावत्-ऊर्ध्वं अने अधो लांवी श्रेणिओ संबन्धे पण जाणहुं. तथा लोकाकाशनी अने अलोकाकाशनी श्रेणिओ पण ए प्रमाणे कृतयुग्मरूप जाणवी.

आकाशनी श्रेणिओ द्रव्यरूपे कृतयुग्मादि रूपे छे ?

५३. [प्र०] हे भगवन् ! श्रेणिओ प्रदेशार्थपणे-प्रदेशरूपे शुं कृतयुग्म छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्वे कक्षा प्रमाणे जाणवी. ए प्रमाणे यावत्-ऊर्ध्वं अने अधो लांवी श्रेणिओ जाणवी.

प्रदेशरूपे कृतयुग्मादि छे ?

५४. [प्र०] हे भगवन् ! लोकाकाशनी श्रेणिओ प्रदेशरूपे शुं कृतयुग्म छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कदाच कृतयुग्म छे, त्र्योज नथी, कदाच द्वापरयुग्म छे, पण कल्योजरूप नथी. ए प्रमाणे पूर्व-पश्चिम अने दक्षिण-उत्तर लांवी श्रेणिओ संबन्धे जाणहुं.

लोकाकाशनी श्रेणिओ.

५५. [प्र०] ऊर्ध्वं अने अधो लांवी लोकाकाशनी श्रेणिओ संबन्धे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कृतयुग्म रूप छे, पण त्र्योज, द्वापरयुग्म अने कल्योजरूप नथी.

ऊर्ध्वं अने अधो लांवी श्रेणिओ.

५६. [प्र०] हे भगवन् ! अलोकाकाशनी श्रेणिओ प्रदेशरूपे कृतयुग्म होय-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कोई कृतयुग्म रूप होय, यावत्-कोई कल्योज रूप पण होय. एम पूर्व अने पश्चिम लांवी तथा दक्षिण अने उत्तर लांवी श्रेणिओ संबन्धे जाणहुं. ऊर्ध्वं अने अधो लांवी श्रेणिओ संबन्धे पण एमज समजहुं, परन्तु ते कल्योजरूप नथी. वाकी वधुं पूर्वे कक्षा प्रमाणे जाणहुं.

अलोकाकाशनी श्रेणिओ.

५७. [प्र०] हे भगवन् ! केटली श्रेणिओ कही छे ? [उ०] हे गौतम ! सात श्रेणिओ कही छे. ते आ प्रमाणे १ ऋज्जायत-सीवी लांवी श्रेणि, २ एकतः वक्रा-एक तरफ वाकी, ३ उभयतः वक्रा-वै तरफ वाकी, ४ एकतः खा-एक तरफ लोकनाडी सिवायना आकाशवाळी. ५ उभयतःखा-वै तरफ लोकनाडी सिवायना आकाशवाळी, ६ चक्रवाळ-मंडलाकार गतिवाळी, तथा ७ अर्धचक्रवाळ-अर्ध-मंडलाकार गतिवाळी.

श्रेणिना नाम प्रकार.

५७ श्रेणि-ज्या जीव अने पुद्गलोनी गति धाय ते आकाश प्रदेशनी पक्ति, तेना सात प्रकार छे. १ जीव अने पुद्गलो जे श्रेणिद्वारा ऊर्ध्वं लोकादिथी अधोलोकादिमा सीधा जाय छे ते ऋज्जायत श्रेणि कहेवाय छे (१) जे श्रेणिद्वारा ऋजु-सीधा जइने वक्रगति करे अर्थात् वीजी श्रेणिमा प्रवेश करे ते एकतः वक्रश्रेणि कहेवाय छे (२) जे श्रेणिद्वारा जइने वे चार वक्रगति करे एटले वे चार वीजी श्रेणिमा प्रवेश करे ते उभयतः वक्रश्रेणि कहेवाय छे आ श्रेणि ऊर्ध्वं लोकनी आग्नेयी दिशाथी अधोलोकनी वायवी दिशामा जे उत्पन्न धाय तेने होय छे प्रथम समये आग्नेयी दिशामाथी तीरछो नैर्ऋती दिशामा जाय, त्याथी वीजा समये तीरछो वायवी दिशामा जाय, अने त्याथी वीजा समये अधो-नीचे वायवी दिशामा जाय आ त्रण समयनी गति त्रसनाढीमां अथवा तेनी वहारना भागमा धाय छे (४) जे श्रेणिद्वारा जीव अने पुद्गल त्रसनाढीना वाम पार्श्वदि भागथी त्रसनाढीमा प्रवेश करे अने पुन ते त्रसनाढी-द्वारा जइने तेना वाम पार्श्वदि भागमा उत्पन्न धाय ते एकतः खा श्रेणि कहेवाय छे, कारण के तेनी एक दिशामा ख-लोकनाडी सिवायना आकाश-आवेलो छे आ श्रेणि वे, त्रण अने चार समयनी वक्रगति सहित होवा छता क्षेत्रनी विज्ञेपताथी सुदी नही छे (५) त्रसनाढीनी वहार तेना वाम पार्श्वदि भागथी प्रवेश करीने ते त्रसनाढीद्वारा जइने तेना ज दक्षिण पार्श्वदि भागमा उत्पन्न धाय ते उभयतः खा श्रेणि कहेवाय छे केमके तेने त्रसनाढीनी वहारना वाम अने दक्षिण आकाशनी वाजुनो स्वर्श धाय छे (६) जे श्रेणिद्वारा परमाण्वादि गोळ भमीने उत्पन्न धाय ते चक्रवाळ. (७) अने अर्ध गोळ भमीने उत्पन्न धाय ते अर्धचक्रवाळ

५८. [प्र०] परमाणुपोग्गलाणं भंते ! किं अणुसेदीं गती पवत्तति, विसेदीं गती पवत्तति ? [उ०] गोयमा ! अणुसेदीं गति पवत्तति, नो विसेदीं गती पवत्तति ।

५९. [प्र०] दुपपसियाणं भंते ! खंधाणं अणुसेदीं गती पवत्तति, विसेदीं गती पवत्तति ? [उ०] एवं चेव; एवं जाव-अणंतपपसियाणं खंधाणं ।

६०. [प्र०] नेरइयाणं भंते ! किं अणुसेदीं गती पवत्तति, विसेदीं गती पवत्तति ? [उ०] एवं चेव, एवं जाव-वेमा-णियाणं ।

६१. [प्र०] इमीसे णं भंते ! रयणप्पमाप पुटवीप केवतिया निरयावाससयसहस्सा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! तीसं निरयावाससयसहस्सा पन्नत्ता; एवं जहा पदमसते पंचमुद्देशगे जाव-‘अणुत्तरविमाण’ त्ति ।

६२. [प्र०] कइविहे णं भंते ! गणिपिटप पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! हुवालसंगे गणिपिटप पन्नत्ते; तंजहा-आयारो, जाव-दिट्ठिवाओ ।

६३. [प्र०] से किं तं आयारो ? [उ०] आयारो णं समणाणं निग्गंधाणं आयार-गोयर०-एवं अंगपरुवणा भाणियत्ता जहा नंदीप, जाव-‘सुत्तयो एल्लु पदमो वीओ निज्जुत्तिमीसओ भणिओ । तदओ य निरवसेसो एस चिही होट अणुओगे’ ॥

६४. [प्र०] एएसि णं भंते ! नेरतियाणं, जाव-इवाणं, सिद्धाण य पंचगतिसमासेणं कयरे कयरे०-पुच्छा । गोयमा ! अप्पावहुयं जहा चहुवत्तवयाप, अट्टगइसमासअप्पावहुगं च ।

६५. [प्र०] एएसि णं भंते ! संहदियाणं, एगिदियाणं, जाव-अर्णदियाण य कयरे कयरे० ? [उ०] एवं पि जहा चहु-वत्तवयाप तहेच ओहियं पयं भाणियच्चं, सकाइयअप्पावहुगं तहेच ओहियं भाणियच्चं ।

परमाणुनी गति

५८. [प्र०] हे भगवन् ! परमाणुपुद्गलनी गति *अनुश्रेणि-आकाशप्रदेशनी श्रेणिने अनुसारे-थाय छे के निश्रेणि-श्रेणि विना गति थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! परमाणु पुद्गलनी गति अनुश्रेणि-श्रेणिने अनुसारे थाय छे, पण निश्रेणि-श्रेणि सिवाय यती नयी.

द्विप्रदेशिक स्कन्ध-

५९. [प्र०] हे भगवन् ! द्विप्रदेशिक स्कन्धनी गति श्रेणिने अनुसारे थाय छे के श्रेणि विना थाय छे ? [उ०] पूर्वं कला प्रमाणे जाणवुं. एम यावत्-अनंत प्रदेशिक स्कंध संबंधे पण समजवुं.

नैरयिकोनी गति

६०. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिकोनी गति श्रेणिने अनुसारे थाय छे के श्रेणि सिवाय थाय छे ? [उ०] पूर्वं कला प्रमाणे जाणवुं. एम यावत्-वैमानिको सुधी समजवुं.

नरकावास

६१. [प्र०] हे भगवन् ! आरत्तप्रमा पृथिवीमां केटला दाख नरकावासो कत्ता छे ? [उ०] हे गौतम ! तेमां त्रीय दाख नरका-वासो कत्ता छे-इत्यादि प्रथम शतकना पाचमा उद्देशकमा कला प्रमाणे यावत्-अनुत्तर विमान सुधी कहेवुं.

६२. [प्र०] हे भगवन् ! गणिपिटक-आगम केटला प्रकरातुं कहुं छे ? [उ०] हे गौतम ! चार अंगवाळुं गणिपिटक कहुं छे. ते आ रीते-१ आचारांग यावत्-१२ दृष्टिवाद.

आचारागादि

६३. [प्र०] हे भगवन् ! आचारांग ए शुं छे ? [उ०] हे गौतम ! आचारांगमा श्रमण निर्प्रयोने आचार, गोचर-भिक्षाविधि-इत्यादि चारित्र वर्मनी प्ररूपणा कराय छे. ए प्रमाणे नंदीमूत्रमां कत्ता प्रमाणे वधा अगोनी प्ररूपणा करवी. यावत्-‘प्रथम मूत्रार्थ-मात्र कहेवो, वीजो निर्युक्तिमिथ अर्थ कहेवो, अने त्रीजुं सर्व अर्थतुं कपन करवुं. आ अनुवोग संबंधे मिथि छे.

पांच गतिनु अल्प

बहुत्व

आठ गतिनु अल्प

बहुत्व

६४. [प्र०] हे भगवन् ! ए नैरयिको, यावत्-देवो अने सिद्धो-ए पाच गतिना समुदायमां कया जीवो कोनाथी यावत्-विशेषाधिक होय छे ? [उ०] हे गौतम ! प्रजापना सूत्रना बहुवक्तव्यता पदमां कला प्रमाणे अल्पबहुत्व जाणवुं. तथा आठ गतिना समुदायतुं पण अल्पबहुत्व जाणवुं.

सेन्द्रियादि जीवो

अल्पबहुत्व

६५. [प्र०] हे भगवन् ! सेन्द्रिय, एकेन्द्रिय यावत्-अनिन्द्रिय-इन्द्रियना उपयोग रहित जीवोमा कया जीवो कोनाथी यावत्-विशेषाधिक छे ? [उ०] ए सवन्वे पण प्रजापनाना बहुवक्तव्यता पदमा कहेल सामान्य पद कहेवुं. इन्द्रियाधिकोतुं पण तेज प्रमाणे सामान्य अल्पबहुत्व कहेवुं.

५८ * पूर्वादि विज्ञाना अभिसुख जात्रागप्रदेशनी श्रेणि ते अनुश्रेणि, अने विदियाने आश्रित जे श्रेणि ते निश्रेणि.

६१ † मम० खं० १ श० १ उ० ५ पृ० १२१.

६३ ‡ जुओ नदीमूत्र प. २१२

६४ ¶ जुओ-प्रजा० पद० ३ प० ११९

६५ § सर्वथी थोटा पंचेन्द्रिय जीवो छे, तेथी चउगिन्द्रिय विशेषाधिक छे, तेथी तेदन्द्रिय विशेषाधिक छे, तेथी वेइन्द्रिय विशेषाधिक छे, तेथी अनिन्द्रिय अनन्तगुण छे, तेथी एकेन्द्रिय अनन्तगुण छे, अने तेथी सेन्द्रिय विशेषाधिक छे जुओ प्रजा० पद ३ प० १००.

§ अर्द्ध मत्तयिक, पृथिवीकायिकादि अने अकायिकनु अल्पबहुत्व कहेवानुं छे. मरुं करता थोटा त्रयसायिको छे, तेथी सत्तायिक जीवो असख्यात गुण छे, तेथी पृथिवीकायिक, अष्कायिक, अने वायुकायिक उत्तरोत्तर विशेषाधिक छे तेथी असायिक अनन्तगुण छे तेथी वनस्पतिकायिक अनन्तगुण छे अने तेथी सत्तायिक विशेषाधिक छे जुओ प्रजा० पद ३ प० १२२.

६६. [प्र०] एएसि णं भंते ! जीवाणं, पोग्गलाणं, जाव—सद्यपज्जवाण य कयरे कयरे० जाव—वहुवत्तवयाप ।

६७. [प्र०] एएसि णं भंते ! जीवाणं, आउयस्स कम्मस्स वंधगाणं अवंधगाणं—? [उ०] जहा बहुवत्तवयाप जाव—आउयस्स कम्मस्स अवंधगा विसैसाहिया । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' च्चि ।

पणवीसइमे सए तईओ उद्देशो समत्तो ।

६६. [प्र०] हे भगवन् ! ए जीव अने पुद्गल यावत्—सर्व पर्यायोमा कया कोनाथी यावत्—विशेषाधिक छे—इत्यादि—[उ०] यावत् बहुवत्तव्यतामा कहा प्रमाणे अल्पबहुत्व कहेहुं.

६७. [प्र०] हे भगवन् ! ए आयुष कर्मना वंधक अने अवंधक इत्यादि जीवोमां कया जीवो कोनाथी यावत्—विशेषाधिक छे ? [उ०] 'बहुवत्तव्यतामा कहा प्रमाणे जाणहुं. यावत्—आयुष कर्मना अवंधक जीवो विशेषाधिक छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

जीव, पुद्गलोना सर्व पर्यायोनु कल्पयुत्व आयुषकर्मवन्धक अवन्धक इत्यादिहुं कल्पवहुत्व.

पचवीशमा शतकमां तृतीय उद्देशक समाप्त.

चउत्थो उद्देशो ।

१. [प्र०] कति णं भंते ! जुम्मा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! चत्तारि जुम्मा पन्नत्ता, तं जहा—कडजुम्मे, जाव—कलिओगे । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—'चत्तारि जुम्मा, पन्नत्ता—कडजुम्मे जाव—कलिओगे' ? [उ०] एवं जहा अट्टारसमसत्ते चउत्थे उद्देशए तहेव जाव—से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ ।

२. [प्र०] नेरइयाणं भंते ! कति जुम्मा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! चत्तारि जुम्मा पन्नत्ता, तं जहा—कडजुम्मे, जाव—कलिओए । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—'नेरइयाणं चत्तारि जुम्मा पन्नत्ता, तं जहा—कडजुम्मे' ? [उ०] अट्टो तहेव । एवं जाव—वाउकाइयाणं ।

३. [प्र०] वणस्सइकाइयाणं भंते !—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! वणस्सइकाइया सिय कडजुम्मा, सिय तेयोया, सिय

चतुर्थ उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! केटलं युग्मो—राशिओ कहां छे ? [उ०] हे गौतम ! चार युग्मो कहां छे, ते आ प्रमाणे—कृतयुग्म अने यावत्—कल्योज. [प्र०] हे भगवन् ! एम शा हेतुथी कहो छे के 'चार युग्मो कहां छे—कृतयुग्म, यावत्—कल्योज' ? [उ०] 'अट्टारसा शतकना चौथा उद्देशकमा कहा प्रमाणे अहिं जाणहुं, यावत्—'ते कारणथी हे गौतम ! ए प्रमाणे कहुं छे.'

युग्मना प्रसार.

२. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिकोने विपे केटलं युग्मो कहां छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने विपे चार युग्मो कहां छे, ते आ रीते—कृतयुग्म, अने यावत्—कल्योज. [प्र०] हे भगवन् ! शा हेतुथी एम कहो छे के 'नैरयिकोने विपे चार युग्मो छे, ते आ प्रमाणे—कृत-युग्म'—इत्यादि पूर्वोक्त अर्थ कहेवो, ए प्रमाणे यावत्—चायुकायिक सुधी जाणहुं.

नैरयिकोमां केटला युग्मो होय ?

३. [प्र०] हे भगवन् ! वनस्पतिकायिकोमा केटला युग्मो कहां छे ? [उ०] हे गौतम ! वनस्पतिकायिको कदाचित् कृतयुग्म होय, कदाचित् त्र्योज होय, कदाचित् द्वापरयुग्म होय, अने कदाचित् कल्योज होय. [प्र०] हे भगवन् ! एम शा हेतुथी कहो छे के 'वनस्प-तिकायिको यावत्—कल्योजरूप होय' ? [उ०] हे गौतम ! उपपातनी अपेक्षाए ए प्रमाणे कहुं छे, ते हेतुथी यावत्—पूर्वोक्त रूपे वनस्पति

वनस्पतिकायिकोमां कृतयुग्मादिनु अपररूप.

६६ ~ जीव, पुद्गल, अद्वासमय, सर्व द्रव्य, सर्व प्रदेशो अने सर्व पर्यायोना अल्पबहुत्व सबन्धे प्रथ छे तेनो उत्तर आ प्रमाणे छे—सर्व करता घोटा जीवो छे, तेथी पुद्गल अनन्तगुण छे, तेथी अद्वासमय अनन्तगुण छे, तेथी सर्व द्रव्यो विशेषाधिक छे, तेथी सर्व प्रदेशो अनन्तगुण छे, तेथी सर्व पर्यायो अनन्त गुण छे. जुओ प्रज्ञा० पद ३ प० १४३-२

६७ † अहिं आयुष कर्मना वन्धक, अवन्धक, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुतेला, जाग्रत, समुद्रातने प्राप्त धयेला, समुद्रातने नहि पानेला, माता वेदक, अमाता-वेदक, इन्द्रियना उपयोगवाळा, नोइन्द्रियना उपयोगवाळा, साकार उपयोगवाळा अने अनाकार उपयोगवाळाओहुं अल्पबहुत्व कहेलु छे. जुओ प्रज्ञा० पद ३ प० १५२

१ ‡ जे राशिमाथी चार चार नो अपहार करता छेवटे चार याकी रहे ते राशिने कृतयुग्म करे छे, त्रण यानी रहे तेने त्र्योज कहे छे, ते याकी रहे तेने द्वापरयुग्म अने एक याकी रहे तेने कल्योज कहे छे जुओ—भग० सं० ३ श० १८ उ० ४ पृ० ५९

३ § यद्यपि वनस्पतिकायिको अनन्त होमाथी स्वाभाविक रीते कृतयुग्म रूप ज होय छे, तो पण तेना यीजी गतिथी आवीने एर वे इत्यादि जीवोने उपपात थतो होमाथी ते जीवो चारे राशिरूप होय छे जेम उपपातने आश्रयी कणु तेम उद्भूतना—मरणने आश्रयीने पण वनस्पतिकायिको चारे राशिन्ध होई शके, परन्तु अहिं तेनी निवक्षा नथी—टीका

दावरजुम्मा, सिय कलियोगा । [प्र०] से केणट्टेणं मंते ! एवं बुच्चद—‘घणस्सइकाइया जाव—कलियोगा’ ? [उ०] गोयमा ! उववायं पडुच्च, से तेणट्टेणं तं चेव । वंदियाणं जहा नेरइयाणं । एवं जाव—वेमाणियाणं; सिअणं जहा घणस्सइकाइयाणं ।

४. [प्र०] कतिविहा णं मंते ! सव्वदद्या पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! छविहा सव्वदद्या पन्नत्ता, तंजहा—धम्मत्थिकाप, अधम्मत्थिकाप, जाव—अद्धासमप ।

५. [प्र०] धम्मत्थिकाप णं मंते ! दधट्टयाप किं कडजुम्मे, जाव—कलियोगे ? [उ०] गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेयोप, नो दावरजुम्मे, कलियोप । एवं अधम्मत्थिकाप वि, एवं आगासत्थिकाप वि ।

६. [प्र०] जीवत्थिकाप णं मंते !—पुच्छा [उ०] गोयमा ! कडजुम्मे, नो तेयोये, नो दावरजुम्मे, नो कलियोये ।

७. [प्र०] पोग्गलत्थिकाप णं मंते !—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय कडजुम्मे, जाव—सिय कलियोगे । अद्धासमये जहा जीवत्थिकाप ।

८. [प्र०] धम्मत्थिकाप णं मंते ! पपसट्टयाप किं कडजुम्मे—पुच्छा । गोयमा ! कडजुम्मे, नो तेयोप, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे । एवं जाव—अद्धासमप ।

९. [प्र०] एपसि णं मंते ! धम्मत्थिकाय—अधम्मत्थिकाय० जाव—अद्धासमयाणं दधट्टयाप० ? [उ०] एपसि णं अण्या-वहुगं जहा वहुवत्तधयाप तद्देव निरवसेसं ।

१०. [प्र०] धम्मत्थिकाप णं मंते ! किं ओगाढे, अणोगाढे ? [उ०] गोयमा ! ओगाढे; नो अणोगाढे ।

११. [प्र०] जइ ओगाढे किं संखेज्जपपसोगाढे, असंखेज्जपपसोगाढे, अणंतपपसोगाढे ? [उ०] गोयमा ! नो संखेज्ज, पपसोगाढे, असंखेज्जपपसोगाढे, नो अणंतपपसोगाढे ।

कायिको कहा छे. नरयिकोनी पेटे वेइद्रियो विपे समजुं. तथा ए प्रमाणे यावत्—धैमाणो सुवी जाणुं. गिद्धो वनत्पत्तिकायिकोनी पेटे जाणवा.

द्रव्यना प्रकार

४. [प्र०] हे भगवन् ! सर्वं द्रव्यो केटलं प्रकारना कयां छे ? [उ०] हे गौतम ! सर्वं द्रव्यो छ प्रकारना कयां छे, ते आ प्रमाणे— १ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, अने यावत्—६ अद्धा समय (काल) .

धर्मास्तिकायादि द्रव्यमा कृतयुग्मादिषु अवतरण

५. [प्र०] हे भगवन् ! धर्मास्तिकाय द्रव्यार्थरूपे कृतयुग्म छे के यावत्—कल्योज छे ? [उ०] हे गौतम ! ते कृतयुग्म नथी-त्र्योज नथी, द्वापरयुग्म नथी, पण कल्योज छे. ए प्रमाणे अधर्मास्तिकाय तथा आज्ञास्तिकाय संबधे पण जाणुं.

जीवास्तिकाय द्रव्यरूपे शु होय ?

६. [प्र०] हे भगवन् ! जीवास्तिकाय द्रव्यार्थरूपे शुं कृतयुग्म छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! जीवास्तिकाय द्रव्यरूपे कृतयुग्मरूप छे, पण त्र्योज, द्वापर के कल्योजरूप नथी.

पुद्गलास्तिकायमा कृतयुग्मादिषु अवतरण

७. [प्र०] हे भगवन् ! पुद्गलास्तिकाय संबधे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कदाच कृतयुग्म होय अने यावत्—कदाच कल्योज, रूप पण होय. जीवास्तिकायनी पेटे अद्धासमय पण [कृतयुग्मरूप] जाणवो.

धर्मास्तिकायना प्रदेशो

८. [प्र०] हे भगवन् ! धर्मास्तिकाय प्रदेशार्थरूपे शुं कृतयुग्म छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! [तेना अवस्थित अनन्त प्रदेशो होवाथी] ते कृतयुग्म छे, पण त्र्योज, द्वापरयुग्म के कल्योज नथी. ए प्रमाणे यावत्—अद्धा समय सुवी जाणुं.

धर्मास्तिकायादिषु अल्पवहुत्व.

९. [प्र०] हे भगवन् ! ए धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, यावत्—अद्धासमयोतुं द्रव्यार्थरूपे अल्पवहुत्व केवी रीते छे ? [उ०] ईवहुवक्तव्यतामां कहा प्रमाणे एओतुं वधुं अल्पवहुत्व कहेवुं.

धर्मास्तिकाय अवगाढ छे के अनवगाढ ?

१०. [प्र०] हे भगवन् ! धर्मास्तिकाय शुं अवगाढ—आश्रित छे के अनवगाढ—अनाश्रित छे ? [उ०] हे गौतम ! ते अवगाढ छे, पण अनवगाढ नथी.

लोकाकाशनां अवगाढना.

११. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते अवगाढ छे तो शुं सख्यात प्रदेशमां अवगाढ—आश्रित छे, असख्यात प्रदेशमा आश्रित छे के अनंत प्रदेशमां आश्रित छे ? [उ०] हे गौतम ! ते लोकाकाशना संख्यात प्रदेश के अनंत प्रदेशमा आश्रित नथी पण असख्यात प्रदेशमां आश्रित छे.

५ * धर्मास्तिकाय एक द्रव्यरूप होवाथी तेनो चारथी अपहार करता एक ज बाकी रहे छे तेथी ते क-योज रूप छे

६ † जीवास्तिकाय अनन्त होवाथी ते कृतयुग्म रूप ज छे.

७ ‡ पुद्गलास्तिकाय अनन्त छे तो पण तेना सघात अने मेदथी तेनुं अनन्तपणुं अनवस्थित होवाथी ते चारे राशिरूप होय छे.

९ § धर्मास्तिकायादि त्रणे एक एक द्रव्यरूप होवाथी द्रव्यरूपे तुल्य छे अने बीजा द्रव्य करता थोडा छे, तेथी जीवास्तिकाय अनन्तगुण छे, तेथी पुद्गलास्तिकाय अने अद्धासमय उत्तरोत्तर अनन्तगुण छे प्रदेशरूपे धर्मास्तिकाय अने अधर्मास्तिकायना असंख्यात प्रदेश होवाथी परस्पर तुल्य छे अने बीजा वधा द्रव्यथी थोडा छे, तेथी जीव, पुद्गल, अद्धासमय अने आकाशास्तिकाय उत्तरोत्तर अनन्तगुण छे सुओ प्रजा० पद ३ प० १४०-१

१२. [प्र०] जइ असंखेज्जपएसोगाढे किं कडज्जुम्मपएसोगाढे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! कडज्जुम्मपएसोगाढे, नो ते ओग०, नो दावरज्जुम्म०, नो कलियोगपएसोगाढे । एवं अधम्मत्थिकाये वि; एवं आगासत्थिकाये वि; जीवत्थिकाये, पुग्गलत्थिकाये, अद्दासमए एवं चेव ।

१३. [प्र०] इमा णं भंते ! रयणप्पभा पुढवी किं ओगाढा, अणोगाढा ? [उ०] जहेव धम्मत्थिकाए; एवं जाव-अहे-सत्तमा; सोहम्मे एवं चेव; एवं जाव-ईसिपम्भारा पुढवी ।

१४. [प्र०] जीवे णं भंते ! दव्वट्टयाए किं कडज्जुम्मे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो कडज्जुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरज्जुम्मे, कलिओए । एवं नेरइए वि; एवं जाव-सिद्धे ।

१५. [प्र०] जीवा णं भंते ! दव्वट्टयाए किं कडज्जुम्मा-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं कडज्जुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरज्जुम्मा, नो कलिओगा । विहाणादेसेणं नो कडज्जुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरज्जुम्मा, कलियोगा ।

१६. [प्र०] नेरइया णं भंते ! दव्वट्टयाए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडज्जुम्मा, जाव-सिय कलि-योगा । विहाणादेसेणं णो कडज्जुम्मा, णो तेयोगा, णो दावरज्जुम्मा, कलिओगा । एवं जाव-सिद्धा ।

१७. [प्र०] जीवे णं भंते ! पएसट्टयाए किं कडज्जुम्मे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जीवपपसे पडुच्च कडज्जुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरज्जुम्मे, नो कलियोगे । सरीरपपसे पडुच्च सिय कडज्जुम्मे, जाव-सिय कलियोगे । एवं जाव-वेमाणिए ।

१८. [प्र०] सिद्धे णं भंते ! पएसट्टयाए किं कडज्जुम्मे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! कडज्जुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरज्जुम्मे, नो कलिओए ।

१२. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते असंख्याता आकाशप्रदेशमां आश्रित छे तो शुं कृतयुग्म राशिवाळा प्रदेशोमां आश्रित छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कृतयुग्म राशिवाळा प्रदेशमा आश्रित छे, पण त्र्योज, द्वार के कल्योज राशिवाळा प्रदेशमा आश्रित नथी. ए प्रमाणे अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय अने अद्दासमय संबंधे पण जाणवुं.

असख्यातप्रदेशमां
अवगाढता.

१३. [प्र०] हे भगवन् ! आ रत्नप्रभा पृथिवी कोइने आश्रित छे के अनाश्रित छे ? [उ०] गौतम ! धर्मास्तिकायनी पेटे जाणवुं. ए प्रमाणे यावत्-अधःसत्तम पृथिवी सुधी जाणवुं. तथा सौधर्म अने यावत्-ईपत्प्राम्भारा पृथिवी संबंधे पण एमज समजवुं.

रत्नप्रभानी अव-
गाढता

१४. [प्र०] हे भगवन् ! जीव द्रव्यार्थरूपे शुं कृतयुग्म छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कृतयुग्म, त्र्योज के द्वारपरयुग्म रूप नथी, पण *कल्योज रूप छे. ए प्रमाणे नैरयिक यावत्-सिद्ध सुधी जाणवुं.

जीवद्रव्यमा कृतयु-
ग्मादिनी प्ररूपणा.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! जीवो द्रव्यार्थपणे शुं कृतयुग्म छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! जीवो सामान्यतः-त्रधा मळीने कृतयुग्म छे, पण त्र्योज, द्वार के कल्योज रूप नथी. अने विशेष-एक एकनी अपेक्षाए कृतयुग्म, त्र्योज के द्वारपरयुग्म नथी, पण कल्योजरूप छे.

जीवोमा कृतयुग्मादि
राशिओनु अवतरण.

१६. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिको संबंधे द्रव्यार्थरूपे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! नैरयिको सामान्यतः कदाच कृतयुग्म अने यावत्-कदाच कल्योज पण होय, अने विशेष-व्यक्तिनी अपेक्षाए कृतयुग्म, त्र्योज के द्वारपरयुग्म नथी, पण कल्योज रूप छे. ए प्रमाणे यावत्-सिद्धो सुधी जाणवुं.

नैरयिकोमा कृतयु-
ग्मादि राशिओनु
अवतरण.

१७. [प्र०] हे भगवन् ! जीव प्रदेशार्थरूपे शुं कृतयुग्म छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! †जीवप्रदेशानी अपेक्षाए जीव कृतयुग्म छे, पण त्र्योज, द्वार के कल्योज नथी, अने शरीरप्रदेशानी अपेक्षाए कदाच कृतयुग्म होय अने यावत्-कदाच कल्योज पण होय. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुधी जाणवुं.

जीवप्रदेशोमा कृत-
युग्मादि राशिओ.

१८. [प्र०] हे भगवन् ! सिद्ध प्रदेशार्थपणे शुं कृतयुग्म छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कृतयुग्म छे, पण त्र्योज, द्वारपरयुग्म के कल्योजरूप नथी.

सिद्धोमा कृतयुग्मादि
नो समवतार.

१४ * जीव द्रव्यरूपे एक ज व्यक्ति होवाथी मात्र कल्योज रूप छे, अने जीवो द्रव्यरूपे अनन्ता अवस्थित होवाथी सामान्यरूपे तेओ कृतयुग्म रूपज होय छे

१७ † जीवप्रदेशानी अपेक्षाए समस्त जीवोना प्रदेशो अवस्थित अनन्तरूपे होवाथी अने एरु एक जीवना प्रदेशो अवस्थित असख्याता होवाथी चार चारनो अपहार करता छेवटे चार बाकी रहे छे, माटे कृतयुग्म रूपज होय छे शरीरप्रदेशानी अपेक्षाए सामान्यरूपे सर्व जीवना शरीरप्रदेशो संघात अने भेदधी अनवस्थित अनन्त रूपे होवाथी भिन्न भिन्न समये तेमा चतुर्विध राशिनी समवतार थई शके छे. विशेषरूपे एक एक जीवशरीरना प्रदेशोमां एक समये पण चतुर्विध राशिनी समवतार थाय छे. कारण के कोइक जीवशरीरना प्रदेशो कृतयुग्म रूप होय छे, तो अन्य जीवशरीरना प्रदेशो वीजी राशिरूप होय छे.

१९. [प्र०] जीवा णं भंते ! एएसदृयाए किं कडजुम्मा० पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जीवपएसे पटुच्च ओघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो कलियोगा । सरीरपएसे पटुच्च ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा, जाव-सिय कलियोगा; विहाणादेसेणं कडजुम्मा वि जाव-कलियोगा वि । एवं नेरटया वि; एवं जाव-वेमाणिया । [प्र०] सिद्धा णं भंते !-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो कलियोगा ।

२०. [प्र०] जीवे णं भंते ! किं कडजुम्मपएसोगाढे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय कडजुम्मपएसोगाढे, जाव-सिय कलियोगपएसोगाढे । एवं जाव-सिद्धे ।

२१ [प्र०] जीवा णं भंते ! किं कडजुम्मपएसोगाढा-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा, नो तेयोग०, नो दावर०, नो कलियोग० । विहाणादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा वि, जाव-कलियोगपएसोगाढा वि ।

२२. [प्र०] नेरइयाणं-पुच्छा [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मपएसोगाढा, जाव-सिय कलियोगपएसोगाढा । विहाणादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा वि, जाव-कलियोगपएसोगाढा वि । एवं एगिंदिय-सिद्धयज्जा सधे वि; सिद्धा एगिंदिया य जहा जीवा ।

२३. [प्र०] जीवे णं भंते ! किं कडजुम्मसमयट्ठितीए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! कडजुम्मसमयट्ठितीए, नो तेयोग०, नो दावर०, नो कलियोगसमयट्ठितीए ।

२४. [प्र०] नेरइए णं भंते !-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय कडजुम्मसमयट्ठितीए, जाव-सिय कलियोगसमयट्ठितीए । एवं जाव-वेमाणिए; सिद्धे जहा जीवे ।

२५. [प्र०] जीवा णं भंते !-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मसमयट्ठितीया, नो तेओग०, नो दावर०, नो कलियोग० ।

जीवोमा प्रदेशापेक्षा
धी कृत्युग्मादि-
निदोमा प्रदेशानी
अपेक्षाए कृत-
युग्मादि

१९. [प्र०] हे भगवन् ! जीवो प्रदेशार्थरूपे शुं कृत्युग्म छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! जीवप्रदेशोनी अपेक्षाए जीवो सामान्य अने विशेषरूपे कृत्युग्म छे, पण त्र्योज, द्वापरयुग्म के कल्योज नयी. अने शरीरप्रदेशोनी अपेक्षाए सामान्यत. कदाच कृत्युग्म होय अने यावत्-कदाच कल्योज पण होय. विशेषोनी अपेक्षाए कृत्युग्म पण होय अने यावत्-कल्योज पण होय. ए प्रमाणे नैरयिकोयी आरंभी यावत्-वैमानिको सुधी जाणवुं. [प्र०] हे भगवन् ! सिद्धो (जीवप्रदेशोनी अपेक्षाए) शुं कृत्युग्म छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सामान्य अने विशेषने आश्रयी सिद्धो कृत्युग्म छे, पण त्र्योज, द्वापर के कल्योज रूप नयी.

एकजीवाश्रित आ
कायप्रदेशमा कृत-
युग्मादि राक्षिओ
अनेक जीवो सवन्ने
प्रश्न

२०. [प्र०] हे भगवन् ! शुं जीव आकाशना कृत्युग्म संख्यावाळा प्रदेशोने आश्रयी रहेलो छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कदाच कृत्युग्म प्रदेशोने आश्रयी रहेलो होय अने यावत्-कदाच कल्योज प्रदेशोने आश्रयी रहेलो होय छे. ए प्रमाणे यावत्-सिद्ध सुधी जाणवुं.

२१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं जीवो आकाशना कृत्युग्म प्रदेशोने आश्रयी रहेला छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सामान्य रूपे कृत्युग्म प्रदेशोने आश्रयी रहेला छे, पण त्र्योज, द्वापर के कल्योज प्रदेशोने आश्रयी रहेला नयी. अने विशेषरूपे कृत्युग्म प्रदेशोने आश्रयी रहेला छे, यावत्-कल्योज प्रदेशोने आश्रयी रहेला छे.

नैरयिकादि दट्टो
अने निदो

२२. [प्र०] हे भगवन् ! शुं नैरयिको कृत्युग्म संख्यावाळा आकाश प्रदेशोने आश्रयी रहेला छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सामान्य रूपे कदाच कृत्युग्म प्रदेशोने आश्रयी रहेला होय अने यावत्-कदाच कल्योज प्रदेशोने आश्रयी रहेला होय. विशेषरूपे कृत्युग्म प्रदेशावगाढ पण होय यावत्-कल्योज प्रदेशावगाढ पण होय. एकेंद्रिय अने सिद्ध सिवाय वाकीना वधा जीवो माटे एज प्रमाणे जाणवुं. सिद्धो अने एकेंद्रियो सामान्य जीवोनी पेटे जाणवा.

जीवना स्थितिकाळ
ना समयोमा कृत-
युग्मादि राक्षिओ
नैरयिकादि

२३. [प्र०] हे भगवन् ! शुं जीव कृत्युग्म समयनी स्थितिवाळो छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! *कृत्युग्म समयनी स्थितिवाळो छे, पण त्र्योज, द्वापर के कल्योज समयनी स्थितिवाळो नयी.

२४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं नैरयिक कृत्युग्म समयनी स्थितिवाळो छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कदाच कृत्युग्म समयनी स्थितिवाळो होय अने कदाच कल्योज समयनी स्थितिवाळो होय. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिक सुधी जाणवुं. सिद्धने जीवनी पेटे जाणवुं.

जीवोनी स्थितिकाळ
ना समयोमा कृत-
युग्मादि राक्षिओ

२५. [प्र०] हे भगवन् ! शुं जीवो कृत्युग्म समयनी स्थितिवाळा होय छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! तेओ सामान्यादेश अने विशेषादेशनी अपेक्षाए कृत्युग्म समयनी स्थितिवाळा होय छे, पण त्र्योज, द्वापर के कल्योज समयनी स्थितिवाळा होता नयी.

२३ * सामान्य जीवनी स्थिति सर्व काळमा शश्वत होवायी अने नर्वकाळ नियत अनन्त समयालरु होवायी जीव कृत्युग्म समयनी स्थितिवाळो कहेवाय छे अने नारकादिनी भिन्न भिन्न स्थिति होवायी कोडवार ते कृत्युग्म समयनी स्थितिवाळो होय छे, तो कोड वार यावत्-त्र्योज समयनी स्थितिवाळो होय छे

२५ † सामान्यादेश अने विशेषादेशनी जीवोनी स्थिति अनाद्यनन्त काळनी होवायी तेओ कृत्युग्म समयनी स्थितिवाळा छे.

२६. [प्र०] नेरइयाणं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मसमयट्टितीया, जाव-सिय कलियोगस-मयट्टितीया वि । विहाणादेसेणं कडजुम्मसमयट्टितीया वि, जाव-कलियोगसमयट्टितीया वि । एवं जाव-वेमाणिया; सिद्धा जहा जीवा ।

२७. [प्र०] जीवे णं भंते ! कालवन्नपज्जवेहिं किं कडजुम्मे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जीवपएसे पडुच्च णो कडजुम्मे, जाव-णो कलियोगे । सरिरपएसे पडुच्च सिय कडजुम्मे, जाव-सिय कलियोगे । एवं जाव-वेमाणिए । सिद्धो ण चेष पुच्छिज्जति ।

२८. [प्र०] जीवा णं भंते ! कालवन्नपज्जवेहिं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जीवपएसे पडुच्च ओघादेसेण वि विहाणा-देसेण वि णो कडजुम्मा, जाव-णो कलियोगा । सरिरपएसे पडुच्च ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा, जाव-सिय कलियोगा; विहाणादेसेणं कडजुम्मा वि, जाव-कलियोगा वि । एवं जाव-वेमाणिया । एवं नीलवन्नपज्जवेहिं दंडओ भाणियद्धो । एगत्तपुहत्तेणं; एवं जाव-लुक्खफासपज्जवेहिं ।

२९. [प्र०] जीवे णं भंते ! आभिणिवोहियणाणपज्जवेहिं किं कडजुम्मे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय कडजुम्मे, जाव-सिय कलियोगे । एवं एगिदियवज्जं जाव-वेमाणिए ।

३०. [प्र०] जीवा णं भंते ! आभिणिवोहियणाणपज्जवेहिं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा, जाव-सिय कलियोगा । विहाणादेसेणं कडजुम्मा वि, जाव-कलियोगा वि । एवं एगिदियवज्जं जाव-वेमाणिया । एवं

२६. [प्र०] हे भगवन् ! शुं नैरयिको कृतयुगसमयनी स्थितिवाळा छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! तेओ सामान्यादेशनी अपेक्षाए कदाच कृतयुग समयनी स्थितिवाळा होय, यावत् कदाच कल्योज समयनी स्थितिवाळा पण होय. तथा विशेषादेशनी अपेक्षाए कृतयुग समयनी अने यावत्-काल्योज समयनी स्थितिवाळा पण होय. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुधी जाणतुं. सामान्य जीवोनी पेठे सिद्धोने पण समजतुं.

नैरयिकादि दडकी.

२७. [प्र०] हे भगवन् ! शुं जीवना काळावर्णना पर्यायो कृतयुग राशिरूप छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! जीवप्रदेशोनी अपेक्षाए ते कृतयुग, त्र्योज, द्वारप के कल्योज रूप नथी, पण शरीर प्रदेशोनी अपेक्षाए ते कदाच कृतयुग रूप होय, यावत्-कल्योज रूप पण होय. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिक सुधी जाणतुं तथा सिद्ध सवन्वे आ विपय वावत कांइ न पूछतुं.

जीवना काळावर्णना पर्यायो.

२८. [प्र०] हे भगवन् ! शुं जीवोना काळा वर्णपर्यायो कृतयुगराशिरूप छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! जीव प्रदेशोने आश्रयी सामान्यादेशी अने विशेषादेशी कृतयुग रूप नथी, अने यावत्-कल्योज रूप पण नथी. शरीरप्रदेशोनी अपेक्षाए सामान्या-देशी कदाच कृतयुग अने यावत्-कदाच कल्योज रूप पण होय, विशेषादेशी कृतयुग, यावत्-कल्योजराशिरूप पण होय. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुधी जाणतुं. तथा ए प्रमाणे एक वचन अने बहुवचनवडे लीला वर्णना पर्यायोनी पण दंडक कहेवो. एम यावत्-रुक्ष स्पर्श पर्यायो सुधी जाणतुं.

२९. [प्र०] हे भगवन् शुं जीवना आभिनिबोधिकज्ञानपर्यायो कृतयुग राशिरूप छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कदाच कृतयुग रूप होय अने यावत्-कदाच कल्योज रूप पण होय. ए प्रमाणे एकेन्द्रिय सिवायना जीवोने यावत्-वैमानिक सुधी जाणवा.

जीवना आभिनिबोधिक पर्यायो.

३०. [प्र०] हे भगवन् ! शुं जीवो आभिनिबोधिक ज्ञान पर्यायो वडे कृतयुग छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते सामान्या-देशी कदाच कृतयुग अने कदाच कल्योज रूप पण होय, तथा विशेषादेशी कृतयुग, यावत्-कल्योज रूप पण होय. ए प्रमाणे एकेन्द्रिय सिवायना जीवोने यावत्-वैमानिको सुधी जाणतुं. श्रुतज्ञानना पर्यायो अने अवधिज्ञानना पर्यायो संवन्वे एमज समजतुं. पण

जीवोना आभिनिबोधिकादि ज्ञानना पर्यायो

२६ - वधा नारकादिनी स्थितिना समयो मेळवता अने चारथी अपहार करता वधा नैरयिको सामान्यादेशी कृतयुग समयनी स्थितिवाळा, यावत्-कल्योज समयनी स्थितिवाळा होय छे अने विशेषादेशी एक समये चारे प्रकारना होय छे.—टीका.

२७ † अहि जीवप्रदेशो अमूर्त होवाथी तेने आश्रयी काळादिवर्णना पर्यायो होता नथी, पण शरीरविशिष्ट जीवतुं ग्रहण होवाथी शरीरना वर्णनी अपेक्षाए क्रमश. चारे राशिनी व्यवहार थइ शकें छे.

२९ ‡ आवरणना क्षयोपशमनी विचित्रताथी आभिनिबोधिक ज्ञाननी विशेषताथो अने तेना सूक्ष्म अविभाज्य अशोने आभिनिबोधिक ज्ञानना पर्यायो कहे छे ते अनन्त छे, पण क्षयोपशमनी विचित्रताथी तेतुं अनन्तपण चोक्कस नथी, तेथी ते भिन्न भिन्न समयने आश्रयी चारे राशिरूप होय छे एकेन्द्रिय जीवने सम्यक्त्व नहि होवाथी आभिनिबोधिक होतु नथी, माटे एकेन्द्रिय सिवायना जीवोने कळुं छे

३० § वधा जीवोने आश्रयी सर्व आभिनिबोधिकज्ञानना पर्यायो एकठा करीए तो सामान्यादेशी भिन्न भिन्न काळनी अपेक्षाए चारे राशिरूप थाय, कारण के क्षयोपशमनी विचित्रताथी तेना पर्यायो अनवस्थितपणे अनन्ता होय छे. विशेषादेशी एक काळे पण चारे राशिरूप थाय. केवल ज्ञानना पर्यायोतुं अनन्तपणुं अवस्थित होवाथी ते कृतयुगराशिरूप होय छे.—टीका

सुयणाणपज्जवेहि वि । ओहिणाणपज्जवेहि वि एवं चेव । नवरं विकल्लिदियाणं नत्थि ओहिनाणं । मणपज्जवनाणं पि एवं चेव; नवरं जीवाणं मणुस्साण य, सेसाणं नत्थि ।

३१. [प्र०] जीवे णं भंते ! केवल्लनाणपज्जवेहि किं कडज्जुम्मे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! कडज्जुम्मे, णो तेयोगे, णो दावरज्जुम्मे, णो कल्लियोगे । एवं मणुस्से वि; एवं सिद्धे वि ।

३२. जीवा णं भंते ! केवल्लनाण-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडज्जुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरज्जुम्मा, णो कल्लियोगा । एवं मणुस्सा वि; एवं सिद्धा वि ।

३३. [प्र०] जीवे णं भंते ! मद्दन्नानाणपज्जवेहि किं कडज्जुम्मे० ? [उ०] जहा आमिणिओहियणाणपज्जवेहि तद्देव दो दंडगा । एवं सुयन्नाणपज्जवेहि वि; एवं विमंगनाणपज्जवेहि वि । चम्मयुदंसण-अचम्मयुदंसण-ओहिदंसणपज्जवेहि वि एवं चेव; नवरं जस्स जं अत्थि तं भाणियधं । केवल्लदंसणपज्जवेहि जहा केवल्लनाणपज्जवेहि ।

३४. [प्र०] कति णं भंते ! सररीरगा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंच सररीरगा पन्नत्ता, तंजहा-धोरालिय, जाव-कम्मप । एत्थ सररीरगपदं निरवसेसं भाणियधं जहा पन्नवणाप ।

३५. [प्र०] जीवा णं भंते ! किं सेया निरेया ? [उ०] गोयमा ! जीवा सेया वि, निरेया वि । [प्र०] से केणट्टेणं भंते । एवं बुच्चति-'जीवा सेया वि निरेया वि' ? [उ०] गोयमा ! जीवा दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-संसारस्मावन्नगा य असंसारस्मावन्नगा य, तत्थ णं जे ते असंसारस्मावन्नगा ते णं सिद्धा । सिद्धा णं दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-अणंतरसिद्धा य परंपरसिद्धा य । तत्थ णं जे ते परंपरसिद्धा ते णं निरेया; तत्थ णं जे ते अणंतरसिद्धा ते णं सेया ।

३६. [प्र०] ते णं भंते ! किं देसेया सधेया ? [उ०] गोयमा ! णो देसेया, सधेया । तत्थ णं जे ते संसारस्मावन्नगा ते दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-सेलेसिपडिवन्नगा य असेलेसिपडिवन्नगा य । तत्थ णं जे ते सेलेसिपडिवन्नगा ते णं निरेया;

विशेष ए के, विकल्लद्रिय जीवोने अवधिज्ञान होतुं नथी. एम मनःपर्यवज्ञानना पर्यायो संबन्धे पण जाणवुं, पण विशेष ए के, ते सामान्य जीवो अने मनुष्योने होय छे, पण वाकीना दंडकोमा होतुं नथी.

जीवना केवल्लज्ञान-
ना पर्यायो.

३१. [प्र०] हे भगवन् ! जीवना केवल्लज्ञानना पर्यायो शुं कृतयुगम रागिरूप छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कृतयुगमरूप छे, पण त्र्योज, द्वापर के कल्पोज रूप नथी. ए प्रमाणे मनुष्य तथा सिद्ध संबंधे पण समजवुं.

जीवोना केवल्ल-
ज्ञानना पर्यायो.

३२. [प्र०] हे भगवन् ! जीवोना केवल्लज्ञानना पर्यायो शुं कृतयुगम रूप छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते सामान्य अने विशेषादेशवडे कृतयुगम रूप छे, परंतु त्र्योज, द्वापर के कल्पोजरूप नथी. ए प्रमाणे मनुष्यो अने सिद्धो संबंधे पण जाणवुं.

जीवना मतिअज्ञान-
नना पर्यायो.

३३. [प्र०] हे भगवन् ! जीव मतिअज्ञानना पर्यायोवडे शुं कृतयुगम रूप छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! जेम आमिनिओधिक ज्ञानना पर्यायो मन्धवे वे दंडको कह्वा छे तेमज अहिं पण वे दंडको कहेवा. श्रुत अज्ञान, विमंगज्ञान, चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन अने अवधिदर्शनना पर्यायो संबन्धे पण ए ज प्रमाणे कहेवुं. विशेष ए के, श्रुतअज्ञानादिमाथी जेने जे होय ते तेने कहेवुं. तथा केवल्लदर्शनना पर्यायो संबन्धे केवल्लज्ञानना पर्यायोनी पेटे समजवुं.

शरीरना प्रकार.

३४. [प्र०] हे भगवन् ! केटलां शरीरो कदां छे ? [उ०] हे गौतम ! पांच शरीरो कदां छे, ते आ प्रमाणे-औदारिक, यावत्-कार्मण. अहिं * प्रजापनासूत्रनुं वधुं शरीरपद कहेवुं.

सकंप वने निष्कंप

३५. [प्र०] हे भगवन् ! शुं जीवो सकंप होय छे के निष्कंप होय छे ? [उ०] हे गौतम ! जीवो सकंप पण छे अने निष्कंप पण छे. [प्र०] हे भगवन् ! शा हेतुथी एम कहो छो के 'जीवो सकंप पण छे अने निष्कंप पण छे' ? [उ०] हे गौतम ! जीवो वे प्रकारना कह्वा छे, ते आ प्रमाणे-संसारसमापन्न-संसारी अने असंसारसमापन्नक-मुक्क, तेमां जे असंसारसमापन्न जीवो छे ते सिद्ध जीवो छे. ते सिद्धो वे प्रकारना कह्वा छे, ते आ प्रमाणे-अनंतर सिद्ध अने परंपर सिद्ध. तेमां जे जीवो परंपर सिद्ध छे ते निष्कंप छे, अने जे जीवो अनंतर सिद्ध छे ते सकंप छे.

अध्यायी के नवमी
मन्थन ?

३६. [प्र०] हे भगवन् ! ते (अनन्तर सिद्धो) शुं अमुक अंशे सकंप छे के सर्वांगे सकंप छे ? [उ०] हे गौतम ! ते अमुक अंशे सकंप नथी, पण सर्वांगे सकंप छे. तेमां जे संसारने प्राप्त थयेला जीवो छे ते वे प्रकारे कह्वा छे, ते आ प्रमाणे-शैलेशाने प्राप्त थयेला

३४ * सुवो प्रजा० पद १२ प० २६८.

३५ † सिद्धत्वनी प्राप्तिना प्रथम समये अनन्तर सिद्ध कहेवाय छे, कारण के त्तारे एक समयनुं पण अन्तर नथी. जेवो सिद्धत्वने प्रथम समये वर्तमान सिद्ध जीवो छे तेओमा कंभ छे, कारण के सिद्धिगमनसमय अने सिद्धत्वप्राप्तिने समय एक ज होवाथी अने सिद्धिगमनसमय गमन क्रिया थती होवाथी ते वन्ते तेवो सकंप होय छे. जेने सिद्धत्व प्राप्ति थया पछी समयादिनुं अन्तर पडे छे ते परम्पर सिद्ध कहेवाय छे अने तेवो निष्कंप होय छे.

તત્ય ણં જે તે અસેલેસીપડિવન્નગા તે ણં સેયા । [પ્ર૦] તે ણં મંતે ! કિં દેસેયા સઘેયા ? [૩૦] ગોયમા ! દેસેયા વિ, સઘેયા વિ; સે તેણટ્ટેણં જાવ-નિરેયા વિ ।

૩૭. [પ્ર૦] નેરહ્યા ણં મંતે ! કિં દેસેયા સઘેયા ? [૩૦] ગોયમા ! દેસેયા વિ, સઘેયા વિ । [પ્ર૦] સે કેણટ્ટેણં જાવ-સઘેયા વિ ? [૩૦] ગોયમા ! નેરહ્યા ડુવિહા પન્નત્તા, તંજહા-વિગ્ગહગતિસમાવન્નગા ય અવિગ્ગહગતિસમાવન્નગા ય । તત્ય ણં જે તે વિગ્ગહગતિસમાવન્નગા તે ણં સઘેયા; તત્ય ણં જે તે અવિગ્ગહગતિસમાવન્નગા તે ણં દેસેયા; સે તેણટ્ટેણં જાવ-‘સઘેયા વિ’ । एवं જાવ-વેમાણિયા ।

૩૮. [પ્ર૦] પરમાણુપોગ્ગલા ણં મંતે ! કિં સંખેજ્ઞા અસંખેજ્ઞા અણંતા ? [૩૦] ગોયમા ! નો સંખેજ્ઞા, નો અસંખેજ્ઞા, અણંતા । एवं જાવ-અણંતપણ્ણિયા યંધા ।

૩૯. [પ્ર૦] ઇગપણ્ણોગાઠા ણં મંતે ! પોગ્ગલા કિં સંખેજ્ઞા, અસંખેજ્ઞા, અણંતા ? [૩૦] एवं જેવ । एवं જાવ-અસં-ખેજ્ઞપણ્ણોગાઠા ।

૪૦. [પ્ર૦] ઇગસમયટ્ટિતીયા ણં મંતે ! પોગ્ગલા કિં સંખેજ્ઞા ? [૩૦] एवं જેવ; एवं જાવ-અસંખેજ્ઞસમયટ્ટિતીયા ।

૪૧. [પ્ર૦] ઇગગુણકાલગા ણં મંતે ! પોગ્ગલા કિં સંખેજ્ઞા ? [૩૦] एवं જેવ, एवं જાવ-અણંતગુણકાલગા; एवं અવસેસા વિ વણ્ણગંધરસફાસા ણેયઘ્ઠા જાવ-‘અણંતગુણલુક્ક’ત્તિ ।

૪૨. [પ્ર૦] ઇણ્ણિ ણં મંતે ! પરમાણુપોગ્ગલાણં, ડુપણ્ણિયાણ ય યંધાણં દઘ્ઠયાણ કયરે કયરેહિંતો અપ્પા ઘા, વહુયા વા, તુહ્ઠા વા, વિસેસાહિયા વા ? [૩૦] ગોયમા ! ડુપણ્ણિયાણં યંધેહિંતો પરમાણુપોગ્ગલા દઘ્ઠયાણ વહુગા ।

અને શૈલેશીને અપ્રાપ્ત. તેમાં જે^૧ શૈલેશીને પ્રાપ્ત જીવો છે તે નિષ્કંપ છે અને જે શૈલેશીને પ્રાપ્ત થયેલા નથી તે સંકંપ છે. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! જેઓ શૈલેશીને પ્રાપ્ત થયેલા નથી તે જીવો શું અંશતઃ^૨ સંકંપ છે કે સર્વાંશે સંકંપ છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! તે અંશતઃ સંકંપ છે અને સર્વાંશે પણ સંકંપ છે. તે હેતુથી યાવત્-તે નિષ્કંપ પણ છે.

૩૭. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! નૈરયિકો શું અશતઃ સંકંપ છે કે સર્વાંશે સંકંપ છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓ અંશતઃ સંકંપ છે અને સર્વાંશે પણ સંકંપ છે. [પ્ર૦] શા હેતુથી ઇમ કહો છો કે તે યાવત્-સર્વાંશે પણ સંકંપ છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! નૈરયિકો વે પ્રકારના કહ્યા છે, તે આ પ્રમાણે-‘વિગ્રહગતિને પ્રાપ્ત થયેલા અને વિગ્રહ ગતિને નહિ પ્રાપ્ત થયેલા. તેમા જે વિગ્રહ ગતિને પ્રાપ્ત થયેલા છે તે સર્વાંશે સંકંપ છે. અને જે વિગ્રહગતિને પ્રાપ્ત થયેલા નથી તે અમુક અંશે સંકંપ છે. તે હેતુથી યાવત્-તેઓ સર્વાંશે પણ સંકંપ છે. ઇ પ્રમાણે યાવત્-વૈમાનિકો સુધી જાણવું.

૩૮. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! શું પરમાણુપુદ્ગલો સંખ્યાતા છે, અસંખ્યાતા છે કે અનંત છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! તે સંખ્યાતા નથી, અસંખ્યાતા નથી, પણ અનંત છે. ઇ પ્રમાણે યાવત્-અનંત પ્રદેશવાલા સ્કંધો સુધી જાણવું.

પરમાણુ.

૩૯. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! આકાશના ઇક પ્રદેશમા રહેલાં પુદ્ગલો શું સંખ્યાતા છે, અસંખ્યાતા છે કે અનંત છે ? [૩૦] પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે જાણવું. ઇ રીતે યાવત્-અસંખ્યાત પ્રદેશમાં રહેલાં પુદ્ગલો વિષે પણ સમજવું.

ઇક આકાશપ્રદેશમાં રહેલા પુદ્ગલો.

૪૦. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! ઇક સમયની સ્થિતિવાલાં પુદ્ગલો શું સંખ્યાતા છે-ઇત્યાદિ પ્રશ્ન. [૩૦] પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે જાણવું. ઇ પ્રમાણે યાવત્-અસંખ્યાતા સમયની સ્થિતિવાલાં પુદ્ગલો સંબંધે પણ જાણવું.

ઇક સમયની સ્થિતિ-વાલા પુદ્ગલો.

૪૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! ઇકગુણ કાલાં પુદ્ગલો શું સંખ્યાતા હોય-ઇત્યાદિ પ્રશ્ન. [૩૦] પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે જાણવું. ઇ પ્રમાણે યાવત્-અણંતગુણ કાલાં પુદ્ગલો સંબંધે પણ સમજવું. ઇમ ઇજ રીતે વાકીના વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ સંબંધે યાવત્-અણંત ગુણ રુક્ષ સુધી સમજવું.

ઇકગુણ કાલા-પુદ્ગલો.

૪૨. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! પરમાણુપુદ્ગલ અને દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ, ઇમાં દ્રવ્યાર્થરૂપે કોણ કોનાથી અલ્પ, અધિક, તુલ્ય અને વિશેષાધિક છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધો કરતાં પરમાણુ પુદ્ગલો દ્રવ્યાર્થરૂપે ઘણાં છે.

પરમાણુ અને દ્વિપ્ર-દેશિક સ્કંધનું અણવદુત્તવ.

૩૬ ^૧ જેઓ મોક્ષમનસમય પહેલા શૈલેશીને પ્રાપ્ત થયેલા છે તેઓને યોગનો રોધ સર્વથા હોવાથી તે નિષ્કંપ છે

^૨ શૈલિકા ગતિથી ઉત્પત્તિસ્થાને જતા જીવો દેશત સક્રમ્પ છે, કારણ કે તેનો પૂર્વના શરીરમા રહેલો અશ ગતિક્રિયારહિત હોવાથી તે નિશ્ચલ છે

૩૭ † વિગ્રહગતિને પ્રાપ્ત થયેલા ઇટલે જેઓ મરીને વિગ્રહ ગતિવડે ઉત્પત્તિ સ્થાને જાય છે તેઓ દહાની ગતિથી સર્વાત્મરૂપે ડપજે છે, માટે તે સર્વરૂપે સક્રમ્પ છે. અને જેઓ વિગ્રહગતિને પ્રાપ્ત થયેલા નથી તે ઢ્રજુગતિવાલા અને અવસ્થિત ઇ વે પ્રકારના છે તેમા અર્હિં માત્ર અવસ્થિત ગ્રહણ કરેલા હોય તેમ સમવે છે તેઓ શરીરમાં રહીને મરણસમુદ્ઘાત કરી શૈલિકા ગતિવડે ઉત્પત્તિ ક્ષેત્રનો અશત સ્પર્શ કરે છે, માટે તે દેશથી સંકંપ છે. અથવા સ્વક્ષેત્રમા રહેલા જીવો હસ્તપાદાદિ અવયવોને ચલાવવા દ્વારા દેશથી સંકંપ છે —ટીકા.

तिपएसोगाढेहितो पोग्गलेहितो दुपएसोगाढा पोग्गला द्बट्टयाए विसेसाहिया; जाव-दसपएसोगाढेहितो पोग्गलेहितो नवपएसोगाढा पोग्गला द्बट्टयाए विसेसाहिया । दसपएसोगाढेहितो पोग्गलेहितो संखेज्जपएसोगाढा पोग्गला द्बट्टयाए वहुया; संखेज्जपएसोगाढेहितो पोग्गलेहितो असंखेज्जपएसोगाढा पोग्गला द्बट्टयाए वहुया । पुच्छा सच्चय भाणियत्ता ।

५०. [प्र०] एसि णं भंते ! एगपएसोगाढाणं दुपएसोगाढाणं य पोग्गलाणं पएसट्टयाए कयरे कयरेहितो जाव-विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! एगपएसोगाढेहितो पोग्गलेहितो दुपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए विसेसाहिया, एवं जाव-नवपएसोगाढेहितो पोग्गलेहितो दसपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए विसेसाहिया; दसपएसोगाढेहितो पोग्गले-हितो संखेज्जपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए वहुया; संखेज्जपएसोगाढेहितो पोग्गलेहितो असंखेज्जपएसोगाढा पोग्गला-पएसट्टयाए वहुया ।

५१. [प्र०] एसि णं भंते ! एगसमयट्टितीयाणं दुसमयट्टितीयाणं य पोग्गलाणं द्बट्टयाए० ? [उ०] जहा ओगाह-णाए वत्तय्या एवं ठितीए वि ।

५२. [प्र०] एसि णं भंते ! एगगुणकालयाणं दुगुणकालयाणं य पोग्गलाणं द्बट्टयाए० ? [उ०] एसि णं जहा परमाणुपोग्गलादीणं तहेव वत्तय्या निरवसेसा; एवं सच्चसि वत्त-गंध-रसाणं ।

५३. [प्र०] एसि णं भंते ! एगगुणकक्खडाणं दुगुणकक्खडाणं य पोग्गलाणं द्बट्टयाए कयरे कयरेहितो जाव-विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! एगगुणकक्खडेहितो पोग्गलेहितो दुगुणकक्खडा पोग्गला द्बट्टयाए विसेसाहिया; एवं जाव-नवगुणकक्खडेहितो पोग्गलेहितो दसगुणकक्खडा पोग्गला द्बट्टयाए विसेसाहिया; दसगुणकक्खडेहितो पोग्गले-हितो संखेज्जगुणकक्खडा पोग्गला द्बट्टयाए वहुया; संखेज्जगुणकक्खडेहितो पोग्गलेहितो असंखेज्जगुणकक्खडा पोग्गला द्बट्टयाए वहुया; असंखेज्जगुणकक्खडेहितो पोग्गलेहितो अणंतगुणकक्खडा पोग्गला द्बट्टयाए वहुया । एवं पएसट्टयाए । सच्चय पुच्छा भाणियत्ता । जहा कक्खडा एवं मउय-गरुय-लहुया वि । सीय-उसिण-निद्ध-लुक्खा जहा वत्ता ।

प्रदेशमां रहेल पुद्रलो करतां वे प्रदेशमां रहेल पुद्रलो द्रव्यार्थरूपे विशेषाधिक छे. यावत्-दश प्रदेशमा रहेल पुद्रलो करतां नव प्रदेशमां रहेल पुद्रलो द्रव्यार्थरूपे विशेषाधिक छे. दश प्रदेशमां रहेल पुद्रलो करतां सख्याता प्रदेशमां रहेल पुद्रलो द्रव्यार्थरूपे घणा छे. संख्याता प्रदेशमा रहेल पुद्रलो करतां असंख्याता प्रदेशमां रहेल पुद्रलो द्रव्यार्थरूपे घणा छे. सर्वत्र प्रश्न करवा.

५०. [प्र०] हे भगवन् ! एक प्रदेशमां रहेल अने वे प्रदेशमा रहेल ए पुद्रलोमा प्रदेशार्थरूपे कया पुद्रलो कोनाथी यावत्-विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! एक प्रदेशमां रहेल पुद्रलो करतां वे प्रदेशमां रहेल पुद्रलो प्रदेशार्थरूपे विशेषाधिक छे. ए प्रमाणे यावत्-नव प्रदेशमां रहेल पुद्रलो करतां दश प्रदेशमा रहेल पुद्रलो प्रदेशार्थरूपे विशेषाधिक छे. दश प्रदेशमा रहेल पुद्रलो करतां संख्याता प्रदेशमां रहेल पुद्रलो प्रदेशार्थरूपे घणा छे. संख्याता प्रदेशमां रहेल पुद्रलो करतां असंख्याता प्रदेशमा रहेल पुद्रलो प्रदेशार्थरूपे घणां छे.

प्रदेशावगाढ पुद्र-
लोनु प्रदेशरूपे
अल्पबहुत्व.

५१. [प्र०] हे भगवन् ! एक समयनी स्थितिवाळा अने वे समयनी स्थितिवाळा पुद्रलोमा द्रव्यार्थरूपे कयां पुद्रलो कोनाथी यावत्-विशेषाधिक छे ? [उ०] जेम अवगाहनानी वक्तव्यता कही छे (सू० ४८-४९) तेम स्थितिनी पण वक्तव्यता कहेवी.

समयस्थितिवाळा पु-
द्रलोनु अल्पबहुत्व

५२. [प्र०] हे भगवन् ! एक गुण काळा अने द्विगुण काळां पुद्रलोमां द्रव्यार्थरूपे कया पुद्रलो कोनाथी विशेषाधिक छे-इत्यादि परमाणुपुद्रलादिनी वक्तव्यतानी पेठे वधी वक्तव्यता कहेवी. ए प्रमाणे वधा वर्ण, गंध अने रस संवंधे पण वक्तव्यता कहेवी.

वर्ण, गन्ध अने रस
निशिष्ट पुद्रलोनु
अल्पबहुत्व.

५३. [प्र०] हे भगवन् ! एकगुण कर्कश अने द्विगुण कर्कश पुद्रलोमां द्रव्यार्थरूपे कया पुद्रलो कोनाथी यावत्-विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! एकगुण कर्कश पुद्रलो करता द्विगुण कर्कश पुद्रलो द्रव्यार्थरूपे विशेषाधिक छे. ए प्रमाणे यावत्-नवगुण कर्कश पुद्रलो करता दशगुण कर्कश पुद्रलो द्रव्यार्थरूपे विशेषाधिक छे. दशगुण कर्कश पुद्रलो करतां सख्यातगुण कर्कश पुद्रलो द्रव्यार्थरूपे घणां छे. संख्यातगुण कर्कश पुद्रलो करता असख्यातगुण कर्कश पुद्रलो द्रव्यार्थरूपे घणा छे. असख्यातगुण कर्कश पुद्रलो करतां अणंतगुण कर्कश पुद्रलो द्रव्यार्थरूपे घणा छे. ए प्रमाणे प्रदेशार्थरूपे पण सर्वत्र प्रश्न करवा जेम कर्कश स्पर्श संवंधे कर्हुं छे तेम मृदु, गुरु अने लघु स्पर्श विशेषे पण कहेवुं. तथा शीत, उष्ण, स्निग्ध अने रुक्ष स्पर्श संवंधे वर्णनी पेठे कहेवुं.

स्पर्शनिशिष्ट पुद्र-
लोनु अल्पबहुत्व.

૫૪. [પ્ર૦] ઇપ્સિ ણં મંતે ! પરમાણુપોગ્ગલાણં સંપ્રેક્ષપ્પસિયાણં, અસંગ્ગેક્ષપ્પસિયાણં, અણંતપ્પસિયાણ ય મંધાણં દ્વદ્વટ્ટયાપ્પ પ્પસટ્ટયાપ્પ દ્વદ્વટ્ટપ્પસટ્ટયાપ્પ કયરે કયરેઠ જાવ-વિસેસાદિયા યા ? [૩૦] ગોયમા ! સઘ્ગયોવા અણંતપ્પસિયા સંધા દ્વદ્વટ્ટયાપ્પ, પરમાણુપોગ્ગલા દ્વદ્વટ્ટયાપ્પ અણંતગુણા, સંપ્રેક્ષપ્પસિયા સંધા દ્વદ્વટ્ટયાપ્પ સંપ્રેક્ષગુણા, અસંગ્ગેક્ષપ્પસિયા સંધા દ્વદ્વટ્ટયાપ્પ અસંગ્ગેક્ષગુણા; પ્પસટ્ટયાપ્પ-સઘ્ગયોવા અણંતપ્પસિયા સંધા પ્પમટ્ટયાપ્પ, પરમાણુપોગ્ગલા અપ્પસટ્ટયાપ્પ અણંતગુણા, સંપ્રેક્ષપ્પસિયા સંધા પ્પસટ્ટયાપ્પ સંગ્ગેક્ષગુણા, અસંગ્ગેક્ષપ્પસિયા સંધા પ્પસટ્ટયાપ્પ અસંગ્ગેક્ષગુણા; દ્વદ્વટ્ટપ્પસટ્ટયાપ્પ-સઘ્ગયોવા અણંતપ્પસિયા સંધા દ્વદ્વટ્ટયાપ્પ, તે ચેવ પ્પમટ્ટયાપ્પ અણંતગુણા, પરમાણુપોગ્ગલા દ્વદ્વટ્ટપ્પસટ્ટયાપ્પ અણંતગુણા, સંપ્રેક્ષપ્પસિયા સંધા દ્વદ્વટ્ટયાપ્પ સંપ્રેક્ષગુણા, તે ચેવ પ્પસટ્ટયાપ્પ સંપ્રેક્ષગુણા, અસંગ્ગેક્ષપ્પસિયા સંધા દ્વદ્વટ્ટયાપ્પ અસંગ્ગેક્ષગુણા, તે ચેવ પ્પસટ્ટયાપ્પ અસંગ્ગેક્ષગુણા ।

૫૫. [પ્ર૦] ઇપ્સિ ણં મંતે ! ઇગપ્પસોગાઢાણં, સંપ્રેક્ષપ્પસોગાઢાણં, અસંગ્ગેક્ષપ્પસોગાઢાણ ય પોગ્ગલાણં દ્વદ્વટ્ટયાપ્પ પ્પસટ્ટયાપ્પ દ્વદ્વટ્ટપ્પસટ્ટયાપ્પ કયરે કયરેઠ જાવ વિસેસાદિયા યા ? [૩૦] ગોયમા ! સઘ્ગયોવા ઇગપ્પસોગાઢા પોગ્ગલા દ્વદ્વટ્ટયાપ્પ, સંપ્રેક્ષપ્પસોગાઢા પોગ્ગલા દ્વદ્વટ્ટયાપ્પ સંપ્રેક્ષગુણા, અસંગ્ગેક્ષપ્પસોગાઢા પોગ્ગલા દ્વદ્વટ્ટયાપ્પ અસંગ્ગેક્ષગુણા; પ્પસટ્ટયાપ્પ-સઘ્ગયોવા ઇગપ્પસોગાઢા પોગ્ગલા ઇપ્પસટ્ટયાપ્પ, સંગ્ગેક્ષપ્પસોગાઢા પોગ્ગલા પ્પમટ્ટયાપ્પ સંપ્રેક્ષગુણા, અસંગ્ગેક્ષપ્પસોગાઢા પોગ્ગલા પ્પસટ્ટયાપ્પ અસંગ્ગેક્ષગુણા; દ્વદ્વટ્ટપ્પસટ્ટયાપ્પ-સઘ્ગયોવા ઇગપ્પસોગાઢા પોગ્ગલા દ્વદ્વટ્ટપ્પસટ્ટયાપ્પ, સંપ્રેક્ષપ્પસોગાઢા પોગ્ગલા દ્વદ્વટ્ટયાપ્પ સંપ્રેક્ષગુણા, તે ચેવ પ્પસટ્ટયાપ્પ સંગ્ગેક્ષગુણા; અસંગ્ગેક્ષપ્પસોગાઢા પોગ્ગલા દ્વદ્વટ્ટયાપ્પ અસંગ્ગેક્ષગુણા, તે ચેવ પ્પસટ્ટયાપ્પ અસંગ્ગેક્ષગુણા ।

૫૬. [પ્ર૦] ઇપ્સિ ણં મંતે ! ઇગસમયટ્ટિત્તયાણં, સંપ્રેક્ષસમયટ્ટિત્તયાણં, અસંગ્ગેક્ષસમયટ્ટિત્તયાણ ય પોગ્ગલાણં ? [૩૦] જહા ઓગાહ્ણાપ્પ તદ્દા ટિત્તીપ્પ વિ માણિયઘં અપ્પાવહુવં ।

૫૪. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! ૧ પરમાણુપુદ્ગલો સંખ્યાતપ્રદેશિક, અસંખ્યાતપ્રદેશિક અને અનંતપ્રદેશિક સ્કંધોમાં દ્રવ્યાર્થરૂપે, પ્રદેશાર્થરૂપે અને દ્રવ્યાર્થ-પ્રદેશાર્થરૂપે કયા પુદ્ગલસ્કંધો કોનાથી યાવત્-વિગેષાધિક છે ? [૩૦] હે ગોતમ ! દ્રવ્યાર્થરૂપે સૌથી ઘોટા અનંતપ્રદેશિક સ્કંધો છે. તેથી પરમાણુ પુદ્ગલો દ્રવ્યાર્થરૂપે અનંતગુણ છે, તેથી સંખ્યાતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થરૂપે સંખ્યાતગુણ છે, તેથી અસંખ્યાતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થરૂપે અનંતગુણ છે. પ્રદેશાર્થરૂપે-અનંતપ્રદેશવાચી સ્કંધો પ્રદેશાર્થરૂપે સૌથી ઘોટા છે, તેથી પરમાણુપુદ્ગલો અપ્રદેશાર્થરૂપે અનંતગુણ છે, તેથી સંખ્યાતપ્રદેશિક સ્કંધો પ્રદેશાર્થરૂપે નંધ્યાતગુણ છે, તેથી અનંતપ્રદેશિક સ્કંધો પ્રદેશાર્થરૂપે અસંખ્યાતગુણ છે, દ્રવ્યાર્થરૂપે-અનંતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થરૂપે સૌથી ઘોટા છે, અને તેજ સ્કંધો પ્રદેશાર્થરૂપે અનંતગુણ છે; તેથી પરમાણુપુદ્ગલો દ્રવ્યાર્થ-અપ્રદેશાર્થરૂપે અનંતગુણ છે, તેથી સંખ્યાતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થરૂપે નંધ્યાતગુણ છે, અને તેથી તેજ સ્કંધો પ્રદેશાર્થરૂપે સંખ્યાતગુણ છે, તેથી અસંખ્યાતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થરૂપે અનંતગુણ છે, અને તેથી તેજ સ્કંધો પ્રદેશાર્થરૂપે અસંખ્યાતગુણ છે.

૫૫. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! ૧ પ્રદેશમા રહી શકે તેવા, સંખ્યાત પ્રદેશમાં રહી શકે તેવા અને અનંતપ્રદેશ પ્રદેશમાં રહી શકે તેવા ૧ પુદ્ગલોમાં દ્રવ્યાર્થપણે, પ્રદેશાર્થપણે અને દ્રવ્યાર્થ-પ્રદેશાર્થપણે કયા પુદ્ગલો કોનાથી યાવત્-વિગેષાધિક છે ? [૩૦] હે ગોતમ ! ૧ પ્રદેશમા રહી શકે તેવા પુદ્ગલો દ્રવ્યાર્થરૂપે સૌથી ઘોટા છે, તેથી સંખ્યાત પ્રદેશમા રહી શકે તેવા પુદ્ગલો દ્રવ્યાર્થરૂપે નંધ્યાતગુણ છે, તેથી અનંતપ્રદેશ પ્રદેશમા રહી શકે તેવા પુદ્ગલો દ્રવ્યાર્થરૂપે અસંખ્યાતગુણ છે. પ્રદેશાર્થરૂપે-૧ પ્રદેશમાં રહી શકે તેવા પુદ્ગલો અપ્રદેશાર્થપણે સૌથી ઘોટા છે, તેથી સંખ્યાતા પ્રદેશમા રહી શકે તેવા પુદ્ગલો પ્રદેશાર્થરૂપે સંખ્યાતગુણ છે, તેથી અસંખ્યાત પ્રદેશમાં રહેલા પુદ્ગલો પ્રદેશાર્થરૂપે અસંખ્યાતગુણ છે. દ્રવ્યાર્થ-પ્રદેશાર્થરૂપે-૧ પ્રદેશમાં રહી શકે તેવા પુદ્ગલો દ્રવ્યાર્થ-અપ્રદેશાર્થરૂપે સૌથી ઘોટા છે, તેથી સંખ્યાતા પ્રદેશમા રહી શકે તેવા પુદ્ગલો દ્રવ્યાર્થરૂપે સંખ્યાતગુણ છે, અને તેજ પુદ્ગલો પ્રદેશાર્થરૂપે નંધ્યાતગુણ છે, તેથી અસંખ્યાત પ્રદેશમાં રહી શકે તેવા પુદ્ગલો દ્રવ્યાર્થરૂપે અસંખ્યાતગુણ છે અને તે તેથી તેજ પુદ્ગલો પ્રદેશાર્થરૂપે અસંખ્યાતગુણ છે.

૫૬. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! ૧ સમયની સ્થિતિવાચી, સંખ્યાત સમયની સ્થિતિવાચી અને અનંતપ્રદેશ સમયની સ્થિતિવાચી ૧ પુદ્ગલોમાં કયા કોનાથી યાવત્-વિગેષાધિક છે ? [૩૦] જેમ અગાહના સંબંધે અલ્પબહુલ કહ્યું છે, તેમ સ્થિતિ સંબંધે પણ અલ્પબહુલ કહેવું-

૧ પ્પમટ્ટયાપ્પ મ-ટ । ૨ અસંપ્રેક્ષ ટ । ૩ દ્વદ્વટ્ટપ્પમટ્ટ-ટ ।

૫૪ * પરમાણુ અપ્રદેશી હોવાથી ૧ટ્ટે તેને પ્રદેશ નહિ હોવાથી અપ્રદેશાર્થરૂપે અનંતગુણ કયા છે

† પરમાણુઓ દ્રવ્યની વિવક્ષાના દ્રવ્યરૂપ છે અને પ્રદેશવિવક્ષાના તેને પ્રદેશો નહિ હોવાથી દ્રવ્યાર્થ-અપ્રદેશાર્થરૂપે અનંતગુણ કયા છે

પરમાણુની આરબી
અનંત પ્રદેશિક
સ્કંધોનું અલ્પબહુલ.

પ્રદેશવાચી પુદ્ગલો
ઓનું અલ્પબહુલ

૧ સમયની સ્થિ-
તિવાચી પુદ્ગલોનું
અલ્પબહુલ.

५७. [प्र०] एएसि णं भंते ! एगगुणकालगाणं, संखेज्जगुणकालगाणं, असंखेज्जगुणकालगाणं, अणंतगुणकालगाण य पोग्गलाणं दव्वट्टयाप, पपसट्टयाप, दव्वट्टपपसट्टयाप० ? [उ०] एएसिं जहां परमाणुपोग्गलाणं अप्पावहुंगं तहा एएसिं पि अप्पावहुंगं; एवं सेसाण वि वन्न-गंध-रसाणं ।

५८. [प्र०] एएसि णं भंते ! एगगुणकक्खडाणं, संखेज्जगुणकक्खडाणं, असंखेज्जगुणकक्खडाणं, अणंतगुणकक्खडाण य पोग्गलाणं दव्वट्टयाप, पपसट्टयाप, दव्वट्टपपसट्टयाप कयरे कयरे० जाव-विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! सव्वत्थोवा एगगुणकक्खडा पोग्गला दव्वट्टयाप, संखेज्जगुणकक्खडा पोग्गला दव्वट्टयाप संखेज्जगुणा, असंखेज्जगुणकक्खडा पोग्गला दव्वट्टयाप असंखेज्जगुणा, अणंतगुणकक्खडा पोग्गला दव्वट्टयाप अणंतगुणा, पपसट्टयाप एवं चेव; नवरं संखेज्जगुणकक्खडा पोग्गला पपसट्टयाप असंखेज्जगुणा, सेसं तं चेव । दव्वट्टपपसट्टयाप-सव्वत्थोवा एगगुणकक्खडा पोग्गला दव्वट्टपपसट्टयाप, संखेज्जगुणकक्खडा पोग्गला दव्वट्टयाप संखेज्जगुणा; ते चेव पपसट्टयाप संखेज्जगुणा, असंखेज्जगुणकक्खडा दव्वट्टयाप असंखेज्जगुणा, ते चेव पपसट्टयाप असंखेज्जगुणा; अणंतगुणकक्खडा दव्वट्टयाप अणंतगुणा, ते चेव पपसट्टयाप अणंतगुणा । एवं मउय-गरुय-लहुयाण वि अप्पावहुयं । सीय-उसिण-निद्ध-लुक्खाणं जहा वन्नाणं तहेव ।

५९. [प्र०] परमाणुपोग्गले णं भंते ! दव्वट्टयाप किं कडजुम्मे, तेयोए, दावरजुम्मे, कलियोगे ? [उ०] गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेयोए, नो दावरजुम्मे, कलियोगे । एवं जाव-अणंतपएसिए खंधे ।

६०. [प्र०] परमाणुपोग्गला णं भंते ! दव्वट्टयाप किं कडजुम्मा-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा, जाव-सिय कलियोगा; विहाणादेसेणं नो कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, कलियोगा । एवं जाव-अणंतपएसिया खंधा ।

६१. [प्र०] परमाणुपोग्गले णं भंते ! पपसट्टयाप किं कडजुम्मे० पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, कलियोगे ।

५७. [प्र०] हे भगवन् ! एकगुण काळा, संख्यातगुण काळा, असंख्यातगुण काळा अने अनंतगुण काळा ए पुद्गलोमा द्रव्यार्थरूपे, प्रदेशार्थरूपे अने द्रव्यार्थप्रदेशार्थरूपे कया पुद्गले कोनाथी यावत्-विशेषाधिक छे ? [उ०] जेम परमाणुपुद्गलोनुं अल्पबहुत्व कहुं छे (सू० ५२) तेम एओनुं पण अल्पबहुत्व कहेहुं. एम काळा सिवायना बाकीना वर्णा, गंध अने रस सर्वंधे पण जाणतुं.

वर्णादिविशिष्ट पुद्गलोनुं अल्पबहुत्व.

५८. [प्र०] हे भगवन् ! एकगुण कर्कश, संख्यातगुण कर्कश, असंख्यातगुण कर्कश अने अनंतगुण कर्कश ए पुद्गलोमा द्रव्यार्थरूपे, प्रदेशार्थरूपे तथा द्रव्यार्थप्रदेशार्थरूपे कया पुद्गले कोनाथी यावत्-विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! एकगुण कर्कश पुद्गले द्रव्यार्थरूपे सौथी थोडां छे, तेथी संख्यातगुण कर्कश पुद्गले द्रव्यार्थरूपे संख्यातगुणा छे, तेथी असंख्यातगुण कर्कश पुद्गले द्रव्यार्थरूपे असंख्यातगुण छे, तेथी अनंतगुण कर्कश पुद्गले द्रव्यार्थरूपे अनंतगुण छे. प्रदेशार्थरूपे पण ए ज रीते जाणतुं. परन्तु विशेष ए के, संख्यातगुण कर्कश पुद्गले प्रदेशार्थरूपे असंख्यातगुणा छे. बाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणतुं. द्रव्यार्थप्रदेशार्थरूपे-एकगुण कर्कश पुद्गले द्रव्यार्थ-प्रदेशार्थपणे सौथी थोडा छे; तेथी संख्यातगुण कर्कश पुद्गले द्रव्यार्थरूपे संख्यातगुणा छे, अने तेज पुद्गले प्रदेशार्थरूपे तेथी संख्यातगुणां छे, तेथी असंख्यातगुण कर्कश पुद्गले द्रव्यार्थरूपे असंख्यातगुण छे, अने तेथी तेज पुद्गले प्रदेशार्थरूपे असंख्यातगुण छे, अनंतगुण कर्कश पुद्गले द्रव्यार्थरूपे तेथी अनंतगुण छे, अने तेज पुद्गले प्रदेशार्थरूपे तेथी अनंतगुण छे. एज रीते मृदु, गुरु अने लघु स्पर्शोनुं पण अल्पबहुत्व कहेहुं. शीत, उष्ण, स्निग्ध अने रुक्ष स्पर्शोनुं अल्पबहुत्व वर्णोनी पेठे जाणतुं.

५९. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परमाणुपुद्गल द्रव्यार्थरूपे कृतयुग्म छे, त्र्योज छे, द्वापरयुग्म छे के कल्योज छे ? [उ०] हे गौतम ! कृतयुग्म नथी, त्र्योज नथी, द्वापरयुग्म नथी, पण *कल्योजरूप छे. ए प्रमाणे यावत्-अनंतप्रदेशिक स्क्ंध सुधी जाणतुं.

परमाणुमा कृतयुग्मादि राशिनो समवतार

६०. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परमाणुपुद्गले द्रव्यार्थपणे कृतयुग्म छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कदाच सामान्यादेशथी कृतयुग्म होय, यावत्-कदाच कल्योज रूप होय. अने विशेषादेशथी कृतयुग्म, त्र्योज के द्वापरयुग्म नथी, पण कल्योजरूप होय छे. ए प्रमाणे यावत्-अनंत प्रदेशिक स्क्ंधो सुधी जाणतुं.

परमाणुओ

६१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परमाणुपुद्गल प्रदेशार्थरूपे कृतयुग्म छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कृतयुग्म नथी, त्र्योज नथी, तेम द्वापरयुग्म नथी, पण कल्योजरूप छे.

परमाणु प्रदेशरूपे-

६२. [प्र०] दुपपसिए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेयोये, दावरजुम्मे, नो कलियोगे ।

६३. [प्र०] तिपपसिए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो कडजुम्मे, तेयोए, नो दावरजुम्मे, नो कलियोए ।

६४. [प्र०] चउपपसिए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! कडजुम्मे, नो तेओए, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे । पंचपपसिए जहा परमाणुपोग्गले । छप्पपसिए जहा दुप्पपसिए । सत्तपपसिए जहा तिपपसिए । अट्टपपसिए जहा चउपपसिए । नवपपसिए जहा परमाणुपोग्गले । दसपपसिए जहा दुप्पपसिए ।

६५. [प्र०] संखेज्जपपसिए णं मंते ! पोग्गले-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय कडजुम्मे, जाव-सिय कलियोए । एवं असंखेज्जपपसिए वि, अणंतपपसिए वि ।

६६. [प्र०] परमाणुपोग्गला णं मंते ! पपसट्टयाए किं कडजुम्मा-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा, जाव-सिय कलियोगा । विहाणादेसेणं नो कडजुम्मा, नो तेयोया, नो दावरजुम्मा, कलियोगा ।

६७. [प्र०] दुप्पपसिया णं पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा, नो तेयोया, सिय दावरजुम्मा, नो कलियोगा । विहाणादेसेणं नो कडजुम्मा, नो तेयोया, दावरजुम्मा, नो कलियोगा ।

६८. [प्र०] तिपपसिया णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा, जाव-सिय कलियोगा । विहाणादेसेणं नो कडजुम्मा, तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो कलियोगा ।

६९. [प्र०] चउपपसिया णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं वि विहाणादेसेणं वि कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो कलियोगा । पंचपपसिया जहा परमाणुपोग्गला । छप्पपसिया जहा दुप्पपसिया । सत्तपपसिया जहा तिपपसिया । अट्टपपसिया जहा चउपपसिया । नवपपसिया जहा परमाणुपोग्गला । दसपपसिया जहा दुपपसिया ।

७०. [प्र०] संखेज्जपपसिया णं-पुछा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा, जाव-सिय कलियोगा । विहाणादेसेणं कडजुम्मा वि, जाव-कलियोगा वि । एवं असंखेज्जपपसिया वि, अणंतपपसिया वि ।

द्विप्रदेशिक स्कन्ध

६२. [प्र०] द्विप्रदेशिक स्कंध संवन्धे प्रश्न [उ०] हे गौतम ! ते कृतयुग्म, त्र्योज के कल्योज रूप नयी, पण द्वापरयुग्म छे.

त्रिप्रदेशिक स्कन्ध-

६३. [प्र०] त्रिप्रदेशिक स्कंध संवन्धे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कृतयुग्म, द्वापर के कल्योज नयी, पण त्र्योज छे.

चतु प्रदेशिकादि स्कन्ध

६४. [प्र०] चार प्रदेशवाळो स्कंध संवन्धे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कृतयुग्म छे, पण त्र्योज, द्वापर के कल्योज नयी. परमाणुपुद्गलनी पेटे पाच प्रदेशवाळो स्कंध, द्विप्रदेशिक स्कन्धनी पेटे पट्टप्रदेशिक स्कंध, त्रिप्रदेशिक स्कन्धनी पेटे सप्त प्रदेशिक स्कंध, चतुः-प्रदेशिकनी पेटे आठ प्रदेशवाळो स्कंध, परमाणुपुद्गलनी पेटे नव प्रदेशिक स्कंध अने द्विप्रदेशिक स्कन्धनी पेटे दशप्रदेशिक स्कंध जाणवो.

सख्यातप्रदेशिक स्कन्ध.

६५. [प्र०] हे भगवन् ! शुं संख्यातप्रदेशिक स्कंध कृतयुग्म छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कदाच कृतयुग्म होय अने यावत्-कदाच कल्योजरूप होय. ए प्रमाणे असंख्यात प्रदेशिक तथा अनंतप्रदेशिक स्कंध संवन्धे जाणहुं.

परमाणुप्रोमा प्रदेश-रूपे कृतयुग्मादि राशिको

६६. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परमाणुपुद्गलो प्रदेशार्थपणे कृतयुग्म छे-इत्यादि प्रश्न [उ०] हे गौतम ! सामान्यादेशी कदाच कृतयुग्म छे, अने यावत्-कदाच कल्योज छे. तथा विशेषादेशनी अपेक्षाए कृतयुग्म, त्र्योज के द्वापरयुग्म नयी, पण कल्योज छे.

द्विप्रदेशिक स्कन्धो.

६७. [प्र०] द्विप्रदेशिक स्कंधो संवन्धे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सामान्यादेशनी अपेक्षाए कदाच कृतयुग्म होय अने कदाच द्वापरयुग्म होय, पण त्र्योज के कल्योजराशि रूप न होय. विशेषनी अपेक्षाए कृतयुग्म, त्र्योज के कल्योजरूप न होय, पण द्वापरयुग्म राशिरूप होय.

त्रिप्रदेशिक स्कन्धो.

६८. [प्र०] त्रिप्रदेशिक स्कंधो संवन्धे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सामान्यादेशी कदाच कृतयुग्म, यावत्-कदाच कल्योज होय, विशेषादेशी कृतयुग्म, द्वापरयुग्म के कल्योज न होय, पण त्र्योज होय.

चतुःप्रदेशिकादि स्कन्धो

६९. [प्र०] शुं चतुःप्रदेशिक स्कन्धो कृतयुग्म छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सामान्यादेश अने विशेषादेशनी अपेक्षाए कृतयुग्मरूप छे, पण त्र्योज, द्वापरयुग्म अने कल्योजरूप नयी. पंचप्रदेशिक स्कन्धो परमाणुपुद्गलनी पेटे (सू० ६०-६१) जाणवा. छप्रदेशिक स्कन्धोने द्विप्रदेशिक स्कन्धोनी पेटे (सू० ६७) जाणहुं. सप्तप्रदेशिक स्कन्धो त्रिप्रदेशिक स्कन्धोनी पेटे (सू० ६८), अष्टप्रदेशिक स्कन्धो चतुःप्रदेशिकनी पेटे, नवप्रदेशिक स्कन्धो परमाणुपुद्गलोनी जेम (सू० ६०-६१) अने दशप्रदेशिक स्कन्धो द्विप्रदेशिक स्कन्धोनी पेटे (सू० ६१) जाणवा.

संख्यातप्रदेशिकादि स्कन्धो

७०. [प्र०] शुं संख्यातप्रदेशिक स्कन्धो कृतयुग्मराशि रूप होय-इत्यादि प्रश्न. [उ०] सामान्यादेशी कदाच कृतयुग्मरूप होय, यावत्-कदाच कल्योजरूप पण होय. विशेषादेशी पण कदाच कृतयुग्मरूप होय, यावत्-कदाच कल्योजरूप पण होय. एम असंख्यात प्रदेशिक अने अनन्तप्रदेशिक स्कन्धो जाणवा.

७१. [प्र०] परमाणुपोगले णं भंते ! किं कडजुम्मपपसोगाढे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो कडजुम्मपपसोगाढे, नो तेयोग०, नो दावरजुम्म०, कलियोगपपसोगाढे ।

७२. [प्र०] दुपपसिए णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो कडजुम्मपपसोगाढे, णो तेयोग०, सिय दावरजुम्मपपसोगाढे, सिय कलियोगपपसोगाढे ।

७३. [प्र०] तिपपसिए णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! णो कडजुम्मपपसोगाढे, सिय तेयोगपपसोगाढे, सिय दावरजुम्मपपसोगाढे, सिय कलियोगपपसोगाढे ३ ।

७४. [प्र०] चउप्पसिए णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय कडजुम्मपपसोगाढे, जाव-सिय कलियोगपपसोगाढे ४ । एवं जाव-अणंतपपसिए ।

७५. [प्र०] परमाणुपोगला णं भंते ! किं कडजुम्म-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपपसोगाढा, णो तेयोग०, नो दावर०, नो कलियोग० । विहाणादेसेणं नो कडजुम्मपपसोगाढा, णो तेयोग०, नो दावर०, कलियोगपपसोगाढा ।

७६. [प्र०] दुप्पसिया णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपपसोगाढा, नो तेयोग०, नो दावर०, नो कलियोग० । विहाणादेसेणं नो कडजुम्मपपसोगाढा, नो तेयोगपपसोगाढा, दावरजुम्मपपसोगाढा वि, कलियोगपपसोगाढा वि ।

७७. [प्र०] तिप्पसिया णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपपसोगाढा, नो तेयोग०, नो दावर०, नो कलि० । विहाणादेसेणं नो कडजुम्मपपसोगाढा, तेओगपपसोगाढा वि, दावरजुम्मपपसोगाढा वि, कलियोगपपसोगाढा वि ३ ।

७८. [प्र०] चउप्पसिया णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपपसोगाढा, नो तेयोग०, नो दावर०, नो कलियोग० । विहाणादेसेणं कडजुम्मपपसोगाढा वि, जाव-कलियोगपपसोगाढा वि ४ । एवं जाव-अणंतपपसिया ।

७९. [प्र०] परमाणुपोगले णं भंते ! किं कडजुम्मसमयट्ठितीए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय कडजुम्मसमयट्ठितीए, जाव-सिय कलियोगसमयट्ठितीए । एवं जाव-अणंतपपसिए ।

७१. [प्र०] हे भगवन् ! परमाणुपुद्गल कृतयुग्मप्रदेशावगाढ होय-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कृतयुग्मप्रदेशावगाढ, त्र्योज प्रदेशावगाढ अने द्वापरयुग्मप्रदेशावगाढ न होय, पण कल्योजप्रदेशावगाढ होय.

परमाणुनी प्रदेशा-
वगाढता.

७२. [प्र०] द्विप्रदेशिक स्कंध संवन्धे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कृतयुग्म के त्र्योज प्रदेशाश्रित नथी, पण कदाच द्वापरयुग्म के कदाच कल्योज प्रदेशाश्रित छे.

द्विप्रदेशिक

७३. [प्र०] हे भगवन् ! शुं त्रिप्रदेशिक स्कंध कृतयुग्मप्रदेशावगाढ छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कृतयुग्म-प्रदेशाश्रित नथी, पण कदाच त्र्योज, कदाच द्वापरयुग्म के कदाच कल्योजप्रदेशाश्रित होय छे.

त्रिप्रदेशिक.

७४. [प्र०] चतुःप्रदेशिक स्कंध संवन्धे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कदाच कृतयुग्मप्रदेशाश्रित होय छे अने यावत्-कदाच कल्योजप्रदेशाश्रित होय छे. ए प्रमाणे यावत्-अनंतप्रदेशिक स्कंध सुधी जाणवुं.

चतुःप्रदेशिक.

७५. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परमाणुपुद्गले कृतयुग्मप्रदेशाश्रित होय छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सामान्यादेशयी कृतयुग्म प्रदेशाश्रित होय छे, पण त्र्योज, द्वापर के कल्योजप्रदेशाश्रित नथी. तथा विशेषादेशयी कृतयुग्म, त्र्योज के द्वापरयुग्मप्रदेशाश्रित नथी, पण कल्योजप्रदेशाश्रित होय छे.

परमाणुपुद्गली.

७६. [प्र०] हे भगवन् ! शुं द्विप्रदेशिक स्कंधो कृतयुग्मप्रदेशावगाढ छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सामान्यादेशयी कृतयुग्मप्रदेशावगाढ छे, पण त्र्योज, द्वापर के कल्योजप्रदेशावगाढ नथी, अने विशेषादेशयी कृतयुग्म प्रदेशां रहेल नथी, त्र्योज प्रदेशां रहेल नथी, पण द्वापरयुग्म प्रदेशाश्रित अने कल्योजप्रदेशाश्रित छे.

द्विप्रदेशिक स्कंधो.

७७. [प्र०] हे भगवन् ! त्रिप्रदेशिक स्कंध कृतयुग्मप्रदेशावगाढ छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सामान्यादेशयी कृतयुग्म-प्रदेशाश्रित छे, पण त्र्योज, द्वापर के कल्योज प्रदेशाश्रित नथी. तथा विशेषादेशयी कृतयुग्मप्रदेशाश्रित नथी, पण त्र्योज, द्वापर के कल्योज-प्रदेशाश्रित होय छे.

त्रिप्रदेशिक स्कंधो.

७८. [प्र०] चतुःप्रदेशिक स्कंधो संवन्धे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सामान्यादेशयी कृतयुग्मप्रदेशाश्रित होय छे, पण त्र्योज, द्वापरयुग्म के कल्योजप्रदेशाश्रित नथी, तथा विशेषादेशयी कृतयुग्मप्रदेशाश्रित होय छे, यावत्-कल्योजप्रदेशाश्रित पण होय छे. ए प्रमाणे यावत्-अनंतप्रदेशिक स्कंधो सुधी जाणवुं.

चतुःप्रदेशिक
स्कंधो.

७९. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परमाणुपुद्गल कृतयुग्मसमयनी स्थितिवाळुं छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कदाच कृतयुग्म समयनी स्थितिवाळुं होय छे, यावत्-कदाच कल्योज समयनी स्थितिवाळुं होय छे. ए प्रमाणे यावत्-अनंतप्रदेशिक स्कंध सुधी जाणवुं.

अनंतप्रदेशिक
परमाणुपुद्गली द्वा-
युग्मादि समयनी
स्थिति.

८०. [प्र०] परमाणुपोग्गले णं भंते ! किं कडजुम्म०—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मसमयठि-
तीया, जाव—सिय कलियोगसमयठितीया ४ । विहाणादेसेणं कडजुम्मसमयठितीया वि, जाव—कलियोगसमयठितीया वि ४ ।
एवं जाव—अणंतपएसिया ।

८१. [प्र०] परमाणुपोग्गले णं भंते ! कालवन्नपज्जवेहिं किं कडजुम्मे, तेयोगे—? [उ०] जहा ठितीप वत्तवया एवं
ववेसु वि सवेसु, गंधेसु वि एवं चेव, [एवं] रसेसु वि जाव—‘महुरो रसो’ सि ।

८२. [प्र०] अणंतपएसिए णं भंते ! खंधे कक्खडफासपज्जवेहिं किं कडजुम्मे—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय कडजुम्मे,
जाव—सिय कलियोगे ।

८३. [प्र०] अणंतपएसिया णं भंते ! खंधा कक्खडफासपज्जवेहिं किं कडजुम्मा—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओघादेसेणं
सिय कडजुम्मा, जाव—सिय कलियोगा ४ । विहाणादेसेणं कडजुम्मा वि, जाव—कलियोगा वि ४ । एवं मउय—गरुय—लहुया
वि भाणियद्या । सीय—उसिण—निद्ध—लुक्खा जहा वत्ता ।

८४. [प्र०] परमाणुपोग्गले णं भंते ! किं सहे अणहे ? [उ०] गोयमा ! नो सहे, अणहे ।

८५. [प्र०] डुपएसिए णं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सहे, नो अणहे । तिपएसिए जहा परमाणुपोग्गले । चउपएसिए
जहा डुपएसिए । पंचपएसिए जहा तिपएसिए । छप्पएसिए जहा डुपएसिए । सत्तपएसिए जहा तिपएसिए । अट्टपएसिए
जहा डुपएसिए । नवपएसिए जहा तिपएसिए । दसपएसिए जहा डुपएसिए ।

८६. [प्र०] संखेज्जपएसिए णं भंते ! खंधे—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय सहे, सिय अणहे । एवं असंखेज्जपएसिए
वि । एवं अणंतपएसिए वि ।

८०. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परमाणुपुद्गलो कृतयुगम समयनी स्थितिवाळां छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सामान्यादेशी
कदाच कृतयुगम समयनी स्थितिवाळां होय अने यावत्—कदाच कल्योज समयनी स्थितिवाळां होय. तथा विशेषादेशी कृतयुग-
समयनी स्थितिवाळा पण होय अने यावत्—कल्योज समयनी स्थितिवाळां पण होय. ए प्रमाणे यावत्—अनंतप्रदेशिक स्कंधो सुधी
जाणवुं.

गांदि पर्यायीनी
वयुग्मादिरूपता

८१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परमाणुपुद्गलना काळा वर्णपर्यायो कृतयुगमरूप छे, ऋयोज छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] जेम स्थितिनी
कक्तव्यता कही तेम सर्व वर्णनी वक्तव्यता कहेवी. एम वधा गंधो अने रसोने विपे पण यावत्—मधुर रस सुधी एज प्रमाणे जाणवुं.

८२. [प्र०] हे भगवन् ! शुं अनंतप्रदेशिक स्कंधना कर्कशस्पर्शपर्यायो कृतयुगम छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते
कदाच कृतयुगम छे अने यावत्—कदाच कल्योजरूप छे.

८३. [प्र०] हे भगवन् ! शुं अनंत प्रदेशवाळा स्कंधोना कर्कशस्पर्शपर्यायो कृतयुगम छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सामान्या-
देशी कदाच कृतयुगम अने यावत्—कदाच कल्योज रूप पण होय छे. विशेषादेशी कृतयुगम पण छे अने यावत्—कल्योजरूप पण छे.
ए प्रमाणे मृदु—कौमळ, गुरु—भारे अने लघु—हळबो—ए स्पर्श कहेवा. अने शीत—ठंडो, उष्ण—उनो, क्षिप—चिकणो अने रुक्ष—छुखो—
ए स्पर्शो वर्णोनी पेठे कहेवा.

परमाणु सार्ध के
अनर्थ ?

८४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परमाणुपुद्गल सार्ध (जेनो अरधो भाग थइ शके तेवुं) छे, के अनर्थ (जेनो अरधो भाग न थइ
शके तेवुं) छे ? [उ०] हे गौतम ! ते सार्ध नथी, पण अनर्थ छे.

द्विप्रदेशिकादि
रन्ध

८५. [प्र०] हे भगवन् ! शुं वे प्रदेशवाळो स्कंध सार्ध छे के अनर्थ छे ? [उ०] हे गौतम ! ते *सार्ध छे, पण अनर्थ नथी.
ए रीते परमाणुपुद्गलनी पेठे त्रण प्रदेशवाळो स्कंध, वे प्रदेशवाळा स्कंधनी पेठे चार प्रदेशवाळो स्कंध, त्रण प्रदेशवाळानी पेठे पांच
प्रदेशवाळो स्कंध, वे प्रदेशवाळानी पेठे छ प्रदेशवाळो स्कंध, त्रण प्रदेशवाळानी पेठे सात प्रदेशवाळो स्कंध, वे प्रदेशवाळानी पेठे आठ
प्रदेशवाळो स्कंध, त्रण प्रदेशवाळानी पेठे नव प्रदेशवाळो स्कंध अने वे प्रदेशवाळानी पेठे दश प्रदेशवाळो स्कंध समजवो.

८६. [प्र०] हे भगवन् ! शुं संख्यातप्रदेशवाळो स्कंध सार्ध छे के अनर्थ छे ? [उ०] हे गौतम ! ते कदाच सार्ध छे अने
कदाच अनर्थ छे. ए प्रमाणे असंख्यात प्रदेशवाळा तथा अनंत प्रदेशवाळा स्कंध संबधे पण समजवुं.

८५. * सम—बेकी सरखावाळा प्रदेशोना जे स्कंधो छे ते सार्ध छे, कारण के तेना सरखा वे अर्थ भाग थइ शके छे. अने विपम—एकी सख्यावाळा
प्रदेशोना जे रन्धो छे ते अनर्थ छे, कारण के तेना सरखा वे अर्थ भाग थइ शकता नथी.

८७. [प्र०] परमाणुपोग्गला णं भंते ! किं सद्धा, अणह्वा ? [उ०] गोयमा ! सद्धा वा, अणह्वा वा । एवं जाव-अणंतपएसिया ।

८८. [प्र०] परमाणुपोग्गले णं भंते ! किं सेय, निरेय ? [उ०] गोयमा ! सिय सेय, सिय निरेय । एवं जाव-अणंत-पएसिया ।

८९. [प्र०] परमाणुपोग्गला णं भंते ! किं सेया, निरेया ? [उ०] गोयमा ! सेया वि, निरेया वि । एवं जाव-अणंतप-एसिया ।

९०. [प्र०] परमाणुपुग्गले णं भंते ! सेय कालओ केवचिरं होइ ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं आवलियाए असंखेज्जइमागं ।

९१. [प्र०] परमाणुपोग्गले णं भंते ! निरेय कालओ केवचिरं होइ ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं । एवं जाव-अणंतपएसिया ।

९२. [प्र०] परमाणुपोग्गला णं भंते ! सेया कालओ केवचिरं होन्ति ? [उ०] गोयमा ! सच्चद्धं ।

९३. [प्र०] परमाणुपोग्गला णं भंते ! निरेया कालओ केवचिरं हौंति ? [उ०] गोयमा ! सच्चद्धं । एवं जाव-अणंत-पएसिया ।

९४. [प्र०] परमाणुपोग्गलस्स णं भंते ! सेयस्स केवतियं कालं अंतरं होइ ? [उ०] गोयमा ! सट्ठाणंतरं पडुच्च जह-न्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं; परट्ठाणंतरं पडुच्च जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं ।

८७. [प्र०] हे भगवन् ! श्रुं परमाणुपुद्गलो सार्धं छे के अनर्धं छे ? [उ०] हे गौतम ! ते *सार्धं पणं छे अने अनर्धं पणं छे. ए प्रमाणे यावत्-अनंत प्रदेशवाळा स्कंधो सुधी समजवुं.

८८. [प्र०] हे भगवन् ! श्रुं परमाणुपुद्गलं संकंपं छे के निष्कंपं छे ? [उ०] हे गौतम ! ते कदाच संकंपं छे अने कदाच निष्कंपं पणं छे. ए प्रमाणे यावत्-अनंतप्रदेशिक स्कंधं सुधी जाणवुं.

८९. [प्र०] हे भगवन् ! श्रुं परमाणुपुद्गलो संकंपं छे के निष्कंपं छे ? [उ०] हे गौतम ! ते संकंपं पणं छे अने निष्कंपं पणं छे. ए प्रमाणे यावत्-अनंत प्रदेशवाळा स्कंधो सुधी समजवुं.

९०. [प्र०] हे भगवन् ! परमाणुपुद्गलं केटला कालं सुधी संकंपं रहे ? [उ०] हे गौतम ! ते (परमाणुपुद्गलं) जघन्य एक समयं सुधी अने उत्कृष्ट आवलिकाणा असंख्यातमा भागं सुधी संकंपं रहे.

९१. [प्र०] हे भगवन् ! परमाणुपुद्गलं केटला कालं सुधी निष्कंपं रहे ? [उ०] हे गौतम ! परमाणुपुद्गलं जघन्य एक समयं अने उत्कृष्ट असंख्याता कालं सुधी निष्कंपं रहे. ए प्रमाणे यावत्-अनंतप्रदेशिक स्कंधं सुधी जाणवुं.

९२. [प्र०] हे भगवन् ! परमाणुपुद्गलो केटला कालं सुधी कंपायमानं रहे ? [उ०] हे गौतम ! परमाणुपुद्गलो सदा कालं कंपायमानं रहे.

९३. [प्र०] हे भगवन् ! परमाणुपुद्गलो केटलो कालं निष्कंपं रहे ? [उ०] हे गौतम ! सदा कालं निष्कंपं रहे. ए प्रमाणे यावत्-अनंतप्रदेशवाळा स्कंधो सुधी जाणवुं.

९४. [प्र०] हे भगवन् ! संकंपं परमाणुपुद्गलने केटला कालं अंतरं होय ? अर्थात् पोटानी कंपायमानं अवस्थायी बंधं पटी पाळो केटले काले कंपे ? [उ०] हे गौतम ! †स्वस्थानने आश्रयी जघन्य एक समयं अने उत्कृष्ट असंख्यं कालं अंतरं होय. परस्थानने आश्रयी जघन्य एक समयं अने उत्कृष्ट असंख्यं कालं अंतरं होय.

८७ * ज्यारे घणा परमाणुओ समसख्यावाळा होय छे ल्यारे ते सार्धं अने विपमसख्यावाळा होय छे ल्यारे अनर्धं कहेवाय छे, कारण के सघात-परस्पर मळवाथी अने भेद-जुदा पडवाथी तेनी सख्या अवस्थित होती नथी, तेथी ते वज्जे रूपे छे

९४ † परमाणु परमाणुअवस्थामां-स्कन्धथी विद्युत्कावस्थामा होय ल्यारे स्वस्थानं कहेवाय छे, अने ज्यारे स्कन्धावस्थामा होय छे ल्यारे परस्थानं कहेवाय छे तेमा एक परमाणु एकसमयं पर्यन्त चलनक्रियाथी बन्धं पटी फरी चाले ल्यारे स्वस्थानने आश्रयी जघन्यथी एक समयं अंतरं होय छे, अने उत्कृष्टथी ते परमाणु असंख्यात कालं पर्यन्त कोइ स्थळे स्थिरं रहीने पुनः चाले ल्यारे असंख्यात कालं अंतरं होय छे ज्यारे परमाणु द्विप्रदेशादिक स्कन्धना अन्तर्गतं होय अने जघन्यथी एक समयं चलनक्रियाथी निवृत्तं थईने पुनः चाले ल्यारे परस्थानने आश्रयी जघन्य एक समयं अंतरं होय पण ज्यारे ते परमाणु असंख्यात कालं पर्यन्त द्विप्रदेशादिक स्कन्धघरे रहीने पुनः ते स्कन्धथी जुदो पटीने चाले ल्यारे परस्थानने आश्रयी उत्कृष्ट असंख्यात कालं अंतरं होय छे.

सकंप अने निष्कंप

परमाणुनी मकपाव-स्थानो काळ.

परमाणुनी निष्कंप-नानो काळ.

परमाणुओनी निष्कंप-पनानो काळ

मकप परमाणुं-अंतर.

९५. [प्र०] निर्येस्स केवतियं कालं अंतरं होइ ? [उ०] गोयमा ! सट्टाणंतरं पडुच्च जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं आवलियाए असंखेज्जभागं; परट्टाणंतरं पडुच्च जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं ।

९६. [प्र०] डुपपसियस्स णं भंते ! संधस्स सेयस्स पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सट्टाणंतरं पडुच्च जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं अणंतं कालं । [प्र०] निर्येस्स केवतियं कालं अंतरं होइ ? [उ०] गोयमा ! सट्टाणंतरं पडुच्च जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं आवलियाए असंखेज्जभागं; परट्टाणंतरं पडुच्च जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं अणंतं कालं । एवं जाव-अणंतपपसियस्स ।

९७. [प्र०] परमाणुपोग्गलाणं भंते ! सेयाणं केवतियं कालं अंतरं होइ ? [उ०] गोयमा ! नत्तिय अंतरं । [प्र०] निर्याणं केवतियं कालं अंतरं होइ ? [उ०] गोयमा ! नत्तिय अंतरं । एवं जाव-अणंतपपसियाणं संघाणं ।

९८. [प्र०] एपसि णं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं सेयाणं, निर्याणं य कयरे कयरेदित्तो जाव-विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! सद्यत्थोवा परमाणुपोग्गला सेया, निर्या असंखेज्जगुणा, एवं जाव-असंखिज्जपपसियाणं संघाणं ।

९९. [प्र०] एपसि णं भंते ! अणंतपपसियाणं संघाणं सेयाणं, निर्याणं य कयरे कयरे जाव-विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! सद्यत्थोवा अणंतपपसिया संघा निर्या, सेया अणंतगुणा ।

१००. [प्र०] एपसि णं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं संखेज्जपपसियाणं, असंखेज्जपपसियाणं, अणंतपपसियाणं य संघाणं सेयाणं निर्याणं य दद्यट्टयाए पपसट्टयाए दद्यट्टपपसट्टयाए कयरे कयरे जाव-विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! सद्यत्थोवा

परमाणु
अन्तर

९५. [प्र०] हे भगवन् ! निष्कंप परमाणुपुद्गलं केटला काळं अंतरं होय ?—निष्कंप परमाणुपुद्गलं कर्पांने पाठो केटले काळे निष्कंप वाय ? [उ०] हे गौतम ! स्वस्थानने आश्रयी जघन्य एक समयं अने उत्कृष्ट आवलिकाना असंख्य भागं तथा परस्थानने आश्रयी जघन्य एक समयं अने उत्कृष्ट असंख्य काळं अंतरं होय.

अने निष्कम्प
शिकादि स्कं
रतु अन्तर
द्विप्रदेशि
दि स्कन्धनु
अन्तर

९६. [प्र०] हे भगवन् ! सकम्प वे प्रदेशवाळा स्कंधने केटला काळं अंतरं होय ? [उ०] हे गौतम ! स्वस्थाननी अपेक्षाए जघन्य एक समयं अने उत्कृष्ट असंख्यात काळं तथा परस्थाननी अपेक्षाए जघन्य एक समयं अने उत्कृष्ट अनंत काळं अंतरं होय. [प्र०] हे भगवन् ! वे प्रदेशवाळा निष्कंप स्कंधने केटला काळं अंतरं होय ? [उ०] हे गौतम ! स्वस्थाननी अपेक्षाए जघन्य एक समयं अने उत्कृष्ट आवलिकाना असंख्य भागं तथा परस्थाननी अपेक्षाए जघन्य एक समयं अने उत्कृष्ट अनंत काळं अंतरं होय. ए प्रमाणे यावत्-अनंतप्रदेशिक स्कंध सुधी जाणुं.

परमाणुओतु
अन्तर

९७. [प्र०] हे भगवन् ! सकम्प परमाणुपुद्गलोतुं केटला काळं अंतरं होय ? [उ०] हे गौतम ! त्तिओतुं अंतरं नथी. [प्र०] निष्कंप परमाणुपुद्गलोतुं केटलं अंतरं होय ? [उ०] हे गौतम ! अंतरं नथी. ए प्रमाणे यावत्-अनंतप्रदेशिक स्कंधो सुधी जाणुं.

अने निष्कम्प
ओतु अरण
बहुत्व

९८. [प्र०] हे भगवन् ! पूर्वोक्त सकंप अने निष्कंप परमाणुपुद्गलोमां कया परमाणुपुद्गलो कोनाथी यावत्-विशेषाधिक होय छे ? [उ०] हे गौतम ! सकम्प परमाणुपुद्गलो सौथी थोडा छे, अने निष्कंप परमाणुपुद्गलो असंख्यातगुणा छे. ए प्रमाणे यावत्-असंख्यात प्रदेशवाळा स्कंधो सुधी जाणुं.

प्रदेशिक
स्कन्धो

अने निष्कम्प
प्रदेशिक

थोतु अप
बहुत्व

एवमहुत्व

९९. [प्र०] हे भगवन् ! ए पूर्वोक्त सकम्प अने निष्कंप अनंत प्रदेशवाळा स्कंधोमां कया स्कन्धो कोनाथी यावत्-विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! अनंत प्रदेशवाळा निष्कंप स्कंधो सौथी थोडा छे, अने तेथी अनंत प्रदेशवाळा सकंप स्कंधो अनंतगुण छे.

१००. [प्र०] हे भगवन् ! ए सकंप अने निष्कंप परमाणुपुद्गलो, संख्यात प्रदेशवाळा स्कंधो, असंख्यात प्रदेशवाळा स्कंधो अने अनंत प्रदेशवाळा स्कंधोमां द्रव्यार्थपणे, प्रदेशार्थपणे तथा द्रव्यार्थप्रदेशार्थपणे कया पुद्गलो कोनाथी यावत्-विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! १ अनंत प्रदेशवाळा निष्कंप स्कंधो द्रव्यार्थपणे सौथी थोडा छे. २ तेथी अनंत प्रदेशवाळा सकंप स्कंधो द्रव्यार्थपणे अनं-

९५ * ज्यारे परमाणु निश्चल-स्थिर थईने जघन्य एक समयं पर्यन्त परिभ्रमण करी पुन स्थिर थाय अने उत्कृष्ट आवलिकाना असंख्यातमा भागरूप असंख्य समयं पर्यन्त परिभ्रमण करी पुन स्थिर थाय लारे स्वस्थानने आश्रयी जघन्य समयं अने उत्कृष्ट आवलिकानो असंख्यातमा भाग अन्तर होय. परमाणु निश्चल थई पोताना स्थानथी चलित थाय अने जघन्य एक समयं पर्यन्त द्विप्रदेशादि स्कन्धरूपे रहीं पुनः निश्चल थाय अने उत्कृष्ट असंख्यात काळ सुधी द्विप्रदेशादि स्कन्धरूपे रही तेथी सुदो थईने स्थिर थाय लारे परस्थानने आश्रयी जघन्य अने उत्कृष्ट अन्तर होय.

९६ † द्विप्रदेशिक स्कन्ध चलित थईने अनन्त काळपर्यन्त उत्तरोत्तर थीजा अनन्त पुद्गलोनी साथे सवन्ध करतो पुन तेज परमाणुनी साथे सवद्ध थईने पुन चाले लारे परस्थानने आश्रयी उत्कृष्ट अनन्त काळं अन्तर होय—टीका

९७ ‡ सकम्प परमाणुपुद्गलो लोकमा सर्वदा विद्यमान होवाथी तेने विषे अन्तर होतु नथी

१०० ¶ परमाणुपुद्गलो, संख्यातप्रदेशिक, असंख्यातप्रदेशिक अने अनन्तप्रदेशिक स्कन्धोना सकंप अने निष्कम्प पसना द्रव्यार्थरूपे आठ विकल्प थाय छे, ए प्रमाणे प्रदेशार्थरूपे षण आठ विकल्प थाय छे उभयार्थरूपे चौद विकल्पो थाय छे, कारण के सकम्प अने निष्कम्प परमाणुओना द्रव्यार्थता अने प्रदेशार्थता पदने बद्धे द्रव्यार्थप्रदेशार्थता एव एकरूप पद कहेवुं. एटले सोळ विकल्पना चढले चौद विकल्पो थाय छे.

अणंतपपसिया खंधा निरेया दधट्टयाए १, अणंतपपसिया खंधा सेया दधट्टयाए अणंतगुणा २, परमाणुपोगला सेया दधट्टयाए अणंतगुणा ३, संखेज्जपपसिया खंधा सेया दधट्टयाए असंखेज्जगुणा ४, असंखेज्जपपसिया खंधा सेया दधट्टयाए असंखेज्जगुणा ५, परमाणुपोगला निरेया दधट्टयाए असंखेज्जगुणा ६, संखेज्जपपसिया खंधा निरेया दधट्टयाए संखेज्जगुणा ७, असंखेज्जपपसिया खंधा निरेया दधट्टयाए असंखेज्जगुणा ८। पपसट्टयाए एवं चेव । नवरं परमाणुपोगला अपपसट्टयाए भाणियत्ता । संखेज्जपपसिया खंधा निरेया पपसट्टयाए असंखेज्जगुणा; सेसं तं चेव । दधट्टपपसट्टयाए—सद्यत्थोवा अणंतपपसिया खंधा निरेया दधट्टयाए १, ते चेव पपसट्टयाए अणंतगुणा २, अणंतपपसिया खंधा सेया दधट्टयाए अणंतगुणा ३, ते चेव पपसट्टयाए अणंतगुणा ४, परमाणुपोगला सेया दधट्टापपसट्टयाए अणंतगुणा ५, संखेज्जपपसिया खंधा सेया दधट्टयाए असंखेज्जगुणा ६, ते चेव पपसट्टयाए असंखेज्जगुणा ७, असंखेज्जपपसिया खंधा सेया दधट्टयाए असंखेज्जगुणा ८, ते चेव पपसट्टयाए असंखेज्जगुणा ९, परमाणुपोगला निरेया दधट्टापपसट्टयाए असंखेज्जगुणा १०, संखेज्जपपसिया खंधा निरेया दधट्टयाए असंखेज्जगुणा ११, ते चेव पपसट्टयाए असंखेज्जगुणा १२, असंखेज्जपपसिया खंधा निरेया दधट्टयाए असंखेज्जगुणा १३, ते चेव पपसट्टयाए संखेज्जगुणा १४ ।

१०१. [प्र०] परमाणुपोगले णं भंते ! किं देसेए, सधेए, निरेए ? [उ०] गोयमा ! नो देसेए, सिय सधेए, सिय निरेए ।

१०२. [प्र०] दुपपसिए णं भंते ! खंधे—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय देसेए, सिय सधेए, सिय निरेए । एवं जाव—अणंतपपसिए ।

१०३. [प्र०] परमाणुपोगला णं भंते ! किं देसेया, सधेया, निरेया ? [उ०] गोयमा ! नो देसेया, सधेया वि निरेया वि ।

१०४. [प्र०] दुपपसिया णं भंते ! खंधा—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! देसेया वि, सधेया वि, निरेया वि । एवं जाव—अणंतपपसिया ।

तगुणा छे. ३ तेथी सकंप परमाणुपुद्गले द्रव्यार्थपणे अनंतगुणां छे. ४ तेथी संख्यात प्रदेशवाळा सकंप स्कंधो द्रव्यार्थपणे असंख्यातगुणा छे. ५ तेथी असंख्यात प्रदेशवाळा सकंप स्कंधो द्रव्यार्थपणे असंख्यातगुणां छे. ६ तेथी निष्कंप परमाणुपुद्गले द्रव्यार्थपणे असंख्यातगुणां छे. ७ तेथी संख्यात प्रदेशवाळा निष्कंप स्कंधो द्रव्यार्थपणे संख्यातगुणां छे. ८ तेथी असंख्यात प्रदेशवाळा निष्कंप स्कंधो द्रव्यार्थपणे असंख्यातगुणा छे. प्रदेशार्थपणे पण एज रीते आठ विकल्पो जाणवा. विशेष ए के, परमाणुपुद्गले (प्रदेशार्थने वदले) अप्रदेशार्थपणे कहेवां. संख्यात प्रदेशवाळा निष्कंप स्कंधो प्रदेशार्थपणे असंख्यातगुणा छे. वाकी वधुं तेज प्रमाणे समजतुं. द्रव्यार्थ—प्रदेशार्थपणे—१ अनंतप्रदेशवाळा निष्कंप स्कंधो द्रव्यार्थपणे सौथी थोडा छे. २ अने तेज स्कंधो प्रदेशार्थपणे अनंतगुणा छे. ३ अनंत प्रदेशवाळा सकंप स्कंधो द्रव्यार्थपणे अनंतगुणा छे. ४ अने तेज स्कंधो प्रदेशार्थपणे अनंतगुणा छे. ५ सकंप परमाणुपुद्गले द्रव्यार्थ—अप्रदेशार्थपणे अनंतगुणा छे. ६ संख्यात प्रदेशवाळा सकंप स्कंधो द्रव्यार्थपणे असंख्यातगुणा छे. ७ अने तेज स्कंधो प्रदेशार्थपणे असंख्यातगुणा छे. ८ असंख्यात प्रदेशवाळा सकंप स्कंधो द्रव्यार्थपणे असंख्यातगुणा छे. ९ अने तेज स्कंधो प्रदेशार्थपणे असंख्यातगुणा छे. १० निष्कंप परमाणुपुद्गले द्रव्यार्थ—अप्रदेशार्थपणे असंख्यातगुणां छे. ११ संख्यात प्रदेशवाळा निष्कंप स्कंधो द्रव्यार्थपणे असंख्यातगुणा छे. १२ अने तेज स्कंधो प्रदेशार्थपणे असंख्यातगुणा छे. १३ असंख्य प्रदेशवाळा निष्कंप स्कंधो द्रव्यार्थपणे असंख्यातगुणा छे. १४ अने तेज स्कंधो प्रदेशार्थपणे असंख्यातगुणा छे.

१०१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परमाणुपुद्गल अमुक अंशे कंप्पे छे, सर्व अंशे कंप्पे छे, के निष्कंप छे ? [उ०] हे गौतम ! ते अमुक अंशे कंप्पतो नथी, पण कदाच सर्व अंशे कंप्पे छे अने कदाच निष्कंप रहे छे.

१०२. [प्र०] हे भगवन् ! शुं द्विप्रदेशिक स्कंध अमुक अंशे कंप्पे छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कदाच अमुक अंशे कंप्पे छे, कदाच सर्व अंशे कंप्पे छे अने कदाच निष्कंप पण रहे छे. ए प्रमाणे यावत्—अनंत प्रदेशवाळा स्कंध सुधी जाणवुं.

१०३. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परमाणुपुद्गले अमुक अंशे कंप्पे छे, सर्व अंशे कंप्पे छे के निष्कंप रहे छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ अमुक अंशे कंप्पता नथी, पण सर्व अंशे कंप्पे छे अने निष्कंप पण रहे छे.

१०४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं द्विप्रदेशिक स्कंधो अमुक अंशे कंप्पे छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! तेओ अमुक अंशे कंप्पे छे, सर्व अंशे पण कंप्पे छे अने निष्कंप पण रहे छे. ए प्रमाणे यावत्—अनंत प्रदेशवाळा स्कंध सुधी जाणवुं.

परमाणुनो वन्

द्विप्रदेशिकादि स्कंधो वन्.

परमाणुनो वन्.

द्विप्रदेशिकादि स्कंधो वन्.

१०० * द्रव्यार्थतासूत्रने विषे संख्यातप्रदेशिक निष्कंप स्कंधो निष्कम्प परमाणुओधी संख्यातगुणा कया, अने प्रदेशार्थतासूत्रमां ते परमाणुओ करता ते स्कंधो असंख्यात गुणा कया, तेसु कारण ए छे के निष्कम्प परमाणुओधी निष्कम्प संख्यातप्रदेशिक स्कंधो द्रव्यार्थपणे संख्यातगुणा होय छे, अने तेमाना घणा स्कंधोमा उच्छेद संख्यावाळा प्रदेशो होवाथी निष्कम्प परमाणुओधी प्रदेशार्थरूपे असंख्यातगुणा होय छे. केमके उच्छेद संख्यामां एक संख्या उनेरतां असंख्यात थाय छे

१०५. [प्र०] परमाणुपोग्गले णं भंते ! सद्येण कालओ केवचिरं होद ? [उ०] गोयमा ! जह्मेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं आवलियाए असंखेज्जभागं ।

१०६. [प्र०] निरेये कालओ केवचिरं होद ? [उ०] गोयमा ! जह्मेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं ।

१०७. [प्र०] दुप्पसिया णं भंते ! गंधे देसेए कालओ केवचिरं होद ? [उ०] गोयमा ! जह्मेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं आवलियाए असंखेज्जभागं ।

१०८. [प्र०] सद्येण कालओ केवचिरं होद ? [उ०] गोयमा ! जह्मेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं आवलियाए असंखेज्जभागं ।

१०९. [प्र०] निरेए कालओ केवचिरं होद ? [उ०] गोयमा ! जह्मेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं । एवं जाव-अणंतपप्पसिया ।

११०. [प्र०] परमाणुपोग्गला णं भंते ! सद्येया कालओ केवचिरं होति ? [उ०] गोयमा ! सद्यं ।

१११. [प्र०] निरेया कालओ केवचिरं होति ? [उ०] सद्यं ।

११२. [प्र०] दुप्पसिया णं भंते ! रंधा देसेया कालओ केवचिरं ? [उ०] सद्यं ।

११३. [प्र०] सद्येया कालओ केवचिरं ? [उ०] सद्यं ।

११४. [प्र०] निरेया कालओ केवचिरं ? [उ०] सद्यं । एवं जाव-अणंतपप्पसिया ।

११५. [प्र०] परमाणुपोग्गलस्स णं भंते ! सद्येयस्स केवतियं कालं अंतरं होद ? [उ०] गोयमा ! सट्ठाणंतरं पटुच्च जह्मेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं; परट्ठाणंतरं पटुच्च जह्मेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं एवं चेय ।

११६. [प्र०] निरेयस्स केवतियं अंतरं होद ? [उ०] सट्ठाणंतरं पटुच्च जह्मेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं आवलियाए असंखेज्जभागं; परट्ठाणंतरं पटुच्च जह्मेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं ।

परमाणुना कपननो काळ

१०५. [प्र०] हे भगवन् ! परमाणुपुद्गल केटला वखत सुधी सर्व अंशे कंप्पे ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य एक समय सुधी अने उच्छ्रित आवलिकाना असंख्यातमा भाग सुधी संकंप होय.

परमाणुना अकपननो काळ

१०६. [प्र०] ते केटला वखत सुधी निष्कंप रहे ? [उ०] हे गौतम ! जघन्यपी एक समय सुधी अने उच्छ्रित अमंख्यान काळ सुधी निष्कंप रहे.

द्विप्रदेशिकादि स्कंधनो देशकपनकाळ

१०७. [प्र०] हे भगवन् ! द्विप्रदेशिक स्कंध केटला काळ सुधी देशपी-अमुक अंशे कंप्पे ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य एक समय सुधी अने उच्छ्रित आवलिकाना असंख्यातमा भाग सुधी देशपी कंप्पे.

सर्वकपनकाळ

१०८. [प्र०] हे भगवन् ! ते केटला वखत सुधी सर्व अंशे कंप्पे ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य एक समय अने उच्छ्रित आवलिकाना असंख्यातमा भाग सुधी सर्व अंशे कंप्पे.

निकपनकाळ

१०९. [प्र०] हे भगवन् ! ते केटला काळ सुधी निष्कंप रहे ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य एक समय सुधी अने उच्छ्रित अमंख्यान काळ सुधी निष्कंप रहे. ए प्रमाणे यावत्-अनंतप्रदेशिक स्कंध सुधी जाणवुं.

परमाणुओनो कपनकाळ

११०. [प्र०] हे भगवन् ! परमाणुपुद्गलो केटला काळ सुधी सर्व अंशे कंप्पे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ सदा काळ कंप्पे.

निष्कपनकाळ द्विप्रदेशिकादि स्कंधनो देशकपनकाळ

१११. [प्र०] हे भगवन् ! तेओ केटला काळ सुधी निष्कंप रहे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ वधो काळ निष्कंप रहे.

११२. [प्र०] हे भगवन् ! वे प्रदेशवाळा स्कंधो केटला वखत सुधी देशपी कंप्पे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ वधो काळ देशपी कंप्पे.

११३. [प्र०] तेओ केटला वखत सुधी सर्व अंशे कंप्पे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ वधो काळ सर्व अंशे कंप्पे.

११४. [प्र०] तेओ केटला वखत सुधी निष्कंप रहे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ वधो काळ निष्कंप रहे. ए प्रमाणे यावत्-अनंत प्रदेशवाळा स्कंधो सुधी जाणवुं.

सर्वकपनकाळ अकपनकाळ

११५. [प्र०] हे भगवन् ! सर्वांगे संकंप परमाणुपुद्गलं केटला काळं अंतरं होय ? [उ०] हे गौतम ! स्वस्थानने आश्रयी जघन्य एक समयं अने उच्छ्रित असंख्यात काळं अंतरं होय. तथा परस्थाननी अपेक्षाए जघन्य एक समयं अने उच्छ्रित असंख्यात काळं अंतरं होय.

सर्वांगे संकंप परमाणु अंतर

११६. [प्र०] हे भगवन् ! निष्कंप परमाणुपुद्गलं केटला काळं अंतरं होय ? [उ०] हे गौतम ! स्वस्थानने आश्रयी जघन्य एक समयं अने उच्छ्रित आवलिकाना असंख्यातमा भागं अंतरं होय. तथा परस्थानने आश्रयी जघन्य एक समयं अने उच्छ्रित असंख्यात काळं अंतरं होय.

निकप परमाणु अंतर

११७. [प्र०] दुपपसियस्स णं भंते ! खंधस्स देसेयस्स केवतियं कालं अंतरं होइ ? [उ०] सट्ठणंतरं पडुच्च जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं; परट्ठणंतरं पडुच्च जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अणंतं कालं ।

११८. [प्र०] सट्ठेयस्स केवतियं कालं ? [उ०] एवं चेव जहा देसेयस्स ।

११९. [प्र०] निरेयस्स केवतियं ? [उ०] सट्ठणंतरं पडुच्च जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं आवलियाए असंखेज्जइ-भागं, परट्ठणंतरं पडुच्च जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अणंतं कालं । एवं जाव-अणंतपपसियस्स ।

१२०. [प्र०] परमाणुपोग्गलाणं भंते ! सट्ठेयाणं केवतियं कालं अंतरं होइ ? [उ०] नत्थि अंतरं ।

१२१. [प्र०] निरेयाणं केवतियं ? [उ०] नत्थि अंतरं ।

१२२. [प्र०] दुपपसियाणं भंते ! खंधाणं देसेयाणं केवतियं कालं ? [उ०] नत्थि अंतरं ।

१२३. [प्र०] सट्ठेयाणं केवतियं कालं ? [उ०] नत्थि अंतरं ।

१२४. [प्र०] निरेयाणं केवतियं कालं ? [उ०] नत्थि अंतरं । एवं जाव-अणंतपपसियाणं ।

१२५. [प्र०] पपसि णं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं सट्ठेयाणं निरेयाणं य कयरे कयरे० जाव-विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! सट्ठत्थोवा परमाणुपोग्गला सट्ठेया, निरेया असंखेज्जगुणा ।

१२६. [प्र०] पपसि णं भंते ! दुपपसियाणं खंधाणं देसेयाणं, सट्ठेयाणं, निरेयाणं य कयरे कयरे० जाव-विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! सट्ठत्थोवा दुपपसिया खंधा सट्ठेया, देसेया असंखेज्जगुणा, निरेया असंखेज्जगुणा । एवं जाव-असंखेज्जपपसियाणं खंधाणं ।

११७. [प्र०] हे भगवन् ! अंशतः सकंप द्विप्रदेशिक स्कंधने केटला काळनुं अंतर होय ? [उ०] हे गौतम ! स्वस्थाननी अपेक्षाए जघन्य एक समयनुं, अने उत्कृष्ट असंख्यात काळनुं अंतर होय; तथा परस्थाननी अपेक्षाए जघन्य एक समय अने उत्कृष्ट अनंत काळनुं अंतर होय.

देशयी सकंप
द्विप्रदेशिक
अंतर

११८. [प्र०] हे भगवन् ! सर्व अंशे सकंप द्विप्रदेशिक स्कंधने केटला काळनुं अंतर होय ? [उ०] हे गौतम ! देशयी-अमुक अंशे सकंप द्विप्रदेशिक स्कंधनी पेठे तेनुं अंतर जाणनुं.

सर्वसकंप द्विप्रदेशिक
स्कंधनुं अंतर

११९. [प्र०] हे भगवन् ! निष्कंप द्विप्रदेशिक स्कंधने केटला काळनुं अंतर होय ? [उ०] हे गौतम ! स्वस्थाननी अपेक्षाए जघन्य एक समयनुं अने उत्कृष्ट आवलिकाना असख्यातमा भागनुं, तथा परस्थाननी अपेक्षाए जघन्य एक समयनुं अने उत्कृष्ट अनंत काळनुं अंतर होय. ए प्रमाणे यावत्-अनंतप्रदेशिक स्कंध सुधी जाणनुं.

निष्कंप द्विप्रदेशिक
अंतर

१२०. [प्र०] हे भगवन् ! सर्वांशे सकंप परमाणुपुद्गलोने केटला काळनुं अंतर होय ? [उ०] हे गौतम ! तेओने अंतर नयी.

सकंप परमाणु
अंतर.

१२१. [प्र०] हे भगवन् ! निष्कंप परमाणुपुद्गलोने केटला काळनुं अंतर होय ? [उ०] हे गौतम ! तेओनुं अंतर नयी.

असकंप परमाणु
अंतर

१२२. [प्र०] हे भगवन् ! अमुक अंशे सकंप द्विप्रदेशिक स्कंधोने केटला काळनुं अंतर होय ? [उ०] हे गौतम ! तेओने अंतर नयी.

अमुक सकंप
द्विप्रदेशिक
अंतर.

१२३. [प्र०] हे भगवन् ! सर्वांशे सकंप द्विप्रदेशिक स्कंधोने केटला काळनुं अंतर होय ? [उ०] हे गौतम ! तेओने अंतर नयी.

सर्वसकंप द्विप्रदेशिक
स्कंधोने
अंतर

१२४. [प्र०] हे भगवन् ! निष्कंप द्विप्रदेशिक स्कंधोने केटला काळनुं अंतर होय ? [उ०] हे गौतम ! तेओने अंतर नयी, ए प्रमाणे यावत्-अनंत प्रदेशवाळा स्कंधो सुधी समजनुं.

निष्कंप द्विप्रदेशिक
स्कंधोने
अंतर

१२५. [प्र०] हे भगवन् ! सकंप अने निष्कंप ए परमाणुपुद्गलोमा कया परमाणुपुद्गलो कोनाथी यावत्-विशेषाधिक होय ? [उ०] हे गौतम ! सकंप परमाणुपुद्गलो सौथी थोडा छे, अने तेथी निष्कंप परमाणुपुद्गलो असख्यातगुणा छे.

सकंप अने निष्कंप
परमाणुपुद्गलो
कया
विशेषाधिक

१२६. [प्र०] हे भगवन् ! ए अशतः सकंप, सर्वांशे सकंप अने अकंप द्विप्रदेशिक स्कंधोमा कया स्कंधो कोनाथी यावत्-विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! सर्वांशे सकंप द्विप्रदेशिक स्कंधो सौथी थोडा छे, तेथी अंगतः सकंप द्विप्रदेशिक स्कंधो असंख्यातगुणा छे अने तेथी अकंप द्विप्रदेशिक स्कंधो असंख्यातगुणा छे. ए प्रमाणे यावत्-असंख्यातप्रदेशिक स्कंधो सुधी जाणनुं.

अशत सकंप अने निष्कंप
द्विप्रदेशिक स्कंधोमा
कया स्कंधो कोनाथी
यावत्-विशेषाधिक

૧૨૭. [પ્ર૦] યસિ પં મંતે ! અણંતપસિયાણં સંધાણં દેસેયાણં, સઘેયાણં, નિરેયાણ ય કયરં કયરે૦ જાય-ચિસે-સાહિયા વા ? [૩૦] ગોયમા ! સઘત્યોવા અણંતપસિયા સંધા સઘેયા, નિરેયા અણંતગુણા, દેસેયા અણંતગુણા ।

૧૨૮. [પ્ર૦] યસિ પં મંતે ! પરમાણુપોગલાણં સંગેજ્જપસિયાણં, અસંગેજ્જપમિયાણં, અણંતપસિયાણ ય ગંધ્રાણં દેસેયાણં, સઘેયાણં, નિરેયાણં દઘટ્ટયાપ, પપસટ્ટયાપ, દઘટ્ટપપસટ્ટયાપ કયરે કયરે-જાય-ચિસેસાહિયા વા ? [૩૦] ગોયમા ! સઘત્યોવા અણંતપસિયા સંધા સઘેયા દઘટ્ટયાપ ૧, અણંતપસિયા સંધા નિરેયા દઘટ્ટયાપ અણંતગુણા ૨, અણંતપમિયા સંધા દેસેયા દઘટ્ટયાપ અણંતગુણા ૩, અસંગેજ્જપસિયા સંધા સઘેયા દઘટ્ટયાપ અસંગેજ્જગુણા ૪, સંગેજ્જપસિયા સંધા સઘેયા દઘટ્ટયાપ અસંગેજ્જગુણા ૫, પરમાણુપોગલા સઘેયા દઘટ્ટયાપ અસંગેજ્જગુણા ૬, સંગેજ્જપસિયા સંધા દેસેયા દઘટ્ટયાપ અસંગેજ્જગુણા ૭, અસંગેજ્જપસિયા સંધા દેસેયા દઘટ્ટયાપ અસંગેજ્જગુણા ૮, પરમાણુપોગલા નિરેયા દઘટ્ટયાપ અસંગેજ્જગુણા ૯, સંગેજ્જપસિયા સંધા નિરેયા દઘટ્ટયાપ સંગેજ્જગુણા ૧૦, અસંગેજ્જપસિયા સંધા નિરેયા દઘટ્ટયાપ અસંગેજ્જગુણા ૧૧ । પદેસટ્ટયાપ-સઘત્યોવા અણંતપદેસિયા૦ । યં પપસટ્ટયાપ ચિ । નયરં પરમાણુપોગલા અપપસટ્ટયાપ ધાગિયઘા । સંગેજ્જપસિયા સંધા નિરેયા પપસટ્ટયાપ અસંગેજ્જગુણા; સેસં તં ચેવ । દઘટ્ટપપસટ્ટયાપ-સઘત્યોવા અણંતપસિયા સંધા સઘેયા દઘટ્ટયાપ ૧, તે ચેવ પપસટ્ટયાપ અણંતગુણા ૨, અણંતપસિયા સંધા નિરેયા દઘટ્ટયાપ અણંતગુણા ૩, તે ચેવ પપસટ્ટયાપ અણંતગુણા ૪, અણંતપસિયા સંધા દેસેયા દઘટ્ટયાપ અણંતગુણા ૫, તે ચેવ પપસટ્ટયાપ અણંતગુણા ૬, અસંગેજ્જપસિયા સંધા સઘેયા દઘટ્ટયાપ અણંતગુણા ૭, તે ચેવ પપસટ્ટયાપ અસંગેજ્જગુણા ૮, સંગેજ્જપસિયા સંધા સઘેયા દઘટ્ટયાપ અસંગેજ્જગુણા ૯, તે ચેવ પપસટ્ટયાપ અસંગેજ્જગુણા ૧૦, પરમાણુપોગલા સઘેયા દઘટ્ટપપસટ્ટયાપ અસંગેજ્જગુણા ૧૧, સંગેજ્જપસિયા સંધા દેસેયા દઘટ્ટયાપ અસંગેજ્જગુણા ૧૨, તે ચેવ પપસટ્ટયાપ સંગેજ્જગુણા ૧૩, અસંગેજ્જપસિયા સંધા દેસેયા દઘટ્ટયાપ અસંગેજ્જગુણા ૧૪, તે ચેવ પપસટ્ટયાપ અસંગેજ્જગુણા ૧૫, પરમાણુપોગલા નિરેયા દઘટ્ટપપસટ્ટયાપ અસંગે-

અન્નવપદેશિકર્ત્ત
અસ્વદુલ્લ

૧૨૭. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! અશતઃ સકંપ, સર્વાંશ સકંપ અને અકંપ અનંત પ્રદેશિક સ્કંધોનાં કયા સ્કન્ધો કોનાર્થી યાવત્-ત્રિશેષાધિક છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! સર્વાંશ સકંપ અનંતપ્રદેશિક સ્કંધો સૌથી ઘોટા છે, તેથી નિષ્કંપ અનંત પ્રદેશિક સ્કંધો અનંતગુણા છે, અને તેથી અંશતઃ સકંપ અનંતપ્રદેશિક સ્કંધો પણ અનંતગુણા છે.

૧૨૮. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! અશતઃ સકંપ, સર્વાંશ સકંપ અને નિષ્કંપ પરમાણુપુદ્ગલોના સંહ્યાત પ્રદેશિક સ્કંધો, અસંહ્યાત પ્રદેશિક સ્કંધો તથા અનંતપ્રદેશિક સ્કંધોમા દ્રવ્યાર્થપણે, પ્રદેશાર્થપણે અને દ્રવ્યાર્થ-પ્રદેશાર્થપણે કયા સ્કન્ધો કોનાર્થી યાવત્-ત્રિશેષાધિક છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! ૧ સર્વાંશ સકંપ અનંતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે સૌથી ઘોટા છે. ૨ નિષ્કંપ અનંતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે અનંતગુણા છે. ૩ અંશતઃ સકંપ અનંત પ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે અનંતગુણા છે. ૪ સર્વાંશ સકંપ અસંહ્યાતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે અસંહ્યાતગુણ છે. ૫ સર્વાંશે સકંપ સંહ્યાતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે અનંતગુણા છે. ૬ સર્વાંશે સકંપ પરમાણુપુદ્ગલો દ્રવ્યાર્થપણે અસંહ્યાતગુણા છે. ૭ અંશત સકંપ સંહ્યાતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે અસંહ્યાતગુણા છે. ૮ અંશતઃ સકંપ અસંહ્યાતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે અસંહ્યાતગુણા છે. ૯ નિષ્કંપ પરમાણુપુદ્ગલો દ્રવ્યાર્થપણે અનંતગુણા છે. ૧૦ નિષ્કંપ સંહ્યાતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે સંહ્યાતગુણા છે. ૧૧ નિષ્કંપ અસંહ્યાતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે અસંહ્યાતગુણા છે. પ્રદેશાર્થપણે-સર્વાંશે સકંપ અનંતપ્રદેશિક સ્કંધો પ્રદેશાર્થપણે સૌથી ઘોટા છે. ૧ પ્રમાણે પ્રદેશાર્થપણે પણ જાણવું. ત્રિશેષ ૧ કે, પરમાણુપુદ્ગલો અપ્રદેશાર્થપણે કહેવા. સંહ્યાતપ્રદેશિક નિષ્કંપ સ્કંધો પ્રદેશાર્થપણે અસંહ્યાતગુણા છે. બાકી ઘણું તેજ પ્રમાણે જાણવું. દ્રવ્યાર્થપ્રદેશાર્થપણે—૧ સર્વાંશે સકંપ અનંતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે સૌથી ઘોટા છે. ૨ અને તેજ સ્કંધો પ્રદેશાર્થપણે અનંતગુણા છે. ૩ અનંતપ્રદેશિક નિષ્કંપ સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે અનંતગુણા છે. અને ૪ તેજ સ્કંધો પ્રદેશાર્થપણે અનંતગુણા છે. ૫ અંશતઃ સકંપ અનંતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે અનંતગુણા છે. ૬ અને તેજ સ્કંધો પ્રદેશાર્થપણે અનંતગુણા છે. ૭ સર્વાંશે સકંપ અસંહ્યાતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે અનંતગુણા છે. ૮ અને તેજ પ્રદેશાર્થપણે અસંહ્યાતગુણા છે. ૯ સર્વાંશે સકંપ સંહ્યાતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે અસંહ્યાતગુણા છે. ૧૦ અને તેજ સ્કંધો પ્રદેશાર્થપણે સંહ્યાતગુણા છે. ૧૧ સર્વાંશે સકંપ પરમાણુપુદ્ગલો દ્રવ્યાર્થ-અપ્રદેશાર્થપણે અસંહ્યાતગુણા છે. ૧૨ અંશતઃ સકંપ સંહ્યાત પ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે અસંહ્યાતગુણા છે. ૧૩ અને તેજ સ્કંધો પ્રદેશાર્થપણે સંહ્યાતગુણા છે. ૧૪ અશતઃ સકંપ અસંહ્યાતપ્રદેશિક સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે અસંહ્યાતગુણા છે. ૧૫ અને તેજ સ્કંધો પ્રદેશાર્થપણે અસંહ્યાતગુણા છે. ૧૬ નિષ્કંપ પરમાણુપુદ્ગલો દ્રવ્યાર્થ-અપ્રદેશાર્થપણે અસંહ્યાતગુણા છે. ૧૭ સંહ્યાતપ્રદેશિક નિષ્કંપ સ્કંધો દ્રવ્યાર્થપણે સંહ્યાતગુણા

દ્રવ્યાર્થનિરૂપે પર-
માણુ વર્ગેરેનુ અસ્વ-
દુલ્લ.

ज्जगुणा १६, संखेज्जपप्सिया खंधा निरेया दध्दुयाए संखेज्जगुणा १७, ते चेव पप्सदुयाए संखेज्जगुणा १८, असंखेज्जपप्सि-
या निरेया दध्दुयाए असंखेज्जगुणा १९, ते चेव पप्सदुयाए असंखेज्जगुणा २० ।

१२९. [प्र०] कति णं भंते ! धम्मत्थिकायस्स मज्झपपसा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! अट्ट धम्मत्थिकायस्स मज्झप-
पसा पन्नत्ता ।

१३०. [प्र०] कति णं भंते ! अधम्मत्थिकायस्स मज्झपपसा पन्नत्ता ? [उ०] एवं चेव ।

१३१. [प्र०] कति णं भंते ! आगासत्थिकायस्स मज्झपपसा पन्नत्ता ? [उ०] एवं चेव ।

१३२. [प्र०] कति णं भंते ! जीवत्थिकायस्स मज्झपपसा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! अट्ट जीवत्थिकायस्स मज्झपपसा
पन्नत्ता ।

१३३. [प्र०] एए णं भंते ! अट्ट जीवत्थिकायस्स मज्झपपसा कतिसु आगासपप्सेसु ओगाहंति ? [उ०] गोयमा !
जहन्नेणं एक्कंसि वा दोहिं वा तीहिं वा चउहिं वा पंचहिं वा छहिं वा उक्कोसेणं अट्टसु, नो चेव णं सत्तसु । 'सेवं भंते ! सेवं
भंते ! ति' ।

पणवीसइमे सए चउत्थो उद्देशो समत्तो ।

छे. १८ अने तेज स्कंधो प्रदेशार्थपणे संख्यातगुणा छे. १९ असंख्यात प्रदेशिक निष्कंप स्कंधो द्रव्यार्थपणे असंख्यातगुणा छे. २०
अने तेज स्कंधो प्रदेशार्थपणे असंख्यातगुणा छे.

१२९. [प्र०] *हे भगवन् ! धर्मास्तिकायना मध्य प्रदेशो केटला कहा छे ? [उ०] हे गौतम ! धर्मास्तिकायना *आठ मध्य प्रदेशो
कहा छे.

धर्मास्तिकायना
मध्य प्रदेशो.

१३०. [प्र०] हे भगवन् ! अधर्मास्तिकायना मध्य प्रदेशो केटला कहा छे ? [उ०] हे गौतम ! एज प्रमाणे जाणवुं.

अधर्मास्तिकायना
मध्य प्रदेशो.
आकाशना मध्य
प्रदेशो.

१३१. [प्र०] हे भगवन् ! आकाशास्तिकायना मध्य प्रदेशो केटला कहा छे ? [उ०] हे गौतम ! एज प्रमाणे जाणवुं.

१३२. [प्र०] हे भगवन् ! जीवास्तिकायना मध्य प्रदेशो केटला कहा छे ? [उ०] हे गौतम ! जीवास्तिकायना आठ मध्य
प्रदेशो कहा छे.

जीवना मध्य प्रदे-
शोनी अवगाहना.

१३३. [प्र०] हे भगवन् ! जीवास्तिकायना ए आठ मध्य प्रदेशो आकाशास्तिकायना केटला प्रदेशोमां समाइ शके ? [उ०] हे
गौतम ! ते जघन्य एक, वे, त्रण, चार, पांच, अने छ प्रदेशोमां समाय तथा उक्कट्ट आठ प्रदेशोमां समाय, पण सात प्रदेशोमां न समाय.
'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'—एम कही यावत्—विहरे छे.

पचीशमां शतकमां चतुर्थ उद्देशक समाप्त.

पंचमो उद्देशो ।

१. [प्र०] कतिविहा णं भंते ! पज्जवा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! डुविहा पज्जवा पन्नत्ता; तंजहा—जीवपज्जवा य
अजीवपज्जवा य । पज्जवपदं निरवसेसं भाणियच्चं जहा पन्नवणाए ।

पंचम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! पर्यवो केटला प्रकारना कहा छे ? [उ०] हे गौतम ! पर्यवो वे प्रकारना कहा छे, ते आ प्रमाणे—
जीवपर्यवो अने अजीवपर्यवो. अहिं प्रज्ञापनासूत्रुं समग्र पर्यवपद कहेवुं.

पर्याव-

१ ओगाडा होंति छ ।

१२९ * 'धर्मास्तिकायना आठ मध्य प्रदेशो आठ रुचकप्रदेशवर्ती होय छे, 'एम चूर्णिकार कहे छे, अने ते रुचकप्रदेशो मेरुना मूळभागना मध्यवर्ती
छे यद्यपि धर्मास्तिकायादि लोकप्रमाण होवाथी तेनो मध्य भाग रुचकथी असख्य योजन दूर रत्नप्रमाना आकाशानी अदर आवेलो छे, रुचकवर्ती नथी, तो
पण दिशा अने विदिशानी उत्पत्तिस्थान रुचक होवाथी धर्मास्तिकायादिना मध्य तरीके तेनी विवक्षा करी होय एम समवे छे—टीका.

१३३ † जीवप्रदेशोको सकोच अने विकास धर्म होवाथी तेना मध्यवर्ती आठ प्रदेशो जघन्यथी एक आकाशप्रदेशथी माढी छ आकाशप्रदेशमा रही
शके छे अने उक्कट्ट आठ आकाश प्रदेशमा रहे छे, पण वस्तुस्वभावथी सात आकाशप्रदेशने आश्रयी रहेता नथी—टीका.

‡ १ पर्यव—गुण, धर्म, विशेष. जीवपर्यव—जीवधर्म, अजीवपर्यव—अजीवधर्म. ते धर्मो अनन्त होय छे जुओ प्रज्ञा० पद ५ प० १७९-२०३

२. [प्र०] आवलिया णं मंते ! किं संखेज्जा समया, असंखेज्जा समया, अणंता समया ? [उ०] गोयमा ! नो संखेज्जा समया, असंखेज्जा समया, नो अणंता समया ।

३. [प्र०] आणापाणू णं मंते ! किं संखेज्जा० ? [उ०] एवं चेव ।

४. [प्र०] थोवे णं मंते ! किं संखेज्जा० ? [उ०] एवं चेव । एवं लवे वि; मुहुत्ते वि, एवं अहोरत्ते, एवं पन्त्ते, मासे, उऊ, अयणे, संवच्छरे, जुगे, वाससये, वाससहस्से, वाससयसहस्से, पुद्दंगे, पुद्द, तुडियंगे, तुडिपे, अडडंगे, अडडे, अववंगे, अववे, ह्हुयंगे, ह्हुए, उप्पलंगे, उप्पले, पडमंगे, पडमे, नल्लिणंगे, नल्लिणे, अच्चणिपूरंगे, अच्चणिपूरे, अउयंगे, अउये, नउयंगे, नउए, पउयंगे, पउए, चूलियंगे, चूलिपे, सीसपहेलियंगे, सीसपहेलिया; पल्लिओवमे, सागरोवमे, ओस-पिणी, एवं उस्सपिणी वि ।

५. [प्र०] पोग्गलपरियट्टे णं मंते ! किं संखेज्जा समया, असंखेज्जा समया, अणंता समया—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो संखेज्जा समया, नो असंखेज्जा समया, अणंता समया । एवं तीयद्धा, अणागयद्धा, सघद्धा ।

६. [प्र०] आवलियाओ णं मंते ! किं संखेज्जा समया—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो संखेज्जा समया, सिय असंखेज्जा समया, सिय अणंता समया ।

७. [प्र०] आणापाणू णं मंते ! किं संखेज्जा समया ३ ? [उ०] एवं चेव ।

८. [प्र०] थोवा णं मंते ! किं संखेज्जा समया ३ ? [उ०] एवं चेव । एवं जाव—‘ओसपिणीओ’ चि ।

९. [प्र०] पोग्गलपरियट्टा णं मंते ! किं संखेज्जा समया—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो संखेज्जा समया, नो असंखेज्जा समया, अणंता समया ।

१०. [प्र०] आणापाणू णं मंते ! किं संखेज्जाओ आवलियाओ—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! संखेज्जाओ आवलियाओ, नो असंखेज्जाओ आवलियाओ, नो अणंताओ आवलियाओ । एवं थोवे वि, एवं जाव—‘सीसपहेलिय’ चि ।

२. [प्र०] हे भगवन् ! आवलिका संख्याता समयरूप छे, असख्याता समयरूप छे के अनंत समयरूप छे ? [उ०] हे गौतम ! आवलिका संख्याता समयरूप नथी, तेम अनंत समयरूप पण नथी, परंतु अनख्याता समयरूप छे.

३. [प्र०] हे भगवन् ! आनप्राण—आसोच्छ्वास ए शुं सख्याता समयरूप छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! पूर्वं प्रमाणे जाणहुं.

४. [प्र०] हे भगवन् ! स्तोक संख्याता समयरूप छे—इत्यादि प्रश्न [उ०] हे गौतम ! एज प्रमाणे जाणहुं. अने ए प्रमाणे उव, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, सो वर्ष, हजार वर्ष, लाख वर्ष, पूर्वांग, पूर्व, त्रुटिनाग, त्रुटिन, अटटाग, अटट, अववाग, अवव, ह्हुकाग, ह्हुक, उत्पलाग, उत्पल, पद्माग, पद्म, नलिनाग, नलिन, अच्चनिपूराग, अच्चनिपूर, अयुताग, अयुत, नयु-तांग, नयुत, प्रयुताग, प्रयुत, चूलिकाग, चूलिका, शीर्षप्रहेलिकाग, शीर्षप्रहेलिका, पल्योपम, सागरोपम, अवसर्पिणी अने उस्सर्पिणीना समयो संवंधे पण जाणहुं अर्थात्—एमाना पल्येकना असख्याता समयो छे

५. [प्र०] हे भगवन् ! पुद्दलपरिवर्त ए शुं सख्याता समयरूप छे, असख्याता समयरूप छे के अनंत समयरूप छे ? [उ०] हे गौतम ! ते संख्याता समयरूप नथी, असख्याता समयरूप नथी, पण अनंत समयरूप छे. ए प्रमाणे भूतकाळ, भविष्यकाळ तथा सर्व-काळ विषे पण जाणहुं

६. [प्र०] हे भगवन् ! आवलिकाओ शुं संख्याता समयरूप छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! आवलिकाओ संख्याता समयरूप नथी, पण कदाच असंख्याता समयरूप होय, अने कदाच अनंत समयरूप होय.

७. [प्र०] हे भगवन् ! आनप्राणो शुं संख्याता समयरूप छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] पूर्वं प्रमाणे जाणहुं.

८. [प्र०] हे भगवन् ! स्तोको शुं संख्याता समयरूप छे—इत्यादि प्रश्न [उ०] पूर्वं प्रमाणे जाणहुं. अने ए प्रमाणे यावत्—अव-सर्पिणीओ सुधी समजहुं.

९. [प्र०] हे भगवन् ! पुद्दलपरिवर्तो ए शुं संख्याता समयरूप छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सख्याता समयरूप नथी, असंख्याता समयरूप नथी, पण अनंत समयरूप छे.

१०. [प्र०] हे भगवन् ! आनप्राण ए शुं संख्याती आवलिकारूप छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते संख्याती आवलिकारूप छे, पण असख्याती के अनंत आवलिकारूप नथी ए प्रमाणे स्तोक संवंधे पण जाणहुं यावत्—शीर्षप्रहेलिका सुधी पण एम जाणहुं.

११. [प्र०] पलिओवमे णं भंते ! किं संखेज्जा ३-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! णो संखेज्जाओ आवलियाओ, असंखेज्जाओ आवलियाओ, नो अणंताओ आवलियाओ । एवं सागरोवमे वि; एवं ओसप्पिणी वि, उस्सप्पिणी वि ।

१२. [प्र०] पोग्गलपरियट्ठे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो संखेज्जाओ आवलियाओ, णो असंखेज्जाओ आवलियाओ, अणंताओ आवलियाओ । एवं जाव-सच्चद्धा ।

१३. [प्र०] आणापाणू णं भंते ! किं संखेज्जाओ आवलियाओ-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय संखेज्जाओ आवलि-याओ, सिय असंखेज्जाओ, सिय अणंताओ । एवं जाव-सीसपहेलियाओ ।

१४. [प्र०] पलिओवमा णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! णो संखेज्जाओ आवलियाओ, सिय असंखेज्जाओ आवलियाओ, सिय अणंताओ आवलियाओ । एवं जाव-उस्सप्पिणीओ ।

१५. [प्र०] पोग्गलपरियट्ठा णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! णो संखेज्जाओ आवलियाओ, णो असंखेज्जाओ आवलियाओ, अणंताओ आवलियाओ ।

१६. [प्र०] थोवे णं भंते ! किं संखेज्जाओ आणापाणूओ, असंखेज्जाओ ? [उ०] जहा आवलियाए वत्तवया एवं आणापाणूओ वि निरवसेसा । एवं एतेणं गमएणं जाव-सीसपहेलिया भाणियट्ठा ।

१७. [प्र०] सागरोवमे णं भंते ! किं संखेज्जा पलिओवमा ?-पुच्छा ! [उ०] गोयमा ! संखेज्जा पलिओवमा, णो असं-खेज्जा पलिओवमा, णो अणंता पलिओवमा । एवं ओसप्पिणीए वि, उस्सप्पिणीए वि ।

१८. [प्र०] पोग्गलपरियट्ठे णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! णो संखेज्जा पलिओवमा, णो असंखेज्जा पलिओवमा, अणंता पलिओवमा । एवं जाव-सच्चद्धा ।

१९. [प्र०] सागरोवमा णं भंते ! किं संखेज्जा पलिओवमा-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय संखेज्जा पलिओवमा, सिय असंखेज्जा पलिओवमा, सिय अणंता पलिओवमा । एवं जाव-ओसप्पिणी वि, उस्सप्पिणी वि ।

११. [प्र०] हे भगवन् ! पल्योपमं शुं सख्याती आवलिकारूपं छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते सख्याती आवलिकारूपं पल्योपमं नथी, तेम अनंतं आवलिकारूपं नथी, पण असख्याती आवलिकारूपं छे. ए प्रमाणे सागरोपमं, अवसर्पिणीं अने उत्सर्पिणीं संबंधे पण जाणतुं.

पल्योपमं.

१२. [प्र०] पुद्गलपरिवर्तं केटली आवलिकारूपं छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते सख्याती आवलिकारूपं नथी, असख्याती आवलिकारूपं नथी, पण अनंतं आवलिकारूपं छे. ए प्रमाणे यावत्-सर्वाद्धा सुधी जाणतुं.

पुद्गलपरिवर्तं.

१३. [प्र०] हे भगवन् ! आनप्राणो शुं सख्याती आवलिकारूपं छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कदाच सख्याती आव-लिकारूपं होय, कदाच असख्याती आवलिकारूपं पण होय अने कदाच अनंतं आवलिकारूपं पण होय. ए प्रमाणे यावत्-शीर्षप्रहे-लिका सुधी जाणतुं.

आनप्राणो.

१४. [प्र०] हे भगवन् ! पल्योपमो शुं सख्याती आवलिकारूपं छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते सख्याती आवलिकारूपं पल्योपमो नथी, पण कदाच असख्याती अने कदाच अनंतं आवलिकारूपं छे ए प्रमाणे यावत्-उत्सर्पिणीओ सुधी जाणतुं.

पल्योपमो.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! पुद्गलपरिवर्तो शुं सख्याती आवलिकारूपं छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सख्याती आवलिकारूपं पल्योपमो नथी, असख्याती आवलिकारूपं नथी, पण अनंतं आवलिकारूपं छे.

पुद्गलपरिवर्तो.

१६. [प्र०] हे भगवन् ! स्तोके शुं सख्याता आनप्राणरूपं छे के असख्याता आनप्राणरूपं छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] जेम आवलिका संबंधे वक्तव्यता कही तेम वधी आनप्राण संबंधे पण जाणवी. ए प्रमाणे ए पूर्वोक्तं गम-पाठवडे यावत्-शीर्षप्रहेलिका सुधी समजतुं.

स्तोक

१७. [प्र०] हे भगवन् ! सागरोपमं शुं सख्याता पल्योपमरूपं छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते सख्याता पल्योपमरूपं छे, पण असख्याता के अनंतं पल्योपमरूपं नथी. ए प्रमाणे अवसर्पिणीं अने उत्सर्पिणीं सवन्धे पण जाणतुं.

सागरोपमं.

१८. [प्र०] हे भगवन् ! पुद्गलपरिवर्तं शुं सख्याता पल्योपमरूपं छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! सख्याता के असख्याता पल्योपमरूपं नथी, पण अनंतं पल्योपमरूपं छे. ए प्रमाणे यावत्-सर्वाद्धा सुधी जाणतुं.

पुद्गलपरिवर्तं.

१९. [प्र०] हे भगवन् ! सागरोपमो शुं सख्याता पल्योपमरूपं छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते कदाच सख्याता पल्योपम-रूपं होय छे, कदाच असख्याता पल्योपमरूपं होय छे अने कदाच अनंतं पल्योपमरूपं पण होय छे. ए प्रमाणे यावत्-अवसर्पिणीं तथा उत्सर्पिणीं संबंधे पण जाणतुं.

सागरोपमो.

२०. [प्र०] पोग्गलपरियट्टा णं-पुच्छ । [उ०] गोयमा ! णो संग्गेजा पल्लिओचमा, णो असंग्गेजा पल्लिओचमा, अणंता पल्लिओचमा ।

२१. [प्र०] ओसप्पिणी णं मंते ! किं संग्गेजा सागरोचमा० ? [उ०] जहा पल्लिओचमस्स वत्तधया तद्दा सागरोचमस्स वि ।

२२. [प्र०] पोग्गलपरियट्टे णं मंते ! किं संग्गेजाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ-पुच्छ । [उ०] गोयमा ! णो संग्गेजाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ, णो असंग्गेजाओ, अणंताओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ । ण्यं जाय-सध्दा ।

२३. [प्र०] पोग्गलपरियट्टा णं मंते ! किं संग्गेजाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ-पुच्छ । [उ०] गोयमा ! णो संग्गेजाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ, णो असंग्गेजाओ, अणंताओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ ।

२४. [प्र०] तीतद्धा णं मंते ! किं संग्गेजा पोग्गलपरियट्टा-पुच्छ । [उ०] गोयमा ! णो संग्गेजा पोग्गलपरियट्टा णो असंग्गेजा, अणंता पोग्गलपरियट्टा । एवं अणागयद्धा वि; एवं सध्दा वि ।

२५. [प्र०] अणागयद्धा णं मंते ! किं संग्गेजाओ तीतद्धाओ, असंग्गेजाओ, अणंताओ ? [उ०] गोयमा ! णो संग्गेजाओ तीतद्धाओ, णो असंग्गेजाओ तीतद्धाओ, णो अणंताओ तीतद्धाओ । अणागयद्धा णं तीतद्धाओ समयादिया, तीतद्धा णं अणागयद्धाओ समयूणा ।

२६. [प्र०] सध्दा णं मंते ! किं संग्गेजाओ तीतद्धाओ-पुच्छ । [उ०] गोयमा ! णो संग्गेजाओ तीतद्धाओ, णं असंग्गेजाओ, णो अणंताओ तीतद्धाओ । सध्दा णं तीतद्धाओ सात्तिरेगट्टुणा, तीतद्धा णं सध्दाओ योचूणए अद्धे ।

पुट्टपरिवर्तो.

२०. [प्र०] हे भगवन् ! पुट्टपरिवर्तो शुं नंल्याता पन्थोपमरूप छे-इत्यादि प्रश्न [उ०] हे गौतम ! ते न्ह्याना पन्थोपमरूप नयी, अनंल्याता पन्थोपमरूप नयी, पण अनंत पन्थोपमरूप छे.

अवसर्पिणी

२१. [प्र०] हे भगवन् ! अवसर्पिणी शुं नंल्याता सागरोपमो छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! जेम पन्थोपमनी वक्तव्य कहे तेम सागरोपमनी पण वक्तव्यना कहेवी.

पुट्टपरिवर्त.

२२. [प्र०] हे भगवन् ! पुट्टपरिवर्त शुं संल्याती उस्सर्पिणी अने अवसर्पिणीरूप छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! संल्याती के अनंल्याती उस्सर्पिणी अने अवसर्पिणीरूप नयी, पण अनंत उस्सर्पिणी अने अवसर्पिणीरूप छे. ए प्रमाणे यात्रत्-सर्वाद्ध सुवी जाणवुं.

पुट्टपरिवर्तो.

२३. [प्र०] हे भगवन् ! पुट्टपरिवर्तो शुं संल्याती उस्सर्पिणीओ अने अवसर्पिणीओ छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! संल्याती के असंल्याती उस्सर्पिणीओ अने अवसर्पिणीओ नयी, पण अनंत उस्सर्पिणीओ अने अवसर्पिणीओ छे.

अतीताद्धा.

२४. [प्र०] हे भगवन् ! अतीताद्धा-भूतकाळ ए शुं संल्याता पुट्टपरिवर्तो छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते संल्याता अं अनंल्याता पुट्टपरिवर्तो नयी, पण अनंत पुट्टपरिवर्तो छे. ए प्रमाणे अनागत काळ अने सर्वाद्धा विषे पण जाणवुं.

अनागताद्धा.

२५. [प्र०] हे भगवन् ! अनागताद्धा-भविष्यत्काळ शुं संल्याता अतीताद्धारूप छे, असंल्याता अतीताद्धारूप छे के अनंत अतीताद्धारूप छे ? [उ०] हे गौतम ! भविष्यत्काळ संल्याता अतीताद्धा, असंल्याता, के अनंत अतीताद्धारूप नयी, पण अतीताद्धा-भूतकाळ अनागताद्धा-भविष्यत्काळ एक समय अधिक छे अने भविष्यत्काळ करतां भूतकाळ एक समय न्यून छे.

सर्वाद्धा

२६. [प्र०] हे भगवन् ! सर्वाद्धा संल्याता अतीताद्धारूप छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! संल्याता, असंल्याता के अनंत अतीताद्धारूप नयी, किंतु अतीताद्धा-भूतकाळ करता सर्वाद्धा कांईक अधिक वमणो छे, अने अतीताद्धा-भूतकाळ सर्वाद्धा करतां कांईक न्यून अर्थभारूप छे.

२५ * अतीताद्धाधी अनागताद्धा समयाधिक छे, कारण के अतीतकाळ अने अनागत काळ अनादिपणाधी जने जन्तपणाधी समान छे, ते बने वने भगवंतनो प्रश्न समय छे अने ते अनिष्ट होवाधी अतीतकाळमा तेनो गमायेथ यतो नयी, पण अनिष्टत्व घर्मेना साधर्म्यधी तेनो अनागत काळ समानैथ याय छे. माटे अतीतकाळधी अनागतकाळ समयाधिक छे, अने अनागत काळधी अतीतकाळ समय न्यून छे.

२६ † सर्वाद्धा अतीतकाळ करता वर्तमान समय अधिक वमणो छे, अने अतीतकाळ सर्वाद्धा करता गमय न्यून अर्थ भारूप छे अहिं कोइ आना कहे छे के अतीतकाळधी अनागतकाळ अनन्त गुण छे, “वेर्णना वीअद्धा अनागताद्धा अनन्तगुणा” ॥ अनन्त पुट्ट परावर्तय अतीताद्धा छे, तेथी अनन्तय अनागताद्धा छे. जो वर्तमान समये अतीतकाळ अने अनागत काळ सरत्ता होय तो वर्तमान समयनो अनिष्टम यना अनागतकाळ एक समय न्यून यने अने पथी वे, व्रण, चार इत्यादि समयो घटना तेनुं नरत्तापणुं रह्ये नहि, माटे बने काळ समान नयी, पण अतीतकाळधी अनागत काळ अनन्तगुण छे तेथी अनन्त काळनो अतिष्ठम यवा छतां तेनो वय यतो नयी.” तेनो उत्तर ए छे के अतीतकाळ अने अनागत काळनुं गमानपणुं कहेवामा जावे छे अनादित्व एने अनन्त वदटे विवक्षित छे. जेम अतीतकाळनी आदि नयी, तेम अनागत काळनो अन्त नयी, माटे वेधेनु सरत्तापणु छे-टीका.

२७. [प्र०] सच्चिदा णं भन्ते ! किं संखेज्जाओ अणागयद्धाओ-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! णो संखेज्जाओ अणागय-
द्धाओ, णो असंखेज्जाओ अणागयद्धाओ, णो अणंताओ अणागयद्धाओ । सच्चिदा णं अणागयद्धाओ थोवूणगदुगुणा; अणा-
गयद्धा णं सच्चिदाओ सातिरेगे अद्धे ।

२८. [प्र०] कतिविहा णं भन्ते ! णिओदा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! दुविहा णिओदा पन्नत्ता । तंजहा-णिओयगा य
णिओयगजीवा य ।

२९. [प्र०] णिओदा णं भन्ते ! कतिविहा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-सुहुमनिगोदा य वाय-
रनिओगा य, एवं निओगा भाणियद्धा जहा जीवाभिगमे तहेव निरवसेसं ।

३०. [प्र०] कतिविहे णं भन्ते ! णामे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! छ्विहे णामे पन्नत्ते, तंजहा-१ओदइए, जाव-६सन्नि-
वाइए । [प्र०] से किं तं उदइए णामे ? [उ०] उदइए णामे दुविहे पन्नत्ते, तंजहा-उदए य उदयनिप्पन्ने य-एवं जहा
सत्तरसमसए पढमे उदइए भावो तहेव इह वि । नवरं इमं नामणाणत्तं, सेसं तहेव, जाव-सन्निवाइए । 'सेवं भन्ते !
सेवं भन्ते ! ति ।

पणवीसइमे सए पंचमो उद्देशो समत्तो ।

२७. [प्र०] हे भगवन् ! सर्वाद्धा शुं संख्याता अनागताद्धा-भविष्यत्काळ रूप छे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते संख्याता,
असंख्याता के अनंत अनागताद्धारूप नथी, किंतु भविष्यत्काळ करतां सर्वाद्धा काईक न्यून वमणो छे, अने अनागताद्धा सर्वाद्धा करतां
काईक अधिक अरधो छे.

सर्वाद्धा अने
भविष्यत्काळ.

२८. [प्र०] हे भगवन् ! निगोदो केटला प्रकारना कह्या छे ? [उ०] हे गौतम ! निगोदो वे प्रकारना कह्या छे. ते आ प्रमाणे-
* निगोदो अने निगोदजीवो.

निगोदना प्रकार.

२९. [प्र०] हे भगवन् ! निगोदो केटला प्रकारना कह्या छे ? [उ०] हे गौतम ! निगोदो वे प्रकारना कह्या छे. ते आ प्रमाणे-
सूक्ष्मनिगोद अने बादरनिगोद. ए प्रमाणे 'जीवाभिगम सूत्रमां कह्या प्रमाणे वधा निगोदो कहेवा.

निगोदोना प्रकार.

३०. [प्र०] हे भगवन् ! नाम-भाव केटला प्रकारतुं कहुं छे ? [उ०] हे गौतम ! नाम-भाव छ प्रकारतुं कहुं छे. ते आ
प्रमाणे-१ औदयिक, यावत्-६ सानिपातिक. [प्र०] हे भगवन् ! औदयिक नाम-भाव केटला प्रकारतुं छे ? [उ०] हे गौतम ! औद-
यिक नाम वे प्रकारतुं कहुं छे. ते आ प्रमाणे-उदय अने उदयनिप्पन्न. ए प्रमाणे वधुं 'सत्तरमा शतकना प्रथम उद्देशकमां भाव संबन्धे
कहुं छे ते प्रमाणे अहिं पण कहेवुं. पण तेमां विशेष आ प्रमाणे छे-त्यां भाव संबन्धे कहुं छे अने अहीं नाम संबन्धे यावत्-सानिपातिक
सुधी कहेवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'-एम कही यावत्-विहरे छे.

नामना प्रकार.

पचीशमा शतकमां पंचम उद्देशक समाप्त.

छट्टो उद्देशो ।

पन्नवण १ वेद २ रागे ३ कप्प ४ चरित्त ५ पडिसेवणा ६ णाणे ७ ।

तिथे ८ लिंग ९ सरीरे १० खेत्ते ११ काल १२ गइ १३ संजम १४ निगासे १५ ॥ १ ॥

जोगु १६ वओग १७ कसाए १८ लेसा १९ परिणाम २० वंध २१ वेदे २२ य ।

कम्मोदीरण २३ उवसंपजहन्न २४ सन्ना २५ य आहारे २६ ॥ २ ॥

भव २७ आगरिसे २८ कालं २९ तरे ३० य समुघाय ३१ खेत्त ३२ फुसणा य ३३ ।

भावे ३४ परिमाणे ३५ वि य अप्पावहुयं ३६ नियंठाणं ॥ ३ ॥

छट्टो उद्देशक.

आ उद्देशकमां निर्णय्योने विपे नीचे दर्शावेला छत्रीश विपयो कहेवाना छे-१ प्रज्ञापन, २ वेद, ३ राग, ४ कल्प, ५ चारित्र्य;
६ प्रतिसेवना, ७ ज्ञान, ८ तीर्थ, ९ लिंग, १० शरीर, ११ क्षेत्र, १२ काळ, १३ गति, १४ सयम, १५ निकाश-सन्निकर्ष, १६
योग, १७ उपयोग, १८ कपाय, १९ लेख्या, २० परिणाम, २१ वन्ध, २२ वेद-कर्मतुं वेदन, २३ उदीरणा, २४ उपसंपद्-हान
(स्वीकार अने त्याग), २५ संज्ञा, २६ आहार, २७ भव, २८ आकर्ष, २९ काळमान, ३० अन्तर, ३१ समुद्धात, ३२ क्षेत्र ३३
स्पर्शना, ३४ भाव, ३५ परिमाण, अने ३६ अल्पवहुत्व.

२९ * अनन्तकायिक जीवना शरीरने निगोद कहेवामा आवे छे अने अनन्तकायिक जीवोने निगोदना जीवो कहे छे चर्मचक्षुधी जे शरीरो देखी शकाय
ते बादर निगोद अने जे देखी न शकाय तेने सूक्ष्म निगोद कहे छे. २९ † जीवो प्रति० ५ उ० २ प० ४२३-२ ‡ ३० जुओ भग० श० १७ उ० १ पृ० ३२.

૧. [પ્ર૦] રાયગિદ્દે જાવ-પદ્યે ઘયાસી-ક્રતિ ણં મંતે ! ણિયંટા પત્રત્તા ? [ઉ૦] ગોયમા ! પંચ ણિયંટા પત્રત્તા, તંજહા-૧ પુલાપ, ૨ વડસે, ૩ કુસીલે, ૪ ણિયંટે, સિણાપ ।

૨. [પ્ર૦] પુલાપ ણં મંતે ! કતિવિદ્દે પત્રત્તે ? [ઉ૦] ગોયમા ! પંચવિદ્દે પત્રત્તે, તંજહા-૧ નાણપુલાપ, ૨ ઢંસણપુલાપ, ૩ ચરિત્તપુલાપ, ૪ લિંગપુલાપ, ૫ ઝહામુહમપુલાપ ણામં પંચમે ।

૩. [પ્ર૦] વડસે ણં મંતે ! કતિવિદ્દે પત્રત્તે ? [ઉ૦] ગોયમા ! પંચવિદ્દે પત્રત્તે, તંજહા-૧ આમોગવડસે, ૨ ઘનામોગવડસે, ૩ સંવુડવડસે, ૪ ઝસંવુડવડસે, ૫ ઝહામુહમવડસે ણામં પંચમે ।

૪. [પ્ર૦] કુસીલે ણં મંતે ! કતિવિદ્દે પત્રત્તે ? [ઉ૦] ગોયમા ! ટુવિદ્દે પત્રત્તે, તંજહા-પડિસેવણાકુસીલે ય કસાય-કુસીલે ય ।

૫. [પ્ર૦] પડિસેવણાકુસીલે ણં મંતે ! કતિવિદ્દે પત્રત્તે ? [ઉ૦] ગોયમા ! પંચવિદ્દે પત્રત્તે, તંજહા-૧ નાણપડિસેવણાકુસીલે, ૨ ઢંસણપડિસેવણાકુસીલે, ૩ ચરિત્તપડિસેવણાકુસીલે, ૪ લિંગપડિસેવણાકુસીલે, ૫ ઝહામુહમપડિસેવણાકુસીલે ણામં પંચમે ।

૧. [પ્ર૦] રાજગૃહ નગરમાં [મગવન્ ગૌતમ] યાવત્-આ પ્રમાણે ઘોળ્યા-દે મગવન્ ! નિર્મન્યો કેટલા કયા છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! નિર્મન્યો પાંચ પ્રકારના કયા છે. તે આ પ્રમાણે- ૧ પુલાક, ૨ વકુગ, ૩ કુગીલ, ૪ નિર્મન્ય અને ૫ જ્ઞાનક.

૨. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! પુલાકના કેટલા પ્રકાર કયા છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! પુલાકના પાંચ પ્રકાર કયા છે. તે આ પ્રમાણે- ૧ જ્ઞાનપુલાક, ૨ ઢર્શનપુલાક, ૩ ચારિત્રપુલાક, ૪ લિંગપુલાક અને ૫ યયામૂહમપુલાક.

૩. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! વકુગના કેટલા પ્રકાર કયા છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! વકુગના પાંચ પ્રકાર કયા છે, તે આ પ્રમાણે- ૧ આમોગવકુગ, ૨ ઘનામોગવકુગ, ૩ સંવૃતવકુગ, ૪ ઝસંવૃતવકુગ અને ૫ પાંચમો યયામૂહમવકુગ.

૪ [પ્ર૦] હે મગવન્ ! કુગીલના કેટલા પ્રકાર કયા છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! કુગીલના વે પ્રકાર કયા છે, તે આ પ્રમાણે પ્રતિસેવનાકુગીલ અને કપાયકુગીલ.

૫ [પ્ર૦] હે મગવન્ ! પ્રતિસેવનાકુગીલના કેટલા પ્રકાર કયા છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! પ્રતિસેવનાકુગીલના પાંચ પ્રકાર કયા છે, તે આ પ્રમાણે- ૧ જ્ઞાનપ્રતિસેવનાકુગીલ, ૨ ઢર્શનપ્રતિસેવનાકુગીલ, ૩ ચારિત્રપ્રતિસેવનાકુગીલ, ૪ લિંગપ્રતિસેવનાકુગીલ અને ૫ પાંચમો યયામૂહમપ્રતિસેવનાકુગીલ.

૧ * યાવ અને અન્યન્તર ગ્રન્થ-પરિપ્રહરહિત નિર્મન્ય યા માદુગ્ધો કહેવાય છે તે યવાને સર્વવિરતિ ચારિત્ર છતાં ચારિત્રમોહનીય કર્મના દયોપગમા-દિક્ત વિશેષતાથી તેના પુલાકાદિ પાંચ મેદો છે. પુલાક-નિ સાર ધાન્યનો વળ, તેનો પેટે સયનસારરહિત પુલાક કહેવાય છે તે સંયમવાન્ છતા ડોપવદે સયમને કદંક અસાર કરે છે વકુગ-વિગ્ર વર્ણ, તેનું ચારિત્ર વિચિત્ર હોવાથી તે વકુગ કહેવાય છે ડોપના સવન્યથી જેનું શીલ કુલિત-મટિન થયુ છે તે કુગીલ ગ્રન્થ-મોહનોય રહિત તે નિર્મન્ય અને ધાર્મી કર્મનું ક્ષાલન કરવાથી જ્ઞાત-શુદ્ધ થયેલ તે જ્ઞાતક કહેવાય છે પુલાકના વે પ્રકાર છે-લટિપુલાક અને પ્રતિસેવપુલાક. લટિપુલાક-પુલાકલટિવ્યુક, જે પોતાની લટિવથી સધાદિના કાર્પનિમિત્તે ચરુવર્તિનો પળ નાચ કરે આ સવન્યે અન્ય યાચાર્યો આ પ્રમાણે કહે છે-પ્રતિસેવનથી-વિરાઘનાથી જે જ્ઞાનપુલાક છે તેને જ આવી લટિવ હોય છે અને તેજ લટિવપુલાક કહેવાય છે. તે સિવાય વીજો કોદ લટિવ-પુલાક નથી

૨ † પ્રતિસેવનાપુલાકને આશ્રયી પુલાકના પાંચ પ્રકાર છે. જ્ઞાનની વિરાઘના કરનાર જ્ઞાનપુલાક. ઈવી રીતે ઢર્શનાદિપુલાક પણ જાણવા. “જે સ્વહિતાદિ દૂષણવદે જ્ઞાનને, યંકાદિ દૂષણવદે મમ્યન્ત્વને અને ઘર્હિસાદિ મૂલશુભ તથા ઉત્તરગુણની વિરાઘનાથી ચારિત્રને વિરાધે છે-દૂષિત કરે છે તે ઘનુમ્ને જ્ઞાનપુલાક, ઢર્શનપુલાક અને ચારિત્રપુલાક જાણવા જે નિષ્કારણ અન્ય લિંગ ધારણ કરે તે લિંગપુલાક, અને જે મનથી ઘટકલિપિત-સેવવા અયોગ્ય ડોષોને સેવે તે યયામૂહમ કહેવાય છે.—ટીકા.

૩ ‡ વકુગના વે પ્રકાર છે-ઉપકરણવકુગ અને શરીરવકુગ. જે વક્ત્રપાત્રાદિ ઉપકરણની નિમૂપા કરવાના સ્થમાવકાલો હોય તે ઉપકરણવકુગ અને જે દ્વાય, પગ, નય, મુઠ્ઠ વગેરે શરીરના અવયવને સુગોમિત રાખે તે શરીરવકુગ. આ બન્ને પ્રકારના વકુગના પાંચ પ્રકાર છે-૧ શરીર-ઉપકરણાદિને સુગોમિત કરવા સાદુઓને અયોગ્ય છે એ જાણવા છતા તેવા પ્રકારનો ડોપ સેવે તે આમોગવકુગ અને ઘજાણતા ડોપ સેવે તે ઘનામોગવકુગ. ચારિત્રના ઘર્હિસાદિ મૂલ શુભો અને ઉત્તરગુણોવદે ઢંકાયેલો હોય તે સંવૃત અને તેથી મિથ તે અસંવૃત આચ અને મુઠ્ઠને સાફ રાચનાર યયામૂહમવકુગ કહેવાય છે.

૪ †† પ્રતિસેવના-વિરાઘના, કયલિદ્ ઉત્તર ગુણોની વિરાઘનાવદે કુગીલ-દૂષિત ચારિત્રવાલો પ્રતિસેવનાકુગીલ અને સંજ્વલન કપાયોવદે દૂષિત ચારિત્રવાલો કપાયકુગીલ.

૫ ††† પ્રતિસેવનાકુગીલના પાંચ પ્રકાર છે. જ્ઞાનાદિવદે ઉપજીવિકા કરનાર જ્ઞાનાદિકુગીલ કહેવાય છે. અને ‘આ તપસી છે’-ઈવી પ્રસંધાથી જે સુશ યાવ તે યયામૂહમ કુગીલ કહેવાય છે.

६. [प्र०] कसायकुसीले णं भंते ! कतिविहे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते, तंजहा—१ नाणकसायकुसीले, २ दंसणकसायकुसीले, ३ चरित्तकसायकुसीले, ४ लिंगकसायकुसीले, ५ अहासुहुमकसायकुसीले णामं पंचमे ।

७. [प्र०] नियंठे णं भंते ! कतिविहे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते, तंजहा—१ पढमसमयनियंठे, २ अपढमसमयनियंठे, ३ चरमसमयनियंठे, ४ अचरमसमयनियंठे, ५ अहासुहुमनियंठे णामं पंचमे ।

८. [प्र०] सिणाए णं भंते ! कतिविहे पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते, तंजहा—१ अच्छवी, २ असवले, ३ अकम्मसे, ४ संसुद्धनाणदंसणधरे अरहा जिणे केवली, ५ अपरिस्सावी १ ।

९. [प्र०] पुलाए णं भंते ! किं सवेयए होज्जा, अवेदए होज्जा ? [उ०] गोयमा ! सवेयए होज्जा, णो अवेयए होज्जा ।

१०. [प्र०] जइ सवेयए होज्जा किं इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेयए होज्जा, पुरिसनपुंसगवेदए होज्जा ? [उ०] गोयमा ! नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेयए होज्जा, पुरिसनपुंसगवेयए वा होज्जा ।

११. [प्र०] वउसे णं भंते ! किं सवेदए होज्जा, अवेदए होज्जा ? [उ०] गोयमा ! सवेदए होज्जा, णो अवेदए होज्जा ।

१२. [प्र०] जइ सवेदए होज्जा किं इत्थिवेयए होज्जा, पुरिसवेयए होज्जा, पुरिसनपुंसगवेदए होज्जा ? [उ०] गोयमा ! इत्थिवेयए वा होज्जा, पुरिसवेयए वा होज्जा, पुरिसनपुंसगवेयए वा होज्जा । एवं पडिसेवणाकुसीले वि ।

६ [प्र०] हे भगवन् ! कपायकुशीलना केटल प्रकार कह्या छे ? [उ०] हे गौतम ! *कपायकुशीलना पांच प्रकार कह्या छे. ते आ प्रमाणे—१ ज्ञानकपायकुशील, २ दर्शनकपायकुशील, ३ चारित्रकपायकुशील, ४ लिंगकपायकुशील अने पाचमो ५ यथासूक्ष्मकपायकुशील.

कपायकुशीलना प्रकार.

७. [प्र०] हे भगवन् ! निर्ग्रथना केटल प्रकार कह्या छे ? [उ०] हे गौतम ! निर्ग्रथना पाच प्रकार कह्या छे. ते आ प्रमाणे—१ प्रथमसमयवर्ती निर्ग्रथ, २ अप्रथमसमयवर्ती (प्रथम समय सिवायना समयोमा वर्तमान) निर्ग्रथ, ३ चरमसमयवर्ती निर्ग्रथ, ४ अचरमसमयवर्ती (चरम समय सिवायना समयोमा वर्तमान) निर्ग्रथ अने पाचमो ५ यथासूक्ष्म निर्ग्रथ.

निर्ग्रथना प्रकार.

८. [प्र०] हे भगवन् ! स्नातकना केटल प्रकार कह्या छे ? [उ०] हे गौतम ! स्नातकना पाच प्रकार कह्या छे, ते आ प्रमाणे—१ अच्छवी (शरीररहित, काययोगरहित) २ अशवल—दोपररहित विशुद्ध चारित्रवालो, ३ अकर्माश (घाती कर्मरहित), ४ सशुद्ध ज्ञान अने दर्शनने धरनार—अरिहंत—जिन—केवली अने ५ पाचमो अपरिस्सावी (कर्मवन्वरहित).

स्नातकना प्रकार.

९. [प्र०] हे भगवन् ! शुं पुलाक निर्ग्रथ वेदसहित छे के वेदरहित छे ? [उ०] हे गौतम ! †पुलाक वेदसहित छे, पण वेदरहित नथी.

२ वेदद्वार-पुलाकने वेद.

१०. [प्र०] हे भगवन् ! जो पुलाक वेदसहित छे तो शुं ते स्त्रीवेदवालो छे, पुरुषवेदवालो छे के पुरुषनपुंसकवेदवालो छे ? [उ०] हे गौतम ! ते स्त्रीवेदवालो नथी, पण पुरुषवेदवालो अने पुरुषनपुंसकवेदवालो छे.

११. [प्र०] हे भगवन् ! शुं वकुश वेदसहित छे के वेदरहित छे ? [उ०] हे गौतम ! वकुश वेदसहित छे, पण वेदरहित नथी.

वकुश सवेद के वेदरहित ?

१२. [प्र०] हे भगवन् ! जो वकुश वेदसहित छे तो शुं ते स्त्रीवेदवालो छे, पुरुषवेदवालो छे के पुरुषनपुंसकवेदवालो छे ? [उ०] हे गौतम ! ते स्त्रीवेदवालो, पुरुषवेदवालो अने पुरुषनपुंसकवेदवालो होय छे. ए प्रमाणे प्रतिसेवनाकुशील पण जाणवो.

६ * ज्ञान, दर्शन अने लिंग-वेशनो क्रोधमानादि कपायमा उपयोग करे ते अनुक्रमे ज्ञानकपायकुशील, दर्शनकपायकुशील अने लिंगकपायकुशील कहेवाय छे कपायथी जे शाप आपे ते चारित्रकपायकुशील अने जे मात्र मनथी क्रोधादिने सेवे ते यथासूक्ष्मकपायकुशील कहेवाय छे अथवा कपायोवडे ज्ञानादिनो विराधक ते ज्ञानादिकपायकुशील कहेवाय छे

७ † उपशातमोह अने क्षीणमोह छद्मस्थनो काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण छे, तेना प्रथम समयमा वर्तमान प्रथमसमय निर्ग्रथ अने वाकीना समयमा वर्तमान अप्रथमसमय निर्ग्रथ कहेवाय छे. एम उपशातमोह अने क्षीणमोहना चरम समयमा वर्तमान चरम समयनिर्ग्रथ अने वाकीना समयमा वर्तमान अचरमसमयनिर्ग्रथ कहेवाय छे. सामान्यतः प्रथमादि समयनी विवक्षा सिवायनो निर्ग्रथ यथासूक्ष्म निर्ग्रथ कहेवाय छे

८ ‡ बोद्धपण टीकाकारे अहिं के अन्यत्र स्नातकना अवस्थाकृत भेदोनी व्याख्या करी नथी, माटे शक्र-पुरन्दरादिनी पेठे तेओनो शब्दनयकृत भेद होय एम सभवे छे—टीका

९ † अहिं पुलाक, वकुश अने प्रतिसेवनाकुशीलने उपशमप्रेणि अने क्षपकप्रेणिनो अभाव होवाथी तेओ अवेदक नथी.

१० ‡ स्त्रीने पुलाकलच्छि होती नथी, पण पुलाकलच्छिववालो पुरुष के पुरुष-नपुंसक होय छे. अहिं पुरुष छता लिंगछेदादिवडे कृत्रिमनपुंसक होय ते पुरुषनपुंसक जाणवो, पण स्वरूपतः नपुंसकवेदवालो न होय.

१३. [प्र०] कसायकुसीले णं भंते ! किं सवेदए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सवेदए वा होजा, अवेदए वा होजा ।
 १४. [प्र०] जइ अवेदए किं उवसंतवेदए, खीणवेदए होजा ? [उ०] गोयमा ! उवसंतवेदए वा खीणवेदए वा होजा ।
 १५. [प्र०] जइ सवेयए होजा किं इत्थिवेदए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! तिसु वि जहा वउसो ।
 १६. [प्र०] णियंठे णं भंते ! किं सवेदए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! णो सवेयए होजा, अवेयए होजा ।
 १७. [प्र०] जइ अवेयए होजा किं उवसंत-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! उवसंतवेयए वा होजा, खीणवेयए वा होजा ।
 १८. [प्र०] सिणाए णं भंते ! किं सवेयए होजा० ? [उ०] जहा नियंठे तहा सिणाए वि । नवरं णो उवसंतवेयए होजा, खीणवेयए होजा ।
 १९. [प्र०] पुलाए णं भंते ! किं सरागे होजा, वीयरगे होजा ? [उ०] गोयमा ! सरागे होजा, णो वीयरगे होजा, एवं जाव-कसायकुसीले ।
 २०. [प्र०] णियंठे णं भंते ! किं सरागे होजा-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! णो सरागे होजा, वीयरगे होजा ।
 २१. [प्र०] जइ वीयरगे होजा किं उवसंतकसायवीयरगे होजा, खीणकसायवीयरगे होजा ? [उ०] गोयमा ! उवसंतकसायवीयरगे वा होजा, खीणकसायवीयरगे वा होजा । सिणाए एवं चेव । नवरं णो उवसंतकसायवीयरगे होजा, खीणकसायवीयरगे होजा ३ ।
 २२. [प्र०] पुलाए णं भंते ! किं टियकप्पे होजा, अट्टियकप्पे होजा ? [उ०] गोयमा ! ट्टियकप्पे वा होजा, अट्टियकप्पे वा होजा । एवं जाव-सिणाए ।
 २३. [प्र०] पुलाए णं भंते ! किं जिणकप्पे होजा, थेरकप्पे होजा, कप्पातीते होजा ? [उ०] गोयमा ! नो जिणकप्पे होजा, थेरकप्पे होजा, णो कप्पातीते होजा ।

कपायकुसील सवे
दी के अवेदी ?

१३. [प्र०] हे भगवन् ! शुं कपायकुसील वेदनहित छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! कपायकुसील वेदसहित पण होय अने वेदरहित पण होय.

१४. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते वेदरहित होय तो शुं ते उपशातवेदवाळो होय के क्षीणवेदवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! ते उपशातवेदवाळो पण होय अने क्षीणवेदवाळो पण होय.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते वेदसहित छे तो शुं ते खीणवेदसहित होय-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते वकुशानी पेठे त्रणे वेदमां होय.

१६. [प्र०] हे भगवन् ! शुं निर्प्रय वेदसहित छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! निर्प्रय वेदसहित नथी, पण वेदरहित छे.

१७. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते वेदरहित होय तो शुं ते उपशातवेद होय-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते उपशातवेद पण होय अने क्षीणवेद पण होय.

१८. [प्र०] हे भगवन् ! शुं स्नातक वेदसहित होय-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते निर्प्रयनी पेठे वेदरहित होय. पण विशेष ए के, स्नातक उपशातवेद न होय, पण क्षीणवेद होय.

१९. [प्र०] हे भगवन् ! शुं पुलाक रागसहित होय के वीतराग होय ? [उ०] हे गौतम ! पुलाक रागसहित होय, पण वीतराग न होय. ए प्रमाणे यावत्-कपायकुसील सुधी जाणहुं.

२०. [प्र०] हे भगवन् ! शुं निर्प्रय सराग होय-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते सराग नथी, पण वीतराग होय छे.

२१. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते वीतराग होय तो शुं उपशातकपाय वीतराग होय के क्षीणकपाय वीतराग होय. [उ०] हे गौतम ! ते उपशातकपाय वीतराग होय अने क्षीणकपाय वीतराग पण होय. ए प्रमाणे स्नातक पण जाणवो. विशेष ए के स्नातक उपशातकपाय वीतराग न होय, पण क्षीणकपाय वीतराग होय.

२२. [प्र०] हे भगवन् ! शुं पुलाक स्थितकल्पमा होय के अस्थितकल्पमा होय ? [उ०] हे गौतम ! ते स्थितकल्पमां पण होय अने अस्थितकल्पमा पण होय. ए प्रमाणे यावत्-स्नातक सुधी जाणहुं.

२३. [प्र०] हे भगवन् ! शुं पुलाक जिनकल्पमा होय, स्थविरकल्पमा होय के कल्पातीत होय ? [उ०] हे गौतम ! ते जिनकल्पमां न होय, कल्पातीत न होय, पण स्थविरकल्पमा होय.

१४ * कपायकुसील नूनसपराय गुणस्थानक सुधी होय छे, ते प्रमत्त, अप्रमत्त अने अपूर्णकरणे निपे सवेद होय अने अनिष्टतिवाहर अने सुद्ध-सपरायने निपे उपशात के क्षीणवेद थाय चारो अवेदक होय —टीका.

२२ † पहिला अने छेला तीर्थनरना साधुओ वाचेलकयादि दग कल्पमा स्थित छे, कारण के तेहुं पालन तेओने आवश्यक छे, माटे तेओनो स्थित-कल्प रुढेनाय छे, अने तेमा पुलाक होय छे नान्य बावीया तीर्थनरना साधुओ ते कल्पमा नदाच स्थित होय के अभ्यन्त होय, कारण के तेओहुं पालन तेमने आपसक नथी, माटे तेओनो अस्थित कल्प छे, अने तेमा पण पुलाक होय छे एम स्नातक सुधी जाणहुं

२४. [प्र०] वउसे णं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जिणकप्पे वा होजा, थेरकप्पे वा होजा, नो कप्पातीते होजा । एवं पडिसेवणाकुसीले वि ।

२५. [प्र०] कसायकुसीले णं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जिणकप्पे वा होजा, थेरकप्पे वा होजा, कप्पातीते वा होजा ।

२६. [प्र०] नियंटे णं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो जिणकप्पे होजा, नो थेरकप्पे होजा, कप्पातीते होजा । एवं सिणाए वि ४ ।

२७. [प्र०] पुलाए णं भंते ! किं सामाइयसंजमे होजा, छेओवट्टावणियसंजमे होजा, परिहारविसुद्धियसंजमे होजा, सुहुमसंपरागसंजमे होजा, अहक्खायसंजमे होजा ? [उ०] गोयमा ! सामाइयसंजमे वा होजा, छेओवट्टावणियसंजमे वा होजा, णो परिहारविसुद्धियसंजमे होजा, णो सुहुमसंपरागसंजमे होजा, णो अहक्खायसंजमे होजा । एवं वउसे वि, एवं पडिसेवणाकुसीले वि ।

२८. [प्र०] कसायकुसीले णं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सामाइयसंजमे वा होजा, जाव—सुहुमसंपरागसंजमे वा होजा, णो अहक्खायसंजमे होजा ।

२९ [प्र०] नियंटे णं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! णो सामाइयसंजमे होजा, जाव—णो सुहुमसंपरागसंजमे होजा, अहक्खायसंजमे होजा । एवं सिणाए वि ५ ।

३०. [प्र०] पुलाए णं भंते ! किं पडिसेवए होजा, अपडिसेवए होजा ? [उ०] गोयमा ! पडिसेवए होजा, णो अपडिसेवए होजा ।

३१. [प्र०] जइ पडिसेवए होजा किं मूलगुणपडिसेवए होजा, उत्तरगुणपडिसेवए होजा ? [उ०] गोयमा ! मूल-गुणपडिसेवए वा होजा, उत्तरगुणपडिसेवए वा होजा । मूलगुणपडिसेवमाणे पंचणहं आसवाणं अन्नयरं पडिसेवेजा; उत्तरगुणपडिसेवमाणे दसविहस्स पच्चक्खाणस्स अन्नयरं पडिसेवेजा ।

२४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं वकुश जिनकल्पमा होय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते जिनकल्पमां होय अने स्थविरकल्पमां होय, पण कल्पातीत न होय. ए प्रमाणे प्रतिसेवनाकुशील विषे पण समजवुं.

वकुश अने कल्प-

२५. [प्र०] हे भगवन् ! शुं कपायकुशील जिनकल्पमा होय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते जिनकल्पमा होय, स्थविरकल्पमां होय, अने कल्पातीत पण होय.

कपायकुशील अने कल्प.

२६ [प्र०] हे भगवन् ! शुं निर्ग्रन्थ जिनकल्पमा होय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते जिनकल्पमा अने स्थविरकल्पमां न होय, पण कल्पातीत होय. ए प्रमाणे स्नातक संबंधे पण जाणवुं.

निर्ग्रन्थ अने कल्प

२७ [प्र०] हे भगवन् ! शुं पुलाक सामायिक संयममा होय, छेदोपस्थानीय संयममा होय, परिहारविशुद्ध संयममां होय, सूक्ष्म-सपराय संयममा होय के यथाख्यात संयममां होय ? [उ०] हे गौतम ! ते सामायिक संयममा अने छेदोपस्थापनीय संयममा होय, पण परिहारविशुद्ध, सूक्ष्मसपराय के यथाख्यात संयममा न होय ए प्रमाणे वकुश अने प्रतिसेवनाकुशील पण समजवो.

५ चारित्र-पुलाक अने चारित्र.

२८. [प्र०] हे भगवन् ! कपायकुशील कया संयममा होय ? [उ०] हे गौतम ! सामायिक संयम, अने यावत्—सूक्ष्मसपराय संयममां होय, पण यथाख्यात संयममा न होय

कपायकुशील अने चारित्र.

२९ [प्र०] हे भगवन् ! निर्ग्रन्थ कया संयममां होय ? [उ०] हे गौतम ! सामायिक के यावत्—सूक्ष्मसपराय संयममा न होय, पण यथाख्यात संयममा होय. ए प्रमाणे स्नातक विषे पण समजवुं.

निर्ग्रन्थने चारित्र.

३०. [प्र०] हे भगवन् ! शुं पुलाक चारित्री प्रतिसेवक (संयमविराधक) होय के अप्रतिसेवक (अविराधक) संयमाराधक होय ? [उ०] हे गौतम ! ते प्रतिसेवक होय, पण अप्रतिसेवक न होय

६ प्रतिसेवना-पुलाक अने प्रति-सेवना.

३१. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते प्रतिसेवक होय, तो शुं प्राणातिपातविरमणादि मूलगुणनो प्रतिसेवक—विराधक होय के प्रत्याख्यानादि उत्तरगुणनो प्रतिसेवक होय ? [उ०] हे गौतम ! ते मूलगुणनो प्रतिसेवक—विराधक होय अने उत्तरगुणनो पण प्रतिसेवक होय. मूलगुणनी विराधना करतो पांच आस्रवोमाना कोइ एक आस्रवने सेवे. तथा उत्तरगुणनी विराधना करतो दश प्रकारना प्रत्याख्यानमायी कोई एक प्रत्याख्यानने विराधे.

२५ * कल्पातीत छद्मस्य तीर्थकर सकपायी होवाथी ते अपेक्षाए कल्पातीतमा पण कपायकुशील होय

२६ † निर्ग्रन्थ कल्पातीत ज होय छे, कारण के तेने जिनकल्प अने स्थविरकल्पना धर्मो होता नथी एम स्नातक पण कल्पातीत ज होय छे.—टीका.

३० ‡ सज्वलन कपायना उदयथी संयमविरुद्ध आचरण करे ते प्रतिसेवक—संयमविराधक कहेवाय छे.

३२. [प्र०] वडसे णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! पडिसेवण होजा, णो अपडिसेवण होजा ।

३३. [प्र०] जइ पडिसेवण होजा किं मूलगुणपडिसेवण होजा, उत्तरगुणपडिसेवण होजा ? [उ०] गोयमा ! णो मूलगुणपडिसेवण होजा, उत्तरगुणपडिसेवण होजा । उत्तरगुणपडिसेवमाणे दसविहस्स पच्चम्पणस्स अन्नयरं पडिसेवेजा । पडिसेवणाकुसीले जहा पुलाए ।

३४. [प्र०] कसायकुसीले णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! णो पडिसेवण होजा, अपडिसेवण होजा । एवं निग्गंथे वि; एवं सिणाए वि ६ ।

३५. [प्र०] पुलाए णं भंते ! कतिसु नाणेसु होजा ? [उ०] गोयमा ! दोसु वा तिसु वा होजा । दोसु होजमाणे दोसु आभिणिघोहियनाणे सुयनाणे होजा; तिसु होमाणे तिसु आभिणिघोहियनाणे सुयनाणे श्रीहिनाणे होजा । एवं वडसे वि; एवं पडिसेवणाकुसीले वि ।

३६. [प्र०] कसायकुसीले णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! दोसु वा तिसु वा चउसु वा होजा । दोसु होमाणे दोसु आभिणिघोहियनाणे सुयनाणे होजा, तिसु होमाणे तिसु आभिणिघोहियनाण-सुयनाण-श्रीहिनाणेसु होजा; अहवा तिसु होमाणे आभिणिघोहियनाण-सुयनाण-मणपज्जवनाणेसु होजा; चउसु होमाणे चउसु आभिणिघोहियनाण-सुयनाण-श्रीहिनाण-मणपज्जवनाणेसु होजा । एवं नियंठे वि ।

३७. [प्र०] सिणाए णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एगंमि केवलनाणे होजा ।

३८. [प्र०] पुलाए णं भंते ! केवतियं सुयं अहिज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं नयमस्स पुघस्स ततियं आयारवत्थुं, उक्कोसेणं नव पुवाइं अहिज्जेजा ।

३९. [प्र०] वडसे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अट्ट पवयणमायाओ, उक्कोसेणं दंस पुवाइं अहिज्जेजा । एवं पडिसेवणाकुसीले वि ।

३२ [प्र०] हे भगवन् ! शुं वकुग प्रतिसेवक-विराधक होय-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते विराधक होय, पण अविराधक न होय.

३३. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते विराधक होय तो शुं मूलगुणनो विराधक होय के उत्तरगुणनो विराधक होय ? [उ०] हे गौतम ! ते मूलगुणनो विराधक न होय, पण उत्तरगुणनो विराधक होय. उत्तरगुणने विराधतो दश प्रकारना प्रत्याख्यानमांथी कोइ एक प्रत्याख्यानने विराधे पुलाकनी पेठे प्रतिसेवनाकुशील पण जाणवो.

३४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं कपायकुशील संयमविराधक होय-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते विराधक न होय, पण आराधक होय. ए प्रमाणे निर्ग्रय अने स्नातक विपे पण समजहुं.

३५. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाक केटला ज्ञानोमा वर्ते ? [उ०] हे गौतम ! वे ज्ञानोमां होय के त्रण ज्ञानोमां होय. ज्यारे ते वे ज्ञानोमा होय ज्यारे मति अने श्रुतज्ञानमा होय, ज्यारे ते त्रण ज्ञानोमा होय लारे मति, श्रुत अने अवविज्ञानमा होय. ए प्रमाणे वकुग अने प्रतिसेवनाकुशील पण जाणवो.

३६. [प्र०] हे भगवन् ! कपायकुशील केटला ज्ञानोमा वर्तमान होय ? [उ०] हे गौतम ! वे ज्ञानोमा होय, त्रण ज्ञानोमां होय, अथवा चार ज्ञानोमा पण होय. ज्यारे ते वे ज्ञानोमा होय ज्यारे मतिज्ञान अने श्रुतज्ञानमां होय. ज्यारे ते त्रण ज्ञानमा होय ज्यारे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान अने अवविज्ञानमां होय, अथवा मति, श्रुत अने मनःपर्यवज्ञानमा होय, अने ज्यारे ते चार ज्ञानमां होय ज्यारे मति, श्रुत, अववि अने मन पर्यवज्ञानमा होय. ए प्रमाणे निर्ग्रयविपे पण जाणहुं.

३७. [प्र०] हे भगवन् ! स्नातक केटला ज्ञानमां वर्तमान होय ? [उ०] हे गौतम ! स्नातक एक केवलज्ञानमा होय.

३८. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाक केटले श्रुत भणे ? [उ०] हे गौतम ! पुलाक जघन्य नवमा पूर्वनी त्रीजी आचार वस्तु सुधी भणे अने उत्कृष्ट संपूर्ण नव पूर्वने भणे.

३९. [प्र०] हे भगवन् ! वकुग केटले श्रुत भणे ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य आठ प्रवचन माता सुधी अने उत्कृष्ट दश पूर्वो भणे. ए प्रमाणे प्रतिसेवनाकुशील पण जाणवो.

१ चोदस-क ।

३९ * पात्र समिति अने त्रण गुप्ति रूप अष्ट प्रवचन मातासुं पालन करवात्प चारित्र होय छे, माटे चारित्रवाकाने अष्ट प्रवचन मातासु परिज्ञान अनन्तर छे, त्रारण के चारित्र ज्ञानपूर्वक होय छे माटे वकुगने एटले जघन्य श्रुत होय छे

वकुग अने प्रति-
सेवना

कपायकुशील अने
प्रतिसेवना

७ ज्ञानद्वार-
पुलाकने शान

कपायकुशील अने
निर्ग्रयोने शान.

स्नातकने शान

८ अष्टद्वार-
पुलाकने शान

वकुगने शान

४०. [प्र०] कसायकुसीले-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अट्ट पचयणमायाओ, उओसेणं चोइस पुघ्वाइं अट्टि-जेजा । एवं नियंटे वि ।

४१. [प्र०] सिणाए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सुयवतिरित्ते होजा ७ ।

४२. [प्र०] पुलाए णं भंते ! किं तित्थे होजा, अतित्थे होजा ? [उ०] गोयमा ! तित्थे होजा, णो अतित्थे होजा । एवं वउसे वि, एवं पडिसेवणाकुसीले वि ।

४३. [प्र०] कसायकुसीले-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! तित्थे वा होजा, अतित्थे वा होजा ।

४४. [प्र०] जइ अतित्थे होजा किं तित्थयरे होजा; पत्तेययुद्धे होजा ? [उ०] गोयमा ! तित्थगरे वा होजा, पत्ते-ययुद्धे वा होजा । एवं नियंटे वि; एवं सिणाए वि ८ ।

४५. [प्र०] पुलाए णं भंते ! किं सल्लिगे होजा, अन्नल्लिगे होजा, गिहिल्लिगे होजा ? [उ०] गोयमा ! द्दवल्लिगं पडुच्च सल्लिगे वा होजा, अन्नल्लिगे वा होजा, गिहिल्लिगे वा होजा, भावल्लिगं पडुच्च नियमा सल्लिगे होजा; एवं जाव-सिणाए ९ ।

४६. [प्र०] पुलाए णं भंते ! कइसु सरीरेसु होजा ? [उ०] गोयमा ! तिसु ओरालिय-तेया-कम्मएसु होजा ।

४७. [प्र०] वउसे णं भंते !-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! तिसु वा चउसु वा होजा; तिसु होमाणे तिसु ओरालिय-तेया-कम्मएसु होजा, चउसु होमाणे चउसु ओरालिय-वेउच्चिय-तेया-कम्मएसु होजा । एवं पडिसेवणाकुसीले वि ।

४८. [प्र०] कसायकुसीले-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! तिसु वा चउसु वा पंचसु वा होजा । तिसु होमाणे तिसु ओरालिय-तेया-कम्मएसु होजा, चउसु होमाणे चउसु ओरालिय-वेउच्चिय-तेया-कम्मएसु होजा; पंचसु होमाणे पंचसु ओरालिय-वेउच्चिय-आहारग-तेया-कम्मएसु होजा । णियंठो सिणाओ य जहा पुलाओ ।

४०. [प्र०] हे भगवन् ! कपायकुशील केटल्लं श्रुत भणे ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य आठ प्रवचन माता भणे अने उत्कृष्ट चाँद पूर्वो भणे. ए प्रमाणे निर्ग्रय विपे पण जाणवुं.

४१. [प्र०] हे भगवन् ! स्नातक केटल्लं श्रुत भणे ? [उ०] हे गौतम ! स्नातक श्रुतरहित होय.

४२. [प्र०] हे भगवन् ! शुं पुलाक तीर्थमा होय के तीर्थना अभावमा होय ? [उ०] हे गौतम ! ते तीर्थमां होय, पण तीर्थना अभावमां न होय. ए प्रमाणे वकुश अने प्रतिसेवनाकुशील पण जाणवो.

४३. [प्र०] हे भगवन् ! शुं कपायकुशील तीर्थमा होय के अतीर्थमा होय ? [उ०] हे गौतम ! कपायकुशील तीर्थमां होय अने अतीर्थमा पण होय.

४४. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते (कपायकुशील) अतीर्थमां होय तो शुं ते तीर्थकर होय के प्रत्येकसुद्ध होय ? [उ०] हे गौतम ! ते तीर्थकर पण होय के प्रत्येकसुद्ध पण होय. ए प्रमाणे निर्ग्रय अने स्नातक विपे पण जाणवुं.

४५. [प्र०] हे भगवन् ! शुं पुलाक स्वल्लिगमा होय, अन्यल्लिगमा होय के गृहस्वल्लिगमा होय ? [उ०] हे गौतम ! द्दवल्लिगने आश्रयी स्वल्लिगमा होय, अन्यल्लिगमा होय के गृहस्वल्लिगमां पण होय. भावल्लिगने आश्रयी अवश्य स्वल्लिगमां होय. ए प्रमाणे यावत्-स्नातक सुधी जाणवुं.

४६. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाक केटला शरीरोमा होय ? [उ०] हे गौतम ! आँदारिक, तैजस अने कामण-ए त्रण शरीरोमा होय.

४७. [प्र०] हे भगवन् ! वकुश केटला शरीरोमा होय ? [उ०] हे गौतम ! वकुश त्रण शरीर के चार शरीरोमा होय. ज्यारे ते त्रण शरीरोमा होय ज्यारे आँदारिक, तैजस अने कामण शरीरोमा होय. ज्यारे ते चार शरीरोमां होय ज्यारे आँदारिक, वैक्रिय, तैजस अने कामण शरीरोमा होय. ए प्रमाणे प्रतिसेवनाकुशील पण जाणवो.

४८. [प्र०] हे भगवन् ! कपायकुशील केटला शरीरोमा होय ? [उ०] हे गौतम ! त्रण, चार के पाच शरीरोमां होय. ज्यारे ते त्रण शरीरोमां होय ज्यारे आँदारिक, तैजस अने कामण शरीरोमां होय. ज्यारे ते चार शरीरोमां होय ज्यारे आँदारिक, वैक्रिय, तैजस अने कामण शरीरोमा होय, अने ज्यारे ते पाच शरीरोमा होय ज्यारे आँदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस अने कामण शरीरोमा होय. निर्ग्रय अने स्नातकने पुलाकनी पेठे जाणवा.

४३ * छद्मस्वावस्थामा तीर्थकर कपायकुशील होय ते अपेक्षाए ते अतीर्थमा पण होय, अथवा तीर्थनो विच्छेद यदा पटी अन्य चारित्री कपाय-कुशील होय तेनी अपेक्षाए पण अतीर्थमा होय —टीका.

४५ † द्रव्य अने भावने आश्रयी लिंग वे प्रसारतु छे तेना जनादि भावलिंग छे अने ते ज्ञानादि भाव आर्द्धतौने होकार्य ए उ न्द्रिय कहेवाय छे. द्रव्यलिंग स्वलिंग अने परलिंगना भेदधी वे प्रकारतु छे तेना रजोहरणारि द्रव्यधी स्वलिंग छे. परलिंग वे प्रसारतु छे—उत्तीर्थल्लिग अने द्दवल्लिग. पुलाकने त्रणे प्रकारतु द्रव्य लिंग होय छे, कारण के चारित्रनो परिणाम कीद पण एरु द्रव्यलिंगनी अपेक्षा रागतो नदी.—टीका.

कपायकुशीलने छे

० तीर्थकार-पुलाक अने तीर्थ.

कपायकुशील अने तीर्थ.

२० श्रियज्ञान-पुलाक अने श्रिय.

२१ तीर्थकार-पुलाकने श्रिय. वकुशने शरीर.

कपायकुशीलने तीर्थ.

४९. [प्र०] पुलाए णं भंते ! किं कम्मभूमीए होजा, अकम्मभूमीए होजा ? [उ०] गोयमा ! जम्मण-संतिभावं पडुच्च कम्मभूमीए होजा, णो अकम्मभूमीए होजा ।

५०. [प्र०] वउसे णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जम्मण-संतिभावं पडुच्च कम्मभूमीए होजा, णो अकम्मभूमीए होजा; साहरणं पडुच्च कम्मभूमीए वा होजा, अकम्मभूमीए वा होजा । एवं जाव-सिणाए ।

५१. [प्र०] पुलाए णं भंते ! किं ओसप्पिणिकाले होजा, उस्सप्पिणिकाले होजा, णोओसप्पिणि-णोउस्सप्पिणिकाले वा होजा ? [उ०] गोयमा ! ओसप्पिणिकाले वा होजा, उस्सप्पिणिकाले वा होजा, नोओसप्पिणि-नोउस्सप्पिणिकाले वा होजा ।

५२. [प्र०] जइ ओसप्पिणिकाले होजा किं सुसमसुसमाकाले होजा १, सुसमाकाले होजा २, सुसमदूसमाकाले होजा ३, दूसमसुसमाकाले होजा ४, दूसमाकाले होजा ५, दूसमदूसमाकाले होजा ६ ? [उ०] गोयमा ! जंमणं पडुच्च णो सुसमसुसमाकाले होजा १, णो सुसमाकाले होजा २, सुसमदूसमाकाले वा होजा ३, दूसमसुसमाकाले वा होजा ४, णो दूसमाकाले होजा ५, णो दूसमदूसमाकाले होजा ६ । संतिभावं पडुच्च णो सुसमसुसमाकाले होजा, णो सुसमाकाले होजा, सुसमदूसमाकाले वा होजा, दूसमसुसमाकाले वा होजा, दूसमाकाले वा होजा, णो दूसमदूसमाकाले होजा ।

५३. [प्र०] जइ उस्सप्पिणिकाले होजा किं दूसमदूसमाकाले होजा १, दूसमाकाले होजा २, दूसमसुसमाकाले होजा ३, सुसमदूसमाकाले होजा ४, सुसमाकाले होजा ५, सुसमसुसमाकाले होजा ६ ? [उ०] गोयमा ! जंमणं पडुच्च णो दूसमदूसमाकाले होजा १, दूसमाकाले वा होजा २, दूसमसुसमाकाले वा होजा ३, सुसमदूसमाकाले वा होजा ४, णो सुसमाकाले होजा ५, णो सुसमसुसमाकाले होजा ६ । संतिभावं पडुच्च णो दूसमदूसमाकाले होजा १, णो दूसमाकाले होजा २, दूसमसुसमाकाले वा होजा ३, सुसमदूसमाकाले वा होजा ४, णो सुसमाकाले होजा ५, णो सुसमसुसमाकाले होजा ६ ।

४९. [प्र०] हे भगवन् ! शुं पुलाक कर्मभूमिमा होय के अकर्मभूमिमा होय ? [उ०] हे गौतम ! जन्म अने सद्भावने अपेक्षी कर्मभूमिमा होय, पण अकर्मभूमिमा न होय.

५०. [प्र०] हे भगवन् ! शुं वडुग कर्मभूमिमा होय-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! जन्म अने सद्भावने आश्रयी कर्मभूमिमा होय, पण अकर्मभूमिमां न होय, अने सद्हरणने अपेक्षी कर्मभूमिमा पण होय अने अकर्मभूमिमां पण होय. ए प्रमाणे यावत्-त्वात्क सुधी जाणवुं.

५१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं पुलाक अवसर्पिणी काळमां होय, उत्सर्पिणी काळमा होय के नोअवसर्पिणी-नोउत्सर्पिणी काळे होय ? [उ०] हे गौतम ! अवसर्पिणी काळमा होय, उत्सर्पिणी काळमा होय अने नोअवसर्पिणी-नोउत्सर्पिणी काळे पण होय.

५२. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते (पुलाक) अवसर्पिणी काळमां होय तो शुं १ सुपमसुपमा काळे (पहेछा आरामा) होय, २ सुपमाकाळे (बीजा आरामा) होय, ३ सुपमदुपमा काळे (त्रीजा आरामा) होय, ४ दुपमसुपमा (चोया आरामा) होय, ५ दुपमा काळे (पाचमा आरामा) होय के ६ दुपमदुपमा काळे (छट्टा आरामा) होय ? [उ०] हे गौतम ! जन्मनी अपेक्षाए सुपमसुपमा अने सुपमा काळे न होय, पण सुपमदुपमा काळे होय, दुपमसुपमा काळे होय, दुपमा काळे न होय अने दुपमदुपमा काळे पण न होय. तथा सद्भावनी अपेक्षाए सुपमसुपमा काळे, सुपमाकाळे अने दुपमदुपमाकाळे न होय, पण सुपमदुपमा काळे होय, दुपमसुपमाकाळे होय अने दुपमा काळे होय.

५३. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते (पुलाक) उत्सर्पिणी काळे होय तो शुं १ दुपमदुपमा काळे होय, २ दुपमा काळे होय, ३ दुपमसुपमा काळे होय, ४ सुपमदुपमा काळे होय, ५ सुपमा काळे होय के ६ सुपमसुपमा काळे होय ? [उ०] हे गौतम ! जन्मने आश्रयी दुपमदुपमा काळे न होय, दुपमा काळे होय, दुपमसुपमा काळे होय, सुपमदुपमा काळे होय, पण सुपमा काळे अने सुपमसुपमा काळे न होय. सद्भावने आश्रयी दुपमदुपमा काळे न होय, दुपमा काळे न होय, दुपमसुपमा काळे होय, सुपमदुपमा काळे होय, पण सुपमा तथा सुपमसुपमा काळे न होय

४९ जन्म-उत्पत्ति अने सद्भाव-चारित्रभाव-धी अस्तित्व जन्म अने सद्भावनी अपेक्षाए पुलाक कर्मभूमिमा होय. एट्ठे ला जन्मे अने ला विहरे, पण अकर्मभूमिमा उत्पन्न न याय, केमके ला जन्मेलाने चारित्र न होय. तेम सद्हरणधी अरमभूमिमा न होय, कारण के देवादि पुलाकलत्पिवाळाने सद्दरी न शके

५१ † काळ त्रण प्रकारनी छे-उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी अने नोउत्सर्पिणी-नोअवसर्पिणी. तेमा भरत अने एरावत क्षेत्रमा पहेला वे प्ररारनी काळ छे, अने त्रीजा प्रकारनी काळ महाविदेह अने हैमवतादि क्षेत्रोमा छे

५२-५३ ‡ पुलाक जन्मनी अपेक्षाए त्रीजा अने चोया आरामा होय, अने सद्भावनी अपेक्षाए त्रीजा, चोया अने पाचमा आरामा पण होय तेमा जे चोया आरामा जन्मो होय तेनो पाचमा आरामा सद्भाव होय. त्रीजा अने चोया आरामा जन्म अने सद्भाव वने होय उत्सर्पिणीमा बीजा, त्रीजा अने चोया आरे जन्मधी होय तेमा बीजा आरामे अन्ते जन्मे अने त्रीजा आरामा चारित्रनी स्वीकार करे, त्रीजा अने चोया आरामा जन्म अने चारित्र वने होय. सद्भावने आश्रयी त्रीजा अने चोया आरामा ज होय केमके ते ज आरामा चारित्रनी प्रतिपत्ति होय छे — टीका.

१२ क्षेत्रद्वार-
पुलाक अने क्षेत्र.

महाय अने क्षेत्र

१३ काळद्वार-
पुलाकनी काळ.

५४. [प्र०] जइ णोओसप्पिणि—नोउस्ससप्पिणिकाले होजा किं सुसमसुसमापलिभागे होजा, सुसमापलिभागे होजा, सुसमदूसमापलिभागे होजा, दूसमसुसमापलिभागे होजा ? [उ०] गोयमा ! जंमण—संतिभावं पडुच्च णो सुसमसुसमापलिभागे होजा, णो सुसमापलिभागे०, णो सुसमदूसमापलिभागे होजा, दूसमसुसमापलिभागे होजा ।

५५. [प्र०] वउसे णं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओसप्पिणिकाले वा होजा, उस्सप्पिणिकाले वा होजा, नोओसप्पिणि—नोउस्सप्पिणिकाले वा होजा ।

५६. [प्र०] जइ ओसप्पिणिकाले होजा किं सुसमसुसमाकाले होजा—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जंमण—संतिभावं पडुच्च णो सुसमसुसमाकाले होजा, णो सुसमाकाले होजा, सुसमदूसमाकाले वा होजा, दूसमसुसमाकाले वा होजा, दूसमाकाले वा होजा, णो दूसमदूसमाकाले होजा; साहरणं पडुच्च अन्नयरे समाकाले होजा ।

५७. [प्र०] जइ उस्सप्पिणिकाले होजा किं दूसमदूसमाकाले होजा ६—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जंमणं पडुच्च णो दूसमदूसमाकाले होजा जहेव पुलए । संतिभावं पडुच्च णो दूसमदूसमाकाले होजा, णो दूसमाकाले होजा; एवं संतिभावेण वि जहा पुलए जाव—णो सुसमसुसमाकाले होजा । साहरणं पडुच्च अन्नयरे समाकाले होजा ।

५८. [प्र०] जइ नोओसप्पिणि—नोउस्सप्पिणिकाले होजा—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जंमण—संतिभावं पडुच्च णो सुसमसुसमापलिभागे होजा जहेव पुलए जाव—दूसमसुसमापलिभागे होजा । साहरणं पडुच्च अन्नयरे पलिभागे होजा । जहा वउसे । एवं पडिसेवणाकुसीले वि; एवं कसायकुसीले वि । नियंठो सिणाओ य जहा पुलाओ । नवरं एतेसिं अब्भहियं साहरणं भाणियधं, सेसं तं चेव १२ ।

५९. [प्र०] पुलए णं मंते ! कालगए समाणे किं (कं) गतिं गच्छति ? [उ०] गोयमा ! देवगतिं गच्छति । [प्र०] देवगतिं गच्छमाणे किं भवणवासीसु उववज्जेजा, वाणमंतरेसु उववज्जेजा, जोइसि०, वेमाणिएसु उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! णो

५४. [प्र०] जो ते (पुलाको) नोउत्सर्पिणी—नोअवसर्पिणी काळे होय तो शुं सुपमसुपमा समान काळे होय, सुपमासमान काळे होय, सुपमदुःपमासमान काळे होय के दुःपमसुपमासमान काळे होय ? [उ०] हे गौतम ! जन्म अने सद्भावने आश्रयी सुपमसुपमा समान काळने विपे न होय, सुपमासमान काळे न होय, सुपमदुःपमासमान काळे न होय, पण दुःपमसुपमासमान काळे होय.

५५. [प्र०] हे भगवन् ! वकुश कये काळे होय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! अवसर्पिणी काळे होय, उत्सर्पिणी काळे होय, पण नोउत्सर्पिणी—नोअवसर्पिणी काळे न होय.

वकुशको काळ.

५६. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते वकुश अवसर्पिणी काळे होय, तो शुं सुपमसुपमा काळे होय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! जन्म अने सद्भावने अपेक्षी सुपमसुपमा काळे न होय, सुपमा काळे न होय, सुपमदुःपमा काळे होय, दुःपमसुपमा काळे होय के दुःपमाकाळे होय, पण दुःपमदुःपमा काळे न होय. सहरणने अपेक्षी कोइ पण काळे होय.

५७. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते वकुश उत्सर्पिणी काळे होय, तो शुं दुःपमदुःपमा काळे होय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! जन्मने आश्रयी दुःपमदुःपमा काळे न होय—इत्यादि वधुं पुलाकनी पेटे जाणवुं. सद्भावने आश्रयी दुःपमदुःपमा काळे न होय, दुःपमा काळे न होय, ए प्रमाणे वधुं सद्भावने आश्रयी पण पुलाकनी पेटे जाणवुं. यावत्—सुपमसुपमा काळे न होय. सहरणने अपेक्षी कोइ पण काळे होय.

५८. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते वकुश नोअवसर्पिणी—नोउत्सर्पिणी काळे होय तो—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! जन्म अने सद्भावने आश्रयी सुपमसुपमासमान काळे न होय—इत्यादि वधुं पुलाकनी पेटे जाणवुं, यावत्—दुःपमसुपमासमान काळे होय. सहरणने अपेक्षी कोइ पण काळे होय. जेम वकुश सवन्धे कहुं तेम प्रतिसेवणाकुशील सवन्धे पण कहेवुं. एम कपायकुशील पण जाणवो. निर्ग्रय अने स्नातक पण पुलाकनी पेटे समजवा विशेष ए के निर्ग्रय अने स्नातकने सहरण अधिक कहेवुं एटले सहरणने आश्रयी सर्व काळे होय—एम कहेवुं. वाकी वधुं तेज प्रमाणे जाणवुं.

५९. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाक मरण पामीने कइ गतिमा जाय ? [उ०] हे गौतम ! देवगतिमा जाय. [प्र०] देवगतिमा जतो शुं भवनवासिमां, वानव्यंतरमा, ज्योतिष्कमा के वैमानिकोमां उपजे ? [उ०] भवनवासीमां न उपजे, वानव्यंतरमा न उपजे, ज्योतिष्कमा न

१४ गतिद्वार—
पुलाकनी गति.

५४ सुपमसुपमानो समान काळ देवदुःप अने उत्तरकुत्तमा होय छे सुपमासमान काळ हरिवपे अने रम्यक क्षेत्रमा होय छे, सुपमदुःपमासमान काळ हिमवत अने ऐरण्वत क्षेत्रमा अने दुःपमसुपमा समान काळ महाविदेहमा होय छे.—टीका.

५८ † निर्ग्रय अने स्नातकको सहरण आश्रयी सर्व काळे सद्भाव कहुं ते पूर्वं चहरेलाने निर्ग्रयपणा अने स्नातकपणानी प्राप्ति याय ते अपेक्षाए समजवुं, कारण के वेदरहित मुनिओवुं सहरण वतु नथी. कहुं छे के “श्रमणी—साध्वी, वेदरहित, परिहारविशुद्धि, पुलाकलक्षित्रवाळा, अप्रमत्त, चाँद पूर्वधर अने आहारक लक्षित्रवाळानु सहरण थतुं नथी —टीका

भवणवासीसु, णो घाण०, णो जोद०, वेमाणिणसु उववजेजा । वेमाणिणसु उववज्जमाणे जहद्रेणं सोदग्गे कप्पे, उक्कोसेणं सहस्सारे कप्पे उववजेजा । वउसे णं एवं चेव । नवरं उक्कोसेणं अच्चुप कप्पे । पडिसेवणाकुसीले जहा वउसे । कसायकुसीले जहा पुलाए । नवरं उक्कोसेणं अणुत्तरचिमाणेसु उववजेजा ।

६०. [प्र०] णियंटे णं भंते !० ? [उ०] एवं चेव, जाव-वेमाणिणसु उववज्जमाणे अजहद्रेणं उक्कोसेणं अणुत्तरचिमाणेसु उववजेजा ।

६१. [प्र०] सिणाए णं भंते ! कालगए समाणे किं (कं) गतिं गच्छद ? [उ०] गोयमा ! सिद्धिगतिं गच्छद ।

६२. [प्र०] पुलाए णं भंते ! देवेसु उववज्जमाणे किं इंदत्ताए उववजेजा, सामाणियत्ताए उववजेजा, तायत्तीसाए उववजेजा, लोगपालत्ताए उववजेजा, अहमिंदत्ताए वा उववजेजा ? [उ०] गोयमा ! अविराहणं पडुच्च इंदत्ताए उववजेजा, सामाणियत्ताए उववजेजा, तायत्तीसाए उववजेजा, लोगपालत्ताए उववजेजा, नो अहमिंदत्ताए उववजेजा । विराहणं पडुच्च अन्नयरेसु उववजेजा । एवं वउसे वि; एवं पडिसेवणाकुसीले वि ।

६३. [प्र०] कसायकुसीले-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अविराहणं पडुच्च इंदत्ताए वा उववजेजा, जाव-अहमिंदत्ताए वा उववजेजा; विराहणं पडुच्च अन्नयरेसु उववजेजा ।

६४. [प्र०] नियंटे-पुच्छा [उ०] गोयमा ! अविराहणं पडुच्च णो इंदत्ताए उववजेजा, जाव-णो लोगपालत्ताए उववजेजा; अहमिंदत्ताए उववजेजा । विराहणं पडुच्च अन्नयरेसु उववजेजा ।

६५. [प्र०] पुलायस्स णं भंते ! देवलोगेसु उववज्जमाणस्स केवतियं कालं टितीं पधत्ता ? [उ०] गोयमा ! जहद्रेणं पलिओवमपुहुत्तं, उक्कोसेणं अट्टारस्स सागरोवमादं ।

६६. [प्र०] वउसस्स-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहद्रेणं पलिओवमपुहुत्तं, उक्कोसेणं वावीसं सागरोवमादं । एवं पडिसेवणाकुसीले वि ।

उपजे, पण वैमानिकमां उपजे. वैमानिकमा उत्पन्न यतो पुलाक जवन्यथी सौवर्मे कल्पमां अने उच्छ्रष्ट मरुत्तार कल्पमा उपन्न याए वकुञ्ज विपे पण एज प्रमाणे जाणवुं. विशेष ए के ते उच्छ्रष्ट अच्युत कल्पमां उत्पन्न थाय. वकुञ्जानी पेटे प्रतिनेयनाकुञ्जीउ विपे पण समजवुं. अने पुलाकनी पेटे कपायकुञ्जीलने पण जाणवुं. विशेष ए के, कपायकुञ्जील उच्छ्रष्ट अनुत्तरविमानमा उत्पन्न थाय.

निर्ग्रन्थनी गति

६०. [प्र०] हे भगवन् ! निर्ग्रन्थ मरण पार्मिने कट गतिमा जाय ? [उ०] ए प्रमाणे जाणवुं. यानत्-वैमानिकोमा उत्पन्न यतो जवन्य अने उच्छ्रष्ट सिवाय एक अनुत्तर विमानमा उत्पन्न थाय.

खातकनी गति.

६१. [प्र०] हे भगवन् ! खानक मरण पार्मिने कट गतिमा जाय ? [उ०] हे गौतम ! ते एज सिद्धगतिमां जाय.

पुलाक कया देवपणे उपजे ?

६२. [प्र०] हे भगवन् ! देवोमा उत्पन्न यतो पुलाक शुं इंद्रपणे उत्पन्न थाय, सामानिकरणे उपन्न थाय, त्रायस्त्रिंशदेवपणे उपन्न थाय, लोकपालपणे उत्पन्न थाय के अहमिंद्रपणे उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! अविराधनाने आश्रयी इंद्रपणे उत्पन्न थाय, सामानिकरणे उत्पन्न थाय, त्रायस्त्रिंशदेवपणे उपन्न थाय अने लोकपालपणे उत्पन्न थाय, पण अहमिंद्रपणे न उत्पन्न थाय. अने विराधना करीने भवनपति वगेरे कोइ पण देवमा उत्पन्न थाय. ए प्रमाणे वकुञ्ज अने प्रतिसेवनाकुञ्जील जाणवो.

कपायकुञ्जील कया देवपणे उपजे ?

६३. [प्र०] हे भगवन् ! कपायकुञ्जील कया देवपणे उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! संयमनी विराधना न करी होय तो ते इंद्रपणे, यावत्-अहमिंद्रपणे उत्पन्न थाय, अने नयम विराधना करी होय तो ते भवनपति वगेरे कोइ पण देवमां उत्पन्न थाय.

निर्ग्रन्थ कया देवपणे उपजे.

६४. [प्र०] हे भगवन् ! निर्ग्रन्थ कया देवमा उपजे ? [उ०] हे गौतम ! नयमनी अविराधनाने आश्रयी इंद्रपणे यावत्-लोकपालपणे न थाय, पण अहमिंद्रपणे थाय, अने संयमनी विराधनाने आश्रयी भवनवासी वगेरे कोइ पण देवपणे उत्पन्न थाय.

पुलाकनी देवलोकमा स्थिति

६५. [प्र०] हे भगवन् ! देवलोकोमा उत्पन्न यतो पुलाकनी केटला काळ सुधीनी स्थिति कही छे ? [उ०] हे गौतम ! जवन्य पल्योपमपृथक्त्व-वैथी नव पल्योपम सुधीनी अने उच्छ्रष्ट अटार सागरोपमनी स्थिति कही छे.

६६. [प्र०] हे भगवन् ! देवलोकोमा उत्पन्न यतो वकुञ्जानी केटला काळ सुधीनी स्थिति कही छे ? [उ०] हे गौतम ! जवन्य वैथी नव पल्योपम सुधीनी अने उच्छ्रष्ट बावीस सागरोपम सुधीनी स्थिति कही छे. ए प्रमाणे प्रतिसेवनाकुञ्जील विपे पण समजवुं.

६१ * ज्ञानदिनी अविराधना के उच्छ्रष्टो प्रयोग कयां सिवाय इन्द्रादि त्पे उपजे, अने विराधना करीने भवनपत्तादि कोइ पण देवमा उपजे. पुलाकनो मात्र वैमानिकमा उत्पन्न कयो ते संयमनी अविराधनानी अपेक्षाए जाणवु —टीका

६७. [प्र०] कसायकुशीलस्स-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमपुहुत्तं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ।

६८. [प्र०] णियंठस्स-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अजहन्नमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं १३ ।

६९. [प्र०] पुल्लागस्स णं भंते ! केवतिया संयमट्टाणा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! असंखेज्जा संयमट्टाणा पन्नत्ता । एवं जाव-कसायकुशीलस्स ।

७०. [प्र०] नियंठस्स णं भंते ! केवइया संजमट्टाणा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! एगे अजहन्नमणुक्कोसए संजमट्टाणे; एवं सिणायस्स वि ।

७१. [प्र०] एतेसि णं भंते ! पुल्लाग-वउस्स-पडिसेवणा-कसायकुशील-नियंठ-सिणाययाणं संजमट्टाणाणं कयरे कयरे० जाव-विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! सच्चत्योवे नियंठस्स सिणायस्स य एगे अजहन्नमणुक्कोसए संजमट्टाणे, पुल्लागस्स णं संजमट्टाणा असंखेज्जगुणा, वउस्सस्स संजमट्टाणा असंखेज्जगुणा, पडिसेवणाकुशीलस्स संजमट्टाणा असंखेज्जगुणा; कसायकुशीलस्स संजमट्टाणा असंखेज्जगुणा १४ ।

७२. [प्र०] पुल्लागस्स णं भंते ! केवतिया चरित्तपज्जवा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! अणंता चरित्तपज्जवा पन्नत्ता, एवं जाव-सिणायस्स ।

७३. [प्र०] पुल्लाए णं भंते ! पुल्लागस्स सट्टाणसन्निगासेणं चरित्तपज्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अब्भहिए ? [उ०] गोयमा ! सिय हीणे १, सिय तुल्ले २, सिय अब्भहिए ३ । जइ हीणे अणंतभागहीणे वा, असंखेज्जइभागहीणे वा, संखेज्जइभागहीणे वा, संखेज्जगुणहीणे वा, असंखेज्जगुणहीणे वा, अनंतगुणहीणे वा । अह अब्भहिए अणंतभागमब्भहिए वा, असंखेज्जइभागमब्भहिए वा संखेज्जइभागमब्भहिए वा, संखेज्जगुणमब्भहिए वा, असंखेज्जगुणमब्भहिए वा, अणंतगुणमब्भहिए वा ।

६७. [प्र०] हे भगवन् ! देवलोकमां उत्पन्न यथा कपायकुशीलनी केटला काल सुधीनी स्थिति कही छे ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य वेथी नव फल्योपम सुधीनी अने उत्कृष्ट तेत्रीश सागरोपमनी स्थिति कही छे.

६८. [प्र०] देवलोकमां उत्पन्न यथा निर्ग्रंथनी केटला कालनी स्थिति कही छे ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य अने उत्कृष्ट सिवाय तेत्रीश सागरोपमनी स्थिति कही छे.

६९. [प्र०] हे भगवन् ! पुल्लाकने केटलां संयमस्थानो कहेलां छे ? [उ०] हे गौतम ! *असंख्याता सयमस्थानो कहेलां छे. ए प्रमाणे यावत्-कपायकुशील सुधी जाणवुं.

७०. [प्र०] हे भगवन् ! निर्ग्रंथने केटलां संयमस्थानो कहेलां छे ? [उ०] हे गौतम ! तेने जघन्य अने उत्कृष्ट सिवाय एक संयमस्थान कहेलां छे. ए प्रमाणे स्नातक विपे पण जाणवुं.

७१. [प्र०] हे भगवन् ! ए पूर्वोक्त पुल्लाक, वकुरा, प्रतिसेवनाकुशील, कपायकुशील, निर्ग्रंथ अने स्नातकना संयमस्थानोमां कयां कोनाथी यावत्-विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! निर्ग्रंथ अने स्नातकने सर्व करतां अल्प अजघन्य अनुत्कृष्ट एकज संयमस्थान छे. तेथी पुल्लाकने असंख्यातगुणां संयमस्थानो छे, तेथी वकुरा अने असंख्यातगुणां संयमस्थानो छे, तेथी प्रतिसेवनाकुशीलने असंख्यातगुणा संयमस्थानो छे, तेथी कपायकुशीलने असंख्यातगुणां संयमस्थानो छे.

७२. [प्र०] हे भगवन् ! पुल्लाकने केटला चारित्रपर्यवो होय ? [उ०] हे गौतम ! पुल्लाकने अनन्त चारित्रपर्यवो होय. ए प्रमाणे यावत्-स्नातक सुधी जाणवुं.

७३. [प्र०] हे भगवन् ! पुल्लाक स्वस्थानसंनिकर्ष-पोताना सजातीय चारित्रपर्यायोनी अर्थात्-एक पुल्लाक वीजा पुल्लाकना चारित्रपर्यायनी अपेक्षाए शुं हीन होय, तुल्य होय के अधिक होय ? [उ०] हे गौतम ! कदाचा हीन होय, कदाच तुल्य होय, अने कदाच अधिक होय. जो हीन होय तो अनंतभाग हीन होय, असंख्यभाग हीन होय, संख्यातभाग हीन होय, सख्यातगुण हीन होय, असंख्यातगुण हीन होय अने अनंतगुण हीन होय. जो अधिक होय तो अनंतभाग अधिक होय, असंख्यभाग अधिक होय, संख्यातभाग अधिक होय, सख्यातगुण अधिक होय, असंख्यातगुण अधिक होय अने अनंतगुण अधिक होय.

कपायकुशीलनी देवलोकमा स्थिति.

निर्ग्रंथनी देवलोकमा स्थिति.

१४ सयमद्वार-पुल्लाकने संयमस्थानो.

निर्ग्रंथने संयमस्थान.

सयमस्थानोनु अल्पवदुल्य.

पुल्लाकादिने चारित्रपर्याय

१५ सानिकर्षद्वार-पुल्लाकने स्वस्थान-संनिकर्ष.

६९ * सयम-चारित्रना शुद्धि-अशुद्धिना वत्ता ओछापणने लीधे थयेला मेदो ते सयमस्थान ते असंख्याता होय छे तेमा प्रत्येक सयमस्थानना सर्वाकाशप्रदेश गुणित सर्वाकाश प्रदेश प्रमाण (अनन्तानन्त) पर्यायो (अशो) होय छे ते सयमस्थानो पुल्लाकने असंख्यात होय छे कारण के चारित्र-मोहनीयनो क्षयोपशम विचित्र होय छे एम यावत्-कपायकुशील सुधी जाणवुं. निर्ग्रंथने एकज सयमस्थान होय छे, कारण के कपायनो क्षय के उपशम एकज प्रकारनो होवाथी तेनी शुद्धि पण एकज प्रकारनी छे.

७३ † निकर्ष-संनिकर्ष, पुल्लाकादितुं परस्पर सयोजन, स्व-पोताना सजातीय, स्थान-पर्यवोतुं आश्रय, अर्थात् पुल्लाकादिने पुल्लाकादितुं संनिकर्ष-सयोजन ते स्वस्थानसंनिकर्ष कहेवाय छे.

‡ विशुद्ध सयमस्थानना सवन्धी होवाथी विशुद्धतर पर्यायनी अपेक्षाए अविशुद्ध सयमस्थानना सवन्धी होवाथी अविशुद्धतर पर्यवो हीन कहेवाय छे अने ते पर्यववाळा साधु पण हीन कहेवाय छे समान एवा शुद्ध पर्यवोना सवन्धी तुल्य अने विशुद्धतर पर्यवना योग्यी अधिक कहेवाय छे-टीका.

७४. [प्र०] पुलाए णं मंते ! वउसस्स परट्टाणसन्निगासेणं चरित्तपज्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अम्महिए ? [उ०] गोयमा ! हीणे, नो तुल्ले, नो अम्महिए; अणंतगुणहीणे । एवं पडिसेवणाकुसीलस्स वि । कसायकुसीलेणं समं छट्टाणवडिए जहेव सट्टाणे । नियंठस्स जहा वउसस्स; एवं सिणायस्स वि ।

७५. [प्र०] वउसे णं मंते ! पुलागस्स परट्टाणसन्निगासेणं चरित्तपज्जवेहिं किं हीणे, तुल्ले, अम्महिए ? [उ०] गोयमा ! णो हीणे, णो तुल्ले, अम्महिए, अणंतगुणमम्महिए ।

७६. [प्र०] वउसे णं मंते ! वउसस्स सट्टाणसन्निगासेणं चरित्तपज्जवेहिं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय अम्महिए । जइ हीणे छट्टाणवडिए ।

७७. [प्र०] वउसे णं मंते ! पडिसेवणाकुसीलस्स परट्टाणसन्निगासेणं चरित्तपज्जवेहिं किं हीणे० ? [उ०] छट्टाणवडिए; एवं कसायकुसीलस्स वि ।

७८. [प्र०] वउसे णं मंते ! नियंठस्स परट्टाणसन्निगासेणं चरित्तपज्जवेहिं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! हीणे, णो तुल्ले, णो अम्महिए; अणंतगुणहीणे; एवं सिणायस्स वि । पडिसेवणाकुसीलस्स एवं चेव वउसवत्तधया भाणियत्ता । कसायकुसीलस्स एस चेव वउसवत्तधया । नवरं पुलाएण वि समं छट्टाणवडिए ।

७९. [प्र०] णियंठे णं मंते ! पुलागस्स परट्टाणसन्निगासेणं चरित्तपज्जवेहिं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! णो हीणे, णो तुल्ले, अम्महिए; अणंतगुणमम्महिए; एवं जाव—कसायकुसीलस्स ।

पुलाकनी वडुयनी
अपेक्षाए परस्थान-
संनिकर्ष.

७४. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाक (पोताना चारित्रपर्यायोवडे) वडुयना परस्थानसंनिकर्ष—विजातीय चारित्रपर्यायोनी अपेक्षाए शुं हीन छे, तुल्य छे के अधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! हीन छे, पण तुल्य के अधिक नयी, अने ते अनंतगुण हीन छे. ए प्रमाणे प्रतिसेवनाकुशीलना चारित्रपर्यायनी अपेक्षाए पुलाक अनन्तगुण हीन छे. पुलाक जेम स्वस्थान—सजातीय पर्यायनी अपेक्षाए छ स्थानपतित कइयो छे तेम कपायकुशीलनी साथे पण छ स्थानपतित जाणवो. वडुयनी पेटे निर्ग्रन्थनी साथे जाणवुं. एम स्नानकनी साथे पण समजवुं.

वडुयना पुलाकनी
अपेक्षाए चारित्र-
पर्यायो.

७५. [प्र०] हे भगवन् ! वडुय पुलाकना परस्थान—विजातीय चारित्रपर्यायनी अपेक्षाए शुं हीन छे, तुल्य छे के अधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! हीन नयी, तुल्य नयी, पण अधिक छे, अने ते अनंतगुण अधिक छे.

वडुयना स्वस्थाननी
अपेक्षाए चारित्र-
पर्यायो.

७६. [प्र०] हे भगवन् ! वडुय वडुयना सजातीय चारित्रपर्यायने आग्रयी शुं हीन छे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! कदाच हीन होय, कदाच तुल्य होय, अने कदाच अधिक होय. जो हीन होय तो ते स्वस्थानक पतित होय.

वडुयना प्रतिसेवना-
कुशीलनी अपेक्षाए
चारित्र पर्यायो

७७. [प्र०] हे भगवन् ! वडुय प्रतिसेवनाकुशीलना विजातीय चारित्रपर्यायोयी शुं हीन छे ? [उ०] हे गौतम ! स्वस्थानकपतित होय. ए प्रमाणे कपायकुशीलनी अपेक्षाए पण जाणवुं.

वडुयना निर्ग्रन्थनी
अपेक्षाए चारित्र-
पर्यायो
प्रतिसेवनाकुशील
अने कपायकुशील-
लना चारित्र-
पर्यायो

७८. [प्र०] हे भगवन् ! वडुय निर्ग्रन्थना विजातीय चारित्रपर्यायनी अपेक्षाए शुं हीन होय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! हीन छे, तुल्य नयी अने अधिक पण नयी. अने ते अनंतगुण हीन छे. ए प्रमाणे स्नातकनी अपेक्षाए पण समजवुं. तथा प्रतिसेवनाकुशीलने एज प्रमाणे वडुयनी वक्तव्यता (सू० ७६-७९) कहेवी. कपायकुशीलने एज प्रमाणे जाणवुं. परन्तु पुलाकनी अपेक्षाए कपायकुशील स्वस्थानपतित होय छे.

पुलाकनी अपेक्षाए
निर्ग्रन्थना चारित्र-
पर्यायो.

७९. [प्र०] हे भगवन् ! निर्ग्रन्थ पुलाकना परस्थानसंनिकर्ष—विजातीय चारित्रपर्यायोयी शुं हीन छे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते हीन नयी, तुल्य नयी पण अधिक छे, अने ते अनंतगुण अधिक छे. ए प्रमाणे यावत्—कपायकुशीलना संबन्धी अपेक्षाए पण जाणवुं.

७४ * पुलाक स्वस्थाननी अपेक्षाए जेम पदस्थानपतित कइयो तेम कपायकुशीलनी अपेक्षाए पण पदस्थानपतित कहेवी. पुलाक अने कपायकुशीलना सर्व जयन्थ संयमस्थान सीधी नीचे छे. लांकी ते वने साथे असंख्य संयमस्थान सुधी जाय छे. कारण के ता सुधी वनेना तुल्य अथ्यवसायो होय छे लांकी पुलाक हीन परिणाम होवायी संयमस्थानमां वधतो अटको जाय छे, अने त्सार पछी कपायकुशील एकाकी असंख्य संयमस्थान सुधी जाय छे. लांकी कपायकुशील प्रतिसेवनाकुशील अने वडुय साथे असंख्य संयमस्थान सुधी जाय छे. ता वडुय अटके छे. पछी प्रतिसेवनाकुशील अने कपायकुशील वने असंख्य संयमस्थान सुधी जाय छे ता प्रतिसेवनाकुशील अटके छे, पछी कपायकुशील असंख्य संयमस्थान सुधी जाय छे, अने ते लां अटके छे त्सार पछी आगळ निर्ग्रन्थ अने स्नातक एज संयम स्थानने प्राप्त करे छे नाटे पुलाक निर्ग्रन्थना चारित्रपर्यायोयी अनन्तगुणहीन छे.

७५ † वडुय पुलाकनी अनन्तगुण अधिक छे, अने पुलाक वडुयनी हीन, तुल्य के अधिक छे. वडुय प्रतिसेवनाकुशील अने कपायकुशीलयी पण हीनादि छे, निर्ग्रन्थ अने स्नातकयी तो हीन ज छे.

७६ ‡ प्रतिसेवनाकुशील अने कपायकुशील वडुयनी पेटे जाणवा. परन्तु ला पुलाकनी वडुय अधिक कइयो छे अने अहीं पुलाकनी कपायकुशील पदस्थान पतित जाणवो. केमके तेना परिणाम पुलाकनी अपेक्षाए हीन, सम अने अधिक छे.—टीका.

८०. [प्र०] गिर्यंठे णं भंते ! गिर्यंठस्स सट्टाणसन्निगासेणं-पुच्छ । [उ०] गोयमा ! नो हीणे, तुल्ले, णो अम्महिए । एवं सिणायस्स वि ।

८१. [प्र०] सिणाए णं भंते ! पुल्लागस्स परट्टाणसन्निगासेणं ? [उ०] एवं जहा नियंठस्स वत्तघया तहा सिणायस्स वि भाणियघा । जाव-सिणाए णं भंते ! सिणायस्स सट्टाणसन्निगासेणं-पुच्छ । [उ०] गोयमा ! णो हीणे, तुल्ले, णो अम्महिए ।

८२. [प्र०] एएसि णं भंते !-पुलाग-वकुस-पडिसेवणाकुसील-कसायकुसील-निर्यंठ-सिणायाणं जहत्तुक्कोसगाणं चरित्तपज्जवाणं कयरे कयरे-जाव-विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! १ पुल्लागस्स कसायकुसीलस्स य एएसि णं जहत्तुक्कोसगाणं चरित्तपज्जवा दोण्ह वि तुल्ला सव्वत्थोवा । २ पुल्लागस्स उक्कोसगा चरित्तपज्जवा अणंतगुणा । ३ वउसस्स पडिसेवणाकुसीलस्स य एएसि णं जहत्तुक्कोसगा चरित्तपज्जवा दोण्ह वि तुल्ला अणंतगुणा । ४ वउसस्स उक्कोसगा चरित्तपज्जवा अणंतगुणा । ५ पडिसेवणाकुसीलस्स उक्कोसगा चरित्तपज्जवा अणंतगुणा । ६ कसायकुसीलस्स उक्कोसगा चरित्तपज्जवा अणंतगुणा । ७ गिर्यंठस्स सिणायस्स य एएसि णं अजहत्तुक्कोसगा चरित्तपज्जवा दोण्ह वि तुल्ला अणंतगुणा १५ ।

८३. [प्र०] पुलाए णं भंते ! किं सयोगी होज्जा, अजोगी होज्जा ? [उ०] गोयमा ! सयोगी होज्जा, नो अयोगी होज्जा । [प्र०] जइ सयोगी होज्जा किं मणजोगी होज्जा, वइजोगी होज्जा, कायजोगी होज्जा ? [उ०] गोयमा ! मणजोगी वा होज्जा, वयजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा । एवं जाव-निर्यंठे ।

८४. [प्र०] सिणाए णं-पुच्छ । [उ०] गोयमा ! सयोगी वा होज्जा, अयोगी वा होज्जा । जइ सयोगी होज्जा किं मणजोगी होज्जा-सेसं जहा पुल्लागस्स १६ ।

८५. [प्र०] पुलाए णं भंते ! किं सागारोवउत्ते होज्जा, अणागारोवउत्ते होज्जा ? [उ०] गोयमा ! सागारोवउत्ते वा होज्जा, अणागारोवउत्ते वा होज्जा । एवं जाव-सिणाए १७ ।

८०. [प्र०] हे भगवन् ! निर्ग्रंथ निर्ग्रंथना सजातीय चारित्रपर्यवोधी शृं हीन छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते हीन नयी अने अधिक नयी, पण तुल्य छे. ए प्रमाणे स्नातकनी अपेक्षाए पण समजवुं.

निर्ग्रंथना सजातीय-नी अपेक्षाए चारित्र-पर्यायो.

८१. [प्र०] हे भगवन् ! स्नातक पुलाकना विजातीय चारित्रपर्यवोधी शृं हीन छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! जेम निर्ग्रंथ संबन्धे वक्तव्यता कही तेम स्नातक संबन्धे पण वक्तव्यता कहेवी. यावत्-[प्र०] हे भगवन् ! स्नातक स्नातकना सजातीय चारित्रपर्यवोधी शृं हीन छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते हीन नयी, अधिक नयी, पण तुल्य छे.

स्नातकना पुलाकनी अपेक्षाए चारित्र-पर्याय

८२. [प्र०] हे भगवन् ! ए पुलाक, वकुश, प्रतिसेवनाकुशील, कपायकुशील, निर्ग्रंथ अने स्नातकना जघन्य अने उत्कृष्ट चारित्रपर्यवो कोना कोनाथी यावत्-विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! १ पुलाक अने कपायकुशीलना जघन्य चारित्रपर्यवो परस्पर तुल्य छे अने सौथी थोडा छे. २ तेथी पुलाकना उत्कृष्ट चारित्रपर्यवो अनंतगुण छे. ३ तेथी वकुश अने प्रतिसेवनाकुशीलना जघन्य चारित्रपर्यवो अनंतगुण अने परस्पर तुल्य छे. ४ तेथी वकुशना उत्कृष्ट चारित्रपर्यवो अनंतगुण छे. ५ तेथी प्रतिसेवनाकुशीलना उत्कृष्ट चारित्रपर्यवो अनंतगुण छे. ६ तेथी कपायकुशीलना उत्कृष्ट चारित्रपर्यवो अनंतगुण छे. ७ तेथी निर्ग्रंथ अने स्नातक ए वज्जेना अजघन्य तथा अनुत्कृष्ट चारित्रपर्यवो अनंतगुण अने परस्पर तुल्य छे.*

अल्पबहुत्व.

८३. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाक सयोगी होय के अयोगी होय ? [उ०] हे गौतम ! सयोगी होय, पण अयोगी न होय. [प्र०] जो सयोगी होय तो शृं मनयोगी होय, वचनयोगी होय के काययोगी होय ? [उ०] हे गौतम ! ते मनयोगी होय, वचनयोगी होय अने काययोगी पण होय. ए प्रमाणे यावत्-निर्ग्रंथ सुधी जाणवुं.

१६ योगद्वार-पुलाक अने कोन.

८४. [प्र०] हे भगवन् ! शृं स्नातक सयोगी होय-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते सयोगी पण होय अने अयोगी पण होय. जो ते सयोगी होय तो शृं मनयोगी होय, वचनयोगी होय के काययोगी होय-इत्यादि वधुं पुलाकनी पेटे जाणवुं.

स्नातक अने योग.

८५. [प्र०] हे भगवन् ! शृं पुलाक साकार उपयोगवाळो छे के अनाकार उपयोगवाळो छे ? [उ०] हे गौतम ! ते साकार उपयोगवाळो अने अनाकार उपयोगवाळो छे. ए प्रमाणे यावत्-स्नातक सुधी समजवुं.

१७ उपयोगद्वार-पुलाक अने उपयोग.

जघन्य अने उत्कृष्ट चारित्रपर्यायोऽं अल्पबहुत्वदर्शक यन्त्र

८२ * १ पुलाक	} जघन्य०	३ पुलाक उ०	६ वकुश उ०	७ प्रतिसेवना कु० उ०	९ निर्ग्रंथ	} परस्पर तुल्य
२ कपायकुशील		} परस्पर तुल्य	४ वकुश	८ कपायकु० उ०	१० स्नातक	
			५ प्रतिसेवना कु०			

८६. [प्र०] पुलाए णं भंते ! सकसायी अकसायी होजा ? [उ०] गोयमा ! सकसायी होजा, णो अकसायी होजा । [प्र०] जइ सकसाई से णं भंते ! कतिमु कसाएसु होजा ? [उ०] गोयमा ! चउसु कोह-माण-माया-लोमेसु होजा । एवं वउसे वि; एवं पडिसेवणाकुसीले वि ।

८७. [प्र०] कसायकुसीले णं-पुच्छा [उ०] गोयमा ! सकसायी होजा, णो अकसायी होजा । [प्र०] जइ सकसायी होजा से णं भंते ! कतिमु कसाएसु होजा ? [उ०] गोयमा ! चउसु वा तिसु वा दोसु वा एगंमि वा होजा । चउसु होमाणे चउसु संजलणकोह-माण-माया-लोमेसु होजा; तिसु होमाणे तिसु संजलणमाण-माया-लोमेसु होजा, दोसु होमाणे संजलणमाया-लोमेसु होजा, एगंमि होमाणे संजलणलोमे होजा ।

८८. [प्र०] नियंटे णं-पुच्छा [उ०] गोयमा ! णो सकसायी होजा, अकसायी होजा । [प्र०] जइ अकसायी होजा किं उवसंतकसायी होजा, खीणकसायी होजा ? [उ०] गोयमा ! उवसंतकसायी वा होजा, खीणकसायी वा होजा । सिणाए एवं चेव; नवरं णो उवसंतकसायी होजा; खीणकसायी होजा १८ ।

८९. [प्र०] पुलाए णं भंते ! किं सलेस्से होजा, अलेस्से होजा ? [उ०] गोयमा ! सलेस्से होजा, णो अलेस्से होजा । [प्र०] जइ सलेस्से होजा, से णं भंते ! कतिमु लेस्सासु होजा ? [उ०] गोयमा ! तिसु विसुद्धलेस्सासु होजा; तंजहा-तेउलेस्साए, पम्हलेस्साए, सुम्हलेस्साए । एवं वउसस वि; एवं पडिसेवणाकुसीले वि ।

९०. [प्र०] कसायकुसीले-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सलेस्से होजा, णो अलेस्से होजा; । [प्र०] जइ सलेस्से होजा, से णं भंते ! कतिमु लेसासु होजा ? [उ०] गोयमा ! छुसु लेसासु होजा, तंजहा-कण्हेस्साए, जाव-सुम्हलेस्साए ।

९१. [प्र०] नियंटे णं भंते !-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सलेस्से होजा, णो अलेस्से होजा । [प्र०] जइ सलेस्से होजा से णं भंते ! कतिमु लेस्सासु होजा ? [उ०] गोयमा ! एकाए सुम्हलेस्साए होजा ।

२८ कपायवार-
पुलाएने
कपायो

८६. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाक सकपायी होय के कपायरहित होय ? [उ०] हे गौतम ! ते सकपायी होय, पण कपायरहित न होय. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते कपायवाळो छे तो तेने केटला कपायो होय ? [उ०] हे गौतम ! तेने क्रोध, मान, माया अने लोम ए चार कपाय होय. ए प्रमाणे बहुश तथा प्रतिसेवनाकुशील पण जाणवो.

कपायवृत्तने
कपायो.

८७. [प्र०] हे भगवन् ! कपायकुशील कपायवाळो होय के कपाय विनानो होय ? [उ०] हे गौतम ! ते कपायवाळो होय, पण कपाय विनानो न होय. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते सकपायी होय तो तेने केटला कपायो होय ? [उ०] हे गौतम ! तेने चार, त्रण, वे अने एक कपाय होय. जो तेने चार कपायो होय तो संज्वलन क्रोध, मान, माया अने लोम ए चार कपाय होय. जो तेने त्रण कपायो होय तो संज्वलन मान, माया अने लोम ए त्रण कपाय होय. जो तेने वे कपायो होय तो संज्वलन माया अने लोम होय. अने जो तेने एक कपाय होय तो एक संज्वलन लोम होय.

निर्ग्रन्थने कपाय.

८८. [प्र०] हे भगवन् ! निर्ग्रय कपायवाळो होय-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते कपायवाळो न होय, पण कपायरहित होय. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते कपायरहित होय तो शुं ते उपशांतकपाय होय के क्षीणकपाय होय ? [उ०] हे गौतम ! ते उपशांतकपाय होय अने क्षीणकपाय पण होय. ए प्रमाणे स्नातक संवन्धे पण समजवुं. परन्तु स्नातक क्षीणकपाय ज होय, पण उपशांतकपाय न होय.

१९ लेस्यावार-
पुलाएने
लेस्या.

८९. [प्र०] हे भगवन् ! शुं पुलाक लेस्यावाळो होय के लेस्यारहित होय ? [उ०] हे गौतम ! लेस्यावाळो होय, पण लेस्यारहित न होय. जो ते लेस्यावाळो होय तो तेने केटली लेस्या होय ? [उ०] हे गौतम ! तेने त्रण विशुद्ध लेस्या होय. ते आ प्रमाणे-तेजोलेस्या, पद्मलेस्या अने शुद्धलेस्या. ए प्रमाणे बहुश तथा प्रतिसेवनाकुशीलसवन्धे पण समजवुं.

कपायवृत्तने
लेस्या.

९०. [प्र०] हे भगवन् ! शुं कपायकुशील लेस्यावाळो होय-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते लेस्यावाळो होय, पण लेस्यारहित न होय. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते लेस्यावाळो होय तो तेने केटली लेस्या होय ? [उ०] हे गौतम ! तेने छ लेस्या होय. ते आ-प्रमाणे-९ कृष्णलेस्या अने यावत्-६ शुद्धलेस्या.

निर्ग्रन्थने लेस्या.
स्नातकने लेस्या.

९१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं निर्ग्रय लेस्यावाळो होय-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते लेस्यावाळो होय, पण लेस्या विनानो न होय. [प्र०] जो ते लेस्यावाळो होय तो तेने केटली लेस्या होय ? [उ०] हे गौतम ! तेने एक शुद्धलेस्या होय.

८६ * पुलाकने कपायोनो क्षय के उपशम होतो नथी एटले ते सकपायी ज होय छे

८७ † उपशमधेनि के क्षयकथेनिमां संज्वलन क्रोधनो उपशम के क्षय थयो होय सारे त्रण कपायो, माननो क्षय के उपशम थाय सारे वे अने माया जाव सारे संवन्धपरायशुण्यनके एक संज्वलन लोम होय.—टीका.

९२. [प्र०] सिणाए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सलेस्से वा होजा, अलेस्से वा होजा । [प्र०] जह सलेस्से होजा, से णं भंते ! कतिसु लेस्सासु होजा ? [उ०] गोयमा ! एगाए परमसुकलेस्साए होजा १९ ।

९३. [प्र०] पुलाए णं भंते ! किं वह्माणपरिणामे होजा, हीयमाणपरिणामे होजा, अवट्टियपरिणामे होजा ? [उ०] गोयमा ! वह्माणपरिणामे वा होजा, हीयमाणपरिणामे वा होजा, अवट्टियपरिणामे वा होजा । एवं जाव-कसायकुसीले ।

९४. [प्र०] णियंटे णं-पुच्छा [उ०] गोयमा ! वह्माणपरिणामे होजा, णो हीयमाणपरिणामे होजा, अवट्टियपरिणामे वा होजा । एवं सिणाए वि ।

९५. [प्र०] पुलाए णं भंते ! केवइयं कालं वह्माणपरिणामे होजा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं ।

९६. [प्र०] केवतियं कालं हीयमाणपरिणामे होजा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं ।

९७. [प्र०] केवइयं कालं अवट्टियपरिणामे होजा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं सत्त समयया । एवं जाव-कसायकुसीले ।

९८. [प्र०] नियंटे णं भंते ! केवतियं कालं वह्माणपरिणामे होजा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

९९. [प्र०] केवतियं कालं अवट्टियपरिणामे होजा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं ।

९२. [प्र०] हे भगवन् ! शुं स्नातक लेस्यावाळो होय-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते लेस्यावाळो होय अने लेस्यारहित पण होय. [प्र०] जो ते लेस्यावाळो होय तो ते केटली लेस्यावाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! तेने एक परमशुक्क लेस्या होय.

९३. [प्र०] हे भगवन् ! पुलक वधता परिणामवाळो होय, घटता परिणामवाळो होय के स्थिर परिणामवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! वधता परिणामवाळो होय, हीयमान-घटता परिणामवाळो होय अने स्थिर परिणामवाळो पण होय. ए प्रमाणे यावत्-कपाय-कुशील सुधी जाणहुं.

२० परिणामदार-
पुलाक अने
परिणाम.

९४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं निर्ग्रंथ वधता परिणामवाळो होय-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते वधता परिणामवाळो होय, स्थिरपरिणामवाळो होय, पण †हीयमान परिणामवाळो न होय. ए प्रमाणे स्नातक सवन्धे पण जाणहुं.

निर्ग्रंथ अने
परिणाम

९५. [प्र०] हे भगवन् ! पुलक केटला काळ सुधी वधता परिणामवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य एक समय अने उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त सुधी वधता परिणामवाळो होय.

पुलाकना परिणा-
मनो काळ.

९६. [प्र०] हे भगवन् ! (पुलाक) केटला काळ सुधी हीयमान परिणामवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य एक समय अने उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त सुधी हीयमानपरिणामवाळो होय.

९७. [प्र०] केटला काळ सुधी स्थिर परिणामवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य एक समय अने उत्कृष्ट सात समय सुधी स्थिर परिणामवाळो होय. ए प्रमाणे यावत्-कपायकुशील संबन्धे पण समजहुं.

९८. [प्र०] हे भगवन् ! निर्ग्रंथ केटला काळ सुधी वधता परिणामवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य †अंतर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट पण अंतर्मुहूर्त सुधी वधता परिणामवाळो होय.

निर्ग्रंथना परिणाम

९९. [प्र०] हे भगवन् ! ते केटला काळ सुधी स्थिर परिणामवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य एक समय सुधी अने उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त सुधी स्थिर परिणामवाळो होय.

९२ * शुक्लध्यानना त्रीजा भेद समये एक परमशुक्क लेस्या होय अने अन्यदा शुक्कलेस्या होय, अने ते पण इतर जीवनी शुक्कलेस्यानी अपेक्षाए तो परमशुक्क लेस्या होय

९४ † निर्ग्रंथ हीयमान परिणामवाळो न होय, जो तेना परिणामनी हानि थाय तो ते कपायकुशील कहेवाय. स्नातकने तो परिणामनी हानिनुं कारण नहि होवाथी ते हीयमान परिणामवाळो न होय.

९५ ‡ पुलाकना परिणाम ज्यारे वधता होय अने कपायवडे वाधित थाय त्यारे एकादि समय वर्धमान परिणामनो अनुभव करे, तेथी तेनो काळ जघन्यथी एक समय होय अने उत्कर्षथी अन्तर्मुहूर्त होय. एम वक्रुश, प्रतिसेवाकुशील अने कपायकुशीलने निपे पण जाणवु परन्तु वक्रुशादिने जघन्यथी एक समय वर्धमान परिणाम मरणथी पण घटे छे. अने पुलाकपणामा मरण न थहुं होवाथी पुलाकने मरणथी एक समय घटी शकतो नथी, ते मरणसमये कपायकुशीलत्वादिरूपे परिणमे छे पुलाकने मरण कहुं ते भूतभावनी अपेक्षाए जाणुं

९८-९९ † निर्ग्रंथ जघन्य अने उत्कर्षथी अन्तर्मुहूर्त सुधी वर्धमानपरिणामवाळो होय, अने ज्यारे केवलज्ञान उपजे त्यारे तेना परिणामान्तर थाय, निर्ग्रंथने अवस्थित परिणाम जघन्यत एक समय मरणथी घटी शके.

१००. [प्र०] सिणाए णं भंते ! केवदयं कालं बहुमाणपरिणामे होजा ? [उ०] गोयमा ! जहघेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१०१. [प्र०] केवदयं कालं अयद्वियपरिणामे होजा ? [उ०] गोयमा ! जहघेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं देसूणा पुव्व-कोडी २० ।

१०२. [प्र०] पुलाए णं भंते ! कति कम्मपगडीओ वंधति ? [उ०] गोयमा ! आउयवजाओ सत्त कम्मपगडीओ वंधति ।

१०३. [प्र०] वउसे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सत्तविहवंधण वा, अट्टविहवंधण वा । सत्त वंधमाणे आउयवजाओ सत्त कम्मपगडीओ वंधति; अट्ट वंधमाणे पडिपुत्ताओ अट्ट कम्मपगडीओ वंध । एवं पडिसेवणाकुसीले वि ।

१०४. [प्र०] कसायकुसीले पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सत्तविहवंधण वा, अट्टविहवंधण वा, छद्विहवंधण वा । सत्त वंधमाणे आउयवजाओ सत्त कम्मपगडीओ वंध, अट्ट वंधमाणे पडिपुत्ताओ अट्ट कम्मपगडीओ वंध, छ वंधमाणे आउय-मोहणिज्जवजाओ छकम्मपगडीओ वंध ।

१०५. [प्र०] नियंटे णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एगं वेयणिजं कम्मं वंध ।

१०६. [प्र०] सिणाए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एगविहवंधण वा, अंधण वा । एगं वंधमाणे एगं वेयणिजं कम्मं वंध २१ ।

१०७. [प्र०] पुलाए णं भंते ! कति कम्मपगडीओ वेदेइ ? [उ०] गोयमा ! नियमं अट्ट कम्मपगडीओ वेदेइ । एवं जाव-कसायकुसीले ।

१००. [प्र०] हे भगवन् ! स्नातक केटळा काळ सुची वधता परिणामवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! इजवन्य अंतर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट पण अंतर्मुहूर्त सुची वधता परिणामवाळो होय.

१०१. [प्र०] स्नातक केटळा काळ सुची स्थिर परिणामवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! जवन्य अंतर्मुहूर्त अने उत्कृष्ट कांदक (आठ वरस) न्यून पूर्वकोटी वर्ष सुची ते स्थिर परिणामवाळो होय.

१०२. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाक केटळी कर्मप्रकृतिओने वांवे ? [उ०] हे गौतम ! ते एक आयुष सिवायनी सात कर्मप्रकृतिओने वांवे.

१०३. [प्र०] हे भगवन् ! वकुल केटळी कर्मप्रकृतिओने वांवे ? [उ०] हे गौतम ! ते सात कर्मप्रकृतिओने के आठ कर्मप्रकृतिओने वांवे. जो सात कर्मने वांवे तो आयुष सिवायनी सात कर्मने वांवे, अने जो आठ प्रकृतिओ वांवे तो संपूर्ण आठ प्रकृतिओ वांवे. ए प्रमाणे प्रतिसेवनाकुशील पण जाणवो.

१०४. [प्र०] हे भगवन् ! कपायकुशील केटळी कर्मप्रकृतिओने वांवे ? [उ०] हे गौतम ! ते सात कर्मप्रकृतिओ, आठ कर्मप्रकृतिओ के छ कर्मप्रकृतिओने वांवे, जो सातने वांवे तो आयुष सिवायनी सात वांवे, आठने वांवे तो प्रतिपूर्ण आठ प्रकृतिओने वांवे, अने छने वांवे तो आयुष अने मोहनीय सिवायनी छ कर्मप्रकृतिओने वांवे.

१०५. [प्र०] हे भगवन् ! निर्प्रय केटळी कर्मप्रकृतिओने वांवे ? [उ०] हे गौतम ! ते मात्र एक विदनीय कर्मने वांवे.

१०६. [प्र०] हे भगवन् ! स्नातक केटळी कर्मप्रकृतिओने वांवे ? [उ०] हे गौतम ! ते एक कर्मप्रकृतिने वांवे, अथवा न वांवे. जो एकने वांवे तो एक वेदनीयकर्मने वांवे.

१०७. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाक केटळी कर्मप्रकृतिने वेदे-अनुभवे ? [उ०] हे गौतम ! ते अवश्य आटे कर्मप्रकृतिओने वेदे. ए प्रमाणे वावत्-कपायकुशील संबन्धे जाणवुं.

१०० § स्नातक जवन्य अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त वर्धमान परिणामवाळो होय, केमके शैलेशी अवस्थामां वर्धमान परिणाम अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होय तेने अवस्थित परिणामनो काळ पण जवन्यधी अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त होय, जे केवलज्ञान उत्पन्न थया पछी अन्तर्मुहूर्त सुधी अवस्थित परिणामवाळो थडेने शैलेशीने स्वीकारे तेनी अपेक्षाए जाणवो उत्कर्षधी काळक न्यून पूर्वकोटी वर्षे काळ होय कारण के पूर्वकोटी आयुषवाळा पुरयने जन्मधी जवन्य नव वरस गत्ता पछी केवलज्ञान उपजे तेथी ते नव वरस न्यून पूर्वकोटी वर्ष पर्यन्त अवस्थित परिणामवाळो थडेने शैलेशी सुधी विहरे अने शैलेशीमां वर्धमान परिणामवाळो होय

१०२ * पुलाकने आयुषनो वन्ध थतो नथी, कारण के तेने आयुषयन्वयोरय अव्यवसायस्थानको नथी.

१०४ † कपायकुशील सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानके आयुष न वांवे, कारण के आयुषनो वन्ध अप्रमत्त गुणस्थानक सुधी होय छे, अने मोहनीय वादरक पायोपयना अभावधी न वांवे, माटे मोहनीय अने आयुष सिवाय वादीनी छ प्रकृतिओ वांवे.

१०५ ‡ निर्प्रय योगनिमित्त एक वेदनीय कर्म वांवे, कारण के तेने वन्धहेतुव्योमा मात्र योगनो ज सद्भाव होय छे.

१०६ † स्नातक अयोगी गुणस्थानके वन्धहेतुना अभावधी अपन्धक छे.

१ वन्धवार-
उठने कर्मप्रकृति-
ओने वंध

उठने कर्मप्रकृति-
ओनो वन्ध.

उठनीयने प्रकृ-
तिओ वन्ध

उठने कर्मप्रकृति-
ओनो वंध.

उठने कर्मप्रकृति-
ओनो वंध.

वेदवार-
पुलाकने कर्मनुं
वेदन.

१०८. [प्र०] नियंठे णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! मोहणिज्जवज्जाओ सत्त कम्मप्पगडीओ वेदेइ ।

१०९. [प्र०] सिणाए णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! वेयणिज्ज-आउय-नाम-गोयाओ चत्तारि कम्मप्पगडीओ वेदेइ २२ ।

११०. [प्र०] पुलाए णं भंते ! कति कम्मप्पगडीओ उदीरेति ? [उ०] गोयमा ! आउय-वेयणिज्जवज्जाओ छ कम्मप्पगडीओ उदीरेइ ।

१११. [प्र०] वउसे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सत्तविहउदीरण वा, अट्टविहउदीरण वा, छद्विहउदीरण वा । सत्त उदीरेमाणे आउयवज्जाओ सत्त कम्मप्पगडीओ उदीरेति; अट्ट उदीरेमाणे पडिपुन्नाओ अट्ट कम्मप्पगडीओ उदीरेति, छ उदीरेमाणे आउय-वेयणिज्जवज्जाओ छ कम्मप्पगडीओ उदीरेति । पडिसेवणाकुसीले एवं चेव ।

११२. [प्र०] कसायकुसीले-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सत्तविहउदीरण वा, अट्टविहउदीरण वा, छद्विहउदीरण वा, पंचविहउदीरण वा । सत्त उदीरेमाणे आउयवज्जाओ सत्त कम्मप्पगडीओ उदीरेति; अट्ट उदीरेमाणे पडिपुन्नाओ अट्ट कम्मप्पगडीओ उदीरेति; छ उदीरेमाणे आउय-वेयणिज्जवज्जाओ छ कम्मप्पगडीओ उदीरेति, पंच उदीरेमाणे आउय-वेयणिज्ज-मोहणिज्जवज्जाओ पंच कम्मप्पगडीओ उदीरेति ।

११३. [प्र०] नियंठे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! पंचविहउदीरण वा, डुविहउदीरण वा । पंच उदीरेमाणे आउय-वेयणिज्ज-मोहणिज्जवज्जाओ पंच कम्मप्पगडीओ उदीरेति; दो उदीरेमाणे णामं च गोयं च उदीरेति ।

११४. [प्र०] सिणाए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! डुविहउदीरण वा अणुदीरण वा । दो उदीरेमाणे णामं च गोयं च उदीरेति २३ ।

११५. [प्र०] पुलाए णं भंते ! पुलायत्तं जहमाणे किं जहति, किं उवसंपज्जति ? [उ०] गोयमा ! पुलायत्तं जहति, कसायकुसीलं वा अस्संजमं वा उवसंपज्जति ।

११६. [प्र०] वउसे णं भंते ! वउसत्तं जहमाणे किं जहति, किं उवसंपज्जति ? । [उ०] गोयमा ! वउसत्तं जहति, पडिसेवणाकुसीलं वा कसायकुसीलं वा असंजमं वा संजमासंजमं वा उवसंपज्जति ।

१०८. [प्र०] हे भगवन् ! निर्ग्रंथ केटली कर्मप्रकृतिओने वेदे ? [उ०] हे गौतम ! मोहनीय सिवायनी सात कर्मप्रकृतिओने वेदे.

निरग्रंथने कर्मवेदन.

१०९. [प्र०] हे भगवन् ! स्नातक केटली कर्मप्रकृतिओने वेदे ? [उ०] हे गौतम ! वेदनीय, आयुप, नाम अने गोत्र-ए चार कर्मप्रकृतिओने वेदे.

स्नातकने कर्मवेदन.

११०. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाक केटली कर्मप्रकृतिओने उदीरे ? [उ०] हे गौतम ! *आयुप अने वेदनीय सिवाय छ कर्मप्रकृतिओने उदीरे.

. २३ उदीरणा-पुलाकने उदीरणा

१११. [प्र०] वकुश केटली कर्मप्रकृतिओने उदीरे ? [उ०] हे गौतम ! सात, आठ के छ कर्मप्रकृतिओने उदीरे. जो ते सातने उदीरे तो आयुप सिवायनी सात कर्मप्रकृतिओने उदीरे, जो आठ प्रकृतिओने उदीरे तो संपूर्ण आठ कर्मप्रकृतिओने उदीरे, अने जो छने उदीरे तो आयुप अने वेदनीय सिवायनी छ कर्मप्रकृतिओने उदीरे. प्रतिसेवनाकुशील पण एज प्रमाणे समजवो.

वकुशने उदीरणा

११२. [प्र०] हे भगवन् ! कपायकुशील केटली कर्मप्रकृतिओने उदीरे ? [उ०] हे गौतम ! ते सात, आठ, छ के पाच कर्मप्रकृतिओने उदीरे. सातने उदीरतो आयुप सिवायनी सात कर्मप्रकृतिओने उदीरे, आठने उदीरतो संपूर्ण आठ कर्मप्रकृतिओने उदीरे, छने उदीरतो आयुप अने वेदनीय सिवायनी छ प्रकृतिओने उदीरे, अने पाचने उदीरतो आयुप, वेदनीय तथा मोहनीय सिवायनी पांच कर्मप्रकृतिओने उदीरे.

कपायकुशीलने उदीरणा

११३. [प्र०] हे भगवन् ! निर्ग्रंथ केटली कर्मप्रकृतिओने उदीरे ? [उ०] हे गौतम ! ते पाच के वे कर्मप्रकृतिओने उदीरे. पाचने उदीरतो आयुप, वेदनीय अने मोहनीय सिवायनी पाच कर्मप्रकृतिओने उदीरे, अने वेने उदीरतो नाम अने गोत्र ए वे कर्मप्रकृतिओ उदीरे.

स्नातकने उदीरणा

११४. [प्र०] हे भगवन् ! स्नातक केटली कर्मप्रकृतिओने उदीरे ? [उ०] हे गौतम ! ते वे कर्मने उदीरे अथवा न उदीरे. वेने उदीरतो नाम अने गोत्र कर्मने उदीरे छे.

११५. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाक पुलाकपणानो त्याग करतो शेनो त्याग करे अने शुं प्राप्त करे ? [उ०] हे गौतम ! पुलाकपणानो त्याग करे अने कपायकुशीलपणं पामे के असयतपणं पामे.

२४ उपसपद्-हानद्वार-पुलाकनो उप-सपद्-हान वकुशनी उपसपद् अने हान

११६. [प्र०] हे भगवन् ! वकुश वकुशपणाने छोडतो शुं छोडे अने शुं पामे ? [उ०] हे गौतम ! वकुशपणं छोडे अने प्रतिसेवनाकुशीलपणं, कपायकुशीलपणं, असयम के संयमासयमने पामे.

११०-११३ * पुलाक आयुप अने वेदनीय कर्मने उदीरतो नथी, कारण के तेने तथाविध अभ्यवसायस्थानको नथी परन्तु ते पूर्व उदीरीने पुलाकपणाने पामे छे एम आगळना सूत्रमां पण जे जे प्रकृतिओने उदीरतो नथी ते ते प्रकृतिओने पूर्व उदीरतो वकुशादिपणाने पामे छे. स्नातक सयोगी अवस्थामा नाम-गोत्र कर्मनो उदीरक छे अने आयुप अने वेदनीय कर्मनी पूर्व उदीरणा कहेली छे.

११७. [प्र०] पडिसेवणाकुसीले णं भंते ! पडि०—पुच्छा । गोयमा ! पडिसेवणाकुसीलत्तं जहति, वडसं वा, कसाय-कुसीलं वा, अस्संजमं वा, संजमासंजमं वा उवसंपज्जति ।

११८. [प्र०] कसायकुसीले—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! कसायकुसीलत्तं जहति, पुलायं वा, वडसं वा पडिसेवणा-कुसीलं वा, णियंटे वा, अस्संजमं वा, संयमासंयमं वा उवसंपज्जति ।

११९. [प्र०] णियंटे—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नियंटेत्तं जहति, कसायकुसीलं वा, सिणायं वा, अस्संजमं वा उवसंपज्जति ।

१२०. [प्र०] सिणाय—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिणायत्तं जहति, सिद्धिगतिं उवसंपज्जति २४ ।

१२१. [प्र०] पुलाय णं भंते ! किं सन्नोवउत्ते होज्जा, नोसन्नोवउत्ते होज्जा ? [उ०] गोयमा ! नोसन्नोवउत्ते होज्जा ।

१२२. [प्र०] वडसे णं भंते !—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सन्नोवउत्ते वा होज्जा, नोसन्नोवउत्ते वा होज्जा । एवं पडि-सेवणाकुसीले वि; एवं कसायकुसीले वि । नियंटे सिणाय य जहा पुलाय २५ ।

१२३. [प्र०] पुलाय णं भंते ! किं आहारय होज्जा, अणाहारय होज्जा ? [उ०] गोयमा ! आहारय होज्जा, णो अणा-हारय होज्जा । एवं जाव—नियंटे ।

१२४. [प्र०] सिणाय—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! आहारय वा होज्जा, अणाहारय वा होज्जा २६ ।

१२५. [प्र०] पुलाय णं भंते ! कति भवग्गहणाइं होज्जा ? [उ०] गोयमा ! जहत्तेणं पक्कं, उग्गोसेणं तिप्पि ।

प्रतिसेवणाकुसीली
उपसंपद्दं अने हान-

११७. [प्र०] हे भगवन् ! प्रतिसेवणाकुशील प्रतिसेवणाकुशीलपणुं छोडतो शुं छोडे अने शुं पामे ? [उ०] हे गौतम ! प्रतिसेव-णाकुशीलपणुं छोडे अने वकुशपणुं, कपायकुशीलपणुं, असंयम के संयमासंयम पामे.

कपायकुशीली
उपसंपद्दं अने हान-

११८. [प्र०] हे भगवन् ! कपायकुशील कपायकुशीलपणुं छोडतो शुं छोडे अने शुं पामे ? [उ०] हे गौतम ! कपायकुशीलपणुं छोडे अने पुलाकपणुं, वकुशपणुं, प्रतिसेवणाकुशीलपणुं, निर्प्रयपणुं, असंयम के संयमासंयमने पामे.

निर्प्रय शुं छोडे अने
शुं पामे ?

११९. [प्र०] हे भगवन् ! निर्प्रय निर्प्रयपणुं छोडतो शुं छोडे अने शुं पामे ? [उ०] हे गौतम ! "निर्प्रयपणुं छोडे अने कपायकु-शीलपणुं, स्नातकपणुं के असंयम पामे.

स्नातक शुं छोडे अने
शुं पामे ?

१२०. [प्र०] हे भगवन् ! स्नातक स्नातकपणुं छोडतो शुं छोडे अने शुं पामे ? [उ०] हे गौतम ! स्नातकपणुं छोडे अने सिद्धिगतिये पामे.

२५ सन्नोप-
पुलाक अने सन्ना-

१२१. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाक 'संज्ञोपयुक्त—आहारादिनी आसक्ति युक्त छे के नोसंज्ञोपयुक्त—आहारादिनी अनासक्ति युक्त छे ? [उ०] हे गौतम ! संज्ञोपयुक्त नथी, पण नोसंज्ञोपयुक्त छे.

वकुश अने सन्ना

१२२. [प्र०] हे भगवन् ! शुं वकुश संज्ञोपयुक्त छे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! संज्ञोपयुक्त छे अने नोसंज्ञोपयुक्त पण छे. ए प्रमाणे प्रतिसेवणाकुशील अने कपायकुशील पण जाणवा. स्नातक अने निर्प्रय पुलाकनी पेटे (नोसंज्ञोपयुक्त) जाणवा.

२६ आहारद्वार-
पुलाक अने आहार-

१२३. [प्र०] हे भगवन् ! शुं पुलाक आहारक होय के अनाहारक होय ? [उ०] हे गौतम ! 'आहारक होय, पण अनाहारक न होय. ए प्रमाणे यावत्—निर्प्रय सुधी जाणवुं.

स्नातक अने आहार

१२४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं स्नातक आहारक होय के अनाहारक होय ? [उ०] हे गौतम ! आहारक पण होय अने अनाहारक पण होय.

२७ भवद्वार-
पुलाकने भव

१२५. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाकने केटलं भवग्रहण थाय ? [उ०] हे गौतम ! 'जवन्य एक अने उत्कृष्ट त्रण भवग्रहण थाय.

११९ - उपगमनिर्प्रय श्रेणिकी पटतो सकपाय—कपायकुशील थाय, अने श्रेणिना शिवरे नरण पानी देवपणे उत्पन्न थतो असंयत थाय, पण देशवि-रति न थाय. कारण के देवपणामा देवविरति नथी यद्यपि श्रेणिकी पटने देवविरति पण थाय छता ते अहिं न कळो, कारण के श्रेणिकी पटने तुरत ज-देश-विरति थतो नथी, पण कपायकुशील थइने पट्टी देवविरति थाय छे

१२१ † आहारादि संज्ञामा उपयुक्त—आहारादिना अभिलाषवाळो संज्ञोपयुक्त कहेवाय छे आहारादिनो उपभोग करवा छता तेने पिपे आसकिरहित नोसंज्ञो पयुक्त कहेवाय छे तेमा आहारादिने पिपे आसक्ति रहित होवाथी पुलाक, निर्प्रय अने स्नातक नोसंज्ञोपयुक्त होय छे. यद्यपि निर्प्रय अने स्नातक तो वीतराग होवाथी नोसंज्ञोपयोगयुक्त छे, पण मरामी होवाथी पुलाक नोसंज्ञोपयुक्त केम होइ थके—ए शंका न करवी, केमके सरागपणामा सर्वथा आसकिरहितपणुं नथी एम न करी थकाय वट्टादि सराग होवा छता पण नि संग छे एम प्रतिपादन करेळुं छे. चूर्णिकार कहे छे के—नोसन्ना—ज्ञानसन्ना, तेमा पुलाक, निर्प्रय अने स्नातक नोसंज्ञोपयोग सहित होय छे एट्टे ज्ञानप्रधान उपभोगवाळा होय छे, पण आहारादि संज्ञाना उपभोगवाळा होता नथी. वकुशादि तो नोसंज्ञा अने संज्ञा वत्तेना उपभोगवाळा होय छे

१२३ ‡ पुलाकनी आरामी निर्प्रय सुधीना सुनिने विग्रहगत्तादि रूप अनाहारकपणाना कारणनो अभाव होवाथी आहारकपणुं ज छे स्नातक केवलि-गमुद्रातना त्रीजा बोधा अने पांचमा समयमा अने अयोगी अनस्थामां अनाहारक छे अने ते सिवाय अन्यत्र आहारक छे

१२५ † जवन्यत एक भवमां पुलाक थइने कपायकुशीलपणादि अन्य कोइ पण सयतपणाने एक वार के अनेक वार ते भवमा के अन्य भवमा पामाने सिद्ध थाय छे अने उत्कृष्ट देवादिभव वडे अतरित त्रण भव सुधी पुलाकपणुं पामे छे

१२६. [प्र०] वउसे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेण एक्कं, उक्कोसेणं अट्ट । एवं पडिसेवणाकुसीले वि; एवं कसा-
चकुसीले वि । नियंठे जहा पुलाप ।

१२७. [प्र०] सिणाए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एक्कं २७ ।

१२८. [प्र०] पुलागस्स णं भंते ! एगभवग्गहणीया केवतिया आगरिसा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एक्को,
उक्कोसेणं तिन्नि ।

१२९. [प्र०] वउसस्स णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एक्को, उक्कोसेणं सतग्गसो । एवं पडिसेवणाकुसीले
वि, एवं कसायकुसीले वि ।

१३०. [प्र०] णियंठस्स णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एक्को, उक्कोसेणं दोन्नि ।

१३१. [प्र०] सिणायस्स णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एक्को ।

१३२. [प्र०] पुलागस्स णं भंते ! नाणाभवग्गहणीया केवतिया आगरिसा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं दोन्नि,
उक्कोसेणं सत्त ।

१३३. [प्र०] वउसस्स-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं दोन्नि, उक्कोसेणं सहस्सग्गसो; एवं जाव-कसाय-
कुसीलस्स ।

१३४. [प्र०] नियंठस्स णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं दोन्नि, उक्कोसेणं पंच ।

१२६. [प्र०] हे भगवन् ! वकुशने केटलां भवग्रहणं थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य *एकं अने उक्कट्ठ आठ भवग्रहणं थाय. ए
प्रमाणे प्रतिसेवनाकुशील अने कपायकुशील सबन्धे पण जाणवुं. तथा पुलकनी पेठे निर्ग्रन्थे पण जाणवो. वकुशने भव.

१२७. [प्र०] हे भगवन् ! स्नातकने केटलां भवग्रहणं थाय ? [उ०] हे गौतम ! एकं भवग्रहणं थाय. स्नातकने भव.

१२८. [प्र०] हे भगवन् ! पुलकने एकं भवमां केटला आकर्षं (चारित्रप्राप्ति) कहेला छे ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य †एकं
अने उक्कट्ठ त्रण आकर्षं थाय. २८ आकर्षं-
पुलाकने आकर्षं.

१२९. [प्र०] हे भगवन् ! वकुशने एकं भवमां केटला आकर्षं थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य एकं अने उक्कट्ठ शतप्रयत्न-
वसोथी माडी नवसो सुधी आकर्षं थाय. ए प्रमाणे प्रतिसेवनाकुशील अने कपायकुशील सबन्धे पण जाणवुं. वकुशने आकर्षं.

१३०. [प्र०] हे भगवन् ! निर्ग्रन्थे एकं भवमां केटला आकर्षं थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेने जघन्य ‡एकं अने उक्कट्ठ वे
आकर्षं थाय. निर्ग्रन्थे आकर्षं.

१३१. [प्र०] हे भगवन् ! स्नातकने एकं भवमां केटला आकर्षं थाय ? [उ०] हे गौतम ! एकं आकर्षं थाय. स्नातकने आकर्षं.

१३२. [प्र०] हे भगवन् ! पुलकने अनेकं भवमां केटला आकर्षं थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेने जघन्य †वे अने उक्कट्ठ सात
आकर्षं थाय. पुलकने अनेक
भवमां आकर्षं.

१३३. [प्र०] हे भगवन् ! वकुशने अनेकं भवमां केटला आकर्षं थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेने जघन्य ‡वे अने उक्कट्ठ वे हजारथी
नव हजार सुधी आकर्षं होय. ए प्रमाणे यावत्-कपायकुशील संबंधे पण जाणवुं. वकुशने अनेक भव-
मां आकर्षं.

१३४. [प्र०] हे भगवन् ! निर्ग्रन्थे अनेकं भवमां केटला आकर्षं थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य ‡वे अने उक्कट्ठ पांच
आकर्षं थाय. निर्ग्रन्थे आकर्षं.

१२६ * अर्ही कोई एक भवमा वकुशपणं अने कपायकुशीलपणं पामीने सिद्ध थाय, अने कोई एक भवमा वकुशपणं पामी भवान्तरे वकुशपणं पान्या
सिवाय सिद्ध थाय, माटे वकुशने जघन्य एकं भव कथो छे, अने उक्कट्ठ आठ भवो कथा छे, कारण के उक्कट्ठपणे आठ भवसुधी चारित्रनी प्राप्ति थाय छे.
तेमां कोइक ते आठ भवो वकुशपणावडे अने तेमा छेल्लो भव सकपायत्वादि युक्त वकुशपणावडे पुरो करे छे, अने कोइ तो दरेक भव प्रतिसेवनाकुशीलत्वादियुक्त
वकुशपणावडे पूर्ण करे छे

१२८ † आकर्षं-चारित्रना परिणाम, तेवा आकर्षं पुलकने जघन्यत. एक अने उक्कट्ठ त्रण होय छे, अने वकुशने जघन्यथी अने उक्कट्ठथी शतप्रयत्न
(वसोथी नव सो सुधी) होय छे

१३० ‡ निर्ग्रन्थे एक भवमा जघन्यथी एक अने वे चार उपशमश्रेणि करवाथी उक्कट्ठ वे आकर्षं होय छे.

१३२ † पुलकने एक भवमा एक अने अन्य भवमा वीजा-एम अनेक भवने आश्रयी जघन्यथी वे आकर्षं होय छे अने उक्कट्ठथी सात आकर्षं होय
छे. पुलकपणं उक्कट्ठ त्रण भवमां होय, तेमा एउ भवमा उक्कट्ठत. त्रण चार होय. प्रथम भवमा एक आकर्षं अने वीजा वे भवोमा त्रण त्रण आकर्षं होय-
इत्यादि विकल्पथी सात आकर्षं होय.

१३३ ‡ वकुशने उक्कट्ठथी आठ भव होय छे, अने तेमांना प्रत्येक भवमा उक्कट्ठथी शतप्रयत्न आकर्षं होय ज्यारे आठे भवोमां उक्कट्ठथी प्रत्येके
नवसो नवसो आकर्षं होय-एटले नवसोने आठे गुणता सात हजार ने बसो थाय. ए प्रमाणे वकुशने अनेक भवने आश्रयी सद्व्यक्त आकर्षं होय.—टीका.

१३४ ‡ निर्ग्रन्थे उक्कट्ठ त्रण भव होय. तेमाना प्रथम भवमा वे आकर्षं, वीजा भवमां वे अने वीजा भवमा एक. क्षणक निर्ग्रन्थपणानो आकर्षं करी
सिद्ध थाय. एम अनेक भवमा निर्ग्रन्थे पांच आकर्षं होय.

१३५. [प्र०] सिणायस्स-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नत्थि एको वि २८ ।

१३६. [प्र०] पुलाए णं भंते ! कालओ केवचिरं होइ ? [उ०] गोयमा ! जहघ्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतो-मुहुत्तं ।

१३७. [प्र०] वउसे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहघ्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं देख्णा पुघ्कोटी । एवं पडिसेवणा-कुसीले वि, कसायकुसीले वि ।

१३८. [प्र०] नियंटे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहघ्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं ।

१३९. [प्र०] सिणाय-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहघ्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं देख्णा पुघ्कोटी ।

१४०. [प्र०] पुलाया णं भंते ! कालओ केवचिरं होति ? [उ०] गोयमा ! जहघ्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अंतो-मुहुत्तं ।

१४१. [प्र०] वउसे णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सघडं; एवं जाव-कसायकुसीला । नियंटा जहा पुलागा; सिणायया, जहा वउसा २९ ।

१४२. [प्र०] पुलागरस णं भंते ! केवत्थियं कालं अंतरं होइ ? [उ०] गोयमा ! जहघ्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं, अणंताओ ओसप्पिणि-उरसप्पिणीओ कालओ, रोसओ अवट्टपोगलपरियट्टं देख्णं । एवं जाव-नियंठस्स ।

१४३. [प्र०] सिणायस्स-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नत्थि अंतरं ।

स्नातकने आकर्ष-

१३५. [प्र०] हे भगवन् ! स्नातकने अनेक भवमां केटला आकर्ष थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेने एक पण आकर्ष न थाय.

२९ काळद्वार-
पुलाकनी काळ-

१३६. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाक काळनी अपेक्षाए केटला काळ सुधी रहे ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य अने उक्कट्ट अंत-
मुहुत्तं सुधी रहे.

वकुशनी काळ-

१३७. [प्र०] हे भगवन् ! वकुश केटला काळ सुधी रहे ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य एक समय अने उक्कट्ट कंडक न्यून पूर्व-
कोटि वर्ष सुधी रहे. ए प्रमाणे प्रतिसेवनाकुशील अने कपायकुशील विषे पण समजतुं.

निर्ग्रन्थनी काळ-

१३८. [प्र०] हे भगवन् ! निर्ग्रन्थ केटला काळ सुधी रहे ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य एक समय अने उक्कट्ट अंतमुहुत्तं सुधी रहे.

स्नातकनी काळ-

१३९. [प्र०] स्नातक केटला काळ सुधी रहे ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य अंतमुहुत्तं अने उक्कट्ट कंडक न्यून पूर्वकोटि
वर्ष सुधी रहे.

पुलाकनी काळ-

१४०. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाकनी काळनी अपेक्षाए केटला काळ सुधी रहे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ जघन्य एक समय अने
उक्कट्ट अंतमुहुत्तं सुधी रहे.

वकुशनी काळ-

१४१. [प्र०] वकुश केटला काळ सुधी रहे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ सर्व काळ रहे. ए प्रमाणे यावत्-कपायकुशीले सुधी
जाणतुं. निर्ग्रन्थी पुलाकनी पेठे जाणवा, अने स्नातकनी वकुशनी पेठे जाणवा.

३. अतरद्वार-
पुलाकानि अतर-

१४२. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाकने केटला काळ सुधीनुं अंतर होय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य अंतमुहुत्तं अने उक्कट्ट अनंत
काळनुं अंतर होय. काळधी अनंत अवसर्पिणी-उत्सर्पिणीनुं, अने क्षेत्रधी कंडक न्यून अपार्ध पुद्दलपरावर्तनुं अंतर होय छे. ए प्रमाणे
यावत्-निर्ग्रन्थ सुधी जाणतुं.

स्नातकनुं अतर-

१४३. [प्र०] स्नातकने केटला काळनुं अंतर होय ? [उ०] हे गौतम ! अंतर नयी.

१३६ * पुलाकपणाने प्राप्त थयेलो ज्यां सुधी अन्तमुहुत्तं पूर्व न थाय त्या सुधी मरे नहि, तेम पडे पण नहि. तेथी जघन्यथी तेनो काळ अन्तमु-
हुत्तनो होय अने उक्कट्टधी पण अन्तमुहुत्तं होय.

१३७ † वकुशने चारित्र प्राप्त थया पछी दुरत ज मरणनो संभव होवाथी जघन्य एक समय अने पूर्वकोटी वर्षना आयुषवाळो आठ वरसने अंते चारित्र
ग्रहण करे ते अपेक्षाए कंडक न्यून पूर्वकोटी वर्ष उक्कट्ट काळ होय.—टीका.

१४० ‡ एक पुलाक पीताना अन्तमुहुत्तना अन्त्य समये वर्तमान होय ते वपते वीजो पुलाकपणुं पामे ल्यारे चजे पुलाकनी एक समये सद्राव थाय अने
वे होवाथी अनेक पुलाकनी जघन्य काळ एक समय होय. अने तेओनो उक्कट्ट काळ अन्तमुहुत्तं होय केमके पुलाको एक समये उक्कट्टधी महसपृथन्त्व
होय, अने तेओ घणा होवा छता तेओनो काळ अन्तमुहुत्तं छे केवल अनेक पुलाकनी स्थितिनुं अन्तमुहुत्तं एक पुलाकनी स्थितिना अन्तमुहुत्तं
मोड छे

१४२ ¶ पुद्दलपरावर्तनुं स्वरूप था प्रमाणे छे-कोइ प्राणी आकाशना प्रत्येक प्रदेशे मरण पामतो मरणवडे जेटला काळे समस्त लोक व्याप्त करे
तेटला काळे क्षेत्रधी पुद्दलपरावर्त थाय.

१४४. [प्र०] पुलयाणं भंते ! केवतियं कालं अंतरं होइ ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं चासाइं ।
१४५. [प्र०] वउसाणं भंते ! पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नत्थि अंतरं; एवं जाव-कसायकुसीलाणं ।
१४६. [प्र०] नियंटाणं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा । सिणायाणं जह चउसाणं ३० ।
१४७. [प्र०] पुलगस्स णं भंते ! कति समुग्घाया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! तिन्नि समुग्घाया पन्नत्ता, तंजहा-वेयणासमुग्घाए, कसोयसमुग्घाए, मारणंतियसमुग्घाए ।
१४८. [प्र०] वउसस्स णं भंते !-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! पंच समुग्घाया पन्नत्ता, तंजहा-वेयणासमुग्घाए, जाव-तेयासमुग्घाए । एवं पडिसेवणाकुसीले वि ।
१४९. [प्र०] कसायकुसीलस्स-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! छ समुग्घाया पन्नत्ता; तंजहा-वेयणासमुग्घाए, जाव-आहारगसमुग्घाए ।
१५०. [प्र०] नियंठस्स णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नत्थि एक्को वि ।
१५१. [प्र०] सिणायस्स-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एगे केवलिसमुग्घाए पन्नत्ते ३१ ।
१५२. [प्र०] पुलाय णं भंते ! लोगस्स किं संखेज्जइभागे होज्जा १, असंखेज्जइभागे होज्जा २, संखेजेसु भागेसु होज्जा ३, असंखेजेसु भागेसु होज्जा ४, सवल्लोए होज्जा ५ ? [उ०] गोयमा ! णो संखेज्जइभागे होज्जा, असंखेज्जइभागे होज्जा, णो संखेजेसु भागेसु होज्जा, णो असंखेजेसु भागेसु होज्जा, णो सवल्लोए होज्जा । एवं जाव-नियंठे ।
१५३. [प्र०] सिणाय णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! णो संखेज्जइभागे होज्जा, असंखेज्जइभागे होज्जा, णो संखेजेसु भागेसु होज्जा, असंखेजेसु भागेसु होज्जा, सवल्लोए वा होज्जा ३२ ।
१४४. [प्र०] हे भगवन् ! पुलकोने केटला काल सुधीनुं अंतर होय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य एक समय, अने उत्कृष्ट संख्याता वर्षोनुं अंतर होय पुलाकोनु अतर.
१४५. [प्र०] हे भगवन् ! वकुशोने केटला काल सुधीनुं अंतर होय ? [उ०] हे गौतम ! अंतर नथी. ए प्रमाणे यावत्-कपाय-कुशीले सुधी जाणवुं. वकुशोने अतर.
१४६. [प्र०] हे भगवन् ! निर्प्रयोने केटला कालनुं अंतर होय ? [उ०] हे गौतम ! तेओने जघन्य एक समय, अने उत्कृष्ट छ मासनुं अंतर होय. स्नातको वकुशोनी पेटे जाणवा. निर्प्रयोनु अतर.
१४७. [प्र०] हे भगवन् ! पुलकने केटला समुद्धातो कव्हा छे ? [उ०] हे गौतम ! त्रण समुद्धातो कव्हा छे. ते आ प्रमाणे-वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात अने मारणातिकसमुद्धात. ३१ समुद्धात-पुलाकने समुद्धात.
१४८. [प्र०] हे भगवन् ! वकुशने केटला समुद्धातो कव्हा छे ? [उ०] हे गौतम ! पाच समुद्धातो कव्हा छे, ते आ प्रमाणे-वेदनासमुद्धात अने यावत्-तैजसमुद्धात. ए प्रमाणे प्रतिसेवनाकुशीलने पण जाणवुं. वकुशने समुद्धातो.
१४९. [प्र०] हे भगवन् ! कपायकुशीलने केटला समुद्धातो कव्हा छे ? [उ०] हे गौतम ! छ समुद्धातो कव्हा छे. ते आ प्रमाणे-वेदनासमुद्धात अने यावत्-आहारकसमुद्धात. कपायकुशीलने समुद्धातो.
१५०. [प्र०] निर्प्रयने केटला समुद्धातो कव्हा छे ? [उ०] हे गौतम ! तेने एक पण समुद्धात नथी. निर्प्रयने समुद्धातो.
१५१. [प्र०] हे भगवन् ! स्नातकने केटला समुद्धातो होय ? [उ०] हे गौतम ! एक केवलिसमुद्धात होय. स्नातकने समुद्धात.
१५२. [प्र०] हे भगवन् ! पुलक लोक्कना संख्यातमा भागमा रहे, असंख्यातमा भागमा रहे, सख्याता भागोमा रहे, असंख्याता भागोमा रहे के सर्व लोक्कमा रहे ? [उ०] हे गौतम ! संख्यातमा भागमा न रहे, संख्याता भागोमा न रहे, असंख्याता भागोमा न रहे अने आखा लोक्कमा पण न रहे, किंतु लोक्कना असंख्यातमा भागमा रहे. ए प्रमाणे यावत्-निर्प्रय सुधी समजवुं. ३२ क्षेत्रद्वार-पुलाकनु क्षेत्र.
१५३. [प्र०] हे भगवन् ! स्नातक लोक्कना संख्यातमा भागमा रहे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! लोक्कना संख्यातमा भागमा न रहे, सख्याता भागोमा न रहे, पण असंख्यातमा भागमा रहे, असंख्याता भागोमा रहे अने संपूर्ण लोक्कमा पण रहे. स्नातकनु क्षेत्र.

१४७ * पुलकने सज्वलन कपायनो उदय होवाथी कपायसमुद्धात सभवे छे यद्यपि पुलकने मरण नथी तो पण मारणातिक समुद्धात होय छे, कारण के मरणसमुद्धातथी निवृत्त थया पछी कपायकुशीलत्वादिह्य परिणामना सद्भावमा तेनु मरण याय छे.

१५२ † केवलिसमुद्धातावस्थामा स्नातक शरीरस्थ होय के दडकवाटावस्थामा होय ल्यारे ते लोक्कना असंख्यातमा भागमा रहे छे मन्यानावस्थामां तेगे लोक्कनो घणो भाग व्याप्त करेलो होवाथी अने ओडो भाग अव्याप्त होवाथी लोक्कना असंख्याता भागोमा वर्ते छे, अने ज्यारे सभय लोक व्याप्त करे ल्यारे संपूर्ण लोक्कमा होय छे —टीका

१५४. [प्र०] पुलाए णं भंते ! लोगस्स किं संयेज्जभागं फुसइ, असंयेज्जभागं फुसइ ? [उ०] एवं जहा ओगाहणा मणिया तहा फुसणा वि भाणियघा जाव-सिणाए ३३ ।

१५५. [प्र०] पुलाए णं भंते ! कतरंमि भावे होजा ? [उ०] गोयमा ! एओवसमिप भावे होजा । एवं जाव-कसायकुसीले ।

१५६. [प्र०] नियंटे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! उवसमिप वा भावे होजा, एइए वा भावे होजा ।

१५७. [प्र०] सिणाए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एइए भावे होजा ३४ ।

१५८. [प्र०] पुलाया णं भंते ! एगसमएणं केवतिया होजा ? [उ०] गोयमा ! पडिवज्जमाणए पडुच्च सिय अत्थि, सिय नत्थि । जइ अत्थि जहन्नेणं एको वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं सयपुहुत्तं । पुघपडिवघ्नए पडुच्च सिय त्थि, सिय नत्थि । जइ अत्थि जहन्नेणं एको वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं सहस्सपुहुत्तं ।

१५९. [प्र०] वउसा णं भंते ! एगसमएणं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! पडिवज्जमाणए पडुच्च सिय अत्थि सिय नत्थि । जइ अत्थि जहन्नेणं एको वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं सयपुहुत्तं । पुघपडिवघ्नए पडुच्च जहन्नेणं कोडिसयपुहुत्तं, उक्कोसेणं वि कोडिसयपुहुत्तं । एवं पडिसेवणाकुसीले वि ।

१६०. [प्र०] कसायकुसीलाणं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! पडिवज्जमाणए पडुच्च सिय अत्थि, सिय नत्थि । जइ अत्थि जहन्नेणं एको वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं सहस्सपुहुत्तं । पुघपडिवघ्नए पडुच्च जहन्नेणं कोडिसहस्सपुहुत्तं, उक्कोसेणं वि कोडिसहस्सपुहुत्तं ।

१६१. [प्र०] नियंटाणं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! पडिवज्जमाणए पडुच्च सिय अत्थि, सिय नत्थि; जइ अत्थि जहन्नेणं

३३ स्पर्शनादार- १५४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं पुलाक लोकना संख्यातामा भागने स्पर्शं के असंख्यातामा भागने स्पर्शं ? [उ०] जेम *अवगाहना कही तेम स्पर्शना पण जाणवी. ए प्रमाणे यावत्-ज्ञातक सुधी समजवुं.

३४ भावदार- १५५. [प्र०] हे भगवन् ! पुलाक कया भावमां होय ? [उ०] हे गौतम ! क्षायोपशमिक भावमां होय. ए प्रमाणे यावत्-पुलाकने भाव. कपायकुशील सुधी जाणवुं.

निर्मन्थने भाव. १५६. [प्र०] हे भगवन् ! निर्ग्रय कया भावमां होय ? [उ०] हे गौतम ! ते औपशमिक भावमां होय, अथवा क्षायिक भावमां पण होय.

ज्ञातकने भाव. १५७. [प्र०] हे भगवन् ! ज्ञातक कया भावमां होय ? [उ०] हे गौतम ! ते क्षायिक भावमां होय.

३५ परिमाणदार- १५८. [प्र०] हे भगवन् ! एक समये केटला पुलाको होय ? [उ०] हे गौतम ! प्रतिपद्यमान (तत्काळ पुलाकपणाने प्राप्त यथा) पुलाकने आश्रयी कदाच होय अने कदाच न होय. प्रतिपद्यमान-पुलाकत्वने प्राप्त यथा पुलाक होय तो जघन्य एक, वे के त्रण होय, अने उत्कृष्ट शतपृथक्त्व-वसोथी नवसो सुधी पुलाको होय. तथा पूर्वप्रतिपन्न (पूर्वे पुलाकपणाने पामेला) पुलाकोनी अपेक्षाए कदाच पुलाको होय अने न होय. जो होय तो जघन्य एक, वे के त्रण होय अने उत्कृष्ट सहस्रपृथक्त्व-वे हजारथी नव हजार सुधी होय.

वकुशोनी संख्या. १५९. [प्र०] हे भगवन् ! एक समये केटला वकुशो होय ? [उ०] हे गौतम ! प्रतिपद्यमान (वर्तमान समये वकुशत्वने प्राप्त यथा) वकुशोने आश्रयी कदाच होय अने कदाच न होय. जो होय तो जघन्य एक, वे अने त्रण होय. तथा उत्कृष्ट शतपृथक्त्व-वसोथी नव सो सुधी वकुशो होय. पूर्वप्रतिपन्न (वकुशत्वने पूर्वे प्राप्त थएला) वकुशो जघन्य अने उत्कृष्ट वे क्रोडथी नव क्रोड सुधी होय.

कपायकुशीलोनी संख्या. १६०. [प्र०] हे भगवन् ! एक समये केटला कपायकुशीलो होय. [उ०] हे गौतम ! प्रतिपद्यमान (वर्तमान समये कपायकुशीलत्वने प्राप्त यथा) कपायकुशीलो कदाच होय अने कदाच न होय. जो होय तो जघन्य एक, वे अने त्रण होय, अने उत्कृष्ट वे हजारथी नव हजार सुधी होय. पूर्वप्रतिपन्न कपायकुशीलोने आश्रयी जघन्य अने उत्कृष्ट वे क्रोडथी नव क्रोड सुधी होय.

निर्मन्थोनी संख्या. १६१. [प्र०] हे भगवन् ! एक समये केटला निर्ग्रयो होय ? [उ०] हे गौतम ! प्रतिपद्यमान (वर्तमान समये निर्ग्रयत्वने प्राप्त यथा) निर्ग्रयो कदाच होय अने कदाच न होय. जो होय तो जघन्य एक वे अने त्रण होय अने उत्कृष्ट एकसोने आठ क्षपकत्रेणिवाला अने

१५४ * स्पर्शना क्षेत्रनी पेटे जाणवी, परन्तु जेटलो भाग अवगाह-आश्रित होय ते क्षेत्रनी अवगाहना, अने अवगाह क्षेत्र अने तेना पार्श्ववर्ती क्षेत्रनी स्पर्शना होय छे—टीका

१६० † सर्वे सयतोसुं प्रमाण कोटीसहस्रपृथक्त्व छे, अने अहीं तेतलुं प्रमाण तो केवल कपायकुशीलोसुं कछुं, अने तेमां पुलाकादिनी संख्या उमेरतां अधिक संख्या थइ जाय तो विरोध केम न आवे ? ए शंका न करवी, कारण के कपायकुशीलसुं कोटीसहस्रपृथक्त्व प्रमाण कछु छे ते वे त्रण कोटी सहस्ररूप रूपीने तेमा पुलाक-वकुशादिनी संख्या उमेरवी तेथी सर्वे सयतसुं प्रमाण कछु छे तेथी अधिक संख्या नहिं थाय.—टीका.

ક્રો વા દો વા તિન્નિ વા, ઉક્રોસેણં વાવટ્ટં સતં—અટ્ટસયં સ્વગાણં, ચડપ્પત્તં ઉવસામગાણં । પુવ્વપડિવન્નપ પડુચ્ચ સિય અત્થિ સિય નત્થિ । જહ અત્થિ, જહન્નેણં ઇક્રો વા દો વા તિન્નિ વા, ઉક્રોસેણં સયપુહુત્તં ।

૧૬૨. [પ્ર૦] સિનાયાણં પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! પડિવજ્જમાણપ પડુચ્ચ સિય અત્થિ સિય નત્થિ; જહ અત્થિ જહન્નેણં ઇક્રો વા દો વા તિન્નિ વા, ઉક્રોસેણં અટ્ટસતં । પુવ્વપડિવન્નપ પડુચ્ચ જહન્નેણં કોહિપુહુત્તં, ઉક્રોસેણ વિ કોહિપુહુત્તં ૩૫ ।

૧૬૩. [પ્ર૦] ઇપ્પસિ ણં મંતે ! પુલાગ—વડસ—પડિસેવનાકુસીલ—કસાયકુસીલ—નિયંઠ—સિનાયાણં કયરે કયરે—જાવ—વેસેસાહિયા વા ? [ઉ૦] ગોયમા ! સઘ્વત્યોવા નિયંઠા, પુલાગા સંઘેજ્જગુણા, સિનાયા સંઘેજ્જગુણાં, વડસા સંઘેજ્જગુણા, પડિસેવનાકુસીલા સંઘેજ્જગુણા, કસાયકુસીલા સંઘેજ્જગુણા । ‘સેવં મંતે ! સેવં મંતે’ ! ત્તિ જાવ—વિહરતિ ।

પળવીસદ્દમે સદ્દ છદ્દો ઉદ્દેસઓ સમત્તો ।

ગોપન ઉપશમ શ્રેણિવાલા મલીને એકસોને વાસઠ હોય. પૂર્વપ્રતિપન્ન નિર્મયો કદાચ હોય અને કદાચ ન હોય. જો હોય તો જઘન્ય એક કે ત્રણ નિર્મયો હોય અને ઉત્કૃષ્ટ બસોથી નવસો સુધી હોય.

૧૬૨. [પ્ર૦] એક સમયે સ્નાતકો કેટલા હોય ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! પ્રતિપદમાન સ્નાતકો કદાચ હોય અને કદાચ ન હોય. જો હોય તો જઘન્ય એક, બે અને ત્રણ હોય અને ઉત્કૃષ્ટ આઠસો હોય. પૂર્વપ્રતિપન્ન સ્નાતકો જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ બે ક્રોડથી નવ ક્રોડ સુધી હોય.

સ્નાતકોની સંખ્યા.

૧૬૩. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! પુલાક, બકુશ, પ્રતિસેવનાકુસીલ, કપાયકુસીલ, નિર્મય અને સ્નાતક, એ વધારામાં કયા કોનાથી યાવત્—વિશેષાધિક છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! નિર્મયો સૌથી યોદા છે, તે કરતાં પુલાકો સંખ્યાતગુણ છે. તેથી સ્નાતકો સંખ્યાતગુણ છે, તેથી બકુશો સંખ્યાતગુણ છે, તેથી પ્રતિસેવનાકુસીલો સંખ્યાતગુણ છે અને તેથી કપાયકુસીલો સંખ્યાતગુણ છે. ‘હે ભગવન્ ! તે એમજ છે, ભગવન્ ! તે એમજ છે’—એમ કહી યાવત્—વિહરે છે.

૩૬ અલ્પવદુલ્લ-

પચીશમા શતકમાં પઠ્ઠ ઉદ્દેશક સમાપ્ત.

સત્તમો ઉદ્દેસો ।

૧. [પ્ર૦] કતિ ણં મંતે ! સંજયા પન્નત્તા ? [ઉ૦] ગોયમા ! પંચ સંજયા પન્નત્તા, તંજહા—૧ સામાદયસંજણ, ૨ છેદો-વટ્ટાવણિયસંજણ, ૩ પરિહારવિસુદ્ધિયસંજણ, ૪ સુહુમસંપરાયસંજણ, ૫ અહક્ષાયસંજણ ।

૨. [પ્ર૦] સામાદયસંજણ ણં મંતે ! કતિવિદ્દે પન્નત્તે ? [ઉ૦] ગોયમા ! ડુવિદ્દે પન્નત્તે, તંજહા—ઇત્તરિય ય આવ-પહિય ય ।

૩. [પ્ર૦] છેઓવટ્ટાવણિયસંજણ ણં—પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! ડુવિદ્દે પન્નત્તે, તંજહા—સાતિયારે ય નિરતિયારે ય ।

સત્તમ ઉદ્દેશક.

૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! કેટલા સંયતો કહ્યા છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ પાંચ સંયતો કહ્યા છે. તે આ પ્રમાણે—૧ સામાયિકસંયત, ૨ છેદોપસ્થાપનીયસંયત, ૩ પરિહારવિસુદ્ધિકસંયત, ૪ સૂક્ષ્મસંપરાયસંયત અને ૫ યથાર્થસંયત.

૧ પ્રશાપના-સંયતના પ્રકાર.

૨. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! સામાયિકસંયતના કેટલા પ્રકાર કહ્યા છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તેના બે પ્રકાર કહ્યા છે, તે આ પ્રમાણે—૧ ઇત્તરિક (અલ્પકાલીક) અને ૨ યાવત્કથિક (જીવનપર્યંત).

સામાયિક સંયતના પ્રકાર.

૩. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! છેદોપસ્થાપનીયસંયતના કેટલા પ્રકાર કહ્યા છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તેના બે પ્રકાર કહ્યા છે, તે આ પ્રમાણે—૧ સાતિચાર અને નિરતિચાર.

છેદોપસ્થાપનીય સં-યતના પ્રકાર.

૧૬૩ * વકુશ અને પ્રતિસેવનાકુસીલનું પ્રમાણ કોટીશતપૃથક્ત્વ વહુ છે તો વકુશ કરતા પ્રતિસેવનાકુસીલ સંખ્યાતગુણા કેમ ઘટી શકે ? એ શંકાનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે—વકુશનું કોટીશતપૃથક્ત્વ પ્રમાણ વહુ છે તે બે ત્રણ કોટીશતરૂપ જાણવું અને પ્રતિસેવનાકુસીલનું કોટીશતપૃથક્ત્વ પ્રમાણ ચાર કોટીશતરૂપ જાણવું—ટીકા.

૧ † જે સામાયિક સંયતને ચારિત્ર પ્રહણ કર્યા પછી ભવિષ્યમા છેદોપસ્થાપનીય સંયતપણાનો વ્યવદેશ—વ્યવહાર ધાય તે ઇત્તરિક—અલ્પકાલિક સામાયિક સંયત કહેવાય છે અને જેને સામાયિક ચારિત્ર લીધા પછી વીજો વ્યવદેશ ન ધાય તે યાવત્કથિક સામાયિક સંયત કહેવાય છે.

૩ ‡ અતિચારયુક્ત સાધુને વીક્ષાપર્યાય છેદી ફરી મહાવ્રત આપવા તે સાતિચાર છેદોપસ્થાપનીય કહેવાય અને પ્રથમ વીક્ષિત સાધુને તથા પાર્શ્વનાથના તીર્થથી વહાવીરના તીર્થમા પ્રવેશ કરનાર સાધુને ફરી મહાવ્રત આપવા તે નિરતિચાર છેદોપસ્થાપનીય કહેવાય છે. છેદોપસ્થાપનીય સાધુ પ્રથમ તીર્થકર અને પશ્ચિમ તીર્થકરના તીર્થમા જ હોય છે.

४. [प्र०] परिहारविमुद्धियसंज्ञण-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! दुविहे पत्रत्ते, तंजहा—णिघिसमाणण य निघिट्टकारण य ।
 ५. [प्र०] सुहुमसंपराग-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! दुविहे पत्रत्ते, तंजहा—संकिलिस्तमाणण य चिसुद्धमाणण य ।
 ६. [प्र०] अहन्प्रायसंज्ञण-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! दुविहे पत्रत्ते, तंजहा—उउमत्थे य केवली य ।
 सामाहयंमि उ कप चाउज्जामं अणुत्तरं धम्मं । तिविहेणं फासयंतो सामाहयसंज्ञओ स गल्लु ॥ १ ॥
 छेत्तण उ परियागं पोरणं जो ठवेद अण्णाणं । धम्मंमि पंचजामे छेदोवट्टावणो स गल्लु ॥ २ ॥
 परिहरइ जो विसुद्धं तु पंचयामं अणुत्तरं धम्मं । तिविहेणं फामयंतो परिहागियसंज्ञओ स गल्लु ॥ ३ ॥
 लोभाणू वेययंतो जो गल्लु उवसामओ च पयओ चा । मो सुहुमसंपराओ अहन्प्राया ऊणओ किचि ॥ ४ ॥
 उवसंते रीणंमि च जो गल्लु कम्मंमि मोहणिजंमि । उउमत्थो च जिणो वा अहन्प्राओ संज्ञओ स गल्लु ॥ ५ ॥ (१)
 ७. [प्र०] सामाहयसंज्ञण णं भंते ! किं सवेदणं होजा अवेदणं होजा ? [उ०] गोयमा ! सवेदणं वा होजा, अवेदणं वा होजा । जइ सवेदणं—एवं जहा कसायकुसीले तहेव निरवसेसं । एवं छेदोवट्टावणियसंज्ञण वि । परिहारविमुद्धियसं-
 जओ जहा पुलाओ । सुहुमसंपरायसंज्ञओ अहन्प्रायसंज्ञओ य जहा नियंते (२) ।
 ८. [प्र०] सामाहयसंज्ञण णं भंते ! किं सरागे होजा वीयरगे होजा ? [उ०] गोयमा ! सरागे होजा, नो वीयरगे होजा । एवं जाव—सुहुमसंपरायसंज्ञण । अहन्प्रायसंज्ञण जहा नियंते (३) ।
 ९. [प्र०] सामाहयसंज्ञण णं भंते ! किं टियकण्ये होजा, अट्टियकण्ये होजा ? [उ०] गोयमा ! ट्टियकण्ये वा होजा, अट्टियकण्ये वा होजा ।
 १०. [प्र०] छेदोवट्टावणियसंज्ञण-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ट्टियकण्ये होजा, नो अट्टियकण्ये होजा । एवं परिहार-
 विमुद्धियसंज्ञण वि । सेसा जहा सामाहयसंज्ञण ।

परिहारविमुद्धिकना
प्रकार

सूक्ष्मसंपरायना
प्रकार

यथाग्यान सयतना
प्रकार.
सामाधिक संयत.
छेदोपस्थापनीय-
परिहार विमुद्धिक
सूक्ष्मसंपराय

२ वेद-
सामाधिक संयतने
वेद

३ राग-
सामाधिक संयत
अने राग
४ कल्प-
सामाधिक संयतने
कल्प
छेदोपस्थापनीयने
कल्प

४. [प्र०] हे भगवन् ! परिहारविमुद्धिक संयतना केटला प्रकार कया छे ? [उ०] हे गौतम ! तेना वे प्रकार कया छे. ते आ प्रमाणे—निर्विशमानक (तप करनार) अने निर्विष्टकायिक (वैयावृत्त करनार).
 ५. [प्र०] हे भगवन् ! सूक्ष्मसंपराय संयतना केटला प्रकार कया छे ? [उ०] हे गौतम ! वे प्रकार कया छे, ते आ प्रमाणे—सत्क्रियमानक (उपश्रेणिसी पडतो) अने विशुध्यमानक (उपशमश्रेणि के क्षपकश्रेणि पर चटतो).
 ६. [प्र०] हे भगवन् ! यथाह्यात संयतना केटला प्रकार कया छे ? [उ०] हे गौतम ! वे प्रकार कया छे, ते आ प्रमाणे—उन्नस्थ अने केवली. सामाधिक स्त्रीकार्या पछी चार महाव्रतरूप प्रधान धर्मने मन, वचन अने कार्याथी त्रिविधे जे पाळे ते 'सामाधिकनयत' कहेवाय. पूर्वना पर्यायनो छेद करी जे पोताना आत्माने पाच महाव्रतरूप वर्मना स्वापे ते 'छेदोपस्थापनीयसयत' कहेवाय छे. जे पाच महाव्रतरूप अने उत्तमोत्तम धर्मने त्रिविधे—मन वचन अने कार्याथी पाळतो अमुक प्रकारतुं तप करे ते 'परिहारविमुद्धिकसयत' कहेवाय छे. जे लोभना अणुओने वेदतो चारित्रमोहने उपशमावे के क्षय करे ते 'सूक्ष्मसंपराय' कहेवाय छे अने ते यथाह्यातसयतनी कईक न्यून होय छे. मोहनीय कर्म उपशान्त के क्षीण यथा पछी जे उन्नस्थ होय के जिन होय ते 'यथाह्यातसयत' कहेवाय छे.
 ७. [प्र०] हे भगवन् ! सामाधिक संयत वेदवाळो होय के वेदविरहित होय ? [उ०] हे गौतम ! ते वेदवाळो होय अने वेदविर-
 हित पण होय. जो वेदवाळो सामाधिकसयत होय तो तेने वची हकीकत कथायकुगीलनी पेटे जाणवी. ए प्रमाणे छेदोपस्थापनीयसयत पण समजवो. परिहारविमुद्धिक संयत संबंधी हकीकत पुलाकनी पेटे जाणवी. सूक्ष्मसंपराय संयत अने यथाह्यात संयत निर्प्रयनी पेटे (अवेदक) जाणवा.
 ८. [प्र०] हे भगवन् ! शुं सामाधिक संयत रागवाळो होय के वीतराग होय ? [उ०] हे गौतम ! ते रागवाळो होय, पण वीतराग न होय. ए प्रमाणे सूक्ष्मसंपराय संयत संबंधे पण जाणवुं. यथाह्यात संयतने निर्प्रयनी पेटे जाणवुं.
 ९. [प्र०] हे भगवन् ! शुं सामाधिक संयत स्थितकल्पमा होय के अस्थितकल्पमा होय ? [उ०] हे गौतम ! स्थितकल्पमां पण होय अने अस्थितकल्पमा पण होय.
 १०. [प्र०] हे भगवन् ! शुं छेदोपस्थापनीय संयत स्थितकल्पमां होय के अस्थितकल्पमां होय ? [उ०] हे गौतम ! स्थितकल्पमां होय, पण अस्थितकल्पमा न होय. ए प्रमाणे परिहारविमुद्धिक संयतने पण जाणवुं. अने वाक्रीना वथा सामाधिक संयतनी पेटे जाणवा.

१ लोभमणु वेदतो क ।

७* नवमा गुणस्थानक सुधी सामाधिक संयत कहेवाय छे. नवमा गुणस्थानके वेदतो उपशम अवना क्षय वाय छे, माटे ला सामाधिक संयत अवेदक होय छे अने तेना पूर्ववर्ती गुणस्थाने सवेदक होय छे जो ते सवेदक होय तो ते त्रण वेदवाळो होय छे अने अवेदक होय तो ते लीगवेद होय के उपशान्तवेद होय. परिहारविमुद्धिक संयत पुलाकनी पेटे पुरुषवेदवाळो के पुरुषपुनरुवेदवाळो (कृत्रिमपुनरुवेदवाळो) होय छे.

१० † अस्थितकल्प मध्यम वावीश जिनना तीर्थमा अने महाविदेह जिनना तीर्थमा होय छे, अने ला छेदोपस्थापनीय चारित्र नवी. तेथी छेदोपस्था-
 पनीयसयतने अस्थितकल्प न होय.

११. [प्र०] सामाह्यसंज्ञणं भंते ! किं जिणकपे होजा, थेरकपे होजा, कप्पातीते होजा ? [उ०] गोयमा ! जिणकपे वा होजा, जहा कसायकुसीले तहेव निरवसेसं । छेदोवट्टावणिओ परिहारविसुद्धिओ य जहा वउसो, सेसा जहा नियंटे (४) ।

१२. [प्र०] सामाह्यसंज्ञणं भंते ! किं पुलाए होजा, वउसे, जाव-सिणाए होजा ? [उ०] गोयमा ! पुलाए वा होजा, वउसे, जाव-कसायकुसीले वा होजा, नो नियंटे होजा, नो सिणाए होजा । एवं छेदोवट्टावणिए वि ।

१३. परिहारविसुद्धियसंज्ञणं भंते !-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो पुलाए, नो वउसे, नो पडिसेवणाकुसीले होजा, कसायकुसीले होजा, नो नियंटे होजा, नो सिणाए होजा । एवं सुहुमसंपराए वि ।

१४. [प्र०] अहक्खायसंज्ञण-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो पुलाए होजा, जाव-नो कसायकुसीले होजा, नियंटे वा होजा, सिणाए वा होजा (५) ।

१५. [प्र०] सामाह्यसंज्ञणं भंते ! किं पडिसेवए होजा, अपडिसेवए होजा ? [उ०] गोयमा ! पडिसेवए वा होजा, अपडिसेवए वा होजा । जइ पडिसेवए होजा, किं मूलगुणपडिसेवए होजा, सेसं जहा पुलागस्स । जहा सामाह्यसंज्ञणं एवं छेदोवट्टावणिए वि ।

१६. [प्र०] परिहारविसुद्धियसंज्ञण-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो पडिसेवए होजा, अपडिसेवए होजा । एवं जाव-अहक्खायसंज्ञणं (६) ।

१७. [प्र०] सामाह्यसंज्ञणं भंते ! कतिसु नाणेसु होजा ? [उ०] गोयमा ! दोसु वा तिसु वा चउसु वा नाणेसु होजा, एवं जहा कसायकुसीलस्स तहेव चत्तारि नाणाइं भयणाए, एवं जाव-सुहुमसंपराए । अहक्खायसंज्ञयस्स पंच नाणाइं भयणाए जहा नाणुहेसए ।

१८ [प्र०] सामाह्यसंज्ञणं भंते ! केवतियं सुयं अहिजेजा ? [उ०] गोयमा ! जहत्तेणं अट्ट पवयणमायाओ, जहा कसायकुसीले । एवं छेदोवट्टावणिए वि ।

११. [प्र०] हे भगवन् ! शुं सामायिकसंयत जिनकल्पमां होय, स्थविरकल्पमां होय के कल्पातीत होय ? [उ०] हे गौतम ! ते जिनकल्पमां होय-इत्यादि वाकी वधुं कपायकुशीलनी पेठे जाणवुं. छेदोपस्थापनीय अने परिहारविशुद्धिकनी हकीकत वकुशानी पेठे जाणवी अने वाकी वधा निर्ग्रथनी पेठे समजवा.

१२. [प्र०] हे भगवन् ! शुं सामायिकसंयत पुलाक होय, वकुश होय के यावत्-स्नातक होय ? [उ०] हे गौतम ! ते पुलाक पण होय, वकुश पण होय, यावत्-कपायकुशील होय, पण निर्ग्रथ के स्नातक न होय. ए प्रमाणे छेदोपस्थापनीयसंयत संबंधे पण जाणवुं.

सामायिक अने पुलाकादि-

१३. [प्र०] हे भगवन् ! परिहारविशुद्धिकसंयत शुं पुलाक होय-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! पुलाक न होय, वकुश न होय, प्रतिसेवनाकुशील न होय, निर्ग्रथ न होय अने स्नातक न होय, पण कपायकुशील होय. ए प्रमाणे सूक्ष्मसंपराय संयत पण जाणवो.

परिहारविशुद्ध अने पुलाकादि-

१४. [प्र०] यथाख्यातसंयत शुं पुलाक होय-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! पुलाक न होय अने यावत्-कपायकुशील न होय, पण निर्ग्रथ होय अथवा स्नातक होय.

यथाख्यात अने पुलाकादि-

१५. [प्र०] हे भगवन् ! शुं सामायिकसंयत प्रतिसेवक-चारित्रविराधक होय के अप्रतिसेवक-आराधक होय ? [उ०] हे गौतम ! प्रतिसेवक पण होय अने अप्रतिसेवक पण होय. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते प्रतिसेवक होय तो शुं अहिंसादि मूलगुणनो प्रतिसेवक होय के प्रत्याख्यानरूप उत्तरगुणनो प्रतिसेवक होय ? [उ०] वाकी वधुं पुलाकनी पेठे जाणवुं. सामायिकसंयतनी पेठे छेदोपस्थापनीय संयत पण जाणवो.

५ प्रतिसेवा-सामायिक संयत अने प्रतिसेवक-

१६. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परिहारविशुद्धिक संयत प्रतिसेवक छे के अप्रतिसेवक छे ? [उ०] हे गौतम ! ते प्रतिसेवक नथी, पण अप्रतिसेवक छे. ए प्रमाणे यावत्-यथाख्यात संयत सुधी जाणवुं.

परिहार विशुद्धिक अने प्रतिसेवक-

१७. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिकसंयतने केटलां ज्ञान होय ? [उ०] हे गौतम ! तेने वे, त्रण के चार ज्ञान होय. ए प्रमाणे कपायकुशीलनी पेठे चार ज्ञान भजनाए होय छे. ए प्रमाणे यावत्-सूक्ष्मसंपराय संयत सुधी जाणवुं. तथा 'ज्ञानोद्देशकमां कहा प्रमाणे यथाख्यात संयतने पांच ज्ञान भजनाए होय छे.

६ ज्ञानद्वार-

१८. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिकसंयत केटलं श्रुत भणे ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य आठ प्रवचनमाता रूप श्रुतं अच्ययन करे-इत्यादि वधी हकीकत कपायकुशीलनी पेठे जाणवी. तथा एज रीते छेदोपस्थापनीयसंयतने पण समजवुं.

७ श्रुतद्वार-सामायिक संयतने श्रुत

१९. [प्र०] परिहारविमुद्धियसंज्ञप-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जह्येणं नचमस्त पुत्रस्त ततियं आयारवत्तुं, उक्को-
सेणं असंपुत्तादं दस पुत्तादं अहिजेजा । सुहुमसंपरायसंज्ञप जहा सामाह्यसंज्ञप ।

२०. [प्र०] अहम्वायसंज्ञप-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जह्येणं अट्ट पययगमायाओ, उक्कोसेणं चोदस पुत्तादं अहि-
जेजा, सुयवतिरिचे वा होजा (७) ।

२१. [प्र०] सामाह्यसंज्ञप णं भंते ! किं तित्ये होजा, अतित्ये होजा ? [उ०] गोयमा ! तित्ये वा होजा, अतित्ये
वा होजा, जहा कसायकुसीले । छेदोवट्टावणिए परिहारविमुद्धिए य जहा पुत्ताप, सेसा जहा सामाह्यसंज्ञप (८) ।

२२. [प्र०] सामाह्यसंज्ञप णं भंते ! किं सल्लिगे होजा, अन्नल्लिगे होजा, गिहिल्लिगे होजा [उ०] जहा पुत्ताप ।
एवं छेदोवट्टावणिए वि ।

२३. [प्र०] परिहारविमुद्धियसंज्ञप णं भंते ! किं-पुच्छा [उ०] गोयमा ! द्यल्लिगं पिए भायल्लिगं पिए पट्टुम्ब सल्लिगे
होजा, नो अन्नल्लिगे होजा, नो गिहिल्लिगे होजा । सेसा जहा सामाह्यसंज्ञप (९) ।

२४. [प्र०] सामाह्यसंज्ञप णं भंते ! कतिसु सरीरेसु होजा ? [उ०] गोयमा ! तिसु वा चउसु वा पंचसु वा-जहा
कसायकुसीले । एवं छेदोवट्टावणिए वि, सेसा जहा पुत्ताप (१०) ।

२५. [प्र०] सामाह्यसंज्ञप णं भंते ! किं कम्मभूमीप होजा, अकम्मभूमीप होजा ? [उ०] गोयमा ! जम्मणं संतिमां
पट्टुच्च कम्मभूमीप, नो अकम्मभूमीप-जहा यउसे । एवं छेदोवट्टावणिए वि । परिहारविमुद्धिए य जहा पुत्ताप, सेसा जहा
सामाह्यसंज्ञप (११)

२६. [प्र०] सामाह्यसंज्ञप णं भंते ! किं ओसप्पिणीकाले होजा, उस्तप्पिणिकाले होजा, नोओसप्पिणि-नोउस्तप्पि-

परिहार विमुद्धि-
कने छुव-

१९. [प्र०] हे भगवन् ! परिहारविमुद्धिकसंयत केटल्लं श्रुत मणे ? [उ०] हे गौतम ! ते जवन्य नयमा पूर्वनी त्रीजी आचारवस्तु
सुवा, अने उट्टकट्ट अपूर्ण दस पूर्वी मणे. तथा सूक्ष्मसपराय संयत सामायिकसंयतनी पेटे जाणवो.

यथाख्यातने
श्रुत

२०. [प्र०] हे भगवन् ! यथाख्यातसंयत केटल्लं श्रुत मणे ? [उ०] हे गौतम ! जवन्य आठ प्रवचनमाना रूप श्रुत मणे अने
उट्टकट्ट चौद पूर्व मणे अथवा श्रुतरहित (केवली) होय.

४ वीधद्वार-

२१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं सामायिक संयत तीर्थमां होय के तीर्थना अभावमां होय ? [उ०] हे गौतम ! तीर्थमां पण होय
अने तीर्थना अभावमां पण होय-इत्यादि वची हकीकत कायायकुशीलनी पेटे जाणवी. छेदोपस्थापनीय अने परिहारविमुद्धिक
पुत्ताकनी पेटे जाणवा, अने वाकी वधा सामायिकसंयतनी पेटे जाणवा.

९ लिंगद्वार-

२२. [प्र०] हे भगवन् ! शुं सामायिकसंयत सल्लिग-सायुना लिंगमां होय, अन्य-तापसादिना लिंगमां होय के गृहस्थना लिंगमां
होय ? [उ०] ते संवंधी वची हकीकत पुत्ताकनी पेटे जाणवी. ए प्रमाणे छेदोपस्थापनीय संयत माटे पण जाणवुं.

२३. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परिहारविमुद्धिक संयत सल्लिगे होय, अन्यल्लिगे होय के गृहस्थल्लिगे होय ? [उ०] हे
गौतम ! ते द्रव्यल्लिग अने भावल्लिग आश्रयी सल्लिगमां होय, पण अन्यल्लिगे के गृहस्थल्लिगे न होय. वाकी वधुं सामायिकसंय-
तनी पेटे जाणवुं.

१० शरीरद्वार-

२४. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक संयतने केटल्लं शरीर होय ? [उ०] हे गौतम ! तेने त्रण, चार, के पांच शरीर होय-
इत्यादि वधुं कायायकुशीलनी पेटे जाणवुं. ए प्रमाणे छेदोपस्थापनीय सयत विषे पण जाणवुं. वाकीना वधा संयतो पुत्ताकनी
पेटे समजवा.

११ हेतुद्वार-

२५. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक संयत कर्मभूमिमां थाय के अकर्मभूमिमां थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते जन्म अने सद्भाव
वन्नेनी अपेक्षाए कर्मभूमिमा थाय, पण अकर्मभूमिमां न थाय-इत्यादि वधुं वकुशनी पेटे जाणवुं. ए रीते छेदोपस्थापनीय संयतने पण
समजवुं. परिहारविमुद्धिकने पुत्ताकनी पेटे जाणवुं अने वाकी वधा सयतो सामायिकसंयतनी पेटे जाणवा.

१२ काण्डद्वार-

२६. [प्र०] हे भगवन् ! शुं सामायिकसंयत उत्सर्पिणीकाले थाय, अवसर्पिणीकाले थाय के *नोउत्सर्पिणी-नोअवसर्पिणी
काले थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते उत्सर्पिणीकाले थाय-इत्यादि वधुं वकुशनी पेटे (पृ० २४७, सू० ५५) जाणवुं. ए प्रमाणे
छेदोपस्थापनीय संयत पण जाणवो. पण विशेष ए के जन्म अने सद्भावनी अपेक्षाए चारे परिभागमां-सुपमासुपमा, सुपमा, सुपमा

२६ * नोउत्सर्पिणी-नोअवसर्पिणी ना सुपमादि समान त्रण प्रधारना काळमा (देवद्वारादिमा) वकुशनी जन्म अने सद्भावनी निषेध कर्यो छे, अने
उ पमसुपमा समान काळमा (महाविदेहमां) जेनु अस्तित्व छे, परन्तु छेदोपस्थापनीय संयततुं लां पण अस्तित्व नवी.

णिकाले होजा ? [उ०] गोयमा ! ओसपिणिकाले—जहा वउसे । एवं छेदोवट्टावणिए वि । नवरं जम्मण—संतिभावं पडुच्च चउसु वि पडिभागेसु नत्थि, साहरणं पडुच्च अन्नयरे पडिभागे होजा; सेसं तं चैव ।

२७. [प्र०] परिहारविशुद्धिए—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ओसपिणिकाले वा होजा, उस्सपिणिकाले वा होजा, नो-ओसपिणि—नोउस्सपिणिकाले नो होजा । जइ ओसपिणिकाले होजा—जहा पुलाओ । उस्सपिणिकाले वि जहा पुलाओ । सुहुमसंपराइओ जहा नियंठो । एवं अहक्खाओ वि (१२) ।

२८. [प्र०] सामाइयसंजण णं भंते ! कालगए समाणे किं(कं)गतिं गच्छति ? [उ०] गोयमा ! देवगतिं गच्छति । [प्र०] देवगतिं गच्छमाणे किं भवणवासीसु उववज्जेजा, वाणमंतरेसु उववज्जेजा, जोइसिएसु उववज्जेजा, वेमाणिएसु उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! णो भवणवासीसु उववज्जेजा—जहा कसायकुसीले । एवं छेदोवट्टावणिए वि । परिहारविशुद्धिए जहा पुलाए । सुहुमसंपराए जहा नियंठे ।

२९. [प्र०] अहक्खाए—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एवं अहक्खायसजण वि जाव—अजहन्नमणुक्कोसेणं अणुत्तरविमाणेसु उववज्जेजा; अत्थेगतिए सिज्झति, जाव—अंतं करेति ।

३०. [प्र०] सामाइयसंजण णं भंते ! देवलोगेसु उववज्जमाणे किं इंदत्ताए उववज्जति—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अवि-राहणं पडुच्च, एवं जहा कसायकुसीले । एवं छेदोवट्टावणिए वि । परिहारविशुद्धिए जहा पुलाए । सेसा जहा नियंठे ।

३१. [प्र०] सामाइयसंजयस्स णं भंते ! देवलोगेसु उववज्जमाणस्स केवतियं कालं ठिती पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं दो पल्लिओवमाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं । एवं छेदोवट्टावणिए वि ।

३२. [प्र०] परिहारविशुद्धियस्स—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं दो पल्लिओवमाइं, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोव-माइं, सेसाणं जहा नियंठस्स (१३) ।

३३. [प्र०] सामाइयसंजयस्स णं भंते ! केवइया संजमट्टाणा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! असंखेजा संजमट्टाणा पन्नत्ता, एवं जाव—परिहारविशुद्धियस्स ।

दुःपमा, अने दुःपमासुपमाना समान काले न होय. अने संहरणनी अपेक्षाए चारमांथी कोई पण एक परिभागमा होय. वाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणवुं.

२७. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परिहारविशुद्धिक संयत अवसर्पिणीकाले होय—इत्यादि पुच्छा. [उ०] हे गौतम ! अवसर्पिणीकाले होय अने उत्सर्पिणीकाले पण होय, पण नोउत्सर्पिणी—नोअवसर्पिणी काले न होय. जो ते अवसर्पिणी के उत्सर्पिणीकाले होय तो, ते संबंधे पुलकनी पेटे (उ० ६ सू० ५२) समजवुं. सूक्ष्मसपराय सयत निर्ग्रथनी पेटे (उ० ६ सू० ५८) जाणवो. ए प्रमाणे यथाख्यात सयत पण जाणवो.

२८. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिकसयत काळगत थया पछी कइ गतिमां जाय ? [उ०] हे गौतम ! देवगतिमां जाय. [प्र०] देवगतिमा जतो सामायिकसयत शुं भवनवासी देवोमा उत्पन्न थाय, वानव्यंतरोमा उत्पन्न थाय, ज्योतिपिकोमा उत्पन्न थाय के वैमानिकोमा उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! भवनवासीमा न उत्पन्न थाय—इत्यादि वधी वक्तव्यता कपायकुशीलनी पेटे (उ० ६ सू० ५९) जाणवी. ए प्रमाणे छेदोपस्थापनीय सयत संबंधे पण जाणवुं. परिहारविशुद्धिक सयत पुलकनी पेटे अने सूक्ष्मसपराय निर्ग्रथनी पेटे (उ० ६ सू० ६०) जाणवा.

२९. [प्र०] यथाख्यात सयत कइ गतिमा जाय ? [उ०] हे गौतम ! यथाख्यात संयत पण पूर्वे कह्या प्रमाणे यावत्—जघन्य अने उत्कृष्ट सिवाय अनुत्तरविमानमा उत्पन्न थाय अने केटलाक तो सिद्ध थाय यावत्—सर्व दुःखनो अन्त करनार थाय.

३०. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिकसयत देवलोकोमा उत्पन्न थतो शुं इंद्रपणे उपजे—इत्यादि पुच्छा. [उ०] हे गौतम ! सयमनी अविराधनाने अपेक्षी—इत्यादि वधुं कपायकुशीलनी पेटे (उ० ६ सू० ६३) जाणवुं छेदोपस्थापनीय सयतने पण ए प्रमाणे समजवुं. पुलकनी पेटे (उ० ६ सू० ६२) परिहारविशुद्धिक अने वाकी वधा निर्ग्रथनी पेटे (उ० ६ सू० ६४) जाणवा.

३१. [प्र०] हे भगवन् ! देवलोकमा उत्पन्न थता सामायिकसंयतनी केटली स्थिति कही छे ? [उ०] हे गौतम ! तेनी जघन्य वे पल्योपमनी अने उत्कृष्ट तेजरीसा सागरोपमनी स्थिति कही छे. ए प्रमाणे छेदोपस्थापनीय संयत विपे पण समजवुं.

३२. [प्र०] हे भगवन् ! देवलोकमां उत्पन्न थता परिहारविशुद्धिक सयतनी केटली स्थिति कही छे ? [उ०] हे गौतम ! तेनी जघन्य वे पल्योपमनी अने उत्कृष्ट अदार सागरोपमनी स्थिति कही छे. वाकीना वधा संयतो संबंधे निर्ग्रथनी पेटे जाणवुं.

३३. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिकसंयतना केटला संयमस्थानो कह्या छे ? [उ०] हे गौतम ! असंख्य संयमस्थानो कह्या छे. ए प्रमाणे यावत्—परिहारविशुद्धिक सुधी जाणवुं.

३४. [प्र०] सुहुमसंपरायसंजयस्स—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! असंखेज्जा अंतोसुहुत्तिया संजमट्टाणा पन्नत्ता ।

३५. [प्र०] अहक्खायसंजयस्स—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एगे अजहन्नमणुकोसए संजमट्टाणे पन्नत्ते ।

३६. [प्र०] एएसि णं भंते ! सामाइय—छेदोवट्टावणिय—परिहारविसुद्धिय—सुहुमसंपराग—अहक्खायसंजयाणं संजमट्टाणाणं कयरे कयरे—जाव—विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! सव्वत्थोवे अहक्खायसंजमस्स एगे अजहन्नमणुकोसए संजमट्टाणे, सुहुमसंपरागसंजयस्स अंतोसुहुत्तिया संजमट्टाणा असंखेज्जगुणा, परिहारविसुद्धियसंजयस्स संजमट्टाणा असंखेज्जगुणा, सामाइयसंजयस्स छेदोवट्टावणियसंजयस्स य एएसि णं संजमट्टाणा दोण्ह वि तुह्हा असंखेज्जगुणा (१४) ।

३७. [प्र०] सामाइयसंजयस्स णं भंते ! केवइया चरित्तपज्जवा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! अणंता चरित्तपज्जवा पन्नत्ता, एवं जाव—अहक्खायसंजयस्स ।

३८. [प्र०] सामाइयसंजय णं भंते ! सामाइयसंजयस्स सट्टाणसन्निगासेणं चरित्तपज्जवेहिं किं हीणे, तुह्हे, अम्महिए ? [उ०] गोयमा ! सिय हीणे—छट्टाणवडिए ।

३९. [प्र०] सामाइयसंजय णं भंते ! छेदोवट्टावणियसंजयस्स परट्टाणसन्निगासेणं चरित्तपज्जवेहिं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सिय हीणे, छट्टाणवडिए । एवं परिहारविसुद्धियस्स वि ।

४०. [प्र०] सामाइयसंजय णं भंते ! सुहुमसंपरागसंजयस्स परट्टाणसन्निगासेणं चरित्तपज्जवेहिं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! हीणे, नो तुह्हे, नो अम्महिए, अणंतगुणहीणे । एवं अहक्खायसंजयस्स वि । एवं छेदोवट्टावणिए वि हेट्टिल्लेसु तिसु वि समं छट्टाणवडिए, उवरिल्लेसु दोसु तहेव हीणे । जहा छेदोवट्टावणिए तहा परिहारविसुद्धिए वि ।

४१. [प्र०] सुहुमसंपरागसंजय णं भंते ! सामाइयसंजयस्स परट्टाण—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो हीणे, नो तुह्हे, अम्महिए, अणंतगुणमम्महिए । एवं छेदोवट्टावणिय—परिहारविसुद्धिएसु वि समं । सट्टाणे सिय हीणे, नो तुह्हे, सिय अम्महिए । जइ हीणे अणंतगुणहीणे, अह अम्महिए अणंतगुणमम्महिए ।

सूक्ष्मसंपरायना
सयमस्थान.

३४. [प्र०] हे भगवन् ! सूक्ष्मसंपराय संयतनां केटलां संयमस्थानो कहां छे ? [उ०] हे गौतम ! तेनां असंख्य संयमस्थानो छे अने तेनी अतर्मुहूर्तनी स्थिति छे.

यथाख्यातना सय
मस्थान

३५. [प्र०] हे भगवन् ! यथाख्यातसयतनां केटला सयमस्थानो कहां छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओतुं जघन्य अने उच्छट्ट सियाय एक सयमस्थान कहां छे.

सयमस्थानोत्तु
अल्पबहुत्व.

३६. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनीयसंयत, परिहारविशुद्धिकसंयत, सूक्ष्मसंपरायसंयत अने यथाख्यातसयत, एओना सयमस्थानोमा कोना सयमस्थानो कोना सयमस्थानोशी यावत्—विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! यथाख्यात सयततुं अजघन्य अनुच्छट्ट एक सयमस्थान होवाथी सौथी अल्प छे, तेथी सूक्ष्मसंपराय सयतना अतर्मुहूर्त सुधी रहेनारा सयमस्थानो असंख्यगुणा छे, तेथी परिहारविशुद्धिकनां सयमस्थानो असंख्यगुणां छे, तेथी सामायिकसंयत अने छेदोपस्थापनीयसंयतना सयमस्थानो असंख्यगुणा छे अने परस्पर सरखा छे.

३५ संनिकर्षदार—
सामायिकसयतना
चारित्रपर्यवो.

३७. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिकसंयतना केटला चारित्रपर्यवो कहां छे ? [उ०] हे गौतम ! तेना अनंत चारित्रपर्यवो कहां छे. ए प्रमाणे यावत्—यथाख्यातसयत सुधी जाणहुं.

सामायिक सयततु
सजातीय पर्यायनी
अपेक्षाए अल्पबहुत्व

३८. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिकसंयत वीजा सामायिकसंयतना सजातीय चारित्रपर्यायनी अपेक्षाए शुं हीन होय, तुल्य होय के अधिक होय ? [उ०] हे गौतम ! कदाच हीन होय, तुल्य होय अने अधिक होय अने तेमां—हीनाविकपणामा छ स्थान पतित होय.

सामायिक अने छे
दोपस्थापनीयनु पर्या-
यापेक्षाए अल्पबहुत्व.

३९. [प्र०] हे भगवन् ! एक सामायिकसंयत छेदोपस्थापनीयसंयतना विजातीय चारित्रपर्यायना सन्न्यनी अपेक्षाए शु हीन होय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! कदाच हीन होय—इत्यादि छ स्थान पतित होय. ए प्रमाणे परिहारविशुद्धिक संबंधे पण समजहुं.

सामायिकना सूक्ष्म
संपरायनी अपे-
क्षाए पर्यायो.

४०. [प्र०] हे भगवन् ! एक सामायिकसयत सूक्ष्मसंपरायसयतना विजातीय चारित्रपर्यायनी अपेक्षाए हीन होय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! हीन होय, तुल्य न होय, तेम अधिक पण न होय. तेमां पण अनंतगुण हीन छे. ए प्रमाणे यथाख्यातसयत संबंधे पण जाणहुं. ए प्रमाणे छेदोपस्थापनीय पण नीचेना त्रणे चारित्रनी अपेक्षाए छ स्थानपतित छे अने उपरना वे चारित्रथी तेज प्रमाणे अनन्तगुण हीन छे. जेम छेदोपस्थापनीयसयत विपे कहुं तेम परिहारविशुद्धिक संबंधे पण जाणहुं.

यन्मसंपरायना सा-
मायिकनी अपेक्षाए
पर्यायो.

४१. [प्र०] हे भगवन् ! सूक्ष्मसंपरायसंयत सामायिकसयतना विजातीय पर्यायोनी अपेक्षाए शुं हीन छे— इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते हीन नथी, सरखो नथी, पण अधिक छे अने ते अनंत गुण अधिक छे. ए प्रमाणे छेदोपस्थापनीय अने परिहारविशुद्धिकनी साथे जाणहुं. पोताना सजातीय पर्यायनी अपेक्षाए कदाच हीन होय, कदाच तुल्य होय अने कदाच अधिक होय. जो हीन होय तो अनंतगुण हीन होय, जो अधिक होय तो अनंतगुण अधिक होय.

४२. [प्र०] सुहृमसंपरायसंजयस्स अहक्खायसंजयस्स परट्ठाण—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! हीणे, नो तुल्ले, नो अन्महिण, अणंतगुणहीणे । अहक्खाए हेट्टिल्लणं चउण्ह वि नो हीणे, नो तुल्ले, अन्महिण, अणंतगुणमन्महिण । सट्ठाणे नो हीणे, तुल्ले, नो अन्महिण ।

४३. [प्र०] एएसि णं भंते ! सामाइय—छेदोवट्ठावणिय—परिहारविसुद्धिय—सुहृमसंपराय—अहक्खायसंजयाणं जहल्लुक्को-सगाणं चरित्तपज्जवाणं कयरे कयरे—जाव—विसेसाहिया वा ? [उ०] गोयमा ! सामाइयसंजयस्स छेओवट्ठावणियसंजयस्स य एएसि णं जहल्लगा चरित्तपज्जवा दोण्ह वि तुल्ला सव्वथोवा, परिहारविसुद्धियसंजयस्स जहल्लगा चरित्तपज्जवा अणंतगुणा, तस्स चेव उक्कोसगा चरित्तपज्जवा अणंतगुणा, सामाइयसंजयस्स छेओवट्ठावणियसंजयस्स य एएसि णं उक्कोसगा चरित्तपज्जवा दोण्ह वि तुल्ला अनंतगुणा, सुहृमसंपरायसंजयस्स जहल्लगा चरित्तपज्जवा अणंतगुणा, तस्स चेव उक्कोसगा चरित्तपज्जवा अणंतगुणा अहक्खायसंजयस्स अजहल्लमणुक्कोसगा चरित्तपज्जवा अणंतगुणा (१५) ।

४४. [प्र०] सामाइयसंजय णं भंते ! किं सजोगी होज्जा, अजोगी होज्जा ? [उ०] गोयमा ! सजोगी—जहा पुलाए । एवं जाव—सुहृमसंपरायसंजय । अहक्खाए जहा सिणाए (१६) ।

४५. [प्र०] सामाइयसंजय णं भंते ! किं सागारोवउत्ते होज्जा अणागारोवउत्ते होज्जा ? [उ०] गोयमा ! सागारोवउत्ते—जहा पुलाए । एवं जाव—अहक्खाए । नवरं सुहृमसंपराए सागारोवउत्ते होज्जा, नो अणागारोवउत्ते होज्जा (१७) ।

४६. [प्र०] सामाइयसंजय णं भंते ! किं सकसायी होज्जा, अकसायी होज्जा ? [उ०] गोयमा ! सकसायी होज्जा, नो अकसायी होज्जा—जहा कसायकुसीले । एवं छेदोवट्ठावणिए वि । परिहारविसुद्धिए जहा पुलाए ।

४७. [प्र०] सुहृमसंपरागसंजय—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सकसायी होज्जा, नो अकसायी होज्जा ।

४८. [प्र०] जइ सकसायी होज्जा, से णं भंते ! कत्तिखु कसायसु होज्जा ? [उ०] गोयमा ! एणंमि संजलणलोभे होज्जा । अहक्खायसंजय जहा नियंठे (१८) ।

४२. [प्र०] हे भगवन् ! सूक्ष्मसंपरायसंयत यथाख्यातसयतना विजातीय चारित्रपर्यायोनी अपेक्षाए हीन होय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ हीन छे, सरखा नथी अने तुल्य पण नथी, पण अधिक छे. अने ते अनंतगुण हीन छे. यथाख्यात सयत नीचेना चारेनी अपेक्षाए हीन नथी, तुल्य नथी, पण अधिक छे अने ते अनंतगुण अधिक छे. पोताना स्थानमा हीन अने अधिक नथी पण सरखा छे.

४३. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक सयत, छेदोपस्थापनीय संयत, परिहारविशुद्धिक सयत, सूक्ष्मसंपराय सयत अने यथाख्यात संयत, एओना जघन्य अने उत्कृष्ट चारित्रपर्ययोमा कोना कोनाथी यावत्—विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! सामायिक संयत अने छेदोपस्थापनीय सयत—ए वनेना जघन्य चारित्रपर्ययो परस्पर सरखा अने सौथी थोडा छे, तेथी परिहारविशुद्धिक संयतना जघन्य चारित्र पर्ययो अनंत गुणा छे, अने तेथी तेनाज उत्कृष्ट चारित्रपर्ययो अनंत गुणा छे, तेथी सामायिक सयत अने छेदोपस्थापनीय संयतना उत्कृष्ट चारित्रपर्ययो अनंतगुणा अने परस्पर सरखा छे, तेथी सूक्ष्मसंपराय सयतना जघन्य चारित्रपर्ययो अनंतगुणा छे अने तेथी तेनाज उत्कृष्ट चारित्रपर्ययो अनंतगुणा छे, अने तेथी यथाख्यात सयतना अजघन्य अने अनुकृष्ट चारित्रपर्ययो अनंतगुणा छे.

४४. [प्र०] हे भगवन् ! शं सामायिक सयत सयोगी होय के अयोगी होय ? [उ०] हे गौतम ! ते सयोगी होय—इत्यादि वधुं पुलाकनी पेठे (उ० ६ सू० ८३) जाणहुं. ए प्रमाणे यावत्—सूक्ष्मसंपराय सयत संबंधे समजहुं. अने यथाख्यात संयत संबंधे स्नातकनी पेठे (उ० ६ सू० ८४) जाणहुं.

४५. [प्र०] हे भगवन् ! शं सामायिकसयत साकार—ज्ञानउपयोगवाळो होय के अनाकार—दर्शन उपयोगवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! साकारउपयोगवाळो होय—इत्यादि वधुं पुलाकनी पेठे (उ० ६ सू० ८५) जाणहुं. ए रीते यावत्—यथाख्यात सयत संबंधे समजहुं. विशेष ए के सूक्ष्मसंपराय सयत साकार उपयोगवाळो होय, पण अनाकार उपयोगवाळो न होय.

४६. [प्र०] हे भगवन् ! शं सामायिक संयत कपायवाळो होय के कपायरहित होय ? [उ०] हे गौतम ! ते कपायवाळो होय, पण कपायरहित न होय—इत्यादि कपायकुसीलीनी पेठे (उ० ६ सू० ८६) जाणहुं. ए प्रमाणे छेदोपस्थापनीय पण जाणवो. परिहार-विशुद्धिक सयतने पुलाकनी पेठे (उ० ६ सू० ८७) जाणहुं.

४७. [प्र०] हे भगवन् ! शं सूक्ष्मसंपराय सयत कपायवाळो होय के कपायरहित होय ? [उ०] हे गौतम ! कपायवाळो होय, पण कपायरहित न होय.

४८. [प्र०] हे भगवन् ! जो ते (सूक्ष्मसंपराय संयत) कपायवाळो होय तो ते केटल कपायवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! तेने मात्र एक संवलन लोभ होय. यथाख्यात सयत संबंधे निर्ग्रथनी पेठे (उ० ६ सू० ८८) जाणहुं.

सामायिक संयता-
दिनु अल्पवद्वत्.

१६ योगद्वार-

१७ उपयोगद्वार-

१८ कपायद्वार-

४९. [प्र०] सामाज्यसंज्ञणं भंते ! किं सलेस्ते होजा, अलेस्ते होजा ? [उ०] गोयमा ! सलेस्ते होजा-जहा कसायकुसीले । एवं छेदोवद्वावणिए वि । परिहारविशुद्धिए जहा पुलाए । सुहुमसंपराए जहा नियंटे । अहन्त्वाए जहा सिणाए । नवरं जह सलेस्ते होजा, एणाए सुकलेस्साए होजा (१९) ।

५०. [प्र०] सामाज्यसंज्ञणं भंते ! किं बहुमाणपरिणामे होजा, हीयमाणपरिणामे, अवद्वियपरिणामे ? [उ०] गोयमा ! बहुमाणपरिणामे-जहा पुलाए । एवं जाव-परिहारविशुद्धिए ।

५१. [प्र०] सुहुमसंपराए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! बहुमाणपरिणामे वा होजा, हीयमाणपरिणामे वा होजा, नो अवद्वियपरिणामे होजा । अहन्त्वाए जहा नियंटे ।

५२. [प्र०] सामाज्यसंज्ञणं भंते ! केवतियं कालं बहुमाणपरिणामे होजा ? [उ०] गोयमा ! जहद्रेणं एकं समयं-जहा पुलाए । एवं जाव-परिहारविशुद्धिए ।

५३. [प्र०] सुहुमसंपरागसंज्ञणं भंते ! केवतियं कालं बहुमाणपरिणामे होजा ? [उ०] गोयमा ! जहद्रेणं परं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं । [प्र०] केवतियं कालं हीयमाणपरिणामे ? [उ०] एवं चेव ।

५४. [प्र०] अहन्त्वायसंज्ञणं भंते ! केवतियं कालं बहुमाणपरिणामे होजा ? [उ०] गोयमा ! जहद्रेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं । [प्र०] केवतियं कालं अवद्वियपरिणामे होजा ? [उ०] गोयमा ! जहद्रेणं एकं समयं, उक्कोसेणं देसूणा पुवकोडी (२०) ।

५५. [प्र०] सामाज्यसंज्ञणं भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ वंधइ ? [उ०] गोयमा ! सत्तविहवंधए वा, अट्टविहवंधए वा-एवं जहा वउसे । एवं जाव-परिहारविशुद्धिए ।

५६. [प्र०] सुहुमसंपरागसंज्ञणं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! आउय-मोहणिजवजाओ छ कम्मप्पगडीओ वंधति । अहन्त्वाएसंज्ञणं जहा सिणाए (२१) ।

१९ लेख्याद्वार-

४९. [प्र०] हे भगवन् ! शुं सामायिक संयत लेख्यासहित होय के लेख्यारहित होय ? [उ०] हे गौतम ! ते लेख्यासहित होय-इत्यादि वधुं कपायकुसीलीने पेठे (उ० ६ सू० ९०) जाणहुं. छेदोपस्थापनीयने पण ए प्रमाणे जाणहुं. पुलाकनी पेठे (उ० ६ सू० ८१) परिहारविशुद्धिकने समजहुं. सूक्ष्मसंपराय संयत निर्ग्रयनी पेठे (उ० ६ सू० ९१) जाणवो. अने स्नातकनी पेठे यथाख्यात संयत विपे जाणहुं. परन्तु जो लेख्यासहित होय तो ते एक शुक्कलेख्यावाळो होय.

२० परिणामद्वार-

५०. [प्र०] हे भगवन् ! शुं सामायिक संयत चटता परिणामवाळो होय, हीयमान-पडता परिणामवाळो होय के स्थिर परिणामवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! ते चटता परिणामवाळो होय-इत्यादि वधुं पुलाकनी पेठे (उ० ६ सू० ९३) जाणहुं. ए प्रमाणे यावत्-परिहारविशुद्धिक संयत सुधी समजहुं.

५१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं सूक्ष्मसंपराय संयत चटता परिणामवाळो होय-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते चटता परिणामवाळो होय, पडता परिणामवाळो होय, पण स्थिर परिणामवाळो न होय. यथाख्यात संयतने निर्ग्रयनी पेठे (उ० ६ सू० ९४) जाणहुं.

परिणामनो काळ.

५२. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक संयत केटला काळ सुधी चटता परिणामवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य एक समय सुधी चटता परिणामवाळो होय-इत्यादि वधुं पुलाकनी पेठे (उ० ६ सू० ९५) जाणहुं तथा ए प्रमाणे यावत्-परिहार विशुद्धिक संबंधे पण समजहुं.

५३. [प्र०] हे भगवन् ! सूक्ष्मसंपराय संयत केटला काळ सुधी चटता परिणामवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य एक समय सुधी अने उत्कृष्ट अतर्मुहूर्त सुधी चटता परिणामवाळो होय. [प्र०] ते केटला काळ सुधी पडता परिणामवाळो होय ? [उ०] पूर्वनी पेठे जाणहुं.

५४. [प्र०] हे भगवन् ! यथाख्यात संयत केटला काळ सुधी चटता परिणामवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य अने उत्कृष्ट अतर्मुहूर्त सुधी चटता परिणामवाळो होय. [प्र०] ते केटला काळ सुधी स्थिर परिणामवाळो होय ? [उ०] हे गौतम ! ते जघन्य एक समय, अने उत्कृष्ट अगतः न्यून पूर्वकोटि सुधी स्थिर परिणामवाळो होय.

२१ वन्धद्वार-

५५. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक संयत केटली कर्मप्रकृतिओने वाधे ? [उ०] हे गौतम ! ते सात कर्म प्रकृतिओ के आठ कर्म प्रकृतिओने वाधे-इत्यादि वधुं वजुगनी पेठे (उ० ६ सू० १०२) जाणहुं. ए प्रमाणे यावत्-परिहारविशुद्धिक संयत सुधी समजहुं.

५६. [प्र०] हे भगवन् ! सूक्ष्मसंपराय संयत केटली कर्मप्रकृतिओने वाधे ? [उ०] हे गौतम ! ते आयुष अने मोहनीय सिवाय छ कर्मप्रकृतिओने वाधे. यथाख्यात संयत संबंधे स्नातकनी पेठे (उ० ६ सू० १०६) जाणहुं.

५१ * सूक्ष्मसंपराय ज्यारे श्रेणि उपर चटतो होय लारे वर्धमान परिणामवाळो अने श्रेणिपी पटतो होय लारे हीयमान परिणामवाळो होय, पण सामायिक रीते स्थिर परिणामवाळो न होय

५७. [प्र०] सामाह्यसंज्ञ ए णं भंते ! कति कम्मप्पगडीओ वेदेति ? [उ०] गोयमा ! नियमं अट्ट कम्मप्पगडीओ वेदेति । एवं जाव-सुहुमसंपराए ।

५८. [प्र०] अहक्खाए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सत्तविहवेयए वा, चउद्विहवेयए वा । सत्त वेदेमाणे मोहणिज्जवज्जाओ सत्त कम्मप्पगडीओ वेदेति, चत्तारि वेदेमाणे वेयणिज्जा-उय-नाम-गोयाओ चत्तारि कम्मप्पगडीओ वेदेति (२२) ।

५९. [प्र०] सामाह्यसंज्ञ ए णं भंते ! कति कम्मप्पगडीओ उदीरेति ? [उ०] गोयमा ! सत्तविह-जहा चउसो । एवं जाव-परिहारविसुद्धिए ।

६०. [प्र०] सुहुमसंपराए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! छद्विहउदीरेण वा पंचविहउदीरेण वा । छ उदीरेमाणे आउय-वेयणिज्जवज्जाओ छ कम्मप्पगडीओ उदीरेइ, पंच उदीरेमाणे आउय-वेयणिज्ज-मोहणिज्जवज्जाओ पंच कम्मप्पगडीओ उदीरेइ ।

६१. [प्र०] अहक्खायसंज्ञए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! पंचविहउदीरेण वा दुविहउदीरेण वा अणुदीरेण वा । पंच उदीरेमाणे आउय-सेसं जहा नियंठस्स (२३) ।

६२. [प्र०] सामाह्यसंज्ञ ए णं भंते ! सामाह्यसंज्ञयत्तं जहमाणे किं जहति, किं उवसंपज्जति ? [उ०] गोयमा ! सामाह्यसंज्ञयत्तं जहति, छेदोवट्टावणियसंज्ञयं वा, सुहुमसंपरागसंज्ञयं वा, असंजमं वा, संजमासंजमं वा उवसंपज्जति ।

६३. [प्र०] छेओवट्टावणिए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! छेओवट्टावणियसंज्ञयत्तं जहति, सामाह्यसंज्ञमं वा, परिहारविसुद्धियसंज्ञमं वा, सुहुमसंपरागसंज्ञमं वा, असंजमं वा, संजमासंज्ञमं वा उवसंपज्जति ।

६४. [प्र०] परिहारविसुद्धिए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! परिहारविसुद्धियसंज्ञयत्तं जहति, छेदोवट्टावणियसंज्ञयत्तं वा असंजमं वा उवसंपज्जति ।

५७. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक सयत केटली कर्मप्रकृतिओने वेदे—अनुमवे ? [उ०] हे गौतम ! ते जवइय आठ कर्म-प्रकृतिओने वेदे. ए प्रमाणे यावत्-सूक्ष्मसंपराय सुधी जाणवुं. २२ वेदनद्वार-

५८. [प्र०] हे भगवन् ! यथाख्यात संयत केटली कर्मप्रकृतिओने वेदे ? [उ०] हे गौतम ! ते सात कर्मप्रकृतिओने वेदे के चार कर्मप्रकृतिओने वेदे. ज्यारे ते सात कर्मने वेदतो होय ल्यारे मोहनीय सिवायना सात कर्मने वेदे, अने ज्यारे ते चार प्रकारनां कर्मने वेदतो होय ल्यारे वेदनीय, आयुप, नाम अने गोत्र-ए चार कर्मप्रकृतिओने वेदे.

५९. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक सयत केटली कर्मप्रकृतिओने उदीरे ? [उ०] हे गौतम ! ते सात कर्मप्रकृतिओने उदीरे-इत्यादि वधुं वकुशनी पेठे (उ० ६ सू० १११) जाणवुं. यावत्-परिहारविशुद्धिक ए प्रमाणे जाणवो. २३ उदीरेणाद्वार-

६०. [प्र०] हे भगवन् ! सूक्ष्मसंपराय केटली कर्मप्रकृतिओने उदीरे ? [उ०] हे गौतम ! छ कर्मप्रकृतिओनी अथवा पाच कर्मप्रकृतिओनी उदीरेणा करे. जो छ कर्मनी उदीरेणा करे तो आयुप अने वेदनीय सिवाय वाकीनां छ कर्मनी उदीरेणा करे. जो पाच कर्मनी उदीरेणा करे तो आयुप, वेदनीय अने मोहनीय कर्म सिवाय वाकीना पाच कर्मनी उदीरेणा करे.

६१. [प्र०] हे भगवन् ! यथाख्यात संयत केटली कर्मप्रकृतिओने उदीरे ? [उ०] हे गौतम ! ते पाच कर्मप्रकृतिओने उदीरे के वे कर्मप्रकृतिओने उदीरे, अथवा कोइ पण प्रकारना कर्मनी उदीरेणा न करे. जो पाच कर्मनी उदीरेणा करे तो आयुप, वेदनीय अने मोहनीय कर्म सिवाय वाकीना पांच कर्मनी उदीरेणा करे-इत्यादि वधुं निर्धरणी पेठे (उ० ६ सू० ११३) जाणवुं.

६२. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक संयत सामायिकसंयतपणानो ल्याग करतो शुं छोडे, शुं प्राप्त करे ? [उ०] हे गौतम ! सामायिकसंयतपणानो ल्याग करे अने छेदोपस्थापनीयसंयतपणुं, सूक्ष्मसंपरायसंयतपणुं, असंयम के संयमासंयम-देशविर-तिपणुं प्राप्त करे. २४ उपसपद-ज्ञान-सामायिकसयत शुं छोडे अने कोने स्वीकारे.

६३. [प्र०] हे भगवन् ! छेदोपस्थापनीय संयत शुं छोडे अने शुं प्राप्त करे ? [उ०] हे गौतम ! छेदोपस्थापनीयसंयतपणानो ल्याग करे अने सामायिकसंयतपणुं, परिहारविशुद्धिकसंयतपणुं, सूक्ष्मसंपरायसंयतपणुं, असंयम के देशविरतिपणुं प्राप्त करे. छेदोपस्थापनीय शुं छोडे अने शुं प्राप्त करे ?

६४. [प्र०] परिहारविशुद्धिक संबंधे पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते परिहारविशुद्धिकसंयतपणानो ल्याग करे अने छेदोपस्थापनीयसंयतपणुं के असंयम प्राप्त करे.

६३ * जेम प्रथम तीर्थकरना तीर्थना साधु अजितजिनना तीर्थमा प्रवेश करे ल्यारे छेदोपस्थापनीय चारित्र छोडी सामायिक चारित्र अगीकार करे. ए रीते छेदोपस्थापनीय सयत तेनो ल्याग करतो सामायिकसयतपणुं स्वीकारे.

६४ † परिहारविशुद्धिक सयत परिहारविशुद्धिकसयतपणानो ल्याग करी गच्छमा प्रवेश करे ल्यारे छेदोपस्थापनीयसयतपणुं पामे, अने देवगतिमा जाय तो असयतपणुं पामे.

६५. [प्र०] सुहृमसंपराय-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! सुहृमसंपरायसंजयत्तं जहति, सामाद्यसंजयं वा, छेदोवद्वावणि-
यसंजयं वा, अहक्खायसंजयं वा, असंजमं वा उवसंपज्जइ ।

६६. [प्र०] अहक्खायसंजय-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अहक्खायसंजयत्तं जहति, सुहृमसंपरायसंजयं वा, असंजमं वा,
सिद्धिगतिं वा उवसंपज्जति (२४) ।

६७. [प्र०] सामाद्यसंजय णं भंते ! किं सन्नोवउत्ते होज्जा, नोसन्नोवउत्ते होज्जा ? [उ०] गोयमा ! सन्नोवउत्ते-जहा
वउसो । एवं जाव-परिहारविमुद्धिप । सुहृमसंपराय, अहक्खाय य जहा पुलाप (२५) ।

६८. [प्र०] सामाद्यसंजय णं भंते ! किं आहारप होज्जा, अणाहारप होज्जा । [उ०] जहा पुलाप । एवं जाव-
सुहृमसंपराय । अहक्खायसंजय जहा सिणाप (२६) ।

६९. [प्र०] सामाद्यसंजय णं भंते ! कति भवग्गहणाइं होज्जा ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एकं, उक्कोसेणं अट्ट । एवं
छेदोवद्वावणिप वि ।

७०. [प्र०] परिहारविमुद्धिप-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एकं, उक्कोसेणं तिमि । एवं जाव-अहक्खाप (२७) ।

७१. [प्र०] सामाद्यसंजयस्स णं भंते ! एगभवग्गहणिया केवतिया आगरिसा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं-
जहा वउसस्स ।

७२. [प्र०] छेदोवद्वावणियस्स पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं पक्को, उक्कोसेणं वीसपुहुत्तं ।

७३. [प्र०] परिहारविमुद्धियस्सपुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं पक्को, उक्कोसेणं तिमि ।

६५. [प्र०] सूहृमसंपराय संवंधे पूर्ववत् पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते *सूहृमसंपरायसंयतपणानो त्याग करे अने सामाधिक
संयतपणं, छेदोपस्थापनीयसंयतपणं, यथाख्यातसंयतपणं के असंयम प्राप्त करे.

६६. [प्र०] यथाख्यातसंयत संवन्धे पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! ते यथाख्यातसंयतपणानो त्याग करे अने सूहृमसंपराय संयम,
असंयम के सिद्धिगतिये प्राप्त करे.

६७. [प्र०] हे भगवन् ! शुं सामाधिक संयत संज्ञोपयुक्त—आहारादिमां आसक्त होय के नोसंज्ञोपयुक्त—आहारादिमां आसक्तिरहित
होय ? [उ०] हे गौतम ! ते संज्ञोपयुक्त होय—इत्यादि वहुं बहुज्जानी पेटे जाणवु. ए प्रमाणे यावत्—परिहारविमुद्धिक संयत सुधी
जाणवुं. सूहृमसंपराय अने यथाख्यात संवन्धे पुलाकनी पेटे (उ० ६ सू० १२२) जाणवुं.

६८. [प्र०] हे भगवन् ! शुं सामाधिक संयत आहारक होय के अनाहारक होय ? [उ०] हे गौतम ! पुलाकनी पेटे (उ० ६
सू० १२३) जाणवुं. ए रीते यावत्—सूहृमसंपराय सुधी समजहुं. यथाख्यात संयत ज्ञानकनी पेटे (उ० ६ सू० १२४) जाणवो.

६९. [प्र०] हे भगवन् ! सामाधिक संयत केटलां भवग्रहण करे [उ०] हे गौतम ! जघन्य एक भव अने उक्कट आठ
भवग्रहण करे. ए प्रमाणे छेदोपस्थापनीय विषे पण जाणवुं.

७०. [प्र०] हे भगवन् ! परिहारविमुद्धिक केटला भव ग्रहण करे ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य एक भव अने उक्कट त्रण भव-
ग्रहण करे ए प्रमाणे यावत्—यथाख्यात संयत संवंधे जाणवुं.

७१. [प्र०] हे भगवन् ! सामाधिक संयतने एक भवमां ग्रहण करी शक्याय तेवा केटला आकर्ष कखा छे—अर्थात् एक भवमां
केटली वार सामाधिक संयम प्राप्त थाय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य [एक अने उक्कट शतपृयक्त्व होय]—इत्यादि वहुं बहुज्जानी पेटे
(उ० ६ सू० १३०) समजहुं.

७२. [प्र०] हे भगवन् ! छेदोपस्थापनीय संयतने एक भवमां ग्रहण करी शक्याय तेवा केटला आकर्ष कखा छे ? [उ०] हे
गौतम ! तेने जघन्य एक अने उक्कट वीशपृयक्त्व—वेथी नव वीश आकर्ष कखा छे.

७३. [प्र०] परिहारविमुद्धिक संवन्धे पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेने जघन्य एक अने उक्कट त्रण आकर्ष कखा छे.

१ मव्वंय 'पक्क' इति पाठ न-व-पुच्छके उपलभ्यते, परं क-उपुच्छके 'पक्को' इति पाठः ।

६५. * सूहृमसंपरायसंयत त्रेणिकी पटतो सूहृमसंपरायसंयतपणानो त्याग करी जो पूर्व नामाधिक संयत होय तो सामाधिक संयतपणं प्राप्त करे
अने पूर्व छेदोपस्थापनीय संयत होय तो छेदोपस्थापनीयसंयतपणं पामे, जो त्रेणिकी उपर चढे तो यथाख्यातसंयतपणं पामे.

६६ † यथाख्यात संयत त्रेणिकी पटवाथी यथाख्यातसंयतपणानो त्याग करतो सूहृमसंपरायसंयतपणं पामे अने उपशातमोहावस्थानां मरण पामे
तो देवगतिमां अश्वयनपणं पामे, अने जो ज्ञातक होय तो सिद्धिगति पामे

७३ ‡ परिहारविमुद्धिकपणं एक भवमा त्रण वार प्राप्त थाय छे.

२५ संशयवार-

२६ आहारकवार-

२७ भववार-

२८ आकर्षवार-

परिहारविमुद्धिकने
आकर्ष

७४. [प्र०] सुहुमसंपरायस्स-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एक्को, उक्कोसेणं चत्तारि ।
 ७५. [प्र०] अहक्खायस्स-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एक्को, उक्कोसेणं दोत्ति ।
 ७६. [प्र०] सामाइयसंजयस्स णं भंते ! नाणाभवग्गहणिया केवतिया आगरिसा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! जहा वउसे ।
 ७७. [प्र०] छेदोवट्ठावणियस्स-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं दोत्ति, उक्कोसेणं उवरिं नवण्हं सयाणं अंतो सह-स्सस्स । परिहारविसुद्धियस्स जहन्नेणं दोत्ति, उक्कोसेणं सत्त । सुहुमसंपरागस्स जहन्नेणं दोत्ति, उक्कोसेणं नव । अहक्खायस्स जहन्नेणं दोत्ति, उक्कोसेणं पंच ।
 ७८. [प्र०] सामाइयसंजए णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं देसूप-एहिं नवहिं वासेहिं ऊणिया पुव्वकोडी । एवं छेदोवट्ठावणिए वि । परिहारविसुद्धिए जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं देसू-णएहिं एकूणतीसाए वासेहिं ऊणिया पुव्वकोडी । सुहुमसंपराए जहा नियंटे । अहक्खाए जहा सामाइयसंजए ।
 ७९. [प्र०] सामाइयसंजया णं भंते ! कालओ केवच्चिरं होंति ? [उ०] गोयमा ! सव्वद्धं ।
 ८०. [प्र०] छेदोवट्ठावणिएसु पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं अट्ठाइज्जाइं चाससयाइं, उक्कोसेणं पन्नासं सागरोवम-कोडिसयसहस्साइं ।

७४. [प्र०] सूक्ष्मसंपराय संबंधे पृच्छा [उ०] हे गौतम ! तेने जघन्य 'एक अने उत्कृष्ट चार आकर्ष कहा छे.
 ७५. [प्र०] यथाख्यात सवन्धे पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेने जघन्य एक अने उत्कृष्ट वे आकर्ष होय छे.
 ७६. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक सयतने अनेक भवमां ग्रहण करी शकाय तेवा केटला आकर्ष कहा छे ? [उ०] हे गौतम !
 -इत्यादि वधुं बकुशनी पेठे (उ० ६ सू० १३४) जाणवुं.
 ७७. [प्र०] छेदोपस्थापनीय संयत संवन्धे पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेने जघन्य वे अने उत्कृष्ट नवसो उपर अने हजारनी अंदर आकर्षो कहा छे. परिहारविशुद्धिकने जघन्य वे अने उत्कृष्ट सात, सूक्ष्मसंपरायने जघन्य वे अने उत्कृष्ट नव तथा यथाख्यातने जघन्य वे अने उत्कृष्ट पाच आकर्षो कहा छे.
 ७८. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक सयत काळथी क्या सुधी होय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य एक समय अने उत्कृष्ट काइक ऊणा-नव वरस न्यून पूर्वकोटि वर्ष सुधी होय. ए प्रमाणे छेदोपस्थापनीय संबंधे पण समजवुं.—परिहारविशुद्धिक जघन्य एक समय अने उत्कृष्ट काइक न्यून ओगणत्रीश वर्ष ऊणी पूर्वकोटि वर्ष सुधी होय. सूक्ष्मसंपराय संबंधे निर्णयनी पेठे (उ० ६ सू० १३९) जाणवुं. यथाख्यातने सामायिक संयतनी जेम समजवुं.
 ७९. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक संयतो काळथी क्यां सुधी होय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ सर्व काळे होय.
 ८०. [प्र०] हे भगवन् ! छेदोपस्थापनीय संयतो काळथी क्यां सुधी होय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ जघन्य अढीसो वर्ष सुधी अने उत्कृष्ट पचासलाख क्रोड सागरोपम सुधी होय.

सूक्ष्मसंपरायसंय-
तने आकर्ष.
यथाख्यातसयतने
आकर्ष.
सामायिक सयतने
अनेक भवमां
आकर्ष.

२९ काळद्वार-

सामायिकादि संय-
तोनी काळ

७४ * सूक्ष्मसंपराय सयतने एक भवमा वे वार उपशमश्रेणिनो सभव होवाथी अने प्रत्येक श्रेणिमा सक्कियमान अने विशुध्यमान एम वे प्रकारना सूक्ष्म-संपराय होवाथी चार वार सूक्ष्मसंपरायपणानी प्राप्ति थाय छे.

७५ † यथाख्यात सयतने वे वार उपशमश्रेणिनो सभव होवाथी वे आकर्ष होय छे

७७ ‡ परिहारविशुद्धिक सयतने एक भवमा उत्कृष्ट त्रण वार परिहारविशुद्धिचारित्र प्राप्त थाय छे अने ते तेने त्रण भवमा होय छे एक भवमा त्रण वार, वीजा भवमा वे वार अने त्रीजा भवमा वे वार-इत्यादि विकल्पथी तेने अनेक भवमा सात आकर्ष थाय छे सूक्ष्मसंपरायने एक भवमा चार आकर्ष होय छे अने त्रण भवमा सूक्ष्मसंपराय होय छे तेने एक भवमा चार, वीजा भवमा चार अने एक भवमा एक-एम अनेक भवमा नव आकर्ष थाय छे. यथाख्यात सयतने एक भवमा वे आकर्ष, वीजा भवमा वे अने त्रीजा भवमा एक-एम त्रण भवमा वधा मळीने पाच आकर्ष होय छे.

७८ ¶ सामायिक चारित्रनी प्राप्तिना समय पछी तुरत ज मरण थाय ते अपेक्षाए सामायिक सयतनो काळ जघन्य एक समय छे, अने उत्कृष्ट नव वर्ष न्यून पूर्वकोटीवर्ष छे ते गर्भसमयथी आरभीने तेनी गणना जाणवी जन्मदिवसथी गणना करीए तो आठ वरस न्यून पूर्वकोटी वर्ष काळ होय परिहारविशुद्धिकने जघन्य एक समय मरणनी अपेक्षाए होय अने उत्कृष्ट काइक न्यून ओगणत्रीश वरस ओछी पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण होय पूर्वकोटि वर्षना आयुपवाळो क्रोड मनुष्य कइक न्यून नव वरसनी उमरे दीक्षा ग्रहण करे, तेने वीश वरसनो दीक्षापर्याय थाय ल्यारे दृष्टिवादाना अध्ययननी अनुज्ञा मळे, ल्यार पछी ते परिहारविशुद्धिचारित्र स्वीकारे अने तेनुं अठार मासनुं प्रमाण छटा अविच्छिन्न तेज परिणामे जीवनपर्यन्त पाळे-एम ओगणत्रीश वर्ष न्यून पूर्वकोटि वर्ष पर्यन्त परिहारविशुद्धिक सयत रहे. यथाख्यात सयतने उपशमावस्थामा मरणनी अपेक्षाए जघन्यथी एक समय होय अने स्नातने यथाख्यात सयतनी अपेक्षाए दैश न्यून पूर्वकोटि वर्ष होय.

७९ § उत्सर्पिणीमां आदि तीर्थकरना तीर्थ सुधी छेदोपस्थापनीय चारित्र होय अने तेनुं तीर्थ अढीसो वरस सुधी होय, तेथी छेदोपस्थापनीय सयतनो काळ जघन्यथी अढीसो वरस होय. अवसर्पिणी काळमा प्रथम तीर्थकरना तीर्थ सुधी छेदोपस्थापनीय होय अने ते पचासकोड लाख सागरोपम सुधी होय, माटे उत्कृष्टथी तेठलो काळ उन्नत्य सयतनो होय छे

८१. [प्र०] परिहारविमुद्धीएसु-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं देसूणां दो वाससयारं, उक्कोसेणं देसूणाओ दो पुय्यकोडाओ ।

८२. [प्र०] सुद्धमसंपरागसंजया णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं । अहम्व्वायसं-
जया जहा सामाज्यसंजया (२९) ।

८३. [प्र०] सामाज्यसंजयस्स णं भंते ! केवतियं कालं अंतरं होइ ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं जहा पुलागस्स । एवं
जाव-अहम्व्वायसंजयस्स ।

८४. [प्र०] सामाज्यसंजयाणं भंते ! पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नत्थि अंतरं ।

८५. [प्र०] छेदोचट्टावणिय-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं तेवाट्ठि वाससहस्साट्ठं, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमको-
डाकोडीओ ।

८६. [प्र०] परिहारविमुद्धियस्स पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं चउरासीट्ठं वाससहस्साट्ठं, उक्कोसेणं अट्टारस
सागरोवमकोडाकोडीओ । सुद्धमसंपरायाणं जहा नियंटाणं । अहम्व्वायाणं जहा सामाज्यसंजयाणं (३०) ।

८७. [प्र०] सामाज्यसंजयस्स णं भंते ! कति समुग्वाया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! छ समुग्वाया पन्नत्ता-जहा कसा-
यकुसीलस्स । एवं छेदोचट्टावणियस्स वि । परिहारविमुद्धियस्स जहा पुलागस्स । सुद्धमसंपरागस्स जहा नियंउस्स ।
अहम्व्वायस्स जहा सिणायस्स (३१) ।

८१. [प्र०] हे भगवन् ! परिहारविशुद्धिक संयतो काळधी क्यासुवी होय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ जवन्य कांडक जगा
वसो वर्ष सुधी अने उच्छट्ट काडक न्यून वे पूर्वकोटि वर्ष सुधी होय.

८२. [प्र०] हे भगवन् ! मूम्मसंपराय संयतो संबंधे पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! जवन्य एक समय अने उच्छट्ट अंतर्मुद्धं सुधी
होय. यथास्यात संयतो सामायिक संयतोनी पेटे जाणवा.

८३. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक संयतने केटला काळहुं अतर होय ? [उ०] हे गौतम ! जवन्य [एक समय]-इत्यादि
वहुं पुलाकनी पेटे (उ० ६ मू० १४५) जाणहुं ए रीते यावत्-यथास्यात संयत सुधी समजहुं.

८४. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक संयतोने केटला काळहुं अंतर होय ? [उ०] हे गौतम ! तेओने अंतर नथी.

८५. [प्र०] छेदोपस्थापनीय संयतो संबंधे पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओने जवन्य त्रेसठ हजार वर्ष अने उच्छट्ट अटार
कोडाकोडि सागरोपमहुं अतर होय छे.

८६. [प्र०] परिहारविशुद्धिक संयतो संबंधे पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओने जवन्य चोरागी हजार वर्ष अने उच्छट्ट अटार कोडाकोडि
सागरोपमहुं अंतर होय. मूम्मसंपरायो निप्रथोनी पेटे (उ० ६ सू० १४७) जाणवा. अने यथास्यात संयतो सामायिक संयतोनी जेम समजवा.

८७ [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक संयतने केटला समुद्वातो क्या छे ? [उ०] हे गौतम ! तेने छ समुद्वातो कया छे. ते
कपायकुगोळनी पेटे (उ० ६ सू० १५०) जाणवा. ए प्रमाणे छेदोपस्थापनीय संयत संबंधे पण समजहुं. पुलाकनी पेटे (उ० ६ सू० १४८)
परिहारविशुद्धिकने जाणहुं. निप्रथोनी पेटे (उ० ६ सू० १५१) मूम्मसंपराय संबंधे जाणहुं, अने न्यातकनी पेटे (उ० ६ सू० १५२)
यथास्यात संयत संबंधे पण समजहुं.

८१ * परिहारविशुद्धिक संयतोनी काळ काटक (अट्टावन वरस) न्यून वसो वर्ष होय छे जेम के उत्सर्पिणीमा प्रथम तीर्थकरनी पासे सो वरसना
आरुपवाळो मनुष्य परिहारविशुद्धि चारित्र ग्रहण करे अने तेना जीविता अन्ते तेनी पासे सो वरसना वायुपवाळो बीजो जेइ मनुष्य परिहारविशुद्धि चारित्र
स्वीकार, तार पछी तेनी पासे बीजो जेइ चारित्र न ग्रहण करी शके एम वसो वर्ष याय परन्तु प्रलेखने ओगणत्रोथ वरस गया वाट चारित्रप्रतिपत्ति
होय एट्ठे अट्टावन वरस न्यून वसो वरस जवन्य काळ होय चूर्णिकरनी व्याख्या पण एमज छे, परन्तु ते अवसर्पिणीना अन्तिम जिननी अपेक्षाए छे.
उच्छट्ट काळ देगन्यून वे पूर्वकोटि वर्ष छे जेमके अवसर्पिणीमां प्रथम तीर्थकरनी पासे पूर्वकोटि वायुपवाळो मनुष्य परिहारविशुद्धि चारित्र ग्रहण करे अने
तेना जीविता अन्ते तेनी पासे तेदवान वायुपवाळो परिहारविशुद्धिचारित्र छे. तेमावी प्रलेखना ओगणत्रोथ वरस वाट करता देग (अट्टावन वर्ष)
न्यून वे पूर्वकोटि वर्ष होय.

८३. † अवसर्पिणीमां दुष्णमा काळसुधी छेदोपस्थापनीय चारित्र होय छे अने तार पछी एकवीस हजार वर्ष प्रमाणा छट्टा आरामा अने उत्सर्पिणीना
तेदला प्रमाणवाळा पहिल्य अने बीजा आरामा छेदोपस्थापनीयचारित्रनो अभाव होय छे. एम त्रेमठ हजार वरस प्रमाण छेदोपस्थापनीय चयतीहुं जवन्य
अन्तर अने उच्छट्ट अटार कोडाकोडी सागरोपमहुं अन्तर होय छे. ते आ प्रमाणे-उत्सर्पिणीना चोवीसमा जिनना तीर्थसुधी छेदोपस्थापनीय
चारित्र होय छे तार पछी वे कोडाकोडी प्रमाण चोथा आरामां, त्रण कोडाकोडी प्रमाण पाचमा आरामा अने चार कोडाकोडी प्रमाण छट्टा आरामां तथा अव-
सर्पिणीना अरुन्ते चार, त्रण अने वे कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण पहिल्य, बीजा अने त्रीजा आरामा छेदोपस्थापनीय चारित्र होतुं नथी, पण तार पछी अव-
सर्पिणीना चोथा आरामां प्रथम जिनना तीर्थमा छेदोपस्थापनीय चारित्र होय छे, माटे उपर कहेहुं छेदोपस्थापनीय संयतोहुं उच्छट्ट अंतर छे. अहीं थोडो
काळ थोडो रहे छे अने जवन्य अतरमा थोडो काळ बंधे छे ते अल होवावी विवक्षित नथी.

८९ ‡ अवसर्पिणीना पांचनो अने छट्टो आरो तथा उत्सर्पिणीनो पहिले अने बीजो आरो प्रलेख एकवीस हजार वर्ष प्रमाणना छे अने तेमां परिहारविशु-
द्धि चारित्र होतुं नथी, तेथी चोरागी हजार वर्ष परिहारविशुद्धिक संयतोहुं जवन्य अन्तर छे. अहीं छेत्र तीर्थकरनी पछी पांचमा आरामां परिहारविशुद्धिक
चारित्रनो कळ, अने उत्सर्पिणीना त्रीजा आरामां परिहारविशुद्धिचारित्रनो स्वीकार कर्ना पूर्वनो काळ अन्य होवावी तेनी विवक्षा करी नथी. तथा उच्छट्ट
अन्तर अटार कोडाकोडी सागरोपमहुं छे ते छेदोपस्थापनीय चारित्रनी पेटे जाणहुं —टीका.

३० अन्तरदार-
सामानिकारि सप-
रतुं अन्तर.
सामानिकारि सप-
तेतुं अन्तर

३१ उच्छट्टाव-

८८. [प्र०] सामाह्यसंज्ञए णं भंते ! लोगस्स किं संखेज्जइभागे होज्जा, असंखेज्जइभागे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो संखेज्जइ-जहा पुलाए । एवं जाव-सुहुमसंपराए । अहक्खायसंज्ञए जहा सिणाए ३२ ।

८९. [प्र०] सामाह्यसंज्ञए णं भंते ! लोगस्स किं संखेज्जइभागं फुसइ० ? [उ०] जहेव होज्जा तहेव फुसइ (३३) ।

९०. [प्र०] सामाह्यसंज्ञए णं भंते ! कयरंमि भावे होज्जा ? [उ०] गोयमा ! खओवसमिए भावे होज्जा । एवं जाव-सुहुमसंपराए ।

९१. [प्र०] अहक्खायसंज्ञए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! उवसमिए वा खइए वा भावे होज्जा (३४) ।

९२. [प्र०] सामाह्यसंज्ञया णं भंते ! एगसमएणं केवतिया होज्जा ? [उ०] गोयमा ! पडिवज्जमाणए य पडुच्च जहा कसायकुसीला तहेव निरवसेसं ।

९३. [प्र०] छेदोवद्वावणिया-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! पडिवज्जमाणए पडुच्च सिय अत्थि सिय नत्थि । जइ अत्थि जहन्नेणं एक्को वा दो वा तित्थि वा, उक्कोसेणं सयपुहुत्तं । पुव्वपडिवन्नए पडुच्च सिय अत्थि सिय नत्थि; जइ अत्थि जहन्नेणं कोडिसयपुहुत्तं, उक्कोसेण वि कोडिसयपुहुत्तं । परिहारविसुद्धिया जहा पुलागा । सुहुमसंपराया जहा नियंटा ।

९४. [प्र०] अहक्खायसंज्ञया णं पुच्छा । [उ०] गोयमा ! पडिवज्जमाणए पडुच्च सिय अत्थि सिय नत्थि । जइ अत्थि जहन्नेणं एक्को वा दो वा तित्थि वा, उक्कोसेणं वावट्टसयं-अट्टत्तरसयं खवगाणं, चउप्पन्नं उवसामगाणं । पुव्वपडिवन्नए पडुच्च जहन्नेणं कोडिपुहुत्तं, उक्कोसेण वि कोडिपुहुत्तं ।

९५. [प्र०] एएसि णं भंते ! सामाह्य-छेओवद्वावणिय-परिहारविसुद्धिय-सुहुमसंपराय-अहक्खायसंज्ञयाणं कयरं

८८. [प्र०] हे भगवन् ! श्रुं सामायिक संयत लोकना संख्यातमा भागे होय के असंख्यातमा भागे होय ? [उ०] हे गौतम ! लोकना संख्यातमा भागे न होय—इत्यादि पुलाकनी पेठे (उ० ६ सू० १५४) जाणवुं. ए रीते यावत्—सूक्ष्मसंपराय सुधी जाणवुं. तथा स्नातकनी पेठे (उ० ६ सू० १५४) यथाख्यात संयतने विपे समजुं.

३२ क्षेत्रद्वार-

८९. [प्र०] हे भगवन् ! श्रुं सामायिक संयत लोकना संख्यातमा भागने स्पर्शे ? [उ०] हे गौतम ! जेटला भागमा होय तेटला भागनो स्पर्श करे, अर्थात् जेटला क्षेत्रनी अवगाहना कही तेटला क्षेत्रनी स्पर्शना जाणवी.

३३ स्पर्शनाद्वार-

९०. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक संयत कया भावमां होय ? [उ०] हे गौतम ! क्षायोपशमिक भावमां होय. ए रीते यावत्—सूक्ष्मसंपराय सुधी जाणवुं.

३४ भावद्वार-

९१. [प्र०] हे भगवन् ! यथाख्यात संयत कया भावमां होय ? [उ०] हे गौतम ! औपशमिक के क्षायिक भावमां होय.

९२. [प्र०] हे भगवन् ! सामायिक संयतो एक समये केटला होय ? [उ०] हे गौतम ! प्रतिपद्यमान (वर्तमान समये सामायिक-संयतपणाने प्राप्त यथा) सामायिक संयतोनी अपेक्षाए—इत्यादि वधुं कपायकुशीलनी पेठे (उ० ६ सू० १६०) जाणवुं.

३५ परिमाणद्वार-

९३. [प्र०] हे भगवन् ! छेदोपस्थापनीय संयतो एक समये केटला होय ? [उ०] हे गौतम ! प्रतिपद्यमानने आश्रयी छेदोपस्थापनीय संयतो कदाच होय अने कदाच न होय. जो होय तो जघन्य एक, वे के त्रण अने उत्कृष्ट वसोथी नवसो सुधी होय. पूर्वप्रतिपन्नने आश्रयी—जेओ पूर्वे छेदोपस्थापनीय चारित्रने प्राप्त थयेला छे तेओनी अपेक्षाए—कदाच होय अने न होय. जो होय तो जघन्य अने उत्कृष्ट वसोथी नवसो क्रोड सुधी होय. परिहारविशुद्धिको पुलाकोनी पेठे (उ० ६ सू० १५८) अने सूक्ष्मसंपरायो निर्ग्रथोनी पेठे (उ० ६ सू० १६१) जाणवा.

९४. [प्र०] हे भगवन् ! यथाख्यात संयतो एक समये केटला होय ? [उ०] हे गौतम ! प्रतिपद्यमान यथाख्यात संयतोनी अपेक्षाए कदाच होय अने कदाच न होय. जो होय तो जघन्य एक, वे अने त्रण तथा उत्कृष्ट एकसो वासठ होय. तेमा एकसो आठ क्षपको अने चोपन उपशमको होय. पूर्वप्रतिपन्नने आश्रयी जघन्य अने उत्कृष्ट वे क्रोडथी नव क्रोड सुधी होय.

९५ [प्र०] हे भगवन् ! ए पूर्वोक्त सामायिक संयत, छेदोपस्थापनीय संयत, परिहारविशुद्धिक संयत, सूक्ष्मसंपराय संयत अने यथाख्यात संयतमा कया कोनाथी यावत्—विशेषाधिक छे ? [उ०] हे गौतम ! सूक्ष्मसंपरायसंयतो सौथी थोडा छे, तेथी परिहारविशु-

३६ अल्पपुत्त्व-

९३ ^४ छेदोपस्थापनीय संयतनु उत्कृष्ट परिमाण प्रथम जिनना तीर्थने आश्रयी सभवे छे पण जघन्य परिमाण चरोवर समजातु नथी. कारण के पाचमा आराने अन्ते भरतादि दश क्षेत्रोमा प्रत्येक क्षेत्रे बन्ने संयतो होवाथी जघन्य वीश छेदोपस्थापनीय संयत होय कोइ आचार्यो एम कहे छे के जघन्य परिमाण पण प्रथम जिनना तीर्थने आश्रयी जाणवु जघन्य कोटिशतपृथक्त्व अल्प अने उत्कृष्ट कोटिशतपृथक्त्व अधिक जाणवु-टीका.

९५ ^१ सौथी थोडा सूक्ष्मसंपराय संयतो छे, कारण के तेनो काल थोडो छे अने ते निर्ग्रन्थना तुल्य होवाथी एक समये शतपृथक्त्व-वसोथी नवसो सुधी होय छे तेथी परिहारविशुद्धिक संयतो संख्यातगुणा छे, कारण के तेनो काल तेथी अधिक छे, अने तेओ पुलाकनी पेठे सहस्रपृथक्त्व होय छे तेथी यथाख्यात संयतो संख्यातगुणा छे, कारण के तेनु प्रमाण कोटिपृथक्त्व छे. तेथी छेदोपस्थापनीय संयतो कोटिशतपृथक्त्व प्रमाण होवाथी संख्यातगुणा छे. तेथी सामायिक संयतो कपायकुशीलना तुल्य कोटीसहस्रपृथक्त्व प्रमाण होवाथी संख्यातगुणा छे.-टीका.

કચરે-જાવ-વિસેસાહિયા વા ? [૩૦] ગોયમા ! સદ્વત્યોવા સુહુમસંપરાયસંજયા, પરિહારવિસુદ્ધિયસંજયા સંશેજગુણા, અહમ્કવાયસંજયા સંશેજગુણા, છેઓવદ્વાવણિયસંજયા સંશેજગુણા, સામાદ્યસંજયા સંશેજગુણા (૩૬) ।

૧૬. પંડિસેવણ દોસાડડલૈયણા ય ઔલોયણારિહે ચેવ । તત્તો સામૌયારી પાયચ્છિત્તે તેંચે ચેવ ।

૧૭. [પ્ર૦] કહ્વિહા જં મંતે ! પંડિસેવણા પત્ત્તા ? [૩૦] ગોયમા ! દસવિહા પંડિસેવણા પત્ત્તા, તં જહા-
દૃપ્પર્પમાદડળામોગે ઔડરે ઔવતીત્તિ ય । ૬સંકિત્તે સંહસકારે મ્યર્પ્પઓસા ય ૧વીમંસા ।

૧૮. દસ આલોયણાદોસા પત્ત્તા, તંજહા-

“શ્રાકંપદ્ધતા ઔણુમાણદ્ધતા જં ૩દિદ્ધં વૌયરં ચ સુહુમં વા । ૬ત્તં સંદાહલયં વંહુજણ ઔદ્ધત્તં તંસ્સેવી ।

૧૯. દસહિં ઠાળેહિં સંપન્ને અણગારે અરિહત્તિ અત્તદોસં આલોદત્તપ, તંજહા-જાતિસંપન્ને, કુલસંપન્ને, ૩વિણયસંપન્ને, ૪પાણસંપન્ને, ૫દંસણસંપન્ને, ૬ચરિત્તસંપન્ને, ૭લંતે, ૮દંતે, ૯અમાયી, ૧૦અપ્પચ્છાણુતાવી ।

દ્વિક સંયતો સહ્યાતગુણા છે, તેથી યયાહ્યાત સંયતો સંહ્યાતગુણા છે, તેથી છેદોપસ્થાપનીય સંયતો સંહ્યાતગુણા છે અને તેથી સામાયિક સંયતો સંહ્યાતગુણા છે.

૧૬. ૧ પ્રતિસેવના, ૨ આલોચનાના દોષો, ૩ દોષોની આલોચના, ૪ આલોચના આપવા યોગ્ય ગુરુ, ૫ સામાચારી, ૬ પ્રાયશ્ચિત્ત અને ૭ તપ-પ્ર સાત વિષયો સંબન્ધે કહેવાનું છે.

પ્રતિસેવનાના પ્રકાર.

૧૭. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! પ્રતિસેવના કેટલા પ્રકારની કહી છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! દસ પ્રકારની કહી છે. તે આ પ્રમાણે—
૧ *દર્પપ્રતિસેવના-અહંકારથી થતી પ્રતિસેવના-સંયમની વિરાધના, ૨ પ્રમાદથી થતી પ્રતિસેવના, ૩ અનામોગથી થતી પ્રતિસેવના, ૪ આતુરપણાથી થતી પ્રતિસેવના, ૫ આપદાથી થતી પ્રતિસેવના, ૬ સંકીર્ણતા-સંકલ્પાશયી થતી પ્રતિસેવના, ૭ સહસાકાર-આકસ્મિક ક્રિયાથી થતી પ્રતિસેવના, ૮ મયથી થતી પ્રતિસેવના, ૯ પ્રદ્વેપ-ક્રોધ વગેરે કપાયોથી થતી પ્રતિસેવના અને ૧૦ વિમર્શ-શૈક્ષકાદિની પરીક્ષા કરવાથી થતી પ્રતિસેવના-પ્ર રીતે પ્રતિસેવનાના દસ પ્રકાર છે.

૧૮. આલોચનાના દસ દોષો કહ્યા છે, તે આ પ્રમાણે—

૧ પ્રસન્ન થયેલા ગુરુ થોહું પ્રાયશ્ચિત્ત આપશે માટે તેને સેવાદિથી પ્રસન્ન કરી તેની પાસે દોષની આલોચના કરવી, ૨ તદ્દન નાનો અપરાધ જણાવવાથી આચાર્ય થોહું પ્રાયશ્ચિત્ત આપશે એમ અનુમાન કરી પોતાના અપરાધનું સ્વતઃ આલોચન કરવું, ૩ જે અપરાધ આચાર્યાદિકે જોયો હોય તેનું જ આલોચન કરવું, ૪ માત્ર મોટા અતિચારોનું જ આલોચન કરવું, ૫ જે સૂક્ષ્મ અતિચારોનું આલોચન કરે તે સ્થૂલ અતિચારોનું આલોચન કેમ ન કરે એવો આચાર્યનો વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરવા સૂક્ષ્મ અતિચારોનું જ આલોચન કરવું, ૬ ઘણી શરમ આવવાને લીધે પ્રચ્છન્ન (કોહ ન સામઝે તેમ) આલોચન કરવું, ૭ વીજાને સંમળાવવા સૂઝ જોરથી બોલીને આલોચન કરવું, ૮ એકજ અતિચારની ઘણા ગુરુ પાસે આલોચના કરવી, ૯ અગીતાર્થનો પાસે આલોચના કરવી, અને ૧૦ જે દોષનું આલોચન કરવાનું છે તે દોષને સેવનાર આચાર્ય પાસે તેનું આલોચન કરવું.

આલોચનાના દસ દોષ

આલોચના કરવા યોગ્ય સાધુ

૧૯. દસ ગુણોથી યુક્ત અનગાર પોતાના દોષની આલોચના કરવાને યોગ્ય છે—૧ ઉત્તમ જાતિવાલો, ૨ ઉત્તમ કુલવાલો, ૩ વિનયવાન, ૪ જ્ઞાનવાન, ૫ દર્શનસપન્ન-શ્રદ્ધાલુ, ૬ ચારિત્રસંપન્ન, ૭ ક્ષમાવાલો, ૮ દાન્ત-ઈન્દ્રિયોને વશ રાખનાર, ૯ અમાયી-કપટરહિત, સરઠ્ઠ અને ૧૦ અપશ્ચાત્તાપી-આલોચના લીધા પછી પસ્તાવો નહીં કરનાર.

૧૭. * દર્પાદિ દશ હેતુથી પ્રતિસેવના-સંયમવિરાધના થાય છે. તે દશ હેતુ આ પ્રમાણે—૧ દર્પ-અભિમાન, ૨ મલપાન, વિષય, કપાય, નિદ્રા અને વિકારાદિ પ્રમાદ, ૩ અનામોગ-અજ્ઞાન, ૪ આતુર-શુષ્ક, તરસની પીડાથી વ્યાકુલપણ, ૫ આપદના ચાર પ્રકાર છે—(૧) દ્રવ્યાપત્-પ્રાસુકાદિ દ્રવ્યની અપ્રાપ્તિ, (૨) ક્ષેત્રાપત્-અટવીમા આવી પડવું, (૩) કાલાપત્-હુમ્કાલપ્રાપ્તિ અને (૪) ભાષાપત્-ગ્લાનપણ ૬ સંકીર્ણ-સ્વપક્ષ અને પરપક્ષથી થતી ક્ષેત્રની સ્વદાશ, ૭ શક્તિ-આવાકર્ષાદિ દોષની શંકાવાલો આદ્યાર, અથવા ‘સિંતિણ’ એવો નિશીથનો પાઠ સ્વીકારીએ તો ‘આહારાદિની અપ્રાપ્તિમા ચેદપૂર્વેક વચન’ એવો અર્થ થાય છે, ૮ સહસાકાર-આકસ્મિક ક્રિયા કરવી જેમકે પૂર્વે જોવા સિવાય પગ મૂકી પછી જુએ તો તે પગને પાછો વાળી ન શકે, ૯ મય-પ્રદ્વેપ-સિદ્ધાદિનો મય અને ક્રોધાદિ, ૧૦ વિમર્શ-શૈક્ષકાદિની પરીક્ષા એ પ્રમાણે દશ પ્રકારના કારણથી દશ પ્રતિસેવના થાય છે-ટીકા

૧૯ † આલોચનાને યોગ્ય સાધુમા દશ ગુણ હોવા જોઈએ (૧) જાતિસંપન્ન પ્રાય અઠ્ઠલ્ય ન કરે, અને કર્યું હોય તો તેની સમ્યક્ આલોચના કરે. (૨) કુલસપન્ન અગીઠત પ્રાયશ્ચિત્તને વરોવર કરે. (૩) વિનયસપન્ન વદનાદિ આલોચના સામાચારી કરે (૪) જ્ઞાનસંપન્ન કૃત્યાકૃત્યના વિભાગને જાણે. (૫) દર્શનસપન્ન પ્રાયશ્ચિત્તથી થતી શુદ્ધિનો શ્રદ્ધા કરે. (૬) ચારિત્રસપન્ન પ્રાયશ્ચિત્તનો સ્વીકાર કરે. (૭) દાન્ત-ગુરુએ ઠપકો આપ્યો હોય તો તે ગુસ્તે ન થાય (૮) દાન્ત-ઈન્દ્રિયોનું દમન કરેછે હોવાથી શુદ્ધિ ધારણ કરે (૯) અમાયી અપરાધને દુષ્ટાપ્યા સિવાય આલોચના કરે. અને ૧૦ અપશ્ચાત્તાપી-આલોચના લીધા પછી તેનો પશ્ચાત્તાપ ન કરે.

१००. अट्टहिं ठाणेहिं संपन्ने अणगारे अरिहति आलोच्यं पडिच्छित्तप, तंजहा—आयारवं, आहारवं, वैवहारवं, उँची-
लप, पँकुवप, अँपरिस्सावी, निँजवप, अँवायदंसी ।

१०१. दसविहा सामायारी पन्नत्ता, तंजहा—
ईच्छा मिँच्छा तँहकारे आँवस्सिया य 'निँसीहिया ।
आँपुच्छणा य पँडिपुच्छा 'छँदणा य 'निमंतणा ।
उँवसंपया य काले सामायारी भवे दसहा ।

१०२. दसविहे पायच्छित्ते पन्नत्ते, तंजहा—आलोच्यणारिहे, पँडिकमणारिहे, तँदुभयारिहे, 'विवेगारिहे, 'विउस-
गारिहे, तँवारिहे, 'छेदारिहे, मूलारिहे, अँणवट्टप्पारिहे, पँरंचियारिहे ।

१०३. दुविहे तवे पन्नत्ते, तंजहा—वाहिरण य अँभिंतरण य ।

१००. आठ गुणोथी युक्त साधु आलोचना आपवाने योग्य छे—१ आचारवान्—ज्ञानादि आचारवाळो, २ आधारवान्—
जणावेल अतिचारोने मनमां धारण करनार, ३ व्यवहारवान्—आगम-श्रुतादि पांच प्रकारना व्यवहारवाळो, ४ अपत्रीडक—शरमथी पोताना
अतिचारोने छुपावता शिष्यने मीठा वचनोथी समजावी शरमनो त्याग करावी सारी रीते आलोचना करावनार, ५ प्रकुर्वक—आलोचित
अपराधनुं प्रायश्चित्त आपीने अतिचारोनी शुद्धि कराववाने समर्थ, ६ अपरिस्नावी—जणावेल अतिचारोने वीजाने नहीं संभळावनार, ७
निर्यापक—असमर्थ एवा प्रायश्चित्त लेनार शिष्यने थोडे थोडे प्रायश्चित्त आपीने निर्वाह करनार अने ८ अपायदर्शी—आलोचना नहीं
लेत्रामा परलोकनो भय देखाडनार.

आलोचना आप-
नारना गुण.

१०१. सामाचारी दस प्रकारनी कही छे—^१ "इच्छाकार, २ मिथ्याकार, ३ तथाकार, ४ आवश्यकी, ५ नैपेधिकी, ६ आपु-
च्छना, ७ प्रतिपृच्छना, ८ छंदना, ९ निमंत्रणा अने १० उपसपदा—ए रीते काले आचरवा योग्य दस प्रकारनी सामाचारी छे."

सामाचारीना
दस प्रकार.

१०२. प्रायश्चित्तना दस प्रकार कहा छे—१ आलोचनाने योग्य, २ प्रतिक्रमणने योग्य, ३ आलोचना अने प्रतिक्रमण
वन्नेने योग्य, ४ विवेक—अशुद्ध भक्तादिना त्यागने योग्य, ५ कायोत्सर्गने योग्य, ६ तपने योग्य, ७ दीक्षापर्यायना छेदने योग्य, ८ मूलने
योग्य—फरीथी महाव्रत लेवा योग्य, ९ अनवस्थाप्यार्ह—तप करीने फरी महाव्रत लेवा योग्य, १० पाराचिक—गच्छथी वहार करवा योग्य,
'जुहुं लिंग धारण करवा योग्य.

प्रायश्चित्तना
दस प्रकार.

१०३. तपना वे प्रकार छे—बाह्य अने अभ्यन्तर.

तपना प्रकार.

१०१ * (१) साधु अन्य साधुनी कोइपण कार्यमाटे अभ्ययना करे अने ते साधु तेनुं इच्छित कार्य करे तो ते प्रार्थना करनार अने कार्य करनार वन्नेए
वलात्कार न थाय माटे 'इच्छाकार' कहेवो जोइए एटले मारं कार्य तमारी इच्छा होय तो करो, अथवा आ कार्य तमे इच्छो तो हुं करं (२) मिच्छाकार—
सयमयोगमा तत्पर साधुए विपरीत आचरण करुं होय तो ए मारु दुष्कृत मिथ्या थाओ—एम समजी 'मिच्छाकार' कहेवो जोइए (३) तथाकार—सूत्रादि-
विषयक प्रश्न करता गुरु उत्तर आपे ल्यारे 'तमे कहो छो ते बरोबर छे—ए अर्थनो सूचक तथाकार शब्द कहेवो जोइए (४) आवश्यिका—उपाश्रयथी आवश्यक
कार्य निमित्ते वहार गमन करता साधुए 'आवस्सिया' कहेवी (५) नैपेधिकी—वहारथी पाळा उपाश्रयादिमा प्रवेश करता 'निसीहीया—नैपेधिकी कहेवी (६)
आपुच्छना—अगीष्ट कार्यमा प्रवृत्ति करता शिष्ये गुरुने पूछु के, हे भगवन्! आ कार्य कर ? (७) प्रतिपृच्छना—गुरुए पूछे निषिद्ध करेल कार्यमां प्रयोजनवसथी
प्रवृत्ति करवी पडे तो फरी पूछु के आपे पूछे आ कार्यनी ना कही छे, पण मारे ते कार्यनुं प्रयोजन छे, जो आप फरमावो तो करं (८) छंदना—पूछे
लावेला आहारादिबडे बाकीना माधुने आमन्त्रण करुं के आ आहारनो उपयोग होय तो आप ग्रहण करो. (९) निमन्त्रणा—आहार लाववा माटे साधुवोने
निमन्त्रण करुं के तमारा माटे आहारादि लावु ? (१०) उपसपदा—ज्ञानादि निमित्ते खगच्छादिनो त्याग करी विशिष्टश्रुतादियुक्त गुरुनो आश्रय करवो

१०२ † (१) आलोचना—सयममा लागेला दोपने गुरुसमक्ष वचनबडे प्रकट करवा ते आलोचना, जे प्रायश्चित्त आलोचनामात्रथी शुद्ध थाय ते
आलोचनाने योग्य होवाथी कारणने विषे कार्यनो उपचार करवाथी ते आलोचनाप्रायश्चित्त कहेवाय छे (२) प्रतिक्रमण—दोपथी पाळुं जहुं, अने फरी नहि
करवा रूपे मिथ्यादुष्कृत आपपु, तेने योग्य प्रायश्चित्त पण प्रतिक्रमण कहेवाय छे जे प्रायश्चित्त मिथ्यादुष्कृत मात्रथी शुद्ध थाय, पण गुरुसमक्ष प्रकट करवानी
जरूर न होय ते मात्र प्रतिक्रमणने योग्य होवाथी प्रतिक्रमण कहेवाय छे. (३) मिश्र—जे प्रायश्चित्त आलोचना अने प्रतिक्रमण उभयथी शुद्ध थाय ते उभयने
योग्य होवाथी मिश्रप्रायश्चित्त कहेवाय छे. (४) विवेक—जे प्रायश्चित्त आध्यात्मिकादि आहारनो विवेक—त्याग करवाथी शुद्ध थाय ते विवेकने योग्य होवाथी
विवेकप्रायश्चित्त कहेवाय छे (५) व्युत्सर्ग—कायचेष्टानो रोध करी ध्येय वस्तुमा उपयोग राखवाथी जे दोष शुद्ध थाय ते व्युत्सर्गने योग्य होवाथी व्युत्सर्ग-
प्रायश्चित्त (६) तप—जे प्रायश्चित्त निर्विकृतीकादि तपथी शुद्ध थाय ते तपने योग्य होवाथी तपप्रायश्चित्त. (७) छेद—जे प्रायश्चित्त चारित्रना पर्यायना छेद
करवा मात्रथी शुद्ध थाय ते छेदने योग्य होवाथी छेदप्रायश्चित्त (८) मूल—जे प्रायश्चित्त सर्वव्रतपर्यायनो छेद करी फरी महाव्रत लेवाथी शुद्ध थाय ते मूलने
योग्य होवाथी मूलप्रायश्चित्त (९) अनवस्थाप्य—ज्या सुधी अमुक प्रकारनो विशिष्ट तप न करे त्या सुधी महाव्रत के वेपमा स्थापी न शक्याय माटे
अनवस्थाने योग्य होवाथी अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त कहेवाय छे. अने (१०) पाराचित्तक—साध्वी, राज्ञी—इत्यादिना शीलमंगरूप महादोष करवा वडे वेप अने
खड्गेत्रनो त्याग करी जिनकल्पिकनी जेम महा तप करता महासत्त्वशाली आचार्यने ज छ मासथी ते चार वर्षसुधी आ प्रायश्चित्त होय छे. उपाध्यायने नवमा
प्रायश्चित्त सुधी होय छे. अने सामान्य साधुने मूलप्रायश्चित्त पर्यन्त प्रायश्चित्त होय छे. ज्या सुधी चतुर्दश पूर्वधर अने प्रथमसघयणवाळा होय छे त्या सुधी
दशे प्रायश्चित्त होय छे अने तेनो विच्छेद गया पछी मूल सुधीना आठ प्रायश्चित्तो दुप्पसह सूरि सुधी छे.

૧૦૪. [પ્ર૦] સે કિં તં વાહિરણ તવે ? [ઉ૦] વાહિરણ તવે છવિદે પદ્મત્તે, તંજહા-ઝંણસળં, ઓમોદરિયા, મિશ્વાય-રિયા, રેસપરિચ્ચાઓ, કાયકિલેસો, પંડિસંલીણતા ।

૧૦૫. [પ્ર૦] સે કિં તં ઝણસળે ? [ઉ૦] ઝણસળે ડુવિદે પદ્મત્તે, તંજહા-ઇત્તરિય ય ધાવકહિય ય ।

૧૦૬. [પ્ર૦] સે કિં તં ઇત્તરિય ? [ઉ૦] ઇત્તરિય ઝળેગવિદે પદ્મત્તે, તંજહા-ચરત્યે મત્તે, છટ્ટે મત્તે, ઢટ્ટમે મત્તે, ઢસમે મત્તે, ડુવાલસમે મત્તે, ડોહસમે મત્તે, ઝદ્દમાસિય મત્તે, માસિય મત્તે, ડોમાસિય મત્તે, તેમાસિય મત્તે, જાવ-છમ્માસિય મત્તે । સેત્તં ઇત્તરિય ।

૧૦૭. [પ્ર૦] સે કિં તં ધાવકહિય ? [ઉ૦] ધાવકહિય ડુવિદે પદ્મત્તે, તંજહા-પાઓવગમણે ય મત્તપચ્ચક્રણે ય ।

૧૦૮. [પ્ર૦] સે કિં તં પાઓવગમણે ? [ઉ૦] પાઓવગમણે ડુવિદે પદ્મત્તે, તંજહા-નીહારિમે ય ઝર્ણાહારિમે ય, નિયમં અપડિકમ્મે । સેત્તં પાઓવગમણે ।

૧૦૯. [પ્ર૦] સે કિં તં મત્તપચ્ચક્રણે ? [ઉ૦] મત્તપચ્ચક્રણે ડુવિદે પદ્મત્તે, તંજહા-નીહારિમે ય ઝર્ણાહારિમે ય, નિયમં સપડિકમ્મે । સેત્તં મત્તપચ્ચક્રણે । સેત્તં ધાવકહિય । સેત્તં ઝણસળે ।

૧૧૦. [પ્ર૦] સે કિં તં ઓમોદરિયા ? [ઉ૦] ઓમોદરિયા ડુવિદા પદ્મત્તા, તંજહા-દ્ધોમોયરિયા ય મ્વાઓમોયરિયા ય ।

૧૧૧. [પ્ર૦] સે કિં તં દ્ધોમોયરિયા ? [ઉ૦] દ્ધોમોયરિયા ડુવિદા પદ્મત્તા, તંજહા-ઝવગરણદ્ધોમોયરિયા ય મત્તપાણદ્ધોમોયરિયા ય ।

૧૧૨. [પ્ર૦] સે કિં તં ઝવગરણદ્ધોમોયરિયા ? [ઉ૦] ઝવગરણદ્ધોમોયરિયા તિવિદા પદ્મત્તા, (તંજહા-) ણ્ણે વલ્લે, ણ્ણે પાદે, ચિયત્તોવગરણસાતિજ્ઞણયા । સેત્તં ઝવગરણદ્ધોમોયરિયા ।

૧૦૪. [પ્ર૦] વાહ્ય તપના કેટલા પ્રકાર છે ? [ઉ૦] વાહ્ય તપના છ પ્રકાર છે—૧ અનગ્નન-આહારલાગ, ૨ ઝનોદરી-કંઙક ઓછો આહાર કરવો, ૩ મિશ્વાચર્યા, ૪ રસનો લાગ કરવો, ૫ કાયક્રેગ-શરીરને કાઠ આપવું અને ૬ પ્રતિસંલીણતા-ઇન્દ્રિય-કપાયાદિનો નિગ્રહ કરવો.

અનગ્નનના પ્રકાર. ૧૦૫. [પ્ર૦] અનગ્નનના કેટલા પ્રકાર છે ? [ઉ૦] અનગ્નનના વે પ્રકાર છે, તે આ પ્રમાણે-ઇત્વરિક-અમુક વાઙ્ગ મુઘી આહાર લાગ અને યાત્કથિક-જીવનપર્યન્ત આહારલાગ.

ઇત્વરિક અનગ્નનના પ્રકાર. ૧૦૬. [પ્ર૦] ઇત્વરિક અનગ્નનના કેટલા પ્રકાર છે ? [ઉ૦] ઇત્વરિક અનગ્નન અનેક પ્રકારનું કાળું છે, તે આ પ્રમાણે—ચતુર્થ મક્ત-એક ઉપવાસ, પઠ મક્ત-વે ઉપવાસ, અઠમ મક્ત-ત્રણ ઉપવાસ, ટશમ મક્ત-ચાર ઉપવાસ, દ્વાદશ મક્ત-પાચ ઉપવાસ, ચતુર્દશ મક્ત-છ ઉપવાસ, અર્ધમાસિક મક્ત-પક્ષના ઉપવાસ, માસિક મક્ત-માસના ઉપવાસ, દ્વિમાસિક મક્ત-વેમાસના ઉપવાસ, ત્રિમાસિક મક્ત-ત્રણ મહીનાના ઉપવાસ, યાવત્-પટ્માસિક મક્ત-છ મહીનાના ઉપવાસ. એ પ્રમાણે ઇત્વરિક અનગ્નન કાળું.

યાવત્કથિક અનગ્નનના પ્રકાર. ૧૦૭. [પ્ર૦] યાવત્કથિક અનગ્નનના કેટલા પ્રકાર છે ? [ઉ૦] યાવત્કથિક અનગ્નનના વે પ્રકાર છે.—પાદપોષમન અને મક્તપ્રલાહ્યાન.

પાદપોષમનના પ્રકાર. ૧૦૮. [પ્ર૦] પાદપોષમનના કેટલા પ્રકાર છે ? [ઉ૦] પાદપોષમનના વે પ્રકાર છે, તે આ પ્રમાણે—નિર્હારિમ (જેમા મૃત શરીર ઉપાશ્રયાદિથી વહાર કાઢવાનું હોય તે) અને અનિર્હારિમ (જેમા મૃત શરીર વહાર કાઢવાનું ન હોય તે). તેમાં અનિર્હારિમ અનગ્નન અવશ્ય સેવાદિ પ્રતિકર્મરહિત છે. એ રીતે પાદપોષમન અનગ્નન સંવન્ધે કાળું.

મક્તપ્રલાહ્યાનના પ્રકાર. ૧૦૯. [પ્ર૦] મક્તપ્રલાહ્યાન કેટલા પ્રકારનું છે ? [ઉ૦] મક્તપ્રલાહ્યાનના વે પ્રકાર છે—નિર્હારિમ અને અનિર્હારિમ. તે વન્ધે અવશ્ય સેવાદિ પ્રતિકર્મવાઙ્ગ છે. એ પ્રમાણે મક્તપ્રલાહ્યાન કાળું. એમ યાવત્કથિક અનગ્નન કાળું, અને એ રીતે અનગ્નન પળ કાળું.

ઝનોદરિકાના પ્રકાર. ૧૧૦. [પ્ર૦] ઝનોદરિકાના કેટલા પ્રકાર છે ? [ઉ૦] ઝનોદરિકાના વે પ્રકાર છે, તે આ પ્રમાણે—દ્રવ્યઝનોદરિકા અને માવઝનોદરિકા.

દ્રવ્યઝનોદરિકાના પ્રકાર. ૧૧૧. [પ્ર૦] દ્રવ્યઝનોદરિકાના કેટલા પ્રકાર છે ? [ઉ૦] દ્રવ્યઝનોદરિકાના વે પ્રકાર છે, તે આ પ્રમાણે—ઉપકરણદ્રવ્ય-ઝનોદરિકા અને મક્તપાનદ્રવ્યઝનોદરિકા.

ઉપકરણ દ્રવ્યઝનોદરિકાના પ્રકાર. ૧૧૨. [પ્ર૦] ઉપકરણ દ્રવ્યઝનોદરિકાના કેટલા પ્રકાર છે ? [ઉ૦] ઉપકરણદ્રવ્યઝનોદરિકાના ત્રણ પ્રકાર છે, (તે આ પ્રમાણે—) એક વલ્લ, એક પાત્ર, ચિયત્તોપકરણસ્વદનતા-સંયતોષ લાગ કરેલ વલ્લ પાત્ર સિવાયના ઉપકરણોનો ઉપભોગ કરવો. એ રીતે ઉપકરણદ્રવ્ય-ઝનોદરિકા કહી છે.

११३. [प्र०] से किं तं भक्तपाणद्वयोमोरिया ? [उ०] भक्त० २ अट्टुकुडिअंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं आहारि-
माणे अप्पाहारे, दुवालस० जहा सत्तमसए पढमोदेसए जाव-नो 'पकामरसभोजी'ति वत्तव्वं सिया । सेत्तं भक्तपाणद्वयोमो-
यरिया । सेत्तं द्वयोमोरिया ।

११४. [प्र०] से किं तं भावोमोरिया ? [उ०] भावोमोरिया अणेगविहा पन्नत्ता, तंजहा-अप्पकोहे, जाव-अप्प-
लोभे, अप्पसद्दे, अप्पझञ्जे, अप्पतुमंतुमे । सेत्तं भावोमोदरिया । सेत्तं ओमोरिया ।

११५. [प्र०] से किं तं भिक्खायरिया ? [उ०] भिक्खायरिया अणेगविहा पन्नत्ता, तंजहा-द्वघ्माभिग्गहचरण-जहा
उववाइए, जाव-सुद्धेसणिए, संखादत्तिए । सेत्तं भिक्खायरिया ।

११६. [प्र०] से किं तं रसपरिच्चाए ? [उ०] रसपरिच्चाए अणेगविहे पन्नत्ते, तंजहा-निद्विगित्तिए, पणीयरसवि-
वज्जए-जहा उववाइए जाव-लूहाहारे । सेत्तं रसपरिच्चाए ।

११७. [प्र०] से किं तं कायकिलेसे ? [उ०] कायकिलेसे अणेगविहे पन्नत्ते, तंजहा-ठाणादीए, उक्कुडुयासणिए, जहा-
उववाइए जाव-सव्वगायपरिकम्म-विभूसविप्पमुक्के । सेत्तं कायकिलेसे ।

११८. [प्र०] से किं तं पडिसंलीणया ? [उ०] पडिसंलीणया चउद्विहा पन्नत्ता, तंजहा-इंदियपडिसंलीणया, कसाय-
पडिसंलीणया, जोगपडिसंलीणया, विवित्तसयणासणसेवणया ।

११९. [प्र०] से किं तं इंदियपडिसंलीणया ? [उ०] इंदिय० २ पंचविहा पन्नत्ता, तंजहा-सोइंदियविसयप्पयारणि-
रोहो वा, सोइंदियविसयप्पत्तेसु वा अत्थेसु रागदोसविणिग्गहो, चक्खिंदियविसय०, एवं जाव-फासिंदियविसयपयारणि-
रोहो वा फासिंदियविसयप्पत्तेसु वा अत्थेसु रागदोसविणिग्गहो । सेत्तं इंदियपडिसंलीणया ।

११३. [प्र०] भक्तपानद्रव्यऊनोदरिकाना केटला प्रकार छे ? [उ०] कुकडीना इंडा प्रमाण आठ कोळिया आहार ले ते
अल्पाहारी कहेवाय अने जे वार कोळिया आहार ले-इत्यादि वधुं सातमा शतकना प्रथम उद्देशकमा कख्या प्रमाणे यावत्-^१ते प्रकार
रसनो भोजी न कहेवाय^२-त्या सुधी कहेवुं. ए प्रमाणे भक्तपानद्रव्यऊनोदरिका कही अने ए रीते द्रव्यऊनोदरिका पण कही.

भक्तपानद्रव्य-
ऊनोदरिका

११४. [प्र०] भावऊनोदरिकाना केटला प्रकार कख्या छे ? [उ०] भावऊनोदरिका अनेक प्रकारनी छे, ते आ प्रमाणे-
क्रोध ओछो करवो, यावत्-लोभ ओछो करवो; अल्प वोलवुं, धीमे वोलवुं, गुस्सामां निरर्थक बहु प्रलय न करवो, हृदयस्थ कोप ओछो
करवो.-ए रीते भाव ऊनोदरिकासंबंधे कहुं अने एम ऊनोदरिकासंबंधे पण कहुं.

भावऊनोदरिका
ना प्रकार.

११५. [प्र०] भिक्षाचर्या केटला प्रकारनी छे ? [उ०] भिक्षाचर्या अनेक प्रकारनी छे. ते आ प्रमाणे-द्रव्याभिग्रहचर-
भिक्षामां अमुक चीजोने ज ग्रहण करवाना नियमपूर्वक भिक्षा करे, अमुक क्षेत्रना अभिग्रह पूर्वक भिक्षा करे-इत्यादि जेम †औपपातिक
सूत्रमां कहुं छे तेम जाणवुं. यावत्-शुद्ध निर्दोष भिक्षा करवी, दत्तिनी संख्या करवी. ए प्रमाणे भिक्षाचर्या संबंधे हकीकत कही.

भिक्षाचर्याना
प्रकार.

११६. [प्र०] रसपरित्यागना केटला प्रकार छे ? [उ०] रसपरित्यागना अनेक प्रकार छे. ते आ प्रमाणे-घृतादि विकृति
(विगइ) नो त्याग करवो, स्निग्ध रसवाळुं भोजन न करवुं-इत्यादि जेम †औपपातिक सूत्रमां कहुं छे तेम जाणवुं, यावत्-दुखो
आहार करवो. ए प्रमाणे रसपरित्याग विषे कहुं.

रसपरित्याग-
ना प्रकार.

११७. [प्र०] कायक्लेशना केटला प्रकार छे ? [उ०] कायक्लेश अनेक प्रकारनो छे. ते आ प्रमाणे-कायोत्सर्गादि आसने
रहेवुं, उक्तआसने रहेवुं-इत्यादि †औपपातिक सूत्रमां कहुं छे तेम जाणवुं. यावत्-शरीरना सर्व प्रकारना संस्कार अने शोभानो त्याग
करवो. ए प्रमाणे कायक्लेश संबंधे कहुं.

कायक्लेशना प्रकार.

११८. [प्र०] प्रतिसंलीनताना केटला प्रकार छे ? [उ०] प्रतिसंलीनता चार प्रकारनी छे. ते आ प्रमाणे-१ इन्द्रियप्रतिसं-
लीनता-इंद्रियोनो निग्रह करवो, २ कपायप्रतिसंलीनता-कपायोनो निग्रह करवो, योगसंलीनता-मन, वचन कायाना व्यापारनो निग्रह
करवो, अने विविकृतशयनासनसेवन, स्त्री-पशु अने नपुंसक रहित वसतिमा निर्दोष शयनादि उपकरणोनो स्वीकार करी रहेवुं.

प्रतिसंलीनता-
ना प्रकार

११९. [प्र०] इन्द्रियप्रतिसंलीनता केटला प्रकारनी छे ? [उ०] इन्द्रियप्रतिसंलीनताना पाच प्रकार छे-१ श्रोत्रेन्द्रियना नियम
अचारने रोकवो के श्रोत्रेन्द्रियद्वारा प्राप्त थयेल विषयमा रागद्वेषनो निरोध करवो, २ चक्षुना विषयप्रचारनो रोध करवो, के चक्षुद्वारा
प्राप्त विषयमा राग द्वेष न करवो. ए प्रमाणे यावत्-५ स्पर्शनेन्द्रियना विषय प्रचारनो निरोध करवो अने स्पर्शनेन्द्रियद्वारा अनुभवेळ
पदार्थोने विषे रागद्वेषनो निग्रह करवो. ए रीते इन्द्रियप्रतिसंलीनता कही.

इन्द्रियप्रतिसंलीनता-
ना प्रकार.

११३ * भग० खं० ३ श० ७ उ० १ पृ० ६ सू० २२

११५ † औप० पृ० ३८-२ आहारादिनो पात्रमा एक वार क्षेप ते दत्ति, अभिग्रहमा दत्तिनी संख्यानो नियम होय छे.

११६ ‡ औप० पृ० ३९-२.

११७ ¶ औप० प० ३९-२.

१२०. [प्र०] से किं तं कसायपडिसंलीणया ? [उ०] कसायपडिसंलीणया वउच्चिहा पन्नत्ता । तंजहा—कोहोदयनिरोहो वा उदयपत्तस्स वा कोहस्स विफलीकरणं, एधं जाव—लोभोदयनिरोहो वा उदयपत्तस्स वा लोभस्स विफलीकरणं । सेत्तं कसायपडिसंलीणया ।

१२१. [प्र०] से किं तं जोगपडिसंलीणया ? [उ०] जोगपडिसंलीणया तिविहा पन्नत्ता, तंजहा—१ अकुसलमणनिरोहो वा, २ कुसलमणउदीरणं वा, ३ मणस्स वा एगत्तीभावकरणं, १ अकुसलवदनिरोहो वा, २ कुसलवदउदीरणं वा, ३ चट्ठ वा, एगत्तीभावकरणं ।

१२२. [प्र०] से किं तं कायपडिसंलीणया ? [उ०] कायपडिसंलीणया जन्नं सुग्गमादियपसंतसाहरियपाणिपाए कुम्मो इव गुत्तिदिय अह्णीणे पल्लीणे चिट्ठति; सेत्तं कायपडिसंलीणया । सेत्तं जोगपडिसंलीणया ।

१२३. [प्र०] से किं तं विचित्तसयणासणसेवणया ? [उ०] विचित्तसयणासणसेवणया जन्नं आरामेसु वा उज्जाणेसु वा—जहा सोमिलुहेसए जाव—सेज्जासंथारगं उवसंपजित्ता णं चिहरइ । सेत्तं विचित्तसयणासणसेवणया । सेत्तं पडिसंलीणया । सेत्तं वाहिरए तवे १ ।

१२४. [प्र०] से किं तं अम्मतरए तवे ? [उ०] अम्मतरए तवे छुद्धिदं पन्नत्ते, तंजहा—१ पायच्छिच्चं, २ विणओ, ३ वेयावच्चं, ४ सज्जाओ, ५ प्राणं, ६ विउसग्गो ।

१२५. [प्र०] से किं तं पायच्छिच्चे ? [उ०] पायच्छिच्चे दसविहे पन्नत्ते, तंजहा—आलोयणारिहे, जाव—पारंचियारिहे । सेत्तं पायच्छिच्चे ।

१२६. [प्र०] से किं तं विणए ? [उ०] विणए सत्तविहे पन्नत्ते । तं जहा—१ नाणविणए, २ दंसणविणए, ३ चरित्तविणए, ४ मणविणए, ५ वयविणए, ६ कायविणए, ७ लोमोवयारविणए ।

१२७. [प्र०] से किं तं नाणविणए ? [उ०] नाणविणए पंचविहे पन्नत्ते, तंजहा—१ आभिणिवोदियनाणविणए, जाव—५ केवलनाणविणए । सेत्तं नाणविणए ।

१२० [प्र०] कमायप्रतिसलीनताना केटला प्रकारे छे ? [उ०] कमायप्रतिसलीनताना चार प्रकारे छे—१ क्रोधना उदयनो निरोध करवो, अथवा उदय प्राप्त क्रोधने निष्फल करवो. ए प्रमाणे यावत्—५ लोभना उदयनो निरोध करवो के उदय प्राप्त लोभने निष्फल करवो. ए रीते कमायप्रतिसलीनता कही.

१२१. [प्र०] योगसलीनताना केटला प्रकारे छे ? [उ०] योगसलीनताना त्रण प्रकारे छे—१ अकुशल मननो निरोध करवो २ कुशल मननी प्रवृत्ति करवी अने ३ मनने एकाग्र—स्थिर करवुं. १ अकुशल वचननो निरोध करवो, २ कुशल वचन बोखुं अने ३ वचनने स्थिर करवुं.

१२२. [प्र०] कायसलीनता केवा प्रकारनी छे ? [उ०] सारी रीते समाधिपूर्वक प्रगांत थई हाय पगने सकोची काचवानां पेटे गुप्तेन्द्रिय थई आलीन अने प्रलीन—स्थिर रहेवुं ते कायसलीनता कहेवाय छे. ए रीते कायसलीनता कही.

१२३. [प्र०] विवित्तशयनासनसेवना केवा प्रकारनी छे ? [उ०] जे आरामोमां, उद्यानोमां—इत्यादि सोमिलना उद्देशनां कहा प्रमाणे यावत्—शय्या अने सथाराने लइने विहरे ते विवित्तशयनासनसेवना छे. ए रीते विवित्तशयनासनसेवना कही. एम प्रतिसलीनता सबंधे हकीकत पण कही. ए रीते वाल तपसंबंधे पण कहुं.

१२४. [प्र०] अम्यंतर तप केटला प्रकारे छे ? [उ०] अम्यंतर तप छ प्रकारुं छे. ते आ प्रमाणे—१ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वैयावृत्त्य, ४ खाध्याय, ५ ध्यान अने ६ व्युत्सर्ग.

१२५. [प्र०] प्रायश्चित्त केटला प्रकारे छे ? [उ०] प्रायश्चित्त दस प्रकारुं छे. ते आ प्रमाणे—१ आलोचनाने योग्य अने यावत्—१० पारांचित्तकने योग्य. ए रीते प्रायश्चित्त कहुं.

१२६. [प्र०] विनय केटला प्रकारनो छे ? [उ०] विनयना सात प्रकार छे. ते आ प्रमाणे—१ ज्ञाननो विनय, २ दर्शननो विनय, ३ चारित्रविनय, ४ मनरूप विनय, ५ वचनरूप विनय, ६ कायरूप विनय अने ७ लोकोपचार विनय.

१२७. [प्र०] ज्ञाननो विनय केटला प्रकारे छे ? [उ०] ज्ञाननो विनय पांच प्रकारनो छे—१ आभिनिवोधिक—मतिज्ञाननो विनय, यावत्—५ केवलज्ञाननो विनय. ए रीते ज्ञाननो विनय कही.

१२८. [प्र०] से किं तं दंसणविणए ? [उ०] दंसणविणए दुविहे पन्नत्ते तंजहा—सुस्सुसणाविणए य अणच्चासादणा-विणए य ।

१२९. [प्र०] से किं तं सुस्सुसणाविणए ? [उ०] सुस्सुसणाविणए अणेगविहे पन्नत्ते, तंजहा—सक्कारे इ, वा सम्माणे इ वा—जहा चोद्दसमसए ततिए उद्देसए जाव—पडिसंसाहणया । सेत्तं सुस्सुसणाविणए ।

१३०. [प्र०] से किं तं अणच्चासायणाविणए ? [उ०] अणच्चासायणाविणए पणयालीसइविहे पन्नत्ते । तंजहा—१ अरहंतताणं अणच्चासादणया, २ अरहंतपन्नत्तस्स धम्मस्स अणच्चासादणया, ३ आयरियाणं अणच्चासादणया, ४ उवज्झायाणं अणच्चासादणया, ५ थेराणं अणच्चासादणया, ६ कुलस्स अणच्चासादणया, ७ गणस्स अणच्चासादणया, ८ संघस्स अणच्चासादणया, ९ किरियाए अणच्चासादणया, १० संभोगस्स अणच्चासायणया, ११ आभिणिचोहियनाणस्स अणच्चासायणया, जाव—१५ केवलनाणस्स अणच्चासादणया, ३० एएसिं चेव भत्ति—वहुमाणेणं, ४५ एएसिं चेव वन्नसंजलणया । सेत्तं अण-च्चासायणयाविणए । सेत्तं दंसणविणए ।

१३१. [प्र०] से किं तं चरित्तविणए ? [उ०] चरित्तविणए पंचविहे पन्नत्ते, तंजहा—१ सामाइयचरित्तविणए, जाव—५ अहक्खायचरित्तविणए । सेत्तं चरित्तविणए ।

१३२. [प्र०] से किं तं मणविणए ? [उ०] मणविणए दुविहे पन्नत्ते, तंजहा—पसत्थमणविणए, अपसत्थमणविणए य ।

१३३. [प्र०] से किं तं पसत्थमणविणए ? [उ०] पसत्थमणविणए सत्तविहे पन्नत्ते, तंजहा—१ अपावए, २ असावज्जे, ३ अकिरिए, ४ निरुवक्केसे, ५ अणणहवकरे, ६ अच्छविकरे, ७ अभूयाभिसंकणे । सेत्तं पसत्थमणविणए ।

१३४. [प्र०] से किं तं अपसत्थमणविणए ? [उ०] अपसत्थमणविणए सत्तविहे पन्नत्ते, तंजहा—१ पावए, २ सावज्जे, ३ सकिरिए, ४ सउवक्केसे, ५ अणहवयकरे, ६ छविकरे, ७ भूयाभिसंकणे । सेत्तं अपसत्थमणविणए । सेत्तं मणविणए ।

१३५. [प्र०] से किं तं वइविणए ? [उ०] वइविणए दुविहे पन्नत्ते, तंजहा—पसत्थवइविणए य अपसत्थवइविणए य ।

१२८. [प्र०] दर्शननो विनय केटला प्रकारे छे ? [उ०] दर्शननो विनय वे प्रकारनो छे. ते आ प्रमाणे—शुश्रूपाविनय अने अनाशातनारूप विनय.

दर्शनविनयना प्रकार.

१२९. [प्र०] शुश्रूपाविनयना केटला प्रकार छे ? [उ०] शुश्रूपा विनय अनेक प्रकारनो छे. ते आ प्रमाणे—सत्कार करवो, सन्मान करवुं वगेरे—चौदमा शतकना त्रीजा उद्देशकमा कह्या प्रमाणे यावत्—प्रतिसंसाधनता सुधी जाणवुं. ए प्रमाणे शुश्रूपाविनय कह्यो.

शुश्रूपाविनयना प्रकार.

१३०. [प्र०] अनाशातना विनय केटला प्रकारे छे ? [उ०] अनाशातना विनयना पिस्ताळीश मेद छे. ते आ प्रमाणे—१ अरि-हंतोनी अनाशातना, २ अरिहंतोए कहेल धर्मनी अनाशातना, ३ आचार्योनी अनाशातना, ४ उपाध्यायोनी अनाशातना, ५ स्थविरोनी अनाशातना, ६ कुळनी अनाशातना, ७ गणनी अनाशातना, ८ सघनी अनाशातना, ९ क्रियानी अनाशातना, १० समानधार्मिकनी अनाशातना, ११ मतिज्ञाननी अनाशातना अने यावत्—१५ केवल ज्ञाननी अनाशातना, अने एज रीते ३० अरिहंतादि पंदरनी भक्ति अने बहुमान, तथा ४५ एओना गुणोना कीर्तनवडे तेनी कीर्ति करवी. ए रीते अनाशातना विनयना पिस्ताळीश प्रकार छे. ए रीते अनाशातनारूप विनय कह्यो अने एम दर्शनविनय पण कह्यो.

१३१. [प्र०] चारित्रविनय केटला प्रकारनो छे ? [उ०] चारित्रविनय पाच प्रकारनो छे. ते आ प्रमाणे—१ सामायिकचारित्रविनय, अने यावत्—५ यथाख्यातचारित्रविनय. एम चारित्रविनय कह्यो.

चारित्रविनयना प्रकार.

१३२. [प्र०] मनविनय केटला प्रकारनो छे ? [उ०] मनविनयना वे प्रकार छे. ते आ प्रमाणे—प्रशस्तमनविनय अने अप्रशस्तमनविनय.

मनविनयना प्रकार.

१३३. [प्र०] प्रशस्त मनविनय केटला प्रकारनो छे ? [उ०] प्रशस्त मनविनयना सात प्रकार छे. ते आ प्रमाणे—१ पापरहित, २ क्रोधादि अवध रहित, ३ कायिक्यादि क्रियामा आसक्तिरहित, ४ शोकादि उपक्लेशरहित, ५ आश्रवरहित, ६ स्वपरने आयास करवा रहित, अने ७ जीवोने भय न उत्पन्न करवो. एम प्रशस्त मनविनय कह्यो

प्रशस्त मनविनयना प्रकार

१३४. [प्र०] अप्रशस्त मनविनयना केटला प्रकार छे ? [उ०] अप्रशस्त मनविनयना सात प्रकार छे. ते आ प्रमाणे—१ पापरूप, २ अवधवाळो, ३ कायिक्यादि क्रियामा आसक्तिसहित, ४ शोकादिउपक्लेशयुक्त, ५ आश्रवसहित, ६ स्व-परने आयास उत्पन्न करनार अने ७ जीवोने भय उपजावनार. एम अप्रशस्त मनविनय कह्यो. अने ए रीते मनविनय पण कह्यो.

अप्रशस्तविनयना प्रकार.

१३५. [प्र०] वचनविनयना केटला प्रकार छे ? [उ०] वचनविनयना वे प्रकार छे—प्रशस्त वचनविनय अने अप्रशस्त वचनविनय.

वचन विनयना प्रकार.

१३६. [प्र०] से किं तं पसत्यवद्विणय ? [उ०] पसत्यवद्विणय सत्तविद्दे पन्नत्ते, तंजहा—१ अपावण, २ असावजे, जाव—७ अभूयामिसंकणे । सेत्तं पसत्यवद्विणय ।

१३७. [प्र०] से किं तं अप्पसत्यवद्विणय ? [उ०] अप्पसत्यवद्विणय सत्तविद्दे पन्नत्ते तंजहा—१ पावण, २ सावजे, जाव—७ भूयामिसंकणे । सेत्तं अप्पसत्यवद्विणय । सेत्तं वद्विणय ।

१३८. [प्र०] से किं तं कायविणय ? [उ०] कायविणय दुविद्दे पन्नत्ते, तंजहा—पसत्यकायविणय य अप्पसत्यकाय-विणय य ।

१३९. [प्र०] से किं तं पसत्यकायविणय ? [उ०] पसत्यकायविणय सत्तविद्दे पन्नत्ते, तंजहा—१ आउत्तं गमणं, २ आउत्तं टाणं, ३ आउत्तं निसीयणं, ४ आउत्तं तुयट्टणं, ५ आउत्तं उल्लंघणं, ६ आउत्तं पल्लंघणं, ७ आउत्तं सार्धदियजोग-जुंजणया । सेत्तं पसत्यकायविणय ।

१४०. [प्र०] से किं तं अप्पसत्यकायविणय ? [उ०] अप्पसत्यकायविणय सत्तविद्दे पन्नत्ते, तंजहा—१ अणाउत्तं गमणं जाव—७ अणाउत्तं सार्धदियजोगजुंजणया । सेत्तं अप्पसत्यकायविणय । सेत्तं कायविणय ।

१४१. [प्र०] से किं तं लोमोवयारविणय ? [उ०] लोमोवयारविणय सत्तविद्दे पन्नत्ते, तंजहा—१ अन्मासवत्तियं, २ परच्छंदाणुवत्तियं, ३ कज्जेहं, ४ कयपडिकतिया ५ अत्तगवेसणया, ६ देसकालणया, ७ सद्यत्तेसु अप्पटिलोमया । सेत्तं लोमोवयारविणय । सेत्तं विणय ।

१४२. [प्र०] से किं तं वेयावच्चे ? [उ०] वेयावच्चे दसविद्दे पन्नत्ते, तंजहा—१ आयरियवेयावच्चे, २ उवज्जायवेयावच्चे, ३ थेरवेयावच्चे, ४ तवस्सिवेयावच्चे, ५ गिलाणवेयावच्चे, ६ सेहवेयावच्चे, ७ कुलवेयावच्चे, ८ गणवेयावच्चे, ९ संवदेयावच्चे, १० साहम्मियवेयावच्चे । सेत्तं वेयावच्चे ।

१४३. [प्र०] से किं तं सज्जाप ? [उ०] सज्जाप पंचविद्दे पन्नत्ते, तंजहा—१ पायणा, २ पडिपुच्छणा, ३ परियट्टणा, ४ अणुप्पेहा, ५ धम्मकहा । सेत्तं सज्जाप ।

प्रशस्त वचनविन-
यना प्रकार.

१३६. [प्र०] प्रशस्त वचनविनय केटला प्रकारे छे ? [उ०] प्रशस्त वचनविनयना सात प्रकार कटा छे. ते आ प्रमाणे—१ पापरहित, २ असावय, यावत्—७ जीवोने भय न उपजावथो. ए रीते प्रशस्त वचनविनय कटो.

अप्रशस्त वचनवि-
नयना प्रकार.

१३७. [प्र०] अप्रशस्त वचनविनय केटला प्रकारे छे ? [उ०] अप्रशस्त वचनविनयना सात प्रकार छे. ते आ प्रमाणे—१ पापसहित, २ सावय अने यावत्—जीवोने भय उपजावथो. ए रीते अप्रशस्त वचनविनय कटो अने ए रीते वचनविनय पण कटो.

१३८. [प्र०] कायविनय केटला प्रकारे छे ? [उ०] कायविनयना धे प्रकार छे. ते आ प्रमाणे—प्रशस्त कायविनय अने अप्र-शस्त कायविनय.

प्रशस्त कायविन-
यना प्रकार.

१३९. [प्र०] प्रशस्त कायविनय केटला प्रकारे छे ? [उ०] प्रशस्त कायविनयना सात प्रकार छे. ते आ प्रमाणे—१ सावधानता-पूर्वक जहुं, २ सावधानतापूर्वक स्थिति करवी, ३ सावधानतापूर्वक वेसहुं, ४ सावधानतापूर्वक (पयारीमा) आळोटहुं, ५ सावधानता-पूर्वक उल्लंघन करहुं, ६ सावधानतापूर्वक वयारे उल्लंघन करहु अने ७ सावधानतापूर्वक ववी इंद्रियोनी प्रवृत्ति करवी. ए प्रमाणे प्रशस्त कायविनय कटो छे.

अप्रशस्त कायविन-
यना प्रकार.

१४०. [प्र०] अप्रशस्त कायविनय केटला प्रकारे छे ? [उ०] अप्रशस्तकायरूप विनयना सात प्रकार छे. ते आप्रमाणे—सावधा-नता सिवाय जहुं, यावत्—सावधानता सिवाय ववी इंद्रियोना प्रवृत्ति करवी. ए प्रमाणे अप्रशस्त कायविनय कटो. एम कायरूप विनय पण कटो.

लोकोपचार विन-
यना प्रकार.

१४१. [प्र०] लोकोपचारविनय केटला प्रकारे छे ? [उ०] लोकोपचारविनयना सात प्रकार छे. ते आ प्रमाणे—१ गुर्वादि बडिल-वर्गनी पासे रहवु, २ तेओनी इच्छाप्रमाणे वर्तवुं, ३ कार्यनी सिद्धि माटे हेतुओनी सवड करी आपवी, ४ करेला उपकारनी बदलो देवो, ५ रोगीओनी समाळ राखवी, ६ देशकालजता—अवसरोचित प्रवृत्ति करवी अने ७ सर्व कार्योमा अनुकूलपणे वर्तवुं. एम लोकोपचारविनय कटो. अने ए रीते विनयसववे कहुं.

वैयावृत्तना प्रकार.

१४२. [प्र०] वैयावृत्तन केटला प्रकारे छे ? [उ०] वैयावृत्तना दस प्रकार छे. ते आ प्रमाणे—१ आचार्यनुं वैयावृत्त्य, २ उपा-ध्यानुं वैयावृत्त्य, ३ स्वविरनुं वैयावृत्त्य, ४ तपस्वीनुं वैयावृत्त्य, ५ रोगीनुं वैयावृत्त्य, ६ शैक्ष—प्राथमिक शिष्योनुं वैयावृत्त्य, ७ कुल—एक आचार्यना शिष्योना परिवारनुं वैयावृत्त्य, ८ गण—साथे अध्ययन करता साधुओना समूह—नुं वैयावृत्त्य, ९ संवहुं वैयावृत्त्य, अने १० साधर्मि-कनुं वैयावृत्त्य. ए रीते वैयावृत्त्य कहुं.

स्वाध्यायना प्रकार.

१४३. [प्र०] स्वाध्याय केटला प्रकारे छे ? [उ०] स्वाध्यायना पाच प्रकार छे. ते आ प्रमाणे—१ वाचना—अध्ययन, २ पृच्छना, ३ पुनरावर्तन करवुं, ४ चिंतन करवुं अने ५ धर्मकथा. ए रीते स्वाध्याय संवंधे कहुं.

१४४. [प्र०] से किं तं ज्ञाणे ? [उ०] ज्ञाणे चउद्विहे पन्नत्ते, तंजहा—१ अष्टे ज्ञाणे, २ रोदे ज्ञाणे, ३ धम्मे ज्ञाणे, ४ सुक्के ज्ञाणे ।

१४५. [प्र०] अष्टे ज्ञाणे चउद्विहे पन्नत्ते, तंजहा—१ अमणुन्नसंपयोगसंपउत्ते तस्स विप्पयोगसतिसमन्नागए यावि भवइ, २ मणुन्नसंपओगसंपउत्ते तस्स अविप्पयोगसतिसमन्नागए यावि भवइ, ३ आर्यकसंपयोगसंपउत्ते तस्स विप्पयोगसतिसमन्नागए यावि भवइ, ४ परिज्जुसियकामभोगसंपयोगसंपउत्ते तस्स अविप्पयोगसतिसमन्नागए यावि भवइ । अट्टस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पन्नत्ता, तंजहा—१ कंदणया, २ सोयणया, ३ तिप्पणया, ४ परिदेवणया ।

१४६. [प्र०] रोदे ज्ञाणे चउद्विहे पन्नत्ते, तंजहा—१ हिंसाणुबंधी, २ मोसाणुबंधी, ३ तेयाणुबंधी, ४ सारक्खणाणुबंधी । रोइस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पन्नत्ता, तंजहा—१ ओस्सन्नदोसे, २ वहुलदोसे, ३ अण्णाणदोसे ४ आमरणांतदोसे ।

१४७. [प्र०] धम्मे ज्ञाणे चउद्विहे चउप्पडोयारे पन्नत्ते, तंजहा—१ आणाविजए, २ अवायविजए, ३ विवागविजए, ४ संठाणविजए । धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पन्नत्ता, तंजहा—१ आणाखयी, २ निसग्गखयी, ३ सुत्तखयी, ४ ओगाढखयी । धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि आलंबणा पन्नत्ता, तंजहा—१ वायणा, २ पडिपुच्छणा, ३ परियट्टणा, ४ धम्मकहा । धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पन्नत्ताओ, तंजहा—१ एगत्ताणुप्पेहा, २ अणिच्चाणुप्पेहा, ३ असरणाणुप्पेहा, ४ संसाराणुप्पेहा ।

१४८. [प्र०] सुक्के ज्ञाणे चउद्विहे चउप्पडोयारे पन्नत्ते, तंजहा—१ पुहुत्तवियक्के सवियारी, २ एगंतवियक्के अवियारी, ३ सुहुमकिरिए अनियट्टी, ४ समोच्छिन्नकिरिए अप्पडिवायी । सुक्कस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पन्नत्ता, तंजहा—१

१४४. [प्र०] ध्यान केटला प्रकारे छे ? [उ०] ध्यानना चार प्रकार छे. ते आ प्रमाणे—१ आर्तध्यान, २ रौद्रध्यान, ३ धर्मध्यान अने ४ शुक्लध्यान.

ध्यानना प्रकार.

१४५. आर्तध्यानना चार प्रकार छे. ते आ प्रमाणे—१ अनिष्ट वस्तुओनी प्राप्ति थतां तेना वियोगतुं चिन्तन करवुं, २ इष्ट वस्तुओनी प्राप्ति थतां तेना अवियोगतुं चिंतन करवुं, ३ रोगादि कष्ट प्राप्त थतां तेना वियोगतुं चिंतन करवुं अने ४ प्रीति उत्पन्न करनार कामभोगादिकनी प्राप्तिमां तेना अवियोगतुं चिंतन करवुं. आर्तध्याननां चार लक्षण कहां छे. ते आ प्रमाणे—१ आक्रंदन—मोटेथी रोवुं, २ दीनता, ३ आंसुओ पाडवा अने ४ वारंवार क्लेशयुक्त बोलवुं.

आर्तध्यानना प्रकार.
आर्तध्यानना लक्षण.

१४६. रौद्रध्यानना चार प्रकार कहां छे. ते आ प्रमाणे—१ हिंसाणुबंधी—हिंसा संबंधी निरंतर चिन्तन, २ मृषाणुबंधी—खोटुं बोलवा संबंधी निरंतर चिन्तन, ३ स्तेयाणुबंधी—चोरी करवा संबंधे निरंतर चिन्तन अने ४ संरक्षणानुबंधी—धन वगैरेना संरक्षण संबंधे निरंतर चिन्तन. रौद्र ध्याननां चार लक्षण कहां छे. ते आ प्रमाणे—१ ओसन्नदोष—जेमा हिंसा वगैरेथी नहीं अटकवा रूप घणा दोष छे ते, २ वहुलदोष—जेमां हिंसा वगैरेमां प्रवृत्ति करवारूप घणा दोष छे ते, ३ अज्ञानदोष—हिसादि अधर्ममां धर्मबुद्धिथी प्रवृत्ति करवा रूप दोष अने ४ आमरणांतदोष—मरण पर्यन्त पापनो पश्चात्ताप नहि थवा रूप दोष

रौद्रध्यानना प्रकार.
रौद्रध्यानना लक्षण.

१४७. धर्मध्यानना चार प्रकार छे. ते आ प्रमाणे—१ आज्ञाविचय—जेमां जिन प्रवचननो निर्णय छे एवुं चिन्तन, २ अपायविचय—रागद्वेषादिजन्य अनर्थों सवधे चिन्तन, ३ विपाकविचय—कर्मना फल सवधे चिंतन अने ४ संस्थानविचय—लोकना—द्वीप समुद्रादिना आकार सवधे चिन्तन. धर्मध्यानना चार लक्षणो कहां छे. ते आ प्रमाणे—१ आज्ञारुचि—जिनोपदेशमां रुचि, २ निसर्गरुचि—स्वभावथी तत्त्वरुचि, ३ सूत्ररुचि—आगमथी तत्त्वरुचि थवी अने ४ अवगाढरुचि—द्वादशागना सविस्तर अवगाहनथी रुचि थवी. धर्मध्यानना चार आलंबनो कहां छे. ते आ प्रमाणे—१ वाचना, २ प्रतिपृच्छना, ३ परिवर्तना—पुनरावर्तन करवुं अने ४ धर्मकथा करवी. धर्मध्याननी चार भावनाओ कहीं छे. ते आ प्रमाणे—१ एकत्वभावना, २ अनित्यभावना, ३ अशरणभावना अने ४ संसारभावना.

धर्मध्यानना प्रकार.
धर्मध्यानना लक्षण.
धर्मध्यानना आलंबन
धर्मध्याननी चार भावना

१४८. शुक्लध्यानना चार प्रकार कहां छे. ते आ प्रमाणे—१ पृथक्त्ववितर्क सविचार, २ एकत्ववितर्क अविचार, ३ सूक्ष्मक्रिय अनिवृत्ति अने ४ समुच्छिन्नक्रिय अप्रतिपाति. शुक्लध्याननां चार लक्षणो कहां छे. ते आ प्रमाणे—१ क्षमा, २ निःस्पृहता, ३ आर्जव—

शुक्लध्यानना प्रकार.

१४८ १ पृथक्त्व—एक द्रव्यने आश्रित उत्पादादि पर्यायोना भेद वडे वितर्क—पूर्वगत श्रुतानुसारी अथवा ज्ञानानुसारी सविचार—अर्थथी शब्दमा अने शब्दथी अर्थमा मनप्रमुख योगोमाना कोइएण एक योगथी बीजा योगमा उपयोगपूर्वक सक्रान्तियुक्त चिन्तन ते पृथक्त्ववितर्क सविचार २ एकत्व—उत्पादादि पर्यायोना अनेदथी कोइ पण एक पर्यायद्वारा वितर्क—पूर्वगतश्रुताश्रित व्यंजनरूप के अर्थरूप अविचार—अर्थ, व्यंजन धने योगनी सक्रान्तिरहित चिन्तन ते एकत्ववितर्कअविचार ३ मन अने वचनयोगनो सर्वथा रोध करवाथी अने काययोगमा चादरकाययोगनो रोध करेलो होवाथी सूक्ष्मक्रियावाळुं पाळुं न पडे ते सूक्ष्मक्रियअनिवृत्तिशुक्लध्यान आ ध्यान निर्वाणगमनसमये केवलीने होय छे. ४ ज्या योगनो सर्वथा रोध करेलो होवाथी कायिक्यादि क्रियानो सर्वथा उच्छेद थयो छे एवुं समुच्छिन्नक्रिय अनिवृत्ति शुक्लध्यान कहेवाय छे—टीका

સંતી, ૨ મુત્તી, ૩ અજ્ઞવે, ૪ મદ્વે । સુક્લસ્સ ણં જ્ઞાણસ્સ ચત્તારિ આલંબણા પન્નત્તા, તંજહા—૧ અદ્વહે, ૨ અસંમોહે, ૩ વિવેગે, ૪ વિડસગ્ગે । સુક્લસ્સ ણં જ્ઞાણસ્સ ચત્તારિ અણુપ્પેહાઓ પન્નત્તાઓ, તંજહા—૧ અણંતવચ્છિયાણુપ્પેહા, ૨ વિપ્પરિણામાણુપ્પેહા, ૩ અસુભાણુપ્પેહા, ૪ અવાયાણુપ્પેહા । સેત્તં જ્ઞાણે ।

૧૪૯. [પ્ર૦] સે કિં તં વિડસગ્ગે ? [ઉ૦] વિડસગ્ગે ટુવિહે પન્નત્તે, તંજહા—૧ દ્વવિડસગ્ગે ય ભાવવિડસગ્ગે ય ।

૧૫૦. [પ્ર૦] સે કિં તં દ્વવિડસગ્ગે [ઉ૦] દ્વવિડસગ્ગે ચડવિહે પન્નત્તે, તંજહા—ગણવિડસગ્ગે, સરીરવિડસગ્ગે, ઉવહિવિડસગ્ગે, ભત્તપાણવિડસગ્ગે । સેત્તં દ્વવિડસગ્ગે ।

૧૫૧. [પ્ર૦] સે કિં તં ભાવવિડસગ્ગે ? [ઉ૦] ભાવવિડસગ્ગે તિવિહે પન્નત્તે, તંજહા—કસાયવિડસગ્ગે, સંસારવિડસગ્ગે, કમ્મવિડસગ્ગે ।

૧૫૨. [પ્ર૦] સે કિં તં કસાયવિડસગ્ગે ? [ઉ૦] કસાયવિડસગ્ગે ચડવિહે પન્નત્તે, તંજહા—કોહવિડસગ્ગે, માણવિડસગ્ગે, માયાવિડસગ્ગે, લોભવિડસગ્ગે । સેત્તં કસાયવિડસગ્ગે ।

૧૫૩. [પ્ર૦] સે કિં તં સંસારવિડસગ્ગે ? [ઉ૦] સંસારવિડસગ્ગે ચડવિહે પન્નત્તે, તંજહા—નેરદ્વયસંસારવિડસગ્ગે, જાવ-દેવસંસારવિડસગ્ગે । સેત્તં સંસારવિડસગ્ગે ।

૧૫૪. [પ્ર૦] સે કિં તં કમ્મવિડસગ્ગે ? [ઉ૦] કમ્મવિડસગ્ગે અટુવિહે પન્નત્તે, તંજહા—ગાણાવરણિક્કમ્મવિડસગ્ગે, જાવ-અંતરાદ્વયકમ્મવિડસગ્ગે । સેત્તં કમ્મવિડસગ્ગે । સેત્તં ભાવવિડસગ્ગે । સેત્તં અર્ઘ્મિભતરપ તવે । 'સેવં મંતે! સેવં મંતે! ત્તિ ।

પણવિસતિમે સ્સ સત્તમો ઉદ્દેસઓ સમત્તો ।

શુદ્ધધ્યાનના ચાર
લક્ષણ
શુદ્ધધ્યાનના ચાર
આલંબન
શુદ્ધધ્યાનની ચાર
ભાવના

વ્યુત્સર્ગના પ્રકાર
દ્રવ્યવ્યુત્સર્ગના
પ્રકાર.

ભાવવ્યુત્સર્ગના
પ્રકાર

કપાયવ્યુત્સર્ગના
પ્રકાર.

સંસારવ્યુત્સર્ગના
પ્રકાર

કર્મવ્યુત્સર્ગના
પ્રકાર

સરલતા અને ૪ માર્દવ-માનનો લ્યાગ. શુદ્ધધ્યાનના ચાર આલંબન કહ્યા છે. તે આ પ્રમાણે—૧ અવ્યયા-મયનો અભાવ, ૨ અસમોહ-ભ્રાન્તિનો અભાવ, ૩ વિવેક-ઝરીરથી આત્માની મિત્રતા અને ૪ વ્યુત્સર્ગ-અસગપણું, લ્યાગ. શુદ્ધધ્યાનની ચાર ભાવનાઓ છે, તે આ પ્રમાણે—૧ સંસારના અનંતવૃત્તિપણા સવંધે વિચાર, ૨ પ્રત્યેક ક્ષણે વસ્તુઓમા યતા વિપરિણામ સવંધે વિચાર, ૩ સંસારના અશુભપણા સવંધે ચિંતન અને ૪ હિસાદિ જન્ય અનર્થોનો વિચાર. એ રીતે ધ્યાન સવંધે કહ્યું.

૧૪૯. [પ્ર૦] વ્યુત્સર્ગ કેટલા પ્રકારે છે ? [ઉ૦] વ્યુત્સર્ગના વે પ્રકાર છે. તે આ પ્રમાણે—દ્રવ્યવ્યુત્સર્ગ અને ભાવવ્યુત્સર્ગ.

૧૫૦. [પ્ર૦] દ્રવ્યવ્યુત્સર્ગ કેટલા પ્રકારે છે ? [ઉ૦] દ્રવ્યવ્યુત્સર્ગના ચાર પ્રકાર કહ્યા છે. તે આ પ્રમાણે—૧ ગણવ્યુત્સર્ગ, ૨ શરીરવ્યુત્સર્ગ, ૩ ઉપવિવ્યુત્સર્ગ અને ૪ આહાર-પાણીનો વ્યુત્સર્ગ. (વ્યુત્સર્ગ-અસગપણું, લ્યાગ.) એ રીતે દ્રવ્યવ્યુત્સર્ગ કહ્યો.

૧૫૧. [પ્ર૦] ભાવવ્યુત્સર્ગ કેટલા પ્રકારે છે ? [ઉ૦] ભાવવ્યુત્સર્ગના ત્રણ પ્રકાર છે. તે આ પ્રમાણે—૧ કપાયવ્યુત્સર્ગ, ૨ સંસારવ્યુત્સર્ગ અને ૩ કર્મવ્યુત્સર્ગ.

૧૫૨. [પ્ર૦] કપાયવ્યુત્સર્ગના કેટલા પ્રકાર છે ? [ઉ૦] કપાયવ્યુત્સર્ગના ચાર પ્રકાર છે. તે આ પ્રમાણે—૧ ક્રોધવ્યુત્સર્ગ, ૨ માનવ્યુત્સર્ગ, ૩ માયાવ્યુત્સર્ગ અને ૪ લોભવ્યુત્સર્ગ એમ કપાયવ્યુત્સર્ગ કહ્યો.

૧૫૩. [પ્ર૦] સંસારવ્યુત્સર્ગના કેટલા પ્રકાર છે ? [ઉ૦] સંસારવ્યુત્સર્ગના ચાર પ્રકાર કહ્યા છે. તે આ પ્રમાણે—૧ નૈરથિકસંસારવ્યુત્સર્ગ, અને યાવત્-૪ દેવસંસારવ્યુત્સર્ગ. એ રીતે સંસારવ્યુત્સર્ગ કહ્યો

૧૫૪. [પ્ર૦] કર્મવ્યુત્સર્ગના કેટલા પ્રકાર છે ? [ઉ૦] કર્મવ્યુત્સર્ગના આઠ પ્રકાર કહ્યા છે. તે આ પ્રમાણે—૧ જ્ઞાનાવરણીય-કર્મવ્યુત્સર્ગ અને યાવત્-૮ અતરાયકર્મવ્યુત્સર્ગ. એ પ્રમાણે કર્મવ્યુત્સર્ગ કહ્યો. એ રીતે ભાવવ્યુત્સર્ગ વિષે પણ કહ્યું, અને એ પ્રમાણે અર્થ્યંતર તપ સવંધે કહ્યું. 'હે ભગવન્ ! તે એમજ છે, હે ભગવન્ ! તે એમજ છે'—એમ કહી યાવત્-વિહરે છે.

પચીશમા શતક્રમાં સપ્તમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત.

અટ્ટમો ઉદ્દેસો.

૧. [પ્ર૦] રાયગિહે જાવ-એવં વયાસી-નેરદ્વયા ણં મંતે ! કહં ઉચ્ચજ્ઞંતિ ? [ઉ૦] સે જહાનામપ પવપ પવમાણે અજ્ઞ-વસાણનિદ્વચ્છિપ્પં કરણોચાપ્પં સેયકાલે તં ઠાણં વિપ્પજહિત્તા પુરિમં ઠાણં ઉચ્ચસંપજ્ઞિત્તા ણં વિહરદ્, યવામેવ યપ્પ વિ જીવા પવથો વિવ પવમાણા અજ્ઞવસાણનિદ્વચ્છિપ્પં કરણોચાપ્પં સેયકાલે તં મવં વિપ્પજહિત્તા પુરિમં મવં ઉચ્ચસંપજ્ઞિત્તા ણં વિહરન્તિ ।

અષ્ટમ ઉદ્દેશક.

૧ [પ્ર૦] રાજગૃહ નગરમા યાવત્—[ભગવાન્ ગૌતમ] આ પ્રમાણે વોલ્યા કે, હે ભગવન્ ! નૈરથિકો કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે ? [ઉ૦] જેમ કોઈ એક કૂદનારો કૂદતો કૂદતો અધ્યવસાય-ઈચ્છાજન્ય કરણ-ક્રિયાના સાધન-વડે તે સ્થળને તજીને મધિપ્યમા આગલના વીજા સ્થાનને મેઝવીને વિહરે છે એજ રીતે એ જીવો પણ કૂદનારાની પેઠે કૂદતા કૂદતા અધ્યવસાય-પરિણામ જન્ય (કર્મરૂપ) ક્રિયાના સાધનથી તે મથને છોડી દઈને મધિપ્યમા મેઝવવા યોગ્ય આગલના મથને મેઝવીને વિહરે છે.

નારથીની ઉચ્છિ

२. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं क्हं सीहा गती, क्हं सीहे गतिविसए पन्नत्ते ? [उ०] गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे तरुणे वल्लवं-एवं जहा चोइसमसए पढमुद्देसए जाव-तिसमएण वा विग्गहेणं उववज्जंति, तेसि णं जीवाणं तहा सीहा गई, तहा सीहे गतिविसए पन्नत्ते ।

३. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा क्हं परभवियाउयं पकरेंति ? [उ०] गोयमा ! अज्झवसाणजोगनिच्चत्तिपणं करणोवापणं एवं खलु ते जीवा परभवियाउयं पकरेन्ति ।

४. [प्र०] तेसि णं भंते ! जीवाणं क्हं गती पवत्तइ ? [उ०] गोयमा ! आउक्खएणं, भवक्खएणं, टिइक्खएणं, एवं खलु तेसि जीवाणं गती पवत्तति ।

५. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं आयहीए उववज्जंति, परिहीए उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! आइहीए उववज्जंति, नो परिहीए उववज्जंति ।

६. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं आयकम्मुणा उववज्जंति, परकम्मुणा उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! आयकम्मुणा उववज्जंति, नो परकम्मुणा उववज्जंति ।

७. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं आयप्पयोगेणं उववज्जंति, परप्पयोगेणं उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! आयप्पयोगेणं उववज्जंति, नो परप्पयोगेणं उववज्जंति ।

८. [प्र०] असुरकुमारा णं भंते ! क्हं उववज्जंति ? [उ०] जहा नेरतिया तहेव निरवसेसं, जाव-नो परप्पयोगेणं उववज्जंति । एवं एग्गिदियवज्जा जाव-वेमाणिया । एग्गिदिया एवं चेव । नवरं चउसमइओ विग्गहो, सेसं तं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति जाव-विहरइ ।

पणवीसइमे सए अट्टमो उद्देशो समत्तो ।

२. [प्र०] हे भगवन् ! ते नारकोनी गति केवी शीघ्र होय छे अने तेओनो गतिविषय केवो शीघ्र होय छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम कोइ पुरुष तरुण अने बलवान् होय-इत्यादि *चौदमा शतकना पहेला उद्देशकमां कह्या प्रमाणे जाणवुं. यावत्-ते त्रण समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय छे, तेम ते जीवोनी तेवी शीघ्रगति छे अने ते प्रकारे ते जीवोनी शीघ्र गतिविषय छे. नारकोनी गति.

३. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो कया प्रकारे परभवतुं आयुष बांधे ? [उ०] हे गौतम ! ते जीवो पोताना परिणामरूप अने मन वगेरेना व्यापाररूप करणोपाय-कर्मबंधना हेतु-द्वारा परभवतुं आयुष बांधे छे. परभवयायुषबंधन कारण

४. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवोनी गति शायी प्रवर्ते छे ? [उ०] हे गौतम ! ते जीवोना आयुषनो क्षय थवाथी, ते जीवोना भवो क्षय थवाथी अने ते जीवोनी स्थितिना नाश थवाथी ते जीवोनी गति प्रवर्ते छे. ते जीवोनी गति

५. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो शुं पोतानी ऋद्धिथी-शक्तिथी उपजे छे के पारकी ऋद्धिथी उपजे छे ? [उ०] हे गौतम ! ते जीवो पोतानी ऋद्धिथी उपजे छे, पण परनी ऋद्धिथी उपजता नथी. कारण

६. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो शुं पोताना कर्मथी उपजे छे के पारका कर्मथी उपजे छे ? [उ०] हे गौतम ! ते जीवो पोताना कर्मथी उपजे छे, पण पारका कर्मथी नथी उपजता. उत्पत्तिदु कारण स्वीय कर्म के परकीय कर्म.

७. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो शुं पोताना प्रयोग-व्यापारथी उपजे छे के पारका प्रयोगथी उपजे छे ? [उ०] हे गौतम ! ते जीवो पोताना प्रयोगथी उपजे छे, पण पारका प्रयोगथी उपजता नथी. उत्पत्तिदु कारण स्वप्रयोग के परप्रयोग ?

८. [प्र०] हे भगवन् ! असुरकुमारो केवी रीते उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जेम नैरयिक विषे कहुं तेम वधुं असुरकुमार संबंधे पण जाणवुं, यावत्-'तेओ पोताना प्रयोगथी उत्पन्न थाय छे, पण परप्रयोगथी उत्पन्न थता नथी'. ए प्रमाणे एकेद्रिय सिवाय यावत्-वैमानिक सुधी बधा जीवो सबंधे समजवुं. एकेद्रियो विषे पण तेज प्रकारे जाणवुं, मात्र विशेष ए के, तेओनी विग्रहगति चार समयनी होय छे. वाकी वधुं तेज प्रमाणे जाणवु. 'हे भगवन् ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'-एम कही यावत्-विहरे छे. असुरकुमारनी उत्पत्ति केम थाय ?

पचीशमा शतकमां आठमो उद्देशक समाप्त.

नवमो उद्देशो ।

१. [प्र०] भवसिद्धियनेरइया णं भंते ! कहं उचवज्जंति ? [उ०] गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणे—अवसेसं तं चेव, जाव—वेमाणिए । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

पणवीसइमे सए नवमो उद्देशो समत्तो ।

नवमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! भवसिद्धिक नैरयिको केवी रीते उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! 'जेम कोइ एक कूदनारो कूदतो कूदतो'—इत्यादि पूर्वोक्त समजवुं. वाकी वधुं ते ज रीते यावत्—वैमानिक सुधी समजवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'—एम कही यावत्—विहरे छे.

पचीशमा शतकमां नवमो उद्देशक समाप्त.

दसमो उद्देशओ ।

१. [प्र०] अभवसिद्धियनेरइया णं भंते ! कहं उचवज्जंति ? [उ०] गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणे—अवसेसं तं चेव, एवं जाव—वेमाणिए । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

पणवीसइमे सए दसमो उद्देशो समत्तो ।

दसमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! अभवसिद्धिक नैरयिको केवी रीते उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! 'जेम कोइ एक कूदनारो कूदतो कूदतो'—इत्यादि वाकीनुं वधुं पूर्वोक्त जाणवुं, अने ए रीते यावत्—वैमानिक सुधी समजवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

पचीशमा शतकमां दसमो उद्देशक समाप्त.

एक्कारसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] सम्मदिट्टिनेरइया णं भंते ! कहं उचवज्जंति ? [उ०] गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणे—अवसेसं तं चेव, एवं एंगिदियवज्जं जाव—वेमाणिया । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

पणवीसइमे सए एक्कारसमो उद्देशो समत्तो ।

अगियारसो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! सम्यग्दृष्टि नैरयिको केवी रीते उपजे ? [उ०] हे गौतम ! जेम कोई कूदनार कूदतो कूदतो—इत्यादि वाकीनुं वधुं पूर्वोक्त जाणवुं. ए प्रमाणे एकेन्द्रिय सिचाय यावत्—वैमानिक सुधी जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

पचीशमा शतकमां अगियारसो उद्देशक समाप्त.

चारसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] मिच्छदिट्टिनेरइया णं भंते ! कहं उचवज्जंति ? [उ०] गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणे—अवसेसं तं चेव, एवं जाव—वेमाणिए । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

पणवीसतिमे सए चारसमो उद्देशो समत्तो ।

पणवीसइमं सयं समत्तं ।

चारसो उद्देशक.

१. [प्र०] मिथ्यादृष्टि नैरयिको केवी रीते उपजे ? [उ०] हे गौतम ! जेम कोई कूदनार कूदतो कूदतो—इत्यादि वाकीनुं वधुं वैमानिक सुधी जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

पचीशमा शतकमां चारसो उद्देशक समाप्त.

पचीशमुं शतक समाप्त.

भवसिद्धिक नैरयिको
कनी उत्पत्ति.

अभवसिद्धिक नैरयिको
कनी उत्पत्ति.

सम्यग्दृष्टि नैरयिको
उत्पत्ति.

मिथ्यादृष्टि नैरयिको
केम उपजे ?

छवीसतिमं सयं ।

नमो सुयदेवयाए भगवईए ।

१ जीवा य २ लेस्स ३ पक्खिखय ४ दिट्ठि ५ अन्नाण ६ नाण ७ सन्नाओ ।
८ वेय ९ कसाए १० उवओग ११ जोग १२ एक्कारस वि ठाणा ॥

पढमौ उद्देशो ।

१. [प्र०] तेणं कालेणं तेणं समणं रायगिहे जाव—एवं वयासी—जीवे णं भंते ! पावं कम्मं किं वंधी वंधइ वंधिस्सइ १; वंधी वंधइ ण वंधिस्सइ २; वंधी न वंधइ वंधिस्सइ ३; वंधी न वंधइ न वंधिस्सइ ४ ? [उ०] गोयमा ! अत्येगतिए वंधी वंधइ वंधिस्सइ १, अत्येगतिए वंधी वंधइ ण वंधिस्सइ २, अत्येगतिए वंधी ण वंधइ वंधिस्सइ ३, अत्येगतिए वंधी ण वंधइ ण वंधिस्सइ ४ (१) ।

२. [प्र०] सलेस्से णं भंते ! जीवे पावं कम्मं किं वंधी वंधइ वंधिस्सइ १, वंधी वंधइ ण वंधिस्सइ २—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अत्येगतिए वंधी वंधइ वंधिस्सइ १, अत्येगतिए—एवं चउभंगो ।

छवीशमुं शतक

आ शतकमां अगियार उद्देशको छे अने तेमां प्रलेक उद्देशके (१) जीवो, (२) लेस्याओ, (३) पाक्षिको (शुक्लपाक्षिको अने कृष्णपाक्षिको), (४) दृष्टि, (५) अज्ञान, (६) ज्ञान, (७) सज्ञा, (८) वेद, (९) कपाय, (१०) योग अने (११) उपयोग—एम अगियार स्थानो—विपयोने आश्रयी बन्धवक्तव्यता कहेवानी छे.

प्रथम उद्देशक.

[सामान्य जीव अने नैरयिकादि चोवीश दंडकने आश्रयी उपर कहेला अगियार द्वारवडे पापकर्म अने ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मनी बन्धवक्तव्यता—]

१. [प्र०] ते काले, ते समये राजगृह नामना नगरमां [भगवान् गौतम] यावत्—आ प्रमाणे वोल्या—हे भगवन् ! शुं जीवे पापकर्म वांध्युं, वांधे छे अने वांधशे ? २ अथवा शुं जीवे पापकर्म वांध्युं, वांधे छे अने नहीं वांधशे ? ३ अथवा शुं जीवे पापकर्म वांध्युं, नथी वांधतो अने वांधशे ? अथवा ४ शुं जीवे पापकर्म वांध्युं, नथी वांधतो अने नहीं वांधशे ? [उ०] हे गौतम ! १ *कोइ जीवे पापकर्म वांध्युं छे, वांधे छे अने वांधशे, २ कोइ जीवे पापकर्म वांध्युं छे, वांधे छे अने वांधशे नहीं, ३ कोइ जीवे पाप कर्म वांध्युं छे, नथी वांधतो अने वांधशे तथा ४ कोइ जीवे पाप कर्म वांध्युं छे, नथी वांधतो अने वांधशे नहीं.

२. [प्र०] हे भगवन् ! शुं लेस्यावाळा जीवे पापकर्म वांध्युं छे, वांधे छे अने वांधशे ? अथवा शुं तेणे पाप कर्म वांध्युं छे, वांधे छे अने वांधशे नहीं—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कोइ लेस्यावाळो जीव पाप कर्म वांधतो हतो, वांधे छे अने वांधशे—इत्यादि चार भांगा जाणवा.

१ जीवद्वार—
सामान्य जीवने
आश्रयी पापकर्मनी
बन्धवक्तव्यता.

२ लेस्याद्वार—
सलेस्य जीवने
आश्रयी बन्ध.

१ * तेमां प्रथम भंग अभव्यने आश्रयी छे जे क्षपकत्वने प्राप्त थवानो छे एवा भव्य जीवने आश्रयी बीजो भंग छे. जेणे मोहनो उपशम कर्यो छे एवा जीवने आश्रयी बीजो भंग छे अने चोयो भग क्षीणमोहनो अपेक्षाए छे

३. [प्र०] कण्ठलेस्ते णं भंते ! जीवे पावं कम्मं किं वंधी-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अत्येगतिए वंधी वंधइ वंधिस्सइ, अत्येगतिए वंधी वंधइ न वंधिस्सइ, एवं जाव-पम्हलेस्ते । सद्यत्थ पढम-वितियमंगा । सुक्खलेस्से जहा सलेस्से तहेव चउभंगो ।

४. [प्र०] अलेस्से णं भंते ! जीवे पावं कम्मं किं वंधी-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! वंधी न वंधइ न वंधिस्सइ (२) ।

५. [प्र०] कण्ठपन्निषणं णं भंते ! जीवे पावं कम्मं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अत्येगतिए वंधी० पढम-वितिया मंगा ।

६. [प्र०] सुक्खपन्निषणं णं भंते ! जीवे-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! चउभंगो भाणियद्यो (३) ।

७. सम्महिट्ठीणं चत्तारि मंगा, मिच्छादिट्ठीणं पढम-वितिया, सम्मामिच्छादिट्ठीणं एवं चेव (४) ।

८. नाणीणं चत्तारि मंगा, आभिणियोहियणाणीणं जाव-मणपज्जवणाणीणं चत्तारि मंगा; केवलनाणीणं चरमो मंगो जहा अलेस्साणं (५) । अन्नाणीणं पढम-वितिया, एवं मइअन्नाणीणं, सुयअन्नाणीणं चिमंगणाणीणं चि (६) ।

९. आहारसन्नोवउत्ताणं जाव-परिग्गहसन्नोवउत्ताणं पढम-वितिया, नोसन्नोवउत्ताणं चत्तारि (७) ।

३. [प्र०] हे भगवन् ! शुं कृष्णलेस्यावाळा जीव पूर्वे पापकर्म वाधतो हतो वाधे छे अने वांघशे-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! कोइ जीव पापकर्म वांघतो हतो, वाधे छे अने वाधशे अने कोइ जीव पाप कर्म वाधतो हतो, वाधे छे अने वाधशे नहि. ए प्रमाणे यावत्-पद्मलेस्यावाळा जीव सुधी समजवुं. वधे स्थले पहेलो अने वीजो-एम वे भागा जाणवा. शुप्रलेस्यावाळाने लेस्यावाळा जीव न्वन्वे जेम *कहुं छे तेम चारे भांगा कहेवा.

४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं लेस्यारहित जीवे पाप कर्म वांध्यु हतुं-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! ते जीव पूर्वे पाप कर्म वांधतो हतो, अल्लारे नथी वांधतो अने वांधशे नहिं.

५. [प्र०] हे भगवन् ! शुं कृष्णपाक्षिक जीव पूर्वे पाप कर्म वाधतो हतो-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! कृष्णपाक्षिक कोइ जीव पूर्वे पाप कर्म वाधतो हतो, वाधे छे अने वाधशे-ए रीते पहेलो अने वीजो भागो जाणवो.

६. [प्र०] हे भगवन् ! शुं शुक्रपाक्षिक जीव पाप कर्म वाधतो हतो-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! पूर्वोक्त चारे भागा कहेवा.

७. सम्यग्दृष्टि जीवोने चारे भागा अने मिथ्यादृष्टिजीवोने पहेलो अने वीजो-एम वे भागा कहेवा. तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोने विषे पण एमज जाणवुं.

८. ज्ञानीने चार भांगा, आभिनिवोधिक-मतिज्ञानी अने यावत्-मनःपर्यवज्ञानीने चार भांगा कहेवा, केवलज्ञानीने लेस्यारहित जीवनी पेठे एक छेळो भागो कहेवो. अज्ञानी सवंधे पहेला वे भांगा, अने ए रीते मतिअज्ञानी, श्रुतअज्ञानी तथा विमंगजानीने पण वे भागा जाणवा.

९. आहारसंज्ञाधी माडी यावत्-परिग्रहसंज्ञामा उपयुक्त जीवोने प्रथम अने वीजो भांगो समजवो. नोसंज्ञामां उपयुक्त जीवोने चारे भागा जाणवा.

३ * सलेस्य जीवने चारे भागा होय छे, कारण के शुक्रलेस्यावाळा जीवो पापकर्मना बन्धक पण होय छे कृष्णादि पाच लेस्यावाळाने प्रथमना वे ज भागा होय छे, कारण के तेने वर्तमानकाले मोहनीयरूप पापकर्मना क्षय के उपशम नथी, तेथी तेने छेला वे भागा नथी होता

५ † जे जीवोने अर्धपुद्गलपरावर्तकालधी अधिक सत्तार वाकी छे ते कृष्णपाक्षिक अने जेने अर्धपुद्गलपरावर्तकी अधिक संसार वाकी नथी पण तेनी अदर जे मोक्षे जवाना छे ते शुक्रपाक्षिक कहेवाय छे तेमा कृष्णपाक्षिकने आदिना वे भागा होय छे केमके वर्तमानकाले तेनामा पापकर्मनुं अवन्धकपणुं नथी शुक्रपाक्षिकने चारे भागा होय छे—१ पापकर्म वाधु हतुं, वाधे छे अने वाधशे—आ प्रथम भग प्रथमसमयनी अपेक्षाए अनन्तर (तुरतना) भविष्य समयने आश्रयी छे २ वाधु हतुं, वाधे छे अने वाधशे नहिं—आ वीजो मंग पछीना भविष्य समयमा क्षपकपणानी प्राप्तिनी अपेक्षाए जाणवो. ३ वाधु हतुं, वाधतो नथी पण वाधशे—आ वीजो भग जे मोहनीय कर्मनो उपशम करी पछी पटवानो होय तेनी अपेक्षाए छे, अने ४ 'वाधु हतु वाधतो नथी अने वाधशे नहिं'—आ चोथो भग क्षपकपणानी अपेक्षाए होय छे

६ ‡ कृष्णपाक्षिकने 'वाधशे नहिं' ए अशानो असभव होवा छता पण वीजो भागो मानेको छे तो शुक्रपाक्षिकने उपर कहेल 'वांधशे नहिं'—ए अशानो अवश्य समव होवाधी 'वाधशे' ए अशपटित प्रथम भागो केम घटे ? आ प्रश्नना उत्तरमा शुक्रपाक्षिकने प्रथमसमयना अनन्तर (पछीना) समयनी अपेक्षाए प्रथम भागो, अने कृष्णपाक्षिकने वाकीना समयनी अपेक्षाए वीजो भागो होय छे

७ ¶ सम्यग्दृष्टि जीवोने शुक्रपाक्षिकनी पेठे चारे भागा होय छे, अने मिथ्यादृष्टि तथा मिथ्यादृष्टिने आदिना बेज भागा होय छे कारण के तेओने मोहनो बन्ध होवाधी छेला वे भागा होता नथी

८ § केवलज्ञानीने वर्तमान अने भविष्यकालमा बन्ध यतो नथी तेथी तेने एक छेळो भागो होय छे

§ अज्ञानीने मोहनीय कर्मनो क्षय अने उपशम नहि होवाधी पहेलो अने वीजो भागो होय छे

९ || आहारसंज्ञा-आसक्तिवाळा जीवोने क्षपकपणुं अने उपशमकपणुं नहि होवाधी पहेलो अने वीजो भागो होय छे नोसंज्ञामा—आहारसंज्ञा-आहारसंज्ञामा उपयोगवाळा जीवोने मोहनीयनो क्षय तथा उपशमनो संभव होवाधी चारे भांगाओ समवे छे.

लेस्यारहित जीवने बन्ध.

३ पाक्षिकद्वार-कृष्ण पाक्षिकने आश्रयी बन्ध.

शुक्रपाक्षिकने आश्रयी बन्ध.

४ दृष्टिद्वार-

५-६ ध्यान कने अशान-

७ संज्ञाद्वार-

१०. सवेदगाणं पढम-वितिया । एवं इत्थिवेदगा, पुरिसवेदगा, नपुंसगवेदगा वि । अवेदगाणं चत्तारि (८) ।

११. [प्र०] सकसाईणं चत्तारि, कोहकसाईणं पढम-वितिया भंगा, एवं माणकसायिस्स वि, मायाकसायिस्स वि । लोभकसायिस्स चत्तारि भंगा ।

१२. [प्र०] अकसायी णं भंते ! जीवे पावं कम्मं किं वंधी-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अत्येगतिए वंधी न वंधइ वंधि-स्सइ ३, अत्येगतिए वंधी ण वंधइ ण वंधिस्सइ ४ (९) ।

१३. [प्र०] सजोगिस्स चउभंगो, एवं मणजोगिस्स वि, वइजोगिस्स वि, कायजोगिस्स वि । अजोगिस्स चरिमो (१०) । सागारोवउत्ते चत्तारि, अणागारोवउत्ते वि चत्तारि भंगा (११) ।

१४. [प्र०] नेरइए णं भंते ! पावं कम्मं किं वंधी वंधइ वंधिस्सइ ? [उ०] गोयमा ! अत्येगतिए वंधी० पढम-वितिया ।

१५. [प्र०] सलेस्से णं भंते ! नेरतिए पावं कम्मं- ? [उ०] एवं चेव । एवं कणहलेस्से वि, नीललेस्से वि, काउलेस्से वि । एवं कणहपक्खिए, सुक्कपक्खिए, सम्मदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, सम्मामिच्छादिट्ठी, णाणी, आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिणाणी; अन्नाणी, मइअन्नाणी, सुयअन्नाणी विभंगनाणी; आहारसन्नोवउत्ते जाव-परिग्गहसन्नोवउत्ते, सवेदए, नपुंसकवेदए, सकसायी जाव-लोभकसायी, सजोगी, मणजोगी, वयजोगी, कायजोगी, सागरोवउत्ते, अणागारोवउत्ते-एएसु सवेसु पदेसु पढम-वितिया भंगा भाणियद्या । एवं असुरकुमारस्स वि वत्तद्यया भाणियद्या, नवरं तेउलेस्सा, इत्थिवेयग-पुरिसवेयगा य अचम-

१०. * वेदवाळा जीवोने पहेलो अने वीजो-एम वे भागा जाणवा. अने ए रीते स्त्रीवेदवाळा, पुरुषवेदवाळा तथा नपुंसकवेदवाळाने पण जाणवुं. वेद विनाना जीवोने चारे भागा जाणवा. < वेदद्वार-

११. किपायवाळा जीवोने चारे भागा जाणवा, क्रोधकपायवाळा जीवोने पहेला वे भागा जाणवा. ए रीते मानकपायवाळा अने मायाकपायवाळाने पण समजवुं. लोभकपायवाळाने चार भागा समजवा. ९ कपायद्वार-

१२. [प्र०] हे भगवन् ! शुं अकपायी जीवे पूर्वे पाप कर्म वांध्युं हतुं-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! कोइ अकपायी जीव पूर्व्वे पाप कर्म वाधतो हतो, अत्यारे वांधतो नथी अने वाधशे. अथवा कोइ अकपायी जीव पाप कर्म वाधतो हतो, वाधतो नथी अने वांधशे पण नही.

१३. *सयोगी जीवने चार भागा जाणवा. ए रीते मनयोगवाळा, वचनयोगवाळा अने काययोगवाळा जीवने पण समजवुं. अयोगीने छेछो भागो कह्यो. साकार उपयोग अने अनाकार उपयोगवाळाने चारे भागा जाणवा. १०-११ योग अने उपयोग-

१४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं नैरयिक जीव पापकर्म वाधतो हतो, वाधे छे अने वाधशे ? [उ०] हे गौतम ! कोइ नैरयिक पाप कर्म वाधतो हतो-इत्यादि पहेलो अने वीजो भागो जाणवो. नैरयिकादि दृष्टकने आश्रयी पापकर्मनी वन्धवक्तव्यता.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! शुं लेइयावाळो नैरयिक पाप कर्म वाधतो हतो-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! एज रीते पूर्व्वोक्त प्रथमना वे भागा जाणवा. ए प्रमाणे कृष्णलेइयावाळा, नीललेइयावाळा, कापोतलेइयावाळा, कृष्णपाक्षिक, शुक्लपाक्षिक, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्या-दृष्टि, ज्ञानी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, अज्ञानी, मतिअज्ञानी, श्रुतअज्ञानी, विभगज्ञानी, आहारसंज्ञामा उपयोगवाळा, यावत्-परिग्रहसंज्ञामा उपयोगवाळा, वेदवाळा, नपुंसकवेदवाळा, कपायवाळा, यावत्-लोभकपायवाळा, सयोगी, मनयोगी, वचनयोगी, काययोगी,

१० * वेदनो उदय होय त्या सुधी जीवने मोहनीयनो क्षय अने उपशम नहिं यतो होवाथी प्रथमना वे भागा होय छे. वेदरहितने पोतानो वेद उपशान्त थाय ल्यारे मोहनीयरूप पाप कर्मने सूक्ष्मसपराय प्राप्त न थाय सुधी वाधे छे अने वाधगे, अथवा त्याथी पढीने पण वाधगे १. वेद क्षीण थया पछी पाप कर्म वाधे छे पण सूक्ष्मसपरायादि अवस्थामा वावतो नथी २ उपशान्तवेद सूक्ष्मसपरायादि अवस्थामा पाप कर्म वाधतो नथी, पण त्याथी पढीने वाधे छे ३. वेद क्षीण थया पछी सूक्ष्मसपरायादि गुणस्थानके वाधतो नथी अने पछी वावशे पण नहिं ४.

११ † सकपायीने चार भागा होय छे तेमा प्रथम भंग अभव्यने अने वीजो भग जेने मोहनीयकर्मनो क्षय थवानो छे एवा भव्यने आश्रयी छे. उपशमक सूक्ष्मसपरायने अपेक्षी त्रीजो भग अने क्षपक सूक्ष्मसपरायने अपेक्षी चतुर्थ भग होय छे एम लोभकपायीने पण समजवुं क्रोधकपायीने पहेलो अने वीजो ए वे भंग ज होय छे तेमा प्रथम भंग अभव्यने अने वीजो भंग भव्यविशेषने आश्रयी छे तेने त्रीजो अने चौथो भागो नथी, कारण के क्रोधनो उदय होय ल्यारे अवन्धकपणु होतुं नथी.

१२ ‡ 'वांध्युं हतुं, वाधतो नथी अने वाधशे'-ए भागो अकपायीने उपशमक आश्रयी होय छे, अने वांध्यु हतुं, वावतो नथी अने वाधशे नहिं'-ए भंग क्षपक आश्रयी जाणवो

१३ ¶ सयोगी अभव्य, भव्यविशेष, उपशमक अने क्षपकने आश्रयी क्रमश चारे भागा जाणवा अयोगीने पापकर्म वंधातुं नथी तेम वंधावातुं पण नथी, माटे एक छेछो भागो होय छे

१४ § नारकने उपशमश्रेणि अने क्षपकश्रेणि नहिं होवाथी प्रथमना वे भागा होय छे एम सलेइय-इत्यादि विशेषण युक्त नारकपद जाणवु ए रीते असुरकुमारादिने पण जाणी लेवुं

હિયા, નપુંસગવેદગા ન મન્તંતિ, સેસં તં ચેચ, સદ્યત્ય પદમ-વિતિયા મંગા । एवं जाव-थणियकुमारस्त । एवं पुढविकाइयस्स चि, आउकाइयस्स चि, जाव-पंचिदियतिरिक्खजोणियस्स वि सद्यत्य वि पदम-वितिया मंगा, नवरं जस्स जा लेस्सा । दिट्ठी, णाणं, अन्नाणं, वेदो, जोगो य अत्थि तं तस्स भाणियद्धं, सेसं तद्देव । मणुनस्स ज च्चेव जीवपदे वत्तधया स च्चेव निर-वसेसा भाणियद्धा । चाणमंतरस्स जहा असुरकुमारस्स । जोइसियस्स वेमाणियस्स एवं च्चेव, नवरं लेस्साओ जाणियद्धाओ, सेसं तद्देव भाणियद्धं ।

૧૬. [પ્ર૦] જીવે ણં મંતે ! નાણાવરણિજં કમ્મં કિં વંધી વંધદ વંધિસ્સદ્-? [૩૦] एवं जदेव पावकम्मस्स वत्तधया तद्देव नाणावरणिजस्स वि भाणियद्धा, नवरं जीवपदे मणुस्तपदे य सकसाई, जाव-लोमकसाईमि य पदम-वितिया मंगा, अवसेसं तं च्चेव जाव-वेमाणिया । एवं दरिस्सणावरणिजेण वि दंडगो भाणियद्धो निरवसेसो ।

૧૭. [પ્ર૦] જીવે ણં મંતે ! વેયણિજં કમ્મં કિં વંધી-પુચ્છા । [૩૦] गोयमा ! अत्येगतिए वंधी वंधइ वंधिस्सइ १, अत्येगतिए वंधी वंधइ न वंधिस्सइ २, अत्येगतिए वंधी न वंधइ न वंधिस्सइ ४, सलेस्से वि एवं च्चेव ततियविट्ठणा मंगा । कण्ठलेस्से जाव-पट्टलेस्से पदम-वितिया मंगा, सुद्धलेस्से ततियविट्ठणा मंगा, अलेस्से चरिमो मंगो । कण्ठपत्तियए पदम-

સાકાર ઉપયોગવાળા અને અનાકાર ઉપયોગવાળા-૧ વર્ષા પદોમા પહેલો અને વીજો-૨ વે માંગા કહેવા. અર્થાત્ ૧ વ્યા પ્રકારના નૈરયિક જીવોને પ્રયમના વે માંગા કહેવા. અસુરકુમારને પણ ૧ પ્રમાણે વક્તવ્યતા કહેવી. પરન્તુ વિશેષ ૧ કે તેઓને તેજોલેદ્યા, સ્ત્રીવેદ અને પુરુષવેદ અધિક કહેવો અને નપુંસકવેદ ન કહેવો. વાકી વધું પૂર્વે કલા પ્રમાણે જાણવું. વચે પહેલો અને વીજો માંગો કહેવો. ૨ રીતે યાવત્-સ્તાનિતકુમાર સુધી જાણવું. ૨મ પૃથિવીકાવિક, અધ્યાત્મિક અને યાવત્-પંચેન્દ્રિય નિર્વચયોત્તિકને પણ સંવેદ્ય પહેલો અને વીજો-૨ વે માંગા જાણવા. પરન્તુ વિશેષ ૧ કે, જે જીવને જે લેદ્યા, દ્રષ્ટિ, જ્ઞાન, અજ્ઞાન, વેદ અને યોગ હોય તે તેને કહેવો, અને વાકી વધું તેજ પ્રમાણે જાણવું. મનુષ્યને જીવપદ સંવેદ્યે જે વક્તવ્યતા કહી છે તે વધી વક્તવ્યતા કહેવી. અસુરકુમારની પેટે વાનવ્યંતરને જાણવું. તયા પ્યોતિપિક અને વૈમાનિક સંવેદ્યે પણ ૧જ રીતે સમજવું. પરન્તુ વિશેષ ૧ કે અર્થા લેદ્યાઓ કહેવી અને વાકી વધું તે જ પ્રમાણે કહેવું.

૧૬. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! શું જીવે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ વાંચ્યું હતું વાધે છે અને વાંધશે ? [૩૦] हे गौतम ! जेम पाप कर्म संववे वक्तव्यता कही ते प्रमाणे ज्ञानावरणीय कर्म संववे पण कहेवी. परन्तु विशेष १ के, जीवपद અને મનુષ્યપદમાં સકાર્યા યાવત્-લોમ-કાર્યાને આશ્રયા 'પહેલો અને વીજો માંગો કહેવો. વાકી વધું તેમજ કહેવું. ૨ પ્રમાણે યાવત્-વૈમાનિક સુધી જાણવું. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો પેટે દર્શનાવરણીય કર્મનો પણ સંપૂર્ણ ઢંઢક કહેવો.

૧૭. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! શું જીવે વેદનીય કર્મ વાંચ્યું હતું, વાધે છે અને વાધશે-ટલાટિ પુચ્છા. [૩૦] हे गौतम ! १ कोइ जीवे वांच्युं हतुं, वाधे छे અને વાંધશે, ૨ કોટ જીવે વાચ્યું હતું, વાધે છે અને વાંધશે નહીં. ૪ કોટ જીવે વાચ્યું હતું, નથી વાધતો અને વાંધશે નહીં. ડિલ્હ્યાવાળા જીવને પણ ૧જ રીતે ત્રીજા મંગ સિવાય વાકીના ત્રણે માંગા જાણવા. 'કૃષ્ણલેદ્યાવાળા યાવત્-પદ્મલેદ્યાવાળા જીવોને પહેલો અને વીજો માંગો અને શુદ્ધલેદ્યાવાળા જીવોને ત્રીજા માંગા સિવાયના વાકીના (ત્રણે) માંગા જાણવા. લેદ્યારહિત જીવોને છેલ્લો માંગો જાણવો. કૃષ્ણપાક્ષિક જીવોને પહેલો અને વીજો અને શુદ્ધપદ્મવાળા જીવોને ત્રીજા માંગા સિવાયના વાકીના ત્રણે માંગા કહેવા. ૨ પ્રમાણે સમ્યદ્રષ્ટિ જીવને ત્રણે પણ જાણવું. મિથ્યાદ્રષ્ટિ અને સમ્યગ્મિથ્યાદ્રષ્ટિ સંવેદ્યે પહેલા વે માંગા જાણવા. જ્ઞાનોને ત્રીજા માંગા સિવાય વાકીના

૧૬ * પાપવર્મના દંટકમા જીવપદ અને મનુષ્યપદ સ્વયં સદ્યાપી અને લોમન્યાપીની અપેક્ષા સૂક્ષ્મચરણ મોહનીશરૂપ પાપવર્મનો અર્થક દેવાથી ચાર માંગા કયા હતા, પરન્તુ જ્ઞાનાવરણીયના દંટકમા પ્રયમના વે જ માંગા જાણવા કારણ વે સકાર્યા અવરૂ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો વંચક હોય છે, પણ અવન્યક હોતો નથી

૧૭ † વેદનીય કર્મને ત્રણે પહેલો માંગો અમલ્યને આશ્રયા છે, જે મલ્ય નિર્વાણ પામવાનો છે તેનો અપેક્ષા વીજો માંગો છે ત્રીજા માંગાનો સમવ નથી, કારણ કે વેદનીયનો અમલ્ય કરનાર પુન. તેનો વન્ય કરતો નથી, અને ચોથી માંગો અયોગી કેવલોને આશ્રયા હોય છે

‡ સલ્લેદ્ય જીવને પૂર્વોક હેતુથી ત્રીજા મંગ સિવાયના માંગા જાણવા પરન્તુ તેમા 'પૂર્વે વાચ્યું હતું, વાધતો નથી અને વાંધશે નહિ'-૨ ચોથો મંગ ઘટી શકતો નથી પણ આ મંગ લેદ્યારહિત અયોગીને જ ઘટે છે. કેમકે લેદ્યા તેમા શુભસ્થાનક પવન્ટ હોય છે, અને ત્યા સુધી તેઓ વેદનીય કર્મના વન્યક છે કોઈ આશ્રયા એવું નમાધાન કરે છે કે આજ સૂત્રના વચનથી અયોગીતાના પ્રથમ સમયે ઘંટાલાલા ન્યાયથી પરમશુદ્ધલેદ્યા સમવે છે, અને તેથી જ સલ્લેદ્યને ચોથો માંગો ઘટી શકે છે. તત્ત્વ વહુચુતગમ્ય-સીરા.

† કૃષ્ણાદિ પાંચ લેદ્યાવાળાને અયોગિપણાનો અમાવ હોવાથી તેઓ વેદનીય કર્મના અવધક નથી માટે તેઓને આદિના વે માંગા હોય છે. શુદ્ધલેદ્યા-વાળાને સલ્લેદ્યની જેમ ત્રણ માંગા હોય છે. લેદ્યારહિત સલ્લેદ્યીગત કેવલી અને સિદ્ધ હોય છે અને તેને 'પૂર્વે વાચ્યું હતું, વાધતો નથી અને વાંધશે નહિ' આ એક માંગો હોય છે કૃષ્ણપાક્ષિકને અયોગિપણાનો અમાવથી પ્રથમના વે માંગા હોય છે, અને શુદ્ધપાક્ષિક અયોગી પણ હોય છે માટે તેને ત્રીજા માંગા સિવાયના વાકીના માંગા હોય છે

‡ સમ્યદ્રષ્ટિને અયોગીપણાનો સમવ હોવાથી વન્ય થતો નથી, તેથી ત્રીજા સિવાયના માંગા હોય છે. મિથ્યાદ્રષ્ટિ અને મિથદ્રષ્ટિને અયોગિપણાનો અમાવથી વેદનીયનું અન્યકપણું નથી તેથી પ્રથમના વે જ માંગા હોય છે જ્ઞાનોને અને કેવલજ્ઞાનોને અયોગીપણામા છેલ્લો માંગો હોય છે, એટલે ત્રણ માંગા જાણવા આમિનિર્વોધિકાદિ જ્ઞાનવાક્યાના અયોગિપણાનો અમાવ હોવાથી છેલ્લે માંગો હોતો નથી, માત્ર તેને પ્રથમના વે માંગા હોય છે.

बितिया । सुक्कपक्खिया ततियविहूणा । एवं सम्मदिट्टिस्स वि; मिच्छादिट्टिस्स सम्मामिच्छादिट्टिस्स य पढम-बितिया । णाणिरस्स ततियविहूणा, आभिणिवोहियनाणी, जाव-मणपज्जवणाणी पढम-बितिया, केवलनाणी ततियविहूणा । एवं नोस-न्नोवउत्ते, अवेदए, अकसायी । सागारोवउत्ते अणागारोवउत्ते एएसु ततियविहूणा । अजोगिम्मि य चरिमो, सेसेसु पढम-बितिया ।

१८. [प्र०] नेरइए णं भंते ! वेयणिज्जं कम्मं वंधी वंधइ-? [उ०] एवं नेरतिया, जाव-वेमाणिय त्ति । जस्स जं अत्थि सच्चत्थ वि पढम-बितिया, नवरं मणुस्से जहा जीवे ।

१९. [प्र०] जीवे णं भंते ! मोहणिज्जं कम्मं किं वंधि वंधइ-? [उ०] जहेव पावं कम्मं तहेव मोहणिज्जं पि निरख-सेसं जाव-वेमाणिय ।

२०. [प्र०] जीवे णं भंते ! आउयं कम्मं किं वंधी वंधइ-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अत्थेगतिए वंधी-चउमंगो । सलेस्से, जाव-सुक्कलेस्से चत्तारि भंगा; अलेस्से चरिमो भंगो ।

२१. [प्र०] कण्हपक्खिए णं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अत्थेगतिए वंधी वंधइ वंधिस्सइ; अत्थेगतिए वंधी न वंधइ वंधिस्सइ । सुक्कपक्खिए सम्मदिट्टी मिच्छादिट्टी चत्तारि भंगा ।

२२. [प्र०] सम्मामिच्छादिट्टी-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अत्थेगतिए वंधी न वंधइ वंधिस्सइ; अत्थेगतिए वंधी न वंधइ न वंधिस्सइ; नाणी जाव-ओहिनाणी चत्तारि भंगा ।

२३. [प्र०] मणपज्जवनाणी-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अत्थेगतिए वंधी वंधइ वंधिस्सइ; अत्थेगतिए वंधी न वंधइ वंधिस्सइ; अत्थेगतिए वंधी न वंधइ न वंधिस्सइ । केवलनाणे चरिमो भंगो । एवं एएणं कमेणं नोसन्नोवउत्ते वितियविहूणा जहेव मणपज्जवनाणे । अवेदए अकसाई य ततिय-चउत्था जहेव सम्मामिच्छत्ते । अजोगिम्मि चरिमो, सेसेसु पदेसु चत्तारि भंगा जाव-अणागारोवउत्ते ।

त्रणे भांगा कहेवा. आभिनिवोधिकज्ञानी अने यावत् मनःपर्यवज्ञानीने पहेलो अने वीजो भांगो कहेवो, अने केवलज्ञानीने त्रीजा भांगा सिवाय बाकीना त्रणे भांगा कहेवा. ए प्रमाणे नोसंज्ञामां उपयुक्त, वेदरहित, अकपायी, साकार उपयोगवाळा अने अनाकार उपयोगवाळा-ए वधा जीवोने त्रीजा भांगा सिवाय बाकीना (त्रणे) भांगा कहेवा. अयोगी जीवने छेल्लो भांगो अने बाकी वधे स्थले पहेलो अने वीजो -एम वे भागा जाणवा.

१८. [प्र०] हे भगवन् ! शुं नैरयिक जीवे वेदनीय कर्म वांध्युं हतुं, वांधे छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] पूर्वं प्रमाणे जाणतुं. ए रीते नैरयिकोयी मांडी यावत्-वैमानिक सुधी जेने जे होय तेने ते कहेतुं. तथा वधे पहेलो अने वीजो भांगो समजवो. परन्तु विशेष ए के, जीवनी पेठे मनुष्यो संबंधे कहेतुं.

नैरयिकादिने आश-यी वेदनीय कर्मवन्ध.

१९. [प्र०] हे भगवन् ! शुं जीवे मोहनीय कर्म वांध्युं हतुं, वांधे छे अने वांधशे ? [उ०] जेम पापकर्म संबंधे कहुं तेम मोह-नीय कर्म संबंधे पण जाणतुं. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिक सुधी समजतुं.

मोहनीय कर्मवन्ध

२०. [प्र०] हे भगवन् ! शुं जीवे आयुप कर्म वांध्युं हतुं, वांधे छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! कोइ जीवे वांध्युं हतुं-इत्यादि चारे भागा जाणवा. लेस्यावाळा जीवो अने यावत्-शुक्कलेस्यावाळा जीवोने चार भांगा जाणवा, अने लेस्यारहित जीवने छेल्लो भांगो जाणवो.

आयुपकर्मवन्ध.

२१. [प्र०] कृष्णपाक्षिक संबंधे पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! कोइ जीवे आयुप वांध्युं हतुं, वांधे छे अने वांधशे. अथवा कोइ जीवे आयुप वांध्युं हतुं, नथी वांधतो अने वांधशे. शुक्कपाक्षिक, सम्यग्दृष्टि अने मिथ्यादृष्टि जीवोने चारे भांगा जाणवा.

२२. [प्र०] सम्यग्मिथ्यादृष्टि संबन्धे पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! कोइक मिथ्यादृष्टि जीवे आयुप वांध्युं हतुं, वांधतो नथी अने वांधशे, कोइक जीवे वांध्युं हतुं, नथी वांधतो अने वांधशे नहीं. ज्ञानी, यावत्-अवधिज्ञानीने चारे भागा कहेवा.

२३. [प्र०] मनःपर्यवज्ञानी संबन्धे पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! कोइक मनःपर्यवज्ञानीए आयुप वांध्युं हतुं, वांधे छे अने वांधशे. कोइए वांध्युं हतुं, नथी वांधतो अने वांधशे नहीं. केवलज्ञानीने छेल्लो भांगो जाणवो. एज प्रकारे ए क्रमवडे नोसज्ञामा उपयुक्त जीव संबंधे वीजा भागा सिवाय बाकीना त्रणे भांगा मनःपर्यायज्ञानीनी पेठे जाणवा. वेदरहित अने अकपायी जीवने सम्यग्मिथ्यादृष्टिनी पेठे त्रीजो अने चोयो भांगो कहेवो, अयोगीने विषे छेल्लो भांगो कहेवो अने बाकीना पदोने विषे चारे भांगा यावत्-अनाकार उपयोगवाळा जीव सुधी जाणवा.

२४. [प्र०] नेरइए णं भंते ! आउयं कम्मं किं वंधी-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अत्येगतिए चत्तारि भंगा, एवं सव्वत्थ वि नेरइयाणं चत्तारि भंगा, नवरं कण्हलेस्से कण्हपक्खिए य पढम-ततिया भंगा, सम्मामिच्छत्ते ततिय-चउत्था । असुरकु-मारे एवं चेव, नवरं कण्हलेस्से वि चत्तारि भंगा भाणियद्वा, सेसं जहा नेरइयाणं, एवं जाव-थणियकुमाराणं । पुढविक्काइयाणं सव्वत्थ वि चत्तारि भंगा, नवरं कण्हपक्खिए पढम-ततिया भंगा ।

२५. [प्र०] तेउलेस्से-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! वंधी न वंधइ वंधिस्सइ; सेसेसु सव्वत्थ चत्तारि भंगा । एवं आउक्काइय-वणस्सइकाइयाण वि निरवसेसं । तेउकाइय-वाउक्काइयाणं सव्वत्थ वि पढम-ततिया भंगा । वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं पि सव्वत्थ वि पढम-ततिया भंगा । नवरं सम्मत्ते, नाणे, आभिणियोहियनाणे, सुयनाणे ततियो भंगो । पंचिंदियतिरिक्खजो-णियाणं कण्हपक्खिए पढम-ततिया भंगा, सम्मामिच्छत्ते ततिय-चउत्थो भंगो, सम्मत्ते, नाणे, आभिणियोहियनाणे, सुयनाणे, ओहिनाने एएसु पंचसु वि पदेसु वितियविहणा भंगा, सेसेसु चत्तारि भंगा । मणुस्साणं जहा जीवाणं । नवरं सम्मत्ते, ओहिए नाणे, आभिणियोहियनाणे, सुयनाणे, ओहिनाने एएसु वितियविहणा भंगा, सेसं तं चेव । वाणमंतर-जोइसिय-वेमा-णिया जहा असुरकुमारा । नामं गोयं अंतरायं च एयाणि जहा नाणावरणिजं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति जाव-विहरति ।

छवीसतिमे वंधिसए पढमो उद्देशओ समत्तो ।

२४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं नैरयिक जीवे आयुष कर्म वाच्यं हतुं-इत्यादि पृच्छा । [उ०] हे गौतम ! कोइए नैरयिक जीवे वाच्यं हतुं-इत्यादि चार भांगा कहेवा. ए प्रमाणे वधे ठेकाणे पण नैरयिको संबंधे चार भागा जाणवा. परन्तु विशेष ए के, कृष्णले-इयावाळा अने कृष्णपाक्षिकने पहेलो अने त्रीजो भागो जाणवो, सम्यग्मिथ्यादृष्टिमा त्रीजो अने चोयो भागो कहेवो. असुरकुमारोमां एज रीते जाणवुं, पण विशेष ए के कृष्णलेइयावाळा जीवोने चार भागा कहेवा. वाकी वधुं नैरयिकोनी पेटे समजवुं. ए रीते यावत्-स्तनित-कुमारो सुधी जाणवुं. पृथिवीकायिकोने वधे ठेकाणे चारे भागा कहेवा. पण विशेष ए के कृष्णपाक्षिकमा पहेलो अने त्रीजो भागो कहेवो.

२५. [प्र०] तेजोलेइयावाळा संबंधे प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! तेणे वाच्यं हतुं, बांधतो नथी अने वाधये. वाकी वधे स्थले चार भांगा कहेवा. ए प्रमाणे अथायिक अने वनस्पतिकायिकने पण वधुं जाणवुं. तेजस्कायिक अने वायुकायिकने विधे वधे परेलो अने त्रीजो भागो कहेवो. वेइंदिय, तेइंदिय अने चउरिंदियने वधे पहेलो अने त्रीजो भागो जाणवो. पण विशेष ए के, सम्यक्च, ज्ञान, आभिनिवोवि-कज्ञान अने श्रुतज्ञान संबंधे त्रीजो भांगो कहेवो. पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोने कृष्णपाक्षिक संबंधे पहेलो अने त्रीजो भागो कहेवो. सम्यग्मि-थ्यात्वमा त्रीजो अने चोयो भागो कहेवो. सम्यक्च, ज्ञान, आभिनिवोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान-ए पांचे पदोमा वीजा भांगा सित्रान वाकीना त्रणे भागा कहेवा, अने वाकीना पदोमा चारे भागा कहेवा. जेम जीवो संबंधे कहुं छे तेम मनुष्योने पण कहेवुं. पण विशेष ए के, सम्यक्च, औविक-सामान्य ज्ञान, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान अने अवधिज्ञान-ए वधा पदोमा वीजा भागा सित्राय वाकीना त्रणे भागा कहेवा; अने वाकी वधुं पूर्वोक्त जाणवुं. जेम असुरकुमारो संबंधे कहुं छे तेम वानव्यंतर, ज्योतिषिक अने वैमानिक संबंधे पण कहेवुं. जेम ज्ञानावरणीय कर्म संबंधे कहुं छे तेम नाम, गोत्र अने अंतराय संबंधे पण कहेवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'-एम कही यावत्-विहरे छे.

छवीशमा वंधिशतकमां प्रथम उद्देशक समाप्त ।

वीओ उद्देशो ।

१. [प्र०] अणंतरोवचन्नए णं भंते ! नेरइए पावं कम्मं किं वंधी-पुच्छा तद्देव । [उ०] गोयमा ! अत्येगतिए वंधी-पढम-वितिया भंगा ।

२. [प्र०] सलेस्से णं भंते ! अणंतरोवचन्नए नेरइए पावं कम्मं किं वंधी-पुच्छा [उ०] गोयमा ! पढम-वितिया भंगा, एवं खलु सव्वत्थ पढम-वितिया भंगा; नवरं सम्मामिच्छत्तं मणजोगो वइजोगो य न पुच्छिज्जइ । एवं जाव-थणियकुमाराणं । वेइं-

द्वितीय उद्देशक.

[अनन्तरोपपन्न नैरयिकादि चोवीश ढंडकोने आश्रयी उक्त अगियार द्वारोवडे पापकर्मादिनी बन्धवक्तव्यता-]

१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं अनन्तरोपपन्न नैरयिके पाप कर्म वाच्यं हतुं-इत्यादि पूर्ववत् पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! कोइए वाच्यं हतुं-इत्यादि पहेलो अने वीजो भागो कहेवो.

२. [प्र०] हे भगवन् ! शुं लेइयावाळा अनन्तरोपपन्न नैरयिके पापकर्म वाच्यं हतुं-इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! अहीं पहेलो अने वीजो भांगो कहेवो. एम लेइयादि वधा पदोमां पहेलो अने वीजो भागो कहेवो. पण सम्यग्मिथ्यात्व (मिश्रदृष्टि) मनो-

दिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं वयजोगो न भन्नइ । पंचिदियतिरिक्खज्जोगियाणं पि सम्मामिच्छत्तं,ओहिनाणं, विभंगनाणं,मणजोगो, वयजोगो-एयाणि पंच पदाणि ण भन्नंति । मणुस्साणं अलेस्स-सम्मामिच्छत्त-मणपज्जवणाण-केवलनाण-विभंगनाण-नोस-न्नोवउत्त-अवेदग-अकसायी-मणजोग-वयजोग-अजोगि-एयाणि एक्कारस पदाणि ण भन्नंति । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणि-याणं जहा नेरइयाणं तहेव ते तिन्नि न भन्नंति । सधेसिं जाणि सेसाणि ठाणाणि सधत्थ पढम-वितिया भंगा । एरिंदियाणं सधत्थ पढम-वितिया भंगा । जहा पावे एवं नाणावरणिज्जेण वि दंडओ, एवं आउयवज्जेसु जाव-अंतराइए दंडओ ।

३. [प्र०] अणंतरोववन्नप णं भंते ! नेरइए आउयं कम्मं किं वंधी-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! वंधी न वंधइ वंधिस्सइ ।

४. [प्र०] सलेस्से णं भंते ! अणंतरोववन्नप नेरइए आउयं कम्मं किं वंधी-? [उ०] एवं चेव ततिओ भंगो, एवं जाव-अणागारोवउत्ते । सधत्थ वि ततिओ भंगो । एवं मणुस्सवज्जं जाव-वेमाणियाणं । मणुस्साणं सधत्थ ततिय-चउट्या भंगा, नवरं कण्हपक्खिएसु ततिओ भंगो, सधेसिं नाणत्ताइं ताइं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

छवीसतिमे वंधिसए वीओ उद्देशो समत्तो ।

योग अने वचनयोग संबन्धे न *पूछुं. ए प्रमाणे यावत्-स्तनितकुमारो सुधी जाणुं. वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, अने चउरिन्द्रियने वचनयोग न कहेवो. पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोने सम्यग्मिध्यात्व, अवधिज्ञान, विभंगज्ञान, मनोयोग अने वचनयोग-ए पांच पदो न कहेवां. मनुष्योने अले-श्यपुं, सम्यग्मिध्यात्व, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान, विभंगज्ञान, नोसन्नोपयोग, अवेदक, अकपायित्व, मनोयोग, वचनयोग अने अयोगित्व-ए अगियार पदो न कहेवा. जेम नैरयिकोने कहुं छे तेम वानव्यंतर, ज्योतिपिक अने वैमानिकने पण पूर्वोक्त त्रण पद न कहेवा. चाकीनां वधा स्थाने पहेलो अने वीजो भांगो जाणवो. एकेन्द्रियने सर्वत्र पहेलो अने वीजो भांगो कहेवो. जेम पापकर्म संबन्धे कहुं तेम ज्ञानावरणीय कर्म संबन्धे पण दंडक कहेवो. ए रीते आयुप सिवाय यावत्-अंतराय कर्म सुधी पण दंडक कहेवो.

३. [प्र०] हे भगवन् ! शुं अनंतरोपपन्न नैरयिके आयुष्य कर्म बांध्युं हतुं-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेणे पूर्वे आयुप कर्म बांध्युं हतुं, बांधतो नथी अने बांधशे. आयुधनो बन्ध.

४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं लेइयावाळा अनन्तरोपपन्न नैरयिके आयुष कर्म बांध्युं हतुं-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! पूर्वे प्रमाणे त्रीजो भांगो जाणवो. ए प्रमाणे यावत्-अनाकार उपयोग सुधी वधे त्रीजो भांगो जाणवो. एम मनुष्य सिवाय यावत्-वैमानिको सुधी जाणवुं. मनुष्योने वधे त्रीजो अने चोयो भांगो जाणवो. परन्तु विशेष ए के, कृष्णपाक्षिकने त्रीजो भांगो कहेवो. वधामां पूर्वे प्रमाणे भिन्नता जाणवी. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

छवीशमा वंधिशतकमां द्वितीय उद्देशक समाप्त.

तईओ उद्देशो ।

१. [प्र०] परंपरोववन्नप णं भंते ! नेरइए पावं कम्मं किं वंधी-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अत्येगतिप पढम-वितिया । एवं जहेव पढमो उद्देशसओ तहेव परंपरोववन्नपहि वि उद्देशसओ भाणियच्चो नेरइयाइओ तहेव नवदंडगसहिओ । अट्टण्ह वि कम्मप्प-गडीणं जा जस्स कम्मस्स वत्तधया सा तस्स अहीणमतिरित्ता नेयच्चा जाव-वेमाणिया अणागारोवउत्ता । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

छवीसतिमे वंधिसए तईओ उद्देशो समत्तो ।

त्रीजो उद्देशक.

[परंपरोपपन्न नैरयिकादि चोवीश दंडकने आश्रयी पापकर्मादिनी बन्धवक्तव्यता—]

१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परंपरोपपन्न नैरयिके पापकर्म बांध्युं हतुं-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! कोइके बांध्युं हतुं-इत्यादि पहेलो अने वीजो भांगो समजवो. जेम प्रथम उद्देशक कळो छे तेम परंपरोपपन्न नैरयिकादिसंबन्धे पापकर्मादि नव दंडक सहित आ उद्देशक कहेवो. आठ कर्म प्रकृतिओमा जेने जे कर्मनी वक्तव्यता कही छे तेने ते कर्मनी वक्तव्यता वरावर कहेवी. ए प्रमाणे यावत्-अनाकार उपयोगवाळा वैमानिको सुधी जाणवु. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

परंपरोपपन्न नैरयिक-ने पापकर्मेनो बन्ध.

छवीशमा वंधिशतकमां तृतीय उद्देशक समाप्त.

चउत्थो उद्देशो ।

१. [प्र०] अणंतरोगाढण णं भंते । नेरइए पावं कम्मं किं वंधी-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अत्येगतिए-एवं जहेव अणं-तरोववन्नएहिं नवदंडगसंगहिओ उद्देशो भणियो तहेव अणंतरोगाढएहिं वि अहीणमतिरित्तो भाणियद्यो नेरइयादीए जाव-वेमाणिए । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

छवीसतिमे वंधिसए चउत्थो उद्देशो समचो ।

चतुर्थ उद्देशक.

[अनन्तरावगाढ नैरयिकादि चोवीश दंडकाने आश्रयी पापकर्मादिनी वन्धवक्यता]

१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं *अनंतरावगाढ नैरयिके पाप कर्म वांथुं हतुं-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! जेम अणंतरोपपन्नो साथे पापकर्मादि नवदंडकसंगृहीत उद्देशक कह्यो तेम अनंतरावगाढ नैरयिकादि संबंधे पण वैमानिक सुधी उद्देशक कहेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

छवीशमा शतकमां चतुर्थ उद्देशक समाप्त.

पंचमो उद्देशो ।

१. [प्र०] परंपरोगाढण णं भंते ! नेरइए पावं कम्मं किं वंधी-? [उ०] जहेव परंपरोववन्नएहिं उद्देशो सो खेव निरवसेसो भाणियद्यो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

छवीसतिमे वंधिसए पंचमो उद्देशो समचो ।

पांचमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परंपरावगाढ नैरयिके पापकर्म वांथुं हतुं-इत्यादि पृच्छा. [उ०] जेम परंपरोपपन्नो संबंधे उद्देशक कह्यो तेम परंपरावगाढ संबंधे पण सपूर्ण उद्देशक कहेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

छवीशमा शतकमां पंचम उद्देशक समाप्त.

छट्ठो उद्देशो ।

१. [प्र०] अणंतराहारण णं भंते ! नेरतिए पावं कम्मं किं वंधी-पुच्छा । [उ०] एवं जहेव अणंतरोववन्नएहिं उद्देशो तहेव निरवसेसं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

छवीसतिमे सए छट्ठो उद्देशो समचो ।

छट्ठो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं अनन्तराहारक (आहारना प्रथमसमये वर्तमान) नैरयिके पापकर्म वांथुं हतुं-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! जेम अनन्तरोपपन्न संबंधे उद्देशक कह्यो तेम अनन्तराहारक संबंधे पण सपूर्ण उद्देशक कहेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

छवीशमा शतकमां छट्ठो उद्देशक समाप्त.

सत्तमो उद्देशो ।

१. [प्र०] परंपराहारण णं भंते ! नेरइए पावं कम्मं किं वंधी-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एवं जहेव परंपरोववन्नएहिं उद्देशो तहेव निरवसेसो भाणियद्यो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

छवीसतिमे सए सत्तमो उद्देशो समचो ।

सत्तम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परंपराहारक (आहारना द्वितीयादि समये वर्तमान) नैरयिके पापकर्म वांथुं-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! जेम परंपरोपपन्न संबंधे उद्देशक कह्यो छे ते ज रीते परंपराहारक संबंधे पण सपूर्ण उद्देशक कहेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

छवीशमा शतकमां सातमो उद्देशक समाप्त.

१ * जे जीव एक पण समयना अन्तर सिवाय उत्पत्तिस्थानने आश्रयी रहेलो होय ते अनन्तरावगाढ कहेवाय छे, परन्तु तेवो अर्थ करता अनन्तरोपपन्न अने अनन्तरावगाढना अर्थमा भिन्नता यती नथी तेथी उत्पत्तिना एक समय पछी एक पण समयना अतर सिवाय उत्पत्तिस्थानने अवगाही रहेछ होय ते अनन्तरावगाढ, अने एकादि समयनु अन्तर होय ते परंपरावगाढ अर्थात्—अनन्तरावगाढ उत्पत्तिना द्वितीय समयवर्ता होय छे अने परंपरावगाढ उत्पत्तिना तृतीयादिसमयवर्ता होय छे—टीका.

अनन्तरावगाढ नैर-
यिके आश्रयी कर्म-
वन्ध

परंपरावगाढ नैरयि-
कने आश्रयी कर्म-
वन्ध

अनन्तराहारकने
कर्मवन्ध

परंपराहारक नैरयि-
कने कर्मवन्ध

अट्टमो उद्देशो ।

१. [प्र०] अणंतरपञ्चत्तण णं भंते ! नेरइए पावं कम्मं किं वंधी-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहेव अणंतरोववन्नएहिं उद्देशो तहेव निरवसेसं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

छवीसतिमे सए अट्टमो उद्देशो समत्तो ।

आठमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं अनंतरपर्याप्त (पर्याप्तपणाना प्रथम समयवर्ती) नैरयिके पाप कर्म बांधुं हतुं-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! जेम अनन्तरोपपन्न संबंधे उद्देशक क्खो तेम अनंतरपर्याप्तक संबंधे पण संपूर्ण उद्देशक क्खेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

अनन्तरपर्याप्तने
कर्मवन्ध.

छवीशमा शतकमां आठमो उद्देशक समाप्त.

नवमो उद्देशो ।

१. [प्र०] परंपरपञ्चत्तण णं भंते ! नेरइए पावं कम्मं किं वंधी-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एवं जहेव परंपरोववन्नएहिं उद्देशो तहेव निरवसेसो भाणियच्चो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । जाव-विहरइ ।

छवीसतिमे वंधिसए नवमो उद्देशो समत्तो ।

नवमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं परंपरपर्याप्त (पर्याप्तपणाना द्वितीयादि समयवर्ती) नैरयिके पापकर्म बांधुं हतुं-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! जेम परंपरोपपन्नक संबंधे उद्देशक क्खो छे तेम परंपरपर्याप्त संबंधे पण संपूर्ण उद्देशक क्खेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

परंपरपर्याप्तने
कर्मवन्ध.

छवीशमा शतकमां नवमो उद्देशक समाप्त.

दसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] चरिमे णं भंते ! नेरइए पावं कम्मं किं वंधी-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एवं जहेव परंपरोववन्नएहिं उद्देशो तहेव चरिमेहिं निरवसेसो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति २ जाव-विहरति ।

छवीसतिमे वंधिसए दसमो उद्देशो समत्तो ।

दशमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं चरम (जेने नारकभव छेछो छे एवा) नैरयिके पापकर्म बांधुं हतुं-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! जेम परंपरोपपन्नक संबंधे उद्देशक क्खो तेम चरम नैरयिकादि संबंधे पण एज रीते *संपूर्ण उद्देशक क्खेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

छवीशमा शतकमां दसमो उद्देशक समाप्त.

एक्कारसमो उद्देशो ।

१. [प्र०] अचरिमे णं भंते ! नेरइए पावं कम्मं किं वंधी-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अत्येगइए-एवं जहेव पढमोद्देशए, पढम-वितिया भंगा भाणियच्च सन्नत्थ जाव-पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं ।

अगियारमो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं अचरम नैरयिके पापकर्म बांधुं हतुं-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! प्रथम उद्देशकमां क्ख्वा प्रमाणे पहेलो अने वीजो-एम वे भांगा वधे स्थले यावत्-पंचेदिय तिर्यचयोनिक सुधी क्खेवा.

अचरम नैरयिकेने
कर्मवन्ध.

१ * अर्ही चरमोद्देशक परंपरोद्देशकनी पेठे क्खो छे, अने परंपरोद्देशक प्रथम उद्देशकनी पेठे छे छतां तेमा मनुष्यपदने आश्रयी आयुपक्रमेना बन्धमा आ विशेषता छे—प्रथम उद्देशकमा आयुपक्रमेने अपेक्षी सामान्यत चार भागा क्ख्वा छे, पण चरम मनुष्यने आश्रयी मात्र चोयो भागो घटी शके छे. जे चरम मनुष्य छे तेणे पूर्वे आयुप वाधुं छे, पण वर्तमान समये वाधतो नथी, तेम भविष्यकालमा वाधशे पण नहि.—टीका.

૨. [પ્ર૦] અચરિમે ણં મંતે ! મણુસ્સે પાવં કમ્મં કિં વંધી-પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! અત્યેગતિપ વંધી વંધદ્ વંધિસ્સદ્, અત્યેગતિપ વંધી વંધદ્ ન વંધિસ્સદ્; અત્યેગતિપ વંધી ન વંધદ્ વંધિસ્સદ્ ।

૩. [પ્ર૦] અલેસ્સે ણં મંતે ! અચરિમે મણુસે પાવં કમ્મં કિં વંધી-? [ઉ૦] એવં ચેવ તિત્તિ મંગા ચરમવિહ્વણા માણિ-યદ્વા એવં જદેવ પદ્મુદ્દેસે । નવરં જેસુ તત્ય વીસસુ ચત્તારિ મંગા તેસુ ઇદ્ આદિદ્ધા તિત્તિ મંગા માણિયદ્વા ચરિમમંગવજ્જા । અલેસ્સે કેવલનાળી ય અજોગી ય એવ તિત્તિ વિ ન પુચ્છિજ્જંતિ, સેસં તદ્દેવ । યાણમંતર-જોદ્ધસિય-વેમાણિય જદ્દા નેરદ્દપ ।

૪. [પ્ર૦] અચરિમે ણં મંતે ! નેરદ્દપ નાણાવરણિજ્જં કમ્મં કિં વંધી-પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! એવં જદેવ પાવં૦ । નવરં મણુસ્સેસુ સકસાર્દેસુ લોમકસાર્દેસુ ય પદમ-વિતિયા મંગા, સેસા અદ્ધારસ ચરમવિહ્વણા, સેસં તદ્દેવ જાય-વેમાણિયાણં । દરિ-સણાવરણિજ્જં પિ એવં ચેવ નિરવસેસં । વેયણિજ્જે સદ્ધત્ય વિ પદમ-વિતિયા મંગા જાય-વેમાણિયાણં, નવરં મણુસ્સેસુ અલેસ્સે, કેવલ્લી અજોગી ય નત્તિય ।

૫. [પ્ર૦] અચરિમે ણં મંતે ! નેરદ્દપ મોહણિજ્જં કમ્મં કિં વંધી-પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! જદેવ પાવં તદ્દેવ નિરવસેસં જાય-વેમાણિય ।

૬. [પ્ર૦] અચરિમે ણં મંતે ! નેરદ્દપ આડયં કમ્મં કિં વંધી-પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! પદમ-વિતિયા મંગા, એવં સદ્ધ-પદેસુ વિ । નેરદ્દયાણં પદમ-તતિયા મંગા, નવરં સમ્મામિચ્છે તતિયો મંગો, એવં જાય-થણિયકુમારાણં । પુદ્ધિમ્મદ્દય-આડ-કાદ્દય-વણસ્સદ્ધકાદ્દયાણં તેડલેસ્સાપ તતિયો મંગો, સેસેસુ પદેસુ સદ્ધત્ય પદમ-તતિયા મંગા, તેડકાદ્દય-વાડકાદ્દયાણં સદ્ધત્ય પદમ-તતિયા મંગા, વેદ્દિય-તેદ્દિય-ચલરિદ્દિયાણં એવં ચેવ, નવરં સમ્મત્તે ઓહિનાણે આભિણિયોદ્દિયનાણે સુયનાણે એસુ ચડસુ વિ ઠાણેસુ તતિયો મંગો । પંચેદ્દિયતિરિપ્પજોણિયાણં સમ્મામિચ્છે તતિયો મંગો, સેસેસુ પદેસુ સદ્ધત્ય પદમ-તતિયા મંગા । મણુસ્સાણં સમ્મામિચ્છે અવેદ્દપ અકસાર્દમ્મિ ય તતિયો મંગો, અલેસ્સ-કેવલનાણ-અજોગી ય ન પુચ્છિજ્જંતિ; સેસ-

૨. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! શું અચરમ મનુષ્યે પાપકર્મ વાંચ્યું હતું-ઇત્યાદિ પૃચ્છા. [ઉ૦] હે ગૌતમ ! ૧ કોઈ પાપકર્મ વાંચ્યું હતું, વાવે છે અને વાંધશે; ૨ કોઈ વાચ્યું હતું, વાવે છે અને વાંધશે નહિ, ૩ કોઈ વાચ્યું હતું, નથી વાંધતો અને વાંધશે.

૩. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! શું લેડ્યારાહિત અચરમ મનુષ્યે પાપકર્મ વાંચ્યું હતું-ઇત્યાદિ પૃચ્છા. [ઉ૦] હે ગૌતમ ! ઉપર કલા પ્રમાણે છેલ્લા સિવાયના વાકીના ત્રણ માંગા કહેવા. વાકી વધુ પ્રથમ ઉદ્દેશકમાં કહ્યું છે તેમ જાણવું. પરન્તુ વિશેષ એ કે, જે વીજો પદોમાં ચાર માંગા કહ્યા છે તેમાંથી અહીં છેલ્લા માંગા સિવાયના પ્રથમના ત્રણ માંગા કહેવા. લેડ્યારાહિત, કેવલજ્ઞાની અને અયોગી મનુષ્ય-એ ત્રણ સંવંધે ન પૂછવું. વાનવ્યંતર, ય્યોતિષિક અને વૈમાનિકોને નૈરયિકોની પેઠે જાણવું.

૪. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! શું અચરમ નૈરયિકે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ વાંચ્યું હતું-ઇત્યાદિ પૃચ્છા. [ઉ૦] હે ગૌતમ ! જેમ પાપ કર્મ સંવંધે કહ્યું છે તેમ અહીં પણ જાણવું, પરન્તુ વિશેષ એ કે કપાયી અને લોમકપાયી મનુષ્યોમાં પહેલો અને વીજો માગો કહેવો, તથા વાકીના અદ્ધાર પદમાં છેલ્લા માંગા સિવાયના વાકીના વધા (ત્રણે) માગા કહેવા. વાકી વધુ એ પ્રમાણે જાણવું. એ રીતે યાવત્-વૈમાનિકો સુધી સમજવું. દર્શનાવરણીય કર્મ સંવંધે પણ એ રીતે વધુ જાણવું. વેદનીય કર્મ સંવંધે વધે સ્થલે પહેલો અને વીજો માંગો-એમ વે માંગા યાવત્-વૈમાનિકો સુધી જાણવા. વિશેષ એ કે, મનુષ્યપદમાં લેડ્યારાહિત, કેવલ્લી અને અયોગી અચરમ મનુષ્ય નથી.

૫. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! શું અચરમ નૈરયિકે મોહનોય કર્મ વાંચ્યું હતું-ઇત્યાદિ પૃચ્છા. [ઉ૦] હે ગૌતમ ! જેમ પાપકર્મ સંવંધે કહ્યું તેમ વધુ યાવત્-વૈમાનિકો સુધી જાણવું.

૬. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! શું અચરમ નૈરયિકે આયુષ કર્મ વાંચ્યું હતું-ઇત્યાદિ પૃચ્છા. [ઉ૦] હે ગૌતમ ! પહેલો અને વીજો માગો જાણવો. એ રીતે વધા પદોમાં પણ જાણવું. નૈરયિકો વિષે પહેલો અને વીજો માગો કહેવો. વિશેષ એ કે, સમ્યક્ત્વમિધ્યાત્વમાં વીજો માંગો જાણવો. એ રીતે યાવત્-સ્થાનિતકુમારો સુધી જાણવું. પૃથિવીકાયિક, અપ્કાયિક અને વનસ્પતિકાયિકોને તેજોલેડ્યામાં વીજો માગો કહેવો. વાકી વધા પદોમાં વધે સ્થલે પહેલો અને વીજો માંગો જાણવો. અગ્નિકાયિક અને વાયુકાયિકોને વધે સ્થલે પ્રથમ અને તૃતીય માગો કહેવો. વેદંદ્રિય, તેદંદ્રિય અને ચલરિન્દ્રિયને વિષે પણ એમ જાણવું. પણ વિશેષ એ કે સમ્યક્ત્વ, ઔષિકજ્ઞાન, આભિનિવોધિક જ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન-એ ચારે સ્થાનોમાં વીજો માગો સમજવો. પંચેદ્દિય તિર્વચ્યોનિકોને સમ્યગ્મિધ્યાત્વમાં વીજો માંગો અને વાકીના સ્થાનોમાં સંવંધ પ્રથમ અને તૃતીય માગો જાણવો. મનુષ્યોને સમ્યગ્મિધ્યાત્વ, અવેદક અને અકપાયી-એ ત્રણ પદોમાં વીજો માગો જાણવો. લેડ્યારાહિત, કેવલજ્ઞાન અને અયોગી સંવંધે પ્રશ્ન ન કરવો. વાકી વધા પદોમાં સર્વત્ર પ્રથમ અને તૃતીય માંગો કહેવો. જેમ નૈરયિકો સંવંધે કહ્યું તેમ

અચરમ મનુષ્યને
વચ્ચ.

લેડ્યારાહિત અચરમ
મનુષ્યને વચ્ચ.

અચરમ નૈરયિકને
જ્ઞાનાવરણીયનો
વચ્ચ.

અચરમ નૈરયિકને
મોહનોય વચ્ચ.

અચરમ નૈરયિકને
આયુષવચ્ચ.

पदेसु सद्यत्थ पढम-ततिया भंगा, वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया । नामं गोयं अंतराह्यं च जहेव नानावर-
णिजं तहेव निरवसेसं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति जाव-विहरइ ।

छवीसतिमे बंधिसए एकारसमो उद्देशो समत्तो ।

छवीसतिमं सयं समत्तं ।

वानव्यंतर, ज्योतिषिक अने वैमानिको संबंधे पण जाणवुं. जेम ज्ञानावरणीय कर्मसंबंधे जणाव्युं तेम नाम, गोत्र अने अंतराय संबंधे वधुं
समजवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'-एम कही यावत्-विहरे छे.

छवीशमा शतकमां अगियारमो उद्देशक समाप्त.

छवीशमुं शतक समाप्त.



सत्तवीसतिमं सयं ।

१. [प्र०] जीवे णं मंते ! पाचं कम्मं किं करिंसु करेन्ति करिस्संति १, करिंसु करेन्ति न करिस्संति २, करिंसु न करेन्ति करिस्संति ३, करिंसु न करेन्ति न करेस्संति ४ ? [उ०] गोयमा ! अत्येगतिणं करिंसु करेन्ति करिस्संति १, अत्येगतिणं करिंसु करेन्ति न करिस्संति २, अत्येगतिणं करिंसु न करेन्ति करेस्संति ३, अत्येगतिणं करिंसु न करेन्ति न करेस्संति ।

२. [प्र०] सलेस्से णं मंते ! जीवे पाचं कम्मं—एयं एणं अभिलायेणं ज्ञेयं वंधिसए वत्तघया सञ्जेव निरवसेसा भाणियघा, तहेव नवदंडगसंगहिद्या एक्कारस उद्देसगा भाणियघा ।

सत्तवीसतिमं करिंसुसयं समत्तं ।

सत्यावीशमुं शतक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! १ जीवे *पापकर्म कर्तुं हतुं, करे छे अने करशे ? २ कर्तुं हतुं, करे छे अने करशे नहि ? ३ कर्तुं हतुं, करतो नथी अने करशे ? ४ कर्तुं हतुं, करतो नथी अने करशे नहि ? [उ०] हे गौतम ! १ कोट्क जीवे कर्तुं हतुं, करे छे अने करशे. २ कोट्क जीवे कर्तुं हतुं, करे छे अने करशे नहि. ३ कोट्क जीवे कर्तुं हतुं, करतो नथी अने करशे. अने कोट्क जीवे कर्तुं हतुं, करतो नथी अने करशे नहि.

२. [प्र०] हे भगवन् ! लेट्यावाळा जीवे पाप कर्म कर्तुं हतुं—इत्यादि पूर्वोक्त पाठ वडे वंधिशतकमां जे वक्तव्यता कही छे ते वधी वक्तव्यता अहीं कहेवी. तेमज नव दंडक सहित अगियार उद्देशको पण अहीं कहेवा.

सत्यावीशमुं *करिंसु शतक समाप्त.



१ * प्रश्नमां वन्धिपट होवाथी छवीशमुं वन्धिशतक कहेवाय छे तेम अहीं प्रश्नमा 'करिंसु' पद होवाथी सत्यावीशमुं करिंसुगतक कहेवामां आवे छे. यद्यपि कर्मना वन्ध अने करणमां काइ पण भेद नथी तो पण वन्ध एटले सामान्यरूपे कर्मनु बाधवु अने करण एटले सक्रमादि स्वरूपे कर्तुं—ए विशेषता जणाववा वन्ध अने करणनो सुदो निर्देश कर्यो छे

अट्टवीसतिमं सयं ।

पढमो उद्देशो ।

१. [प्र०] जीवा णं भंते ! पावं कम्मं कहिं समज्जिणिसु, कहिं समायरिंसु ? [उ०] गोयमा ! सध्वे वि ताव तिरिक्खजोणिएसु होज्जा १, अहवा तिरिक्खजोणिएसु य नेरइएसु य होज्जा २, अहवा तिरिक्खजोणिएसु य मणुस्सेसु य होज्जा ३, अहवा तिरिक्खजोणिएसु य देवेसु य होज्जा ४, अहवा तिरिक्खजोणिएसु य नेरइएसु य मणुस्सेसु य होज्जा ५, अहवा तिरिक्खजोणिएसु य नेरइएसु य देवेसु य होज्जा ६, अहवा तिरिक्खजोणिएसु य मणुस्सेसु य देवेसु य होज्जा ७, अहवा तिरिक्खजोणिएसु य नेरइएसु य मणुस्सेसु य देवेसु य होज्जा ८ ।

२. [प्र०] सलेस्सा णं भंते ! जीवा पावं कम्मं कहिं समज्जिणिसु, कहिं समायरिंसु ? [उ०] एवं चेव । एवं कण्हलेस्सा, जाव-अलेस्सा । कण्हपक्खिया, सुक्कपक्खिया । एवं जाव-अणागारोवउत्ता ।

३. [प्र०] नेरइया णं भंते ! पावं कम्मं कहिं समज्जिणिसु, कहिं समायरिंसु ? [उ०] गोयमा ! सध्वे वि ताव तिरिक्खजोणिएसु होज्जा त्ति-एवं चेव अट्ट भंगा भाणियद्धा । एवं सध्वत्थ अट्ट भंगा, एवं जाव-अणागारोवउत्ता वि ।

अट्ट्यावीशमुं शतक.

प्रथम उद्देशकं.

१. [प्र०] हे भगवन् ! जीवोए कइ गतिमा पाप कर्मनुं समर्जन-ग्रहण कयुं हतुं अने कइ गतिमां पाप कर्मनुं आचरण कयुं हतुं ? [उ०] हे गौतम ! १ वधा जीवो तिर्यंचयोनिमां हता, २ अथवा वधा जीवो तिर्यंचयोनिमा अने नैरयिकोमां हता, ३ अथवा वधा जीवो तिर्यंचयोनिमां अने मनुष्योमां हता ४ अथवा वधा जीवो तिर्यंचयोनिमां अने देवोमां हता, ५ अथवा वधा जीवो तिर्यंचयोनिमां, नैरयिकोमां अने मनुष्योमां हता, ६ अथवा वधा जीवो तिर्यंचयोनिमा, नैरयिकोमां अने देवोमां हता, ७ अथवा वधा जीवो तिर्यंचयोनिमां, मनुष्योमां अने देवोमां हता, ८ अथवा वधा तिर्यंचयोनिमां, नैरयिकोमा, मनुष्योमां अने देवोमां हता. [अने ते गतिमा तेओए पापकर्मनुं समर्जन अने समाचरण कयुं हतुं.]

कर गतिमा पापकर्मनुं मगनेन धाय ?

२. [प्र०] हे भगवन् ! लेइयावाळा जीवोए कइ गतिमां पाप कर्मनुं समर्जन अने समाचरण कयुं हतुं ? [उ०] हे गौतम ! पूर्वनी पेठे जाणतुं. कृष्णलेइयावाळा यावत्-अलेइया-लेइयारहित, कृष्णपाक्षिक, शुक्लपाक्षिक, यावत्-अनाकार उपयोगवाळा संबंधे पण एज प्रमाणे समजतुं.

हेइया.

३. [प्र०] हे भगवन् ! नैरयिकोए कइ गतिमां पापकर्म उपाजन कयुं हतुं अने कइ गतिमा पाप कर्मनुं आचरण कयुं हतुं ? [उ०] हे गौतम ! वधाय जीवो तिर्यंचयोनिकोमां हता-इत्यादि पूर्वनी पेठे आठे भागा कहेवा, एम सर्वत्र आठे भागा कहेवा. ए प्रमाणे

नैरयिकोने पापकर्मनुं समर्जन.

१ * अर्ही तिर्यंचयोनि घणा जीवोने आश्रय होवाथी सर्व जीवोनी माताना स्थाने छे. तेथी अन्य नारकादि वधा जीवो वडाचिद् तिर्यंचोधी आपी उत्पन्न थया होय, माटे ते वधा तिर्यंचयोनिकोमा हता एम कहेवाय छे, अने ला तेओए नरकगत्यादिना हेतुभूत पापकर्मनुं समर्जन कयुं हतुं

२ † पाप कर्मनुं समर्जन-उपाजन अने समाचरण-पापकर्मना हेतुभूत पापक्रियातु आचरण, अर्थात् पापनियाना समाचरणद्वारा जीवो पाप कर्म कइ गतिमा उपाजन कयुं हतुं ? अथवा समर्जन अने समाचरण वक्षे पर्यायशब्दो छे एटले वक्षे एकज अर्थना बोधक छे. सूत्रनी विचित्र शैली होवाथी समर्जन अने समाचरण वक्षे कहेवामा आव्या छे.

एवं जाव-वेमाणियाणं । एवं नाणावरणिज्जेण वि दंडओ, एवं जाव-अंतराहपणं । एवं एए जीवादीया वेमाणियपज्जवसाणा नव दंडगा भवंति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति जाव-विहरइ ।

अट्टवीसतिमे सए पढमो उद्देसो समत्तो ।

यावत्-अनाकारोपयोगवाळा संबंधे समजतुं. अने [दंटकना क्रमथी] यावत्-वैमानिको सुधी एज रीते जाणतुं. एम ज्ञानावरणीय, यावत्-अंतराय कर्मवडे पण दंडक कहेवो. एम जीवथी मांडीने वैमानिक पर्यन्त नव दंटक थाय छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'-एम कही यावत्-विहरे छे.

अठ्ठावीशमा शतकमां प्रथम उद्देशक समाप्त.

वीओ उद्देसो.

१. [प्र०] अणंतरोववन्नगा णं भंते ! नेरइया पावं कम्मं काहिं समज्जिणिंसु, काहिं समायरिंसु ? [उ०] गोयमा ! सव्वे वि ताव त्तिखिखजोणिपसु होज्जा, एवं एत्थ वि अट्ट भंगा । एवं अणंतरोववन्नगाणं नेरइयाईणं जस्स जं अत्थि लेसादीयं अणागारोववोपपज्जवसाणं तं सव्वं एयाए भयणाए भाणियद्वं जाव-वेमाणियाणं । नवरं अणंतरेसु जे परिहरियद्धा ते जट्टा वंधि-सए तहा इहं पि । एवं नाणावरणिज्जेण वि दंडओ, एवं जाव-अंतराहपणं निरवसेसं । एसो वि नवदंडगसंगहियो उद्देसओ भाणियद्वो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

अट्टवीसतिमे सए वीओ उद्देसो समत्तो ।

द्वितीय उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! अनंतरोपपन्न (तुरत उत्पन्न थयेळा) नैरयिकोए कइ गतिमा पाप कर्मतुं समर्जन कर्तुं अने कइ गतिमां पाप कर्मतुं समाचरण कर्तुं ? [उ०] हे गीतम ! ते वधा य तिर्यग्योनिकोमा हत्ता. एम अहीं पण आठ भागा जाणवा. अनंतरोपपन्नक नैरयि-कोने अपेक्षी जेने जे लेइयादिक अनाकार उपयोग सुधी होय ते वधुं विकल्पथी यावत्-वैमानिको सुधी कहेतुं. पण विशेष ए के, जे अनंतरोपपन्न जीवोमा जे जे वावत (मिश्रदष्टि, मनोपोग, वचनयोगादि) परिहार करवा योग्य होय ते ते वावत वंधिशतकमां कख्या प्रमाणे परिहरवी. ए रीते ज्ञानावरणीय अने यावत्-अंतराय कर्म वडे पण नव दंडकसहित आ उद्देशक कहेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

अठ्ठावीशमा शतकमां वीओ उद्देशक समाप्त.

३-११ उद्देसगा ।

१. एवं एएणं कमेणं जहेव वंधिसए उद्देसगाणं परिवाडी तहेव इहं पि अट्टसु भंगेसु नेयद्धा । नवरं जाणियद्वं जं जस्स अत्थि तं तस्स भाणियद्वं जाव-अचरिसुद्देसो । सव्वे वि एए एक्कारस उद्देसगा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति जाव-विहरइ ।

अट्टवीसतिमे सए ३-११ उद्देसगा समत्ता

अट्टवीसतिमं कम्मसमज्जणसयं समत्तं ।

३-११ उद्देशको.

१. एम एज क्रमथी जेम वंधिशतकमां उद्देशकोनीं परिपाटी कही छे तेम अहीं पण आठे भांगामां जाणवी. परन्तु विशेष ए के, जेने जे होय तेने ते छेळा उद्देशक सुधी कहेतुं. एम वधा मळीने अगियार उद्देशको थाय छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

अठ्ठावीशमा शतकमां ३-११ उद्देशको समाप्त.

अठ्ठावीशमुं कर्मसमर्जन शतक समाप्त.



एगूणतीसतिमं सयं

पढमो उद्देशो ।

१. [प्र०] जीवा णं भंते ! पावं कम्मं किं समायं पट्टविंसु समायं निट्टविंसु १, समायं पट्टविंसु विसमायं निट्टविंसु २, विसमायं पट्टविंसु समायं निट्टविंसु ३, विसमायं पट्टविंसु विसमायं निट्टविंसु ? [उ०] गोयमा ! अत्येगइया समायं पट्टविंसु समायं निट्टविंसु १, जाव-अत्येगइया विसमायं पट्टविंसु विसमायं निट्टविंसु ४ ।

२. [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-‘अत्येगइया समायं पट्टविंसु समायं निट्टविंसु’-तं चेव ? [उ०] गोयमा ! जीवा चउच्चिहा पन्नत्ता, तंजहा-अत्येगइया समाउया समोववन्नगा १, अत्येगइया समाउया विसमोववन्नगा २, अत्येगइया विसमाउया समोववन्नगा ३, अत्येगइया विसमाउया विसमोववन्नगा ४ । १ तत्थ णं जे ते समाउया समोववन्नगा ते णं पावं कम्मं समायं पट्टविंसु समायं निट्टविंसु । २ तत्थ णं जे ते समाउया विसमोववन्नगा ते णं पावं कम्मं समायं पट्टविंसु विसमायं निट्टविंसु । तत्थ णं जे ते विसमाउया समोववन्नगा ते णं पावं कम्मं विसमायं पट्टविंसु समायं निट्टविंसु । तत्थ णं जे ते विसमाउया विसमोववन्नगा ते णं पावं कम्मं विसमायं पट्टविंसु विसमायं निट्टविंसु । से तेणट्टेणं गोयमा ! तं चेव !

ओगणत्रीशमुं शतक

प्रथम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! १ शुं घणा जीवो पाप कर्मने भोगववानी शरुआत एक काळे करे छे अने तेनो अंत पण एक काळे करे छे ? २ भोगववानी शरुआत एक काळे करे छे अने तेनो अत भिन्न काळे करे छे ? ३ भोगववानी शरुआत भिन्न काळे करे छे अने अंत एक काळे करे छे के तेने भोगववानी शरुआत भिन्न काळे करे छे अने तेनो अंत पण भिन्न काळे करे छे ? [उ०] हे गौतम ! केटलाक जीवो पाप कर्मने भोगववानी शरुआत एक काळे करे छे अने तेनो अत पण एक काळे करे छे. ए रीते यावत्—कोइ जीवो तो पाप कर्मने भोगववानी शरुआत भिन्न काळे करे छे अने तेनो अत पण भिन्न काळे करे छे.

२. [प्र०] हे भगवन् ! एम शा हेतुथी कहो छो के ‘केटलाक जीवो पाप कर्मने भोगववानी शरुआत एक काळे करे छे अने तेनो अत पण एक काळे करे छे’—इत्यादि पूर्वमा कहुं छे ते प्रमाणे कहेहुं. [उ०] हे गौतम ! जीवो चार प्रकारना कहा छे. ते आ प्रमाणे—१ केटलाक जीवो समान काळे आयुपना उदयवाळा अने समकाळे भवान्तरमां उत्पन्न थयेला, २ केटलाक जीवो समान काळे आयुपना उदयवाळा अने जुदा जुदा समये परभवमा उत्पन्न थएला, ३ केटलाक जुदा जुदा काळे आयुपना उदयवाळा अने साथे उत्पन्न थयेला तथा ४ केटलाक जुदा जुदा काळे आयुपना उदयवाळा अने जुदा जुदा समये परभवमां उत्पन्न थयेला होय छे. १ तेमां जे जीवो समानकाळे आयुपना उदयवाळा अने परभवमां साथे उत्पन्न थयेला होय छे तेओ एकज काळे पाप कर्मने भोगववानी शरुआत करे छे अने तेनो अत पण एक काळे करे छे. २ जे जीवो समान काळे आयुपना उदयवाळा अने जुदा जुदा समये परभवमां उत्पन्न थयेला होय छे तेओ पाप कर्मने भोगववानी शरुआत एक काळे करे छे अने तेनो अंत पण जुदा जुदा समये करे छे. ३ जे जीवो जुदा जुदा काळे आयुपना उदयवाळा अने साथे परभवमा उत्पन्न थयेला होय छे तेओ पाप कर्मने भोगववानी शरुआत जुदा जुदा काळे करे छे अने तेनो अंत एक काळे करे छे ४ अने जे जीवो जुदा जुदा काळे आयुपना उदयवाळा अने जुदा जुदा समये परभवमां उत्पन्न थयेला छे तेओ पाप कर्मने भोगववानी शरुआत जुदा जुदा काळे करे छे अने तेनो अंत पण जुदा जुदा काळे करे छे. ए कारणथी हे गौतम !—इत्यादि पूर्व प्रमाणे कहेहुं.

पापकर्माना वेदननो प्रारभ अने अन्त.

तेम कटेवासु कारण.

૩. [પ્ર૦] સલેસ્તા ણં મંતે! જીવા પાવં કમ્મં—? [ઉ૦] પવં ચેવ, પવં સદ્દટ્ટાણેસુ વિ જાવ—અણાગારોવઉત્તા । એવ સલ્લે વિ પયા એયાએ વત્તદ્વયાએ માણિયદ્ધા ।

૪. [પ્ર૦] નેરહ્યા ણં મંતે! પાવં કમ્મં કિં સમાયં પટ્ટવિંસુ સમાયં નિટ્ટવિંસુ—પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા! અત્યેગહ્યા સમાયં પટ્ટવિંસુ—પવં જહેવ જીવાણં તહેવ માણિયદ્ધં જાવ—અણાગારોવઉત્તા । પવં જાવ—વેમાણિયાણં જસ્સ જં અત્થિ તં એણં ચેવ કમેણં માણિયદ્ધં । જહા પાવેણ દંડઓ, એણં કમેણં અટ્ટસુ વિ કમ્મપ્પગડીસુ અટ્ટ દંડગા માણિયદ્ધા જીવાદીયા વેમાણિ-યપ્પજવસાણા । એસો નવદંડગસંગહિઓ પઢમો ઉદ્દેસો માણિયદ્ધો । ‘સેવં મંતે! સેવં મંતે!’ ત્તિ ।

એગૂણતીસતિમે સએ પઢમો ઉદ્દેસો સમત્તો ।

૨. [પ્ર૦] હે ભગવન્! શું લેહ્યાવાલા જીવો પાપ કર્મને મોગવવાની શરૂઆત એક કાલે કરે છે—હ્યાદિ પૂર્વ પ્રમાણે પૃચ્છું. [ઉ૦] હે ગૌતમ! ઉત્તર પૂર્વ પ્રમાણે સમજવો. વર્ષાં સ્યાનોમા પળ યાવત્—અનાકાર ઉપયોગવાલા સુધી સમજવું. એ વધા પદો પળ એ જ વક્તવ્યતાથી કહેવાં.

૩. [પ્ર૦] હે ભગવન્! શું નૈરયિકો પાપ કર્મને મોગવવાની શરૂઆત એક કાલે કરે છે અને તેનો અંત પળ એક કાલે કરે છે—હ્યાદિ પૃચ્છા. [ઉ૦] હે ગૌતમ! જેમ જીવો સંવંધે આગલ જણાવ્યું તેમ નૈરયિકો સંવંધે પળ જાણવું. એ યાવત્—અનાકાર ઉપયો-ગવાલા નૈરયિકો સંવંધે સમજવું. એજ પ્રકારે યાવત્—વૈમાનિકો સુધી જેને જે હોય તે તેને આજ ક્રમથી કહેવું. જેમ પાપ કર્મ સંવંધે દંડક કહ્યો તેમ એ ક્રમવડે જીવથી માંડીને વૈમાનિકો સુધી આઠે કર્મપ્રકૃતિઓ સંવંધે આઠ દંડક કહેવા. એ રીતે નવદંડકસહિત આ પ્રથમ ઉદ્દેશક કહેવો. ‘હે ભગવન્! તે એમ જ છે, હે ભગવન્! તે એમ જ છે’.

ઓગણત્રીશમા શતકમાં પ્રથમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત.

વીઓ ઉદ્દેસો ।

૧. [પ્ર૦] અણંતરોવવન્નગા ણં મંતે! નેરહ્યા પાવં કમ્મં કિં સમાયં પટ્ટવિંસુ સમાયં નિટ્ટવિંસુ—પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા! અત્યેગહ્યા સમાયં પટ્ટવિંસુ સમાયં નિટ્ટવિંસુ, અત્યેગહ્યા સમાયં પટ્ટવિંસુ વિસમાયં નિટ્ટવિંસુ ।

૨. [પ્ર૦] સે કેણદ્દેણં મંતે! પવં વુચ્છહ—‘અત્યેગહ્યા સમાયં પટ્ટવિંસુ—તં ચેવ’? [ઉ૦] ગોયમા! અણંતરોવવન્નગા નેરહ્યા ડુવિહા પન્નત્તા, તંજહા—અત્યેગહ્યા સમાડયા સમોવવન્નગા, અત્યેગહ્યા સમાડયા વિસમોવવન્નગા । તત્થ ણં જે તે સમાડયા સમોવવન્નગા તે ણં પાવં કમ્મં સમાયં પટ્ટવિંસુ સમાયં નિટ્ટવિંસુ । તત્થ ણં જે તે સમાડયા વિસમોવવન્નગા તે ણં પાવં કમ્મં સમાયં પટ્ટવિંસુ વિસમાયં નિટ્ટવિંસુ । સે તેણદ્દેણં—તં ચેવ ।

૩. [પ્ર૦] સલેસ્તા ણં મંતે! અણંતરોવવન્ના નેરહ્યા પાવં—? [ઉ૦] પવં ચેવ, પવં જાવ—અણાગારોવઉત્તા । પવં અસુ-

દ્વિતીય ઉદ્દેશક.

૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્! શું અનંતરોપપન્ન (તુરતમાં ઉત્પન્ન થયેલા) નૈરયિકો એક કાલે પાપ કર્મને મોગવવાની શરૂઆત કરે છે અને તેનો અંત પળ એક કાલે કરે છે—હ્યાદિ પૃચ્છા. [ઉ૦] હે ગૌતમ! તેઓમા કેટલાક એક કાલે પાપ કર્મને મોગવવાની શરૂઆત કરે છે અને તેનો અંત પળ એક કાલે જ કરે છે અને કેટલાક એક કાલે પાપ કર્મને મોગવવાની શરૂઆત કરે છે અને તેનો અંત પળ એક કાલે કરે છે.

તેનો હેતુ.

૨. [પ્ર૦] હે ભગવન્! એ શા હેતુથી કહ્યો છે કે ‘કેટલાક એક કાલે પાપ કર્મને મોગવવાની શરૂઆત કરે છે અને તેનો અંત પળ એક કાલે કરે છે—’ હ્યાદિ. [ઉ૦] હે ગૌતમ! અનંતરોપપન્ન નૈરયિકો વે પ્રકારના કહ્યા છે. તે આ પ્રમાણે— ૧ કેટલાક સમકાલે આયુષના ઉદયવાલા અને સમકાલે પરમવમા ઉત્પન્ન થયેલા, ૨ અને કેટલાક સમકાલે આયુષના ઉદયવાલા અને જુદા જુદા કાલે પરમવમા ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે. તેમાં જેઓ સમકાલે આયુષના ઉદયવાલા અને પરમવમા સાથે ઉત્પન્ન થયેલા છે તેઓ એક કાલે પાપકર્મને મોગવવાની શરૂઆત કરે છે અને તેનો અંત પળ એક કાલે કરે છે. તથા જેઓ સમકાલે આયુષના ઉદયવાલા અને જુદા જુદા સમયે પરમવમા ઉત્પન્ન થયેલા છે તેઓ પાપ કર્મને મોગવવાની શરૂઆત તો એક કાલે કરે છે અને તેનો અંત જુદા જુદા કાલે કરે છે. એ કારણથી એ પ્રમાણે કહ્યું છે.

૨. [પ્ર૦] હે ભગવન્! શું લેહ્યાવાલા અનંતરોપપન્ન નૈરયિકો પાપકર્મને મોગવવાની શરૂઆત એક કાલે કરે છે—હ્યાદિ પૃચ્છા. [ઉ૦] હે ગૌતમ! પૂર્વની પેઠે જાણવું. એ રીતે યાવત્—અનાકાર ઉપયોગવાલા સુધી સમજવું. એ અસુરકુમારો અને યાવત્—

લેહ્યાને આશ્રયી પ્રસ્થાપન અને નિષ્ઠાપન.

નૈરયિકોને આશ્રયી પ્રસ્થાપન અને નિષ્ઠાપન.

અનંતરોપપન્ન નૈર-યિકોને આશ્રયી સમ-ક પ્રસ્થાપનાદિ.

સદેશ્ય નૈરયિકોને આશ્રયી સમક પ્ર-સ્થાપનાદિ

रकुमारारणं । एवं जाव-वेमाणियाणं, नवरं जं जस्स अत्थि तं तस्स भाणियद्धं । एवं नाणावरणिज्जेण वि दंडओ, एवं निरव-
सेसं जाव-अंतराएणं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति जाव-विहरति ।

एगूणतीसतिमे सए वीओ उद्देशो समत्तो ।

वैमानिको संबंधे पण जाणवुं. पण विशेष ए के, जेने जे होय तेने ते कहेवुं. ए प्रमाणे ज्ञानावरणीय कर्म संबंधे पण दंडक कहेवो, अने एम यावत्-अंतराय कर्म सुधी जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एम ज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.' एम कही यावत्-विहरे छे.

ओगणत्रीशमा शतकमां वीजो उद्देशक समाप्त.

३-११ उद्देशगा ।

एवं एएणं गमएणं जच्चेव वंधिसए उद्देशगपरिवाडी सच्चेव इह वि भाणियद्धा जाव-अचरिमो त्ति । अणंतरउद्देशगणं
चउण्ह वि एक्का वत्तव्वया, सेसाणं सत्तण्हं एक्का ।

एगूणतीसतिमे सए ३-११ उद्देशगा समत्ता


एगूणतीसतिमं कम्मपट्टवणसयं समत्तं ।

३-११ उद्देशको.

एम ए पाठवडे जेम वंधिशतकमा उद्देशकनी परिपाटि कही छे ते वधी उद्देशकनी परिपाटी अही पण यावत्—अचरम उद्देशक
सुधी कहेवी. अनन्तरसंबंधी चारे उद्देशकोनी एक वक्तव्यता कहेवी अने वाकीना (सात) उद्देशकोनी एक वक्तव्यता समजवी.

ओगणत्रीशमा शतकमां ३-११ उद्देशको समाप्त ।

ओगणत्रीशमं कर्मप्रस्थापनशतक समाप्त.



तीसइमं सयं

पढमो उद्देशो ।

१. [प्र०] कइ णं भंते ! समोसरणा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! चत्तारि समोसरणा पन्नत्ता, तंजहा—किरियावादी, अकिरियावादी, अन्नाणियवाद्द, वेणइयवाद्द ।

२. [प्र०] जीवा णं भंते ! किं किरियावादी, अकिरियावादी, अन्नाणियवादी, वेणइयवादी ? [उ०] गोयमा ! जीवा किरियावादी वि, अकिरियावादी वि, अन्नाणियवादी वि, वेणइयवादी वि ।

३. [प्र०] सलेस्सा णं भंते ! जीवा किं किरियावादी—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! किरियावादी वि, अकिरियावादी वि, अन्नाणियवादी वि, वेणइयवादी वि । एवं जाव—सुकलेस्सा ।

त्रीशमुं शतक

प्रथम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! केट्ठा *समवसरणो—मतो—कह्वा छे ? [उ०] हे गौतम ! चार समवसरणो कह्वा छे. ते आ प्रमाणे— १ क्रियावादी, २ अक्रियावादी, ३ अज्ञानवादी अने ४ विनयवादी.

२. [प्र०] हे भगवन् ! शुं जीवो क्रियावादी छे, अक्रियावादी छे, अज्ञानवादी छे के विनयवादी छे ? [उ०] हे गौतम ! जीवो क्रियावादी छे, अक्रियावादी छे, अज्ञानवादी छे अने विनयवादी पण छे.

३. [प्र०] हे भगवन् ! शुं लेऱ्यावाळा जीवो क्रियावादी छे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ क्रियावादी छे, अक्रियावादी छे, अज्ञानवादी छे अने विनयवादी पण छे. ए प्रमाणे यावत्—शुक्कलेऱ्यावाळा जीवो संबंघे समजहुं.

१ * अनेरुप्रकारना परिणामवाळा जीवो जेने त्रिपे रहे ते समवसरण—मत अथवा दर्शन कहेवाय छे तेना चार प्रकार छे—१ क्रियावादी, २ अक्रियावादी, ३ अज्ञानवादी अने ४ विनयवादी आ मतोना सर्ववमा सविस्तर हकीकत मळी शकती नथी. सूत्रकृतागना प्रथम श्रुतस्कन्धना चारमा समवसरण अध्ययनमा आ मतोतुं सक्षिप्त वर्णन छे. तेम ज आचारागनी टीकामा तेना भेदप्रभेदोतुं वर्णन छे (जुओ अध्या० १ उ० १ प० १६) परन्तु ते उपरथी तेनी चौकस शी मान्यता हती ते स्पष्ट जाणी शकालुं नथी. तो पण एटलुं तो जाणी शकय छे के क्रियावादी बगेरे स्वतन्त्र मतो नहि होय, पण भगवान् महावीरना समयमा जे मतो प्रचलित हता ते बयानो पूर्वोक्त चार प्रकारमा समावेश कर्यो होय एम लागे छे जेमके आत्माना अस्तित्वने माननारा बया दर्शनो क्रियावादिमा गणी शकय तेवी रीते आत्माने क्षणिक माननारा बौद्धादि दर्शन अक्रियावादी कहेवाय

१ क्रियावादी—आ मतोनी भिन्न भिन्न व्याख्या छे प्रथम व्याख्या प्रमाणे क्रिया कर्ता सिवाय संभवती नथी, माटे क्रियाना कर्ता तरीके आत्माना अस्तित्वने माननार क्रियावादी कहेवाय छे कीजी व्याख्या प्रमाणे क्रिया प्रधान छे अने ज्ञानतुं कइपण प्रयोजन नथी एवी क्रियाप्राधान्यनी मान्यतावाळा होय ते क्रियावादी त्रीजी व्याख्या प्रमाणे जीवादिपदार्थना अस्तित्वने माननारा क्रियावादी कहेवाय छे तेना एकतो एंशी प्रकार छे. तेओनो मत पण अमेदोपचारथी क्रियावादी कहेवाय छे

२ अक्रियावादी—तेओनु एतुं मन्तव्य छे के कोइ पण अनवस्थित पदार्थमा क्रिया होती नथी, जो तेमां क्रिया होय तो तेनी अनवस्थिति न होय माटे क्रियाना अभावने माननार अक्रियावादी छे अथवा क्रियातुं शुं प्रयोजन छे ? मात्र चित्तशुद्धि ज आवश्यक छे—एवी मान्यतावाळा अक्रियावादी कहेवाय छे अथवा जीवादिना नास्तित्वने माननारा अक्रियावादी कहेवाय छे तेना चोराशी प्रकार छे.

३ अज्ञानवादी—अज्ञान श्रेयरूप छे, कारण के ज्ञानथी कर्मनो तीव्र बन्ध थाय छे अने अज्ञानपूर्वक कर्मबन्ध निष्कल थाय छे—एवी मान्यतावाळा अज्ञानवादी कहेवाय छे तेना सटसठ प्रकार छे

४ विनयवादी—खर्गापवर्गादि श्रेयतुं कारण विनय छे, विनयने ज प्रधानपणे माननारा अने जेने कोइ पण प्रकारतुं निश्चित लिंग, आचार के शास्त्र नथी ते विनयवादी कहेवाय छे, तेना बत्रीस प्रकार छे आ बधा मिथ्यादृष्टि छे, तो पण अहीं क्रियावादी जीवादिना अस्तित्वने मानता होवाथी सम्मगदृष्टि जाणना. विशेष माटे जुओ—(आचाराग अध्या० १ उ० १ टीका प० १६).

ममवसरण

जीवो अने क्रियावा-
दित्वादि

सलेश्य जीवो अने
क्रियावादित्वादि

૪. [પ્ર૦] અલેસ્તા ણં મંતે ! જીવા-પુચ્છા । [૩૦] ગોયમા ! કિરિયાવાદી, નો અકિરિયાવાદી, નો અન્નાણિયવાદી, નો વેણહ્યવાદી ।

૫. [પ્ર૦] કળ્હપક્ષિયા ણં મંતે ! જીવા કિં કિરિયાવાદી-પુચ્છા । [૩૦] ગોયમા ! નો કિરિયાવાદી, અકિરિયાવાદી, અન્નાણિયવાદી ચિ, વેણહ્યવાદી ચિ । સુક્ષ્મપક્ષિયા જહા સલેસ્તા । સમ્મદિટ્ઠી જહા અલેસ્તા । મિચ્છાદિટ્ઠી જહા કળ્હપક્ષિયા ।

૬. [પ્ર૦] સમ્મામિચ્છાદિટ્ઠીણં-પુચ્છા । [૩૦] ગોયમા ! નો કિરિયાવાદી, નો અકિરિયાવાદી, અન્નાણિયવાદી ચિ, વેણહ્યવાદી ચિ । ણાણી જાવ-કેવલનાણી જહા અલેસ્સે । અન્નાણી જાવ-વિભંગનાણી જહા કળ્હપક્ષિયા । આહારસન્નોવડત્તા જાવ-પરિગ્ગહસન્નોવડત્તા જહા સલેસ્તા । નોસન્નોવડત્તા જહા અલેસ્સા । સવેદગા જાવ-નપુંસગવેદગા જહા સલેસ્સા । અવેદગા જહા અલેસ્સા । સકસાયી જાવ-લોમકસાયી જહા સલેસ્સા । અકસાયી જહા અલેસ્સા । સજોગી જાવ-કાયયોગી જહા સલેસ્સા । અજોગી જહા અલેસ્સા । સાગારોવડત્તા અણાગારોવડત્તા જહા સલેસ્સા ।

૭. [પ્ર૦] નેરહ્યા ણં મંતે ! કિં કિરિયાવાદી-પુચ્છા । [૩૦] ગોયમા ! કિરિયાવાદી ચિ, જાવ-વેણહ્યવાદી ચિ ।

૮. [પ્ર૦] સલેસ્તા ણં મંતે ! નેરહ્યા કિં કિરિયાવાદી-? [૩૦] एवं चेव । एवं जाव-काउलेस्सा । कण्हपक्षिया किरियाविचज्जिया । एवं पणं कमेणं जच्चेव जीवाणं वत्तद्यया सच्चेव नेरह्याणं वत्तद्यया वि जाव-अणागारोवडत्ता । नवरं जं अत्थि तं भाणियध्वं, सेसं न भणणति । जहा नेरह्या एवं जाव-थणियकुमारा ।

૯. [પ્ર૦] પુઢવિકાહ્યા ણં મંતે ! કિં કિરિયાવાદી-પુચ્છા । [૩૦] ગોયમા ! નો કિરિયાવાદી, અકિરિયાવાદી ચિ, અન્નાણિયવાદી ચિ, નો વેણહ્યવાદી । एवं पुढविकाइयाणं जं अत्थि तत्थ सद्यथ वि पयाइं दो मज्झिह्लाइं समोसरणाइं

૧૦. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! શું લેચારહિત જીવો ક્રિયાવાદી છે-ઇત્યાદિ પૃચ્છા. [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓ ક્રિયાવાદી છે, પણ અક્રિયાવાદી નથી, અજ્ઞાનવાદી નથી તેમજ વિનયવાદી પણ નથી.

લેચારહિત જીવો અને ક્રિયાવાદિ-ત્વાદિ.

૧૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! શું કૃષ્ણપાક્ષિક જીવો ક્રિયાવાદી છે-ઇત્યાદિ પૃચ્છા. [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓ ક્રિયાવાદી નથી, પણ અક્રિયાવાદી છે, અજ્ઞાનવાદી છે અને વિનયવાદી છે. શુક્લપાક્ષિકો લેચારવાળા જીવોની પેઠે જાણવા અને * સમ્યગ્દષ્ટિ જીવો લેચારહિત જીવોની પેઠે જાણવા. મિથ્યાદષ્ટિને કૃષ્ણપાક્ષિક જીવોની પેઠે જાણવું.

કૃષ્ણપાક્ષિક અને ક્રિયાવાદિત્વાદિ.

૧૨. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! શું સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિ જીવો ક્રિયાવાદી છે-ઇત્યાદિ પૃચ્છા. [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓ ક્રિયાવાદી નથી, અક્રિયાવાદી નથી, પણ અજ્ઞાનવાદી અને વિનયવાદી છે. લેચારહિત જીવોની પેઠે જ્ઞાની અને યાવત્-કેવલજ્ઞાની જીવો જાણવા. તથા અજ્ઞાની અને યાવત્-વિભંગજ્ઞાની જીવો કૃષ્ણપાક્ષિક જીવોની પેઠે જાણવા. આહારસંજ્ઞામાં ઉપયોગવાળા અને યાવત્-પરિગ્રહસંજ્ઞામાં ઉપયોગવાળા જીવો લેચારવાળા જીવોની જેમ જાણવા. નોસંજ્ઞામાં ઉપયોગવાળા જીવો લેચારહિત જીવોની પેઠે જાણવા. વેદવાળા અને યાવત્-નપુંસકવેદવાળા લેચારવાળા જીવોની પેઠે સમજવા. વેદરહિત જીવો લેચારહિત જીવોની જેમ જાણવા. સકપાયી અને યાવત્-લોમકપાયી લેચારહિત જીવોની જેમ સમજવા. અકપાયી જીવો લેચારહિત જીવોની પેઠે જાણવા. યાવત્-કાયયોગી લેચારવાળા જીવોની જેમ જાણવા. અયોગી જીવો લેચારહિત જીવોની પેઠે સમજવા. સાકાર અને અનાકાર ઉપયોગવાળા જીવો સલેચ્ય જીવોની જેમ જાણવા.

મિથ્યાદષ્ટિને ક્રિયાવાદિત્વાદિ.

૧૩. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! શું નૈરયિકો ક્રિયાવાદી છે-ઇત્યાદિ પૃચ્છા. [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓ ક્રિયાવાદી છે, અને યાવત્-વિનયવાદી પણ છે.

નૈરયિકો અને ક્રિયાવાદિત્વાદિ.

૧૪. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! શું લેચારવાળા નૈરયિકો ક્રિયાવાદી છે-ઇત્યાદિ પૃચ્છા. [૩૦] હે ગૌતમ ! પૂર્વ પ્રમાણે જાણવું. એ રીતે યાવત્-કાપોતલેચારવાળા નૈરયિકો સુધી જાણવું. કૃષ્ણપાક્ષિક નૈરયિકો ક્રિયાવાદી નથી. એ ક્રમ પ્રમાણે જીવો ત્રિપે જે વક્તવ્યતા કરી છે તેજ વક્તવ્યતા નૈરયિકો સંબંધે પણ સમજવી. તથા એ રીતે યાવત્-અનાકાર ઉપયોગવાળા નૈરયિકો સુધી સમજવું. વિશેષ એ કે, જેને જે હોય તેને તે કહેવું, વાકીયું ન કહેવું. જેમ નૈરયિકો સંબંધે જણાવ્યું તેમ યાવત્-સ્તનિતકુમારો સુધી જાણવું.

૧૫. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! શું પૃથિવીકાયિકો ક્રિયાવાદી છે-ઇત્યાદિ પૃચ્છા. [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓ ક્રિયાવાદી નથી, તેમ વિનય-

પૃથિવીકાયિકો અને ક્રિયાવાદિત્વાદિ.

૫ * લેચારહિત અયોગી અને સિદ્ધો હોય છે, અને તેઓ ક્રિયાવાદના કારણરૂપ દ્રવ્ય-પર્યાયના ચર્ચાર્થ જ્ઞાનયુક્ત હોવાથી ક્રિયાવાદી છે. અહીં જે સમ્યગ્દષ્ટિને યોગ્ય અલેચ્યત્વ, સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાની, નોચ્છોપયુક્ત અને અવેદકત્વાદિ સ્થાનો છે તે વધાનો ક્રિયાવાદમાં અને મિથ્યાદષ્ટિને યોગ્ય મિથ્યાના અજ્ઞાનાદિ સ્થાનો છે તેનો વાકીના ત્રણ સમવત્સરણમાં સમાવેશ થાય છે. મિથ્યાદષ્ટિ સાધારણ પરિણામવાળો હોવાથી તેની ગણના આત્મિક કે નાત્મિકમાં કરી નથી, તેથી તે અજ્ઞાનવાદી અને વિનયવાદી જ હોય છે.—ટીકા.

જાવ-અળાગારોવહતા વિ । एवं जाव-चउरिन्द्रियाणं । सद्यद्वाणेषु प्याहं चेव मञ्जिह्णगाहं दो समोसरणाहं । सम्मत्तनाणेहि वि प्याणि चेव मञ्जिह्णगाहं दो समोसरणाहं । पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिया जहा जीवा । नवरं जं अत्थि तं भाणियध्वं । मणुस्सा जहा जीवा तहेव निरवसेसं । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा अमुरकुमार ।

૧૦. [પ્ર૦] કિરિયાવાદી ણં મંતે ! જીવા કિં નેરહયાહયં પકરેતિ, તિરિક્ખજોણિયાહયં પકરેતિ, મણુસ્સાહયં પકરેતિ, દેવાહયં પકરેતિ ? [હ૦] ગોયમા ! નો નેરહયાહયં પકરેતિ, નો તિરિક્ખજોણિયાહયં પકરેતિ, મણુસ્સાહયં પિ પકરેતિ, દેવાહયં પિ પકરેતિ ।

૧૧. [પ્ર૦] જહ દેવાહયં પકરેતિ કિં મવ્વણવાસિદેવાહયં પકરેતિ, જાવ-વેમાણિયદેવાહયં પકરેતિ ? [હ૦] ગોયમા ! નો મવ્વણવાસીદેવાહયં પકરેતિ, નો વાણમંતરદેવાહયં પકરેતિ, નો જોइसियदेवाहयं પકરેતિ, વેમાણિયદેવાહયં પકરેતિ ।

૧૨. [પ્ર૦] અકિરિયાવાદી ણં મંતે ! જીવા કિં નેરહયાહયં પકરેતિ, તિરિક્ખ૦-પુચ્છા । [હ૦] ગોયમા ! નેરહયાહયં પિ પકરેતિ, જાવ-દેવાહયં પિ પકરેતિ । एवं अजाणियवादी वि, वेणइयवादी वि ।

૧૩. [પ્ર૦] સલેસ્સા ણં મંતે ! જીવા કિરિયાવાદી કિં નેરહયાહયં પકરેતિ-પુચ્છા । [હ૦] ગોયમા ! નો નેરહયાહયં-एवं जहेव जीवा तहेव सलेस्सा वि चउहि वि समोसरणेहिं भाणियथा ।

૧૪. [પ્ર૦] કણ્હલેસ્સા ણં મંતે ! જીવા કિરિયાવાદી કિં નેરહયાહયં પકરેતિ-પુચ્છા । [હ૦] ગોયમા ! નો નેરહયાહયં પકરેતિ, નો તિરિક્ખજોણિયાહયં પકરેતિ, મણુસ્સાહયં પકરેતિ, નો દેવાહયં પકરેતિ । અકિરિયાવાદી અજ્ઞાણિયાવાદી વેણદયવાદી ય ચ્ચારિ વિ આહયાહં પકરેતિ । एवं नीललेस्सा वि ।

વાદી નથી, કિંતુ અક્રિયાવાદી છે અને અજ્ઞાનવાદી છે. એ પ્રમાણે પૃથિવીકાયિકોને લેચ્યાદિક જે જે પદો સંમવતાં હોય તે તે વર્ગ પદોમાં (અક્રિયાવાદિત્વ અને અજ્ઞાનવાદિત્વ-) એ વે વચ્ચા સમવસરણો જાણવા. એ રીતે યાવત્-અનાકાર ઉપયોગવાળા પૃથિવીકાયિકો સુધી જાણવું. એ યાવત્-ચરિન્દ્રિય જીવો સંવંધે કહેવું. સર્વે સ્થાનકોમાં એ વે વચ્ચેના જ સમવસરણો જાણવાં. એઓનાં સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાનમા પણ એ વે જ વચ્ચાં સમસરણો સમજવા. પંચેન્દ્રિય તિર્યંચયોનિકો સંવંધે જીવોનો જેમ જાણવું. વિશેષ એ કે, જેને જે હોય તેને તે કહેવું. જીવો સંવંધે જે હકીકત કહી છે તે વધી તે જ રીતે મનુષ્યો સંવંધે પણ સમજવી. વાનવ્યંતર, જ્યોતિષિક અને વૈમાનિકોને અમુરકુમારોની જેમ જાણવું.

૧૦. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! ક્રિયાવાદી જીવો શું નૈરયિકતું આયુષ વાધે, તિર્યંચયોનિકતું આયુષ વાધે, મનુષ્યતું આયુષ વાધે કે દેવતું આયુષ વાધે ? [હ૦] હે ગૌતમ ! તેઓ નૈરયિક અને તિર્યંચયોનિકતું આયુષ ન વાધે પણ મનુષ્ય અને દેવતું આયુષ વાધે.

૧૧. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! જો તેઓ દેવતું આયુષ વાધે તો શું મવ્વણવાસી દેવતું આયુષ વાધે કે યાવત્-ત્રૈમાનિક દેવતું આયુષ વાધે ? [હ૦] હે ગૌતમ ! તેઓ મવ્વણવાસી દેવતું આયુષ વાધતા નથી, તેમ વાનવ્યંતર દેવતું અને જ્યોતિષિક દેવતું પણ આયુષ વાધતા નથી, કિંતુ વૈમાનિક દેવતું આયુષ વાધે છે.

૧૨. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! અક્રિયાવાદી જીવો શું નૈરયિકતું આયુષ વાધે, તિર્યંચનું આયુષ વાધે-હ્યાદિ પૃચ્છા. [હ૦] હે ગૌતમ ! તેઓ નૈરયિકતું આયુષ યાવત્-દેવતું આયુષ પણ વાધે. એ પ્રમાણે અજ્ઞાનવાદી અને વિનયવાદી સંવંધે પણ સમજવું.

૧૩. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! લેચ્યાવાળા ક્રિયાવાદી જીવો શું નૈરયિકતું આયુષ વાધે-હ્યાદિ પૃચ્છા. [હ૦] હે ગૌતમ ! તેઓ નૈરયિકતું આયુષ નથી વાધતા-હ્યાદિ જેમ જીવો સંવંધે ઉપર જણાવ્યું છે તેમ જ અહીં પણ (લેચ્યાવાળા જીવોને પણ) ચારે સમવસરણોને આશ્રયી કહેવું.

૧૪. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! કૃણ્ણલેચ્યાવાળા ક્રિયાવાદી જીવો શું નૈરયિકતું આયુષ વાધે-હ્યાદિ પૃચ્છા. [હ૦] હે ગૌતમ ! તેઓ નૈરયિક, તિર્યંચ અને દેવતું આયુષ વાધતા નથી, પણ મનુષ્યતું આયુષ વાધે છે. કૃણ્ણલેચ્યાવાળા અક્રિયાવાદી, અજ્ઞાનવાદી અને વિનયવાદી જીવો ચારે પ્રકારના આયુષનો વન્ધ કરે છે. એ જ રીતે નીલલેચ્યાવાળા અને કાપોતલેચ્યાવાળા સંવંધે પણ જાણવું.

૧. પૃથિવીકાયિકાદિ નિચ્યાદિ દેવાધી તેઓ અક્રિયાવાદી અને અજ્ઞાનવાદી હોય છે. યદ્યપિ તેઓમાં વચનના અભાવથી વાદ નથી, તોપણ તે તે તાદ યોગ્ય પરિણામ દેનાથી તેઓ અક્રિયાવાદી અને અજ્ઞાનવાદી ઠહ્યા છે. અને તેઓમાં વિનયવાદને યોગ્ય પરિણામ નથી તેથી તેઓ વિનયવાદી નથી. પૃથિવીકાયિકોને સંદેશ્ય, દૃષ્ય, નીલ, કાપોત અને તેજોલેચ્યા તથા કૃણ્ણપાકિરત્લાદિ જે હોય છે, તે વધામા અક્રિયાવાદી અને અજ્ઞાનવાદી એ સમવસરણ હોય છે એ પ્રમાણે ચરિન્દ્રિય સુધી જાણવું અહીં પદ્ય સમજવું આવશ્યક છે કે ક્રિયાવાદ અને વિનયવાદ નિશિષ્ટ સમ્મત્તાદિ પરિણામના મદ્સાપના હોય છે તેથી ચેદન્દ્રિયાદિને નાસ્તાવનની પ્રાપ્તિમા નમ્મકમ્પ અને જ્ઞાનનો અથ દેવા છતા પણ તેઓ ક્રિયાવાદી અને વિનય-વાદી ઠહેતાવા નથી

અક્રિયાવાદીને આયુ-
પનો કમ્પ.

અક્રિયાવાદીને આયુ-
પનો કમ્પ.

લેચ્યાવાળા
ક્રિયાવાદીને આયુ-
પનો કમ્પ.

કૃણ્ણલેચ્યાવાળા
ક્રિયાવાદીને આયુ-
પનો કમ્પ.

१५. [प्र०] तेउलेस्सा णं भंते ! जीवा किरियावादी किं नेरइयाउयं पकरेइ ?—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेइ, नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेइ, मणुस्साउयं पकरेइ, देवाउयं पि पकरेइ । जइ देवाउयं पकरेइ—तहेव ।

१६. [प्र०] तेउलेस्सा णं भंते ! जीवा अकिरियावादी किं नेरइयाउयं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेइ, मणुस्साउयं पि पकरेइ, तिरिक्खजोणियाउयं पि पकरेइ, देवाउयं पि पकरेइ । एवं अन्नाणियवादी वि, वेणइयवादी वि । जहा तेउलेस्सा एवं पम्हलेस्सा वि सुक्कलेस्सा वि नायव्वा ।

१७. [प्र०] अलेस्सा णं भंते ! जीवा किरियावादी किं णेरइयाउयं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेइ, नो तिरिक्ख०, नो मणु०, नो देवाउयं पकरेइ ।

१८. [प्र०] कण्हपक्खिया णं भंते ! जीवा अकिरियावादी किं नेरइयाउयं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नेरइयाउयं पि पकरेइ—एवं चउविहं पि । एवं अन्नाणियवादी वि, वेणइयवादी वि । सुक्कपक्खिया जहा सलेस्सा ।

१९. [प्र०] सम्मदिट्ठी णं भंते ! जीवा किरियावादी किं नेरइयाउयं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेइ, नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेइ, मणुस्साउयं पकरेइ, देवाउयं पि पकरेइ । मिच्छादिट्ठी जहा कण्हपक्खिया ।

२०. [प्र०] सम्मामिच्छादिट्ठी णं भंते ! जीवा अन्नाणियवादी किं नेरइयाउयं—? [उ०] जहा अलेस्सा । एवं वेणइयवादी वि । णाणी आभिणिवोहियनाणी य सुयनाणी य ओहिनाणी य जहा सम्मदिट्ठी ।

२१. [प्र०] मणपज्जवणाणी णं भंते !—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेइ, नो तिरिक्ख०, नो मणुस्स०, देवाउयं पकरेइ ।

२२. [प्र०] जइ देवाउयं पकरेइ किं भवणवासि०—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो भवणवासिदेवाउयं पकरेइ, नो वाण-मंतर०, नो जोइसिय०, वेमाणियदेवाउयं पकरेइ । केवलनाणी जहा अलेस्सा । अन्नाणी जाव—विभंगनाणी जहा कण्हपक्खिया । सन्नासु चउसु वि जहा सलेस्सा । नोसन्नोवउत्ता जहा मणपज्जवणाणी । सवेदगा जाव—नपुंसगवेदगा जहा सलेस्सा । अवे-

१५. [प्र०] हे भगवन् ! तेजोलेश्यावाळा क्रियावादी जीवो शुं नैरयिकतुं आयुप वाधे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ नरयिकतुं अने तिर्यचतुं आयुप वांधता नथी, पण मनुष्य अने देवतुं आयुप वाधे छे. जो तेओ देवोतुं आयुप वाधे तो ते पूर्ववत् आयुपनो वन्ध करे छे.

तेजोलेश्यावाळा क्रियावादीने आयुपनो वन्ध.

१६. [प्र०] हे भगवन् ! तेजोलेश्यावाळा अक्रियावादी जीवो शुं नैरयिकतुं आयुप वाधे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ नैरयिकतुं आयुप वांधता नथी, पण तिर्यच, मनुष्य अने देवतुं आयुप वाधे छे. ए ज रीते अज्ञानवादी अने विनयवादी जीवो संवंधे पण समजतुं. जेम तेजोलेश्यावाळा संवंधे जणावुं तेम पद्मलेश्यावाळा अने शुक्कलेश्यावाळा जीवो संवंधे पण समजतुं.

१७. [प्र०] हे भगवन् ! लेश्यारहित क्रियावादी जीवो शुं नैरयिकतुं आयुप वाधे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ नैरयिक, तिर्यच, मनुष्य के देवतुं पण आयुप वांधता नथी.

लेश्यारहित क्रियावादीने आयुपनो वन्ध.

१८. [प्र०] हे भगवन् ! कृष्णपाक्षिक अक्रियावादी जीवो शुं नैरयिकतुं आयुप वाधे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ नैरयिक अने तिर्यच वगोरे—चारे प्रकारना आयुपो वाधे छे. ए रीते कृष्णपाक्षिक अज्ञानवादी अने विनयवादी विपे पण जाणतुं. जेम लेश्यावाळा जीवो संवंधे कहुं छे तेम शुक्कपाक्षिक संवंधे पण जाणतुं.

कृष्णपाक्षिक अक्रियावादीने आयुपनो वन्ध.

१९. [प्र०] हे भगवन् ! सम्यग्दृष्टि क्रियावादी जीवो शुं नैरयिकतुं आयुष्य वाधे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ नैरयिक अने तिर्यचतुं आयुप वांधता नथी, पण मनुष्य अने देवतुं आयुप वाधे छे. मिथ्यादृष्टिने कृष्णपाक्षिकोनी जेम जाणतुं.

सम्यग्दृष्टि क्रियावादीने आयुपनो वन्ध.

२०. [प्र०] हे भगवन् ! सम्यग्मिथ्यादृष्टि अज्ञानवादी जीवो शुं नैरयिकतुं आयुप वाधे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! लेश्यारहित जीवोनी पेटे जाणतुं. ए प्रमाणे विनयवादी संवंधे पण समजतुं. ज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी अने अवधिज्ञानीने सम्यग्दृष्टिनी पेटे समजतुं.

सम्यग्मिथ्यादृष्टि अज्ञानवादीने आयुपनो वन्ध.

२१. [प्र०] हे भगवन् ! मनःपर्यवज्ञानी (क्रियावादी) जीवो शुं नैरयिकतुं आयुप वाधे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ नैरयिक, तिर्यच के मनुष्यतुं आयुप वाधता नथी, पण देवतुं आयुप वाधे छे.

मनःपर्यवज्ञानीने आयुपनो वन्ध.

२२. [प्र०] हे भगवन् ! जो तेओ देवतुं आयुप वाधे तो शुं भवनवासी देवतुं आयुप वाधे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ भवनवासी देवतुं, वानव्यंतर देवतुं के ज्योतिपिक देवतुं आयुप वांधता नथी, पण वैमानिक देवतुं आयुप वाधे छे. केवलज्ञानीने लेश्यारहित जीवोनी पेटे जाणतुं. अज्ञानी, यावत्—विभंगज्ञानीने कृष्णपाक्षिकोनी जेम समजतुं. चारे संज्ञामा उपयोगवाळा जीवोने लेश्यावाळा जीवोनी जेम समजतुं. नोसंज्ञामां उपयोगवाळा जीवोने मनःपर्यवज्ञानीनी जेम जाणतुं. वेदवाळा अने यावत्—नपुंसकवेदवाळांने लेश्यावाळांनी जेम अने वेद विनाना जीवोने लेश्यारहित जीवोनी पेटे समजतुं. कपायवाळा अने यावत्—लोभकप्रायवाळा जीवोने लेश्या-

દગા જહા અલેસ્તા । સકસાયી જાવ—લોમકસાયી જહા સલેસ્તા । અકસાયી જહા અલેસ્તા । સયોગી જાવ—કાયયોગી જહા સલેસ્તા । અજોગી જહા અલેસ્તા । સાગારોવડતા ય અણાગારોવડતા ય જહા સલેસ્તા ।

૨૩. [પ્ર૦] કિરિયાવાદી ણં મંતે ! નેરહ્યા કિં નેરહ્યાઅયં—પુચ્છા । [૩૦] ગોયમા ! નો નેરહ્યાઅયં, નો તિરિક્ષ્ણ, મણુસ્સાઅયં પકરેદ, નો દેવાઅયં પકરેદ ।

૨૪. [પ્ર૦] અકિરિયાવાદી ણં મંતે ! નેરહ્યા—પુચ્છા । [૩૦] ગોયમા ! નો નેરહ્યાઅયં, તિરિક્ષ્ણજોણિયાઅયં પકરેદ, મણુસ્સાઅયં પિ પકરેદ, નો દેવાઅયં પકરેદ । एवं अन्नाणियवादी चि, वेणइयवादी चि ।

૨૫. [પ્ર૦] સલેસ્તા ણં મંતે ! નેરહ્યા કિરિયાવાદી કિં નેરહ્યાઅયં ? [૩૦] एवं सधे चि नेरहया जे किरियावादी ते मणुस्साअयं एगं पकरेद, जे अकिरियावादी, अन्नाणियवादी, वेणइयवादी ते सधट्टाणेसु चि नो नेरहयाअयं पकरेद, तिरिक्खजोणियाअयं पि पकरेद, मणुस्साअयं पि पकरेद, नो देवाअयं पकरेद । नवरं सम्माभिच्छे उचरिच्छेहिं दोहि चि समोसरणेहिं न किंचि चि पकरेद जहेव जीवपदे । एवं जाव—थणियकुमारा जहेव नेरहया ।

૨૬. [પ્ર૦] અકિરિયાવાદી ણં મંતે ! પુઠવિકાહ્યા—પુચ્છા । [૩૦] ગોયમા ! નો નેરહ્યાઅયં પકરેદ, તિરિક્ષ્ણજોણિયાઅયં, મણુસ્સાઅયં, નો દેવાઅયં પકરેદ । एवं अन्नाणियवादी चि ।

૨૭. [પ્ર૦] સલેસ્તા ણં મંતે ! [૩૦] एवं जं जं पदं अत्थि पुढविकाइयाणं तहिं तहिं मज्झिमेसु दोसु समोसरणेसु एवं चेव दुविहं आअयं पकरेद । नवरं तेउलेस्साए न किं पि पकरेद । एवं आउक्काइयाण चि, एवं वणस्सइकाइयाण चि । तेउकाइथा वाउकाइथा सधट्टाणेसु मज्झिमेसु दोसु समोसरणेसु नो नेरहयाअयं पकरेद, तिरिक्खजोणियाअयं पकरेद, नो मणुस्साअयं, नो देवाअयं पकरेद । वेइन्द्रिय—तेइन्द्रिय—चउरिन्द्रियाणं जहा पुढविकाइयाणं । नवरं सम्मत्त—नाणेसु न एकं पि आअयं पकरेद ।

વાઝા જીવોની જેમ જાણવું. કપાયરહિત જીવોને લેર્યારહિત જીવોની જેમ જાણવું. યોગવાઝા અને યાવત્—કાયયોગવાઝા જીવો લેર્યાવાઝા જીવોની જેમ જાણવા. યોગરહિત જીવોને લેર્યારહિત જીવોની પેટે સમજવું. સાકારોપયોગવાઝા અને અનાકારોપયોગવાઝાને લેર્યાવાઝા જીવોની જેમ જાણવું.

૨૩. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! ક્રિયાવાદી નૈરયિકો શું નૈરયિકું આયુપ વાંધે—ઇત્યાદિ પૃચ્છા. [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓ *નૈરયિકું આયુપ, તિર્યંચનું આયુપ અને દેવોનું આયુપ વાંધતા નથી, પણ મનુષ્યનું આયુપ વાંધે છે.

૨૪. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! અક્રિયાવાદી નૈરયિકો શું નૈરયિકું આયુપ વાંધે—ઇત્યાદિ પૃચ્છા. [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓ નૈરયિક અને દેવનું આયુપ વાંધતા નથી, પણ તિર્યંચ અને મનુષ્યનું આયુપ વાંધે છે. એ પ્રમાણે અજ્ઞાનવાદી અને વિનયવાદી સંવંધે પણ જાણવું.

૨૫. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! લેર્યાવાઝા ક્રિયાવાદી નૈરયિકો શું નૈરયિકું આયુપ વાંધે—ઇત્યાદિ પૃચ્છા. [૩૦] હે ગૌતમ ! જે નૈરયિકો ક્રિયાવાદી છે તેઓ વધા એક મનુષ્યનું જ આયુપ વાંધે છે; અને જેઓ અક્રિયાવાદી, અજ્ઞાનવાદી અને વિનયવાદી છે તેઓ વધાં સ્થાનોમાં પણ નૈરયિક અને દેવનું આયુપ વાંધતા નથી, પણ તિર્યંચ અને મનુષ્યનું આયુપ વાંધે છે. પણ વિશેષ એ કે, સમ્યગ્મિથ્યાદિ ઉપરનાં અજ્ઞાનવાદી અને વિનયવાદી—એ વે સમવસરણમા જેમ જીવપદમાં કહ્યું છે તેમ કોઈ પણ આયુપનો વન્ધ કરતો નથી. જેમ નૈરયિકોને કહ્યું તેમ યાવત્—સ્થાનિતકુમારોને પણ સમજવું.

૨૬. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! અક્રિયાવાદી પૃથિવીકાયિકો શું નૈરયિકું આયુપ વાંધે—ઇત્યાદિ પૃચ્છા. [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓ નૈરયિકું અને દેવનું આયુપ નથી વાંધતા, પણ તિર્યંચ અને મનુષ્યનું આયુપ વાંધે છે. એ પ્રમાણે અજ્ઞાનવાદી સંવંધે પણ સમજવું.

૨૭. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! લેર્યાવાઝા પૃથિવીકાયિકો સંવંધે પૃચ્છા. [૩૦] એ પ્રમાણે જે જે પદ પૃથિવીકાયિક સંવંધે હોય તે તે પદ સંવંધી વચ્ચેના (અક્રિયાવાદી અને અજ્ઞાનવાદીના) વે સમવસરણોમાં પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે વે પ્રકારનું મનુષ્યાયુપ અને તિર્યંચાયુપ વાંધે છે. પરંતુ તેજોલેર્યામા કોઈ પણ આયુપનો વન્ધ કરતો નથી. એ રીતે અપ્કાયિક અને વનસ્પતિકાયિક સંવંધે પણ સમજવું. અક્રિયાય અને વાયુકાય વધાં સ્થાનોમા વચ્ચલાં વે સમવસરણોને આશ્રયી નૈરયિક, મનુષ્ય અને દેવનું આયુપ વાંધતા નથી, પણ માત્ર તિર્યંચનું આયુપ વાંધે છે. વેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય અને ચરિન્દ્રિય જીવોને પૃથિવીકાયિકોની પેટે જાણવું, પણ સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાનમાં તેઓ એક પણ આયુપનો વન્ધ કરતા નથી.

૨૩ * ક્રિયાવાદી નારકો નારકભવસ્થાવથી નૈરયિકાયુપ અને ટેવાયુપ વાંધતા નથી અને તિર્યંચાયુપ વાંધતા નથી તે ક્રિયાવાદના સ્થાવથી જાણવું. વાકીના અક્રિયાવાદાદિ ત્રણ સમવસરણમા નારકોને સવૈત્ર તિર્યંચાયુપ અને મનુષ્યાયુપનો જ વન્ધ હોય છે સમ્યગ્મિથ્યાદિ નારકોને છેલ્લા વે સમવસરણો હોય છે, પણ ગુણસ્થાનકના સ્થાવથી તેઓને કોઈ પણ આયુપનો વન્ધ થતો નથી—ટીકા.

૨૭ † પૃથિવીકાયિકોને અપર્યાપ્તાવસ્થામા જ ઇન્દ્રિયપર્યાપ્તિ પૂરી થયા પહેલા તેજોલેર્યા હોય છે અને ઇન્દ્રિયપર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી જ પરમવનું આયુપ વંધાય છે માટે તેજોલેર્યાના અમાવમાંજ આયુપનો વન્ધ થાય છે—ટીકા
‡ વેઇન્દ્રિયાદિને સાસ્તાન હોવાથી સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન હોય છે, પરંતુ તેનો અલ્પ કાલ હોવાથી તે સમયે આયુપનો વન્ધ થતો નથી, માટે સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાનના અમાવમા આયુપનો વન્ધ થાય છે.—ટીકા.

ક્રિયાવાદી નૈરયિકો
ને આયુપવન્ધ

અક્રિયાવાદી નૈરયિકો
ને આયુપવન્ધ.

સલેર્ય ક્રિયાવાદી
નૈરયિકોને આયુપ
વન્ધ.

અક્રિયાવાદી પૃથિવી-
કાયિકોને આયુપ
વન્ધ.

२८. [प्र०] किरियावादी णं भंते ! पंचिन्द्रियतिरिक्खजोगिया किं नेरइयाउयं पकरेइ—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! जहा मणपज्जवनाणी । अकिरियावादी अन्नाणियवादी वेणइयवादी य चउच्चिहं पि पकरेइ । जहा ओहिया तहा सलेस्सा वि ।

२९. [प्र०] कणहलेस्सा णं भंते ! किरियावादी पंचिन्द्रियतिरिक्खजोगिया किं नेरइयाउयं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेइ, णो तिरिक्ख०, नो मणुस्साउयं०, नो देवाउयं पकरेइ । अकिरियावादी अन्नाणियवादी वेणइयवादी चउच्चिहं पि पकरेइ । जहा कणहलेस्सा एवं नीललेस्सा वि, काउलेस्सा वि, तेउलेस्सा जहा सलेस्सा । नवरं अकिरियावादी, अन्नाणियवादी, वेणइयवादी य णो नेरइयाउयं पकरेइ, देवाउयं पि पकरेइ, तिरिक्खजोगियाउयं पि पकरेइ, मणुस्साउयं पि पकरेइ । एवं पण्हेस्सा वि, एवं सुकलेस्सा वि भाणियद्या । कण्हपक्खिया तिहिं समोसरणेहिं चउच्चिहं पि आउयं पकरेइ । सुक्कपक्खिया जहा सलेस्सा । सम्मदिट्ठी जहा मणपज्जवनाणी तहेव वेमाणियाउयं पकरेइ । मिच्छदिट्ठी जहा कण्हपक्खिया । सम्मामिच्छदिट्ठी ण य एक्कं पि पकरेइ जहेव नेरइया । णाणी जाव—ओहिनाणी जहा सम्मदिट्ठी । अन्नाणी जाव—विभंगनाणी जहा कण्हपक्खिया । सेसा जाव—अणागारोवउत्ता सव्वे जहा सलेस्सा तहा चेव भाणियद्या । जहा पंचिन्द्रियतिरिक्खजोगियाणं वत्तव्वया भणिया एवं मणुस्साण वि भाणियद्या, नवरं मणपज्जवनाणी नोसन्नोवउत्ता य जहा सम्मदिट्ठी तिरिक्खजोगिया तहेव भाणियद्या । अलेस्सा केवलनाणी अवेदगा अकसायी अयोगी य एण न एणं पि आउयं पकरेइ । जहा ओहिया जीवा सेसं तहेव । वाणमंतर—जोइसिय—वेमाणिया जहा असुरकुमारा ।

३०. [प्र०] किरियावादी णं भंते ! जीवा किं भवसिद्धीया अमवसिद्धीया ? [उ०] गोयमा ! भवसिद्धीया, नो अमवसिद्धीया ।

३१. [प्र०] अकिरियावादी णं भंते ! जीवा किं भवसिद्धीया—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! भवसिद्धीया वि, अमवसिद्धीया वि । एवं अन्नाणियवादी वि, वेणइयवादी वि ।

२८. [प्र०] हे भगवन् ! क्रियावादी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीवो शुं नैरयिकुं आयुष वांधे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! मनःपर्यवज्ञानीनी पेटे जाणवुं. अक्रियावादी, अज्ञानवादी अने विनयवादी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीवो चारे प्रकारना आयुषनो वन्ध करे छे. लेश्यावाळा जीवो औधिक पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकनी पेटे कहेवा.

क्रियावादी प० ति यं चने आयुषनो वन्ध.

२९. [प्र०] हे भगवन् ! कृष्णलेश्यावाळा क्रियावादी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीवो शुं नैरयिकुं आयुष वांधे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ *नैरयिक, तिर्यच, मनुष्य के देवतुं आयुष वांधता नथी. अक्रियावादी, अज्ञानवादी अने विनयवादी चारे प्रकारना आयुषने वांधे छे. जेम कृष्णलेश्यावाळाने कहुं तेम नीललेश्यावाळा अने कापोतलेश्यावाळाने समजवुं. †लेश्यावाळानी जेम तेजोलेश्यावाळा जाणवा. परन्तु अक्रियावादी, अज्ञानवादी, अने विनयवादी नैरयिकुं आयुष वांधता नथी, पण देवतुं, तिर्यचनुं अने मनुष्यनुं आयुष वांधे छे. ए रीते पद्मलेश्यावाळा तथा शुक्कलेश्यावाळाने पण कहेवुं. कृष्णपाक्षिक ऋण (क्रियावादी सिवाय वाकीनां) समवसरणो वडे चारे प्रकारनुं आयुष वांधे छे. शुक्कपाक्षिकने लेश्यावाळानी पेटे जाणवुं. सम्यग्दृष्टि मनःपर्यवज्ञानीनी जेम वैमानिकुं आयुष वांधे छे. कृष्णपाक्षिकोनी जेम मिथ्यादृष्टि जाणवा. सम्यग्मिथ्यादृष्टि एक पण आयुष वांधता नथी, अने तेओने नैरयिकोनी जेम छेळा वे समवसरणो जाणवा. ज्ञानी अने यावत्—अवधिज्ञानी सम्यग्दृष्टिनी जेम जाणवा. अज्ञानी अने यावत्—विभंगज्ञानी कृष्णपाक्षिकोनी जेम जाणवा. वाकीना यावत्—अनाकार उपयोगवाळा सुधी वधाने लेश्यावाळानी जेम जाणवुं. जेम पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोनी वक्तव्यता कही छे एम मनुष्योनी पण वक्तव्यता कहेवी. परन्तु मनःपर्यवज्ञानी अने नोसंज्ञामां उपयुक्त जीवोने सम्यग्दृष्टि तिर्यचयोनिकनी जेम जाणवुं. लेश्यारहित, केवलज्ञानी, वेदरहित, कपायरहित अने योगरहित जीवो औधिक जीवोनी जेम आयुष वांधता नथी. वाकी वधुं पूर्व प्रमाणे जाणवुं. वानव्यंतर, ज्योतिषिक अने वैमानिकोने असुरकुमारोनी जेम समजवुं.

कृष्णलेश्यावाळा क्रियावादी प० तिर्यचने आयुषनो वन्ध.

३०. [प्र०] हे भगवन् ! शुं क्रियावादी जीवो भवसिद्धिक छे के अमवसिद्धिक छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ भवसिद्धिक छे पण अमवसिद्धिक नथी.

क्रियावादी भव्य के अमव्य !

३१. [प्र०] हे भगवन् ! शुं अक्रियावादी जीवो भवसिद्धिक छे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ भवसिद्धिक पण छे अने अमवसिद्धिक पण छे. ए ज रीते अज्ञानवादी अने विनयवादी संबंधे पण समजवुं.

अक्रियावादी भव्य के अमव्य !

१ चउच्चिं पि ग—घ ।

२९ * ज्यारे सम्यग्दृष्टि पंचेन्द्रिय तिर्यच कृष्णादि अशुभ लेश्याना परिणामवाळा होय छे ल्यारे तेओ कोइ पण आयुषनो वन्ध करता नथी अने तेजोलेश्यादि शुभ परिणामवाळा होय छे ल्यारेज केवल वैमानिकायुषनो वन्ध करे छे—टीका.

† तेजोलेश्यावाळाने लेश्यावाळानी पेटे आयुषनो वन्ध जाणवो एटले क्रियावादी वैमानिकायुष ज वांधे अने यीजा ऋण समवसरणवाळा चारे प्रकारनु आयुष वांधे, कारणके लेश्यावाळाने ए प्रमाणे आयुषनो वन्ध कहेलो छे

३२. [प्र०] सलेस्सा णं भंते ! जीवा किरियावादी किं भव-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! भवसिद्धीया, नो अभवसिद्धीया ।

३३. [प्र०] सलेस्सा णं भंते ! जीवा अकिरियावादी किं भव-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! भवसिद्धीया वि, अभवसिद्धीया वि । एवं अन्नाणियवादी वि, वेणइयवादी वि जहा सलेस्सा । एवं जाव-सुकलेस्सा ।

३४. [प्र०] अलेस्सा णं भंते ! जीवा किरियावादी किं भव-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! भवसिद्धीया, नो अभवसिद्धीया । एवं एणं अभिलावेणं कण्हपक्खिया तिसु वि समोसरणेसु भयणाए । सुक्कपक्खिया चउसु वि समोसरणेसु भवसिद्धीया, नो अभवसिद्धीया । सम्मदिट्ठी जहा अलेस्सा । मिच्छादिट्ठी जहा कण्हपक्खिया । सम्मामिच्छादिट्ठी दोसु वि समोसरणेसु जहा अलेस्सा । नाणी जाव-केवलनाणी भवसिद्धीया, नो अभवसिद्धीया । अन्नाणी, जाव-विमंगनाणी जहा कण्हपक्खिया । सन्नासु चउसु वि जहा सलेस्सा । नोसन्नोवउत्ता जहा सम्मदिट्ठी । सवेदगा जाव-नपुंसगवेदगा जहा सलेस्सा । अवेदगा जहा सम्मदिट्ठी । सकसायी, जाव-लोभकसायी जहा सलेस्सा । अकसायी जहा सम्मदिट्ठी । सयोगी जाव-कायजोगी जहा सलेस्सा । अयोगी जहा सम्मदिट्ठी । सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता जहा सलेस्सा । एवं नेरइया वि माणियघा, नवरं नायघं जं अत्थि । एवं असुरकुमारा वि जाव-थणियकुमारा । पुढविकाइया सघट्टाणेसु वि मज्झिहेसु दोसु वि समोसरणेसु भवसिद्धीया वि, अभवसिद्धीया वि । एवं जाव-वणस्सइकाइया । वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिया एवं चेव । नवरं संमत्ते ओहिनाणे आभिणिवोहियनाणे सुयनाणे एएसु चेव दोसु मज्झिमेसु समोसरणेसु भवसिद्धीया, नो अभवसिद्धीया, सेसं तं चेव । पंचिंदियतिरिखजोणिया जहा नेरइया । नवरं नायघं जं अत्थि । मणुरसा जहा ओहिया जीवा । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

तीसहमे सए पढमो उद्देशो समत्तो ।

३२. [प्र०] हे भगवन् ! लेइयावाळा क्रियावादी जीवो शुं भवसिद्धिक छे के अभवसिद्धिक छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ भवसिद्धिक छे, पण अभवसिद्धिक नथी.

३३. [प्र०] हे भगवन् ! लेइयावाळा अक्रियावादी जीवो शुं भवसिद्धिक छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ भवसिद्धिक पण छे अने अभवसिद्धिक पण छे. एम अज्ञानवादी अने विनयवादी संबंधे पण जाणहुं. जेम लेइयावाळा कहा तेम [कृष्णलेइयावाळा] यावत्-शुक्कलेइयावाळा पण समजवा.

३४. [प्र०] हे भगवन् ! लेइयारहित क्रियावादी जीवो शुं भवसिद्धिक छे के अभवसिद्धिक छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ भवसिद्धिक छे, पण अभवसिद्धिक नथी. ए प्रमाणे ए अभिलापवडे कृष्णपाक्षिक जीवो [क्रियावादी सिवायना] त्रणे समवसरणोमां विकल्पे (भवसिद्धिक) जाणवा. शुक्कपाक्षिक जीवो चारे समवसरणोमां भवसिद्धिक छे, पण अभवसिद्धिक नथी, 'सम्यग्दृष्टि लेइया विनाना जीवोने जेम जाणवा, मिथ्यादृष्टि कृष्णपाक्षिकोनी जेम जाणवा अने सम्यग्मिथ्यादृष्टि (मिश्रदृष्टि), अज्ञानवादी अने विनयवादी-ए वने समवसरणोमा लेइयारहित जीवोनी जेम (भवसिद्धिक) जाणवा. ज्ञानी अने यावत्-केवलज्ञानी जीवो भवसिद्धिक जाणवा, पण अभवसिद्धिक न जाणवा. अज्ञानी अने यावत्-विमंगज्ञानी जीवो कृष्णपाक्षिकनी जेम वने प्रकारना समजवा. आहारसंज्ञामां, यावत् परिग्रहसंज्ञामां उपयोगवाळा लेइयावाळा जीवोनी जेम जाणवा. नोसंज्ञामां उपयुक्त जीवो सम्यग्दृष्टिनी जेम जाणवा. वेदवाळा अने यावत्-नपुंसकवेदवाळा लेइयावाळाणी जेम वने प्रकारना जाणवा. वेदरहित जीवो सम्यग्दृष्टिनी पेटे समजवा. कपायवाळा अने यावत्-लोभकपायवाळा लेइयावाळाणी जेम जाणहुं. कपायरहित जीवोने सम्यग्दृष्टि जीवोनी जेम जाणहुं. योगवाळा, यावत्-काययोगवाळा जीवोने सम्यग्दृष्टि जीवोनी जेम समजवा. साकार-ज्ञानपयोगवाळा अने अनाकार-दर्शनोपयोगवाळा जीवो लेइयायुक्त जीवोनी जेम जाणवा. ए प्रमाणे नेरथिको पण कहेवा. विशेष ए के, जेने जे होय तेने ते जाणहुं. ए रीते असुरकुमारो अने यावत्-स्तानितकुमारो संबंधे पण जाणहुं. पृथिवीकायिको वधा स्यानकोमां वचला वने समवसरणोमां भवसिद्धिको अने अभवसिद्धिको होय छे. ए रीते यावत्-वनस्पतिकायिको सुधी समजहुं. वेइंदिय, तेइंदिय अने चउरिन्द्रिय संबंधे पण एज रीते जाणहुं. विशेष ए के, तेओने सम्यक्त्व, अवधिज्ञान, मतिज्ञान अने श्रुतज्ञानमां वने वचलां समवसरणोने आश्रयी भवसिद्धिको कहेवा, पण अभवसिद्धिको न कहेवा. वाकी वधुं पूर्वे कहा प्रमाणे जाणहुं. पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोने नेरथिकोनी जेम समजहुं. विशेष ए के, जेने जे होय तेने ते जाणहुं. मनुष्योने औधिक जीवोनी जेम समजहुं. वानस्थंवर, प्योतिपिक अने वैमानिकोने असुरकुमारोनी जेम समजहुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

वीओ उद्देशो ।

१. [प्र०] अणंतरोववन्नगा णं भंते ! नेरइया किं किरियावादी—पुच्छा [उ०] गोयमा ! किरियावादी वि, जाव—वेण-इयवादी वि ।

२. [प्र०] सलेस्सा णं भंते ! अणंतरोववन्नगा नेरइया किं किरियावादी ? [उ०] एवं चेव, एवं जहेव पढमुद्देसे नेरइयाणं वत्तघया तहेव इह वि भाणियघा । नवरं जं जस्स अत्थि अणंतरोववन्नगाणं नेरइयाणं तं तस्स भाणियघं । एवं सव्वजीवाणं जाव—वेमाणियाणं । नवरं अणंतरोववन्नगाणं जं जहिं अत्थि तं तहिं भाणियघं ।

३. [प्र०] किरियावादी णं भंते ! अणंतरोववन्नगा नेरइया किं नेरइयाउयं पकरेइ—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेति, नो तिरि०, नो मणु०, नो देवाउयं पकरेइ । एवं अकिरियावादी वि अन्नाणियवादी वि वेणइयवादी वि ।

४. [प्र०] सलेस्सा णं भंते ! किरियावादी अणंतरोववन्नगा नेरइया किं नेरइयाउयं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेइ, जाव—नो देवाउयं पकरेइ । एवं जाव—वेमाणिया । एवं सव्वट्टाणेषु वि अणंतरोववन्नगा नेरइया न किंचि वि आउयं पकरेति जाव—अणागारोवउत्तत्ति । एवं जाव—वेमाणिया, नवरं जं जस्स अत्थि तं तस्स भाणियघं ।

५. [प्र०] किरियावादी णं भंते ! अणंतरोववन्नगा नेरइया किं भवसिद्धिया, अभवसिद्धिया ? [उ०] गोयमा ! भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया ।

६. [प्र०] अकिरियावादी णं—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! भवसिद्धिया वि, अभवसिद्धिया वि । एवं अन्नाणियवादी वि वेणइयवादी वि ।

७. [प्र०] सलेस्सा णं भंते ! किरियावादी अणंतरोववन्नगा नेरइया किं भवसिद्धिया, अभवसिद्धिया ? [उ०] गोयमा ! भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया । एवं एणं अभिलावेणं जहेव ओहिए उद्देसप नेरइयाणं वत्तघया भणिया तहेव इह वि भाणियघा जाव—अणागारोवउत्तत्ति । एवं जाव—वेमाणियाणं । नवरं जं जस्स अत्थि तं तस्स भाणियघं । इमं से लफ्फणं—जे किरि-

द्वितीय उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! अनंतरोपपन्नक (तुरत उत्पन्न थयेला) नैरयिको शुं क्रियावादी छे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ क्रियावादी पण छे अने यावत्—विनयवादी पण छे.

अनन्तरोपपन्न नैर-
यिकोने क्रियावा-
दित्वादि.

२. [प्र०] हे भगवन् ! लेइयावाळा अनंतरोपपन्नक नैरयिको शुं क्रियावादी छे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! जेम प्रथम उद्देशकमां वक्तव्यता कही छे तेम अहीं पण कहेवी. विशेष ए के, अनंतरोपपन्नक नैरयिकोमां जेने जे संभवे तेने ते कहेवुं. ए प्रमाणे सर्व जीवो यावत्—वैमानिकोने पण समजवुं. विशेष ए के, अनन्तरोपपन्न जीवोने जे सभवे ते तेने कहेवुं.

३. [प्र०] हे भगवन् ! क्रियावादी अनन्तरोपपन्नक नैरयिको शुं नैरयिकुं आयुप वाधे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ नैरयिक, तिर्यंच, मनुष्य के देवतुं आयुप वाधता नथी. एज रीते अक्रियावादी, अज्ञानवादी अने विनयवादी सवन्धे पण जाणवुं.

क्रियावादी अनन्त-
रोपपन्न नैरयिकोने
आयुपवन्ध.

४. [प्र०] हे भगवन् ! लेइयावाळा अनन्तरोपपन्नक क्रियावादी नैरयिको शुं नैरयिकुं आयुप वाधे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ नैरयिकुं यावत्—देवतुं आयुप वाधता नथी. ए प्रमाणे यावत्—वैमानिको सुधी समजवुं. ए रीते सर्व स्थानोमां अनन्तरोपपन्नक नैरयिको कोइ पण आयुपनो बन्ध करता नथी. ए प्रमाणे यावत्—अनाकार उपयोगवाळा जीवो सुधी जाणवुं. एम यावत्—वैमानिको सुधी जाणवुं. विशेष ए के जेने जे होय ते तेने कहेवुं.

५. [प्र०] हे भगवन् ! क्रियावादी अनन्तरोपपन्न नैरयिको शुं भवसिद्धिक छे के अभवसिद्धिक छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ भवसिद्धिक छे, पण अभवसिद्धिक नथी.

अनन्तरोपपन्न क्रिया-
वादी नैरयिको भव्य
छे के अभव्य छे ।

६. [प्र०] अक्रियावादी संबंधे पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ भवसिद्धिक पण छे अने अभवसिद्धिक पण छे. ए प्रमाणे अज्ञानवादी अने विनयवादी संबंधे पण समजवुं.

७. [प्र०] हे भगवन् ! लेइयावाळा अनन्तरोपपन्न क्रियावादी नैरयिको शुं भवसिद्धिक छे के अभवसिद्धिक छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ भवसिद्धिक छे, पण अभवसिद्धिक नथी. ए प्रमाणे ए अभिलापथी जेम औविक उद्देशकमां नैरयिकोनी वक्तव्यता कही तेम अहीं

यावादी शुक्रपक्रियया सम्मामिच्छद्विद्वाया एष सद्ये भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया, सेमा सद्ये भवसिद्धिया चि अभवसिद्धिया चि । 'सेवं मंते ! सेवं मंते' ! चि ।

तीसहमे सए वीओ उद्देशो समत्तो ।

पण कहेवी अने ते यावत्-अनाकारोपयोगवाळा सुधी समजवी. ए प्रमाणे यावत्-वैमानिको सुधी जाणवुं. पण जेने जे होय तेने ते कहेवुं. आ तेसुं लक्षण छे-जे क्रियावादी, शुक्रपाक्षिक, अने सम्यग्मिथ्यादृष्टि तेओ वधा भवसिद्धिक होय छे पण अभवसिद्धिक होना नथी, अने वाकी वधा भवसिद्धिक पण होय छे अने अभवसिद्धिक पण होय छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

त्रीशमा शतकमां द्वितीय उद्देशक समाप्त.

तईओ उद्देशो ।

१. [प्र०] परंपरोपपन्नक गं भंते ! नेरइया किरियावादी० ? [उ०] एवं जदेव ओद्विओ उद्देशचो तदेव परंपरोपपन्नक एषु चि नेरइयादीओ तदेव निरवसेसं भाणियधं, तदेव तियदंडगसंगद्विओ । 'सेवं मंते ! संचे मंते' ! चि जाव-पिहरद ।

तीसहमे सए तईओ उद्देशो समत्तो ।

तृतीय उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! परंपरोपपन्नक नैरयिको शुं क्रियावादी छे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! जेम औधिक उद्देशकमां कणुं छे तेम परंपरोपपन्नक नैरयिको संबंधे पण नैरयिकवी मांडी (वैमानिक पर्यन्त) समग्र उद्देशक (क्रियावादित्वादि, आयुष्यवन्ध अने भव्यामव्यत्वादिप्ररूपक) ते ज प्रकारे त्रण दंडक सहित कहेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'—एम कही यावत्-विहरे छे.

त्रीशमा शतकमां तृतीय उद्देशक समाप्त.

४-११ उद्देशगा ।

१. एवं एपणं क्रमेणं जद्येव यंधिसए उद्देशगणं परिवाटी सद्येव इहं पि जाव-अचरिमो उद्देशो । नवरं अणंतरा चत्तारि वि एक्कगमगा, परंपरा चत्तारि वि एक्कगमपणं । एवं चरिमा वि अचरिमा वि एवं चैव । नवरं अलेस्तो केवली अजोगी न भइइ, सेसं तदेव । 'सेवं मंते ! सेवं मंते' ! चि । एष एक्कारल वि उद्देशगा । ४-११.

तीसहमं समवसरणसयं समत्तं ।

४-११ उद्देशको.

१. [प्र०] ए प्रमाणे ए क्रमवडे वंशिशतकमां उद्देशकोनी जे परिपाटी छे ते ज परिपाटी अहीं पण यावत्-अचरम उद्देशक सुधी जाणवी. विशेष ए के, 'अनंतर' शब्दघटित चारे उद्देशको एक गमवाळा छे अने 'परंपर' शब्दघटित चारे उद्देशको एक गमवाळा छे. ए रीते 'चरम' अने 'अचरम' शब्दघटित उद्देशको संबंधे पण समजवुं. विशेष ए के लेख्यारहित, केवलज्ञानी अने अयोगी संबंधे अहीं काइ पण न कहेवुं अने वाकी वधुं पूर्वे कखा प्रमाणे जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे' ए रीते अगियार उद्देशको कहेवा.

त्रीशमा शतकमां ४-११ उद्देशको समाप्त.

त्रीशमुं समवसरण शतक समाप्त ।



इकतीसइमं सयं ।

पढमो उद्देशो ।

१. [प्र०] रायगिहे जाव-एवं वयासी-कति णं भंते ! खुड्डा जुम्मा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! चत्तारि खुड्डा जुम्मा पन्नत्ता । तंजहा-१ कडजुम्मे, २ तेयोए, ३ दावरजुम्मे, ४ कलियोए । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-‘चत्तारि खुड्डा जुम्मा पन्नत्ता, तंजहा-कडजुम्मे, जाव-कलियोगे’ ? [उ०] गोयमा ! जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे चउप-ज्जवसिए सेत्तं खुड्डागकडजुम्मे । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे तिपज्जवसिए सेत्तं खुड्डागतेयोगे । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे दुपज्जवसिए सेत्तं खुड्डागदावरजुम्मे । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे एगपज्जवसिए सेत्तं खुड्डागकलियोगे । से तेणट्टेणं जाव-कलियोगे ।

२. [प्र०] खुड्डागकडजुम्मेनेरइया णं भंते ! कओ उववज्जंति ? किं नेरइएहिंते उववज्जंति ? तिरिक्ख-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! नो नेरइएहिंते उववज्जंति । एवं नेरइयाणं उववाओ जहा वक्कंतीए तहा भाणियध्वो ।

३. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! चत्तारि वा अट्ठ वा वारस वा सोलस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा उववज्जंति ।

एकत्रीशमुं शतक.

प्रथम उद्देशक.

१. [प्र०] राजगृह नगरमां यावत्-आ प्रमाणे वोल्या के हे भगवन् ! क्षुद्र (नाना) युग्मो केटलां कक्षां छे ? [उ०] हे गौतम ! *चार क्षुद्रयुग्मो कक्षां छे, ते आ प्रमाणे-१ कृतयुग्म, २ त्र्योज, ३ द्वापरयुग्म अने ४ कल्योज. [प्र०] हे भगवन् ! शा हेतुथी एम कहो छो के कृतयुग्म यावत्-कल्योजरूप चार क्षुद्र युग्मो कक्षा छे ? [उ०] हे गौतम ! जे सख्यामांथी चार चारनो अपहार करता छेवटे चार वाकी रहे ते सख्याने क्षुद्र कृतयुग्म कहेवाय छे. जे सख्यामांथी चार चारनो अपहार करतां छेवटे त्रण वाकी रहे ते सख्याने क्षुद्र त्र्योज कहेवामा आवे छे. जे सख्यामांथी चार चारनो अपहार करता छेवटे वे वाकी रहे ते सख्याने क्षुद्र द्वापरयुग्म कहेवामां आवे छे. अने जे सख्यामांथी चार चारनो अपहार करता छेवटे एक वाकी रहे ते सख्या क्षुद्र कल्योज कहेवाय छे. ते कारणथी यावत्-कल्योज कहेवाय छे.

२. [प्र०] हे भगवन् ! क्षुद्र कृतयुग्म राशि प्रमाण नैरयिको क्वांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? शुं नैरयिकोथी आवी उत्पन्न थाय छे ? तिर्यचयोनिकोथी आवी उत्पन्न थाय छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! तेओ नैरयिकोथी आवी उत्पन्न थता नथी, [पण पंचेन्द्रिय तिर्यच अने गर्भज मनुष्यथी आवी उत्पन्न थाय छे]-इत्यादि नैरयिकोनो उपपात जेम ण्युत्क्रान्ति पदमां कक्षो छे तेम अर्हीं जाणवो.

३. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! चार, आठ, बार, सोळ अथवा संख्याता के असंख्याता उत्पन्न थाय छे.

क्षुद्रयुग्म-
चार क्षुद्र युग्मो
कहेवानो हेतु.

नैरयिकोनो उपपात.

उपपातसंख्या-

१ * लघु सख्यावाळा राशिविशेषने क्षुद्र युग्म कहे छे. तेमा चाग, आठ, बार वगेरे सख्यावाळा राशिने क्षुद्र कृतयुग्म, त्रण, सात, अगियार वगेरे राशिने क्षुद्र त्र्योज, वे, छ वगेरे राशिने क्षुद्र द्वापरयुग्म अने एक, पाच वगेरे सख्यावाळा राशिने क्षुद्र कल्योज कहेवामां आवे छे.

२ † जुओ प्रज्ञा० पद ६ प० २०४-२१८.

४. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा क्वं उच्यन्ति ? [उ०] गोयमा ! से जहानामप पवप पवमाणे अज्जयसाण०—पवं जहा पंचविंसतिमे सप अट्टमुद्देसप नेरदयाणं वत्तघया तद्देव इद वि भाणियघा जाव—आयप्पयोगेणं उच्यन्ति नो परप्पयोगेणं उच्यन्ति ।

५. [प्र०] रयणप्पभापुदविरुद्दागकडजुम्मनेरदया णं भंते ! कथो उच्यन्ति ? [उ०] पवं जहा ओदियनेरदयाणं वत्तघया सत्तेव रयणप्पभाप वि भाणियघा जाव—नो परप्पयोगेणं उच्यन्ति । पवं सक्करप्पमाप वि जाव—अद्देसत्तमाप—पवं उच्यन्ति जहा वक्कंतीप । “अस्सत्ती पल्लु पदमं दोचं व सरीसवा तदय पक्की” ।—गाहाप उच्यन्ति, सेसं तद्देव ।

६. [प्र०] खुद्दागतेयोगनेरदया णं भंते ! कथो उच्यन्ति ? किं नेरदयाणं—? [उ०] उच्यन्ति जहा वक्कंतीप ।

७. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा पगसमपणं केवइया उच्यन्ति ? [उ०] गोयमा ! तिप्पि वा सत्त वा एणारस वा पन्नरस वा संखेजा वा असंखेजा वा उच्यन्ति । सेसं जहा कडजुम्मस्स, पवं जाव—अद्देसत्तमाप ।

८. [प्र०] खुद्दागदावरजुम्मनेरदया णं भंते ! कथो उच्यन्ति ? [उ०] पवं जद्देव खुद्दागकडजुम्मे । नवरं परिमाणं दो वा छ वा दस वा चोइस वा संपेजा वा असंखेजा वा, सेसं तं चेव जाव—अद्देसत्तमाप ।

९. [प्र०] खुद्दागकलियोगनेरदया णं भंते ! कथो उच्यन्ति ? [उ०] पवं जद्देव खुद्दागकडजुम्मे । नवरं परिमाणं एमो वा पंच वा नव वा तेरस वा संपेजा वा असंखेजा वा उच्यन्ति—सेसं तं चेव । पवं जाव—अद्देसत्तमाप । ‘सेसं भंते ! सेवं भंते ! ति २ जाव—विहरति ।

इकतीसहमे सए पदमो उद्देशो समत्तो ।

उपपातनो प्रकार.

४. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो केवी रीते उपजे ? [उ०] हे गौतम ! जेम कोई कूटनार कूटतो [पोताना पूर्वना स्थानने छोडी आगळना स्थानने प्राप्त करे तेम नारको पण पूर्ववर्ती भवने छोडी अण्वसायरूप कारण वडे आगळना भवने प्राप्त करे छे]—इत्यादि पचीशमा शतकमा आठमा उद्देशकर्मा नैरयिको संबंधे जे वक्तव्यता कही छे ते अहीं पण कहेवी. यावत्—ते आत्मप्रयोगधी उत्पन्न थाय छे, पण परप्रयोगधी उत्पन्न थता नथी.

रसप्रमा नैरयिकोनो उपपात.

५. [प्र०] हे भगवन् ! क्षुद्र कृतयुगमराशि प्रमाण रत्नप्रमाना नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! जेम सामान्य नैरयिकोनी वक्तव्यता कही छे तेम रत्नप्रमाना नैरयिकोनी पण कहेवी. यावत्—ते परप्रयोगधी उपजता नथी. एम शर्कराप्रमा अने यावत्—अधःसप्तम पृथिवी संबंधे पण जाणवुं. ए रीते “व्युत्क्रान्ति पदमां कख्या प्रमाणे अहीं उपपात कहेवो. ‘असंखी जीवो पहेली नरक सुधी, सपों वीजी नरक सुधी अने पक्षीओ वीजी नरक सुधी जाय छे’—इत्यादि गाथा वडे उपपात कहेवो. वाकी वधुं पूर्वे कख्या प्रमाणे कहेवुं.

क्षुद्र ज्योतराशि-प्रमाण नैरयिकोनो उपपात.

६. [प्र०] हे भगवन् ! क्षुद्र ज्योतराशि प्रमाण नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय ? हुं नैरयिकोधी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम “व्युत्क्रान्तिपदमां कख्या प्रमाणे उपपात कहेवो.

उपपातसरया.

७. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ऋण, सात, अगियार, पंदर, संख्याता के असंख्याता उत्पन्न थाय छे. वाकी वधुं कृतयुग नैरयिकोनी पेटे जाणवुं. ए प्रमाणे यावत्—सप्तम नरकपृथिवी सुधी जाणवुं.

क्षुद्र द्वापरयुग नैरयिकोनो उपपात.

८. [प्र०] हे भगवन् ! क्षुद्र द्वापरयुग प्रमाण नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] जेम क्षुद्र कृतयुग संबंधे कहुं छे तेम आ संबंधे पण समजवुं. परन्तु परिमाण—वे, छ, दस, चौद, संख्याता के असंख्याता उत्पन्न थाय छे. वाकी वधुं पूर्वे कख्या प्रमाणे जाणवुं. ए प्रमाणे यावत्—अधःसप्तम नरकपृथिवी सुधी जाणवुं.

क्षुद्र कल्योन नैरयिकोनो उपपात.

९. [प्र०] हे भगवन् ! क्षुद्र कल्योन राशि प्रमाण नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] जेम क्षुद्र कृतयुग संबंधे कहुं छे तेम आ संबंधे पण समजवुं. परन्तु परिमाणमां एक, पांच, नव, तेर, संख्याता अथवा असंख्याता उत्पन्न थाय छे. वाकी वधुं पूर्वे कख्या प्रमाणे जाणवुं. ए प्रमाणे यावत्—सातमी नरकपृथिवी सुधी समजवुं. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एम ज छे—एम कही यावत्—विहरे छे.

एकत्रीशमा शतकर्मां प्रथम उद्देशक समाप्त.

बीओ उद्देशो ।

१. [प्र०] कण्हलेस्सखुड्ढागकडजुम्मनेरइया णं भंते ! कओ उववजंति ? [उ०] एवं चेव जहा ओहियगमो जाव—नो परप्पयोगेणं उववजंति । नवरं उववाओ जहा वकंतीए धूमप्पभापुढविनेरइयाणं, सेसं तं चेव ।

२. [प्र०] धूमप्पभापुढविकण्हलेस्सखुड्ढागकडजुम्मनेरइया णं भंते ! कओ उववजंति ? [उ०] एवं चेव निरवसेसं । एवं तमाए वि, अहेसत्तमाए वि । नवरं उववाओ सव्वथ जहा वकंतीए ।

३. [प्र०] कण्हलेस्सखुड्ढागतेओगनेरइया णं भंते ! कओ उववजंति ? [उ०] एवं चेव, नवरं तिन्नि वा सत्त वा एक्का-रस वा पन्नरस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा, सेसं तं चेव । एवं जाव—अहेसत्तमाए वि ।

४. [प्र०] कण्हलेस्सखुड्ढागदावरजुम्मनेरइया णं भंते ! कओ उववजंति ? [उ०] एवं चेव । नवरं दो वा छ वा दस वा चोइस वा, सेसं तं चेव, धूमप्पभाए वि जाव—अहेसत्तमाए ।

५. [प्र०] कण्हलेस्सखुड्ढागकलियोगनेरइया णं भंते ! कओ उववजंति ? [उ०] एवं चेव । नवरं एक्को वा पंच वा नव वा तेरस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा, सेसं तं चेव । एवं धूमप्पभाए वि, तमाए वि, अहे सत्तमाए वि । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' । त्ति ।

इकतीसइमे सए वीओ उद्देशो समत्तो ।

द्वितीय उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! क्षुद्रकृतयुग्मराशिप्रमाण कृष्णलेइयावाळा नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] औधिक—सामान्य गममां कह्या प्रमाणे अही पण जाणवुं, यावत्—परप्रयोगथी उपजता नथी. पण विशेष ए के, *व्युत्क्रांतिपदमां कह्या प्रमाणे उपपात कह्यो अने धूमप्रभापृथिवीना नैरयिको सवंधे प्रश्न उत्तर वगैरे वाकी वधुं पूर्व कह्या प्रमाणे जाणवुं.

क्षुद्रकृतयुग्म कृष्ण-
लेइयावाळा नैरयि-
कोनो उपपात.

२. [प्र०] हे भगवन् ! क्षुद्रकृतयुग्मराशिप्रमाण कृष्णलेइयावाळा धूमप्रभापृथिवीना नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] पूर्व प्रमाणे वधुं जाणवुं. ए रीते तमःप्रभा अने अधःसतम नरकपृथिवी संबंधे पण समजवुं. पण विशेष ए के, बंधे स्थले उपपात संबंधे *व्युत्क्रांतिपदमां कह्या प्रमाणे जाणवुं.

३. [प्र०] हे भगवन् ! क्षुद्रकृतयुग्मराशिप्रमाण कृष्णलेइयावाळा नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] उपर कह्या प्रमाणे जाणवुं. पण विशेष ए के, त्रण, सात, अगियार, पंदर, संख्याता के असंख्याता उत्पन्न थाय छे. वाकी वधुं पूर्ववत् जाणवुं. एम यावत्—अधःसतम पृथिवी सुधी जाणवुं.

कृष्ण० क्षुद्रकृतयु-
नैरयिको नो उपपात

४. [प्र०] हे भगवन् ! कृष्णलेइयावाळा क्षुद्रद्वारापरयुग्मराशिप्रमाण नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] एज प्रमाणे जाणवुं. पण विशेष ए के, वे, छ, दश के चौद (संख्याता के असंख्याता) आवी उत्पन्न थाय छे. वाकी वधुं पूर्व प्रमाणे जाणवुं. ए प्रमाणे धूमप्रभा यावत्—अधःसतम पृथिवी सुधी पण जाणवुं.

कृष्ण० क्षुद्रद्वारा-
युग्म नैरयिको नो
उपपात.

५. [प्र०] हे भगवन् ! कृष्णलेइयावाळा क्षुद्रकृतयुग्मराशिप्रमाण नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! एज प्रमाणे जाणवुं. पण विशेष ए के, एक, पांच, नव, तेर, संख्याता अथवा असंख्याता उत्पन्न थाय छे. वाकी वधुं तेज प्रमाणे जाणवुं. ए प्रमाणे धूमप्रभा, तमःप्रभा अने अधःसतम नरकपृथिवी संबंधे पण समजवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

कृष्ण० क्षुद्रकृतयु-
नैरयिको नो उपपात.

एकत्रीशमा शतकमां वीजो उद्देशक समाप्त.

तईओ उद्देशो ।

१. [प्र०] नीललेस्सखुड्ढागकडजुम्मनेरइया णं भंते ! कओ उववजंति ? [उ०] एवं जहेव कण्हलेस्सखुड्ढागकडजुम्मा । नवरं उववाओ जो वालुयप्पभाए, सेसं तं चेव । वालुयप्पभापुढविनीललेस्सखुड्ढागकडजुम्मनेरइया एवं चेव, एवं पंकप्पमाए

तृतीय उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! नीललेइयावाळा क्षुद्रकृतयुग्मप्रमित नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] कृष्णलेइयावाळा क्षुद्र-कृतयुग्म नैरयिको संबंधे कहुं छे ते ज प्रमाणे अही पण जाणवुं. परन्तु विशेष ए के वालुकाप्रभामां जे उपपात कह्यो छे ते प्रमाणे अही कहेवुं. वाकी वधुं तेज रीते समजवुं. नीललेइयावाळा क्षुद्रकृतयुग्मप्रमित नैरयिकोने पण एज रीते जाणवुं. ए प्रमाणे पंकप्रभा अने धूमप्रभा संबंधे

नील० क्षुद्रकृतयुग्म-
नैरयिको नो उपपात.
वालुकाप्रभा.

वि, एवं धूमप्पमाए वि । एवं चउसु वि जुम्मसु । नवरं परिमाणं जाणियधं । परिमाणं जहा कण्हलेस्सउद्देसए । सेसं तद्देव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

इकतीसइमे सए तईथो उद्देसो समत्तो ।

पण जाणवुं. एम चारे युग्मोमां समजवुं. पण विशेष ए के, जेम कृष्णलेस्याना उद्देशकमां कहुं छे तेम परिमाण जाणवुं. बाकी वधुं तेज प्रमाणे जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

एकत्रीशमां शतकमां तृतीय उद्देशक समाप्त.

चउत्थो उद्देसो ।

१. [प्र०] काउलेस्सखुद्दागकडजुम्मनेरइया णं भंते ! कथो उवचजंति ? [उ०] एवं जहेव कण्हलेस्सखुद्दागकडजुम्म०, नवरं उववाओ जो रयणप्पमाए; सेसं तं चेव ।

२. [प्र०] रयणप्पमापुढविकाउलेस्सखुद्दागकडजुम्मनेरइया णं भंते ! कथो उवचजंति ? [उ०] एवं चेव । एवं सकर-प्पमाए वि, एवं वालुयप्पमाए वि । एवं चउसु वि जुम्मसु । नवरं परिमाणं जाणियधं, परिमाणं जहा कण्हलेस्सउद्देसए, सेसं तं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

इकतीसइमे सए चउत्थो उद्देसो समत्तो ।

चतुर्थ उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कापोतलेस्यावाळा क्षुद्रकृतयुग्मराशिप्रमित नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] जेम कृष्ण-लेस्यावाळा क्षुद्रकृतयुग्म नैरयिको संवंधे कहुं छे तेम आ संवंधे पण कहेवुं. पण विशेष ए के, रत्नप्रभामां जे उपपात कह्यो छे ते अहाँ जाणवो अने बाकी वधुं तेज प्रमाणे समजवुं.

२. [प्र०] हे भगवन् ! कापोतलेस्यावाळा क्षुद्रकृतयुग्मराशिप्रमाण रत्नप्रभाना नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणवुं. ए रीते शर्कराप्रभामां, बालुकाप्रभामां पण चारे युग्मो विपे समजवुं. पण विशेष ए के, कृष्णलेस्या उद्देशकमां जे परिमाण कहुं छे ते अहाँ जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे. हे भगवन् ! ते एमज छे.'

एकत्रीशमा शतकमां चतुर्थ उद्देशक समाप्त.

पंचमो उद्देसो ।

१. [प्र०] भवसिद्धियखुद्दागकडजुम्मनेरइया णं भंते ! कथो उवचजंति ? किं नेरइय० ? [उ०] एवं जहेव ओहियो गमयो तद्देव निरवसेसं जाव—नो परप्पयोगेणं उवचजंति ।

२. [प्र०] रयणप्पमापुढविभवसिद्धियखुद्दागकडजुम्मनेरइया णं भंते० ? [उ०] एवं चेव निरवसेसं, एवं जाव—अहेसत्त-माए । एवं भवसिद्धियखुद्दागतेयोगनेरइया वि । एवं जाव—कलियोग त्ति । नवरं परिमाणं जाणियधं, परिमाणं पुढमणियं जहा पढमुद्देसए । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

इकतीसइमे सए पंचमो उद्देसो समत्तो ।

पंचम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! क्षुद्रकृतयुग्मराशिप्रमाण भवसिद्धिक नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय ? शुं नैरयिकोथी आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि पृच्छा. [उ०] जेम औधिक—सामान्य गम कह्यो तेम अहाँ पण निरवशेष जाणवुं, यावत्—ते परप्रयोगथी उत्पन्न यता नथी.

२. [प्र०] हे भगवन् ! रत्नप्रभा पृथिवीना क्षुद्रकृतयुग्मराशिप्रमाण भवसिद्धिक नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे—इत्यादि पृच्छा. [उ०] हे गौतम ! पूर्वे कह्या प्रमाणे वधुं जाणवुं. ए प्रमाणे यावत्—अधःसप्तम पृथिवी सुधी समजवुं. एम भवसिद्धिक क्षुद्र-व्योजराशिप्रमित नैरयिकोने पण जाणवुं. ए प्रमाणे यावत्—कल्पेण सुधी समजवुं. पण परिमाण भिन्न जाणवुं, अने ते आगळ प्रथम उद्देशकमां जाणावुं छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

एकत्रीशमा शतकमां पंचम उद्देशक समाप्त.

छटो उद्देसो ।

१. [प्र०] कण्हलेस्सभवसिद्धियखुद्दागकडजुम्मनेरइया णं भंते ! कथो उवचजंति ? [उ०] एवं जहेव ओहियो कण्हले-

छटो उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृष्णलेस्यावाळा भवसिद्धिक क्षुद्रकृतयुग्मप्रमाण नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय ? शुं नैरयिकोथी

कापोत० क्षुद्रकृतयु-
ग्म नैरयिको क्यांथी
आवी उपने ?

भव्य क्षुद्रकृतयुग्म
नैरयिकोने उपपात.

शुं भव्य कृतयुग्म
नैरयिकोने उपपात

स्सउद्देशो तद्देव निरवसेसं चउसु वि जुम्मेसु भाणियद्वो, जाव—[प्र०] अहेसत्तमपुढविकण्हलेस्सखुडुगकलियोगनेरइया णं भंते ! कओ उववज्जंति ? [उ०] तद्देव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

इकतीसइमे सए छट्ठो उद्देशो समत्तो ।

आवी उत्पन्न थाय—इत्यादि पृच्छ. [उ०] औधिक कृष्ण लेस्याना उद्देशकमां जे प्रमाणे कहुं छे ते प्रमाणे वधुं चारे युग्मोमां जाणवुं. यावत्—[प्र०] हे भगवन् ! अधःसत्तम पृथिवीना कृष्णलेस्यावाळा क्षुद्र कल्योजरशिप्रमाण नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

एकत्रीशमा शतकमां छट्ठो उद्देशक समाप्त.

७-२८ उद्देशगा ।

१. नीललेस्सभवसिद्धिया चउसु वि जुम्मेसु तद्देव भाणियद्वो जहा ओहिण नीललेस्सउद्देशए । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति जाव—विहरइ । ३१. ७.

२. काउलेस्सा भवसिद्धिया चउसु वि जुम्मेसु तद्देव उववापयद्वो जद्देव ओहिण काउलेस्सउद्देशए । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति जाव—विहरइ । ३१. ८.

३. जहा भवसिद्धिएहिं चत्तारि उद्देशया भणिया एवं अभवसिद्धीएहिं वि चत्तारि उद्देशगा भाणियद्वो जाव—काउलेस्साउद्देशओ त्ति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । ३१. ९-१२.

४. एवं सम्मदिट्ठीहिं वि लेस्सासंजुत्तेहिं चत्तारि उद्देशगा कायद्वो, नवरं सम्मदिट्ठी पढमवितिएसु वि दोसु वि उद्देशएसु अहेसत्तमापुढवीए न उववापयद्वो, सेसं तं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । ३१. १३-१६.

५. मिच्छदिट्ठीहिं वि चत्तारि उद्देशगा कायद्वो जहा भवसिद्धियाणं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । ३१. १७-२०.

६. एवं कण्हपक्खिएहिं वि लेस्सासंजुत्तेहिं चत्तारि उद्देशगा कायद्वो जद्देव भवसिद्धिएहिं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । ३१. २१-२४.

७. सुक्कपक्खिएहिं एवं चेव चत्तारि उद्देशगा भाणियद्वो । जाव—वालुयप्पमापुढविकाउलेस्ससुक्कपक्खियखुडुगकलियोगनेरइया णं भंते ! कओ उववज्जंति ? तद्देव जाव—नो परप्पयोगेणं उववज्जंति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । सव्वे वि एए अट्ठावीसं उद्देशगा । ३१. २५-२८.

इकतीसइमे सए ७-२८ उद्देशगा समत्ता ।

इकतीसइमं उववायसयं समत्तं ।

७-२८ उद्देशको.

१. नीललेस्यावाळा भवसिद्धिक नैरयिको चारे युग्मोमां औधिक नीललेस्या उद्देशकमां कह्या प्रमाणे कहेवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'—एम कही यावत् विहरे छे. ३१. ७.

२. कापोतलेस्यावाळा भवसिद्धिक नैरयिकोचो चारे युग्मोमां औधिक कापोत लेस्याउद्देशकमां कह्या प्रमाणे उपपात कहेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'—एम कही विहरे छे. ३१. ८.

३. जेम भवसिद्धिकना चार उद्देशको कह्या तेम अभवसिद्धिकना पण चार उद्देशको कापोतलेस्याउद्देशक पर्यन्त कहेवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'—एम कही यावत्—विहरे छे. ३१. ९-१२.

४. एम सम्यग्दृष्टिना पण लेस्या साथे चार उद्देशको कहेवा. परंतु पहेला अने वीजा वने उद्देशकमां सम्यग्दृष्टिनो अधःसत्तम नरक-पृथिवीमां उपपात न कहेवो. बाकी वधुं पूर्वे कह्या प्रमाणे जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ३१. १३-१६.

५. मिथ्यादृष्टिना पण चारे उद्देशको भवसिद्धिकनी पेटे कहेवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ३१. १७-२०.

६. एम कृष्णपाक्षिकना लेस्यासंयुक्त चार उद्देशको भवसिद्धिकनी जेम कहेवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'—३१. २१-२४.

७. शुक्लपाक्षिकना पण एम चार उद्देशको कहेवा. यावत्—हे भगवन् ! वालुकाप्रभा पृथिवीना कापोतलेस्यावाळा शुक्लपाक्षिक क्षुद्रकल्योजरशिप्रमित नैरयिको क्यांथी आवीने उत्पन्न थाय ? [उ०] पूर्वेवत् उत्तर जाणवुं. यावत्—परप्रयोगधी उत्पन्न यता नथी. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. वधा मळीने अठ्यावीश उद्देशको थाय छे. ३१. २५-२८.

एकत्रीशमा शतकमां ७-२८ उद्देशको समाप्त.

एकत्रीशमुं उपपातशतक समाप्त.

वत्तीसइमं सयं

१-२८ उद्देशा ।

१. [प्र०] खुद्दागकडलुम्मनेरइया णं भंते ! अणंतरं उच्चट्टिता कदिं गच्छंति, कदिं उचयजंति ? किं नेरएमु उचयजंति ? तिरिक्खजोणिएसु उचयजंति ? [उ०] उच्चट्टणा जहा वक्कंतीए ।

२. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उच्चट्टंति ? [उ०] गोयमा ! चत्तारि वा अट्ट वा वारस वा सोलस वा संखेजा वा असंखेजा वा उच्चट्टंति ।

३. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा कदं उच्चट्टंति ? [उ०] गोयमा ! से जहा नामए पवए-एवं तदेव । एवं सो चेव गमओ जाव-आयप्पयोगेणं उच्चट्टंति, जो परप्पयोगेणं उच्चट्टंति ।

४. [प्र०] रयणप्पमापुढचिखुद्दागकड० ? [उ०] एवं रयणप्पमाए चि, एवं जाव-अहेसत्तमाए । एवं खुद्दागतेयोग-खुद्दागदावरलुम्म-खुद्दागकल्लियोगा । नवरं परिमाणं जाणियधं, सेसं तं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । ३२-१.

५. कण्हलेस्सकडलुम्मनेरइया-एवं एएणं कमेणं जहेव उववायसए अट्टावीसं उद्देशगा मणिया तहेव उच्चट्टणासए चि अट्टावीसं उद्देशगा भाणियघा निरवसेसा । नवरं 'उच्चट्टंति'त्ति अभिल्लावो भाणियघो, सेसं तं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति जाव-विहरइ ।

वत्तीसइमं उच्चट्टणासयं सम्मत्तं ।

वत्तीशमुं शतक.

१-२८ उद्देशको.

१. [प्र०] हे भगवन् ! क्षुद्रकृतयुग्म राशिरूप नैरयिको मरण पामाने तुरत क्या जाय, अने क्या उत्पन्न थाय ? शुं नैरयिकोमां उत्पन्न थाय छे ? तिर्यंचयोनिकोमा उत्पन्न थाय छे-इत्यादि पृच्छा. [उ०] "व्युक्कान्तिपदमां क्खा प्रमाणे समजहुं.

२. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उद्धर्ते-मरण पामे ? [उ०] हे गौतम ! चार, आठ, बार, सोळ, संख्याता के असंख्याता जीवो उद्धर्ते छे.

३. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो केवी रीते उद्धर्ते ? [उ०] हे गौतम ! जेम कोइ एक कूदनार-इत्यादि पूर्वे कहेल गमक जाणवो. यावत्-ते पोताना प्रयोगयी उद्धर्ते छे, पण परप्रयोगयी उद्धर्तता नथी.

४. [प्र०] रत्तप्रभा पृथिवीना क्षुद्र कृतयुग्म राशिरूप नैरयिको नीकळीने क्या जाय ? [उ०] रत्तप्रभापृथिवीना नैरयिकोनी उद्धर्तना कहेवी. ए प्रकारे यावत्-अधःसप्तम पृथ्वी सुधी पण उद्धर्तना कहेवी. एम क्षुद्र त्र्योजयुग्म, क्षुद्रक द्वापरयुग्म अने क्षुद्रक कल्योज संबंधे पण समजहुं. पण विशेष ए के, परिमाण पूर्वे क्खा प्रमाणे (त्रण, सात, वे, छ, एक, पांच वगैरे) जुहुं जुहुं जाणहुं अने वाकी वधुं तेमज कहेहुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ३२-१.

५. [प्र०] कृष्णलेइयावाळा क्षुद्रकृतयुग्मराशिरूप नैरयिको नीकळी कथां जाय ? [उ०] ए रीते ए क्रमवडे जेम उपपात शतकमां अठ्या-वीश उद्देशको क्खा छे तेमज उद्धर्तना शतकमा पण वधा मळीने अठ्यावीश उद्देशको कहेवा, पण ['उत्पन्न थाय छे'] तेने बदले 'उद्धर्ते छे' एवो पाठ कहेवो, अने वाकी वधुं तेमज जाणहुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'-एम कही यावत्-विहरे छे.

वत्तीशमुं उद्धर्तनाशतक समाप्त.

१ * वेधो नरकथी नीकळी पर्याप्त संख्याता वर्णना आयुपवाळा मनुष्य अने तिर्यंचयोनिमा उत्पन्न थाय छे-जुओ पन्ना० पद ६. प० २०४-२१८.

तेत्तीसइमं सयं पढमं एगिंदियं सयं ।

१. [प्र०] कतिविहा णं भंते ! एगिंदिया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा एगिंदिया पन्नत्ता, तंजहा-पुढविकाइया, जाव-वणस्सइकाइया ।

२. [प्र०] पुढविकाइया णं भंते ! कतिविहा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-सुहुमपुढविकाइया य वायरपुढविकाइया य ।

३. [प्र०] सुहुमपुढविकाइया णं भंते ! कतिविहा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-पन्नत्ता सुहुम-पुढविकाइया य अपन्नत्ता सुहुमपुढविकाइया य ।

४. [प्र०] वायरपुढविकाइया णं भंते ! कतिविहा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! एवं चेव, एवं आउक्काइया वि चउक्कएणं भेदेणं भाणियद्धा, एवं जाव-वणस्सइकाइया ।

५. [प्र०] अपन्नत्तसुहुमपुढविकाइयाणं भंते ! कति कम्मप्पगडीओ पन्नत्ताओ ? [उ०] गोयमा ! अट्ट कम्मप्पगडीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-नाणावरणिज्जं, जाव-अंतराइयं ।

६. [प्र०] पन्नत्तसुहुमपुढविकाइयाणं भंते ! कति कम्मप्पगडीओ पन्नत्ताओ ? [उ०] गोयमा ! अट्ट कम्मप्पगडीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-नाणावरणिज्जं, जाव-अंतराइयं ।

तेत्तीशमुं शतक

प्रथम एकेन्द्रिय शतक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! एकेन्द्रिय जीवो केटला प्रकारना कखा छे ? [उ०] हे गौतम ! पांच प्रकारना कखा छे. ते आ प्रमाणे- पृथिवीकायिक अने यावत्-वनस्पतिकायिक. एकेन्द्रिय प्रश्न.

२. [प्र०] हे भगवन् ! पृथिवीकायिक जीवो केटला प्रकारना कखा छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ वे प्रकारना कखा छे. ते आ प्रमाणे-सूक्ष्म पृथिवीकायिक अने वादर पृथिवीकायिक. पृथिवीकायिक प्रश्न.

३. [प्र०] हे भगवन् ! सूक्ष्मपृथिवीकायिक जीवो केटला प्रकारना कखा छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ वे प्रकारना कखा छे. ते आ प्रमाणे-पर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक अने अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक. सूक्ष्म पृथिवीकायिक प्रश्न.

४. [प्र०] हे भगवन् ! वादर पृथिवीकायिको केटला प्रकारना कखा छे ? [उ०] हे गौतम ! उपर कखा प्रमाणे जाणवुं. ए प्रमाणे अप्पायिकोना पण चार भेद कहेवा. ए रीते यावत्-वनस्पतिकायिक सुधी समजवुं. वादर पृथिवीकायिक प्रश्न.

५. [प्र०] हे भगवन् ! अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकोने केटली कर्मप्रकृतिओ होय ? [उ०] हे गौतम ! तेओने आठ कर्मप्रकृतिओ होय. ते आ प्रमाणे-१ ज्ञानावरणीय अने यावत्-अंतराय. कर्मप्रकृतिओ प्रश्न.

६. [प्र०] हे भगवन् ! पर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकोने केटली कर्मप्रकृतिओ होय ? [उ०] हे गौतम ! तेओने आठ कर्मप्रकृतिओ होय छे. ते आ प्रमाणे-१ ज्ञानावरणीय अने यावत्-८ अंतराय.

૭. [પ્ર૦] અપ્લક્ષ્ણવાયરપુઢવિકાશ્યાણં મંતે ! કતિ કમ્મપ્પગડીઓ પન્નત્તાઓ ? [૩૦] ગોયમા ! एवं चेव ।

૮. [પ્ર૦] પ્લક્ષ્ણવાયરપુઢવિકાશ્યાણં મંતે ! કતિ કમ્મપ્પગડીઓ—? [૩૦] एवं चेव ८ । एवं एणं क्रमेणं जाव-
वायरवणस्सइकाश्याणं प्लक्ष्णगाणं ति ।

૯. [પ્ર૦] અપ્લક્ષ્ણસુહુમપુઢવિકાશ્યાણં મંતે ! કતિ કમ્મપ્પગડીઓ વંધંતિ ? [૩૦] ગોયમા ! सत्तविहद्वंधगा वि, अट्टविह-
बंधगा वि । सत्त बंधमाणा आजयवज्जाओ सत्त कम्मपपगडीओ वंधंति, अट्ट बंधमाणा पट्टिपुत्ताओ अट्ट कम्मपपगडीओ वंधंति ।

૧૦. [પ્ર૦] પ્લક્ષ્ણસુહુમપુઢવિકાશ્યાણં મંતે ! કતિ કમ્મ૦ ? [૩૦] एवं चेव, एवं सधे; जाव—

૧૧. [પ્ર૦] પ્લક્ષ્ણવાયરવણસ્સइकाश्याणं મંતે ! કતિ કમ્મપ્પગડીઓ વંધંતિ ? [૩૦] एवं चेव ।

૧૨. [પ્ર૦] અપ્લક્ષ્ણસુહુમપુઢવિકાશ્યાણં મંતે ! કતિ કમ્મપ્પગડીઓ વેદંતિ ? [૩૦] ગોયમા ! चोदस कम्मपपगडीओ
वेदंति, तंजहा—नाणावरणिजं, जाव—अंतराश्यां, सोइंदियवज्जं, चम्मिगदियवज्जं, घाणिगदियवज्जं, इत्थिवे-
दवज्जं, पुरिसवेदवज्जं । एवं चउकपणं भेदेणं जाव—

૧૩. [પ્ર૦] પ્લક્ષ્ણવાયરવણસ્સइकाश्याणं મંતે ! કતિ કમ્મપ્પગડીઓ વેદંતિ ? [૩૦] ગોયમા ! एवं चेव चोदस
कम्मपपगडीओ वेदंति । 'सेवं मंते ! सेवं मंते' ! ति । ३३-१ ।

૧૪. [પ્ર૦] કશ્ચિદ્દાણં મંતે ! અણંતરોવવન્નગા ઈર્ગિદિયા પન્નત્તા ? [૩૦] ગોયમા ! पंचविहा अणंतरोववन्नगा
एर्गिदिया पन्नत्ता, तंजहा—पुढविकाश्या, जाव—वणस्सइकाश्या ।

૧૫. [પ્ર૦] અણંતરોવવન્નગાણં મંતે ! પુઢવિકાશ્યા કતિવિદ્દા પન્નત્તા ? [૩૦] ગોયમા ! दुविहा पन्नत्ता, तंजहा—
सुहूमपुढविकाश्या य वायरपुढविकाश्या य, एवं दुपपणं भेदेणं जाव—वणस्सइकाश्या ।

૧૬. [પ્ર૦] અણંતરોવવન્નગસુહુમપુઢવિકાશ્યાણં મંતે ! કતિ કમ્મપ્પગડીઓ પન્નત્તાઓ ? [૩૦] ગોયમા ! अट्ट कम्म-
पपगडीओ पन्नत्ताओ, तंजहा—नाणावरणिजं, जाव—अंतराश्यां ।

૭. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! અપર્યાસ વાદર પૃથિવીકાયિકોને કેટલી કર્મપ્રકૃતિઓ હોય ? [૩૦] હે ગૌતમ ! पूर्व प्रमाणे जाणवुं.

૮. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! પર્યાસ વાદર પૃથિવીકાયિકોને કેટલી કર્મ પ્રકૃતિઓ હોય ? [૩૦] હે ગૌતમ ! पूर्वनी प्रमाणे ज जाणवुं. ए
रीते ए क्रमयी यावत्—पर्यास वादर वनस्पतिनायिको सुधी समजवुं.

કર્મપ્રકૃતિઓનો
વચ્ચ

૯. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! અપર્યાસ સૂક્ષ્મ પૃથિવીકાયિકો કેટલી કર્મપ્રકૃતિઓ વાંધે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓ સાત કર્મપ્રકૃતિઓ
અને આઠ કર્મપ્રકૃતિઓ વાંધે છે. જ્યારે સાત કર્મપ્રકૃતિઓ વાંધે ત્યારે આયુષ સિનાયની સાત કર્મપ્રકૃતિઓ વાંધે અને જ્યારે આઠ
કર્મપ્રકૃતિઓને વાંધે ત્યારે પરિપૂર્ણ આઠે કર્મ પ્રકૃતિઓ વાંધે.

૧૦. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! પર્યાસ સૂક્ષ્મ પૃથિવીકાયિકો કેટલી કર્મપ્રકૃતિઓ વાંધે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! पूर्व प्रमाणे जाणवुं. तथा ए
रीते सर्व एकैन्द्रिय संबंधे दंबको कहेवा. यावत्—

૧૧. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! પર્યાસ વાદર વનસ્પતિકાયિકો કેટલી કર્મપ્રકૃતિઓ વાંધે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! एज प्रमाणे जाणवुं.

કર્મપ્રકૃતિઓનું
વેદન.

૧૨. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! અપર્યાસ સૂક્ષ્મ પૃથિવીકાયિકો કેટલી કર્મપ્રકૃતિઓને વેદે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓ ચૌદ કર્મપ્રકૃતિઓ
વેદે. તે આ પ્રમાણે—૧ જ્ઞાનાવરણીય અને યાવત્—૮ અંતરાય, તથા ૯ શ્રોત્રેન્દ્રિયવચ્ચ (શ્રોત્રેન્દ્રિયાવરણ), ૧૦ ચક્ષુરિન્દ્રિયાવરણ, ૧૧
શ્રાણેન્દ્રિયાવરણ, ૧૨ જિહ્વેન્દ્રિયાવરણ, ૧૩ ળીનેદાવરણ અને ૧૪ પુરુષવેદાવરણ. એ રીતે, સૂક્ષ્મ, વાદર, પર્યાસ અને અપર્યાસના ચાર
મેદપૂર્વક યાવત્—પર્યાસ વાદર વનસ્પતિકાયિક સુધી સમજવું. યાવત્—

૧૩. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! પર્યાસ વાદર વનસ્પતિકાયિકો કેટલી કર્મપ્રકૃતિઓને વેદે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! उपर प्रमाणे चोद कर्म-
प्रकृतिओने वेदे છે. 'हे मगवन् ! ते एमज છે, हे मगवन् ! ते एमज છે'. ३३-१.

અનંતરોપપન્ન પ્લક્ષ્ણ-
ન્દ્રિયને કર્મ-
પ્રકૃતિઓ

૧૪. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! અનંતરોપપન્ન (તુરત ઉત્પન્ન થયેલા) એકેન્દ્રિય જીવો કેટલા પ્રકારના કહ્યા છે ? [૩૦] હે ગૌતમ !
अनंतरोपपन्न एकैन्द्रियो पाच प्रकारना कहा છે. તે આ પ્રમાણે—૧ પૃથિવીકાયિક, યાવત્—૫ વનસ્પતિકાયિક.

૧૫. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! અનંતરોપપન્ન પૃથ્વીકાયિકો કેટલા પ્રકારના કહ્યા છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓ વે પ્રકારના કહ્યા છે.
તે આ પ્રમાણે—સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિકો અને વાદર પૃથ્વીકાયિકો. એ પ્રમાણે વે મેદ વડે યાવત્—વનસ્પતિકાયિક સુધી સમજવું.

અનંતરોપપન્ન પ્લક્ષ્ણ-
ન્દ્રિયને કર્મ-
પ્રકૃતિઓ

૧૬. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! અનંતરોપપન્ન સૂક્ષ્મપૃથિવીકાયિકોને કેટલી કર્મપ્રકૃતિઓ કહી છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓને આઠ
કર્મપ્રકૃતિઓ કહી છે. તે આ પ્રમાણે—૧ જ્ઞાનાવરણીય અને યાવત્—૮ અંતરાય.

१७. [प्र०] अणंतरोववन्नगवाद्रपुढविकाइयाणं भंते ! कति कम्मप्पगडीओ पन्नत्ताओ ? [उ०] गोयमा ! अट्ट कम्मप्पयडीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-नाणावरणिज्जं, जाव-अंतरायं । एवं जाव-अणंतरोववन्नगवाद्रवणस्सइकाइयाणं ति ।

१८. [प्र०] अणंतरोववन्नगसुहुमपुढविकाइयाणं भंते ! कति कम्मप्पगडीओ वंधंति ? [उ०] गोयमा ! आउयवज्जाओ सत्त कम्मप्पगडीओ वंधंति । एवं जाव-अणंतरोववन्नगवाद्रवणस्सइकाइय ति ।

१९. [प्र०] अणंतरोववन्नगसुहुमपुढविकाइयाणं भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ वेदेंति ? [उ०] गोयमा ! चउइस कम्म-प्पगडीओ वेदेंति, तंजहा-नाणावरणिज्जं, तहेव जाव-पुरिसवेदवज्जं । एवं जाव-अणंतरोववन्नगवाद्रवणस्सइकाइय ति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति । ३३-२ ।

२०. [प्र०] कतिविहा णं भंते ! परंपरोववन्नगा एगिंदिया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा पंचविहा परंपरोववन्नगा एगिंदिया पन्नत्ता, तंजहा-पुढविकाइया-एवं चउकओ भेदो जहा ओहिउइसए ।

२१. [प्र०] परंपरोववन्नगअपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयाणं भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ पन्नत्ताओ ? [उ०] एवं एणं अभिला-वेणं जहा ओहिउइसए तहेव निरवसेसं भाणियव्वं जाव-चउइस वेदेंति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति । ३३-३ ।

२२. अणंतरोगाढा जहा अणंतरोववन्नगा ३३-४ ।

२३. परंपरोगाढा जहा परंपरोववन्नगा ३२-५ ।

२४. अणंतराहारगा जहा अणंतरोववन्नगा ३३-६ ।

२५. परंपराहारगा जहा परंपरोववन्नगा ३३-७ ।

२६. अणंतरपज्जत्तगा जहा अणंतरोववन्नगा ३३-८ ।

२७. परंपरपज्जत्तगा जहा परंपरोववन्नगा ३३-९ ।

२८. चरिमा वि जहा परंपरोववन्नगा तहेव ३३-१० ।

२९. एवं अचरिमा वि ११ । एवं एए एकारस उइसगा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति । जाव-विहरइ ।

पढमं एगिंदियसयं समत्तं ।

१७. [प्र०] हे भगवन् ! अनन्तरोपपन्न वादर पृथिवीकायिकोने केटली कर्मप्रकृतिओ कही छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने आठ कर्म-प्रकृतिओ कही छे. ते आ प्रमाणे-१ ज्ञानावरणीय अने यावत्-अंतराय. ए प्रमाणे यावत्-८ अनंतरोपपन्न वादर वनस्पतिकायिक संबंधे जाणवुं.

१८. [प्र०] हे भगवन् ! अनन्तरोपपन्न सूक्ष्म पृथिवीकायिको केटली कर्मप्रकृतिओ वाधे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ आयुप सिवाय सात कर्मप्रकृतिओ वाधे छे. ए प्रमाणे यावत्-अनंतरोपपन्न वादरवनस्पतिकायिक सुधी जाणवुं.

१९. [प्र०] हे भगवन् ! अनन्तरोपपन्न सूक्ष्म पृथ्वीकायिको केटली कर्मप्रकृतिओ वेदे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ चौद कर्म-प्रकृतिओने वेदे छे. ते आ प्रमाणे-१ ज्ञानावरणीय अने यावत्-१४ पुरुषवेदावरण. ए प्रमाणे यावत्-अनंतरोपपन्न वादर वनस्पतिका-यिको सुधी समजवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ते एमज छे'. ३३-२.

२०. [प्र०] हे भगवन् ! परंपरोपपन्न (जेनी उत्पत्तिने वे व्रण वगैरे समयो थयेला छे एवा) एकेन्द्रियो केटला प्रकारना कह्या छे ? [उ०] हे गौतम ! पांच प्रकारना कह्या छे, ते आ प्रमाणे-पृथिवीकायिक-ए प्रमाणे औधिक उदेशकमां कह्या प्रमाणे प्रत्येकना चार चार भेद जाणवा.

२१. [प्र०] हे भगवन् ! परंपरोपपन्न अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकोने केटली कर्मप्रकृतिओ होय ? [उ०] हे गौतम ! ए प्रमाणे-ए अभिलापवडे औधिक उदेशकमा कह्या प्रमाणे निरवशेष कहेवुं. यावत्-चौद कर्मप्रकृतिओने वेदे छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ३३-३.

२२. अनन्तरोपपन्ननी पेठे अनन्तरावगाढ संबंधे समजवुं. ३३-४.

२३. परंपरोपपन्ननी पेठे परंपरावगाढ संबंधे समजवुं. ३३-५.

२४. अनन्तरोपपन्ननी पेठे अनन्तराहारक संबंधे समजवुं ३३-६.

२५. परंपरोपपन्ननी पेठे परंपराहारक संबंधे समजवुं. ३३-७.

२६. अनंतरोपपन्ननी पेठे अनन्तर पर्याप्त विषे पण जाणवुं. ३३-८.

२७. परंपरोपपन्ननी पेठे परंपर पर्याप्त संबंधे समजवुं. ३३-९.

२८. परंपरोपपन्ननी पेठे चरम संबंधे पण समजवुं. ३३-१०.

२९. ए रीते अचरमो संबंधे पण समजवुं. ए प्रमाणे ए अगियार उदेशको कह्या. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ३३-११.

तेत्रीशमा शतकमां प्रथम एकेन्द्रिय शतक समाप्त.

अनन्तरोपपन्न एकेन्द्रियने कर्मप्रकृतिओने वन्ध-अनन्तरोपपन्न एकेन्द्रियने कर्मप्रकृतिओनु वेदन

परंपरोपपन्न एकेन्द्रियना प्रकार.

परंपरोपपन्न एकेन्द्रियने कर्मप्रकृतिओ

वीअं सयं ।

१. [प्र०] कइविहा णं भंते ! कण्हलेस्सा एगिंदिया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा कण्हलेस्सा एगिंदिया पन्नत्ता, तंजहा—पुढविकाइया, जाव—वणस्सइकाइया ।

२. [प्र०] कण्हलेस्सा णं भंते ! पुढविकाइया कइविहा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता, तंजहा—सुहुमपुढविकाइया य चादरपुढविकाइया य ।

३. [प्र०] कण्हलेस्सा णं भंते ! सुहुमपुढविकाइया कइविहा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! एवं एणं अभिलावेणं चउकमेदो जहेव ओहिउद्देसए, जाव—वणस्सइकाइय चि ।

४. [प्र०] कण्हलेस्सअपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयाणं भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ पन्नत्ताओ ? [उ०] एवं नेव एणं अभिलावेणं जहेव ओहिउद्देसए तहेव पन्नत्ताओ, तहेव वंधंति, तहेव वेदंति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! चि ।

५. [प्र०] कइविहा णं भंते ! अणंतरोववन्नगकण्हलेस्सएगिंदिया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा अणंतरोववन्नगकण्हलेस्सा एगिंदिया—एवं एणं अभिलावेणं तहेव दुयओ भेदो जाव—वणस्सइकाइय चि ।

६. [प्र०] अणंतरोववन्नगकण्हलेस्ससुहुमपुढविकाइयाणं भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ पन्नत्ताओ ? [उ०] एवं एणं अभिलावेणं जहा ओहियो अणंतरोववन्नगाणं उद्देसओ तहेव जाव—वेदंति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! चि ।

७. [प्र०] कइविहा णं भंते ! परंपरोववन्नगा कण्हलेस्सा एगिंदिया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा परंपरोववन्नगा कण्हलेस्सा एगिंदिया पन्नत्ता, तंजहा—पुढविकाइया—एवं एणं अभिलावेणं तहेव चउकओ भेदो जाव—वणस्सइकाइय चि ।

८. [प्र०] परंपरोववन्नगकण्हलेस्सअपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयाणं भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ पन्नत्ताओ ? [उ०] एवं एणं अभिलावेणं जहेव ओहियो परंपरोववन्नगउद्देसओ तहेव जाव—वेदंति । एवं एणं अभिलावेणं जहेव ओहिएगिंदियसए एकारस उद्देसगा भणिया तहेव कण्हलेस्ससते चि भाणियत्ता जाव—अचरिमचरिमरुण्हलेस्सा एगिंदिया ।

वित्तिं एगिंदियसयं समत्तं ।

द्वितीय एकेन्द्रिय शतक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृण्णलेइयावाळा एकेन्द्रिय जीवो केटला प्रकारना कळा छे ? [उ०] हे गौतम ! कृण्णलेइयावाळा एकेन्द्रियो पांच प्रकारना कळा छे, ते आ प्रमाणे—१ पृथिवीकायिकरु अने यावत्—५ वनस्पतिकायिक.

२. [प्र०] हे भगवन् ! कृण्णलेइयावाळा पृथिवीकायिको केटला प्रकारना कळा छे ? [उ०] हे गौतम ! वे प्रकारना छे, ते आ प्रमाणे—१ सूक्ष्म पृथिवीकायिक अने २ वादर पृथिवीकायिक.

३. [प्र०] हे भगवन् ! कृण्णलेइयावाळा सूक्ष्म पृथिवीकायिको केटला प्रकारना कळा छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम औधिक उद्देशकमा कळुं छे तेम ए अभिलाप वडे चार भेदो यावत्—वनस्पतिकायिको सुधी जाणवा.

४. [प्र०] हे भगवन् ! कृण्णलेइयावाळा अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकोने केटली कर्मप्रकृतिओ होय ? [उ०] उपर प्रमाणे जेम औधिक उद्देशकमा कळुं छे तेम ए अभिलाप वडे ते रीते ते कर्मप्रकृतिओ कहेवी. ते कर्मप्रकृतिओ तेवी रीते वाधे छे अने तेवी रीते तेनुं वेदन पण करे छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.' ३३. २.

५. [प्र०] हे भगवन् ! अनंतरोपपन्न कृण्णलेइयावाळा एकेन्द्रियो केटला प्रकारना छे ? [उ०] हे गौतम ! अनंतरोपपन्न कृण्णलेइयावाळा एकेन्द्रियो पाच प्रकारना कळा छे. ए रीते ए अभिलापवडे पूर्वनी प्रमाणे तेना वे भेद यावत्—वनस्पतिकाय सुधी जाणवा.

६. [प्र०] हे भगवन् ! अनंतरोपपन्न कृण्णलेइयावाळा सूक्ष्म पृथिवीकायिकोने केटली कर्मप्रकृतिओ कही छे ? [उ०] ए प्रमाणे पूर्वे कहेला अभिलाप वडे औधिक अनंतरोपपन्नना उद्देशकमा कळां प्रमाणे यावत्—'वेदे छे' लासुधी जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ३३. ३.

७. [प्र०] हे भगवन् ! परंपरोपपन्न कृण्णलेइयावाळा एकेन्द्रियो केटला प्रकारना कळा छे ? [उ०] हे गौतम ! परंपरोपपन्न एकेन्द्रियो पांच प्रकारना कळा छे, ते आ प्रमाणे—पृथिवीकायिको वगरे. एम ए अभिलापवडे तेज प्रकारे चार भेद यावत्—वनस्पतिकाय सुधी कहेवा.

८. [प्र०] हे भगवन् ! परंपरोपपन्न कृण्णलेइयावाळा अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकोने केटली कर्मप्रकृतिओ होय छे ? [उ०] ए प्रमाणे ए अभिलापवडे औधिक उद्देशकमां कहेल परंपरोपपन्न संवंधी वधी हकीकत अहाँ जाणवी. तेज प्रमाणे यावत्—वेदे छे—ए प्रकारे ए अभिलापवडे जेम औधिक एकेन्द्रियशतकमां अगियार उद्देशको कळा छे तेम कृण्णलेइया शतकमा पण कहेवा, यावत्—अचरम अने चरम कृण्णलेइयावाळा एकेन्द्रियो सुधी कहेवुं.

तेत्रीशमा शतकमां वीअं एकेन्द्रिय शतक समाप्त.

कृण्णलेइयावाळा
एकेन्द्रियोना प्रकार.

पृथिवीकायिकोना
प्रकार.

कृण्णलेइयावाळा
सूक्ष्म पृथिवीकायिकोना
प्रकार.

अनन्तरोपपन्न
कृण्णलेइयावाळा
एकेन्द्रियोना
प्रकार.

परंपरोपपन्न कृण्ण
लेइयावाळा एकेन्द्रिय
प्रकार.

तईयं सयं.

१. जहा कण्ठलेस्सेहिं भणियं एवं नीललेस्सेहि वि सयं भाणियच्चं । 'सेवं भंते! सेवं भंते' । त्ति ।

ततियं एगिंदियसयं समत्तं ।

त्रीजुं एकेन्द्रिय शतक.

१. [प्र०] जेम कृष्णलेइयावाळा संवंधे कहुं तेम नीललेइयावाळा संवंधे पण शतक कहेवुं. 'हे भगवन्! ते एमज छे, हे भगवन्! ते एमज छे'.

तेत्रीशमा शतकमां त्रीजुं एकेन्द्रिय शतक समाप्त.

चउत्थं सयं.

१. एवं काउलेस्सेहि वि सयं भाणियच्चं, नवरं 'काउलेस्से'ति अभिलाचो भाणियच्चो ।

चउत्थं एगिंदियसयं समत्तं ।

चोथुं एकेन्द्रिय शतक.

१. ए रीते कापोतलेइयावाळा संवंधे पण शतक कहेवुं. पण विशेष ए के, 'कापोतलेइयावाळा' एचो अभिलाप—पाठ कहेवो.

तेत्रीशमा शतकमां चोथुं एकेन्द्रिय शतक समाप्त.

पंचमं सयं.

१. [प्र०] कइविहा णं भंते! भवसिद्धीया एगिंदिया पन्नत्ता? [उ०] गोयमा! पंचविहा भवसिद्धीया एगिंदिया पन्नत्ता, तंजहा—पुढविकाइया, जाव—वणस्सइकाइया, भेदो चउक्कओ जाव—वणस्सइकाइय त्ति ।

२. [प्र०] भवसिद्धियअपजत्तसुहुमपुढविकाइयाणं भंते! कति कम्मप्पगडीओ पन्नत्ताओ? [उ०] एवं एएणं अभिलावेणं जहेव पढमिल्लणं एगिंदियसयं तहेव भवसिद्धियसयं पि भाणियच्चं । उद्देशगपरिवाडी तहेव जाव—अचरिमो त्ति । 'सेवं भंते! सेवं भंते' । त्ति ।

पंचमं एगिंदियसयं समत्तं ।

पांचमुं एकेन्द्रिय शतक.

१. [प्र०] हे भगवन्! भवसिद्धिक एकेन्द्रियो केटला प्रकारना कखा छे? [उ०] हे गौतम! भवसिद्धिक एकेन्द्रियो पांच प्रकारना कखा छे. ते आ प्रमाणे—१ पृथिवीकायिक अने यावत्—५ वनस्पतिकायिक. एओना चारे भेद वगरे हकीकत वनस्पतिकायिक सुधी जाणवी.

२. [प्र०] हे भगवन्! भवसिद्धिक अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकोने केटली कर्मप्रकृतिओ होय छे? [उ०] ए रीते ए अभिलापवडे जेम पहेलुं एकेन्द्रिय शतक कहुं छे तेम आ भवसिद्धिक शतक पण कहेवुं. उद्देशकोनी परिपाटी पण तेज रीते यावत्—अचरम उद्देशक सुधी कहेवी. 'हे भगवन्! ते एमज छे, हे भगवन्! ते एमज छे'.

पांचमुं एकेन्द्रिय शतक समाप्त.

छट्ठं सयं.

१. [प्र०] कइविहा णं भंते! कण्ठलेस्सा भवसिद्धिया एगिंदिया पन्नत्ता? [उ०] गोयमा! पंचविहा कण्ठलेस्सा भवसिद्धिया एगिंदिया पन्नत्ता, तं जहा—पुढविकाइया जाव—वणस्सइकाइया ।

छट्ठुं एकेन्द्रिय शतक.

१. [प्र०] हे भगवन्! कृष्णलेइयावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियो केटला प्रकारना कखा छे? [उ०] हे गौतम! कृष्णलेइयावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियो पांच प्रकारना कखा छे. ते आ प्रमाणे—१ पृथ्वीकायिक अने यावत्—५ वनस्पतिकायिक.

२. [प्र०] कण्ठलेस्सभवसिद्धीयपुढविकाइया णं भंते ! कतिविहा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-सुहुमपुढविकाइया य वायरपुढविकाइया य ।

३. [प्र०] कण्ठलेस्सभवसिद्धीयसुहुमपुढविकाइया णं भंते ! कइविहा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-पन्नत्ता य अपन्नत्ता य । एवं वायरा वि । एणं अमिलावेणं तहेव चउत्तरो भेदो भाणियवो ।

४. [प्र०] कण्ठलेस्सभवसिद्धीयअपन्नत्तासुहुमपुढविकाइयाणं भंते ! कइ कम्मप्यगडीओ पन्नत्ताओ ? [उ०] एवं एणं अमिलावेणं जहेव ओहिउहेसए तहेव जाव-वेदंति ।

५. [प्र०] कइविहा णं भंते ! अणंतरोववन्नगा कण्ठलेस्सा भवसिद्धिया एगिंदिया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा अणंतरोववन्नगा० जाव-अणस्सइकाइया ।

६. [प्र०] अणंतरोववन्नगकण्ठलेस्सभवसिद्धीयपुढविकाइया णं भंते ! कतिविहा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-सुहुमपुढविकाइया-एवं दुवओ भेदो ।

७. [प्र०] अणंतरोववन्नगकण्ठलेस्सभवसिद्धीयसुहुमपुढविकाइयाणं भंते ! कइ कम्मप्यगडीओ पन्नत्ताओ ? [उ०] एवं एणं अमिलावेणं जहेव ओहियो अणंतरोववन्नउहेसओ तहेव जाव वेदंति । एवं एणं अमिलावेणं एकारस्स वि उहेसगा तहेव भाणियवा जहा ओहियसए जाव-‘अचरिमो’त्ति ।

छट्टं एगिंदियसयं समत्तं ।

२. [प्र०] हे भगवन् ! कण्ठलेस्यावाळा भवसिद्धिक पृथिवीकायिको केटला प्रकारना कया छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ वे प्रकारना कया छे, ते आ प्रमाणे-सूक्ष्मपृथिवीकायिको अने वादरपृथिवीकायिको.

३. [प्र०] हे भगवन् ! कण्ठलेस्यावाळा भवसिद्धिक सूक्ष्मपृथिवीकायिको केटला प्रकारना कया छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ वे प्रकारना कया छे, ते आ प्रमाणे-पर्याप्तको अने अपर्याप्तको. ए रीते वादर पृथिवीकायिको संबंधे पण समजहुं. ए अमिलापण्डे तेज प्रकारे चार भेदो कहेवा.

४. [प्र०] हे भगवन् ! कण्ठलेस्यावाळा भवसिद्धिक अपर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिकोने केटली कर्मप्रकृतिओ होय छे ? [उ०] एम ए अमिलापण्डे जेम औविक उदेशकमा कहुं छे तेम आ संबंधे यावत्-‘वेदे छे’ लां सुधी समजहुं.

५. [प्र०] हे भगवन् ! अनन्तरोपपन्न कण्ठलेस्यावाळा भवसिद्धिक एकेंद्रियो केटला प्रकारना कया छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ पांच प्रकारना कया छे, ते आ प्रमाणे-अनन्तरोपपन्न पृथिवीकायिक अने यावत्-वनस्पतिकायिक.

६. [प्र०] हे भगवन् ! अनन्तरोपपन्न कण्ठलेस्यावाळा भवसिद्धिक पृथिवीकायिको केटला प्रकारना कया छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ वे प्रकारना कया छे, ते आ प्रमाणे-सूक्ष्म पृथिवीकायिको अने वादर पृथिवीकायिको-ए रीते वे भेद कहेवा.

७. [प्र०] हे भगवन् ! अनन्तरोपपन्न कण्ठलेस्यावाळा भवसिद्धिक सूक्ष्मपृथिवीकायिकोने केटली कर्मप्रकृतिओ होय छे ? [उ०] ए प्रमाणे ए अमिलापयी जेम अनन्तरोपपन्न संबंधे औविक उदेशकमा कहुं छे तेमज आ संबंधे पण यावत्-‘वेदे छे’ लां सुधी जाणहुं. ए रीते ए अमिलापण्डे औविक शतकमा कया प्रमाणे अगियार उदेशको यावत्-हेळा ‘अचरम’ नामना उदेशक सुधी कहेवा.

तेत्रीशमा शतकमां छट्टं एकेंद्रिय शतक समाप्त.

सत्तमं सयं.

१. जहा कण्ठलेस्सभवसिद्धिपहिं सयं भणियं एवं नीललेस्सभवसिद्धिपहिं चि सयं भाणियवं ।

सत्तमं एगिंदियसयं समत्तं ।

सातसुं एकेन्द्रिय शतक.

१. जे रीते कण्ठलेस्यावाळा भवसिद्धिक एकेंद्रियो संबंधे शतक कहुं छे ते ज रीते नीललेस्यावाळा भवसिद्धिक एकेंद्रियो विपे पण शतक कहेवुं.

तेत्रीशमा शतकमां सातसुं एकेंद्रिय शतक समाप्त.

अष्टमं सयं.

१. एवं काउलेस्सभवसिद्धीपहि वि सयं ।

अष्टमं एगिंदियसयं समत्तं ।

आठमुं एकेन्द्रिय शतक.

१. ए ज रीते कापोतलेस्यावाळा भवसिद्धिक एकेद्रियो विपे पण शतक कहेवुं.

तेत्रीशमा शतकमां आठमुं एकेन्द्रिय शतक समाप्त.

नवमं सयं.

१. [प्र०] हे इविहा णं मंते ! अभवसिद्धीया एगिंदिया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा अभवसिद्धीया एगिंदिया पन्नत्ता, तंजहा-पुढविकाइया, जाव-वणस्सइकाइया । एवं जहेव भवसिद्धीयसयं भणियं, [एवं अभवसिद्धीयसयं] नवरं नव उद्देशगा चरमअचरमउद्देशगवज्जा, सेसं तहेव ।

नवमं एगिंदियसयं समत्तं ।

नवमुं एकेन्द्रिय शतक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! अभवसिद्धिक एकेद्रियो केटला प्रकारना कह्या छे ? [उ०] हे गौतम ! अभवसिद्धिक एकेन्द्रियो पांच प्रकारना कह्या छे. ते आ प्रमाणे-१ पृथिवीकायिक अने यावत्-५ वनस्पतिकायिक. ए प्रमाणे जे रीते भवसिद्धिक संबंधे शतक कहुं छे ते ज रीते अभवसिद्धिको संबंधे पण शतक कहेवुं. पण विशेष ए के, 'चरम' अने 'अचरम' सिवायना नव उद्देशको कहेवा. अने बाकी वधुं तेमज समजवुं.

तेत्रीशमा शतकमां नवमुं एकेन्द्रिय शतक समाप्त.

दसमं सयं.

१. एवं कणहलेस्सअभवसिद्धीयएगिंदियसयं पि ।

दसमं एगिंदियसयं समत्तं ।

दसमुं एकेन्द्रिय शतक.

१. ए ज रीते कृष्णलेस्यावाळा अभवसिद्धिक एकेद्रियो संबंधे पण शतक समजवुं.

तेत्रीशमा शतकमां दशमुं एकेन्द्रिय शतक समाप्त.

इक्कारसमं सयं.

१. नीललेस्सअभवसिद्धीयएगिंदीपहि वि सयं ।

इक्कारसमं एगिंदियसयं समत्तं ।

अगियारमुं एकेन्द्रिय शतक.

१. ए ज प्रकारे नीललेस्यावाळा अभवसिद्धिक एकेद्रियो सवधे पण शतक कहेवुं.

तेत्रीशमा शतकमां अगियारमुं एकेन्द्रिय शतक समाप्त.

वारसमं सयं.

१. काउलेस्सअभवसिद्धीयसयं, एवं चत्तारि वि अभवसिद्धीयसयाणि, णव णव उद्देशगा भवंति, एवं एयाणि वारस्स एगिंदियसयाणि भवंति ।

वारसमं एगिंदियसयं समत्तं ।

तेत्तीसइमं सयं समत्तं ।

वारमुं एकेन्द्रिय शतक.

१. ए ज रीते कापोतलेस्यावाळा अभवसिद्धिक एकेन्द्रिय संबंधे पण शतक कहेवुं. ए प्रमाणे अभवसिद्धिक संबंधे चार शतको अने तेना नव नव उद्देशको छे. ए रीते ए वार एकेद्रिय शतको छे.

तेत्रीशमा शतकमां वारमुं एकेन्द्रिय शतक समाप्त.

तेत्रीशमुं शतक समाप्त.

चोत्तीसमं सयं पढमं एगिंदियसयं पढमो उद्देशो ।

१. [प्र०] कइचिहा णं भंते ! एगिंदिया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा एगिंदिया पन्नत्ता, तंजहा-पुढविकाइया, जाव-वणस्सइकाइया । एवं पतेणं चैव चउक्कएणं भेदेणं भाणियद्धा जाव-वणस्सइकाइया ।

२. [प्र०] अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए पुरच्छिमिह्हे चरिमंते समोहए, समोह-णिन्ता जे भविए इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए पञ्चच्छिमिह्हे चरिमंते अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयाए उववज्जित्तए, से णं भंते ! कइसमएणं विग्गहेणं उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेणं उववज्जेजा ।

३. [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं चुच्चइ-‘एगसमइएण वा दुसमइएण वा जाव-उववज्जेजा’ [उ०] एवं यल्लु गोयमा ! मए सत्त सेढीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-१ उज्जुयायता सेढी, २ एगयओवंका, ३ दुहओवंका, ४ एगयओपहा, ५ दुहओयहा, ६ चक्कवाला, ७ अद्धचक्कवाला । १ उज्जुयायताए सेढीए उववज्जमाणे एगसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा । २ एगओवंकाए,

चोत्रीशसुं शतक प्रथम एकेन्द्रिय शतक प्रथम उद्देशक.

[आ शतकमा एकेन्द्रियो संबंधे कहेवासुं छे. तेना अवान्तर चार शतक छे. तेमां प्रथम शतकना प्रथम उद्देशकमां एकेन्द्रियोनी गति संबंधे कयन छे—]

१. [प्र०] हे भगवन् ! एकेन्द्रियो केठला प्रकारना कहा छे ? [उ०] हे गौतम ! एकेन्द्रियो पांच प्रकारना कहा छे. ते आ प्रमाणे-पृथिवीकायिको, यावत्-वनस्पतिकायिको. एस पूर्वोक्त (बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त अने अपर्याप्त) ए चार भेद यावत्-वनस्पतिकायिक सुची कहेवा.

२. [प्र०] हे भगवन् ! अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक जीव, जे आ रत्नप्रभा पृथिवीना पूर्व चरमान्तमा-पूर्व दिशाने छेडे मरणसमु-द्घात करीने आ रत्नप्रभा पृथिवीना पश्चिम चरमान्तमा-पश्चिम दिशाने अन्ते अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न यवाने योग्य छे, ते हे भगवन् ! केठला समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! एक समय, वे समय के त्रण समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय.

३. [प्र०] हे भगवन् ! एस शा हेतुथी कहो छो के तेओ एक समय, वे समय के त्रण समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ए प्रमाणे में सात श्रेणियो कही छे, ते आ प्रमाणे-१ ऋज्वायत (सीधी लांबी), २ एक तरफ वक्र, ३ द्विधा वक्र, ४ एकतः खा (एक तरफ त्रसनाडी सिवायना आकाशवाळी), ५ द्विधाखा (वन्ने तरफ त्रसनाडी सिवायना आकाशवाळी), ६ चक्र-वाल (मंडलाकार) अने ७ अर्धचक्रवाल (अर्धमंडलाकार). * जो पृथिवीकायिक ऋज्वायत श्रेणियो उत्पन्न थाय तो ते एक समयनी

एकेन्द्रियना प्रकार.

अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकनी गति.

एक, वे अने वन समय यवालु कारण

सेदीय उवचज्जमाणे दुसमइएणं विग्गहेणं उवचज्जेजा । ३ दुहओवंकाए सेदीय उवचज्जमाणे तिसमइएणं विग्गहेणं उवचज्जेजा । से तेणट्ठेणं गोयमा ! जाव—उवचज्जेजा ।

४. [प्र०] अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पञ्चच्छिमिल्ले चरिमंते पज्जत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उवचज्जित्तए से णं भंते ! कइसमइएणं विग्गहेणं उवचज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! एगसमइएण वा—सेसं तं चेव, जाव—से तेणट्ठेणं जाव—विग्गहेणं उवचज्जेजा । एवं अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइओ पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहणावेत्ता पञ्चच्छिमिल्ले चरिमंते वादरपुढविकाइएसु अपज्जत्तपसु उववापयधो, ताहे तेसु चेव पज्जत्तपसु ४ । एवं आउक्काइएसु चत्तारि आलावगा—१ सुहुमेहिं अपज्जत्तपरिं, २ ताहे पज्जत्तपरिं, ३ वायरिं अपज्जत्तपरिं, ४ ताहे पज्जत्तपरिं उववापयधो । एवं चेव सुहुमतेउकाइएहिं वि अपज्जत्तपरिं १, ताहे पज्जत्तपरिं उववापयधो २ ।

५. [प्र०] अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भविए मणुस्सखेत्ते अपज्जत्तवादरतेउकाइयत्ताए उवचज्जित्तए से णं भंते ! कइसमइएणं विग्गहेणं उवचज्जेजा ? [उ०] सेसं तं चेव । एवं पज्जत्तवायरतेउकाइयत्ताए उववापयधो ४ । वाउक्काइएसु सुहुमवायरसु जहा आउक्काइएसु उववाइओ तहा उववापयधो ४ । एवं वणस्सइकाइएसु वि २० ।

६. [प्र०] पज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए ? [उ०] एवं पज्जत्तसुहुमपुढविकाइओ वि पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहणावेत्ता एएणं चेव कमेणं एएसु चेव वीससु ठाणेसु उववापयधो जाव—वादरवणस्सइकाइएसु पज्जत्तपसु वि ४० । एवं अपज्जत्तवादरपुढविकाइओ वि ६० । एवं पज्जत्तवादरपुढविकाइओ वि ८० । एवं आउकाइओ वि चउसु वि गमपसु पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहए, एयाए चेव वत्तघयाए एएसु चेव वीसइठाणेसु उववापयधो १६० । सुहुमतेउकाइओ वि अपज्जत्तओ पज्जत्तओ य एएसु चेव वीसाए ठाणेसु उववापयधो ।

विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. जो एकवक्र श्रेणिथी उत्पन्न थाय तो ते वे समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. जो ते द्विधावक्र श्रेणिथी उत्पन्न थाय तो त्रण समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. ते कारणथी हे गौतम ! 'एक समय, वे समय के त्रण समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय छे' एम कहुं छे.

४. [प्र०] हे भगवन् ! अपर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिक जे आ रत्नप्रभा पृथिवीना पूर्व चरमान्तमां मरणसमुद्घात करीने आ रत्नप्रभा पृथिवीना पश्चिम चरमान्तमां पर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते हे भगवन् ! केटला समयनी विग्रह गतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! एक समयनी [वे समयनी, के त्रण समयनी] विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय—इत्यादि बधुं पूर्वनी पेठे यावत्—ते कारणथी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय छे—त्या सुधी जाणवुं. एम अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकलो पूर्वचरमान्तमां मरणसमुद्घात करावी पश्चिम चरमान्तमां वादर अपर्याप्त पृथिवीकायिकपणे उपपात कहेवो अने पुनः त्यां ज पर्याप्तपणे उपपात कहेवो. ए प्रमाणे अष्कायिकने विषे पूर्वोक्त चार आलापक कहेवा. १ सूक्ष्म अपर्याप्त, २ सूक्ष्म पर्याप्त, ३ वादर अपर्याप्त अने ४ वादर पर्याप्त अष्कायिकमां उपपात कहेवो ४. एम सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्त अने पर्याप्तमां उपपात कहेवो ६२.

५. [प्र०] हे भगवन् ! अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक जे आ रत्नप्रभा पृथिवीना पूर्व चरमान्तमां मरणसमुद्घात करीने मनुष्यक्षेत्रमां अपर्याप्त वादर तेजस्कायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते हे भगवन् ! केटला समयनी विग्रह गतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] वाकी बधुं पूर्वनी पेठे समजवुं. एम पर्याप्त वादरतेजस्कायिकपणे पण उपपात कहेवो ४. जेम सूक्ष्म अने वादर अष्कायिकमा उपपात कहेवो तेम सूक्ष्म अने वादर वायुकायिकमा पण उपपात कहेवो. वनस्पतिकायिकमा पण ए प्रमाणे जाणवुं. ४. (२०).

६. [प्र०] हे भगवन् ! पर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक आ रत्नप्रभा पृथिवीना—इत्यादि पूर्वोक्त प्रश्न. [उ०] पर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकने पण रत्नप्रभाना पूर्व चरमान्तमा मरणसमुद्घात करावी अनुक्रमे ए वीशे स्थानोमां यावत्—वादरपर्याप्त वनस्पतिकायिक सुधी उत्पन्न कराववो. (४०). ए प्रमाणे अपर्याप्त वादर पृथिवीकायिक (६०) अने पर्याप्त वादर पृथिवीकायिकने पण पूर्ववत् जाणवुं (८०). एम प्रमाणे अष्कायिकने पण चारे गमकने आश्रयी पूर्वचरमान्तमां समुद्घातपूर्वक ए पूर्वोक्त वक्तव्यतावडे उपरना वीश स्थानकोमां उत्पन्न कराववो (१६०). अपर्याप्त अने पर्याप्त वने प्रकारना सूक्ष्म तेजस्कायिकने पण ए ज वीश स्थानकोमा उपर कथा प्रमाणे उत्पन्न कराववो (२००).

अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकनी पर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकने पणे विग्रहगति.

अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकनी वादर तेजस्कायिकने पणे विग्रहगति.

पर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकनी वादर.

* रत्नप्रभाना पश्चिम चरमान्तमा वादर तेजस्कायिकने अस्मभव होवायी सूक्ष्म पर्याप्त अने अपर्याप्तना वे भागा कथा अने वादरपर्याप्त अने अपर्याप्तना वे भागा मनुष्यक्षेत्रने आधारी पछीना सूत्रद्वारा कहे छे.

૭. [પ્ર૦] અપજ્જતવાયરતેઠકાઈપ ણં મંતે ! મણુસ્સલેચ્છે સમોહપ, સમોહણિત્તા જે ભવિપ્પ ઈમીસે રયણપ્પમાપ્પ પુઢવીપ્પ પ્ચચ્છિમિહ્લે ચરિમંતે અપજ્જત્તસુહુમપુઢવિકાઈયત્તાપ્પ ઉવવજ્જિત્તપ્પ સે ણં મંતે ! કદ્દસમહ્ણણં વિગ્ગહેણં ઉવવજ્જેજ્જા ? [૩૦] સેસં તહેવ જાવ-સે તેણદ્દેણં । એવં પુઢવિકાઈપ્પસુ ચઠવિદ્દેસુ વિ ઉવવાપ્પયદ્ધો, એવં આઠકાઈપ્પસુ ચઠવિદ્દેસુ ધિ, તેઠકાઈપ્પસુ સુહુમેસુ અપજ્જત્તપ્પસુ પજ્જત્તપ્પસુ ય એવં ચેવ ઉવવાપ્પયદ્ધો ।

૮. [પ્ર૦] અપજ્જતવાયરતેઠકાઈપ ણં મંતે ! મણુસ્સલેચ્છે સમોહપ, સમોહણિત્તા જે ભવિપ્પ મણુસ્સલેચ્છે અપજ્જતવાયરતે-
ઠકાઈયત્તાપ્પ ઉવવજ્જિત્તપ્પ સે ણં મંતે ! કત્તિસમહ્ણણં ? [૩૦] સેસં તં ચેવ । એવં પજ્જતવાયરતેઠકાઈયત્તાપ્પ વિ ઉવવાપ્પયદ્ધો ।
વાઠકાઈયત્તાપ્પ ય વણસ્સદ્દકાઈયત્તાપ્પ ય જહા પુઢવિકાઈપ્પસુ તહેવ ચઠ્ઠપ્પણં ભેદેણં ઉવવાપ્પયદ્ધો । એવં પજ્જતવાયરતેઠકાઈ-
ઓ વિ સમયલેચ્છે સમોહણાયેત્તા ઇપ્પસુ ચેવ વીસાપ્પ ઠાણેસુ ઉવવાપ્પયદ્ધો । જહેવ અપજ્જત્તવો ઉવવાઈઓ, એવં સદ્ધત્થ વિ
વાયરતેઠકાઈયા અપજ્જત્તા ય પજ્જત્તા ય સમયલેચ્છે ઉવવાપ્પયદ્ધા સમોહણાયેવયદ્ધા વિ ૨૪૦ । વાઠકાઈયા વણસ્સકાઈયા
ય જહા પુઢવિકાઈયા તહેવ ચઠ્ઠપ્પણં ભેદેણં ઉવવાપ્પયદ્ધા । જાવ-

૯. [પ્ર૦] પજ્જતવાયરવણસ્સદ્દકાઈપ ણં મંતે ! ઈમીસે રયણપ્પમાપ્પ પુઢવીપ્પ પુરચ્છિમિહ્લે ચરિમંતે સમોહપ, સમોહ-
હણિત્તા જે ભવિપ્પ ઈમીસે રયણપ્પમાપ્પ પુઢવીપ્પ પ્ચચ્છિમિહ્લે ચરિમંતે પજ્જતવાયરવણસ્સદ્દકાઈયત્તાપ્પ ઉવવજ્જિત્તપ્પ સે ણં
મંતે ! કત્તિસમહ્ણણં ? [૩૦] સેસં તહેવ જાવ-સે તેણદ્દેણં ।

૧૦. [પ્ર૦] અપજ્જત્તસુહુમપુઢવિકાઈપ ણં મંતે ! ઈમીસે રયણપ્પમાપ્પ પુઢવીપ્પ પ્ચચ્છિમિહ્લે ચરિમંતે સમોહપ, સમોહ-
ણિત્તા જે ભવિપ્પ ઈમીસે રયણપ્પમાપ્પ પુઢવીપ્પ પુરચ્છિમિહ્લે ચરિમંતે અપજ્જત્તસુહુમપુઢવિકાઈયત્તાપ્પ ઉવવજ્જિત્તપ્પ સે ણં મંતે !
કદ્દસમહ્ણણં ? [૩૦] સેસં તહેવ નિરવસેસં । એવં જહેવ પુરચ્છિમિહ્લે ચરિમંતે સવ્વપદેસુ વિ સમોહયા પ્ચચ્છિમિહ્લે ચરિમંતે
સમયલેચ્છે ય ઉવવાઈયા, જે ય સમયલેચ્છે સમોહયા પ્ચચ્છિમિહ્લે ચરિમંતે સમયલેચ્છે ય ઉવવાઈયા, એવં ઇપ્પણં ચેવ કમેણં
પ્ચચ્છિમિહ્લે ચરિમંતે સમયલેચ્છે ય સમોહયા પુરચ્છિમિહ્લે ચરિમંતે સમયલેચ્છે ય ઉવવાપ્પયદ્ધા તેણેવ ગમ્મણં । એવં ઇપ્પણં ગમ્મણં
દાહિણિહ્લે ચરિમંતે સમોહયાણં ઉત્તરિહ્લે ચરિમંતે સમયલેચ્છે ય ઉવવાઓ, એવં ચેવ ઉત્તરિહ્લે ચરિમંતે સમયલેચ્છે ય સમોહયા
દાહિણિહ્લે ચરિમંતે સમયલેચ્છે ય ઉવવાપ્પયદ્ધા તેણેવ ગમ્મણં ।

૭. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! અપર્યાપ્ત વાદર તેજસ્કાય, જે મનુષ્યક્ષેત્રમાં મરણસમુદ્ધવાત કરી રત્નપ્રમા પૃથ્વીના પશ્ચિમ ચરમાંતમાં
અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ પૃથિવીકાયિકપણે ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય છે તે હે ભગવન્ ! કેટલા સમયનો વિગ્રહગતિથી ઉત્પન્ન થાય ? [૩૦] વાકીવું
પૂર્વનો પેઠે યાવત્-તે કારણથી એમ કહેવાય છે-ત્યા સુધી જાણવું. એ રીતે (અપર્યાપ્ત વાદર તેજસ્કાયને) ચારે પ્રકારના પૃથિવીકાયિકોમાં,
ચારે પ્રકારના અધિકાયિકોમાં તથા અપર્યાપ્ત અને પર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ તેજસ્કાયિકોમાં પણ સ્વજાવનો.

૮. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! જે અપર્યાપ્ત વાદર તેજસ્કાયિક, જે મનુષ્યક્ષેત્રમાં મરણસમુદ્ધવાત કરી મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં અપર્યાપ્ત વાદર તેજ-
સ્કાયિકપણે ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય હોય તે હે ભગવન્ ! કેટલા સમયનો વિગ્રહગતિથી ઉત્પન્ન થાય ? [૩૦] વાકી વધું પૂર્વનો પેઠે જાણવું.
અને એ જ રીતે તેને પર્યાપ્ત વાદર તેજસ્કાયિકપણે પણ ઉત્પન્ન કરાવવો. જેમ પૃથિવીકાયિકોમાં કહ્યું છે તેમ ચારે મેદથી વાયુકાયિકપણે અને
વનસ્પતિકાયિકપણે પણ સ્વજાવવો. એ રીતે પર્યાપ્ત વાદર તેજસ્કાયિકને પણ સમયક્ષેત્રમાં સમુદ્ધવાત કરાવી એ જ વીશસ્થાનકોમાં ઉત્પન્ન
કરાવવો. જેમ અપર્યાપ્તનો સ્વપાત કહ્યો તેમ સર્વત્ર પણ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત વાદર તેજસ્કાયિકોને સમયક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન કરાવવા અને
સમુદ્ધવાત કરાવવી (૨૪૦) જેમ પૃથિવીકાયિકોનો સ્વપાત કહ્યો તેમ ચાર મેદથી વાયુકાયિકો (૩૨૦) અને વનસ્પતિકાયિકોને પણ
સ્વજાવવા. (૪૦૦) યાવત્-

૯. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! જે પર્યાપ્ત વાદર વનસ્પતિકાયિક આ રત્નપ્રમા પૃથિવીના પૂર્વ ચરમાંતમાં મરણસમુદ્ધવાત કરી આ રત્નપ્રમા
પૃથિવીના પશ્ચિમ ચરમાંતમાં વાદર વનસ્પતિકાયિકપણે ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય છે તે, હે ભગવન્ ! કેટલા સમયનો વિગ્રહગતિથી ઉત્પન્ન
થાય ? [૩૦] વાકી વધું તેમજ જાણવું. યાવત્-તે કારણથી એમ કહેવાય છે-ત્યાસુધી સમજવું.

૧૦. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! જે અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ પૃથિવીકાયિક આ રત્નપ્રમા પૃથિવીના પશ્ચિમ ચરમાંતમાં સમુદ્ધવાત કરી આ રત્ન-
પ્રમા પૃથિવીના પૂર્વ ચરમાંતમાં અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ પૃથિવીકાયિકપણે ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય છે તે હે ભગવન્ ! કેટલા સમયનો વિગ્રહગતિથી
ઉત્પન્ન થાય ? [૩૦] વાકી વધું પૂર્વ પ્રમાણે જાણવું. એ પ્રમાણે જેમ પૂર્વ ચરમાંતમાં સર્વપદોમાં સમુદ્ધવાત કરી પશ્ચિમ ચરમાંતમાં અને સમય
ક્ષેત્રમાં સ્વપાત કહ્યો તથા જેનો સમયક્ષેત્રમાં સમુદ્ધવાતપૂર્વક પશ્ચિમ ચરમાંતમાં અને સમયક્ષેત્રમાં સ્વપાત કહ્યો તેમ એ જ ક્રમવડે પશ્ચિમ
ચરમાંતમાં અને સમયક્ષેત્રમાં સમુદ્ધવાતપૂર્વક પૂર્વ ચરમાંતમાં અને સમયક્ષેત્રમાં તેજ ગમવડે સ્વપાત કહેવો અને વધું તે જ ગમવડે કહેવું.
એ પ્રમાણે એ ગમવડે દક્ષિણના ચરમાંતમાં સમુદ્ધવાતપૂર્વક ઉત્તરના ચરમાંતમાં અને સમયક્ષેત્રમાં સ્વપાત કહેવો, અને એ જ રીતે ઉત્તર
ચરમાંતમાં અને સમયક્ષેત્રમાં સમુદ્ધવાત કરાવી દક્ષિણ ચરમાંતમાં અને સમયક્ષેત્રમાં તેજ ગમવડે સ્વપાત કહેવો.

અપર્યાપ્ત વાદર તેજસ્કાયિક
સ્કાયિકોનો ઉત્પાદ

પર્યાપ્ત વાદર વનસ્પતિકાયિક
સ્કાયિકોનો ઉત્પાદ

અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ પૃથિ
વીકાયિકોનો
ઉત્પાદ

११. [प्र०] अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भंते ! सक्करप्पभाए पुढवीए पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भविए सक्करप्पभाए पुढवीए पच्चच्छिमिल्ले चरिमंते अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए० ? [उ०] एवं जहेव रयणप्पभाए जाव—से तेणट्टेणं० । एवं एएणं कमेणं जाव—पज्जत्तएसु सुहुमतेउकाइएसु ।

१२. [प्र०] अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भंते ! सक्करप्पभाए पुढवीए पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भविए समयखेत्ते अपज्जत्तवायरतेउकाइयत्ताए उववज्जित्तए से णं भंते ! कतिसमएणं०—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेण उववज्जिजा ।

१३. [प्र०] से केणट्टेणं० ? [उ०] एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेदीओ पन्नत्ताओ, तंजहा—१ उज्जुयायता, जाव—अद्ध-चक्कवाला । एगओवंकाए सेदीए उववज्जमाणे दुसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा, दुहओवंकाए सेदीए उववज्जमाणे तिसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा, से तेणट्टेणं० । एवं पज्जत्तएसु वि वायरतेउकाइएसु । सेसं जहा रयणप्पभाए । जे वि वायरतेउकाइया अपज्जत्तगा य पज्जत्तगा य समयखेत्ते समोहणित्ता दोच्चाए पुढवीए पच्चच्छिमिल्ले चरिमंते पुढविकाइएसु चउद्धिहेसु, आउकाइएसु चउद्धिहेसु, तेउकाइएसु दुविहेसु, वाउकाइएसु चउद्धिहेसु, वणस्सकाइएसु चउद्धिहेसु उववज्जंति ते वि एवं चेव दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेण उववाप्यद्वा । वायरतेउकाइया अपज्जत्तगा य पज्जत्तगा य जाहे तेसु चेव उववज्जंति ताहे जहेव रयणप्पभाए तहेव एगसमइय—दुसमइय—तिसमइयविग्गहा भाणियद्वा सेसं जहेव रयणप्पभाए तहेव निरवसेसं । जहा सक्करप्पभाए वत्तव्वया भणिया एवं जाव—अहे सत्तमाए वि भाणियद्वा ।

१४. [प्र०] अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भंते ! अहोलोयखेत्तनालीए वाहिरिल्ले खेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे भविए उहूलोयखेत्तनालीए वाहिरिल्ले खेत्ते अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए से णं भंते ! कइसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेणं उववज्जेजा । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—‘तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेणं उववज्जेजा’ ? [उ०] गोयमा ! अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं अहोलोयखेत्तनालीए वाहिरिल्ले खेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे भविए उहूलोयखेत्तनालीए वाहिरिल्ले खेत्ते अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए एगपरंमि अणुसे-

११. [प्र०] हे भगवन् ! जे अपर्याप्त सूक्ष्मपृथ्वीकायिक, शर्कराप्रभापृथिवीना पूर्वं चरमांतमां मरणसमुद्घात करीने शर्कराप्रभाना पश्चिम चरमांतमां अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] जेम रत्नप्रभापृथिवी संबंधे कहुं तेम आ संबंधे यावत्—‘ते कारणथी एम कहेवाय छे’ त्यां सुधी समजहुं. ए रीते अनुक्रमे यावत्—पर्याप्त सूक्ष्म तेजस्कायिक सुधी जाणहुं.

अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी-
न्द्रियनो शर्कराप्र-
भाना पूर्वचरमांतथी
पश्चिमचरमांतमां
उपपात.

१२. [प्र०] हे भगवन् ! जे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक, शर्कराप्रभाना पूर्वं चरमान्तमां मरणसमुद्घात करी पश्चिम चरमांतमां अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! वे समय के त्रण समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय.

१३. [प्र०] हे भगवन् ! एम शा हेतुथी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! में सात श्रेणीओ कही छे, ते आ रीते—१ ऋज्वायत अने यावत्—७ अर्धचक्रवाल. जो एकवक्र-श्रेणिरूप गतिथी उत्पन्न थाय तो ते वे समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय अने जो द्विधा-वक्रश्रेणिरूप गतिथी उत्पन्न थाय तो ते त्रण समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. ते कारणथी हे गौतम ! एम कहुं छे. ए रीते पर्याप्त वादर तेजस्कायिक संबंधे पण जाणहुं. बाकी बधुं रत्नप्रभानी जेम समजहुं. जे पर्याप्त अने अपर्याप्त वादर तेजस्कायिको समयक्षेत्रमा समुद्घात करी बीजी पृथिवीना पश्चिम चरमांतमा चारे प्रकारना पृथिवीकायिकोने विपे, चारे प्रकारना अष्कायिकोने विपे, वे प्रकारना तेजस्कायिकोने विपे, चारे प्रकारना वायुकायिकोने विपे अने चारे प्रकारना वनस्पतिकायिकोने विपे उत्पन्न थाय छे तेओने पण वे समयनी के त्रण समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न कराववा. ज्यारे पर्याप्त अने अपर्याप्त वादर तेजस्कायिको तेओमांज उत्पन्न थाय त्यारे तेने जेम रत्नप्रभा संबंधे कहुं तेम एक समयनी, वे समयनी अने त्रण समयनी विग्रहगति समजवी, बाकी बधुं रत्नप्रभानी पेठे जाणहुं. जेम शर्कराप्रभा संबंधे वक्त-व्यता कही छे तेम यावत्—अधःसतम पृथिवी सुधी जाणवी.

१४. [प्र०] हे भगवन् ! जे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव अघोलोक क्षेत्रनी त्रसनाडीनी बहारना क्षेत्रमा मरणसमुद्घात करी ऊर्ध्वलोक क्षेत्रनी त्रसनाडीनी बहारना क्षेत्रमां अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते हे भगवन् ! केटला समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! तेओ त्रण समयनी के चार समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. [प्र०] हे भगवन् ! शा हेतुथी एम कहेवाय छे के तेओ त्रण समयनी के चार समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अघोलोक क्षेत्रनी त्रसनाडीना बहारना क्षेत्रमां मरणसमुद्घात करी ऊर्ध्वलोक क्षेत्रनी त्रसनाडीना बहारना क्षेत्रमा अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीका-

अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी-
कायिकनी विग्रह-
गति.
त्रण समयनी के चार
समयनी विग्रह
गतितु कारण.

हीए उववज्जित्तए से णं तिसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा, जे भविए विसेदीए उववज्जित्तए से णं चउसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा, से तेणट्टेणं जाव—उववज्जेजा । एवं पज्जत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए वि, एवं जाव—पज्जत्तसुहुमतैउकाइयत्ताए ।

१५. [प्र०] अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भंते ! अह्लोए— जाव—समोहणित्ता जे भविए समयखेत्ते अपज्जत्तवायरते-उकाइयत्ताए उववज्जित्तए से णं भंते ! कइसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेणं उववज्जेजा । [प्र०] से केणट्टेणं० ? [उ०] एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेदीओ पन्नत्ताओ, तंजहा—१ उज्जुआयता, जाव—७ अद्धचक्रवाला । एगओवंकाए सेदीए उववज्जमाणे दुसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा, दुहओवंकाए सेदीए उववज्जमाणे तिसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा, से तेणट्टेणं० । एवं पज्जत्तएणु वि वायरतेउकाइएणु वि उववापयधो । वाउकाइए—वणस्सइकाइयत्ताए चउक्कएणं भेदेणं जहा आउकाइयत्ताए तहेव उववापयधो २० । एवं जहा अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए गमओ भणिओ एवं पज्जत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए वि भाणियधो, तहेव वीसाए ठाणसु उववापयधो ४० ।

१६. [प्र०]० अह्लोएखेत्तनालीए वाहिरिह्ले खेत्ते समोहए, समोहणित्ता० ? [उ०] एवं वायरपुढविकाइयत्ताए वि अपज्जत्तगस्स पज्जत्तगस्स य भाणियधं ८० । एवं आउकाइयत्ताए चउव्विहस्स वि भाणियधं १६० । सुहुमतैउकाइयत्ताए वि एवं चेव २०० ।

१७. [प्र०] अपज्जत्तवायरतेउकाइए णं भंते ! समयखेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे भविए उह्लोएखेत्तनालीए वाहिरिह्ले खेत्ते अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए से णं भंते ! कइसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेणं उववज्जेजा । [प्र०] से केणट्टेणं० ? [उ०] अट्टो जहेव रयणप्यभाए तहेव सत्त सेदीओ । एवं जाव—

१८. [प्र०] अपज्जत्तवायरतेउकाइए णं भंते ! समयखेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे भविए उह्लोएखेत्तनालीए वाहिरिह्ले खेत्ते पज्जत्तसुहुमतैउकाइयत्ताए उववज्जित्तए से णं भंते !०? [उ०] सेसं तं चैव ।

विक्रपणे एक प्रतरमां अनुश्रेणी—समश्रेणिमां उत्पन्न थवाने योग्य छे ते त्रण समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय, जे विश्रेणीमां उत्पन्न थवाने योग्य छे ते चार समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. माटे ते कारणथी यावत्—[त्रण समय के चार समयनी विग्रहगतिथी] उत्पन्न थाय छे. ए रीते पर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकपणे अने यावत्—पर्याप्त सूक्ष्म तेजस्कायिकपणे जे उपजे ते माटे पण एमज जाणवुं.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! जे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अवोलोक क्षेत्रनी त्रसनाडीनी बहारना क्षेत्रमां मरणसमुद्घात करी समय क्षेत्रमां अपर्याप्त वादर तेजस्कायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते, हे भगवन् ! केटला समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते वे समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय के त्रण समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. [प्र०] हे भगवन् ! एम शा हेतुथी कहो छो ? [उ०] हे गौतम ! में सात श्रेणिओ कही छे, ते आ प्रमाणे—१ ऋजु आयत—सीधी लांबी श्रेणि अने यावत्—७ अर्धचक्रवाळ. जो ते जीव एक तरफ वक्र श्रेणीथी उत्पन्न थाय तो वे समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय अने जो उभयतः वक्र श्रेणीथी उत्पन्न थाय तो त्रण समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय, ते कारणथी एम कहुं छे. एम पर्याप्त वादर तेजस्कायिकोमा पण उपपात करावओ. अष्कायिकनी पेटे वायुकायिक अने वनस्पतिकायिकपणे चारे भेदवडे उपपात करावओ (२०). ए प्रमाणे जेम अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक संबंधे गमक कहो तेम पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक संबंधे पण गमक कहवओ अने तेज प्रकारे तेने बीशे स्थानकमा उपजावओ (४०).

१६. अवोलोकक्षेत्रनी त्रसनाडीना बहारना क्षेत्रमां मरणसमुद्घात करी—इत्यादि पर्याप्त अने अपर्याप्त वादर पृथ्वीकायिक संबंधे पण एमज कहवुं. अने ए रीते चारे प्रकारना अष्कायिक संबंधे पण कहवुं १६०. वने प्रकारना सूक्ष्म तेजस्कायिके पण एमज जाणवुं २००.

१७. [प्र०] हे भगवन् ! जे अपर्याप्त वादर तेजस्कायिक समयक्षेत्रमां मरणसमुद्घात करी जर्खलोक क्षेत्रनी त्रसनाडीना बहारना क्षेत्रमां अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते, हे भगवन् ! केटला समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! वे समयनी, त्रण समयनी के चार समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. [प्र०] हे भगवन् ! शा हेतुथी एम कहवाय छे ? [उ०] हे गौतम ! रत्तप्रमा संबंधे पूर्वोक्त सात श्रेणीओना कथनरूप जे हेतु कहो छे यावत्—ते हेतु जाणवओ.

१८. [प्र०] हे भगवन् ! जे पर्याप्त वादर तेजस्कायिक समयक्षेत्रमां मरणसमुद्घात करीने जर्खलोक क्षेत्रनी त्रसनाडीनी बहारना क्षेत्रमां पर्याप्त सूक्ष्म तेजस्कायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते हे भगवन् ! केटला समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! वाकी वधुं तेमज जाणवुं.

जे अप० सू० पृथ्वीकायिकनी वा० तेजस्कायिकपणे केटला समदर्ता गति होय ?

अपर्याप्त वादर तेजस्कायिकनी नियम गति.

अन० वा० तेजस्कायिकनी प० सू० तेजस्कायिकरूपे नियम गति.

१९. [प्र०] अपञ्चत्तवायरतेउक्काइय णं भंते ! समयखेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे भविए समयखेत्ते अपञ्चत्तवायरते-उक्काइयत्ताए उववज्जित्तए से णं भंते ! कइसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेणं उववज्जेजा । [प्र०] से केणट्टेणं ? [उ०] अट्टो जहेव रयणप्पभाए तहेव सत्त सेदीओ । एवं पञ्चत्तवायरतेउक्काइयत्ताए वि । वाउक्काइएसु वणस्सइक्काइएसु य जहा पुढविक्काइएसु उववाइओ तहेव चउक्कपणं भेदेणं उववाएयवो । एवं पञ्चत्तवायरतेउक्काइओ वि एएसु चेव ठाणेसु उववाएयवो । वाउक्काइय-वणस्सइक्काइयाणं जहेव पुढविक्काइयत्ते उववाओ तहेव भाणियवो ।

२०. [प्र०] अपञ्चत्तसुहुमपुढविक्काइए णं भंते ! उह्ल्लोगखेत्तनालीए वाहिरिल्ले खेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे भविए अहेल्लोगखेत्तनालीए वाहिरिल्ले खेत्ते अपञ्चत्तसुहुमपुढविक्काइयत्ताए उववज्जित्तए से णं भंते ! कइसमएणं० ? [उ०] एवं ।

२१. उह्ल्लोगखेत्तनालीए वाहिरिल्ले खेत्ते समोहयाणं अहेल्लोगखेत्तनालीए वाहिरिल्ले खेत्ते उववज्जयाणं सो चेव गमओ निरवसेसो भाणियवो, जाव-वायरवणस्सइक्काइओ पञ्चत्तओ वायरवणस्सइक्काइएसु पञ्चत्तएसु उववाइओ ।

२२. [प्र०] अपञ्चत्तसुहुमपुढविक्काइए णं भंते ! लोगस्स पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भविए लोगस्स पुरच्छिमिल्ले चेव चरिमंते अपञ्चत्तसुहुमपुढविक्काइयत्ताए उववज्जित्तए से णं भंते ! कइसमइएणं विग्गहेणं उववज्जति ? [उ०] गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेणं उववज्जति । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-‘एगसमइएण वा जाव-उववज्जेजा’ ? [उ०] एवं खल्लु गोयमा ! मए सत्त सेदीओ पत्तत्ताओ, तंजहा—१ उज्जुआयता, जाव-७ अद्धचक्कवाला । उज्जुआययाए सेदीए उववज्जमाणे एगसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा । एगओवंकाए सेदीए उववज्जमाणे दुसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा । दुहओवंकाए सेदीए उववज्जमाणे जे भविए एगपररंसि अणुसेदी उववज्जित्तए से णं तिसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा, जे भविए विसेदिं उववज्जित्तए से णं चउसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा, से तेणट्टेणं० जाव-उववज्जेजा । एवं अपञ्चत्तसुहुमपुढविक्काइओ लोगस्स पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहए, समोहणित्ता लोगस्स पुरच्छिमिल्ले चेव चरिमंते अपञ्चत्तएसु पञ्चत्तएसु य सुहुमपुढविक्काइएसु, सुहुमआउक्काइएसु, अपञ्चत्तएसु पञ्चत्तएसु सुहुमते-उक्काइएसु, अपञ्चत्तएसु पञ्चत्तएसु य सुहुमवाउक्काइएसु, अपञ्चत्तएसु पञ्चत्तएसु वायरवाउक्काइएसु, अपञ्चत्तएसु पञ्चत्तएसु

१९. [प्र०] हे भगवन् ! जे अपर्याप्त वादर तेजस्कायिक समयक्षेत्र-मनुष्यक्षेत्रमा समुद्घात करी समयक्षेत्रमा अपर्याप्त वादर तेजस्कायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते, हे भगवन् ! केटला समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते एक समयनी, वे समयनी के त्रण समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. [प्र०] एम शा हेतुथी कहेवाय छे ? [उ०] रत्तप्रभा संवंधे जे हेतु कह्यो हतो तेज सात श्रेणिरूप हेतु जाणवो. एम पर्याप्त वादर तेजस्कायिकपणे पण जाणवुं. जेम पृथिवीकायिकने विपे उपपात कह्यो तेम वायुकायिकोमां अने वनस्पतिकायिकोमां चारे मेदे उपपात कहेवो. ए रीते पर्याप्त वादर तेजस्कायिकनो पण एज स्थानकोमा उपपात कहेवो. जेम वायुकायिक अने वनस्पतिकायिकनो पृथिवीकायिकपणे उपपात कह्यो छे तेम आ विपे पण उपपात कहेवो.

अपर्याप्त वादर
तेजस्कायिकनी
विग्रहगति.

२०. [प्र०] हे भगवन् ! जे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक ऊर्ध्वलोक क्षेत्रनी त्रसनाडीना बहारना क्षेत्रमां मरणसमुद्घात करीने अधोलोक क्षेत्रनी त्रसनाडीनी बहारना क्षेत्रमां अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते, हे भगवन् ! केटला समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! पूर्व प्रमाणे जाणवुं.

अपर्याप्त सू० पृथ्वी-
कायिकनी ऊर्ध्वलो-
कमायी अधोलोकमां
विग्रहगति.

२१. ऊर्ध्वलोक क्षेत्रनी त्रसनाडीनी बहारना क्षेत्रमां मरणसमुद्घात करी अधोलोक क्षेत्रनी त्रसनाडीनी बहारना क्षेत्रमां उत्पन्न यथा [पृथिवीकायिकादि] संवंधे पण तेज संपूर्ण गम कहेवो यावत्-पर्याप्त वादर वनस्पतिकायिकनो पर्याप्त वादर वनस्पतिकायिकोमा उपपात कहेवो.

२२. [प्र०] हे भगवन् ! जे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक लोकना पूर्व चरमातमां मरणसमुद्घात करी लोकना पूर्व चरमातमां अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते हे भगवन् ! केटला समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! एक समयनी, वे समयनी, त्रण समयनी के चार समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. [प्र०] हे भगवन् ! शा हेतुथी एम कह्यो छे के एक समयनी यावत्-चार समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ए प्रमाणे खरेखर में सात श्रेणिओ कही छे, ते आ प्रमाणे— १ ऋज्जायत, -यावत्-७ अर्धचक्रवाल, जो ऋज्जायत-सीधी लावी श्रेणीथी उत्पन्न थाय तो एक समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय, एकतरफ वक्र श्रेणीथी उत्पन्न थाय तो ते वे समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. उभयतः वक्रश्रेणीथी उत्पन्न थाय तो जे एक प्रतरमा अनुश्रेणी-समश्रेणीथी उत्पन्न थवानो छे ते त्रण समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय, अने जे विश्रेणिमा उत्पन्न थवानो छे ते चार समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. ते कारणथी हे गौतम ! एम कहुं छे. ए प्रमाणे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक लोकना पूर्व चरमातमा समुद्घात करी लोकना पूर्व चरमातमांज २ अपर्याप्त अने पर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकोमां, ४ अपर्याप्त अने पर्याप्त सूक्ष्म अक्कायिकोमां, ६ अपर्याप्त

लोकना पूर्व चरमां-
तमां पृथिवीकायिका-
यिकनी विग्रहगति.

सुहुमवणस्सइकाइपसु, अपज्जत्तपसु पज्जत्तपसु य वारससु वि ठाणेसु एएणं चेव कमेणं भाणियद्यो । सुहुमपुढविकाइओ पज्जत्तओ—एवं चेव निरवसेसो वारससु वि ठाणेसु उववाप्यद्यो २४ । एवं एएणं गमएणं जाव—सुहुमवणस्सइकाइओ पज्जत्तओ सुहुमवणस्सइकाइपसु पज्जत्तपसु चेव भाणियद्यो ।

२३. [प्र०] अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भंते ! लोगस्स पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भविए लोगस्स दाह्णिणिल्ले चरिमंते अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइपसु उववज्जित्तए से णं भंते ! कइसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेणं उववज्जइ । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं खुच्चइ ? [उ०] एवं खुच्च गोयमा ! मए सत्त सेढीओ पन्नत्ता, तंजहा—१ उज्जुआयता, जाव—७ अद्धचक्रवाला । एगओवंकाए सेढीए उववज्जमाणे दुसमइएणं विग्गहेणं उववज्जइ, दुहओवंकाए सेढीए उववज्जमाणे जे भविए एगपयरंमि अणुसेढीओ उववज्जित्तए से णं तिसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा, जे भविए विसेदि उववज्जित्तए से णं चउसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा से तेणट्टेणं गोयमा । ० । एवं एएणं गमएणं पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहए दाह्णिणिल्ले चरिमंते उववाप्यद्यो, जाव—सुहुमवणस्सइकाइओ पज्जत्तओ सुहुमवणस्सइकाइपसु पज्जत्तपसु चेव । सधेसि दुसमइओ तिसमइओ चउसमइओ विग्गहो भाणियद्यो ।

२४. [प्र०] अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भंते ! लोगस्स पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भविए लोगस्स पच्चच्छिमिल्ले चरिमंते अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए से णं भंते ! कइसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा ? [उ०] गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेणं उववज्जेजा । [प्र०] से केणट्टेणं ? [उ०] एवं । जहेव पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहया पुरच्छिमिल्ले चेव चरिमंते उववाइया तहेव पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहया पच्चच्छिमिल्ले चरिमंते उववाप्यद्या सधे ।

२५. [प्र०] अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भंते ! लोगस्स पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भविए लोगस्स उत्तरिल्ले चरिमंते अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए से णं भंते ? [उ०] एवं जहा पुरच्छिमिल्ले चरिमंते समोहयो दाह्णिणिल्ले चरिमंते उववाइओ तहा पुरच्छिमिल्ले समोहओ उत्तरिल्ले चरिमंते उववाप्यद्यो ।

वेम यवानु कारण. अने पर्याप्त सूक्ष्म तेजस्कायिकोमा, ८ अपर्याप्त अने पर्याप्त सूक्ष्म वायुकायिकोमां, १० अपर्याप्त अने पर्याप्त वादर वायुकायिकोमां, तथा १२ अपर्याप्त अने पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोमा, एम अपर्याप्त अने पर्याप्त मळी ए वारे स्थानकोमां क्रमपूर्वक कहेवो. सूक्ष्म पृथिवीकायिकपर्याप्तानो एज प्रमाणे वारे स्थानकोमा समग्र उपपात कहेवो. ए रीते ए गमवडे यावत्—पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोमां उपपात कहेवो.

अप० दू० पृथिवीकायिकोमा उपपात

२३. [प्र०] हे भगवन् ! जे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक, लोकना पूर्व चरमातमां समुद्घात करी लोकना दक्षिण चरमातमां अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते हे भगवन् ! केटला समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. [उ०] हे गौतम ! ते वे समयनी, त्रण समयनी के चार समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. [प्र०] हे भगवन् ! एम शा हेतुथी कहेवाय छे ? [उ०] हे गौतम ! मे खरेखर सात श्रेणीओ कही छे. ते आ प्रमाणे—१ ऋज्वायता अने यावत्—७ अर्धचक्रवाला. जो ते जीव एक तरफनी वक्र श्रेणीथी उत्पन्न थाय तो ते वे समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय, उभयतः वक्र श्रेणीथी उत्पन्न थाय तो जे एक प्रतरमां अनुश्रेणि—समश्रेणिए उत्पन्न थवानो छे ते त्रण समयनी विग्रहगतिथी उपजे अने जे विश्रेणीमा उत्पन्न थवानो छे ते चार समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. हे गौतम ! ते कारणथी ए प्रमाणे कहुं छे. ए रीते ए गमवडे पूर्व चरमातमां समुद्घातपूर्वक दक्षिण चरमातमा उपजाववो. यावत्—पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोमां पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोमां उपपात कहेवो अने वधाने वे समयनी, त्रण समयनी अने चार समयनी विग्रह गति कहेवी.

२४. [प्र०] हे भगवन् ! जे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक लोकना पूर्व चरमातमां समुद्घात करी लोकना पश्चिम चरमातमां अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते हे भगवन् ! केटला समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ते एक समयनी, वे समयनी, त्रण समयनी के चार समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय. [प्र०] हे भगवन् ! एम शा हेतुथी कही छे ? [उ०] हे गौतम ! पूर्व प्रमाणे जाणुं. जेम पूर्व चरमातमां समुद्घात करी पूर्व चरमातमा उपपात कहुं तेमज पूर्व चरमातमां समुद्घात करवा पूर्वक पश्चिम चरमातमां वधाना उपपात कहेवा.

२५. [प्र०] हे भगवन् ! जे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक लोकना पूर्व चरमातमां मरणसमुद्घात करी लोकना उत्तर चरमातमां अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] जेम पूर्व चरमातमां समुद्घातपूर्वक दक्षिण चरमातमा उपपात कहुं तेम पूर्व चरमातमा समुद्घातपूर्वक उत्तर चरमातमा उपपात कहेवो.

लोचना पूर्वचरमातमा पश्चिम चरमातमां विग्रहगति

२६. [प्र०] अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भंते ! लोगस्स दाहिणिल्ले चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भधिए लोगस्स दाहिणिल्ले चैव चरिमंते अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए० ? [उ०] एवं जहा पुरच्छिमिल्ले समोहओ पुरच्छिमिल्ले चैव उववाइओ तहेव दाहिणिल्ले समोहए दाहिणिल्ले चैव उववापयव्वो, तहेव निरवसेसं जाव—सुहुमवणस्सइकाइओ पज्जत्तओ सुहुमवणस्सइकाइएसु चैव पज्जत्तएसु दाहिणिल्ले चरिमंते उववाइओ, एवं दाहिणिल्ले समोहओ पञ्चच्छिमिल्ले चरिमंते उववापयव्वो । नवरं दुसमइय—तिसमइय—चउसमइयविग्गहो, सेसं तहेव । दाहिणिल्ले समोहओ उत्तरिल्ले चरिमंते उववापयव्वो जहेव सट्टाणे तहेव । एगसमइय—दुसमइय—तिसमइय—चउसमइयविग्गहो । पुरच्छिमिल्ले जहा पञ्चच्छिमिल्ले, तहेव दुसमइय—तिसमइय—चउसमइअविग्गहो । पञ्चच्छिमिल्ले य चरिमंते समोहयाणं पञ्चच्छिमिल्ले चैव उववज्जमाण्णं जहा सट्टाणे । उत्तरिल्ले उववज्जमाण्णं एगसमइओ विग्गहो नत्थि, सेसं तहेव । पुरच्छिमिल्ले जहा सट्टाणे, दाहिणिल्ले एगसमइओ विग्गहो नत्थि, सेसं तं चैव । उत्तरिल्ले समोहयाणं उत्तरिल्ले चैव उववज्जमाण्णं जहेव सट्टाणे । उत्तरिल्ले समोहयाणं पुरच्छिमिल्ले उववज्जमाण्णं एवं चैव । नवरं एगसमइओ विग्गहो नत्थि । उत्तरिल्ले समोहयाणं दाहिणिल्ले उववज्जमाण्णं जहा सट्टाणे, उत्तरिल्ले समोहयाणं पञ्चच्छिमिल्ले उववज्जमाण्णं एगसमइओ विग्गहो नत्थि, सेसं तहेव । जाव—सुहुमवणस्सइकाइओ पज्जत्तओ सुहुमवणस्सइकाइएसु पज्जत्तएसु चैव ।

२७. [प्र०] कहिं णं भंते ! वायरपुढविकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! सट्टाणेणं अट्टसु पुढवीसु—जहा ठाणपदे, जाव—सुहुमवणस्सइकाइया जे य पज्जत्तगा जे य अपज्जत्तगा ते सव्वे एगविहा अविसेसमणाणत्ता सव्वलोगपरि—यावन्ना पन्नत्ता समणाउसो ! ।

२८. [प्र०] अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयाणं भंते ! कति कम्मप्पगडीओ पन्नत्ताओ ? [उ०] गोयमा ! अट्ट कम्मप्पगडीओ पन्नत्ताओ, तंजहा—१ नाणावरणिज्जं जाव—८ अंतराइयं । एवं चउक्कएणं भेदेणं जहेव एगिंदियसएसु जाव—वायरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तगाणं ।

२६. [प्र०] हे भगवन् ! जे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक लोकना दक्षिण चरमांतमा मरणसमुद्घात करी लोकना दक्षिण चरमांतमाज अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकपणे उत्पन्न थवाने योग्य छे ते केटला समयनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जेम पूर्व चरमांतमां समुद्घात करी पूर्व चरमांतमाज उपपात कखो तेमज दक्षिण चरमातमां समुद्घात अने दक्षिण चरमातमाज उपपात कहेवो—इत्यादि बंधुं पूर्व प्रमाणेज कहेवुं, यावत्—पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकायिकनो पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोमां दक्षिण चरमांतमां उपपात कखो एम दक्षिण चरमातमां समुद्घात अने पश्चिम चरमातमा उपपात कहेवो. विशेष ए के, वे समय, त्रण समय के चार समयनी विग्रहगति जाणवी अने वाकी बंधुं तेमज जाणवु. जेम स्वस्थानमा कहुं तेम दक्षिण चरमातमां समुद्घात अने उत्तर चरमातमा उपपात कहेवो, अने एक समय, वे समय, त्रण समय के चार समयनी विग्रहगति जाणवी. पश्चिम चरमान्तनी पेठे पूर्व चरमातने विपे जाणवुं. तेमज वे समय, त्रण समय के चार समयनी विग्रहगति जाणवी. पश्चिम चरमांतमां समुद्घात करी अने पश्चिम चरमातमां उत्पन्न थता पृथिवीकायिकादि संबंधे जेम स्वस्थानमां कहुं तेम जाणवुं. उत्तर चरमातमा उत्पन्न थता जीवोने आश्रयी एक समयनी विग्रहगति नथी. वाकी बंधुं तेमज जाणवुं. पूर्व चरमात संबंधे स्वस्थाननी पेठे समजवुं. दक्षिण चरमातमां एक समयनी विग्रहगति नथी अने वाकी बंधुं तेमज समजवुं. उत्तरमा समुद्घातने प्राप्त थएला अने उत्तरमां उपजता जीवो संबंधे स्वस्थाननी पेठे जाणवुं. उत्तरमां समुद्घातने प्राप्त थएला अने पूर्वमां उत्पन्न थता पृथिवीकायिकादि संबंधे पण एज रीते समजवुं. विशेष ए के, एक समयनी विग्रहगति नथी. उत्तरमा समुद्घातने प्राप्त थएला अने दक्षिणमा उत्पन्न थता जीवो सवधे स्वस्थाननी पेठे जाणवुं. उत्तरमां समुद्घातने प्राप्त थयेला अने पश्चिममां उत्पन्न थता जीवोने आश्रयी एक समयनी विग्रहगति नथी, वाकी बंधुं तेमज जाणवुं. यावत्—पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकायिकनो पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोमा उपपात कहेवो.

२७. [प्र०] हे भगवन् ! पर्याप्त वादर पृथिवीकायिकोनां स्थानो क्या कहां छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओनां स्थान स्वस्थानने अपेक्षी आठ पृथ्वीओमां छे—इत्यादि स्थानपदमां कखा प्रमाणे जाणवुं, यावत्—पर्याप्त अने अपर्याप्त ते वधा सूक्ष्म वनस्पतिकायिको एक प्रकारना छे, तेओमां कांइ पण विशेष या भिन्नता नथी. हे आयुष्मन् श्रमण ! तेओ सर्वलोकमा व्याप्त छे.

२८. [प्र०] हे भगवन् ! अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिकोने केटली कर्मप्रकृतिओ कही छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने आठ कर्म प्रकृतिओ कही छे, ते आ प्रमाणे—ज्ञानावरणीय अने यावत्—अतराय. ए प्रमाणे चारे मेदो बडे जेम एकेन्द्रिय शतकमां कहुं छे, तेम यावत्—पर्याप्त वादर वनस्पतिकायिक सुधी जाणवुं.

वादर पृथिवीकायिकोनां स्थान.

अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिको कर्म प्रकृतिओ.

२९. [प्र०] अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइया णं भंते ! कति कम्मपगडीओ चंधंति ? [उ०] गोयमा ! सत्तविहवंधगा वि, अट्टविहवंधगा वि, जहा एगिंदियसपसु जाव-पज्जत्ता वायरवणस्सइकाइया ।

३०. [प्र०] अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइया णं भंते ! कति कम्मपगडीओ वेदंति ? [उ०] गोयमा ! चोइस कम्मपगडीओ वेदंति, तंजहा—नाणावरणिज्जं, जहा एगिंदियसपसु जाव-पुरिसवेदचत्तं, एवं जाव-वादरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तगाणं ।

३१. [प्र०] एगिंदिया णं भंते ! कओ उचवज्जंति ? किं नेरएण्हितो उचवज्जंति ? [उ०] जहा चगांतीए पुढविकाइयाणं उचवाओ ।

३२. [प्र०] एगिंदियाणं भंते ! कइ समुग्घाया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! चत्तारि समुग्घाया पन्नत्ता, तंजहा—वेदणा-समुग्घाप, जाव-वेउच्चियसमुग्घाप ।

३३. [प्र०] एगिंदिया णं भंते ! किं तुल्लट्टितीया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरंति ? तुल्लट्टितीया चेमायचिसेसाहियं कम्मं पकरंति ? वेमायट्टितीया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरंति ? वेमायट्टितीया वेमायचिसेसाहियं कम्मं पकरंति ? [उ०] गोयमा ! अत्थेगइया तुल्लट्टितीया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरंति, अत्थेगइया तुल्लट्टितीया वेमायचिसेसाहियं कम्मं पकरंति, अत्थेगइया वेमायट्टितीया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरंति, अत्थेगइया वेमायट्टितीया वेमायचिसेसाहियं कम्मं पकरंति । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ—‘अत्थेगइया तुल्लट्टितीया जाव-वेमायचिसेसाहियं कम्मं पकरंति’ ? [उ०] गोयमा ! एगिंदिया चउच्चिहा पन्नत्ता, तंजहा-अत्थेगइया समाउया समोवचनगा १, अत्थेगइया समाउया विसमोवचनगा २, अत्थेगइया विसमाउया समोवचनगा ३, अत्थेगइया विसमाउया विसमोवचनगा ४ । तत्थ णं जे ते समाउया समोवचनगा ते णं तुल्लट्टितीया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरंति १, तत्थ णं जे ते समाउया विसमोवचनगा ते णं तुल्लट्टितीया वेमायचिसेसाहियं कम्मं पकरंति २, तत्थ णं जे ते विसमाउया समोवचनगा ते णं वेमायट्टितीया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरंति ३, तत्थ णं जे ते विसमाउया

२९. [प्र०] हे भगवन् ! अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिको केटली कर्मप्रकृतिओ बांधे छे ? [उ०] हे गौतम ! सात कर्मप्रकृतिओ बांधे छे अथवा आठ कर्मप्रकृतिओ बांधे छे—इत्यादि जेम एकेन्द्रियशतकमां कहुं छे तेम यावत्-पर्याप्त वादर वनस्पतिकायिक सुधी जाणहुं.

३०. [प्र०] हे भगवन् ! अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिको केटली कर्मप्रकृतिओने वेदे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ चौद कर्मप्रकृतिओने वेदे छे. ते आ प्रमाणे—ज्ञानावरणीय (वगेरे आठ प्रकृतिओ, वेइन्द्रियादि चार आचरण, स्त्रीवेद अने पुरुषवेदप्रतिबन्धक कर्म)—इत्यादि जेम एकेन्द्रिय शतकमा कहुं छे तेम यावत्-पुरुषवेदप्रतिबन्धक कर्मप्रकृति सुधी यावत्-पर्याप्त वादर वनस्पतिकायिक सुधी जाणहुं.

३१. [प्र०] हे भगवन् ! एकेन्द्रिय जीवो कयांथी आबी उत्पन्न थाय ? हुं नैरयिकोथी आबी उत्पन्न थाय—इत्यादि. [उ०] जेम *व्युत्क्रांतिपदमां पृथिवीकायिकोने उपपात कहुं छे तेम अहीं जाणवो.

३२. [प्र०] हे भगवन् ! एकेन्द्रिय जीवोने केटला समुद्घातो कया छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने चार समुद्घातो कया छे, ते आ प्रमाणे—१ वेदनासमुद्घात, (२ कषाय, ३ मरण) अने यावत्-४ वैक्रियसमुद्घात.

३३ [प्र०] हे भगवन् ! हुं तुल्य स्थितिवाळा—समान आयुपवाळा एकेन्द्रिय जीवो तुल्य अने विशेषाधिक कर्मनो बन्ध करे छे ? तुल्य स्थितिवाळा एकेन्द्रिय जीवो परस्पर भिन्न विशेषाधिक कर्मबन्ध करे छे ? भिन्न भिन्न स्थितिवाळा परस्पर तुल्य विशेषाधिक कर्मबन्ध करे छे के भिन्न भिन्न स्थितिवाळा परस्पर भिन्न विशेषाधिक कर्मबन्ध करे छे ? [उ०] हे गौतम ! १ केटलाक तुल्य स्थितिवाळा एकेन्द्रियो परस्पर तुल्य विशेषाधिक कर्मबन्ध करे छे, २ केटलाक तुल्य स्थितिवाळा भिन्न भिन्न विशेषाधिक कर्मबन्ध करे छे, ३ केटलाक भिन्न भिन्न स्थितिवाळा तुल्य विशेषाधिक कर्मबन्ध करे छे अने ४ केटलाक भिन्न भिन्न स्थितिवाळा भिन्न भिन्न विशेषाधिक कर्मबन्ध करे छे. [प्र०] हे भगवन् ! या हेतुथी एम कहो छो के केटलाक एकेन्द्रियो तुल्यस्थितिवाळा यावत्-भिन्न भिन्न विशेषाधिक कर्म करे छे ? [उ०] हे गौतम ! एकेन्द्रिय जीवो चार प्रकारना कया छे. ते आ प्रमाणे—१ केटलाक समान आयुपवाळा अने साथे उत्पन्न थयेला, २ केटलाक समान आयुपवाळा अने जुदा जुदा समये उत्पन्न थयेला, केटलाक जुदा जुदा आयुपवाळा अने साथे उत्पन्न थयेला, अने केटलाक जुदा जुदा आयुपवाळा अने जुदा जुदा समये उत्पन्न थयेला. तेमा जे समान आयुपवाळा अने साथे उत्पन्न थयेला होय छे तेओ तुल्यस्थितिवाळा छे अने तेओ तुल्य विशेषाधिक कर्मबन्ध करे छे. जेओ समान आयुपवाळा अने जुदा जुदा समये उत्पन्न थयेला छे तेओ तुल्यस्थितिवाळा छे अने जुहुं जुहुं विशेषाधिक कर्म बांधे छे. जेओ जुदा जुदा आयुपवाळा अने साथे उत्पन्न थयेला छे तेओ जुदी जुदी स्थितिवाळा छे अने तुल्य विशेषाधिक कर्मबन्ध करे छे. तथा जेओ जुदा जुदा आयुपवाळा

विसमोवचनगा ते णं वेमायद्वितीया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरंति ४ । से तेणट्टेणं गोयमा ! जाव-वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरंति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति २ जाव-विहरति ।

चोत्तीसइमे सए पढमे एगिंदियसए पढमो उद्देशो समत्तो ।

अने जुदा जुदा समये उत्पन्न थयेला छे तेओ भिन्न भिन्न स्थितिवाळा छे अने जुदुं जुदुं विशेषाधिक कर्म करे छे. हे गौतम ! ते कारणयी यावत्-भिन्न भिन्न विशेषाधिक कर्म करे छे 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे' एम कही यावत्-विहरे छे.

चोत्रीशमा शतकमां प्रथम एकेन्द्रियशतकनो प्रथम उद्देशक समाप्त.

वीओ उद्देशो ।

१. [प्र०] कइविहा णं भंते ! अणंतरोवचनगा एगिंदिया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा अणंतरोवचनगा एगिंदिया पन्नत्ता, तंजहा-१ पुढविकाइया-दुयामेदो जहा एगिंदियसएसु जाव-वायरवणस्सइकाइया य ।

२. [प्र०] कहिं णं भंते ! अणंतरोवचनगाणं वायरपुढविकाइयाणं ठाणा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! सट्टाणेणं अट्टसु पुढवीसु, तंजहा-रयणप्पभाए जहा ठाणपदे, जाव-दीवेसु समुद्देशु । एत्थ णं अणंतरोवचनगाणं वायरपुढविकाइयाणं ठाणा पन्नत्ता, उवचाएणं सच्चलोए, समुग्घाएणं सच्चलोए, सट्टाणेणं लोगस्स असंखेज्जइभागे । अणंतरोवचनगासुहुमपुढविकाइया एगविहा अविसेसमणाणत्ता सच्चलोए परियावन्ना पन्नत्ता समणाउसो ! एवं एणं कमेणं सध्वे एगिंदिया भाणियत्ता, सट्टाणाइं सध्वेसिं जहा ठाणपदे । तेसिं पज्जत्तगाणं वायरराणं उवचाय-समुग्घाय-सट्टाणाणि जहा तेसिं चेष्व अपज्जत्तगाणं वायरराणं । सुहुमाणं सध्वेसिं जहा पुढविकाइयाणं भणिया तहेव भाणियत्ता जाव-वणस्सइकाइय त्ति ।

३. [प्र०] अणंतरोवचनगाणं सुहुमपुढविकाइयाणं भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ पन्नत्ताओ ? [उ०] गोयमा ! अट्ट कम्मप्प-गडीओ पन्नत्ताओ-एवं जहा एगिंदियसएसु अणंतरोवचनगाउद्देशए तहेव पन्नत्ताओ, तहेव वंधंति, तहेव वेदंति, जाव-अणंतरो-वचनगा वायरवणस्सइकाइया ।

४. [प्र०] अणंतरोवचनगाएगिंदिया णं भंते ! कओ उवचज्जंति ? [उ०] जहेव ओहिए उद्देशओ भणियो तहेव ।

५. [प्र०] अणंतरोवचनगाएगिंदियाणं भंते ! कति समुग्घाया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! दोन्नि समुग्घाया पन्नत्ता, तंजहा-वेदणासमुग्घाए य कसायसमुग्घाए य ।

द्वितीय उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! अनन्तरोपपन्न (तुरत उत्पन्न थयेला) एकेन्द्रियो केटला प्रकारना कहा छे ? [उ०] हे गौतम ! अनन्त-रोपपन्न एकेन्द्रियो पांच प्रकारना कहा छे. ते आ प्रमाणे—पृथिवीकायिक वगरे. तेना वे मेद जेम एकेन्द्रिय शतकोमां कहा छे तेमं यावत्-वादर वनस्पतिकायिक सुधी कहेवा.

अनन्तरोपपन्न ५
न्द्रियना प्रकार

२. [प्र०] हे भगवन् ! अनन्तरोपपन्न वादर पृथिवीकायिकोना स्थानो क्यां कहा छे ? [उ०] हे गौतम ! स्वस्थाननी अपेक्षाए आठे पृथिवीओमा, ते आ प्रमाणे-रत्तप्रभामा-इत्यादि जेम *स्थानपदमा कह्युं छे तेम यावत्-द्वीपोमा अने समुद्रोमा अनन्तरोपपन्न पृथिवीकायिकोना स्थानो कहां छे. उपपातनी अपेक्षाए सर्व लोकमां अने समुद्रघातने आश्रयी सर्व लोकमा छे. स्वस्थानने अपेक्षी तेओ लोकना असह्यातामा भागमा रहे छे. अनंतरोपपन्न सूक्ष्म पृथिवीकायिको वधा एक प्रकारना विशेषता या भिन्नता रहित छे. तथा हे आयुष्मन् श्रमण ! तेओ सर्वलोकमां व्याप्त छे. ए रीते ए क्रमवडे वधा एकेन्द्रियो संबंधे कहेतुं. ते वधाना स्वस्थानो *स्थानपदमा कहा प्रमाणे जाणवां. जेम पर्याप्त वादर एकेन्द्रियोना उपपात, समुद्रघात अने स्वस्थानो कहा छे तेम अपर्याप्त वादर एकेन्द्रियोना जाणवा. जेम सूक्ष्म पृथिवीकायिकोना उपपात, समुद्रघात अने स्वस्थानो कहा छे तेम वधा सूक्ष्म एकेन्द्रियोना यावत्-वनस्पतिकायिक सुधी जाणवा.

अनन्तरोपपन्न ५
पृथिवीकायना स्थानो.

३. [प्र०] हे भगवन् ! अनन्तरोपपन्न सूक्ष्म पृथिवीकायिकोने केटली कर्मप्रकृतिओ कही छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने आठ कर्मप्रकृतिओ कही छे-इत्यादि जेम एकेन्द्रिय शतकोमां अनन्तरोपपन्न उद्देशकने विषे कहा प्रमाणे कर्मप्रकृतिओ कहेवी. यावत्-तेज रीते वाचे छे, ते ज रीते वेदे छे, यावत्-अनन्तरोपपन्न वादर वनस्पतिकायिक सुधी समजवुं.

अनन्तरोपपन्न ५
न्द्रियने कर्मप्र कृतिओ.

४. [प्र०] हे भगवन् ! अनन्तरोपपन्न एकेन्द्रियो क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम औधिक-सामान्य उद्देशकमा कह्युं छे तेम अहीं जाणवुं.

उपपात

५. [प्र०] हे भगवन् ! अनंतरोपपन्न एकेन्द्रियोने केटला समुद्रघातो कहा छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओने वे समुद्रघातो कहा छे. ते आ प्रमाणे-वेदनासमुद्रघात अने कपायसमुद्रघात.

अनन्तरोपपन्न ५
न्द्रियने समुद्रघातो

૫. [પ્ર૦] અણંતરોચવવ્રગર્ણગિદિયા ણં મંતે ! કિં તુલ્લટ્ટિનીયા તુલ્લવિસેસાહિયં કમ્મં પકરંતિ-પુચ્છા તદ્દેવ । [૩૦] ગોયમા ! અત્યેગદ્યા તુલ્લટ્ટિનીયા તુલ્લવિસેસાહિયં કમ્મં પકરંતિ, અત્યેગદ્યા તુલ્લટ્ટિનીયા વેમાયવિસેસાહિયં કમ્મં પકરંતિ । [પ્ર૦] સે કેણટ્ટેણં જાવ-વેમાયવિસેસાહિયં કમ્મં પકરંતિ ? [૩૦] ગોયમા ! અણંતરોચવવ્રગા ઈર્ણગિદિયા તુલ્લિદા પત્તતા, તંજહા-અત્યેગદ્યા સમાડયા સમોચવવ્રગા, અત્યેગદ્યા સમાડયા વિસમોચવવ્રગા । તન્થ ણં જે તે સમાડયા સમોચવવ્રગા તે ણં તુલ્લટ્ટિનીયા તુલ્લવિસેસાહિયં કમ્મં પકરંતિ । તન્થ ણં જે તે સમાડયા વિસમોચવવ્રગા તે ણં તુલ્લટ્ટિનીયા વેમાયવિસેસાહિયં કમ્મં પકરંતિ । સે તેણટ્ટેણં જાવ-વેમાયવિસેસાહિયં કમ્મં પકરંતિ । 'સેવં મંતે ! સેવં મંતે' ! ત્તિ ।

ચોત્તીસદ્દમે સણ પદ્દમે ઈર્ણગિદિયસણ વીજો ઉદ્દેમો મમત્તો ।

કર્મવધતી વિદેપતા

૫. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! તુલ્લ સ્થિતિવાઝા-સમાન આયુપવાગા અનંતરોપવ્રત્ત ઈર્ણગિદિયો ણં પરંપર તુલ્લ વિશેષાધિક કર્મ વાવે છે-શ્લાદિ પૂર્વવત્ પૃચ્છા. [૩૦] હે ગૌતમ ! કેટટ્રક તુલ્લસ્થિતિવાઝા ઈર્ણગિદિયો તુલ્લ વિશેષાધિક કર્મ વાવે છે, કેટટ્રક તુલ્લ-સ્થિતિવાઝા ઈર્ણગિદિયો જુદું જુદું વિશેષાધિક કર્મ વાવે છે. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! ઈમ ણા હેતુર્થી કણો ણો ણે, યાવત્-જુદું જુદું વિશેષ-ધિક કર્મ વાવે છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! અનંતરોપવ્રત્ત ઈર્ણગિદિયો વે પ્રકારના કણા છે. તે આ પ્રમાણે-કેટટ્રક સમાન આયુપવાઝા અને સાથે ઉત્પન્ન થયેલા અને કેટટ્રક સમાન આયુપવાગા અને જુદા જુદા સમયે ઉત્પન્ન થયેલા. તેના જે સમાન આયુપવાઝા અને સાથે ઉત્પન્ન થયેલા છે તેઓ તુલ્લ સ્થિતિવાઝા હોટ તુલ્લ વિશેષાધિક કર્મ વાવે છે અને જેઓ તુલ્લ સ્થિતિવાઝા અને વિપ્રમોપવ્રત્ત-જુદા જુદા સમયે ઉત્પન્ન થયેલા છે તેઓ તુલ્લસ્થિતિવાઝા અને જુદું જુદું વિશેષાધિક કર્મ વાવે છે. માટે તે વાર્ણગી યાવત્-મિત્ત મિત્ત વિશેષાધિક કર્મ વાવે છે. 'હે મગવન્ ! તે ઈમજ છે, હે મગવન્ ! તે ઈમજ છે.'

ચોત્તીશમા શતકમાં પ્રથમ એકેન્દ્રિયશતકનો દ્વિતીય ઉદ્દેશક સમાપ્ત.

તર્હીઓ ઉદ્દેસો ।

૧. [પ્ર૦] કણવિદ્યા ણં મંતે ! પરંપરોચવવ્રગા ઈર્ણગિદિયા પત્તતા ? [૩૦] ગોયમા ! પંચવિદ્યા પરંપરોચવવ્રગા ઈર્ણગિદિયા પત્તતા, તંજહા-પુલ્લવિસાહ્યા-મેદો ચડકણો જાવ-વણસ્સદકાશ્ય ત્તિ ।

૨. [પ્ર૦] પરંપરોચવવ્રગાવ્રપજ્જત્તુદુમપુલ્લવિક્કાદણ ણં મંતે ! ઈર્મસે સ્યણ્ણમાણ પુલ્લવીણ પુલ્લચ્છિમિદ્દે ચરિમંતે સમોહણ, સમોહણિત્તા જે અધિણ ઈર્મસે સ્યણ્ણમાણ પુલ્લવીણ જાવ-પચ્છિમિદ્દે ચરિમંતે અપજ્જત્તુદુમપુલ્લવિક્કાદણ્ણચ્છાણ ઉચવત્તિત્તણ્ણ ? [૩૦] ઈવં ઈણ્ણં અમિલાવેણં જદ્દેવ પદ્દમો ઉદ્દેસથો જાવ-લોગચરિમંતો ત્તિ ।

૩. [પ્ર૦] કાર્હિ ણં મંતે ! પરંપરોચવવ્રગવાયરપુલ્લવિક્કાદ્યાણં ઠાણા પત્તતા ? [૩૦] ગોયમા ! સટ્ટાણેણં અટ્ટસુ પુલ્લવીણુ-ઈવં ઈણ્ણં અમિલાવેણં જદ્દા પદ્દમે ઉદ્દેસણ જાવ-તુલ્લટ્ટિનીયા ત્તિ । 'સેવં મંતે ! સેવં મંતે' ! ત્તિ ।

ચોત્તીસદ્દમે સણ પદ્દમે ઈર્ણગિદિયસણ તર્હીઓ ઉદ્દેસો સમત્તો ।

ત્રીજો ઉદ્દેશક.

પરંપરોપવ્રત્ત ઈર્ણ-
ગિદિયા પ્રકાર.

૧. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! પરંપરોપવ્રત્ત (ઝપત્તિના દ્વિતીયાદિસમયે વર્તમાન) ઈર્ણગિદિયો કેટટ્રક પ્રકારના કણા છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! તેઓ પાચ પ્રકારના કણા છે. તે આ પ્રમાણે-પૃથિવીકાયિક વગેરે તેના ચાર મેદ યાવત્-વનસ્થિતિવાઝાધિક સુધી જાણવા.

પરંપરોપવ્રત્ત ઈર્ણ-
ગિદિયા પ્રકાર.

૨. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! જે પરંપરોપવ્રત્ત અપર્યાત્ત સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિક આ રત્નપ્રમા પૃથિવીના પૂર્વ ચરમાંતમા મરણ સમુદ્વાન કરતી આ રત્નપ્રમા પૃથિવીના યાવત્-પશ્ચિમ ચરમાતમા અપર્યાત્ત મૂક્ષ્મ પૃથિવીકાયિકરૂપે ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય છે તે હે મગવન્ ! કેટટ્રક સમયનો વિગ્રહગતિથી ઉપજે ? [૩૦] ઈ રીતે ઈ અમિલાપથી જેમ પ્રથમ ઉદ્દેશક કર્યો તેમ યાવત્-લોકચરમાંત સુધી જાણવું.

૩. [પ્ર૦] હે મગવન્ ! પરંપરોપવ્રત્ત વાદર પૃથિવીકાયિકોના સ્થાનો ક્યાં કણા છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! સ્વસ્થાનને અપેક્ષી આટે પૃથિવીમા છે. ઈ રીતે ઈ અમિલાપથી જેમ પ્રથમ ઉદ્દેશકમા કર્યું છે તેમ યાવત્-તુલ્લસ્થિતિવાઝા સુધી જાણવું. 'હે મગવન્ ! તે ઈમજ છે, હે મગવન્ ! તે ઈમજ છે.' ૩૪-૩.

ચોત્તીશમા શતકમાં પ્રથમ એકેન્દ્રિય શતકનો ત્રીજો ઉદ્દેશક સમાપ્ત.

४-११ उद्देशगा ।

एवं सेसा वि अट्ट उद्देशगा जाव-‘अचरमो’त्ति । नवरं अणंतरा अणंतरसरिसा, परंपरा परंपरसरिसा, चरमा य अचरमा य एवं चेव । एवं एते एकारस उद्देशगा ।

चोत्तीसइमे सए पढमे एगिंदियसए ४-११ उद्देशा समत्ता ।

पढमं एगिंदियसेठीसयं समत्तं ।

४-११ उद्देशको.

ए रीते वाकीना पण आठ उद्देशको यावत्-‘अचरम’ सुधी कहेवा. परंतु विशेष ए के, अनंतर उद्देशको अनंतर जेवा अने परंपर उद्देशको परंपर समान जाणवा. चरम अने अचरम विषे पण एज रीते जाणवुं. ए रीते ए अगियार उद्देशको कहेवा. ३४-११.

चोत्रीशमा शतकमां प्रथम एकेन्द्रियशतकना ४-११ उद्देशको समाप्त.

चोत्रीशमा शतकमां प्रथम एकेंद्रियश्रेणीशतक समाप्त.

बितीयं सयं.

१. [प्र०] कइविहा णं भंते ! कणहलेस्सा एगिंदिया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा कणहलेस्सा एगिंदिया पन्नत्ता, भेदो चउक्कओ जहा कणहलेस्सएगिंदियसए, जाव-वणस्सइकाइय त्ति ।

२. [प्र०] कणहलेस्सअपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरच्छिमिल्ले०? [उ०] एवं एएणं अभिलावेणं जहेव ओहिउद्देशओ जाव-‘लोगचरिभंते’त्ति । सच्चत्थ कणहलेस्सेसु चेव उववाएयव्वो ।

३. [प्र०] कहिं णं भंते ! कणहलेस्सअपज्जत्तवायरपुढविक्काइयाणं ठाणा पन्नत्ता ? [उ०] एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओहिउद्देशओ जाव-तुल्लट्टिइय त्ति । ‘सेवं भंते ! सेवं भंते’ त्ति ।

एवं एएणं अभिलावेणं जहेव पढमं सेढिसयं तहेव एकारस उद्देशगा भाणियव्वा ३४-११ ।

बितीयं एगिंदियसेढिसयं समत्तं ।

द्वितीय शतक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृष्णलेइयावाळा एकेंद्रियो केटला प्रकारना कखा छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ कृष्णलेइयावाळा एकेंद्रियो पाच प्रकारना कखा छे. तेना चार भेद कृष्णलेइयावाळा एकेंद्रिय शतकमां कखा प्रमाणे यावत्-वनस्पतिकायिक सुधी जाणवा.

कृष्णलेइयावाळा एकेंद्रियोना प्रकार.

२. [प्र०] हे भगवन् ! जे कृष्णलेइयावाळो अपर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक आ रत्नप्रभा पृथिवीना पूर्व चरमातमा समुद्घात करी पश्चिम चरमांतमा उपपन्न यवाने योग्य छे ते केटला समयनी विग्रहगतिथी उपपन्न याय ? [उ०] इत्यादि पाठवडे जेम औधिक उद्देशकमा कहुं छे तेम यावत्-लोकना चरमांत सुधी समजवुं. सर्वत्र कृष्णलेइयावाळामां उपपात कहेवो

कृष्णलेइयावाळा एकेंद्रियोना विग्रह गतिथी उपपात

३. [प्र०] हे भगवन् ! कृष्णलेइयावाळा अपर्याप्त वादर पृथिवीकायिकोना स्थानो क्या कखां छे ? [उ०] ए अभिलापयी औधिक उद्देशकमा कखा प्रमाणे यावत्-‘तुल्यस्थितिवाळा’ सुधी समजवुं. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे. ए अभिलापयी जेम प्रथम श्रेणीशतक कहुं तेमज वीजा श्रेणीशतकना अगियार उद्देशको कहेवा.

कृष्णलेइयावाळा एकेंद्रियना स्थानो.

वीजुं एकेंद्रियश्रेणीशतक समाप्त.

३-५ सयाईं

एवं नीललेस्सेहि वि तदयं सयं । काउलेस्सेहि वि सयं । एयं चैव चउत्यं सयं । भविसिद्धियपदि वि सयं पंचमं समत्तं ।

चोत्तीसइमे सए ३-५ सयाईं समत्ताईं ।

३-५ शतको.

ए प्रमाणे नीललेस्यावाळाओ संबंधे त्रीजुं शतक कहेवुं. कापोतलेस्यावाळाओ संबंधे पण एज रीते चोथुं शतक कहेवुं अने भवसिद्धिक एकेन्द्रियो संबंधे पण एज प्रकारे पाचमुं शतक कहेवुं.

चोत्तीसमा शतकमां ३-५ शतको समाप्त.

छट्टं सयं.

१. [प्र०] कइविहा णं मंते कणहलेस्सा भवसिद्धिया पर्णिदिया पन्नत्ता ? [उ०] एयं जहेव ओहियउद्देसओ ।

२. [प्र०] कइविहा णं मंते ! अनंतरोववन्ना कणहलेस्सा भवसिद्धिया पर्णिदिया पन्नत्ता ? [उ०] जहेव अनंतरोववन्नउद्देसओ ओहियो तहेव ।

३. [प्र०] कइविहा णं मंते ! परंपरोववन्ना कणहलेस्सा भवसिद्धियपर्णिदिया पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! पंचविहा परंपरोववन्ना कणहलेस्सभवसिद्धियपर्णिदिया पन्नत्ता—ओहियो भेदो चउछओ जाव—वणस्सदकाइयत्ति ।

४. परंपरोववन्नकणहलेस्सभवसिद्धियपन्नत्तापरपुढविकाइए णं मंते ! इमीसे रयणप्पनाए पुढवीए—एयं एएणं अभिलावेणं जहेव ओहियो उद्देसओ जाव लोयचरमंते त्ति । सघत्थ कणहलेस्सेसु भवसिद्धिएसु उववाएयवो ।

५. [प्र०] कइ णं मंते ! परंपरोववन्नकणहलेस्सभवसिद्धियपन्नत्तापरपुढविकाइयाणं टाणा पन्नत्ता ? [उ०] एयं एएणं अभिलावेणं जहेव ओहियो उद्देसओ जाव—'तुल्लट्टिइय' त्ति । एयं एएणं अभिलावेणं कणहलेस्सभवसिद्धियपर्णिदिएहि वि तहेव एक्कारसउद्देसगसंजुत्तं छट्टं सतं ।

चोत्तीसइमे सए छट्टं सयं समत्तं ।

छट्टं शतक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कण्णलेस्यावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियो केटला प्रकारना कखा छे ? [उ०] जेम औधिक उद्देशकमां कयुं छे तेमज जाणवुं.

२. [प्र०] हे भगवन् ! अनंतरोपपन्न कण्णलेस्यावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियो केटला प्रकारना कखा छे ? [उ०] हे गौतम ! अनंतरोपपन्नक संबंधी औधिक उद्देशकमां कखा प्रमाणे जाणवुं.

३. [प्र०] हे भगवन् ! परंपरोपपन्न कण्णलेस्यावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियो केटला प्रकारना कखा छे ? [उ०] हे गौतम ! परंपरोपपन्न कण्णलेस्यावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियो पाच प्रकारना कखा छे. एम औधिक चारे भेद यावत्—वनस्पतिकायिक सुधी कहेवा.

४. हे भगवन् ! जे परंपरोपपन्न कण्णलेस्यावाळो भवसिद्धिक अपर्णात्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक आ रत्तप्रभा पृथिवीना [पूर्व चरमान्तमा मरणसमुद्वात्त करी पश्चिम चरमान्तमा उत्पन्न याव तो केटला समवनी विग्रहगतिथी उत्पन्न थाव ?]—इत्यादि पूर्वोक्त पाठवडे औधिक उद्देशक लोकाचरमात्त सुधी कहेवो. सर्वत्र कण्णलेस्यावाळा भवसिद्धिकोमा उपपात्त कहेवो.

५. [प्र०] हे भगवन् ! परंपरोपपन्न कण्णलेस्यावाळा भवसिद्धिक पर्णात्त वादर पृथिवीकायिकोना स्थानो क्या कखा छे ? [उ०] एन ए अभिलापथी तुल्यस्थितिवाळा सुधी औधिक उद्देशक कहेवो. ए रीते ए अभिलापथी कण्णलेस्यावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियो संबंधे पण ते प्रमाणे अगियार उद्देशक सहित छट्टं शतक कहेवुं. ३४-६.

चोत्तीसमा शतकमां छट्टं शतक समाप्त.

कण्णलेस्यावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियोना प्रकार.

अनंतरोपपन्न इ० भव० एकेन्द्रियना प्रकार

परंपरोपपन्न इ० भव० एकेन्द्रियना प्रकार.

विग्रहगति.

पृथिवीकायिकोना स्थानो.

७-१२ सयाइं ।


नीललेस्सभवसिद्धियर्णिदिपसु सयं सत्तमं । एवं काउलेस्सभवसिद्धियर्णिदिपहि वि अट्टुमं सयं । जहा भवसिद्धिर्णिहि चत्तारि सयाणि एवं अभवसिद्धिर्णिहि वि चत्तारि सयाणि भाणियद्धाणि । नवरं चरमअचरमवज्जा नव उद्देसगा भाणियद्धा, सेसं तं चेव । एवं एयाइं चारस एर्णिदियसेठीसयाइं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति जाव-विहरइ । एर्णिदियसेठीसयाइं समत्ताइं ।

चउतीसइमं एर्णिदियसेठिसयं समत्तं ।

७-१२ शतको.

नीललेस्यावाळा भवसिद्धिक एर्केद्रियो संबंधे सातसुं शतक कहेवुं. ३४-७. ए रीते कापोतलेस्यावाळा भवसिद्धिक एर्केद्रियो संबंधे पण आठसुं शतक कहेवुं. ३४-८. जेम भवसिद्धिको संबंधे चार शतको कहां छे तेम अभवसिद्धिको संबंधे पण चार शतक कहेवां. पण विशेष ए के, चरम अने अचरम सिवायना नव उद्देशको कहेवा. वाकी बधुं तेमज जाणवुं. एम ए वार एर्केद्रियश्रेणीशतको कहां. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'-एम कही यावत्-विहरे छे. ३४-१२. एर्केन्द्रियश्रेणीशतको समाप्त.

चोत्रीशमुं एर्केद्रियश्रेणीशतक समाप्त.



पणतीसइमं सयं पढमो उद्देशो ।

१. [प्र०] कइ णं भंते ! महाजुम्मा पन्नत्ता ? [उ०] गोथमा ! सोलस महाजुम्मा पन्नत्ता, तंजहा-कडजुम्मकडजुम्मे १, कडजुम्मतेओगे २, कडजुम्मदावरजुम्मे ३, कडजुम्मकलियोगे ४, तेओगकडजुम्मे ५, तेओगतेओगे ६, तेओगदावरजुम्मे ७, तेओगकलियोए ८, दावरजुम्मकडजुम्मे ९, दावरजुम्मतेओए १०, दावरजुम्मदावरजुम्मे ११, दावरजुम्मकलियोगे १२, कलियोगकडजुम्मे १३, कलियोगतेओगे १४, कलियोगदावरजुम्मे १५, कलियोगकलियोगे १६ ।

२. [प्र०] से कणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-सोलस महाजुम्मा पन्नत्ता, तंजहा-कडजुम्मकडजुम्मे, जाय-कलियोगकलियोगे ? [उ०] गोथमा ! जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे चउपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया ते वि कडजुम्मा, सेत्तं कडजुम्मकडजुम्मे १ । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे तिपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया कडजुम्मा, सेत्तं कडजुम्मतेओए २ । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे दुपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया कडजुम्मा, सेत्तं कडजुम्मदावरजुम्मे ३ । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं

पांत्रीशमुं शतक प्रथम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! केटवा महायुग्मो-महाराशिओ कइया छे ? [उ०] हे गौतम ! सोळ महायुग्मो कइया छे. ते आ प्रमाणे— १ कृतयुग्मकृतयुग्म, २ कृतयुग्मत्र्योज, ३ कृतयुग्मद्वापरयुग्म, ४ कृतयुग्मकल्योज, ५ त्र्योजकृतयुग्म, ६ त्र्योजत्र्योज, ७ त्र्योजद्वापरयुग्म, ८ त्र्योजकल्योज, ९ द्वापरयुग्मकृतयुग्म, १० द्वापरयुग्मत्र्योज, ११ द्वापरयुग्मद्वापरयुग्म, १२ द्वापरयुग्मकल्योज, १३ कल्योजकृतयुग्म, १४ कल्योजत्र्योज, १५ कल्योजद्वापरयुग्म, १६ कल्योजकल्योज.

२. [प्र०] हे भगवन् ! शा हेतुयी आप एम कहो छो के कृतयुग्मकृतयुग्मयी मांडी कल्योजकल्योज सुवी सोळ महायुग्मो कइया छे ? [उ०] हे गौतम ! जे राशिने चार संख्याना अपहारयी अपहारतां चार वाकी रहे, अने ते राशिना अपहारसमयो पण कृतयुग्म होय तो ते (राशि) कृतयुग्मकृतयुग्म कहेवाय १. जे राशिने चार संख्याना अपहारयी अपहारतां त्रण वाकी रहे अने ते राशिना अपहारसमयो पण कृतयुग्म होय तो ते राशि कृतयुग्मत्र्योज कहेवाय २. जे राशिने चार संख्याना अपहारयी अपहारतां वे वाकी रहे अने ते राशिना अपहारसमयो कृतयुग्म होय तो ते कृतयुग्मद्वापरयुग्म कहेवाय ३. जे राशिने चार संख्याना अपहारयी अपहारतां एक वाकी रहे अने ते राशिना अपहारसमयो कृतयुग्म होय तो ते कृतयुग्मकल्योज कहेवाय ४. जे राशिने चार संख्याना अपहारयी अपहारतां चार वाकी रहे अने ते राशिना अपहारसमयो त्र्योज होय तो ते त्र्योजकृतयुग्म कहेवाय ५. जे राशिने चार

१ युग्म—राशिविशेष, ते राशिओ छुट्ठक-छुट्ट पण होय अने मोटा पण होय, तेमां पूवें छुट्ठक राशिनी प्ररूपणा करी, हवे अहीं महायुग्म-मोटा राशिओनी प्ररूपणा करखानी छे. जे राशिने प्रतिसमय चार चारना अपहारयी अपहरता छेवटे चार वाकी रहे अने अपहारसमयोने पण चार चारना अपहारयी अपहरता चार समयो वाकी रहे ते 'कृतयुग्मकृतयुग्म' कहेवाय छे कारण के अपहरण कराता द्रव्य अने समयनी अपेक्षाए बने रीते ते कृतयुग्मरूप छे. ए प्रमाणे अन्य राशिसंबधे पण जाणवुं जेमके सोळ संख्या जघन्य कृतयुग्मकृतयुग्मराशि रूप छे, तेने चारनी संख्यायी अपहरता छेवटे चार वधे छे अने अपहार समयो पण चार छे. जेमके जघन्ययी ओगणीशनी संख्याने प्रतिसमय चारयी अपहरता छेवटे त्रण वाकी रहे अने अपहारसमयो चार होय तो ते अपहरता द्रव्यनी अपेक्षाए त्र्योज अने अपहारसमयनी अपेक्षाए कृतयुग्म एट्टे ते राशि कृतयुग्मत्र्योज कहेवाय छे. अहीं चधे अपहारक समयनी अपेक्षाए आय पद छे अने अपहरता द्रव्यनी अपेक्षाए बीउ पद छे ते राशिनी जघन्य संख्या अतुक्रमे नीचे प्रमाणे छे—(१) १६, (२) १९, (३) १८, (४) १७, (५) १३, (६) १५, (७) १४, (८) १३, (९) १०, (१०) ११, (११) १०, (१२) ९, (१३) ४, (१४) ७, (१५) ६, (१६) ५

महायुग्मना प्रकार

सोळ महायुग्म
कहेवाय कारण

अवहीरमाणे एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया कडजुम्मा, सेत्तं कडजुम्मकलियोगे ४ । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे चउपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया तेयोगा, सेत्तं तेओगकडजुम्मे ५ । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे तिपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया तेओगा, सेत्तं तेओगतेओगे ६ । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे दोपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया तेओया, सेत्तं तेओयदावरजुम्मे ७ । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया तेओया, सेत्तं तेओयकलियोगे ८ । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे चउपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया दावरजुम्मा, सेत्तं दावरजुम्मकडजुम्मे ९ । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे तिपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया दावरजुम्मा सेत्तं दावरजुम्मतेओए १०, जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे दुपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया दावरजुम्मा, सेत्तं दावरजुम्मदावरजुम्मे ११ । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया दावरजुम्मा, सेत्तं दावरजुम्मकलियोए १२ । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे चउपज्जवसिए जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया कलियोगा सेत्तं कलियोगकडजुम्मे १३ । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे तिपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया कलियोगा सेत्तं कलियोगतेओए १४ । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे दुपज्जवसिए जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया कलियोगा, सेत्तं कलियोगदावरजुम्मे १५ । जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया कलियोगा, सेत्तं कलियोगकलियोगे १६ । से तेणद्वेणं जाव—‘कलियोगकलियोगे’ ।

३. [प्र०] कडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भंते ! कओ उववज्जंति ? किं नेरहिण्हित्तो ? [उ०] जहा उप्पलुद्देसए तहा उववाओ ।

४. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? [उ०] गोयमा ! सोलस वा, संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा, अणंता वा उववज्जंति ।

५. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा समए समए—पुच्छा । [उ०] गोयमा ! ते णं अणंता समए समए अवहीरमाणा २ अणंताहिं उस्सपिणी—अवसपिणीहिं अवहीरंति, णो चेव णं अवहरिया सिया । उच्चत्तं जहा उप्पलुद्देसए ।

संख्याना अपहारथी अपहारता ऋण वाकी रहे अने ते राशिना अपहार समयो त्र्योज होय तो ते त्र्योजत्र्योज कहेवाय ६. जे राशिने चार संख्याना अपहारथी अपहारतां वे वाकी रहे अने ते राशिना अपहार समयो त्र्योज होय तो ते त्र्योजद्वापरयुग्म कहेवाय ७. जे राशिने चार संख्याना अपहारथी अपहारतां एक वाकी रहे अने ते राशिना अपहारसमयो त्र्योज होय तो त्र्योजकल्योज कहेवाय ८. जे राशिने चार संख्याना अपहारथी अपहारतां चार वाकी रहे अने ते राशिना अपहारसमयो द्वापरयुग्म होय तो ते द्वापरकृतयुग्म कहेवाय ९. जे राशिने चार संख्याना अपहारथी अपहारतां ऋण वाकी रहे अने ते राशिना अपहारसमयो द्वापरयुग्म होय तो ते द्वापरयुग्मद्वापरयुग्म कहेवाय १०. जे राशिने चार संख्याना अपहारथी अपहारतां वे वाकी रहे अने ते राशिना अपहारसमयो द्वापरयुग्म होय तो ते द्वापरयुग्मद्वापरयुग्म कहेवाय ११. जे राशिने चार संख्याना अपहारथी अपहारतां एक वाकी रहे अने ते राशिना अपहारसमयो द्वापरयुग्म कल्योज कहेवाय १२. जे राशिने चार संख्याना अपहारथी अपहारतां चार वाकी रहे अने ते राशिना अपहारसमयो कल्योज होय तो ते कल्योजकृतयुग्म कहेवाय १३. जे राशिने चार संख्याना अपहारथी अपहारतां ऋण वाकी रहे अने ते राशिना अपहारसमयो कल्योज होय तो ते कल्योजत्र्योज कहेवाय १४. जे राशिने चार संख्याना अपहारथी अपहारतां वे वाकी रहे अने ते राशिना अपहारसमयो कल्योज होय तो ते कल्योजद्वापरयुग्म कहेवाय १५. अने जे राशिने चार संख्याना अपहारथी अपहारतां एक वाकी रहे अने ते राशिना अपहारसमयो कल्योज होय तो ते कल्योजकल्योज कहेवाय. माटे ते हेतुथी यावत्—कल्योजकल्योज सुधी सोळ महायुग्मो कहां छे.

३. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुग्मकृतयुग्म राशिरूप एकेन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? शुं नैरयिकोथी उत्पन्न थाय छे—इत्यादि प्रश्न. [उ०] हे गौतम ! जेम उत्पल्लेदेशकमां उपपात कहां छे ते प्रमाणे अहाँ उपपात कहेवो.

४. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटल उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! सोळ, संख्याता, असंख्याता के अनंत जीवो एक समये उत्पन्न थाय छे.

५. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो समये समये—[अनन्ता अपहराय तो केटल काळे खाली थाय] ? [उ०] हे गौतम ! ते जीवो समये समये अनन्ता अपहराय अने अनंत उत्सर्पिणी अने अनंत अवसर्पिणी सुधी अपहरोए तो पण तेओ खाली थाय नहीं. तेओनी उंचाई उत्पल्लेदेशकमा कहा प्रमाणे जाणवी.

कृतयुग्म २ राशिरूप
एकेन्द्रियोनी
उपपात.
एक समयमा उप-
पातसंख्या.

जीवोनी संख्या.

૬. [પ્ર૦] તે નં મંતે ! જીવા નાણાવરણિજ્ઞસ્સ કમ્મસ્સ કિં વંધગા, અવંધગા ? [ઉ૦] ગોયમા ! વંધગા, નો અવંધગા । एवं सध्वेसिं आउयवजाणं । आउयस्स वंधगा वा अवंधगा वा ।

૭. [પ્ર૦] તે નં મંતે ! જીવા નાણાવરણિજ્ઞસ્સ-પુચ્છા [ઉ૦] ગોયમા ! વેદગા, નો અવેદગા । एवं सध्वेसिं ।

૮. [પ્ર૦] તે નં મંતે ! જીવા કિં સાતાવેદગા, અસાતાવેદગા-પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! સાતાવેદગા વા અસાતાવેદગા વા । एवं उप्पलुहेसगपरिवाडी । सध्वेसिं कम्माणं उदई, नो अणुदई । छण्हं कम्माणं उदीरगा, नो अणुदीरगा । वेदणिजा-उयाणं उदीरगा वा अणुदीरगा वा ।

૯. [પ્ર૦] તે નં મંતે ! જીવા કિં કણ્હ-પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! કણ્હલેસ્સા વા, નીલલેસ્સા વા, કાઝલેસ્સા વા તેહલેસ્સા વા । નો સમ્મદિટ્ઠી, નો સમ્મામિચ્છાદિટ્ઠી, મિચ્છાદિટ્ઠી । નો નાણી, અન્નાણી-નિયમં દુઅન્નાણી; તંજહા-મદ્અન્નાણી ય સુયઅન્નાણી ય । નો મળજોગી, નો વદ્જોગી, કાયયોગી । સાગારોવડતા વા, અણાગારોવડતા વા ।

૧૦. [પ્ર૦] તેસિ નં મંતે ! જીવાણં સરીરા કતિવજ્ઞા-જહા ઉપ્પલુહેસપ સઘ્થ પુચ્છા । [ઉ૦] ગોયમા ! જહા ઉપ્પલુહેસપ ઝસાસગા વા, નીસાસગા વા, નો ઝસાસનીસાસગા વા । આહારગા વા અણાહારગા વા । નો ઘિરયા, અઘિરયા, નો ઘિરયાઘિરયા । સકિરિયા, નો અકરિયા । સત્તવિહવંધગા વા અદ્ધવિહવંધગા વા । આહારસન્નોવડતા વા જાવ-પરિગ્ગહસન્નોવડતા વા । કોહકસાયી વા, માણકસાયી, જાવ-લોભકસાયી વા । નો ઇત્થિવેદગા, નો પુરિસવેદગા, નપુંસગવેદગા । ઇત્થિવેયવંધગા વા પુરિસવેદવંધગા વા નપુંસગવેદવંધગા વા । નો સઙ્ગી, અસઙ્ગી । સદ્દિયા, નો અર્ણિદિયા ।

૧૧. [પ્ર૦] તે નં મંતે ! કહ્હુમ્મકહ્હુમ્મર્ણિગિદિયા કાલઓ કેવચિરં હોતિ ? [ઉ૦] ગોયમા ! જહ્ઞેણં પકં સમયં, ઝક્કોસેણં અણંતં કાલં-અણંતા ઝસ્સપ્પિણિઓસપ્પિણીઓ, વળસ્સદ્ધકાલો । સંવેહો ન મદ્દ, આહારો જહા ઉપ્પલુહેસપ, નવરં નિદ્ધાઘાણં છદ્ધિસિં, વાઘાયં પડ્ધ સિય તિદિસિં, સિય ચડદિસિં, સિય પંચદિસિં, સેસં તહેવ । ઠિત્તી જહ્ઞેણં

વન્ધ

૬. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! શું તેઓ (એકેન્દ્રિયો) જ્ઞાનાવરણીય કર્મના વંધક છે કે અવંધક છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તેઓ વંધક છે, પણ અવંધક નથી. એ રીતે આયુષ સિવાય વધારા કર્મો વિષે જાણવું, તેઓ આયુષના વંધક પણ છે અને અવંધક પણ છે.

વેદક

૭. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! તે જીવો જ્ઞાનાવરણીયના વેદક છે-ઇત્યાદિ પ્રશ્ન. [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તેઓ વેદક છે, પણ અવેદક નથી. એ પ્રમાણે વધારા કર્મ સંબંધે સમજવું.

સાતાવેદક અને અસાતાવેદક

૮. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! શું તે જીવો સાતા-સુખના વેદક છે કે અસાતા-દુઃખના વેદક છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તેઓ સાતાના વેદક છે અને અસાતાના વેદક પણ છે. જેમ *ઉત્પલ ઉદ્દેશકમાં કર્મ સંબંધે જે પરિપાટી કહી છે તે અહીં જાણવી. તેઓ વધારા કર્મોના ઉદયી છે પણ અનુદયી નથી. છ કર્મોના ઉદીરક છે, પણ અનુદીરક નથી. વેદનોય અને આયુષ કર્મના ઉદીરક પણ છે અને અનુદીરક પણ છે.

લેદ્યા.

૯. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! શું તે જીવો કૃષ્ણલેદ્યાવાળા છે-ઇત્યાદિ પ્રશ્ન. [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તેઓ કૃષ્ણલેદ્યાવાળા, નીલલેદ્યાવાળા, કાપોતલેદ્યાવાળા તથા તેજોલેદ્યાવાળા છે. તેઓ સમ્યદ્દિઓ નથી, સમ્યમિધ્યાદિઓ નથી, પણ મિધ્યાદિઓ છે. જ્ઞાની નથી, અજ્ઞાની નથી, પણ અવશ્ય વે અજ્ઞાનવાળા છે. તે આ પ્રમાણે-મતિઅજ્ઞાનવાળા અને શ્રુતઅજ્ઞાનવાળા. તેઓ મનોયોગવાળા નથી, વચનયોગવાળા નથી, માત્ર કાયયોગવાળા છે. સાકાર ઉપયોગવાળા છે અને અનાકાર ઉપયોગવાળા પણ છે.

શરીરોના વર્ણાદિ

૧૦. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! તે એકેન્દ્રિય જીવોનાં શરીરો કેટલા વર્ણવાળાં હોય છે-ઇત્યાદિ *ઉત્પલોદ્દેશકમાં કહ્યા પ્રમાણે સર્વ અર્થના પ્રશ્નો કરવા. [ઉ૦] હે ગૌતમ !- ઇત્યાદિ ઉત્પલોદ્દેશકમાં કહ્યા પ્રમાણે [તેઓના શરીરો પાંચ વર્ણ, પાંચ રસ, વે ગંધ અને આઠ સ્પર્શવાળા] જાણવા તેઓ ઉચ્છ્વાસવાળા, નિઃશ્વાસવાળા અને ઉચ્છ્વાસનિઃશ્વાસ વિનાના પણ છે. આહારક અને અનાહારક છે. સર્વવિરતિવાળા અને દેશવિરતિવાળા નથી, પણ અવિરતિવાળા છે. ક્રિયાવાળા છે, પણ ક્રિયા વિનાના નથી. સાત પ્રકારના કર્મના વંધક છે અને આઠ પ્રકારના કર્મના વંધક છે. આહાર સંજ્ઞાના ઉપયોગવાળા છે, યાવત્-પરિગ્રહસંજ્ઞાના ઉપયોગવાળા છે. ક્રોધકપાયવાળા, માનકપાયવાળા અને યાવત્-લોભકપાયવાળા છે. સ્ત્રીવેદવાળા નથી, પુરુષવેદવાળા નથી, પણ નપુંસકવેદવાળા છે. સ્ત્રીવેદવંધક છે, પુરુષવેદવંધક છે અને નપુંસકવેદવંધક છે. સંજ્ઞી (મનસંજ્ઞાવાળા) નથી, પણ અસંજ્ઞી છે. ઈન્દ્રિયવાળા છે અને ઈન્દ્રિયવિનાના છે.

૧૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! તે કૃતયુગ્મકૃતયુગ્મરાશિરૂપ એકેન્દ્રિયો કાલ્પી ક્યાં સુધી હોય ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! તેઓ જઘન્ય એક

* મગ્ ૦ રા ૦ ૩ ય ૦ ૧૧ ડ ૦ ૧ પૂ ૦ ૨૦૯.

૧૦ † મગ્ ૦ રા ૦ ૩ ય ૦ ૧૧ ડ ૦ ૧ પૂ ૦ ૨૧૦-૨૧૩.

अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साइं । समुग्धाया आदिह्ला चत्तारि । मारणंतियसमुग्धातेणं समोहया वि मरंति, असमोहया वि मरंति । उव्वट्टणा जहा उंप्यलुहेसए ।

१२. [प्र०] अह भंते ! सव्वपाणा, जाव-सव्वसत्ता कडजुम्मकडजुम्मएगिंदियत्ताए उव्वन्नपुवा ? [उ०] हंता गोयमा ! असइं अदुवा अणंतखुत्तो ।

१३. [प्र०] कडजुम्मतेओयएगिंदिया णं भंते ! कओ उव्वजंति ? [उ०] उववाओ तहेव ।

१४. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमए-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! एकूणवीसा वा, संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा, अणंता वा उव्वजंति, सेसं जहा कडजुम्मकडजुम्माणं जाव-अणंतखुत्तो ।

१५. [प्र०] कडजुम्मदावरजुम्मएगिंदिया णं भंते ! कओहिंतो उव्वजंति ? [उ०] उववाओ तहेव ।

१६. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं-पुच्छा । [उ०] गोयमा ! अट्टारस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा उव्वजंति, सेसं तहेव जाव-अणंतखुत्तो ।

१७. [प्र०] कडजुम्मकलियोगएगिंदिया णं भंते ! कओहिंतो उव्वजंति ? [उ०] उववाओ तहेव । परिमाणं सत्तरस वा, संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा, अणंता वा, सेसं तहेव जाव-अणंतखुत्तो ।

१८. [प्र०] तेयोगकडजुम्मएगिंदिया णं भंते ! कओहिंतो उव्वजंति ? [उ०] उववाओ तहेव, परिमाणं वारस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा उव्वजंति, सेसं तहेव जाव-अणंतखुत्तो ।

समय सुधी अने उत्कृष्ट अनंत उत्सर्पिणी अने अवसर्पिणीसुधी वनस्पतिकायिकना काळ पर्यन्त होय. ^१संवेध कहेवानो नयी. उत्पल उद्देशकमा कह्या प्रमाणे (खं० ३ पृ० २१३) आहार कहेवो. पण विशेष ए के, तेओ दिशानो प्रतिबंध न होय तो छए दिशामाथी आवेले आहार ग्रहण करे छे, अने जो प्रतिबंध होय तो कदाच न्रण दिशामाथी, चार दिशामाथी के पांच दिशामाथी आवेला आहारने ग्रहण करे छे. बाकी बंधुं तेमज जाणवुं. तेओनी स्थिति जघन्य एक समयनी अने उत्कृष्ट बावीश हजार वर्षनी छे. तेओने आदिना चार समुद्घातो होय छे. ते वधाय मारणांतिकसमुद्घातयी मरे छे अने ते सिवाय पण मरे छे. ^१उत्पल्लोद्देशकमा कह्या प्रमाणे उद्वर्तना कहेवीं.

सवेधादि

१२. [प्र०] हे भगवन् ! वधा प्राणो यावत्-वधा सत्त्वो कृतयुग्मकृतयुग्म राशिरूप एकेन्द्रियपणे पूर्वे उत्पन्न थया छे ? [उ०] हे गौतम ! हा, अनेकवार अथवा अनंतवार पूर्वे उत्पन्न थया छे.

सर्व जीवोने कृत-युग्म कृतयुग्मराशि-रूप एकेन्द्रियपणे उत्पाद कृतयुग्मत्र्योजरशि-रूप एकेन्द्रियोनो उत्पाद उत्पाद सख्या.

१३. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुग्मत्र्योज राशिरूप एकेन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थया छे ? [उ०] हे गौतम ! पूर्वनी पेटे उपपात कहेवो.

१४. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थया छे ? [उ०] हे गौतम ! ओगणीश, संख्याता, असंख्याता के अनंत उत्पन्न थया छे. बाकी बंधुं कृतयुग्मकृतयुग्म राशिप्रमाण एकेन्द्रियो संवेधे जेम कहुं तेम यावत्-पूर्वे अनंतवार उत्पन्न थया छे' त्यां सुधी जाणवुं.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुग्मद्वारपरयुग्मप्रमाण एकेन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थया छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओनो उपपात तेमज जाणवो.

कृतयुग्मद्वारपर प्रमाण एकेन्द्रियोनो उत्पाद

१६. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केटला उत्पन्न थया छे ? [प्र०] हे गौतम ! तेओ एक समये अट्टार, संख्याता, असंख्याता के अनंत उत्पन्न थया छे. बाकी बंधुं यावत्-पूर्वे अनंतवार उत्पन्न थया छे' त्या सुधी तेमज जाणवुं.

उपपात सख्या.

१७. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुग्मकल्योजराशिप्रमाण एकेन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थया छे ? [प्र०] हे गौतम ! तेओनो उपपात तेमज जाणवो. तेओनुं परिमाण—सत्तर, संख्याता, असंख्याता के अनंत उत्पन्न थया छे. बाकी बंधुं यावत्-पूर्वे अनंतवार उत्पन्न थया छे' त्यां सुधी तेमज जाणवुं.

कृतयुग्म कल्योजररूप एकेन्द्रियोनो उत्पाद

१८. [प्र०] हे भगवन् ! त्र्योजकृतयुग्मराशिप्रमाण एकेन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थया छे ? [उ०] हे गौतम ! उपपात तेमज जाणवो. तेओनुं परिमाण—एक समये वार, संख्याता, असंख्याता के अनंत उत्पन्न थया छे. बाकी बंधुं तेमज जाणवुं. यावत्-पूर्वे अनंतवार उत्पन्न थया छे'.

त्र्योज कृतयुग्म प्रमाण एकेन्द्रियोनो उत्पाद

११ ^१ उत्पल्लोद्देशकमा उत्पल्लना जीवोने उत्पाद विवक्षित छे अने ते पृथ्विकायिकादि अन्य कायमा जई पुन उत्पल्लमां आवी उपजे ल्यारे तेनो संवेध थया छे, पण अहीं कृतयुग्मकृतयुग्मराशिरूप एकेन्द्रियोनो उत्पाद अधिकृत छे अने एकेन्द्रियो तो अनन्त उत्पन्न थया छे, अने तेओ ल्याथी नीकळी सजातीय के विजातीय कायमा उत्पन्न थई पुन. एकेन्द्रियपणे उपजे ल्यारे संवेध थया छे. पण तेओनुं ल्याथी नीकळुं असंभवित होवाथी संवेध यतो नथी. जे कृतयुग्मकृतयुग्मराशि राशिरूप एकेन्द्रियोनो उत्पाद कह्यो छे ते त्रसकायिकथी आवीने उत्पन्न थया तेनी अपेक्षाए छे, पण ते वास्तविक उत्पाद नथी, कारण के एकेन्द्रियोमा प्रतिसमय अनन्त जीवोने उत्पाद थया छे तेथी अहीं एकेन्द्रियोनी अपेक्षाए संवेधनो अचंभव होवाथी कह्यो नथी.—टीका.

२. [प्र०] ते णं भंते ! 'पढमसमयकडजुम्मकडजुम्मपग्गिदिय'त्ति कालओ केवच्चिरं होइ ? [उ०] गोयमा ! एकं समयं । एवं टितीए वि । समुग्घाया आदिह्हा दोन्नि । समोहया न पुच्छिज्जंति । उच्चट्टणा न पुच्छिज्जइ । सेसं तहेव सव्वं निरवसेसं । सोलससु वि गमपसु जाव-अणंतखुत्तो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! ३५-२ ।

२. [प्र०] हे भगवन् ! प्रथम समये उत्पन्न थएल्ल कृतयुग्मकृतयुग्मराशिरूप एकेन्द्रियो काळ्यी क्यां सुधी होय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ एक समय सुधी होय. ए रीते स्थिति संबंधे पण समजवुं. तेओने आदिना वे समुद्घातो होय छे. समुद्घातवाळा संबंधे अने उद्वर्तना संबंधे असभव होवाथी पूछवातुं नथी अने वाकी वधुं सोळे महायुग्मोमा तेज प्रमाणे जाणवुं, यावत्-पूर्वे अनंतवार उत्पन्न थया छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

अनुवन्.

पांत्तीशमा शतकमां द्वितीय उद्देशक समाप्त.

३-११ उद्देशा ।

१. [प्र०] अपढमसमयकडजुम्मकडजुम्मपग्गिदिया णं भंते ! कओ उववज्जंति ? [उ०] एसो जहा पढमुद्देशो सोल-सहि वि जुम्मेसु तहेव नेयव्वो, जाव-कलियोगकलियोगत्ताए जाव-अणंतखुत्तो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! ति । ३५।३।

२. [प्र०] चरमसमयकडजुम्मकडजुम्मपग्गिदिया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? [उ०] एवं जहेव पढमसमय-उद्देशओ । नवरं देवा न उववज्जंति, तेउलेस्सा न पुच्छिज्जति, सेसं तहेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! ति । ३५।४।

३. [प्र०] अचरमसमयकडजुम्मकडजुम्मपग्गिदिया णं भंते ! कओ उववज्जंति ? [उ०] जहा अपढमसमयउद्देशो तहेव निरवसेसो भाणियव्वो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! ति । ३५-५।

४. [प्र०] पढमसमयकडजुम्मकडजुम्मपग्गिदिया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? [उ०] जहा पढमसमयउद्देशओ तहेव निरवसेसं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! ति जाव-विहरइ । ३५-६।

५. [प्र०] पढमअपढमसमयकडजुम्मकडजुम्मपग्गिदिया णं भंते ! कओ उववज्जंति ? [उ०] जहा पढमसमयउद्देशो तहेव भाणियव्वो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! ति । ३५-७।

३-११ उद्देशको.

१. [प्र०] हे भगवन् ! अप्रथम समयना-(जेने उत्पन्न थयाने द्वितीयादि समयो थया छे एवा) कृतयुग्मकृतयुग्म राशिरूप एकेन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] जेम प्रथम उद्देशक कह्यो छे तेमज आ उद्देशक पण सोळे महायुग्मोमां समजवो. यावत्-कल्यो-ज-कल्यो-जपणे पूर्वे अनंतवार उत्पन्न थया छे. हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ३५-३.

अप्रथम समयोत्पन्न
कृतयुग्मकृतयुग्मरूप
एकेन्द्रियो
उत्पाद

२. [प्र०] हे भगवन् ! *चरम समयना कृतयुग्मकृतयुग्मरूप एकेन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! ए संबंधे जेम प्रथम समय संबंधे उद्देशक कह्यो तेम अहीं कहेवुं. पण देवो अहीं उत्पन्न थता नथी. तेजोलेइया संबंधे पूछवातुं नथी. वाकी वधुं तेमज जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ३५-४.

चरमसमयकृत
युग्मकृतयुग्म रूप
एकेन्द्रियो
उत्पाद.

३. [प्र०] हे भगवन् ! अचरमसमय (चरमसमय सिवायना समयोमां वर्तमान) कृतयुग्मकृतयुग्म राशिरूप एकेन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जेम अप्रथम समय संबंधे उद्देशक कह्यो छे तेमज वधुं कहेवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ३५-५.

अचरमसमय कृत
युग्मकृतयुग्म रूप
एकेन्द्रियो
उत्पाद

४. [प्र०] हे भगवन् ! †प्रथम समयना कृतयुग्मकृतयुग्मप्रमाण एकेन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम प्रथम समय संबंधी उद्देशक कह्यो छे तेमज वधुं जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'-एम कहीं यावत्-विहरे छे. ३५-६.

५. [प्र०] हे भगवन् ! प्रथम-अप्रथम समयवर्ती कृतयुग्मकृतयुग्मरूप एकेन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम प्रथम समय संबंधी उद्देशक कह्यो तेमज अहीं पण कहेवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ३५-७.

२ * अहीं चरमसमयशब्धी एकेन्द्रियोनो मरणसमय विवक्षित छे, अने ते तेना परभवायुपनो प्रथम समय जाणवो. तेमा वर्तमान कृतयुग्मकृतयुग्मराशिरूप एकेन्द्रियोने प्रथमसमयना एकेन्द्रियोद्देशकनी पेठे जाणवुं. तेमा जे दश वाचतनी विशेषताओ छे ते अहीं जाणवी. पण प्रथम समय अने चरम समयमां आ विशेषता छे के अहीं देवो उत्पन्न थता नथी अने तेथीज तेओने तेजोलेइया होती नथी. एकेन्द्रियोमा ज्यारे देवो उत्पन्न थाय छे ल्यारे तेवो तेजोलेइया-सहित उत्पन्न थाय छे. अहीं देवोत्पादनो संभव नथी, माटे तेजोलेइयावाळा एकेन्द्रियो सवन्धे प्रश्न करता नथी. ३५. ४.

४ † प्रथमसमयोत्पन्न अने कृतयुग्मकृतयुग्मत्वना अनुभवने प्रथम समये वर्तमान एवा एकेन्द्रियो ते प्रथमसमयकृतयुग्मकृतयुग्मएकेन्द्रियो कहेवाय छे.

५ ‡ सप्तम उद्देशकमा प्रथमसमयोत्पन्न छता कृतयुग्मकृतयुग्मराशिनो पूर्वे भवमा अनुभव करेलो होवाथी अप्रथमसमयकृतयुग्मकृतयुग्मराशिरूप एकेन्द्रियो कहेवाय छे. अहीं एकेन्द्रियपणानी उत्पत्तिने प्रथम समये वर्तमान अने पूर्वे भवमा विवक्षितराशिरूप सख्यागो अनुभव करेलो होवाथी अप्रथम समयवर्ती एकेन्द्रियो जाणवा.

६. [प्र०] पढमचरमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिंदिया णं भंते ! कओ उचवज्जंति ? [उ०] जहा चरमुद्देशओ तहेव निरवसेसं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । ३५-८ ।

७. [प्र०] पढमअचरमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिंदिया णं भंते ! कओ उचवज्जंति ? [उ०] जहा वीओ उद्देशओ तहेव निरवसेसं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति जाव-विहरइ । ३५-९ ।

८. [प्र०] चरमचरमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिंदिया णं भंते ! कओ उचवज्जंति ? [उ०] जहा चउत्यो उद्देशओ तहेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । ३५-१० ।

९. [प्र०] चरमअचरमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिंदिया णं भंते ! कओ उचवज्जंति ? [उ०] जहा पढमसमयउद्देशओ तहेव निरवसेसं । 'सेवं भंते सेवं भंते' ! त्ति जाव-विहरति । ३५-११ ।

एवं एए एकारस उद्देशगा । पढमो ततिओ पंचमओ य सरिसगमा, सेसा अट्ट सरिसगमगा । नवरं चउत्ये छट्टे अट्टमे दसमे य देवा न उचवज्जंति । तेउलेस्सा नत्थि ।

पणतीसइमे सए पढमं एगिंदियमहाजुम्मसयं समत्तं ।

६. [प्र०] हे भगवन् ! प्रथम-चरमसमयवर्ती कृतयुग्मकृतयुग्मराशिरूप एकेन्द्रियो क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम चरमउद्देशक कह्यो तेमज वाकीसुं वधुं जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ३५-८.

७. [प्र०] हे भगवन् ! प्रथम-अचरमसमयवर्ती कृतयुग्मकृतयुग्मराशिरूप एकेन्द्रियो क्याथी आवी उत्पन्न थाय ? [उ०] हे गौतम ! जेम वीजो उद्देशक कह्यो तेमज वधुं समजवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'-एम कही यावत्-विहरे छे. ३५-९

८. [प्र०] हे भगवन् ! चरम-चरमसमयवर्ती कृतयुग्मकृतयुग्मरूप एकेन्द्रियो क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] जेम चोयो उद्देशक कह्यो तेमज वधुं जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ३५-१०.

९. [प्र०] हे भगवन् ! चरम-अचरमसमयवर्ती कृतयुग्मकृतयुग्मराशिरूप एकेन्द्रियो क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम प्रथम समय संबंधे उद्देशक कह्यो तेमज वधुं जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'-एम कही यावत्-विहरे छे. ३५-११.

ए रीते ए अगियार उद्देशको कहेवा. पहेलो, त्रीजो अने पाचमो सरखा पाठवाळा छे, अने वाकीना आठ उद्देशको सरखा पाठवाळा छे, परन्तु चोया, छट्टा, आठमा अने दसमा उद्देशकमां देवो उपजता नथी अने तेओने तेजोलेइया नथी.

पान्त्रीशमा शतकमां प्रथम एकेन्द्रिय महायुग्मशतक समाप्त.

वितियं एगिंदियं महाजुम्मसयं

१. [प्र०] कणहलेस्सकडजुम्मकडजुम्मएगिंदिया णं भंते ! कओ उचवज्जंति ? [उ०] गोयमा ! उचवाओ तहेव, एवं जहा ओहिउद्देशए । नवरं इमं नाणत्तं-ते णं भंते ! जीवा कणहलेस्सा ? [उ०] हंता कणहलेस्सा ।

द्वितीय एकेन्द्रिय महायुग्म शतक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कणहलेइयावाळा कृतयुग्मकृतयुग्मराशिरूप एकेन्द्रियो क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! आंघिक उद्देशकमा कह्यो प्रमाणे उपपात जाणवो. पण तेमां आ विशेषता छे—

६ * आठमा उद्देशकमा निवक्षित संख्याना अनुभवना प्रथम समयवर्ता होवाथी प्रथम अने चरम समय-मरणसमयवर्ता एवा कृतयुग्म कृतयुग्मराशि रूप एकेन्द्रियो ते प्रथमचरमसमयकृतयुग्मकृतयुग्मरूप एकेन्द्रियो कहेवाय छे.

७ † ननमा उद्देशकमां प्रथम-निवक्षित संख्याना अनुभवना प्रथम समये वर्तमान, तथा अचरम समय-(एकेन्द्रियोत्पादनी अपेक्षाए) प्रथम समयवर्ता धरिं निगदिन छे केनके तेओमा चरमत्वनो नियेध छे जो एम न होय तो वीजा उद्देशकमा कहेछं अवगाहनादिदुं साम्य न घटी शके माटे तेओ प्रथम-अचरमसमय कृतयुग्मकृतयुग्म एकेन्द्रियो कहेवाय छे

८ ‡ अठमा उद्देशकमा चरम-निवक्षित संख्यानी राशिना अनुभवना छेत्त-समये वर्तमान, अने चरमसमय-मरणसमयवर्ता एवा कृतयुग्म २ एकेन्द्रियो ते चरम-चरमसमयकृतयुग्म २ एकेन्द्रियो कहेवाय छे.

९ § अगियारमा उद्देशकमा चरम-निवक्षित संख्यानी राशिना अनुभवने छेत्त-समये वर्तमान, अचरमसमय-एकेन्द्रियोत्पादनी अपेक्षाए प्रथमसमयवर्ता एवा कृतयुग्म २ एकेन्द्रियो ते चरम-अचरम कृतयुग्म २ एकेन्द्रियो कहेवाय छे.

२. [प्र०] ते णं भंते ! 'कण्हलेस्सकडजुम्मकडजुम्मएगिंदिय'त्ति कालओ केवच्चिरं होइ ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं । एवं ठितीए वि । सेसं तहेव जाव-अणंतखुत्तो । एवं सोलस वि जुम्मा भाणियत्ता । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । ३५-२-१ ।

३. [प्र०] पढमसमयकण्हलेस्सकडजुम्मकडजुम्मएगिंदिया णं भंते ! कओ उववज्जंति ? [उ०] जहा पढमसमयउद्देसओ । नवरं [प्र०] ते णं भंते ! जीवा कण्हलेस्सा ? [उ०] हंता कण्हलेस्सा, सेसं तं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । ३५-२-२ ।

४. एवं जहा ओहियसए एक्कारस उद्देसगा भणिया तथा कण्हलेस्ससए वि एक्कारस उद्देसगा भाणियत्ता । पढमो तइओ पंचमो य सरिसगमा, सेसा अट्ट वि सरिसगमा । नवरं चउत्थं-छट्ट-अट्टम-दसमेसु उववाओ नत्थि देवस्स । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । ३५-२-११ ।

पणतीसइमे सए वितियं एगिंदियमहाजुम्मसयं समत्तं ।

[प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो कृष्णलेस्यावाळा छे ? [उ०] हा गौतम ! तेओ कृष्णलेस्यावाळा छे.

२. [प्र०] हे भगवन् ! ते कृष्णलेस्यावाळा कृतयुग्मकृतयुग्म रूप एकेन्द्रियो काळयी क्या सुधी होय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य एक समय अने उक्कष्ट अंतर्मुहूर्त सुधी होय. एम स्थिति संबंधे पण जाणवुं. वाकी वधुं यावत्-'पूर्वे अनंतवार उत्पन्न थया छे' त्यां सुधी तेमज जाणवुं. ए रीते सोळे युग्मो कहेवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ३५-२-१.

३. [प्र०] हे भगवन् ! प्रथम समयना कृष्णलेस्यावाळा कृतयुग्मकृतयुग्म एकेन्द्रियो क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम प्रथम समयना उद्देशक संबंधे कहुं तेम जाणवुं. परन्तु आ विशेषता छे—[प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो कृष्णलेस्यावाळा छे ? [उ०] हे गौतम ! हा, ते जीवो कृष्णलेस्यावाळा छे. वाकी वधुं तेमज जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ३५-२-२.

४. जेम औधिक शतकमां अगियार उद्देशको कखा तेम कृष्णलेस्यावाळा शतकमां पण अगियार उद्देशको कहेवा. पहेलो, त्रीजो अने पाचमो सरखा पाठवाळा छे अने वाकीना आठ सरखा पाठवाळा छे. विशेष ए के चौथा, छट्टा, आठमा अने दसमा उद्देशकमां देवनो उपात थतो नथी. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ३५-२-११ ।

पांत्रीशमा शतकमां द्वितीय एकेन्द्रियमहायुग्मशतक समाप्त.

ततियं एगिंदियमहाजुम्मसयं

एवं नीललेस्सेहि वि सयं कण्हलेस्ससयसरिसं, एक्कारस उद्देसगा तहेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

पणतीसइमे सए ततियं एगिंदियमहाजुम्मसयं समत्तं ।

तृतीय एकेन्द्रियमहायुग्मशतक.

ए रीते नीललेस्यावाळा संबंधे पण कृष्णलेस्याशतकनी जेम कहेहुं अने अगियार उद्देशको पण एमज कहेवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

पांत्रीशमा शतकमां तृतीय एकेन्द्रियमहायुग्मशतक समाप्त.

चउत्थं एगिंदियमहाजुम्मसयं

एवं काउलेस्सेहि वि सयं कण्हलेस्ससयसरिसं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

पणतीसइमे सए चउत्थं एगिंदियमहाजुम्मसयं समत्तं ।

चतुर्थ एकेन्द्रियमहायुग्मशतक.

ए रीते कापोतलेस्यावाळा संबंधे पण कृष्णलेस्याशतकनी पेठे कहेहुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

पांत्रीशमा शतकमां चतुर्थ एकेन्द्रियमहायुग्मशतक समाप्त.

पंचमं एगिंदियमहाजुम्मसयं ।

१. [प्र०] भवसिद्धिकडजुम्मकडजुम्मएगिंदिया णं भंते ! कओ उववज्जंति ? [उ०] जहा ओहियसयं तहेव । नवरं

पांचमुं एकेन्द्रियमहायुग्मशतक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! भवसिद्धिक कृतयुग्मकृतयुग्म रूप एकेन्द्रियो क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम औधिक

एकारससु वि उद्देश्यसु—[प्र०] अहं भंते ! सद्ये पाणा जाव—सद्ये सत्ता भवसिद्धिकडजुम्मकडजुम्मपरिगिदियत्ताए उचवन्नपुष्पा ?
[उ०] गीयमा ! णो इण्ठे सम्भे, सेसं तद्देव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

पणतीसइमे सए पंचमं एगिंदियमहाजुम्मसयं समत्तं ।

कहुं तेमज जाणहुं. परन्तु अगियारे उद्देश्यकोमां—[प्र०] हे भगवन् ! सर्व प्राणो, यावत्—सर्व सत्त्वो भवसिद्धिक कृतयुग्मकृतयुग्मरूप एकेंद्रियपणे
पूर्वे उत्पन्न यथा छे ? [उ०] हे गीतम ! ए अर्थ यथार्थ नयी. वाकी वधुं तेमज जाणहुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

पांत्रीशमा शतकमां पांचमुं एकेन्द्रियमहायुग्मशतक समाप्त.

छट्टं एगिंदियमहाजुम्मसयं ।

१. [प्र०] कण्ठलेस्सभवसिद्धिकडजुम्मकडजुम्मपरिगिदिया णं भंते ! कन्नोद्धितो उचवज्जंति ? [उ०] एवं कण्ठलेस्स-
भवसिद्धियपरिगिदिपहि वि सयं वितियसयकण्ठलेस्ससरिसं माणियधं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

पणतीसइमे सए छट्टं एगिंदियमहाजुम्मसयं समत्तं ।

छट्टं एकेन्द्रियमहायुग्मशतक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृष्णलेस्यावाळा भवसिद्धिक कृतयुग्मकृतयुग्मप्रमाण एकेन्द्रियो क्वांथी आवी उत्पन्न याय छे ? [उ०] हे
गीतम ! कृष्णलेस्यावाळा भवसिद्धिक एकेन्द्रियो संबंधे पण बीजा कृष्णलेस्याशतकनी पेटे शतक कहेहुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे
भगवन् ! ते एमज छे'.

पांत्रीशमा शतकमां छट्टं एकेन्द्रियमहायुग्मशतक समाप्त.

सत्तमं एगिंदियमहाजुम्मसयं ।

एवं नीललेस्सभवसिद्धियपरिगिदियपहि वि सयं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

पणतीसइमे सए सत्तमं एगिंदियमहाजुम्मसयं समत्तं ।

सातमुं एकेन्द्रियमहायुग्मशतक.

ए रीते नीललेस्यावाळा भवसिद्धिक एकेंद्रियो संबंधे पण शतक कहेहुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

पांत्रीशमा शतकमां सातमुं एकेन्द्रियमहायुग्मशतक समाप्त.

अट्टमं एगिंदियमहाजुम्मसयं ।

एवं काउलेस्सभवसिद्धियपरिगिदिपहि वि तद्देव एकारसउद्देश्यसंजुत्तं सयं । एवं पयाणि चत्तारि भवसिद्धियसयाणि ।
चउसु वि सपसु सद्ये पाणा जाव—उचवन्नपुष्पा ? नो इण्ठे सम्भे. 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

पणतीसइमे सए अट्टमं एगिंदियमहाजुम्मसयं समत्तं ।

आठमुं एकेन्द्रियमहायुग्मशतक.

ए रीते कापोतलेस्यावाळा भवसिद्धिक एकेंद्रियो संबंधे पण अगियार उद्देश्यको सहित एमज शतक कहेहुं. ए रीते ए चार भवसिद्धिक
शतको जाणवां. ए चारे शतकोमां—'सर्व प्राणो, यावत्—पूर्वे उत्पन्न यथा छे'—ए प्रश्नना उत्तरमां ए अर्थ समर्थ नयी—एम कहेहुं.
'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

पांत्रीशमा शतकमां आठमुं एकेन्द्रियमहायुग्मशतक समाप्त.

९-१२ एगिंदियमहाजुम्मसयाइं ।

जहा भवसिद्धिपरिहं चत्तारि सयाइं भणियाइं एवं अभवसिद्धिपरिहं वि चत्तारि सयाणि लेस्सासंजुत्ताणि माणिय-
घाणि । सद्ये पाणा० तद्देव नो इण्ठे सम्भे । एवं पयाइं चारस परिगिदियमहाजुम्मसयाइं भवति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

पणतीसइमं सयं समत्तं ।

९-१२ एकेन्द्रियमहायुग्मशतको.

ए रीते जेम भवसिद्धिको संबंधे चार शतको कहां छे तेम अभवसिद्धिको संबंधे पण चार शतको लेस्यासहित कहेवा. 'वधा
प्राणो यावत्—सत्त्वो पूर्वे उत्पन्न यथा छे' ? ए प्रश्नना उत्तरमां 'ए अर्थ समर्थ नयी'—एम कहेहुं. ए रीते ए वार एकेंद्रिय महायुग्मशतको
छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

पांत्रीशमुं शतक समाप्त.

छत्तीसहमं सयं पढमं बैदियमहाजुम्मसयं पढमो उदेसो ।

१. [प्र०] कडजुम्मकडजुम्मबैदिया णं भंते ! कओ उववज्जंति ? [उ०] उक्वाओ जहा वक्कंतीए । परिमाणं सोलस वा संखेज्जा वा उववज्जंति असंखेज्जा वा उववज्जंति । अवहारो जहा उप्पलुद्देसए । ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखे-
ज्जइमागं, उक्कोसेणं बारस जोयणाइं । एवं जहा एगिंदियमहाजुम्माणं पढमुद्देसए तहेव । नवरं तिन्नि लेस्साओ, देवा न उववज्जंति । सम्मदिट्ठी वा मिच्छदिट्ठी वा; नो सम्मामिच्छादिट्ठी । नाणी वा अन्नाणी वा । नो मणयोगी, वययोगी वा कायजोगी वा ।

२. [प्र०] ते णं भंते ! कडजुम्मकडजुम्मबैदिया कालओ केवचिरं होइ ? [उ०] गोयमा ! जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जं कालं । ठिती जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं बारस संवच्छराइं । आहारो नियमं छहिंसि । तिन्नि समु-
घाया । सेसं तहेव जाव-अणंतखुत्तो । एवं सोलससु वि जुम्मेसु । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

छत्तीसहमे सए पढमे बैदियमहाजुम्मसए पढमो उदेसओ सम्मत्तो ।

छत्रीशमुं शतक प्रथम वेइन्द्रियमहायुग्मशतक प्रथम उदेशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुग्मकृतयुग्मराशिप्रमाण वेइन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! *व्युत्क्रांतिपदमां कक्षा प्रमाणे तेओनो उत्पाद जाणवो. परिमाण—तेओ [एक समये] सोळ, संख्याता के असख्याता उत्पन्न थाय छे. तेओनो उत्पाद जेम
†उत्पलोदेशकमां कह्यो छे तेम जाणवो. तेओतुं शरीर जघन्यथी अंगुलना असंख्यातमा भाग जेटळुं होय छे अने उत्कृष्टथी वार योजन प्रमाण होय छे. ए रीते जेम एकेद्रियमहायुग्मराशि सर्वंधे प्रथम उदेशक कह्यो तेम बधुं समजवुं. विशेष ए के अहीं त्रण लेख्याओ होय छे अने देवोथी आवी उपजता नथी. तेओ सम्यग्दृष्टि अने मिथ्यादृष्टि होय छे, पण सम्यग्मिथ्यादृष्टि—मिश्रदृष्टि होता नथी. तेओ ज्ञानी अथवा अज्ञानी होय छे. मनोयोगी नथी होता, पण वचनयोगी अने काययोगी होय छे.

२. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुग्मकृतयुग्मराशिप्रमाण वेइन्द्रियो कालथी क्यां सुची होय ? [उ०] हे गौतम ! जघन्य एक समय सुची अने उत्कृष्ट संख्याता काळ सुची होय छे. तेओनी जघन्य स्थिति एक समयनी अने उत्कृष्ट स्थिति वार वरसनी होय छे. तेओनो आहार अवश्य छ दिशानो होय छे. तेओने त्रण समुद्घातो होय छे. अने वाकी बधुं यावत्—'अनंतवार पूर्वे उत्पन्न थया छे' त्यां सुची तेमज जाणवुं. ए रीते सोळे युग्मोमां समजवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

छत्रीशमा शतकमां प्रथम वेइन्द्रियमहायुग्मशतकनो प्रथम उदेशक समाप्त.

२-११ उद्देसा ।

१. [प्र०] पढमसमयकडजुम्मकडजुम्मबैदिया णं भंते ! कओ उववज्जंति ? [उ०] एवं जहा एगिंदियमहाजुम्माणं

२-११ उदेशको.

१. [प्र०] हे भगवन् ! प्रथमसमयोत्पन्न कृतयुग्मकृतयुग्मराशिप्रमाण वेइन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम !

પદમસમયઉદ્દેસપ્ । દસ નાણત્તાઈ તાઈ ચેવ દસ ઇહ વિ । પક્કારસમં ઇમં નાણત્તં—નો મળયોગી; નો ઘડયોગી, કાયયોગી । સેસં જહા વેદિયાણં ચેવ પદમુદ્દેસપ્ । 'સેવં મંતે ! સેવં મંતે' ! ત્તિ । एवं एष वि जहा षर्गिदियमहाजुम्मसेषु एकारस उद्दे-
सगा तद्देव भाणियथा । नवरं चउत्थ—छट्ट—अट्टम—दसमेषु सम्मत्त—नाणाणि न भवंति । जद्देव षर्गिदिपसु पदमो तद्दो पंचमो
य एकगमा सेसा अट्ट एकगमा ।

છત્તીસહમે સપ્ પદમં વેદંદિયમહાજુમ્મસયં સમત્તં ।

जेम एकेंद्रियमहायुग्मोना प्रथम समय सक्न्वी उद्देशक क्तो छे तेम अहीं जाणहुं. जे दस वाचननी विशेषता छे ते अहीं पण जाणवी. अने-
अगियारमी आ विशेषता छे—तेओ मनयोगी तथा वचनयोगी नथी होता, पण मात्र काययोगी होय छे. वाक्ती वरुं वेदन्द्रियना प्रथम उद्दे-
शकतां कह्युं छे तेम समजहुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. जेम एकेंद्रियमहायुग्मोना अगियार उद्देशको कथा तेम
अहीं पण कहेवा. पण विशेष ए के, चौया, छट्टा, आठमा अने दसमा उद्देशकतां सम्यक्त्व अने ज्ञान होना नथी. एकेंद्रियोनी पेटे
पहेले, त्रीजो अने पाचमो उद्देशक सरखा पाठवाळा छे अने वाक्तीना आठ उद्देशको सरखा पाठवाळा छे.

छत्रीशमा शतकमां प्रथम वेदन्द्रियमहायुग्मशतक समाप्त.

२-८ वेदियमहाजुम्मसयाई ।

१. [प्र०] कण्ठलेस्सकडजुम्मकडजुम्मवेदंदिआ णं मंते ! कओ उचवज्जंति ? [उ०] एवं चेव । कण्ठलेस्सेषु वि
एकारसउद्देसगसंजुत्तं सयं । नवरं लेस्सा, संचिट्टणा, टिती जहा षर्गिदियकण्ठलेस्साणं ।

છત્તીસહમે સપ્ વિતિયં વેદિયમહાજુમ્મસયં સમત્તં ।

२-८ वेदन्द्रियमहायुग्मशतको.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृष्णलेस्यावाळा कृतयुग्मकृतयुग्मप्रमाण वेदन्द्रिय जीवो क्यांथी आओ उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम !
एमज जाणहुं. कृष्णलेस्यावाळा संवंधे अगियार उद्देशकसहित शतक कहेवुं. पण विशेष ए के, कृष्णलेस्यावाळा एकेंद्रियोनी पेटे लेस्याओ
संचिट्टणा—स्थितिकाळ अने आयुपस्थिति जाणवी.

छत्रीशमा शतकमां द्वितीय वेदन्द्रियमहायुग्मशतक समाप्त.

तईयं वेदियमहाजुम्मसयं ।

एवं नीललेस्सेहि वि सयं ।

છત્તીસહમે સપ્ તતિયં વેદંદિયમહાજુમ્મસયં સમત્તં ।

ત્રીજું વેદંદ્રિયમહાજુમ્મશતક.

ए प्रमाणे नीललेस्यावाळाओ संवंधे पण शतक कहेवुं.

छत्रीशमा शतकमां त्रीजुं वेदन्द्रिय महायुग्मशतक समाप्त.

चउत्थं वेदियं महाजुम्मसयं ।

एवं काउलेस्सेहि वि ।

चउत्थं वेदन्दिय महाजुम्मसयं समत्तं ।

चतुर्थ वेदन्द्रियमहायुग्मशतक.

ए प्रमाणे कापोतलेस्यावाळा संવંધે પળ શતક કહેવું.

છત્તીશમા શતકમાં ચતુર્થ વેદંદ્રિયમહાજુમ્મશતક સમાપ્ત.

पंचमं वेदियमहाजुम्मसयं ।

१. [प्र०] भवसिद्धिकडजुम्मकडजुम्मवेइंदिया णं भंते!०? [उ०] एवं भवसिद्धियसया वि चत्तारि तेणेव पुद्गमएणं नेयघा । नवरं सधे पाणा० ? णो तिण्ठे समद्धे । सेसं तहेव ओहियसयाणि चत्तारि । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । ५-८

छत्तीसमे सए अड्डमं वेइंदियमहाजुम्मसयं समत्तं ।

५-८ वेइन्द्रियमहायुग्मशतको.

१. [प्र०] भवसिद्धिक कृतयुग्मकृतयुग्मराशिरूप वेइन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय? [उ०] एम भवसिद्धिक संबंधे चार शतको पूर्वना पाठवडे जाणवा. विशेष ए के सर्व प्राणो अहीं पूर्वे अनन्तवार उत्पन्न थया छे? तेना उत्तरमां निपेध करवो. वाकी बधुं तेमज जाणहुं. चार औधिक शतको पण तेमज जाणवां. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

छत्रीशमा शतकमां ५-८ वेइन्द्रियमहायुग्मशतको समाप्त.

९-१२ वेइंदियमहाजुम्मसयाइं ।

जहा भवसिद्धियसयाणि चत्तारि एवं अभवसिद्धियसयाणि चत्तारि भाणियघाणि । नवरं सम्मत्त-नाणाणि नत्थि, सेसं तं चेव । एवं एयाणि धारस वेइंदियमहाजुम्मसयाणि भवंति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

वेइंदियमहाजुम्मसयाइं समत्ताइं

छत्तीसतिमं सयं समत्तं ।

९-१२ वेइन्द्रियमहायुग्मशतको.

जेम भवसिद्धिक संबंधे चार शतको कहां तेम अभवसिद्धिक संबंधे पण चार शतको कहेवां. विशेष ए के, तेओमां सम्यक्च अचे ज्ञान नथी. वाकी बधुं तेमज जाणहुं. ए रीते ए वार वेइन्द्रियमहायुग्मशतको छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे.'

९-१२ वेइन्द्रिय महायुग्मशतको समाप्त.

छत्रीशमुं शतक समाप्त.



सत्ततीसइमं सयं

१. [प्र०] कडजुम्मकडजुम्मतेदिया णं मंते ! कत्रो उचवजंति ? [उ०] एवं तेइंद्रिपसु वि चारस सया कायव्वा वेइंद्रियसयसरिस्ता । नवरं ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जदभागं, उक्कोसेणं तिग्गि गाउयाइं । टिनी जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं एकूणवन्नं राइंदियाइं, सेसं तहेव । 'सेवं मंते ! सेवं मंते' ! त्ति ।


तेइंदियमहाजुम्मसया समत्ता
सत्ततीसइमं सयं समत्तं ।

साडत्रीशमुं शतक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुग्मकृतयुग्मप्रमाण तेइन्द्रिय जीवो क्यायी आवी उत्पल याव छे ? [उ०] एम वेइन्द्रियगतकीनी पेठे तेइन्द्रियमबंधे पण वार शतको करवां. परन्तु अवगाहना-शरीरखुं प्रमाण जवन्य अंगुलनो असंख्यातमो भाग अने उल्कृष्ट त्रण गाउनी होय छे. स्थिति जवन्य एक समयनी अने उल्कृष्ट ओगणपचास रात्री-दिवसनी जाणवी. वाकी वधुं तेमज जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

तेइन्द्रियमहायुग्मशतको समाप्त.

साडत्रीशमुं शतक समाप्त.



कृतयुग्म ० रूप वेद-
न्द्रियोनो उन्पट्ट.

अट्टतीसइमं सयं ।

चउरिंदिएहि वि एवं चेव चारस सया कायघा । नवरं ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाइं । ठिती जहन्नेणं षड्ढं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा । सेसं जहा वेदियाणं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते !' त्ति ।

चउरिंदियमहाजुम्मसया समत्ता ।

अट्टतीसइमं सयं समत्तं ।

आडत्रीशमुं शतक.

एज प्रमाणे चउरिंदियो संबंधे पण चार शतको कहेवा. परन्तु अवगाहना-शरीरप्रमाण जघन्य अंगुलनो असह्यातमो भाग अने उत्कृष्ट चार गाउनी जाणवी, स्थिति जघन्य एक समय अने उत्कृष्ट छ मांस. वाकी वधुं वेइन्द्रियोनी पेटे जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

कृतयुग्म २ रूप चउ-
रिन्द्रियोनी उत्पाद-

चउरिन्द्रियमहायुग्मशतको समाप्त.

आडत्रीशमुं शतक समाप्त.



एगूणयालीसइमं सयं ।

१. [प्र०] कडजुम्मकडजुम्मअसन्नपंचिन्द्रिया णं मंते ! कओ उचवजन्ति ? [उ०] जद्दा वेन्दियाणं तद्देव असन्नित्तु वि चारस सया कायद्वा । नवरं ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंरोज्जमार्गं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं । संचिट्टणा जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं पुव्वकोडीपुहुत्तं । त्तिती जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी, सेसं जटा वेन्दियाणं । सेवं मंते ! सेवं मंते ! त्ति ।

असन्नपंचिन्द्रियमहाजुम्मसया समत्ता

एगूणयालीसइमं सयं समत्तं ।

ओगणचालीशमुं शतक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुग्मकृतयुग्मप्रमाण असन्नी पंचेन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पल थाप छे ? [उ०] एम वेन्द्रियोनी पेटे अन्नीना पण चार शतको करवा. परन्तु त्रियेप ए के, अवगाहना-शरीरप्रमाण जवन्य अंगुलनो अन्नीनातमो भाग अने उत्कृष्ट एक हजार योजन होय छे. संचिट्टणा-स्थितिकाळ जवन्य एक समय अने उत्कृष्ट वे पूर्वकोडयी नव पूर्वकोड सुचीनी होय छे, स्थिति जवन्य एक समय अने उत्कृष्ट पूर्वकोटि. वाकी वधुं वेन्द्रियोनी जेम जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

असंज्ञीपंचेन्द्रियमहायुग्मशतको समाप्त.

ओगणचालीशमुं शतक समाप्त.



चत्तलीसतिमं सयं

पढमं सन्निपंचिदियमहाजुम्मसयं ।

१. [प्र०] कडजुम्मकडजुम्मसन्निपंचिदिया णं भंते ! कओ उववज्जन्ति ? [उ०] उववाओ चउसु वि गईसु । संखे-
ज्जवासाउयअसंखेज्जवासाउयपज्जत्तअपज्जत्तपसु य न कओ विं पडिसेहो जाव—‘अणुत्तरविमाण’ त्ति । परिमाणं, अवहारो
ओगाहणा य जहा असन्निपंचिदियाणं ।

२. वेयणिज्जवजाणं सत्तण्हं पगडीणं बंधगा वा अवंधगा वा, वेयणिज्जस्स बंधगा, नो अवंधगा । मोहणिज्जस्स
वेदगा वा अवेदगा वा, सेसाणं सत्तण्हं वि वेदगा, नो अवेयगा । सायावेयगा वा असायावेयगा वा । मोहणिज्जस्स उदई
वा अणुदई वा, सेसाणं सत्तण्हं वि उदयी, नो अणुदई । नामस्स गोयस्स य उदीरगा, नो अणुदीरगा, सेसाणं छण्हं वि

चालीशमुं शतक

प्रथम संज्ञीपंचेन्द्रियमहायुग्मशतक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुग्मकृतयुग्मराशिरूप संज्ञी पंचेन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! चारे गतिमांथी
आवी उत्पन्न थाय छे. संख्याता वर्पना आयुपवाळा, असंख्याता वर्पना आयुपवाळा पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवोथी आवी उत्पन्न थाय छे,
क्यांथी पण निषेध नथी, यावत्—अनुत्तर विमान सुधी जाणुं. परिमाण, अपहार अने अवगाहना संवन्धे जेम असंज्ञिपंचेन्द्रियो संवंधे
कहुं छे तेम जाणुं.

२. वेदनीय सिवाय सात कर्मप्रकृतिना तेओ बंधक छे अने अवंधक पण छे, अने *वेदनीयना तो बंधक ज छे पण अवंधक नथी.
मोहनीयना वेदक छे अने अवेदक पण छे. अने वाकीनी साते कर्मप्रकृतिना वेदक छे पण अवेदक नथी. साताना वेदक छे अने असाताना
वेदक छे. †मोहनीयना उदयवाळा छे अने अवेदक—अनुदयवाळा पण छे, अने ते सिवाय वाकीनी साते कर्मप्रकृतिना उदयवाळा छे, पण अनुदयी
नथी. ‡नाम अने गोत्रना उदीरक छे पण अनुदीरक नथी. वाकीनी छए कर्मप्रकृतिओना उदीरक पण छे अने अनुदीरक पण छे. तेओ

कृतयुग्म २ रूप सवी
पंचेन्द्रियोनो
उत्पाद.

कर्मना बन्धक.

२ * अर्ही वेदनीय कर्मनो विशेषत. बन्ध कहे छे—उपशान्तमोहादि वेदनीय सिवाय सात कर्मना अवन्धक छे, वाकीना यथासभव बन्धक छे केव-
लीपणा सुधी बवा सज्ञी पंचेन्द्रिय कहेवाय छे, अने त्या सुधी तेओ अवश्य वेदनीय कर्मना बन्धक ज होय छे, अवन्धक होता नथी तेमा सूक्ष्मसपराय सुधीना
सज्ञी पंचेन्द्रिय मोहनीयना वेदक होय छे, अने उपशान्तमोहादि अवेदक होय छे उपशान्तमोहादि जे सज्ञी पंचेन्द्रिय होय छे ते मोहनीय सिवाय साते प्रकृति-
ओना वेदक छे, पण अवेदक नथी यथापि केवलज्ञानी चार अधाती कर्म प्रकृतिओना वेदक छे, पण ते इन्द्रियना उपयोगरहित होवाथी पंचेन्द्रिय नथी

† सूक्ष्मसपराय गुणस्थानक सुधी मोहनीय कर्मना उदयवाळा होय छे अने उपशान्तमोहादि अनुदयवाळा होय छे. वेदकपण अने उदय ए वेमां
एटली विशेषता छे के अनुक्रमे अने उदीरणाकरणथी उदय आवेला—फलोन्मुख थयेला कर्मनो अनुभव करवो ते वेदकत्व, अने अनुक्रमे उदय आवेला कर्मनो
अनुभव करवो ते उदय.

‡ नाम अने गोत्र कर्मना अकपाय (क्षीणमोह गुणस्थान) पर्यन्त बवा संज्ञी पंचेन्द्रिय उदीरक छे. वाकीनी छ प्रकृतिओना यथासभव उदीरक पण छे
अने अनुदीरक पण छे उदीरणानो क्रम आ प्रमाणे छे—प्रमत्त पर्यन्त सामान्य रीते वथा आठ कर्मना उदीरक छे, अने उयारे आयुप आवलिका मात्र बानी
रहे ल्यारे तेओ आयुप सिवाय सात कर्मना उदीरक छे. अप्रमत्तादि चार वेदनीय अने आयुप सिवाय छ कर्मना उदीरक छे, अने सूक्ष्मसपराय आवलिका
मात्र वाकी होय ल्यारे मोहनीय, वेदनीय अने आयुप सिवाय पाच कर्मना उदीरक छे. उपशान्तमोह एज पाच कर्मना उदीरक छे क्षीणकपाय पोतानो
काळ आवलिका वाकी होय ल्यारे नाम अने गोत्रकर्मना उदीरक छे. सयोगी पण तेवी ज रीते उदीरक छे अने अयोगी अनुदीरक छे

उदीरगा वा अणुदीरगा वा । कण्ठलेस्सा वा जाव-मुकलेस्सा वा । सम्मदिट्ठी वा, मिच्छादिट्ठी वा, सम्मामिच्छादिट्ठी वा । णाणी वा अन्नाणी वा, मणजोगी वइजोगी कायजोगी । उचयोगो, वधमादी, उस्सासगा वा नीसासगा वा, आहारगा य जहा एण्णदियाणं; विरया य अविरया य विरयाविरया य । सकिरिया, नो अकिरिया ।

३. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं सत्तविहवंधगा वा अट्टविहवंधगा वा छद्विहवंधगा वा एणविहवंधगा वा ? [उ०] गोयमा ! सत्तविहवंधगा वा, जाव-एणविहवंधगा वा ।

४. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं आहारसन्नोवउत्ता, जाव-परिग्गहसन्नोवउत्ता वा, नोसन्नोवउत्ता वा ? सव्वत्थ पुच्छा माणियद्धा । [उ०] गोयमा ! आहारसन्नोवउत्ता जाव-नोसन्नोवउत्ता वा । कोदकसायी वा जाव-लोमकसायी वा, अकसायी वा । इत्थीवेदगा वा पुरिसवेदगा वा नपुंसवेदगा वा अवेदगा वा । इत्थिवेदवंधगा वा पुरिसवेदवंधगा वा नपुंसवेदवंधगा वा अबंधगा वा । सन्नी, नो असन्नी । सईदिया, नो अण्णदिया । संचिट्ठणा जह्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं सागरोपमसयपुहुत्तं सातिरेणं । आहारो तहेव जाव-नियमं छद्विसं । टिठी जह्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरो, वमाइं । छ समुग्वाया आदिह्णगा । मारणंनियसमुग्वाएणं समोहया वि मरंति, असमोहया वि मरंति । उच्चट्ठणा जहेव उचवाओ, न कत्वइ पडिसेहो, जाव-अणुत्तरविमाणं चि ।

५. अह भंते ! सव्वपाणा जाव-अणंतखुत्तो । एवं सोलसु वि जुम्मोसु माणियद्धं जाव-अणंतखुत्तो । नवरं परिमाणं जहा वेइदियाणं, सेसं तहेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते ! चि । ४०-१ ।

६. [प्र०] पढमसमयकडजुम्मकडजुम्मसन्निपंचिदिया णं भंते ! कओ उचवज्जन्ति ? [उ०] उचवाओ, परिमाणं-आहारो जहा एण्णसि चेव पढमोहेसए । ओगाहणा वंधो वेदो वेदणा उदयी उदीरगा य जहा वेन्द्रियाणं पढमसमयाणं, तहेव कण्ठलेस्सा वा जाव-मुकलेस्सा वा । सेसं जहा वेन्द्रियाणं पढमसमयाणं जाव-अणंतखुत्तो । नवरं इत्थिवेदगा वा

कृष्णलेस्यावाळा यावत्-शुक्ललेस्यावाळा होय छे, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि अने सम्यग्मिथ्यादृष्टि पण होय छे. अज्ञानी अथवा ज्ञानी होय छे. अने मनोयोगवाळा वचनयोगवाळा, अने काययोगवाळा पण होय छे. तथा तेओनो उपयोग, वर्णादि, उच्छ्वासक, निःश्वासक तथा आहारक-इत्यादि ऐकेंद्रियोनी पेटे जाणवुं. तेओ विरतिवाळा, अविरतिवाळा अने विरताविरत-देशविरतिवाळा होय छे. तथा सक्रिय होय छे, पण अक्रिय नयी होता.

बन्ध

३. [प्र०] हे भगवन् ! शुं ते जीवो सप्तविध कर्मना बंधक छे, अष्टविध कर्मना बंधक छे, छ प्रकारना कर्मना बंधक छे के एकविध कर्मना बंधक छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ सप्तविध कर्मना बंधक छे, यावत्-एकविध कर्मना बंधक छे.

सधा

४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं ते जीवो आहारसंज्ञाना उपयोगवाळा, यावत्-परिग्रहसंज्ञाना उपयोगवाळा के नोसंज्ञाना उपयोगवाळा छे ?—एम वधी पृच्छा करवी. [उ०] हे गौतम ! तेओ आहारसंज्ञाना उपयोगवाळा छे अने यावत्-नोसंज्ञाना उपयोगवाळा छे. तेओ शोधकार्या यावत्-लोमकार्या के अकपायी होय छे. तेओ स्त्रीवेदवाळा, पुरुषवेदवाळा, नपुंसकवेदवाळा अने यावत्-वेदरहित होय छे. स्त्रीवेदबंधक, पुरुषवेदबंधक, नपुंसकवेदबंधक अने अबंधक पण होय छे. संज्ञी होय छे पण असंज्ञी नयी होता. तेम इन्द्रियवाळा होय छे पण अर्निन्द्रिय होना नयी. संस्थितिकाळ जवन्य एक समय अने उत्कृष्ट कांडक अधिक वसोयी नवसो सागरोपम जाणवो. आहार संबंधे तेमज जाणवुं, यावत्-अवश्य छए दिशानो आहार होय छे. स्थिति जवन्य एक समय अने उत्कृष्ट तेत्रीश सागरोपमनी छे. आदिना छए समुद्वातो होय छे. मारणातिक समुद्वातयी समवहत थइने मरे छे अने समवहत थया सिवाय पण मरे छे. उपातनी पेटे उद्धर्तना पण जाणवी. अने तेनो क्याइ पण निषेध नयी. एम यावत्-अनुत्तरविमान सुधी जाणवुं.

५. [प्र०] हे भगवन् ! वधाय प्राणो यावत्-पूर्वे अर्हा अनंतवार उत्पन्न थया छे ? [उ०] यावत्-पूर्वे अनन्तवार उत्पन्न थया छे. ए प्रमाणे सोळो युग्मोमा यावत्-अनंतवार पूर्वे उत्पन्न थया छे लां सुधी कहेवुं. विशेष ए के, परिमाण वेइन्द्रियोनी पेटे जाणवुं अने वाक्की वधुं तेमज समजवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ४०-१.

६. [प्र०] हे भगवन् ! प्रथम समयना कृतयुग्मकृतयुग्मराशिप्रमाण सज्ञी पंचेन्द्रियो कयांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] तेओनो उपपात, परिमाण अने आहार प्रथम उद्वेगकमा कह्युं छे तेम जाणवो. तथा जेम प्रथम समयना वेइन्द्रियोने कह्युं तेम अवगाहना, बंध, वेद, वेदना, उदयी अने उदीरको संबंधे जाणवुं. तेमज कृष्णलेस्यावाळा अने यावत्-शुक्ललेस्यावाळा संबंधे जाणवुं. वाक्की वधुं प्रथम समयना वेइन्द्रियोनी पेटे समजवुं. यावत्-पूर्वे अनंतवार उत्पन्न थया छे. परन्तु स्त्रीवेदवाळा, पुरुषवेदवाळा अने नपुंसकवेदवाळा होय

४ * कृतयुग्म २ तप सज्ञी पंचेन्द्रियोनो धर्वास्थितिकाळ जवन्य एक समय छे, कारण के समय पछी सख्यानतर धवानो समज छे अने उत्कृष्ट सागरोपमशतपृथक्नय छे, कारणके ए पछी सज्ञी पंचेन्द्रियरूपे भतो नयी.—टीका

પુરિસવેદગા વા નપુંસગવેદગા વા, સન્નિષો અસન્નિષો, સેસં તહેવ । एवं सोलससु वि जुम्मेसु परिमाणं तहेव सखं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । ४०-२ ।

एवं एत्थ वि एक्कारस उद्देशगा तहेव, पढमो तद्दओ पंचमो य सरिसगमा, सेसा अट्ट वि सरिसगमा । चउत्थ-छट्ट-अट्टम-दसमेसु नत्थि विसेसो कायसो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

चत्तलीसतिमे सते पढमं सन्निपंचिदियमहाजुम्मसयं समत्तं ।

છે, સંજ્ઞીઓ અને અસંજ્ઞી-ઇત્યાદિ વાકી વધું તેમજ જાણવું. એ રીતે સોલે યુગ્મોમાં તેમજ સમજવું. તથા તેઓની પરિમાણ વગેરે વધી હકીકત પૂર્વની પેઠે જાણવી. 'હે ભગવન્ ! તે એમજ છે, હે ભગવન્ ! તે એમજ છે'. ૪૦-૨.

ए प्रमाणे अहीं पण अगियार उदेशको तेमज कहेवा. प्रथम, तृतीय अने पंचम उदेशक सरखा पाठवाळा छे, अने वाकीना आठे उदेशको सरखा पाठवाळा छे. तथा चोथा, छट्टा, आठमा अने दशमा उदेशकोमां कोइ पण प्रकारनी विशेषता न करवी. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

चाळीशमा शतकमां प्रथम संज्ञीपंचेन्द्रियमहायुग्मशतक समाप्त.

वित्तीयं सन्निपंचिदियमहाजुम्मसयं ।

૧. [પ્ર૦] કળહલેસ્સકડજુમ્મકડજુમ્મસન્નિપંચિદિયા ણં મંતે ! કઓ ઉવવજ્ઞંતિ ? [૩૦] તહેવ જહા પઢમુદેસઓ સન્નીણં । નવરં વન્ધો વેઓ ઉદયી ઉદીરણા લેસ્સા વન્ધગ-સન્ના કસાય-વેદવંધગા ય ઇયાણિ જહા વેદિયાણં । કળહલેસ્સાણં વેદો તિવિહો, અવેદગા નત્થિ । સંચિટ્ટુણા જહન્નેણં પક્કં સમયં, ઉક્કોસેણં તેત્તીસં સાગરોપમાઈં અંતોમુહુત્તમન્મહિયાઈં । एवं ठितीए वि । नवरं ठितीए अंतोमुहुत्तमन्महियाईं न भन्तंति । सेसं जहा एएसिं चेव पढमे उद्देशए जाव-अणंतखुत्तो । एवं सोलससु वि जुम्मेसु । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

૨. [પ્ર૦] પઢમસમયકળહલેસ્સકડજુમ્મકડજુમ્મસન્નિપંચિદિયા ણં મંતે ! કઓ ઉવવજ્ઞન્તિ ? [૩૦] જહા સન્નિપંચિદિયપઢમસમયકળહલેસ્સ તહેવ નિરવસેસં । નવરં [પ્ર૦] તે ણં મંતે ! જીવા કળહલેસ્સા ? [૩૦] હંતા કળહલેસ્સા, સેસં તં ચેવ । एवं सोलससु वि जुम्मेसु । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । एवं एए वि एक्कारस वि उद्देशगा कणहलेस्ससए । पढम-ततिय-पंचमा सरिसगमा, सेसा अट्ट वि एक्कगमा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

चत्तलीसइमे सए वित्तीयं सन्निमहाजुम्मसयं समत्तं ।

द्वितीय संज्ञीमहायुग्मशतक.

૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! કૃણ્ણલેશ્યાવાલા કૃતયુગ્મકૃતયુગ્મરાશિપ્રમાણ સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિયો ક્યાથી આવી ઉત્પન્ન થાય છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! જેમ સંજ્ઞી સંવંધે પ્રથમ ઉદેશક કહ્યો છે તેમ આ પણ સમજવો. વિશેષ એ કે વંધ, વેદ, ઉદયી, ઉદીરણા, લેશ્યા, વંધક, સન્ના, કપાય અને વેદવંધક-એ વધા જેમ વેદેન્દ્રિયોને કહ્યા છે તેમ અહીં કહેવા. કૃણ્ણલેશ્યાવાલા સજ્ઞીને ત્રણે પ્રકારનો વેદ હોય છે, અવેદક હોતા નથી. તેઓનો પણ સ્થિતિ કાલ જઘન્ય એક સમય અને ઉલ્કટ *અન્તર્મુહૂર્ત અધિક તેત્રીશ સાગરોપમ હોય છે. એ સ્થિતિ સંવંધે પણ સમજવું. વિશેષ એ કે, સ્થિતિમાં અન્તર્મુહૂર્ત અધિક ન કહેવું. વાકી વધું જેમ એઓના પ્રથમ ઉદેશકમા કહ્યું છે તેમ યાવત્-‘પૂર્વે અન્તવાર ઉત્પન્ન થયા છે’ ત્યા સુધી જાણવું. એ સોલે યુગ્મોમા કહેવું. 'હે ભગવન્ ! તે એમજ છે, હે ભગવન્ ! તે એમજ છે'. ૨-૧.

૨. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! પ્રથમ સમયના કૃણ્ણલેશ્યાવાલા કૃતયુગ્મકૃતયુગ્મરાશિપ્રમાણ સજ્ઞી પંચેન્દ્રિયો ક્યાથી આવી ઉત્પન્ન થાય છે ? [૩૦] જેમ પ્રથમ સમયના સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિયોના ઉદેશકમા કહ્યું છે તેમજ વધું જાણવું. વિશેષ એ કે-[પ્ર૦] હે ભગવન્ ! શું તે જીવો કૃણ્ણલેશ્યાવાલા છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! હા, તે જીવો કૃણ્ણલેશ્યાવાલા છે. વાકી વધું તેમજ સમજવું. એ રીતે સોલે યુગ્મોમા કહેવું. 'હે ભગવન્ ! તે એમજ છે, હે ભગવન્ ! તે એમજ છે'.

ए रीते कृण्णलेश्याशतकमा आ अगियारे उदेशको कहेवा. पहलो, त्रीजो अने पांचमो सरखा पाठवाळा छे अने वाकीना आठे एक पाठवाळा छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

चाळीशमा शतकमां द्वितीय संज्ञीमहायुग्मशतक समाप्त.

૧ * અહીં કૃણ્ણલેશ્યાનો અવસ્થિતિકાલ સાતમી નરકપૃથિવીના નારકની ઉલ્કટ સ્થિતિ અને પૂર્વભવના પર્યન્તવર્તા પરિણામને આશ્રયી અન્તર્મુહૂર્ત મઠી અન્તર્મુહૂર્ત અધિક તેત્રીશ સાગરોપમ હોય છે.

કૃણ્ણલેશ્યાવાલા
કૃત ૦ ૨ સ ૦ ૫૦ નો
ઉત્પાદ.

કૃણ્ણલેશ્યાવાલા
કૃતયુગ્મ ૦ સજ્ઞી
પંચેન્દ્રિયોનો
ઉત્પાદ.

तद्वयं सन्निमहाजुम्मसयं ।

एवं नीललेस्सेसु वि सयं । नवरं संचिद्रुणा जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं पलिओवमस्त असंखेज्जद-
भागमन्महियाइं । एवं टितीए । एवं तिसु उद्देसपसु, सेसं तं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

चत्तालीसइमे सए तद्वयं सन्निमहाजुम्मसयं समत्तं ।

तृतीय संज्ञीमहायुग्मशतक.

ए प्रमाणे नीललेइयावाळा संवंधे पण शतक कहेवुं. विशेष ए के, स्थितिकाळ जघन्य एक समय अने उत्कृष्ट पल्योपमना असल्यातमा भाग अधिक ^१दस सागरोपम जाणवो. ए प्रमाणे स्थितिसंवंधे पण समजवुं, तथा ए रीते (पहेळा, त्रीजा अने पांचमा—) ए त्रणे उद्देशकोमां जाणवुं अने वाकी वधुं तेमज जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

चाळीशमा शतकमां तृतीय संज्ञीमहायुग्मशतक समाप्त.

चउत्थं सन्निमहाजुम्मसयं ।

एवं काउलेस्ससयं पि । नवरं संचिद्रुणा जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं तिन्नि सागरोवमाइं पलिओवमस्त असंखेज्जद-
भागमन्महियाइं । एवं टितीए वि, एवं तिसु वि उद्देसपसु, सेसं तं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

चत्तालीसइमे सए चउत्थं सन्निमहाजुम्मसयं समत्तं ।

चतुर्थ संज्ञीमहायुग्मशतक.

ए रीते कापोतलेइया संवंधे पण शतक कहेवुं. पण विशेष ए के, स्थितिकाळ जघन्य एक समय अने उत्कृष्ट ^१पल्योपमना अम-
ख्यातमा भाग अधिक त्रण सागरोपम. ए प्रमाणे स्थिति संवंधे पण समजवुं, तथा एम त्रणे उद्देशकोमां जाणवुं अने वाकी वधुं तेमज जाणवुं.
'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

चाळीशमा शतकमां चतुर्थ संज्ञीमहायुग्मशतक समाप्त.

पंचमं सन्निमहाजुम्मसयं ।

एवं तेउलेस्सेसु वि सयं । नवरं संचिद्रुणा जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाइं पलिओवमस्त असंखेज्जदभा-
गमन्महियाइं । एवं टितीए वि । नवरं नोसन्नोवउत्ता वा । एवं तिसु वि उद्देसपसु, सेसं तं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

चत्तालीसइमे सए पंचमं सन्निमहाजुम्मसयं समत्तं ।

पांचमुं संज्ञीमहायुग्मशतक.

१. एम तेजोलेइया संवंधे पण शतक कहेवुं. विशेष ए के, स्थितिकाळ जघन्य एक समय अने उत्कृष्ट ^१पल्योपमना असल्यातमा
भाग अधिक वे सागरोपम होय छे. ए रीते स्थितिसंवंधे पण समजवुं. विशेष ए के नोसंज्ञाना उपयोगवाळा पण होय छे. एम त्रणे उद्दे-
शकोमां समजवुं. वाकी वधुं तेमज जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

चाळीशमा शतकमां पांचमुं संज्ञीमहायुग्मशतक समाप्त.

छट्ठं सन्निमहाजुम्मसयं ।

१. [प्र०] जहा तेउलेस्सासत्तं तहा पम्हलेस्सासयं पि । नवरं संचिद्रुणा जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं दस सागरो-

छट्ठुं संज्ञीमहायुग्मशतक.

१. जेम तेजोलेइया संवंधे शतक कहुं छे तेम पम्हलेइया संवंधे पण आ शतक समजवुं. विशेष ए के सस्थितिकाळ जघन्य एक
समय अने उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त अधिक दस सागरोपम छे. एम स्थिति संवंधे पण समजवुं. विशेष ए के, अही अधिक अंतर्मुहूर्त न कहेवुं.

१ ^१ पाचमी नरकपृथिवीना उपरना प्रतरमा परयोपमना असल्यातमा भाग अधिक दस सागरोपमसु उत्कृष्ट आयुप छे अने त्या नीललेइया छे. अही पूर्वना अन्तिम अन्तर्मुहूर्तनी गणना न करी तेसु कारण पल्योपमना असल्यातमा भागमा तेनो समावेश करी छे.

२ ^१ त्रीजी नरकपृथिवीना उपरना प्रतरनी स्थिति पल्योपमना असल्यातमा भाग अधिक त्रण सागरोपमनी छे, अने त्या कापोतलेइया छे तेथी उपर कहेली स्थिति घटी शके छे

१ ^१ तेजोलेइयानी उत्कृष्ट स्थिति देशान्तेवलोकना देवोना परमायुपने आश्रयी जाणवी.

१ ^१ पम्हलेइयानी उत्कृष्ट स्थिति ब्रह्मदेवलोकना देवोने आश्रयी पूर्वभवना अन्तिम अन्तर्मुहूर्तसहित दस सागरोपम जाणवी.—टीका

नीललेइयावाळा
कृतयुग्म २ संज्ञीनो
उत्पाद

कापोतलेइयावाळा
कृतयुग्म २ राक्षिरूप
संज्ञी पंचेन्द्रियनो
उत्पाद

तेजोलेइयावाळा स०
५० नो उत्पाद

पम्हलेइयावाळा संज्ञी
५० नो उत्पाद

वमाइं अंतोमुहुत्तमन्महियाइं । एवं डितीए वि । नवरं अंतोमुहुत्तं न भन्नति, सेसं तं चेव । एवं एपसु पंचसु सपसु जहा कण्हलेस्सासए गमओ तथा नेयव्वो, जाव—अणंतखुत्तो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

चत्तालीसतिमे सए छट्ठं सन्निमहाजुम्मसयं समत्तं ।

वाकी वधुं तेमज जाणवुं. एम पांचे शतकोमा जेम कृण्णलेस्याना शतकमां जे पाठ कव्वो छे ते पाठ कहेवो. यावत्—'पूर्वे अनंत वार उत्पन्न थया छे'. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

चाळीशमा शतकमां छट्ठं शतक समाप्त.

सत्तमं सन्निमहाजुम्मसयं ।

१. सुकलेस्ससयं जहा ओहियसयं । नवरं संचिद्धणा डिती य जहा कण्हलेस्ससए, सेसं तहेव जाव—अणंतखुत्तो । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

चत्तालीसइमे सए सत्तमं सन्निमहाजुम्मसयं समत्तं ।

सातमुं संज्ञीमहायुग्म शतक.

१. जेम औषिक शतक कव्वुं छे तेम शुक्कलेस्या सवंधे पण शतक कहेवुं. विशेष ए के, स्थितिकाळ अने स्थिति सवंधे *कृण्ण-लेस्याशतकनी जेम जाणवुं. तथा वाकी वधुं पूर्वनी पेठे जाणवुं. यावत्—'पूर्वे अनंतवार उत्पन्न थया छे'. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

शुक्कलेस्यावाळा
कृत० २ स० ५० नो
उत्पाद.

चाळीशमा शतकमां सातमुं संज्ञीमहायुग्मशतक समाप्त.

अट्ठमं सन्निमहाजुम्मसयं ।

१. [प्र०] भवसिद्धिकडजुम्मकडजुम्मसन्निपंचिदिया णं भंते ! कओ उववज्जन्ति ? [उ०] जहा पढमं सन्निसत्तं तथा णेयव्वं भवसिद्धियाभिलावेणं । नवरं—[प्र०] सव्वपाणा० ? [उ०] णो तिण्णट्ठे समट्ठे । सेसं तहेव, 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

चत्तालीसइमे सए अट्ठमं सन्निमहाजुम्मसयं समत्तं ।

आठमुं संज्ञीमहायुग्म शतक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुग्मकृतयुग्मराशिप्रमाण भवसिद्धिक सज्ञी पंचेन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] जेम पहेल्लं संज्ञीशतक कव्वुं छे ते प्रमाणे भवसिद्धिकना आलापथी कहेवुं. विशेष ए के, वधा जीवो अहीं पूर्वे उत्पन्न थया छे ? ए उपपातना प्रश्नो ए अर्थ समर्थ नथी—ए निपेधात्मक उत्तर आपवो. वाकी वधुं तेमज जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

कृत० २ स० ५०
भवसिद्धिकोनी
उत्पाद

चाळीशमा शतकमां आठमुं संज्ञीमहायुग्मशतक समाप्त.

नवमं सन्निमहाजुम्मसयं ।

१. कण्हलेस्सभवसिद्धीयकडजुम्मकडजुम्मसन्निपंचिदिया णं भंते ! कओ उववज्जन्ति ? [उ०] एवं एणणं अभिलावेणं-जहा ओहियकण्हलेस्ससयं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

चत्तालीसइमे सए नवमं सन्निमहाजुम्मसयं समत्तं ।

नवमुं संज्ञीमहायुग्मशतक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुग्मकृतयुग्मराशिप्रमाण कृण्णलेस्यावाळा भवसिद्धिक संज्ञी पंचेन्द्रियो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] ए रीते ए अभिलापथी जेम कृण्णलेस्यावाळा सवंधे औषिकशतक कव्वुं छे तेम अहीं पण जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

कृण्ण० भव० स०
५० नो उत्पाद.

चाळीशमा शतकमां नवमुं संज्ञीमहायुग्मशतक समाप्त.

दशमं सन्निमहाजुम्मसयं ।

एवं नीललेस्सभवसिद्धीए वि सयं । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' त्ति ।

चत्तालीसइमे सए दसमं सन्निमहाजुम्मसयं समत्तं ।

दशमुं संज्ञीमहायुग्मशतक.

१. ए रीते नीललेस्यावाळा भवसिद्धिको सवंधे पण शतक कहेवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

चाळीशमा शतकमां दशमुं संज्ञीमहायुग्मशतक समाप्त.

नील्लेस्यावाळा
कृत० २ भवसिद्धिक
स० ५० नो उत्पाद.

૧૧-૧૪ સન્નિમહાજુમ્મસયં ।

एवं जहा ओहियाणि सन्निपंचिदियाणं सत्त सयाणि भणियाणि, एवं भवसिद्धीएहि वि सत्त सयाणि कायद्याणि । नवरं सत्तसु वि सपसु सद्यपाणा जाव-णो तिणट्टे समट्टे, सेसं तं चैव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । भवसिद्धियसया समत्ता । चत्तालीसइमे सए चोदसमं सन्निमहाजुम્मसयं समत्तं ।

૧૧-૧૪ સંજ્ઞીમહાયુગ્મશતકો.

૧. જેમ સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિયો સર્વથે સાત ઔષ્ધિક શતકો કહ્યાં છે એ રીતે ભવસિદ્ધિકો સર્વથે પણ સાત શતકો કરવાં. વિશેષ એ કે સાતે શતકોમાં સર્વ પ્રાણો પૂર્વે અહીં ઉત્પન્ન થયા છે—તે પ્રશ્નના ઉત્તરમાં યાવત્—'એ અર્થ સમર્થ નથી'—એમ કહેવું. વાકી વધું તેમજ જાણવું, 'હે ભગવન્ ! તે એમજ છે, હે ભગવન્ ! તે એમજ છે'.

વાલીશમા શતકમાં ૧૧-૧૪ સંજ્ઞીમહાયુગ્મશતકો સમાપ્ત.

પન્નરસમં સન્નિમહાજુમ્મસયં ।

૧. [પ્ર૦] અમવસિદ્ધિકકડજુમ્મકડજુમ્મસન્નિપંચિદિયા ણં ભંતે ! કઓ ઉવવજ્જન્તિ ? [ઉ૦] ઉવવાઓ તહેવ અણુ-ત્તરવિમાણવજ્જો । પરિમાણં, અચહારો, ઉચ્ચત્તં, વંધો, વેદો, વેદણં, ઉદયો, ઉદીરણા ય જહા કણ્હલેસ્સસપ । કણ્હલેસ્સા વા જાવ-સુક્કલેસ્સા વા । નો સમ્મવિટ્ટી, મિચ્છાવિટ્ટી, નો સમ્મામિચ્છાવિટ્ટી । નો નાણી, અઘાણી—એવં જહા કણ્હલેસ્સ-સપ । નવરં નો વિરયા, અવિરયા, નો વિરયાવિરયા । સંચિટ્ટણા ઠિની ય જહા ઓહિઉદ્દેસપ । સમુગ્વાયા આદિલ્લાગા પંચ । ઉદ્દટ્ટણા તહેવ અણુત્તરવિમાણવજ્જં । સદ્ધપાણાં ણો જાવ-તિણટ્ટે સમટ્ટે, સેસં જહા કણ્હલેસ્સસપ, જાવ-અણંતરવુત્તો । એવં સોલસસુ વિ જુમ્મેસુ । 'સેવં ભંતે ! સેવં ભંતે' ! ત્તિ ।

૨. [પ્ર૦] પદમસમયઅમવસિદ્ધિકકડજુમ્મકડજુમ્મસન્નિપંચિદિયા ણં ભંતે ! કઓ ઉવવજ્જન્તિ ? [ઉ૦] જહા સન્નીણં પદમસમયઉદ્દેસપ તહેવ । નવરં સમ્મત્તં, સમ્મામિચ્છત્તં, નાણં ચ સદ્ધત્થ નત્તિય, સેસં તહેવ । 'સેવં ભંતે ! સેવં ભંતે' ! ત્તિ । એવં પત્થ વિ પક્કારસ ઉદ્દેસગા કાયદ્વા પદમ—તદ્દય—પંચમા પક્કગમા, સેસા અટ્ટ વિ પક્કગમા । 'સેવં ભંતે ! સેવં ભંતે' ! ત્તિ । અમવસિદ્ધિયમહાજુમ્મસયં સમત્તં ।

ચત્તાલીસइमे સए पन्नरसमं सन्निपंचिदियमहाजुम્मसयं समत्तं ।

પંદરમું સંજ્ઞીમહાયુગ્મ શતક.

૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! કૃતયુગ્મકૃતયુગ્મરાશિપ્રમાણ અમવસિદ્ધિક સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિયો ક્યાંથી આવી ઉત્પન્ન થાય છે ? [ઉ૦] અનુત્તર વિમાન સિવાય વધેથી તેમજ ઉપપાત જાણવો. પરિમાણ, અપહાર, ઉંચાઈ, વંચ, વેદ, વેદન, ઉદય અને ઉદીરણા—એ વધું કૃષ્ણલેશ્યાશતકની પેટે જાણવું. તેઓ કૃષ્ણલેશ્યાવાહ્યા અને યાવત્—શુક્લેશ્યાવાહ્યા હોય છે, તેઓ સમ્યદ્દષ્ટિ નથી અને સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિ નથી, પણ મિથ્યાદષ્ટિ છે. જ્ઞાની નથી અજ્ઞાની છે, એ રીતે જેમ કૃષ્ણલેશ્યાશતકમાં કહ્યું છે તેમ સમજવું. વિશેષ એ કે, તેઓ વિરતિવાહ્યા નથી, તેમ વિરતાવિરત નથી. પણ વિરતિરહિત છે. તેઓનો સ્થિતિકાલ અને સ્થિતિસંવંધે જેમ ઔષ્ધિક ઉદ્દેશકમાં કહ્યું છે તેમ સમજવું. તેઓને આદિના પાચ સમુદ્વાતો હોય છે. ઉદ્દર્તના અનુત્તર વિમાનને વર્જાને પૂર્વની પેટે જાણવી. "સર્વ પ્રાણીઓ પૂર્વે અહીં ઉત્પન્ન થયા છે"—એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં 'એ અર્થ સમર્થ નથી' તેમ કહેવું. વાકી વધું કૃષ્ણલેશ્યાના ગતકને ત્રિપે કહ્યું છે તેમ યાવત્—'પૂર્વે અનંતવાર ઉત્પન્ન થયા છે'—સ્વાસુઘી કહેવું. એ રીતે સોલે યુગ્મોમા જાણવું. 'હે ભગવન્ ! તે એમજ છે, હે ભગવન્ ! તે એમજ છે'.

૨. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! પ્રથમ સમયના કૃતયુગ્મકૃતયુગ્મરાશિપ્રમાણ અમવસિદ્ધિક સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિયો ક્યાંથી આવી ઉત્પન્ન થાય છે ? [ઉ૦] હે ગૌતમ ! જેમ પ્રથમ સમયના સંજ્ઞીના ઉદ્દેશકમાં કહ્યું છે તેમજ સમજવું. વિશેષ એ કે, સમ્યક્ત્વ, સમ્યગ્મિથ્યાત્વ અને જ્ઞાન વધે નથી. વાકી વધું તેમજ જાણવું. એમ અહીં પણ અગિયાર ઉદ્દેશકો કહેવા. પહેલો, ત્રીજો અને પાચમો ઉદ્દેશક સરખા પાઠવાહ્યા છે. અને વાકીના આઠે ઉદ્દેશકો સરખા પાઠવાહ્યા છે. 'હે ભગવન્ ! તે એમજ છે, હે ભગવન્ ! તે એમજ છે'. પ્રથમ અમવસિદ્ધિકમહાયુગ્મશતક સમાપ્ત.

વાલીશમા શતકમાં પન્નરમું સંજ્ઞીમહાયુગ્મશતક સમાપ્ત.

सोलसमं सन्निमहाजुम्मसयं ।

१. [प्र०] कण्हेस्सअभवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मसन्निपंचिदिया णं भंते ! कओ उववज्जन्ति ? [उ०] जहा एपसिं चेव ओहियसयं तहा कण्हेस्ससयं पि । नवरं [प्र०] ते णं भंते ! जीवा कण्हेस्सा ? [उ०] हंता कण्हेस्सा । डिती, संचिट्टणा य जहा कण्हेस्सासए सेसं तं चेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । वितियं अभवसिद्धियमहाजुम्मसयं ।

चत्तालीसतिमे सते सोलसमं सन्निमहाजुम्मसयं समत्तं ।

सोळमुं संज्ञीमहायुग्मशतक,

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुग्मकृतयुग्मराशिप्रमाण कृष्णलेस्यावाळा अभवसिद्धिक संज्ञी पंचेन्द्रियो क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम एओनुं औधिक शतक कहुं छे तेम कृष्णलेस्याशतक पण कहेवुं. विशेष ए के—[प्र०] हे भगवन् ! शुं ते जीवो कृष्णलेस्यावाळा छे ? [उ०] हा, कृष्णलेस्यावाळा छे. तेओनो स्थितिकाळ अने स्थिति संबंधे जेम कृष्णलेस्याशतकमां कहुं छे तेम कहेवुं, अने वाकी वधुं तेमज जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. द्वितीय अभवसिद्धिकमहायुग्मशतक समाप्त.

कृत०२ कृष्णलेस्या-
वाळा अभवसिद्धिक
स० प० नो उत्पाद-

चाळीशमा शतकमां सोळमुं संज्ञीमहायुग्मशतक समाप्त.

सत्तरसमं सयं ।

१ एवं छहि वि लेस्साहिं छ सया कायद्या जहा कण्हेस्ससयं । नवरं संचिट्टणा डिती य जहेव ओहियसए तहेव माणियद्या । नवरं सुकलेस्साए उक्कोसेणं एक्कीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तमन्भहियाइं । डिती एवं चेव । नवरं अंतोमुहुत्तं नत्थि जहन्नगं, तहेव सवत्थ सम्मत्त-नाणाणि नत्थि । विरईं विरयाविरईं अणुत्तरविमाणोववत्ति-एयाणि नत्थि । सवपाणा० (जाव-) णो तिणट्टे समट्टे । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । एवं एयाणि सत्त अभवसिद्धियमहाजुम्मसया भवन्ति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । एवं एयाणि एक्कीसं सन्निमहाजुम्मसयाणि । सवपाणि वि एकासीतिमहाजुम्मसयाइं समत्ताइं ।

चत्तालीसतिमं सन्निमहाजुम्मसयं समत्तं ।

१७-२१ संज्ञीमहायुग्म शतको.

१. ए प्रमाणे जेम कृष्णलेस्या संबंधे शतक कहुं छे तेम छए लेस्या संबंधे छ शतको कहेवां. विशेष ए के, औधिक शतकमा जणाव्या प्रमाणे स्थितिकाळ अने स्थिति जाणवी. तेमां विशेष ए के, शुक्कलेस्यानो उत्कृष्ट स्थितिकाळ अन्तर्मुहूर्त अधिक *एकत्रीश सागरोपम होय छे अने स्थिति पूर्वोक्तज जाणवी. पण जघन्य अंतर्मुहूर्त अधिक न कहेवुं. वधे ठेकाणे सम्यग्ज्ञान नथी, विरति, विरताविरति अने अनुत्तर विमानथी आवीने उपजवुं ते पण नथी. वधा जीवो पूर्वें अही उत्पन्न थया छे ? ए प्रश्नना उत्तरमां 'ए अर्थ समर्थ नथी' एम कहेवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ए रीते ए सात अभवसिद्धिकमहायुग्मशतको थाय छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. एम एकवीश संज्ञीपंचेन्द्रियमहायुग्म शतको कहा. वधाय मळीने एकाशी महायुग्मशतको समाप्त ययां.

चाळीशमुं शतक समाप्त.



एगचत्तालीसतिमं सयं पढमो उद्देशो ।

१. [प्र०] कइ णं भंते ! रासीजुम्मा पन्नत्ता ? [उ०] गोयमा ! चत्तारि रासीजुम्मा पन्नत्ता, तंजहा-कडजुम्मे, जाव-कलियोगे । [प्र०] से केणट्टेणं भंते ! एवं बुद्धइ-‘चत्तारि रासीजुम्मा पन्नत्ता, तंजहा-जाव-कलियोगे’ ? [उ०] गोयमा ! जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे चउपज्जवसिए सेत्तं रासीजुम्मकडजुम्मे । एवं जाव-जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं एगपज्जवसिए सेत्तं रासीजुम्मकलियोगे, से तेणट्टेणं जाव-कलियोगे ।

२. [प्र०] रासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं भंते ! कओ उववज्जन्ति ? [उ०] उववाओ जहा चरंतीप ।

३. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जन्ति ? [उ०] गोयमा ! चत्तारि वा अट्ट वा चारस वा सोलस वा संखेजा वा असंखेजा वा उववज्जंति ।

४. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा किं संतरं उववज्जन्ति, निरंतरं उववज्जन्ति ? [उ०] गोयमा ! संतरं पि उववज्जन्ति, निरंतरं पि उववज्जंति । संतरं उववज्जमाणा जहद्वेणं एणं समयं, उक्कोसेणं असंखेजा समया अंतरं कट्टु उववज्जन्ति । निरंतरं उववज्जमाणा जहद्वेणं दो समया, उक्कोसेणं असंखेजा समया अणुसमयं अविरहियं निरंतरं उववज्जन्ति ।

५. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा जं समयं कडजुम्मा तं समयं तेयोगा, जं समयं तेयोगा तं समयं कडजुम्मा ? [उ०] णो तिणट्टे समट्टे ।

एकतालीशसुं शतक

प्रथम उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! केट्ठं राशियुग्मो कहा छे ? [उ०] हे गौतम ! चार राशियुग्मो कथां छे, ते आ प्रमाणे-यावत्-१ इत्युग्मं अने यावत्-४ कल्योज. [प्र०] हे भगवन् ! शा हेतुथी इत्युग्मं अने यावत्-कल्योज-९ चार राशियुग्मो कहेया छे ? [उ०] हे गौतम ! जे राशिमांथी चार चार संख्याना अपहार करतां छेवटे चार वाकी रहे ते राशियुग्मं इत्युग्मं कहेवाय छे, अने यावत्-जे राशिमांथी चार चार संख्याना अपहार करतां छेवटे एक वाकी रहे ते राशियुग्मं कल्योज कहेवाय छे. हे गौतम ! ते कारणथी यावत्-कल्योज कहेवाय छे.

२. [प्र०] हे भगवन् ! इत्युग्मराशिप्रमाणं नैरधिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम “व्युत्क्रान्तिपदम्” उपपात कल्लो छे तेम अहीं पण कहेवो.

३. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो एक समये केट्ठल उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! चार, आठ, बार, सोळ, संख्याता के असंख्याता उत्पन्न थाय छे.

४. [प्र०] हे भगवन् ! शुं ते जीवो सांतर-अन्तररहित उत्पन्न थाय छे के निरंतर-अन्तररहित उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ सांतर उत्पन्न थाय छे अने निरंतर पण उत्पन्न थाय छे. सांतर उत्पन्न थता तेओ जवन्थ एक समय अने उत्कृष्ट असंख्य समयसुं अंतर करीने उत्पन्न थाय छे, अने निरंतर उत्पन्न थता जवन्थ वे समय सुवी अने उत्कृष्ट नंख्याता समय सुधी निरंतर-प्रतिसमय अविरहितपणे उत्पन्न थाय छे.

५. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो जे समये इत्युग्मराशिरूप होय ते समये त्र्योजराशिरूप होय अने जे समये त्र्योजराशिरूप होय ते समये इत्युग्मराशिरूप होय ? [उ०] हे गौतम ! ते अर्थ समर्थ-यथार्थ नथी.

राशिजुम्मा प्रकाश.

चार राशिजुम्मा
उद्देशो वाच्य.

इत्युग्मरूपं नैर
अधिको वाच्य.

सांतर के निरंतर
उत्पन्न.

इत्युग्मं अने त्र्योज
राशिरूपे उत्पन्न
उत्पन्न छे

६. [प्र०] जं समयं कडजुम्मा तं समयं दावरजुम्मा, जं समयं दावरजुम्मा तं समयं कडजुम्मा ? [उ०] नो तिण्हे समट्टे ।
 ७. [प्र०] जं समयं कडजुम्मा तं समयं कलियोगा, जं समयं कलियोगा तं समयं कडजुम्मा ? [उ०] णो तिण्हे समट्टे ।
 ८. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा कहिं उववज्जन्ति ? [उ०] गोयमा ! से जहा नामप पवप पवमाणे—एवं जहा उवचा-
 यसप जाव—‘नो परप्पयोगेणं उववज्जन्ति’ ।

९. [प्र०] तै णं भंते ! जीवा किं आयजसेणं उववज्जन्ति, आयजसेणं उववज्जन्ति ? [उ०] गोयमा ! नो आयजसेणं उववज्जन्ति, आयजसेणं उववज्जन्ति ।

१०. [प्र०] जइ आयजसेणं उववज्जन्ति किं आयजसं उवजीवंति, आयजसं उवजीवंति ? [उ०] गोयमा ! नो आयजसं उवजीवंति, आयजसं उवजीवंति ।

११. [प्र०] जइ आयजसं उवजीवंति किं सलेस्सा अलेस्सा ? [उ०] गोयमा ! सलेस्सा, नो अलेस्सा ।

१२. [प्र०] जइ सलेस्सा किं सकिरिया अकिरिया ? [उ०] गोयमा ! सकिरिया नो अकिरिया ।

१३. [प्र०] जइ सकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्जंति, जाव—अंतं करेति ? [उ०] णो तिण्हे समट्टे ।

१४. [प्र०] रासीजुम्मकडजुम्मअसुरकुमारा णं भंते ! कओ उववज्जन्ति ? [उ०] जहेव नेरतिया तहेव निरवसेसं । एवं जाव—पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिया । नवरं घणस्सइकायिया जाव—असंखेज्जा वा अणंता वा उववज्जन्ति, सेसं एवं चेव । मणुस्सा वि एवं चेव, जाव—‘नो आयजसेणं उववज्जन्ति, आयजसेणं उववज्जन्ति’ ।

१५. [प्र०] जइ आयजसेणं उववज्जन्ति, किं आयजसं उवजीवंति आयजसं उवजीवंति ? [उ०] गोयमा ! आय-
 जसं पि उवजीवंति, आयजसं पि उवजीवंति ।

६. [प्र०] जे समये कृतयुग्मरूप होय ते समये द्वापरयुग्मरूप होय अने जे समये द्वापरयुग्म होय ते समये कृतयुग्मरूप होय ? [उ०] ए अर्थ समर्थ नथी।

कृतयुग्म अने द्वापर
युग्मनो संबंध होय ?

७. [प्र०] जे समये कृतयुग्मराशिरूप होय ते समये कल्योजराशिरूप होय अने जे समये कल्योजरूप होय ते समये कृतयुग्म-
 राशिरूप होय ? [उ०] ए अर्थ समर्थ नथी।

कृतयुग्म अने कल्यो-
ज राशिनो संबंध
होय ?

८. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो केवी रीते उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम कोई एक प्लवक (कूदनार) होय अने ते
 जेम कूदतो कूदतो पोताने स्थानके जाय छे—इत्यादि जेम *उपपातशतकमां कहुं छे तेम वधुं अहीं समजहुं. यावत्—पोतानी मेळे उत्पन्न
 थाय छे, पण परप्रयोगथी उत्पन्न यता नथी।

जीवनो उपपात
केवी रीते थाय ?

९. [प्र०] हे भगवन् ! शुं ते जीवो आत्माना यशथी—संयमथी उत्पन्न थाय छे के आत्माना अयशथी—असंयमथी उत्पन्न थाय छे ?
 [उ०] हे गौतम ! तेओ आत्माना यशथी उत्पन्न यता नथी, पण आत्माना अयशथी उत्पन्न थाय छे।

उपपातनो हेतु
आत्मानो असंयम.

१०. [प्र०] जो तेओ आत्माना असंयमथी उत्पन्न थाय तो शुं आत्मसंयमनो आश्रय करे छे के आत्माना असंयमनो आश्रय करे
 छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ आत्मसंयमनो आश्रय करता नथी पण आत्माना असंयमनो आश्रय करे छे।

आत्मसंयम के आ-
त्मसंयमनो आ-
श्रय करे छे ?

११. [प्र०] जो तेओ आत्माना असंयमनो आश्रय करे छे तो शुं तेओ लेइयावाळा छे के लेइयारहित छे ? [उ०] हे गौतम !
 तेओ लेइयावाळा छे, पण लेइयारहित नथी।

लेइय के अलेइय ?

१२. [प्र०] हे भगवन् ! जो तेओ लेइयावाळा छे तो शुं तेओ क्रियावाळा छे के क्रियारहित छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ
 क्रियावाळा छे, पण क्रियारहित नथी।

मलेइय सन्धिय होय
के अक्रिय ?

१३. [प्र०] हे भगवन् ! जो तेओ क्रियावाळा छे तो शुं तेओ तेज भवमां सिद्ध थाय छे, यावत्—कर्मनो अत करे छे ? [उ०] हे
 गौतम ! ते अर्थ समर्थ नथी।

१४. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुग्मराशि प्रमाण असुरकुमारो क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम नैरयिको संबंधे
 कहुं तेम असुरकुमारो संबंधे पण वधुं जाणहुं. ए रीते यावत्—पंचिन्द्रिय तिर्यचयोनिको सुधी समजहुं. पण विशेष ए के, वनस्पतिकायिको
 असंख्यता के अनंता उत्पन्न थाय छे. वाकी वधुं तेमज समजहुं. ए रीते मनुष्यो संबंधे पण समजहुं. यावत्—आत्माना नंयमथी उत्पन्न
 यता नथी पण आत्माना असंयमथी उत्पन्न थाय छे।

कृतयुग्मराशिरूप
असुरकुमारो
उत्पत्ति.

१५. [प्र०] हे भगवन् ! जो तेओ आत्माना असंयमथी उत्पन्न थाय छे तो शुं तेओ आत्मनंयमनो आश्रय करे छे के आत्माना
 असंयमनो आश्रय करे छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ आत्मसंयमनो पण आश्रय करे छे अने आत्माना असंयमनो पण आश्रय करे छे।

मनुष्यनो वनस्पत
कारण आत्मानो
असंयम.

१६. [प्र०] जइ आयजसं उचजीवंति किं सलेस्सा अलेस्सा ? [उ०] गोयमा ! सलेस्सा वि अलेस्सा वि ।
 १७. [प्र०] जइ अलेस्सा किं सकिरिया अकिरिया ? [उ०] गोयमा ! नो सकिरिया, अकिरिया ।
 १८. [प्र०] जइ अकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झंति, जाव—अंतं करेति ? [उ०] हंता सिज्झंति, जाव—अंतं करेन्ति ।
 १९. [प्र०] जइ सलेस्सा किं सकिरिया, अकिरिया ? [उ०] गोयमा ! सकिरिया, नो अकिरिया ।
 २०. [प्र०] जइ सकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झंति, जाव—अंतं करेन्ति ? [उ०] गोयमा ! अत्येगइया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झंति, जाव—अंतं करेन्ति, अत्येगइया नो तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झंति, जाव—अंतं करेन्ति ।
 २१. [प्र०] जइ आयजसं उचजीवंति किं सलेस्सा अलेस्सा ? [उ०] गोयमा ! सलेस्सा नो अलेस्सा ।
 २२. [प्र०] जइ सलेस्सा किं सकिरिया, अकिरिया ? [उ०] गोयमा ! सकिरिया, नो अकिरिया ।
 २३. [प्र०] जइ सकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झंति, जाव—अंतं करेति ? [उ०] नो ण्णट्टे समट्टे । चाणमंतर—जोइसिय—वेमाणिया जहा नेरइया । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति ।

इक्कचत्तालीसइमे रासीजुम्मसए पढमो उद्देशओ समत्तो ।

१६. [प्र०] हे भगवन् ! जो तेओ आत्मसंयमनो आश्रय करे छे तो शुं तेओ लेइयासहित छे के लेइयारहित छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ लेइयासहित छे अने लेइयारहित पण छे ।
 १७. [प्र०] हे भगवन् ! जो तेओ लेइयारहित छे तो शुं तेओ क्रियावाळा छे के क्रियारहित छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ क्रियासहित नथी, पण क्रियारहित छे ।
 १८. [प्र०] हे भगवन् ! जो तेओ क्रियारहित छे तो शुं तेओ तेज भवमा सिद्ध थाय छे, यावत्—सर्व दुःखनो अंत करे छे ? [उ०] हे गौतम ! हा, तेओ सिद्ध थाय छे यावत्—सर्व दुःखनो अंत करे छे ।
 १९. [प्र०] हे भगवन् ! जो तेओ लेइयावाळा छे तो शुं तेओ सक्रिय छे के अक्रिय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ सक्रिय छे पण अक्रिय नथी ।
 २०. [प्र०] हे भगवन् ! जो तेओ सक्रिय छे तो शुं तेज भवमा सिद्ध थाय छे, यावत्—सर्व दुःखनो अंत करे छे ? [उ०] हे गौतम ! केटलाक तेज भवमा सिद्ध थाय छे, यावत्—सर्व दुःखनो अंत करे छे अने केटलाक ते भवमा सिद्ध थता नथी अने यावत्—सर्व दुःखनो अंत करता नथी ।
 २१. [प्र०] जो तेओ आत्माना असंयमनो आश्रय करे छे तो शुं तेओ लेइयासहित छे के लेइयारहित छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ लेइयासहित छे, पण लेइयारहित नथी ।
 २२. [प्र०] जो तेओ लेइयासहित छे तो शुं तेओ सक्रिय छे के अक्रिय छे ? [उ०] हे गौतम ! तेओ सक्रिय छे, पण अक्रिय नथी ।
 २३. [प्र०] जो तेओ सक्रिय छे तो शुं तेज भवमा सिद्ध थाय छे, यावत्—सर्व दुःखनो अंत करे छे ? [उ०] हे गौतम ! ते अर्थ समर्थ नथी. वानव्यंतरो, ज्योतिषिको अने वैमानिको—ए वधा नैरयिकोनी पेटे जाणवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे' ।

एकताळीशमा राशियुग्मशतकमां प्रथम उद्देशक समाप्त.

वीओ उद्देशो ।

१. [प्र०] रासीजुम्मतेओयनेरइया णं भंते ! कओ उचवज्जंति ? [उ०] एवं चव उद्देशओ भाणियव्वो । नवरं परिमाणं त्तिन्नि वा सत्त वा एक्कारस वा पन्नरस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा उचवज्जंति । संतरं तहेव ।

द्वितीय उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! राशियुग्ममा त्र्योजराशिप्रमाण नैरयिको क्यायी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! पूर्वनी पेटे आ संवंधे उद्देशक कहेवो. विशेष ए के परिमाण—त्रण, सात, अर्गियार, पंदर, संख्याता के असंख्याता उत्पन्न थाय छे. सांतरं संवंधे तेमज जाणवुं.

२. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा जं समयं तेयोगा तं समयं कडजुम्मा, जं समयं कडजुम्मा तं समयं तेयोगा ? [उ०] णो इण्ठे समट्ठे ।

३. [प्र०] जं समयं तेयोया तं समयं दावरजुम्मा, जं समयं दावरजुम्मा तं समयं तेयोया ? [उ०] णो इण्ठे समट्ठे । एवं कलियोगेण वि समं, सेसं तं चेव जाव-वेमाणिया । नवरं उववाओ सधेसिं जहा वकंतीप । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति १४१-२।

वीओ उद्देशो समत्तो ।

२. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो जे समये त्र्योजराशिप्रमाण छे ते समये कृतयुग्मप्रमाण छे के जे समये कृतयुग्म छे ते समये त्र्योजप्रमाण छे ? [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नथी.

३. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो जे समये त्र्योजराशिप्रमाण छे ते समये द्वापरयुग्मप्रमाण छे अने जे समये द्वापरयुग्मराशि-प्रमाण छे ते समये त्र्योजराशिप्रमाण छे ? [उ०] हे गौतम ! ते अर्थ समर्थ नथी. ए रीते कल्योज राशिनी साथे पण समजहुं. अने वाकी वधुं वैमानिको सुधी तेमज जाणहुं. परन्तु वधाओनो उपपात *व्युत्क्रातिपदमा कह्या प्रमाणे जाणवो. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

कृतयुग्म अने त्र्योज
राशिनी परस्पर
संबन्ध

त्र्योज अने द्वापर-
युग्मनो परस्पर
संबन्ध.

एकतालीशमा शतकमां द्वितीय उद्देशक समाप्त.

तईओ उद्देशो ।

१. [प्र०] रासीजुम्मदावरजुम्मनेरइया णं भंते ! कओ उववज्जन्ति ? [उ०] एवं चेव उद्देशओ । नवरं परिमाणं दो वा छ वा दस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा उववज्जन्ति; संवेहो ।

२. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा जं समयं दावरजुम्मा तं समयं कडजुम्मा, जं समयं कडजुम्मा तं समयं दावरजुम्मा ? [उ०] णो इण्ठे समट्ठे । एवं तेयोएण वि समं, एवं कलियोगेण वि समं । सेसं जहा पढसुद्देसए जाव-वेमाणिया । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति १४१-३।

तईओ उद्देशो समत्तो ।

तृतीय उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! राशियुग्ममां द्वापरयुग्मराशिप्रमाण नैरधिको क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! पूर्वनी पेटे उद्देशक कहेवो. पण परिमाण—वे, छ, दस, संख्याता के असंख्याता उत्पन्न थाय छे. अने संवेध पण कहेवो.

२. [प्र०] हे भगवन् ! ते जीवो जे समये द्वापरयुग्म छे ते समये कृतयुग्म छे, के जे समये कृतयुग्म छे ते समये द्वापरयुग्म छे ? [उ०] हे गौतम ! ए अर्थ समर्थ नथी. ए रीते त्र्योजराशि अने कल्योजराशि साथे पण समजहुं. वाकी वधुं प्रथमोद्देशकनी पेटे यावत्-वैमानिको सुधी समजहुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

द्वापरयुग्मराशि
प्रमाण नैरधिको
उत्पाद

द्वापरयुग्म अने कृत-
युग्मनो परस्पर
संबन्ध

चतुर्थ उद्देशक समाप्त.

चउत्थो उद्देशो ।

१. [प्र०] रासीजुम्मकलियोगनेरइया णं भंते ! कओ उववज्जन्ति ? [उ०] एवं चेव । नवरं परिमाणं—एकओ वा पंच वा नव वा तेरस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा उववज्जन्ति, संवेहो ।

२. [प्र०] ते णं भंते ! जीवा जं समयं कलियोगा तं समयं कडजुम्मा, जं समयं कडजुम्मा तं समयं कलियोगा ?

चतुर्थ उद्देशक.

१. [प्र०] हे भगवन् ! राशियुग्ममां कल्योजप्रमाण. नैरधिको क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] पूर्व प्रमाणे जाणहुं. परन्तु परिमाण—एक, पंच, नव, तेर, सख्याता के असंख्याता उत्पन्न थाय छे. संवेध पूर्वनी पेटे जाणवो.

कल्योज प्रमाण
नैरधिको उन्पाद.

कल्योज अने त्र्योज-
युग्मनो परस्पर
संबन्ध.

[૩૦] નો ઇણ્ટ્રે સમટ્ટે । एवं तेयोएण वि समं, एवं दावरज्जुम्मेण वि समं । सेसं जहा पढमुद्देसए जाव-वेमाणिया । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । १४१-४।

चउत्थो उद्देसो समत्तो ।

પ્રમાણ છે તે સમયે કલ્યોનરાશિપ્રમાણ છે ? [૩૦] હે ગૌતમ ! એ અર્થ સમર્થ નથી. એ રીતે ટ્રોજ અને દ્વાપરયુગ્મ સાથે પણ કહેવું. નાકી વધું પ્રયમોદેશકની પેટે યાવત્-વૈમાનિકો સુધી જાણવું. 'હે ભગવન્ ! તે એમજ છે, હે ભગવન્ ! તે એમજ છે'.

चतुर्थ उद्देशक समाप्त.

पंचमो उद्देशो ।

૧. [પ્ર૦] कणहलेस्सरसील्लुम्मकडल्लुम्मनेरइया णं भंते ! कथो उववज्जन्ति ? [૩૦] उववाभो जहा धूमप्पभाए, सेसं जहा पढमुद्देसए । असुरकुमारणं तहेव, एवं जाव-वाणमंतराणं । मणुस्साण वि जहेव नेरइयाणं 'आयअजसं उवजीवंति । अलेस्सा, अकिरिया, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झंति एवं न माणियधं । सेसं जहा पढमुद्देसए । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । १४१-५।

पंचमो उद्देसो समत्तो ।

पंचम उद्देशक.

૧. [પ્ર૦] હે ભગવન્ ! રાશિયુગ્મમાં કૃતયુગ્મપ્રમાણ કૃષ્ણલેશ્યાવાલ્યા નૈરયિકો ક્યાંથી આવી ઉત્પન્ન થાય છે ? [૩૦] ધૂમપ્રમાની પેટે ઉપપાત જાણવો. વાકી વધું જેમ પ્રયમોદેશકમા કહ્યું છે તેમ કહેવું. અસુરકુમારો સંવંધે પણ તેમજ જાણવું. એ રીતે યાવત્-વાનવ્યંતરો સુધી સમજવું. જેમ નૈરયિકોને કહ્યું તેમ મનુષ્યો સંવંધે પણ સમજવું. તેઓ આત્માના અસંયમનો આશ્રય કરે છે. 'તે લેસ્યારહિત છે, ક્રિયારહિત છે અને તેજ મન્નમાં સિદ્ધ થાય છે' ઇટલું ન કહેવું. વાકી વધું પ્રયમોદેશકની પેટે સમજવું. 'હે ભગવન્ ! તે એમજ છે, હે ભગવન્ ! તે એમજ છે'.

पंचम उद्देशक समाप्त.

छट्टो उद्देशो ।

૧. कणहलेस्सतेयोएहि वि एवं चेव उद्देसओ । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । १४१-६।

छट्टो उद्देसो समत्तो ।

छट्टो उद्देशक.

૧. कृष्णलेश्यावाल्या राशियुग्ममां त्रोजयुग्मप्रमाण (नैरयिको) संवंधे पण पूर्व प्रमाणे उद्देशक कहेवो. 'हे भगवन् ! ते एमज છે, હે ભગવન્ ! તે એમજ છે'. ૪૧-૬.

षष्ठ उद्देशक समाप्त.

सत्तमो उद्देशो ।

૧. कणहलेस्सदावरज्जुम्मेहि एवं चेव उद्देसओ । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । १४१-७।

सत्तमो उद्देसो समत्तो ।

सातमो उद्देशक.

૧. द्वापरयुग्मप्रमाण कृष्णलेश्यावाल्या (नैरयिको) संवंधे पण એમજ ઉદ્દેશક કહેવો. 'હે ભગવન્ ! તે એમજ છે, હે ભગવન્ ! તે એમજ છે'.

सातमो उद्देशक समाप्त.

કૃષ્ણલેશ્યાવાલ્યા
કૃતયુગ્મ પ્રમાણ નૈર-
યિકોનો ઉત્પાદ

ત્રોજયુગ્મ પ્રમાણ
કૃષ્ણલેશ્યાવાલ્યા નૈર-
યિકોનો ઉત્પાદ.

अट्टमो उद्देशो ।

१. कण्डहलेस्सकलिओपहि वि एवं चेव उद्देशओ । परिमाणं संवेहो य जहा ओहिपसु उद्देशपसु । 'सेवं मंते ! सेवं मंते' ! ति । ४१-८।

अट्टमो उद्देशो समतो ।

आठमो उद्देशक.

१. कल्पोजराशिप्रमाण कृष्णलेस्यावाळा (नैरयिको) संबंधे पण एज रीते उद्देशक कहेवो. परिमाण अने संवेध औघिक उद्देशकर्मा कक्षा प्रमाणे जाणवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

कृष्णलेस्यावाळा
कल्पोज प्रमाण नैर-
यिकोनी रापाद.

आठमो उद्देशक समाप्त.

९-१२ उद्देशगा ।

जहा कण्डहलेस्सेहि एवं नीललेस्सेहि वि चत्तारि उद्देशगा भाणियद्धा निरवसेसा । नवरं नेरइयाणं उववाओ जहा वालुयप्पमाप, सेसं तं चेव । 'सेवं मंते ! सेवं मंते' ! ति । ४१-१२।

९-१२ उद्देशा समत्ता ।

९-१२ उद्देशको.

जेम कृष्णलेस्यावाळाओ संबंधे जणान्युं छे तेम नीललेस्यावाळाओ विषे पण चारे संपूर्ण उद्देशको कहेवा. परन्तु वालुकाप्रमानी पेठे नैरयिकोनी उपपात कहेवो. बाकी बधुं तेमज छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ४१-१२.

९-१२ उद्देशको समाप्त.

१३-१६ उद्देशगा ।

काउलेस्सेहि वि एवं चेव चत्तारि उद्देशगा कायद्धा । नवरं नेरइयाणं उववाओ जहा रयणप्पमाप, सेसं तं चेव । 'सेवं मंते ! सेवं मंते' ! ति । ४१-१६।

१३-१६ उद्देशा समत्ता ।

१३-१६ उद्देशको.

कापोतलेस्यावाळा संबंधे पण एज रीते चार उद्देशको कहेवा. परन्तु नैरयिकोनी उपपात रत्तप्रमानी जेम जाणवो, अने बाकी बधुं तेमज समजवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

१३-१६ उद्देशको समाप्त.

१७-२० उद्देशगा ।

१. [प्र०] तेउलेस्सरसील्लुम्मकडुल्लुम्मअसुरकुमारो णं मंते ! कओ उववज्जन्ति ? [उ०] एवं चेव । नवरं जेसु तेउ-लेस्सा अत्थि तेसु भाणियद्धं । एवं एप वि कण्डहलेस्सासरिसा चत्तारि उद्देशगा कायद्धा । 'सेवं मंते ! सेवं मंते' ! ति । ४१-२०।

१७-२० उद्देशा समत्ता ।

१७-२० उद्देशको.

१. [प्र०] हे भगवन् ! राशियुग्ममां कृतयुग्मराशिप्रमाण तेजोलेस्यावाळा असुरकुमारो क्यायीं आवी उत्पन्न थाय छे ! [उ०] पूर्वनी पेठे जाणवुं. परन्तु विशेष ए के जेओने तेजोलेस्या होय तेओ संबंधेज कहेवुं. ए रीते आ पण कृष्णलेस्या सरखा चार उद्देशको कहेवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

कृतयुग्मराशिप्रमाण
तेजोलेस्यावाळा
असुरकुमारोनी
उत्पद.

१७-२० उद्देशको समाप्त.

२१-२४ उद्देशगा ।

एवं पम्हलेस्साए- वि चत्तारि उद्देशगा कायद्या । पंचिन्द्रियतिरिक्कपजोणियाणं मणुस्साणं वैमाणियाण य एएंसि पम्हलेस्सा, सेसाणं नत्थि । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । १४१-२४।

२१-२४ उद्देशा समत्ता ।

२१-२४ उद्देशको.

ए रीते पम्हलेस्या संबंधे पण चार उद्देशको कहेवा. पंचेन्द्रिय तिर्यचो, मनुष्यो अने वैमानिकोने पम्हलेस्या होय छे अने वाकीनाओने होती नथी. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

२१-२४ उद्देशको समाप्त.

२५-२८ उद्देशगा ।

जहा पम्हलेस्साए एवं सुक्कलेस्साए वि चत्तारि उद्देशगा कायद्या । नवरं मणुस्साणं गमओ जहा ओहिउद्देशएसु, सेसं तं चैव । एवं एए छसु लेस्सासु चउवीसं उद्देशगा, ओहिया चत्तारि, सधे ते अट्टावीसं उद्देशगा भवंति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । १४१-२८।

२५-२८ उद्देशा समत्ता ।

२५-२८ उद्देशको.

जेम पम्हलेस्या संबंधे कहुं एम शुक्कलेस्याने विपे पण चार उद्देशको कहेवा. परन्तु मनुष्योने जेम औधिक उद्देशकमां कहुं छे तेम जाणवुं. अने वाकी वधुं तेमज जाणवुं ए रीते छ लेस्या संबंधे चार चार उद्देशको अने सामान्य चार उद्देशको-ए वधा मळीने २८ उद्देशको थाय छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

२५-२८ उद्देशको समाप्त.

२९-५६ उद्देशगा ।

१. [प्र०] भवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं भंते ! कओ उववज्जंति ? [उ०] जहा ओहिया पढमगा चत्तारि उद्देशगा तहेव निरवसेसं एए चत्तारि उद्देशगा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । १४१-३२।

२. कण्हलेस्सभवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं भंते ! कओ उववज्जंति ? [उ०] जहा कण्हलेस्साए चत्तारि उद्देशगा भवंति तहा इमे वि भवसिद्धियकण्हलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देशगा कायद्या । १४१-३६।

३. एवं नीललेस्सभवसिद्धिपहि वि चत्तारि उद्देशगा कायद्या । १४१-४०।

४. एवं काउलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देशगा । १४१-४४।

५. तेउलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देशगा ओहियसरिसा । १४१-४८।

६. पम्हलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देशगा । १४१-५२।

२९-५६ उद्देशको.

१. [प्र०] हे भगवन् ! भवसिद्धिक राशियुग्ममा कृतयुग्मराशिप्रमाण नैरयिको क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] जेम पहिला चार औधिक उद्देशको कहा छे तेमज आ संबंधे पण आ चार उद्देशको संपूर्ण कहेवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. २९-३२.

२. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुग्मराशिप्रमाण कृष्णलेस्यावाळा भवसिद्धिक नैरयिको क्याथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] हे गौतम ! जेम कृष्णलेस्या संबंधे चार उद्देशको थाय छे तेम आ भवसिद्धिक कृष्णलेस्यावाळा जीवो संबंधे पण चार उद्देशको कहेवा. ३३-३६.

३. ए प्रमाणे नीललेस्यावाळा भवसिद्धिको संबंधे पण चार उद्देशको कहेवा. ३७-४०.

४. ए प्रमाणे कापोतलेस्यावाळा संबंधे पण चार उद्देशको कहेवा. ४१-४४.

५. एम तेजोलेस्यावाळा संबंधे पण औधिक समान चार उद्देशको कहेवा. ४५-४८.

६. ए रीते पम्हलेस्यावाळा संबंधे पण चार उद्देशको कहेवा. ४९-५२.

भवसिद्धिक कृतयुग्म
प्रमाण नैरयिको
उत्पाद.

कृष्णलेस्यावाळा
भवसिद्धिक कृतयुग्म
नैरयिको उत्पाद

७. सुकलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देशगा ओहियसरिसा । एवं एए वि भवसिद्धिपहि वि अट्टावीसं उद्देशगा भवंति । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । ४१-५६।

२९-५६ उद्देशा समत्ता ।

७. सुकलेस्यावाळा संबंधे पण औषिक सरखा चार उद्देशको कहेवा. अने एवी रीते भवसिद्धिको संबंधे अठ्यावीश उद्देशको थाय छे. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ५३-५६.

२९-५६ उद्देशको समाप्त.

५७-८४ उद्देशगा ।

१. [प्र०] अभवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं भंते ! कओ उववज्जन्ति ? [उ०] जहा पढमो उद्देशगो । नवरं मणुस्सा नेरइया य सरिसा भाणियद्धा । सेसं तहेव । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । एवं चउसु वि जुम्मेसु चत्तारि उद्देशगा ।

२. [प्र०] कण्हलेस्सअभवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं भंते ! कओ उववज्जन्ति ? [उ०] एवं चेव चत्तारि उद्देशगा ।

३. एवं नीललेस्सअभवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरइयाणं चत्तारि उद्देशगा ।

४. काउलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देशगा ।

५. तेउलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देशगा ।

६. पम्हलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देशगा ।

७. सुकलेस्सअभवसिद्धिप वि चत्तारि उद्देशगा । एवं एएसु अट्टावीसाए वि अभवसिद्धियउद्देशएसु मणुस्सा नेरइया-गमेणं नेयद्धा । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! त्ति । एवं एए वि अट्टावीसं उद्देशगा । ४१-८४।

५७-८४ उद्देशा समत्ता ।

५७-८४ उद्देशको.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुगमराशिप्रमाण अभवसिद्धिक नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] प्रथम उद्देशकमां कह्वा प्रमाणे जाणवुं. परन्तु विशेष ए के, मनुष्यो अने नैरयिको समान रीते कहेवा, अने वाकी वधुं तेमज जाणवुं. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ए रीते चारे युगमोमां चार उद्देशको कहेवा.

अभवसिद्धिक कृत-
युग प्रमाण नैरयि-
कोनो उत्पाद.

२. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुगमराशिप्रमाण कृष्णलेस्यावाळा अभवसिद्धिक नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] एम चार उद्देशको कहेवा.

३. ए रीते नीललेस्यावाळा कृतयुगमराशिप्रमाण अभवसिद्धिको संबंधे पण चार उद्देशको कहेवा.

४. एम कापोतलेस्यावाळा संबंधे पण चार उद्देशको कहेवा.

५. ए रीते तेजोलेस्यावाळा संबंधे पण चार उद्देशको समजवा.

६. पद्मलेस्यावाळा संबंधे पण एज प्रकारे चार उद्देशको कहेवा.

७. सुकलेस्यावाळा अभवसिद्धिको संबंधे पण चार उद्देशको कहेवा. ए रीते ए अठ्यावीशे अभवसिद्धिक उद्देशकोमा मनुष्यो नैर-यिकोना समान गमवडे जाणवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'. ए रीते ए अठ्यावीश उद्देशको थाया.

५७-८४ उद्देशको समाप्त.

८५-११२ उद्देशगा ।

१. [प्र०] सभ्मदिट्ठीरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं भंते ! कओ उववज्जन्ति ? [उ०] एवं जहा पढमो उद्देशओ । एवं चउसु वि जुम्मेसु चत्तारि उद्देशगा भवसिद्धियसरिसा कायद्धा । सेवं भंते ! 'सेवं भंते' ! त्ति ।

८५-११२ उद्देशको.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुगप्रमाण सम्यग्दृष्टि नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] जेम प्रथम उद्देशक कह्यो छे तेम आ उद्देशक कहेवो. एम चारे युगमोमा भवसिद्धिक समान चार उद्देशको कहेवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

कृतयुग प्रमाण
सम्यग्दृष्टि नैरयि-
कोनो उत्पाद.

२. [प्र०] कण्ठलेस्ससम्मदिट्ठीरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं मंते ! कओ उववजंति ? [उ०] एए वि कण्ठलेस्ससरिसा चत्तारि वि उद्देशगा कायद्या । एवं सम्मदिट्ठीसु वि भवसिद्धियसरिसा अट्ठावीसं उद्देशगा कायद्या । 'सेवं मंते ! सेवं मंते' ! त्ति जाव-विहरद । ८५-११२।

८५-११२ उद्देशा समत्ता ।

२. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुगमराशिप्रमाण कृष्णलेस्यावाव्या सम्यग्दृष्टि नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] ए संवंचे पण कृष्णलेस्यावाव्यानी जेम चारे उद्देशको कहेवा. ए प्रमाणे सम्यग्दृष्टिओने विपे पण भवसिद्धिकनी पेटे अट्ठावीश उद्देशको करवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'—एम कहीने यावत्-विहरे छे.

८५-११२ उद्देशको समाप्त.

११३-१४० उद्देशगा ।

१. [प्र०] मिच्छादिट्ठीरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं मंते ! कओ उववजंति ? [उ०] एवं एण्य वि मिच्छादिट्ठिमि-लाचेणं अमवसिद्धियसरिसा अट्ठावीसं उद्देशगा कायद्या । 'सेवं मंते ! सेवं मंते' ! त्ति । ११३-१४०।

११३-१४० उद्देशा समत्ता ।

११३-१४० उद्देशको.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुगमराशिप्रमाण मिथ्यादृष्टि नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] अहीं पण मिथ्यादृष्टिना अमिलाप-उच्चारणथी अमवसिद्धिकना समान अट्ठावीश उद्देशको कहेवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

११३-१४० उद्देशको समाप्त.

१४१-१६८ उद्देशगा ।

१. [प्र०] कण्ठपक्खियरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं मंते ! कओ उववजंति ? [उ०] एवं एण्य वि अमवसिद्धियस-रिसा अट्ठावीसं उद्देशगा कायद्या । 'सेवं मंते ! सेवं मंते' ! त्ति । १४१-१६८।

१४१-१६८ उद्देशा समत्ता ।

१४१-१६८ उद्देशको.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुगमप्रमाण कृष्णपाक्षिक नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] अहीं पण अमवसिद्धिकना समान अट्ठावीश उद्देशको कहेवा. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

१४१-१६८ उद्देशको समाप्त.

१६९-१९६ उद्देशगा ।

१. [प्र०] सुक्कपक्खियरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं मंते ! कओ उववजंति ? [उ०] एवं एण्य वि भवसिद्धियसरिसा अट्ठावीसं उद्देशगा भवंति । एवं एए सत्ते वि छन्नउयं उद्देशगसयं भवन्ति रासीजुम्मसयं । जाव-सुक्कलेस्सा सुक्कपक्खिय-

१६९-१९६ उद्देशको.

१. [प्र०] हे भगवन् ! कृतयुगमप्रमाण सुक्कपाक्षिक नैरयिको क्यांथी आवी उत्पन्न थाय छे ? [उ०] अहीं पण भवसिद्धिक सरल अट्ठावीश उद्देशको थाय छे. ए प्रमाणे ए वचा मळीने १९६ उद्देशकोतुं राशियुगमशतक थाय छे. यावत्-[प्र०] सुक्कलेस्यावाव्या सुक्क-

कृतयुगम प्रमाण
मिथ्यादृष्टि नैरयि
कोनी उरनाद

कृतयुगम प्रमाण कृष्ण
पाक्षिक नैरयिकोनी
उरनाद

कृतयुगम प्रमाण सुक्क
पाक्षिक नैरयिकोनी
उरनाद

रासीजुम्मकलियोगवेमाणिया जाव—जइ सकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झंति, जाव—अंतं करेति ? [उ०] णो इणट्ठे समट्ठे । 'सेवं भंते ! सेवं भंते' ! ति ।

भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं तिकखुत्तो आयाहिण—पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी—'एवमेयं भंते ! तहमेयं भंते ! अवितहमेयं भंते ! असंदिद्धमेयं भंते ! इच्छियमेयं भंते ! पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय—पडिच्छियमेयं भंते ! सच्चे णं एसमट्ठे, जे णं तुज्जे वद्ध'त्ति कट्ठु अपूतिवयणा खल्लु अरिहंता भंगवंतो, समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । रासीजुम्मसयं समत्तं । सव्वाए भगवईए अट्ठतीसं सत्तं १३८ सयाणं, उद्देशगाणं १९२५ । १६९—१९६ ।

बुलसीय(ई)सयसहस्सा पदाण पवरवरणाणदंसीहिं । भावाभावमणंता पन्नत्ता एत्थमंगंमि ॥

तवनियमविणयवेलो जयति सदा नाणविमलविपुलजलो । हेतुसतविपुलवेगो संघसमुद्धो गुणविसालो ॥

इगचत्तालीसमं सयं समत्तं

भगवती समत्ता ।

* णमो गोयमाईणं गणहराणं, णमो भगवईए विवाहपन्नत्तीए, णमो दुवालसंगस्स गणिपिडगस्स ।

कुम्मसुसंठियचलणा अमलियकोरंटवेंटसंकासा । सुयदेवया भगवई मम मतितिमिरं पणासेउ ॥

पन्नत्तीए आइमाणं अट्ठण्हं सयाणं दो दो उद्देशगा उद्दिसिज्जन्ति । णवरं चउत्थे सए पढमदिवसे अट्ठ, वितियदिवसे दो उद्देशगा उद्दिसिज्जन्ति । नचमाओ सताओ आरद्धं जावइयं जावइयं पवेइ तावतियं तावतियं एगदिवसेणं

पाक्षिक कल्योजरशिप्रमाण वैमानिको यावत्—जो क्रियावाळा छे तो शुं तेओ तेज भवमां सिद्ध थाय छे, यावत्—सर्व दुःखोनो अंत करे छे १ [उ०] ए अर्थ समर्थ नथी. 'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते एमज छे'.

भगवान् गौतम श्रमण भगवंत महावीरने त्रण वार प्रदक्षिणा करे छे, प्रदक्षिणा करी वादे छे, वांदी नमे छे, नमीने भगवान् गौतम आ प्रमाणे बोल्या—'हे भगवन् ! ते एमज छे, हे भगवन् ! ते प्रकारेज छे, हे भगवन् ! ए सत्यज छे, हे भगवन् ! ते असदिग्ध छे, हे भगवन् ! ते मने इच्छित छे, हे भगवन् ! ते मने प्रतीच्छित—स्वीकृत छे, हे भगवन् ! ते इच्छित अने प्रतीच्छित छे, हे भगवन् ! ते सत्य छे के तमे जे कहो छो, 'अरिहंत भगवंतोनी वाणी पवित्र होय छे. 'अपुव्ववयणा' एवो पाठ स्वीकारीए तो अरिहंत भगवंतोनी वाणी अपूर्व होय छे'—एम कही श्रमण भगवंत महावीरने (फरी वार) वादे छे, नमे छे अने वांदी तथा नमी सयम अने तपपूर्वक आत्माने भावित करता विहरे छे. राशियुग्मशतक समाप्त. सर्व भगवतीना मळीने † १३८ उद्देशको अने १९२५ शतको थाय छे. १६९—१९६.

उत्तमोत्तम ज्ञानवडे सर्वदर्शी पुरुषोए आ अंगमा चोराशी लाख पदो कहा छे. तेमज अनन्त—अपरिमित भाव—विधि अने निषेधो कहेला छे. भगवतीनु परिमाण.

तप, नियम अने विनयरूप वेला—भरतीवाळा, निर्मळ ज्ञानरूप विपुल पाणीवाळा, सेंकडो हेतुरूप महान वेगवाळा अने गुणयी विशाल एवा सघसमुद्रनो जय थाय छे. संघनी रतुति.

एकताळीशमुं शतक समाप्त.

श्रीभगवतीसूत्र समाप्त.

* गौतमादि गणधरोने नमस्कार, भगवती व्याख्याप्रज्ञसिने नमस्कार, द्वादशाग गणिपिटकने नमस्कार.

काचवानी पेठे सुंदर चरणकमलवाळी, नहि चोळयेल कोरंट वृक्षनी कळी समान एवी पूज्य श्रुतदेवी मारा मतिअज्ञाननो नाश करो. व्याख्याप्रज्ञसिना आदिना आठ शतकना बव्वे उद्देशकोनो एक एक दिवसे उपदेश कराय छे. परन्तु प्रथम दिवसे चौथा शतकना आठ उद्देशको अने बीजे दिवसे वे उद्देशको उपदेशाय छे. नवमा शतकथी आरंभी जेटळं जेटळं जाणी शकाय तेठळं तेठळं एक एक दिवसे उप-

१ अपुव्ववयणाहिं ग—उ ।

* अहीथी आरंभी आगळनो पाठ पुस्तकना लेखककृत छे, ते संवंधे टीकाकार जणावे छे के 'णमो गोयमाईणं गणहराणं' इत्यादय. पुस्तकलेखककृता नमस्कारा प्रकाटार्थथेति न व्याख्याता ।

† शतकनुं परिमाण आ प्रमाणे छे—प्रथमना वत्रीश शतकोमा अवान्तर—पेटा शतको नथी अने तेत्रीशथी ओगणचाळीश सुधीना सात शतकोमा वार वार अवान्तर शतको छे एट्ठे ८४ शतको थया. चाळीशमा शतकमा एरुवीश अवान्तर शतको छे एकताळीशमा शतकमा अवान्तर शतक नथी. ३२-८४-२१-१-ए सर्व शतको मळीने एकसो आठत्रीश शतको थाय छे.

‡ अहीं पदोनी सख्या चोराशी लाख कही छे, पण तेनी गणना शी रीते करी छे तेनो कंइपण ख्याल आवी शकतो नथी. ते संवंधे टीकाकार जणावे छे के पदोनुं स्वरूप विशिष्ट सप्रदायगम्य छे.

ઉદ્દિસિજ્જતિ, ઉક્કોસેણં સતં પિ ઇગદિવસેણં, મત્તિમ્મેણં દોહિં દિવસેહિં સતં, જહ્થેણં તિહિં દિવસેહિં સતં । એવં જાવ-વીસતિમં સતં । ણવરં ગોસાલો ઇગદિવસેણં ઉદ્દિસિજ્જતિ, જદિ ટિયો ઇગેણ ચેવ આયંવિલેણં અણુગ્ગચ્ચતિ । અહ ણં ડિતો આયંવિલેણં છટ્ટેણં અણુણચ્ચતિ । ઇક્કવીસ-વાવીસ-તેવીસતિમાહં સતાહં ઇક્કેક્કદિવસેણં ઉદ્દિસિજ્જન્તિ । ચઠવીસતિમં સયં દોહિં દિવસેહિં છ છ ઉદ્દેસગા । પંચવીસતિમં દોહિં દિવસેહિં છ છ ઉદ્દેસગા । યંધિસયાહં અટ્ટસયાહં ઇગેણં દિવસેણં, સેદ્ધિ-સયાહં વારસ ઇગેણં, પંચિદિયમહાજુમ્મસયાહં વારસ ઇગેણં; એવં વેંદિયાણં વારસ, તેહંદિયાણં વારસ, ચઠરિંદિયાણં વારસ ઇગેણ, અસન્નિપંચિંદિયાણં વારસ, સન્નિપંચિંદિયમહાજુમ્મસયાહં ઇક્કવીસં ઇગદિવસેણં ઉદ્દિસિજ્જન્તિ, રાસીજુમ્મસતં ઇગદિ-વસેણં ઉદ્દિસિજ્જતિ ॥

વિવસિયથરવિંદકરા નાસિયતિમિરા સુયાહિયા દેવી । મજ્જં પિ દેવ મેહં સુહવિસુહ્ણમંસિયા ણિચં ॥

સુયદેવયાય પળમિમો જીવ પસાણ સિન્નિચયં નાણં । અણ્ણં પવયણદેવી સંતિકરી તં નમંસામિ ॥

સુયદેવયા ય જન્સો કુંમથરો વંમસંતિ વેરોટ્ટા । ઘિજ્જા ય અંતહુંડી દેવ અધિગ્ગં લિહંતસ્સ ॥


દેશાપ છે, ઉત્કૃષ્ટપણે શતકનો પણ એક દિવસે ઉપદેશ કરાવ છે. મધ્યમપણે વે દિવસે શતકનો અને જવન્યપણે ત્રણ દિવસે શતકનો ઉપ-દેશ કરાવ છે. એમ વીશમા શતક સુધી જાણવું. પરન્તુ પંદરમા ગોશાલક શતકનો એક દિવસે ઉપદેશ કરાવ છે. જો વાકી રહે તો તેનો એક આયંવિટ કરીને ઉપદેશ કરાવ છે, છતા વાકી રહે તો વે આયંવિટ કરીને ઉપદેશ કરાવ છે. એકવીશમા, વાવીશમા અને તેવીશમા શતકનો એક એક દિવસે ઉપદેશ કરાવ છે. ચોવીશમું શતક એક એક દિવસે છ છ ઉદ્દેશકો વડે એમ વે દિવસે ઉપદેશાય છે. પચીશમું શતક છ છ ઉદ્દેશકો વડે વે દિવસે ઉપદેશાય છે. બન્ધિશતકાદિ આઠ શતકો એક દિવસે, શ્રેણિગતાદિ વાર શતકો એક દિવસે, એકેન્દ્રિયના ચાર મહાયુગમશતકો એક દિવસે, એમ વેંદ્રિય, તેહંદ્રિય, ચઠરિંદ્રિય અને અસંહી પંચેન્દ્રિયના ચાર ચાર શતકો તથા સહી પંચેન્દ્રિયના એકવીશ મહાયુગમશતકો અને રાશિયુગમશતકો એક એક દિવસે ઉપદેશાય છે.

જેના હાયનાં વિકસિત કમઠ છે, જેણે અજ્ઞાનનો નાશ કર્યો છે અને સુધ-પંડિતો અને વિસુધ-દેવોર જેને હમેશાં નમસ્કાર કર્યો છે એવી શુનાવિષ્ટિત દેવી મને પણ સુદ્ધિ આપો.

અમે શ્રુતદેવતાને પ્રણામ કરીએ છીએ, જેનો કૃપાર્થી જ્ઞાનનો શિક્ષા મઠી છે. અને તે સિવાય શાન્તિ કરનાર પ્રવચનદેવીને પણ નમસ્કાર કરું છું.


શ્રુતદેવતા, કુંમથર યક્ષ, વ્રહ્મશાન્તિ વેરોટ્ટા, વિદ્યા અને અંતહુંડી લેખકને અવિન્ન આપો.

શ્રીવ્યાખ્યાપ્રજ્ઞસિનામ પંચમ અંગનો અનુવાદ સમાપ્ત.



परिशिष्ट १

भगवतीसूत्रमां आवेला पारिभाषिक शब्दो.



श०	पृ०	श०	पृ०	श०	पृ०
अइकाय	द्वि० १२३.	अणयासायणाविणय	च० २७९	अणंतरयंघ	च० ११४.
अउअ	द्वि० १५३.	अणणह्य	प्र० २८३.	अणंतरसिद्ध	च० २२०.
अउअग	"	अणणह्यफल	प्र० २७९	अणंतरागम	द्वि० १८३.
अकतिसंचिय	च० १२१, १२२.	अणत्ता	तृ० ३६३.	अणतराहार	तृ० ३०३.
अकम्म	तृ० ३.	अणवज्ज	च० ६.	अणंतराहारय	च० २९०.
अकम्मभूमि	तृ० ११५, च० २६३.	अणवठप्पारिह	च० २७५	अणंतरोगाढ	प्र० ५९, च० २९२.
अकसाह	तृ० १३६, च० २८७.	अणसण	च० २७६.	अणंतरोवगाढ	तृ० ३०३.
अकामनिकरण	तृ० २५.	अणाउत्त	तृ० ५	अणंतरोववन्नग	तृ० ३०३, ३४०, च० २९८.
अकिरिय	तृ० ७.	अणागयद्धा	च० २३८.	अणंतरोववन्नय	च० ३३८.
अकिरिया	प्र० २८४.	अणागारोवउत्त	द्वि० २८२, तृ० ७१, ३०२, च० २६७	अणंतसंसार	द्वि० ३४.
अकिरियावादि	च० ३०२.	अणागारोवओग	च० ३४, ९९.	अतित्य	च० २६३.
अक्कोस	तृ० ९८.	अणागारोवओगनिव्यत्ति	च० ९३.	अतिवाय	तृ० ३.
अणुसुलहुअ	प्र० २००, ३१०	अणादीयवीधसाबंध	च० ५७.	अतिहिसविभाग	तृ० ९.
अणुसुलहुययुण	प्र० ३१०.	अणाभियोगिअ	द्वि० ९८.	अत्तरुठ	च० ३९.
अणुसुअलहुअपज्जव	प्र० २३५.	अणाभोग	च० २७४.	अत्ततासंयुट	द्वि० ७८.
अग्गिअकुमार	द्वि० ११०, ११३, च० ४४.	अणाभोगनिव्यत्तियाउय	तृ० १९.	अत्तागम	द्वि० १८३.
अग्गिअकुमारी	द्वि० ११०.	अणारंभ	द्वि० २२६.	अत्यणित्तर	द्वि० १५३
अग्गिअमाणव	द्वि० १२३.	अणालोइयपडिअंत	द्वि० २०९.	अत्यणित्तरंग	"
अग्गिअसीह	द्वि० १२३.	अणाहारय	तृ० २, च० ४६, च० २७०.	अत्यपडिणीय	तृ० ९३.
अग्गेयी	तृ० १८९, ३१४.	अणित्वंध	च० २०४.	अत्यिअ	प्र० १६८.
अचक्खुदंसण	प्र० ३०९.	अणिदाय	प्र० ९८.	अत्यिअप	प्र० २०३
अचक्खुदंसणी	द्वि० २८०, तृ० ३०२.	अणियाण	प्र० २३९.	अत्योगगह	तृ० ५९.
अचरिम	द्वि० ३४, २८२, तृ० ३०३, च० ४८, ५१, २९३.	अणुत्तरोववाइय	द्वि० १८७, २६०, तृ० ३५७.	अत्तचपवाला	च० २१३, ३२५
अचित्त	प्र० २७९, च० ६४.	अणुत्तरविमाण	द्वि० ३१५.	अत्तमागहा	द्वि० १८१.
अचित्ताहार	तृ० ३२४.	अणुभाग	प्र० १३१.	अत्ता	प्र० १६८.
अचेयकठ	च० ६.	अणुभागकम्म	प्र० १३२.	अत्ताकाल	तृ० १३४.
अचेल	तृ० ९८.	अणुभागनामनिहत्त	द्वि० ३३९.	अत्तासमय	प्र० ३१०, तृ० २०१, ३९९, च० २१६.
अणुअ	प्र० १०८, द्वि० ५१.	अणुभागनामनिहत्ताउय	द्वि० ३३१.	अरिणादाण	प्र० १६६, तृ० ३०६.
अच्छ	तृ० ३८७.	अणुभाव	प्र० ८१	अथम्मत्तियज्ञाय	प्र० ३०५, ३१३, तृ० ३१५, ३०१, च० ५८, ९८, २१६, २१५.
अजीवदब्बदेस	प्र० ३१०.	अणुभाणहत्ता	च० २७४.	अधिकरण	च० २.
अजीवपज्जव	च० २३६.	अणुव्यय	प्र० १०९.	अधिकरण्णी	च० २.
अजोगी	च० २६७.	अणेरणा	प्र० २८२.	अनागारोवओग	प्र० २०१.
अज्जवसाण	तृ० १३३, च० १४२.	अणेरण्णिअ	द्वि० १९९	अनागयद्धा	प्र० १६८.
अज्जवसाणावरणिअ	तृ० १३०.	अणतपएत्तिय	तृ० २७०	अनिहारिम	प्र० २३७.
अट्ट	च० २८१.	अणंतर	प्र० १५२.	अनंतपएत्तिय	द्वि० २१४, २१५, २१६, २१७
अट्टज्जाण	द्वि० ७०.	अणंतरजेत्तोगाढ	द्वि० ३४६.	अनंतरोववन्नग	द्वि० १८६.
अट्टपएत्तिय	तृ० २६४ च० १०७	अणंतरपेदोववन्नग	तृ० ३४२.	अनीहारिम	च० = ३६.
अट्टमभत्त	द्वि० ५६.	अणंतरनिगय	तृ० ३४१.	अत्तजिअ	प्र० २२३, द्वि० १९३, २०८, तृ० ३६, ८१, ११८.
अट्टमभत्तिअ	च० १०	अणंतरपज्जत्त	तृ० ३०३.	अत्तजित्तप	च० ९.
अट्टमंअट्टम	प्र० २४१, द्वि० २१.	अणतरपज्जत्तय	च० २९३.	अत्तपदंअपेरन्नग	तृ० ९.
अट्टियकप्प	च० २६२.	अणंतरपरंपरअणुववन्नग	तृ० ३४०	अत्तपदंअपेरन्नग	तृ० ६५
अउठ	द्वि० १५३.	अणंतरपरंपरअनिगय	तृ० ३४१.		
अउठंग	द्वि० १५३.	अणंतरपरंपरजेदोववन्नग	तृ० ३४२.		

श०	पृ०	श०	पृ०	श०	पृ०
अज्ञानलक्ष्मीय	तृ० ६८.	अरिद्वत	प्र० ३०३.	असुरकुमारी	द्वि० ११५, १२१.
अज्ञानियवाइ.	च० ३०२.	अरिद्वतचेदअ	द्वि० ५३, ५८.	असेलेसिपटिवणाय	प्र० १९६, च० २२०, २२१.
अज्ञानि	तृ० ६०	अरुदंत	प्र० ४.	अमोगवडेंसय	द्वि० १०१
अपएस	द्वि० २८६.	अरुनि	प्र० ३०५.	असोनाकेवलि	तृ० १२८.
अपचक्राण	प्र० २१०, द्वि० २९८.	अरुविदंभव	प्र० २०१.	असरोजपएसिथ	द्वि० २७९, तृ० २६९.
अपचक्राणी	द्वि० २९८, तृ० ९.	अरुवीभजीवदव	च० २०९.	असग	द्वि० १२०.
अपचक्राणकिरिया	द्वि० २०३.	अलाभ	तृ० ९८.	असजम	प्र० २७४.
अपचक्राणनिवृत्तिघाटय	द्वि० २९९.	अल्लियागणवव	तृ० १०२, १०३.	असजय (त)	प्र० ७६, १०८, द्वि० १८०, २७९, तृ० १०, च० ७०.
अपच्छिममारणंतिथसलेहणा	तृ० ९.	अलोय	तृ० २३१.	असंजयभविद्यद्वयेन	प्र० १०९.
अपजत	द्वि० १८६, तृ० ६३.	अवत्तन्वगसचिय	च० १२१	अससुट	प्र० ८१, तृ० ७७, २९, च० १६.
अपडिसेवय	च० २६३	अवत्तदंमण	च० १५.	असंसारसमावण्णग	प्र० ७६.
अपढम	च० ४८.	अवव	द्वि० १५३.	असंसारममाजग	च० २२०.
अपमतसजम	द्वि० ८१.	अववंग	द्वि० १५३.	अस्मायावेयगिज्ज	प्र० ८१.
अपमतसजय	द्वि० ८१	अलेस्स	च० २६८, २८६, ३०३.	अहक्कायसजय	च० २६२.
अपमाय	प्र० २३६.	अलोय	तृ० २३१.	अहव्वणवेद	प्र० २३१.
अपरित्त	द्वि० २८१.	अवट्टियपरिणाम	च० २६८.	अह्वातच	च० १५.
अपरिगह	द्वि० २२६.	अवसप्पिणी	द्वि० ३४.	अह्मिगरणि	तृ० २.
अपाणय	तृ० ३८८.	अनाय	तृ० ५९, २७७.	अह्मिगरणिआ	प्र० १९२, तृ० ७९
अप्पकम्मतराय	तृ० ३९.	अविग्गह	प्र० १५२.	अकरउंसय	द्वि० १३०.
अप्पकिरिया	च० ८६.	अविग्गहगति	प्र० १७८.	अजण	द्वि० १२३.
अप्पचक्राणकिरिया	प्र० ९२	अविभागपलिच्छेद	द्वि० १२१	अतकउ	प्र० २२९
अप्पडिवदया	च० ३७.	अविरइअ	प्र० ८४.	अतकिरिया	प्र० १०८
अप्पडिहयवरनाणदमणघर	प्र० १८.	अविराहिअसजम	प्र० १०८.	अतरादय	द्वि० २७६, च० ९९, ३४.
अप्पट्टीअ	तृ० १९३, ३४६.	अविराहिअसजमासजम	प्र० १०८.	अंतोसुहुत्त	प्र० ६९
अप्पनिज्जरा	द्वि० २६०.	अवीरिय	प्र० १९४.	अतोसहमरण	प्र० २३७.
अप्पवेदण	द्वि० २५६, २६०.	अनिसुद्धलेस्स	तृ० ३४०.	अन	द्वि० ११६.
अप्पवेयणतराय	तृ० ३९.	अनिसुद्धलेस्सतराग	प्र० ९२.	अवरिस	द्वि० ११६.
अप्पसत्यकायविणय	च० २८०.	अवीचिदव	तृ० ३५२.	आ	
अफासुअ	द्वि० १९९	अवीयीपय	तृ० १९१.	आइच	द्वि० २८०.
अवहिंस्स	प्र० २४०.	अवेद	तृ० १३५.	आउकाइव	प्र० १५५
अवाहा	द्वि० २७६	अव्वत्त	च० २७४.	आउक्खय	प्र० २४६.
अवाहूणिआ	द्वि० २७६	अव्यावाह	तृ० ३६०, च० ७५, ७६.	आउत्त	द्वि० ७८, तृ० २३.
अयुद्धजागरिआ	तृ० २५५	असतीपोसणया	तृ० ८३.	आउय	च० २८९
अयोहिआ	प्र० २०७.	असहपरिणय	द्वि० २२२.	आउयवधय	द्वि० ३३१.
अव्मन्खाण	प्र० १६६	असन्निपचिदियाअप्पज्जतग	च० १९८.	आउयाय	प्र० १७०.
अव्मन्खाणदाण	प्र० १९६.	असन्निपचिदियापज्जतग	च० १९८.	आउर	च० २७४.
अविमतरय	च० २७८.	असञ्चि	द्वि० २८०, तृ० ३०२.	आओवक्खम	च० १२१.
अभवसिद्धिय	प्र० १६७, द्वि० ३४, २७४, द्वि० २८०, तृ० ६५, ३०२, च० ६, च० २८४	असायावेयगिज्ज	तृ० २०.	आकपइत्ता	च० २७४.
अभासय	द्वि० २८१.	अमासय	तृ० ११, १८१.	आगम	तृ० ९४.
अभिगम	प्र० २०७, तृ० १६४.	असि	द्वि० ११६.	आगरिस	च० २५७
अभिग्गह	प्र० १२, द्वि० २६.	असिद्ध	प्र० १६७.	आगारभावपडोयार	द्वि० ३२५, तृ० २०.
अभरवइ	द्वि० १२३.	असिद्धि	प्र० १६७.	आगासत्थिकाय	तृ० ३२५, च० ५८, ९८, २३५.
अमाइमिच्छादिट्टिववन्नग	द्वि० १८६.	असिपत्त	द्वि० ११६	आगासपएस	द्वि० १८८.
अमाथिसम्मदिट्टिववन्नग	च० १२	असुजकाल	प्र० १०५	आजीविय	तृ० ३८६, ३९१
अमिअगइ	द्वि० १२३.	असुरकुमार	प्र० ६७, द्वि० २८, २९, ४८, ५२, ६५, ११५, १२१, २४०, २४७, २५९, २२६, ३४४, ३४८, च० ६०, ६९, ११५	आजीवियोवासय	तृ० ८३
अमिअवाहण	द्वि० १२३.			आजीवियोवासिया	तृ० ३६७
अमोह	द्वि० १२०.			आजीवियसमय	तृ० ८३
अरति	तृ० ९८.			आणपाणय	तृ० ३०९
अरदत	प्र० ३.				
अरदा	प्र० २३४, तृ० २				

श०	पृ०
आणापाणु	तृ० २७१, च० २३६.
आणय-पाणय आरण-अञ्जुअ	च० ६९
आणा	तृ० ८३.
आर्दितियमरण	तृ० ३३३, ३३२.
आपुच्छणा	च० २७५
आभिणिवोहियणाण	प्र० १५१, तृ० ५९, १३०, च० ३४, ९९.
आभिणिवोहियणाणपञ्च	प्र० ३०९.
आभिणिवोहियणाणलक्ष्मी	तृ० ६७.
आभिणिवोहियणाणी	द्वि० २८१, ३१२ तृ० ७४.
आभिणिवोहियणाणपञ्च	तृ० ७५.
आसियोग	द्वि० ९८, ११५.
आभोगनिवृत्तियाउय	तृ० ९९.
आयअजस	च० ३६१.
आयकम्म	द्वि० ९७. च० १२१, २८३
आयजस	च० ३६१.
आयड्डीय	तृ० १९३
आयत	च० २०४.
आयतसठाणकरण	च० ९४.
आयप्ययोग	द्वि० ८७, च० २८३.
आयप्ययोगनिवृत्तिय	च० ३.
आयय	च० २०७.
आयरियपडिणीय	तृ० ९३, १८३
आयरीय-उवज्जाय	द्वि० २१०.
आयसरीरखेतोगाड	द्वि० ३४६.
आयाणभंडभत्तनिकखेवणासमिअ	प्र० २३९.
आयार	च० २१४.
आयाहिकरणी	च० ३
आयाहिणपयाहिण	प्र० ३३
आयंविळ	द्वि० २१.
आराहअ	प्र० ११४.
आराहणा	प्र० ८३, द्वि० ९३, तृ० ११८.
आराहय	द्वि० ३४, २८५, तृ० ८५.
आरंभ	द्वि० ७६.
आरभिया	द्वि० २०३.
आलसियत्त	द्वि० २६०.
आलोइयपडिक्त	द्वि० १७, २१, ९३, ९८, २०९
आलावणबंध	तृ० १०२.
आलोयणया	च० ३७.
आलोयणादोस	च० २७४
आलोयणारिह	च० २७४, २७५, २७८.
आवकहिअ	च० २७६
आवत्त	द्वि० १२३
आवति	च० २७४.
आवलिया	प्र० ३०४, द्वि० ३२१, २२०, २४८, च० २३६.
आवस्सिया	च० २७५.
आवीचियमरण	द्वि० ३३२.
आसव	प्र० २७७.
आहकम्म	प्र० २१० द्वि० २०९.
आहारगसमुग्घाय	च० ३५९.

श०	पृ०
आहारपज्जति	च० १५.
आहारय	प्र० १५८, च० २७०, तृ० ३३२, २, च० ४६.
आहारयमीसय	तृ० ३३२.
आहारसन्ना	च० ३४, ९९.
आहारसन्नोवउत्त	द्वि० ४१२, च० २८६.
आहोहिय	प्र० १३७, तृ० २५, तृ० ३६५, च० ७२.
इ	
इच्छा (सामाचारी)	च० २७५.
इत्तरिअ	च० २७६.
इत्थिवेद	प्र० २७१.
इत्थिवेदकरण	च० ९४.
इत्थी	प्र० २७२, तृ० १८.
इत्थीपच्छाकड	तृ० ९५.
इरिआवहिआ	प्र० २१९.
इरिआसमिअ	प्र० २३९.
इसिपन्भारा	द्वि० ४८.
इहभवियाउग	प्र० २०४
इहलोगपडिणीय	तृ० ९३.
इगालकम्म	तृ० ८३.
इंद	तृ० १८१, ३१४.
इंदिय	च० ३९.
इंदियलक्ष्मी	तृ० ६६, ७०.
इंदियजवणिज्ज	च० ७५
इंदियपडिसंलीणया	च० २७७
ई	
इरियावहिआ	द्वि० ७८, तृ० ३, ५, २३, च० ७०
इरियावहियबंधय	द्वि० २७४
इरियावहियाबंध	तृ० ९४
इरियासमिअ	द्वि० ७८.
इसाण	प्र० २९६, द्वि० २३, २७, १२९, १३०, तृ० १८९, ३५३.
इसाणकप्प	द्वि० २१, २९.
इसाणवडें(डिं)सय	द्वि० २३, २९, च० ३९
इसिपन्भारा	च० ३४
इसीपन्भारा	प्र० ३१३, द्वि० ३२७
इहा	तृ० ५९, २७७.
इहा-अवाय	च० ३४.
उ	
उक्किट्ठा	द्वि० २८, ५८.
उकुड्ढयासणिय	च० २७७
उग्गह	प्र० २४, तृ० ५९, २७७, च० ५, ९९, ३४.
उग्ग	च० १९८.
उच्चयवध	तृ० १०३.
उज्जुआयता	च० २१३, ३२५
उज्जोअ	द्वि० २४६.
उट्टाण	च० ९९
उत्तरगुणपच्चक्खाण	तृ० ८.
उत्तरगुणपच्चक्खाणी	तृ० ९
उत्तरपग(य)डिवध	च० ५७
उत्तरवेउक्किय	द्वि० २८

श०	पृ०
उदइय	च० ३२.
उदय	च० २३१.
उदयनिप्पन्न	च० ३२, २३१.
उदहिकुमार	द्वि० ११७, १२३, च० २८.
उदहिकुमारी	द्वि० ११७.
उदयाणंतरपच्छाकड	प्र० १२१.
उदीरणाभविय	द्वि० १८७
उदीरिज्जमाण	प्र० १२१.
उवसंपया	प्र० ४१
उवसंपया	च० २७५.
उवपत्तिया	तृ० २७६ च० ३४.
उवपल	द्वि० १५३.
उवपलंग	द्वि० १५३.
उवपायपव्वय	च० २६
उव्ममाद	तृ० ३४३.
उरगाजातिआसीविस	तृ० ५६.
उयट्ट	प्र० ५५
उवउत्त	द्वि० १८६
उवओग	प्र० १४३, च० २१.
उवओगगुण	प्र० ३०६. /
उवओगनिवृत्ति	च० ९३.
उवओगलक्खण	प्र० ३०९.
उवओगाया	तृ० २९४.
उवक्कमिआ	प्र० १३२.
उवपरणद्वोमोयरिया	च० २७६.
उवज्जायपडिणीय	तृ० ९३, १८३.
उवभोगपरिभोगपरिमाण	तृ० ९
उवमिय	द्वि० ३२२.
उवरिसगेविज्जय	प्र० १०८.
उववाइय	च० २७७.
उववाय	प्र० १०७
उववायविरहकाल	प्र० २२२
उववायसभा	प्र० २९९, द्वि० १७, २९, च० ५३.
उवसमिअ	च० २७३ च० ३२
उवसामग	च० २७३.
उवसतकसाअ	प्र० १२७.
उवसतकसाइ	तृ० १३६.
उवसतमोह	द्वि० १८७
उवसतवेद	तृ० १३६
उवहि	च० ६४.
उवहीपच्चक्खाण	च० ३७
उव्वट्ट	प्र० १७६
उत्तिण	तृ० १९९
उत्तिणपरिसह	तृ० ९८
उत्सपिणी	प्र० २२७, द्वि० ५२, ११५, २४८, ३२३, च० ११६.
ऊ	
ऊसात्त	द्वि० ३२१
ऊसात्तनीसात्त	द्वि० ३२१.
ए	
एगओ(यओ)खहा	च० २१३.
एगओ(यओ)वंका	च० २१३.

ना०	पृ०
एगुणककलद	प्र० ५९.
एगुणकालय	द्वि० २२०, च० २२३
एगुणसोमाद	द्वि०, २१९, २२१ च० २२२.
एगंतदंड	तृ० ७
एगंतपंदिअ	प्र० १८९ तृ० ७.
एगतवाल	तृ० ७, ११, च० ३३, ७१.
एगिदिअदेस	प्र० ३१०.
एगिदियपदेस	प्र० ३१०.
एयणा	च० ३५.
एसणा	प्र० २८२.
एसणासमिअ	प्र० २३९.
एसणिज	प्र० २१०.

ओ

ओगाहणाठाणाडय	द्वि० २२२.
ओगाहणानामनिअत्ताडय	द्वि० ३३१.
ओगगद	प्र० २७८.
ओदइय	च० २३९.
ओमोदरिया	च० २७६
ओराल	तृ० ३३२.
ओरालिय	प्र० ११५ तृ० १९०, च० ३
ओरालियपोगलपरियट	तृ० २७१.
ओरालियमीसय	तृ० ३३२.
ओरालियसरीर	द्वि० २६० च० ३, ४, ९९.
ओरालियसरीरकरण	च० ९३.
ओरालियसरीरचलणा	च० ३६.
ओसपिणी	प्र० २२७, द्वि० १५५, २४८, ३२३, तृ० २०, च० ११६, ०३८.
ओहारिणी	प्र० २९१
ओहि	प्र० १५२ द्वि० ५७, च० २७
ओहिअन्नाणि	तृ० ३०२.
ओहिणाणि	द्वि० २८१.
ओहिदंसणपञ्च	प्र० ३०९.
ओहिदसणि	द्वि० २८०, तृ० ३०२.
ओहिनाणपञ्च	प्र० ३०९.
ओहिनाणलदि	द्वि० १०१, १०२.
ओहिमरण	तृ० ३३२, ३३३.

क

कङ्कमवेयणिज	तृ० १९, ३१२.
कडजुम्म	च० ५९
कडजुम्मकडजुम्म	च० ३३८
कडजुम्मतेओग	च० ३३८.
कडजुम्मदावरजुम्म	च० ३३८
कडजुम्मकडियोग	"
कण्हपकवीय	च० २८६, ३०३, तृ० ३०१
कण्हवाइ	द्वि० ३०७
कण्हलेस (स्स)	प्र० ७८, १०२, २०१, द्वि० ९०, तृ० ७१, २७७, च० ३४, ९९, ३८६.
कतिकिरिय	च० ३१
कतिसंन्धिय	च० १२१, १२२.
कणातीतगवेमाणिय	तृ० ४३.

ना०	पृ०
कपोनयसिअ	प्र० १९०.
कम्मा	प्र० ८, द्वि० २००, २२५, च० ९९.
कम्माआरीविस	तृ० ५६, ५७.
कम्मकटा	प्र० १७४.
कम्मकरण	द्वि० २५८.
कम्मग	प्र० २०२.
कम्मगगरीरकरण	च० ९३
कम्मट्टिनि	तृ० २७६.
कम्मण	प्र० २०२.
कम्मत्ता	प्र० ५५.
कम्मादव्यवगणा	प्र० ५४.
कम्मनिव्यसि	च० ९१.
कम्मनिसेअ	द्वि० २०६.
कम्मपगटी	प्र० १३१, द्वि० १७३, २७५, तृ० ९७, च० ७.
कम्मपइट्टिय	प्र० १७९.
कम्मभूमि	च० १९६, २६३.
कम्मय	तृ० १९०, ३३२, च० ३.
कम्मसरीरचलणा	च० ३६.
कम्मविटसग्ग	च० २८२.
कम्ममंगहिअ	प्र० १७०.
कम्मापोगलपरियट	तृ० २७१.
कम्मिया	प्र० २८०, तृ० २७६.
कम्मोनचय	द्वि० २७३, २७४
कायकिरेस	च० २७७.
करण	प्र० २३९.
करणसय	च० ३७
कटाणफलविवागसज्जत	तृ० ३८.
कट्टिओग	च० ५९, २१५, ३११.
कट्टियोगकट्टजुम्म	च० ३३८.
कट्टियोगकट्टिओग	"
कट्टियोगतेओगे	च० ३३८.
कट्टियोगदावरजुम्म	"
कसायकरण	च० ९४.
कसायकुसील	च० २४१.
कसायनिव्यसि	च० ९१
कसायपञ्चरसाण	च० ३७
कसायपट्टिसलीणया	च० २७७
कसायविटसग्ग	च० २८२.
कनायसमुग्घाय	प्र० २६१, च० ८२, च० २५९
कसायाया	तृ० २९४.
काइया	प्र० १९२, तृ० ७९, च० ३०.
काटलेस	प्र० १०२, १५१, द्वि० ९०, तृ० ३०१, च० ५४.
काम	तृ० २३.
कामकरिय	प्र० १८३.
कामपिवासिअ	प्र० १८३
कामी	तृ० २४.
कायकरण	द्वि० २५८.
कायशुत	प्र० २३९.
कायजोय	प्र० १५१, च० ३.

ना०	पृ०
कायजोगचलणा	च० ३६.
कायजोगनिव्यसि	च० ९३.
कायजोगि	प्र० १५१, तृ० ३०२, च० ८१.
कायपट्टिसलीणया	च० २७८.
कायप्ययोग	द्वि० २७३
काययोमि	प्र० १५५
कायविगय	च० २७८.
कायसमधाट्टरणया	च० ३७.
कायगमिअ	प्र० २३९.
कायसुण्णिहाण	च० ६५.
काल	प्र० १३, द्वि० १२३, १२६.
कालकरण	च० ९३.
कालयुगया	तृ० ३५५.
कालपरमाणु	च० ११२.
काट्टियणा	च० ३५
काललेम	तृ० २५८
कालगाल	द्वि० १२२.
कालनिपत्त	तृ० ५.
कालट्टिस	द्वि० २३३, २८६.
किअर	प्र० २७७, द्वि० १२३.
किअरियिया	प्र० ११०.
किआहार	तृ० ३५२.
किपुरिग	प्र० २७७.
किरिया	प्र० ९५, द्वि० ७३, ७५, ७६, च० ९, ३०.
काजीवणाओसिअ	द्वि० ७४.
काजुरयसायकिरिया	द्वि० ७४.
काजुरिअ	द्वि० ७४.
अनकिरिया	द्वि० ७६
काइशा	द्वि० ७४, २७६.
काजीवणाओसिअ	द्वि० ७४.
कट्टिसत्तसायकिरिया	द्वि० ७४.
निव्यसिगाहिरणकिरिया	द्वि० ७४.
नहयणादानायकिरिया	द्वि० ७४.
परहृत्ययाणदानायकिरिया	द्वि० ७४.
परहृत्यपारिआवणिया	द्वि० ७४.
नहृत्यपारिआवणिया	"
पाओसिअ	द्वि० ७४.
पागाइवायकिरिया	द्वि० ७४, २०६.
पारिआवणिया	द्वि० ७४.
संयोजणाहिरणकिरिया	द्वि० ७४.
किरीयावादि	च० ३०२.
किजोगिअ	तृ० ३५२
किठितिय	तृ० ३५२.
किपरिणाम	तृ० ३५२.
किपुरिम	द्वि० १२३
कीयगट	द्वि० २०९
कुत्तियावण	तृ० १७३.
कुलगर	द्वि० १९५
कुलपरिणीय	तृ० ९३.
कुसील	च० २४०.
कुडागारदिव्हंत	च० ५१.
केवलणाण	प्र० १५९.

श०	पृ०
केवलणापी	द्वि० २८१.
केवलणापज्व	प्र० ३०९
केवलदंसणपज्व	प्र० ३०९
केवलदंसणी	द्वि० २८०.
केवलिपञ्च	प्र० २३७.
केवलिसमुग्घाय	प्र० २६१, च० २५९
केवलि	द्वि० १७०, १८८, ३४७, तृ० २५, च० ७२
केवलीउवासग	द्वि० १८३, तृ० १२८.
केवलीउवासिया	द्वि० १८३, तृ० १२८.
केवलीसावय	द्वि० १८३, तृ० १२८
केवलीसाविया	द्वि० १८३, तृ० १२८
केसरिआ	प्र० २३२
केसवाणिज	तृ० ८३
कोरव्व	च० ११८
को(ल)वाल	द्वि० १२२
कोसल	तृ० ३८७
कोहकसाइ	तृ० ३०२
कोहवसट्ट	तृ० २६०
कोहविवेग	तृ० १९, ३९, २७६. च० ३४, ३७.
कोहोवउत्त	प्र० १४४
कंखपओस	प्र० ८, २३२.
कंखामोहणिज	प्र० ११३
कंतारभत्त	द्वि० २०९.
कंदप्प	द्वि० ११५.
कुंभ	द्वि० ११६

ख

खइथ	च० २७३
खओवसम	प्र० १२४.
खओवसमिअ	प्र० १२७ च० २०३.
खमा	च० ३७
खमापणया	च० ३७
खवग	च० २७३
खस्सर	द्वि० ११६.
खहयर	तृ० ४३.
खित्तियणा	च० ३५.
खीणकसाइ	तृ० १३६.
खीणमोह	द्वि० १८७.
खीणवेद	तृ० १३६.
खुट्टाजुम्म	च० ३११.
खुट्टागकळजुम्मनेरइय	प्र० ३११.
खुट्टागतेओगनेरइय	प्र० ३११.
खुट्टागकलओगनेरइय	प्र० ३११.
खुट्टागदावरजुम्मनेरइय	प्र० ३११.
खेत्तट्टाणाउय	द्वि० २२२.
खेत्ततुल्लय	तृ० ३५५.
खेत्तातिकंत	तृ० ५.
खेत्तादेस	द्वि० २३३.
खेत्तपरमाणु	च० ११२.
खेत्तल्लोय	तृ० २२८.

श०	पृ०
खेत्तावीचियमरण	तृ० ३३२.
खंथ	प्र० २१५, तृ० ३४७
खंधदेस	प्र० ३१०.
खंधपएस	प्र० ३१०.

ग

गणपडिणीय	तृ० ९३
गणहर	प्र० १४
गतिपरिणाम	तृ० ३
गतिनामनिहत्ताउय	द्वि० ३३१.
गन्भवकंतिय	तृ० ४३
गरुअलहुअपज्व	प्र० २३५.
गरुयत्त	तृ० २५८.
गरुल	प्र० २७७
गिद्धपट्ट	प्र० २३७
गिलाणपडिणीय	तृ० ३.
गिलाणभत्त	द्वि० २०९.
गीअजस	द्वि० १२३
गीअरइ	द्वि० १२३.
गुण	तृ० ८१
गुणरयणसवच्छर	प्र० २५८
गुत्त	प्र० २३९.
गुत्तवंभयारि	प्र० २३९ द्वि० ७८
गुत्तिय	प्र० २३९
गुरुयलहुअ	प्र० २००.
गंधकरण	च० ९४
गंधपज्व	प्र० २३५.
गंधव्व	तृ० ४३.

घ

घणवाय	प्र० १६८, च० ४३.
घणवायवल्लय	च० ४३.
घणोदहि	प्र० १६८
घाइ	प्र० १२४
घोरतवसिम	प्र० ३३
घोरवंभचेरवासि	प्र० ३३
घोस	द्वि० १२३

च

चउक्किय	तृ० ८७.
चउट्टाणवडिअ	प्र० ९८.
चउत्थमत्त	प्र० ६८, च० ९०.
चउत्थंचउत्थ	प्र० २४१.
चउनाणोवगअ	प्र० ३३
चउपएसिअ	द्वि० २१४, तृ० २६२, च० ३०२
चउरस	च० २०४, २०७, २०९
चउरिदिय	प्र० ७३, च० १९८
चउवीसइमंचउवीसइम	प्र० २४१.
चक्क	प्र० २४, द्वि० ११९
चक्कवाल	च० २१३, ३२५
चक्खिदियवसट्ट	तृ० २६०
चक्खुदंसण	च० ३४, ९९.
चक्खुदंसणी	द्वि० २८०, तृ० ३०२.
चउक्किय	प्र० १११
चमर	द्वि० ३, ५, ४७, १०६ १२७, १२२.

श०	पृ०
चरण	प्र० २३९.
चरम	तृ० ३३९.
चरित्तपडिणीय	तृ० ९३
चरित्तमोह	प्र० ६५
चरित्तमोहणीज	द्वि० १७२ तृ० ९७.
चरित्तलद्धी	द्वि० ६६
चरित्तलद्धीय	तृ० ६८.
चरित्तविणय	च० २७८.
चरित्तसंपन्न	प्र० २७८.
चरित्तसंपन्नया	च० ३७.
चरित्ताचरित्त	प्र० ८०.
चरित्ताचरित्तलद्धी	तृ० ६६.
चरित्ताचरित्तलद्धीय	तृ० ६९.
चरित्ताया	तृ० २९४
चरित्ताहारणा	तृ० १९८
चरिम	द्वि० ३४, २८२ तृ० ३०३, च० ८८, ३९३ च० ४८, ५१.
चरिमकम्म	द्वि० १८४.
चरिमणिजरा	द्वि० १८४
चलणा	च० ३६.
चवला	द्वि० २८.
चाउज्जाम	प्र० २०७ द्वि० २५० च० ११६, २६०.
चारण	च० ११८.
चारित्तपज्व	प्र० २३६
चित्त	द्वि० १२३, च० ५१.
चित्तपक्ख	द्वि० १२२.
चित्तासुविण	च० १५
चुलसीतिसमजिअ	च० १२५.
चूअवडेंसय	द्वि० ११०.
चूळिअ	द्वि० १५३
चूळिअग	द्वि० १५३
चैयकड	च० ६.
चोत्तीसइमंचोत्तीसइम	प्र० २४१.
चोदसपुवि	प्र० ३३, द्वि० ११०.
चंडा	द्वि० २८, १२७
चंपयवडेंसय	द्वि० ११०.

छ

छठमत्थ	प्र० ४८, द्वि० १६९, १७२, १९३, तृ० २७ ५८, २५, ३६५ च० ७२
छउमत्थकालिय	द्वि० ५६, च० १७.
छक्कसमजिअ	च० १२२.
छक्कीवी	प्र० २९८.
छट्टभत्त	प्र० ७४, च० १०
छट्टंछट्ट	प्र० २४१, द्वि० १७, २६, ५६, च० ९
छप्पएसिअ	तृ० २६३ च० १०५
छन्न	च० २७४.
छाउमत्थअसमुग्घाय	प्र० २६१.
छुहापरिसह	तृ० ९८.
छेओवट्टावणासंजय	च० २६९.

श०	पृ०	श०	पृ०	श०	पृ०
छेदारिह	च० २७६.	णडअ	दि० १५३	निरिगिय	प्र० १९१, वृ० ८५.
छेवट्ट	प्र० १५८.	णडअंग	दि० १५३	तिन्य	प्र० १४, च० २६३.
छंदणा	च० २७५.	णडअत्त	दि० ११०.	तिरयगर	प्र० १८.
	ज	णयतर	प्र० १२५.	तिपएमिअ	दि० २१४, २१६, २१७, २१८, वृ० २६० च० १०१.
जइणा	दि० २८	णरअ	प्र० ३३	तिरिक्काअमधिआउअ	प्र० १११.
जत्ता	च० ७५	णागडुमार	प्र० ७५.	तिरिक्काजोगियअउअ	च० ३६.
जन	दि० १२२, १२४, १३०, १०९, ११५	णाग	प्र० ७९, दि० १७०, वृ० ५९, ७४.	तिरिक्काजोगियपवेमण	वृ० १५५
जनकाडय	दि० ११५	णागअंमणधर	प्र० १३७	तिरिक्काजोगियाउअ	प्र० १११.
जना	वृ० १८९.	णागनिव्वत्ति	च० ९०	तिरिक्कासंगारसंविट्टणाल	प्र० १०५.
जयणावरणिज	वृ० १३०.	णाणपन्नव	प्र० २३६	तिमियमत्तय	वृ० ६८.
जरा	च० ५	णाणलद्धि	वृ० ६५.	तिरिमाउय	प्र० ९९, १११
जल	दि० १२३.	णाणसंपन्नया	च० ३७	तिमइमतिउदम	प्र० २४१
जलकंत	दि० १२३	णाणारणिज	दि० २७६, २८०.	तीतद्धा	च० २३८.
जलपम	दि० १२३.	णाणी	च० ४७	तुरिअगइ	दि० १२३
जलएअ	दि० १२३.	णिओद	च० २३९.	तुरिया	दि० २८
जवगिज	च० ७५	णिद्धायण	प्र० ५४.	तेइदिस	प्र० ७३ च० १९८.
जाडगोयनिहत्त	दि० ३३१.	णिद्धाति	प्र० ५४.	तेउ	प्र० ७३, दि० १२३
जाहगोयनिहत्ताउय	दि० ३३१.	णिद्धायिसु	प्र० ५४.	तेउअ	प्र० २६२.
जाइणामनिउत्त	दि० ३३१	णिकायेस्सति	प्र० ५४.	तेउअंन	दि० १२३.
जाइणामगोयनिउत्त	दि० ३३१	णिजरा	वृ० १३.	तेउप्पम	दि० १२३.
जाइणामगोयनिउत्ताउय	दि० ३३१.	णिजंरति	प्र० ५४.	तेउयाअ	प्र० ३०४.
जागर	च० १६	णियंठ	च० २४०	तेउलेम(स्य)	वृ० ३९, च० ४२, प्र० ७८, दि० ९०.
जागरियत्ता	वृ० २५९	णिहत्तग	प्र० ५४	तेउरेम्मा	प्र० १०० च० २९०.
जातिआसंमिनि	वृ० ५६	णिहत्तिसु	प्र० ५४	तेउसीह	दि० १२३.
जायणा	वृ० ९८	णिहत्तिसुत्ति	प्र० ५४	तेओगकटजुम्म	च० ३३८
जायखुवडंसय	दि० १३१	णेरइअचमारसंविट्टणाल	प्र० १०५, ५३.	तेओगकटिओय	" "
जाना	दि० १२७.	णेरइआउअ	प्र० १८९	तेओगदावरजुम्म	" "
जोय	वृ० ९४.		त	तेओगतेओग	" "
जोव	प्र० ४, दि० ३४४, च० ३४	तणुवाअ	प्र० १६० वृ० २७७, च० ४२.	तेओगम्मत्ता	प्र० ५५.
जीवत्तिकाय	प्र० २००, वृ० ३१५, च० १८, २३६.	तणुवायवलय	च० ४२	तेअय	प्र० १४९
जीवद्व	च० २०१.	तत्तिल्वज्जनाण	प्र० १८३	तेअलेस्सा	प्र० ३३, वृ० ३६४
जीवनिव्वत्ति	च० ९३.	तटुमयकट	च० ३९	तेआपोगलररियट्ट	वृ० २७१.
जीवपन्न	च० २३५.	तटुममारिह	च० २७५.	तेओय	च० ३११.
जीवप्पयोगबंध	च० १९४.	तटुमयप्पयोगनिव्वत्तिय	च० ३	तंस	च० २०७, २०९.
जीवाया	च० ३४.	तटुमयाहिकरणी	च० ३	तहवार	च० २७५
जुगंतरपलोयणा	प्र० २८१.	तपन्निखडवात्तिया	दि० १८३.		श
जुम्मा	च० २९५	तपन्निखडवात्तिया	दि० १८३.	धणियडुमार	प्र० ३०४, दि० १४, १७, १२३, २२६.
जोइस	दि० २२७, २४७	तपन्निखडवात्तिया	दि० १८३		
जोइसिय	प्र० ५६, दि० १४, ९०, २५३, वृ० ३०७.	तमत्तमा	दि० ३१५.	धणियडुमारी	दि० ११७.
जोगनिव्वत्ति	च० ९३.	तमा	वृ० १८९, ३०५	यालपाणय	वृ० ३८८.
जोगपन्नकसाण	च० ३७.	तमुनाय	दि० ३०२ वृ० ३४४.	धेर	प्र० २०६.
जोगपट्टिसुलीणया	च० २७७	तयापाणय	वृ० ३८८	धेरपडिणीय	वृ० ९३.
जोगसन्न	च० ३७.	तव	च० २७४	धोव	दि० ३२१, च० २३६.
जोणी	दि० ३१८, वृ० १९१.	तवस्तिपडिणीय	वृ० ९३		द
जोय	च० ३१	तवारिह	च० २७५	दअत्त	वृ० २६०.
अंधाचारण	च० ११९, १२०	तव्विरीय	च० १५.	दत्ति	प्र० २५५.
अंतपीलाकम्म	वृ० ८३.	तनकाय	प्र० २१०	दप्प	च० २७४.
अंजुवीव	प्र० ३१३.	तसपाणसमारंम	वृ० ३	दरिसणावरणिज	दि० १७३, २७६, २८७.
अंमय	वृ० ३१६.	तस्सेवी	च० २७४	दनियाया	वृ० २९४.
		तायतीसय	दि० ३, ३७, वृ० १९६.	दव्व	प्र० ३, च० २०१.

श०	पृ०
द्वक्करण	च० १३.
द्व्वमिगदावणभा	तृ० ८३.
द्व्वद्वगणालय	द्वि० २२२.
द्व्वद्विअ	प्र० २०८.
द्व्वपएस	प्र० १६८.
द्व्वपरमाणु	च० ११२.
द्व्वबंध	च० ५६.
द्व्ववेयणा	च० ३५.
द्व्वलेखा	प्र० २०१.
द्व्वल्लेय	तृ० २२८.
द्व्वविउसग	च० २८२.
द्व्वदिदितियमरण	तृ० ३३३.
द्व्वदेस	द्वि० २३३.
द्व्वामिगहचरय	च० २७७.
द्व्ववीचियमरण	तृ० ३३२.
द्व्विदिय	प्र० १८१.
द्व्वोमोयरिया	च० २७५.
द्व्वोहिरण	तृ० ३३३.
द्व्वपएसिय	च० १०८.
द्व्वमभत्त	च० ९०.
द्व्वमंदसम	प्र० २४१.
दाणामा	द्वि० ५५.
दावरजुम्म	च० ५९.
दावरजुम्मकडजुम्म	च० ३३८.
दावरजुम्मकलियोग	" "
दावरजुम्मतेओय	" "
दावरजुम्मदावरजुम्म	" "
दिद्विप्पहाण	प्र० ६१.
दिद्व	च० २७४.
दिद्वीकरण	च० ९४.
दिसा	तृ० १८८, द्वि० ११९, १२३
दिसाकुमार	द्वि० ११९.
दिसाकुमारी	द्वि० ११९.
दिसिन्वय	तृ० ९.
दीवकुमार	द्वि० ११९, १२३, च० २७.
दीवकुमारी	द्वि० ११९.
दीवसमुद्	द्वि० ३३४, तृ० ८८.
दुक्ख	तृ० ४.
दुक्खि	तृ० ४.
दुगुणकालय	च० २२३.
दुपच्चकखाण	तृ० ७.
दुपएसोगाड	च० २२२.
दुप्पएसिअ	द्वि० २१४, २१६, २१७, २२१, तृ० २६०, च० १०८.
दुप्पणिहाण	प्र० १२२, च० ६५.
दुब्बिक्खभत्त	द्वि० २०९.
दुल्लभवोहि	द्वि० ३४.
दुसमदुसमा	द्वि० ३२३, तृ० २०.
दुसमसुसमा	द्वि० ३२३.
दुसमा	द्वि० ३२३.
दुदुओसहा	च० ३२५.
दुदुओलोगपडिणीय	तृ० ९३.

श०	पृ०
दुहओर्वका	च० २१३, ३२५.
देवअसन्निआउअ	प्र० १११
देवकिञ्चिसय	तृ० १८२.
देवपचेसण	तृ० १५६.
देवभवत्थ	तृ० ६४.
देवसंसारसंविद्वणकाल	प्र० १०५
देवाउय	प्र० १०९.
देवाधिदेव	तृ० २८९
देविदोभगह	च० ५
देसपच्चक्खाण	प्र० १९०
देसमूलगुणपच्चक्खाण	तृ० ८.
देसमूलगुणपच्चक्खाणि	तृ० ९
देसावगासिय	तृ० ९
देसुत्तरगुणपच्चक्खाण	तृ० ९.
देसुत्तरगुणपच्चक्खाणि	तृ० ९.
दोसालोयणा	च० २७४.
दंतवाणिज्जकम्म	तृ० ८३.
दंसण	प्र० ७९, द्वि० १७०, तृ० ९३.
दंसणंतर	प्र० १२५.
दंसणपज्जव	प्र० २३६.
दंसणपरिसह	तृ० ९७.
दंसणमोह	प्र० ६५.
दंसणमोहणिज्ज	प्र० १३३, तृ० ९७, च० ११६.
दंसणलद्धी	तृ० ६५
दंसणलद्धीय	तृ० ६८
दंसणवावज्जग	प्र० १०८.
दंसणविणय	च० २७८.
दंसणसपज्ज	प्र० २७८.
दंसणसपज्जया	च० ३७.
दंसणाया	तृ० २९४.
दंसणाराहणा	तृ० ११८
दंसणावरणिज्ज	प्र० १३३
घ	
घणियवं वणवंध	च० ५७
घम्म	तृ० १२८, च० २०१
घम्मजागरिया	प्र० २४२.
घम्मत्थिकाय	प्र० २००, तृ० ३०५, च० ५८, ९७, ९८, २१६, २३५
घम्मत्थिकायपदेस	प्र० ३०६.
घम्मदेव	तृ० २८८.
घम्मवरत्ताउरंतक्कवट्टि	प्र० १८.
घरण	द्वि० १३, १२२.
धारणा	तृ० ५९, ९४, २७७, च० ३४, ९९
धुवराहु	तृ० ३८०.
धूमप्पभा	तृ० ३०५.
च	
चुंसकवेदग	तृ० ३०२
चुंसकवेदकरण	च० ९४.
चुंसगपच्छाकड	तृ० ९५.
चय	प्र० २३१.
चयप्पहाण	प्र० २८६.

श०	पृ०
चरदेव	तृ० २८८.
चल्लिण	द्वि० १५३.
चल्लिणंग	द्वि० १५३.
चवपएसिय	च० १०८.
चाग	प्र० १४२.
चागकुमार	प्र० ६८, द्वि० ११७, च० ४३, ६१.
चागकुमारी	द्वि० ११७.
चाणपडिणीय	तृ० ९३.
चाणाया	तृ० २९४.
चाणलद्धिय	तृ० ६६, ७०.
चाणाराहणा	तृ० ११८.
चाणावरणिज्ज	च० ३४, ९९, ११५, च० २८७.
चाणावरणिज्जोदय	च० ११५
चाणि	तृ० ६०, च० ८१.
चाणविणय	च० २७८.
चाणंतर	प्र० १२५
चारयभवंतर	प्र० १०७.
चारय	प्र० ३४.
चागोअ	प्र० १०७
चागंध	प्र० ३३.
चाच्छइयनय	च० ६२.
चाच्छयप्पहाण	प्र० २८६.
चाज्जरा	प्र० २७७, तृ० १३, ८४.
चाज्जरापोगल	च० ५६, ५८.
चाज्जरासमय	तृ० १४.
चाज्जरिज्जमाण	प्र० ४१.
चाज्जिण	प्र० ४१.
चात्थारिअ	प्र० २३८.
चाप्पच्चक्खाण-पोसहोववास	तृ० २२.
चांमंतणा	च० २७५
चायंठ	प्र० २२८, च० २४१.
चाय	प्र० १४१.
चायभवत्थ	तृ० ६४.
चायवाल	द्वि० ११५
चायवासा	प्र० १४१.
चायिहिकरणी	च० ३
चायक्कम	च० १२१
चायक्कमाउय	च० १२०.
चायंरणया	तृ० ३.
चायल्लणकम्म	तृ० ८३.
चाय्वेय	च० ३७.
चाय्विगितिय	च० २७७.
चायहत्त	प्र० १८४.
चायसंगया	तृ० ३.
चायिहिया	तृ० ९८, च० २७५
चायि(नी)हारिय	प्र० २३७, च० २७६
चायिल्लेस(स्स)	प्र० ७८, ११२, द्वि० ९०, १३५.
चायइ(ति)य	प्र० ८, द्वि० १३३, १६७, २३९, तृ० ४०१, ३४८, च० ६१.
चायइयअसन्निआउअ	प्र० १११
चायइययेत्तेयणा	च० ३६
चायइयद्व्वेयणा	च० ३६

श०	पृ०	श०	पृ०	श०	पृ०
नेरइयपवेक्षण	तृ० १३८	मासा०	द्वि० १७, ३०.	परिनिष्कृत	प्र० २०८.
नेरइयात्तय	प्र० १११.	मण०	"	परिमंदल	च० २०४, २०८, २०९.
नोईदियचारणा	तृ० ५९.	पञ्च	प्र० १६८, च० २३५.	परिमंदलसंठाणकरण	च० ९८.
नोईदियोवत्त	तृ० ३०२.	पडिक्कत	प्र० २४६.	परिषह	प्र० २०, तृ० ९७.
नोक्कामीण	तृ० २५.	पडिवमणारिह	च० २७६.	परिमहवत्तिय	प्र० १७९
नोईदियजवमिळ	च० ७५, ७६.	पडिपुच्छा	च० २७५.	परिहारविसुदियसंजय	च० २६२, २६३.
नोचुलसीतिसमजिय	च० १२४.	पडिमापडिवनय	द्वि० २६०.	परोवकम्म	च० १०१
नोछक्कसमजिय	च० १२२	पडिसेवणा	च० २७४.	पुरिमवेदकरण	च० ९४
नोपञ्जतगा-नोथपञ्जतग	तृ० ६४.	पडिसेवणाकुसील	च० २४०.	पुरिमवेदग	तृ० ३०२.
नोपञ्जतय-नोथपञ्जतय	द्वि० २८१	पडिसेवय	च० २६३.	परंपरचेत्तोगाट	द्वि० ३४६.
नोपरित्त-नोथपरित्त	द्वि० २८१.	पडिसलीपया	च० २७७.	परंपरचेदोववन्नग	तृ० ३४१
नोयारससमजिय	च० १२५.	पनिहाण	च० ६५	परंपरनिग्गय	तृ० ३४१
नोमवत्तिदिय-नोअमवत्तिदिय	द्वि० २८०, तृ० ६५.	पणीय	द्वि० १८६.	परंपरपञ्जतग	तृ० ३०३, च० २९३.
नोभोगीण	तृ० २५.	पणीयरसविज्जय	च० २७७	परपरचंघ	च० ११४.
नोसज्जी-नोथसज्जि	द्वि० २८०	पम	द्वि० १२३.	परंपरसिद्ध	च० २२०.
नोसज्जोवत्त	च० २७०, २८६.	पमकंत	द्वि० १२३.	परंपरागम	द्वि० १८३
नोसुहुम-नोवाद्द	द्वि० २८२.	पमंजण	द्वि० १२३.	परंपराहार	तृ० ३०३.
नोसज्जय-नोअसंजय	द्वि० २७९.	पमत्त	प्र० १२९	परंपरोगाहय	च० २९२.
नोसज्जा-संजय	द्वि० २७९.	पमत्तजोग	प्र० ७७.	परंपरोवगाट	द्वि० १८६, तृ० ३०३, ३४०.
नट्ठिआवत्त	द्वि० १२३.	पमत्तसंजम	द्वि० ८१.	परंपरोववन्नग(य)	तृ० ३०३, च० २९१.
	प	पमत्तसंजय	प्र० ७६, द्वि० ८१.	पडिओवम	प्र० ७५, द्वि० ११६, १२०, १५३, ३२२ च० २३७,
पटल	द्वि० १५३.	पमाणकाल	तृ० २३४	पवयण	च० ११८
पटलंग	द्वि० १५३.	पनाणातिकंत	तृ० ५.	पवयणमाइया	प्र० १३७
पट्टपरिहार	तृ० ३८१, ३८२.	पमाट	प्र० १२०, च० २७४.	पवेक्षण(य)	तृ० १३८, च० १२१.
पटम	द्वि० १५३.	पम्हलेत्त	द्वि० ९०.	पच्चराहु	तृ० २८०.
पटमंग	द्वि० १५३.	पयाण	च० १५	पसत्यन्नायविणय	च० २८०
पएसकम्म	प्र० १३३.	पयोगबंध	द्वि० १०१.	पमत्थनिज्जरा	द्वि० २५६
पएसवग	प्र० ८१.	पयोगसा	द्वि० २७२	पसत्थवयपिणय	च० २८०.
पएसनामनिहत्तात्तय	द्वि० ३३१.	परकम्म	च० १२१	पाओवगमण	प्र० २३७, द्वि० २८, ५५
पओग	प्र० ११७.	परप्पयोग	च० १२१.		च० २७६
पओगपरिणय	तृ० ४१, ४३, ४८.	परप्पयोगनिव्वत्तिय	च० ३.	पाटत्तिया	प्र० १९२.
पओगबंध	च० ५६, ५७	परमवियात्तय	च० २८३	पाओवगमरण	तृ० ३३४
पओत्त	च० २७४.	परमा	च० ८८.	पाण	प्र० ६९, तृ० ३८७.
पकामनिकरण	तृ० २६.	परमाणु	च० ११२	पाणय	प्र० १४३, द्वि० २१, तृ० ३५३.
पगडि	प्र० १३१.	परमाणुपोगगल	प्र० २१३, द्वि० २१३, २१६, २१७, २१९, २२१, तृ० ३४८, २६२ च० २५, ५८, ७१, ७४, १००.	पाणाइ(ति)वाय	प्र० १६५, तृ० १९, २७४, च० ३४, ३८, ५८, ९९
पच्चन्खाण	द्वि० २९८, तृ० ८, ८१.	परमाहोहिय	प्र० १३७, तृ० २५, ३६५, च० ७२	पाणाइवायकरण	च० ९४.
पच्चन्खाणनिव्वत्तियात्तय	द्वि० २९९	परलोगपडिणीय	च० ९३	पाणाइवायकिरिया	च० २.
पच्चन्खाणफल	प्र० २८३	परदिक्कणी	च० ३.	पाणाइ(ति)वायचेरमण	प्र० १९९, तृ० १९ ३९, २७६, च० ३४, ५८, ९९.
पच्चन्खाणापच्चन्खाण	द्वि० २९८.	परिग्गह	तृ० २७५, च० ६५	पाणाम	प्र० २२४.
पच्चन्खाणापच्चन्खाणनिव्वत्तिमाटय	द्वि० २९८.	परिग्गहचेरमण	तृ० १९, ३९, २७६ च० ३४.	पाणामा	द्वि० २६, २७.
पच्चन्खाणापच्चन्खाणि	द्वि० २९८.	परिग्गहसत्तापरिणाम	तृ० ३४६	पाण	द्वि० ३२१.
पच्चन्खाणि	द्वि० २९८.	परिग्गहसत्तावत्त	तृ० ३०२ च० २८६	पायच्छित्त	प्र० २७९ च० २७४, २७८.
पच्चन्खायपावकम्म	प्र० ८४.	परिग्गहिया	द्वि० २०३.	पारचियारिह	च० २७५, २७८.
पञ्जत	प्र० १५२, द्वि० १८६, २८१, तृ० ४४, ६३	परिणय	च० १२	पावय	प्र० ३३.
पञ्चत्ति	प्र० १८३, द्वि० १७, ५७, च० १५, ४८.	परिणाम	प्र० १२४, द्वि० १३६, तृ० ३४८.	पावयणी	च० ११८.
आहार०	द्वि० १७	परिणामिळ	तृ० २७६, च० ३४, ९९	पासायवडिसय	प्र० २९८.
सरीर०	"	परित्तसत्तार	द्वि० ३४.	पिवासापरिसह	तृ० ९८.
इंदिय०	"			पिषाय	तृ० ४३.
आणपाण०	"				

श०	पृ०
पुढविकाय	द्वि० ३०२ च० ५८.
पुण्य	द्वि० १२३.
पुण्यभद्	द्वि० ११९.
पुण्यरक्ख	द्वि० ११९.
पुरिषकारपरकम	च० ९९.
पुरिसपच्छाकड	तृ० ९५.
पुरिसवेद	प्र० २७१
पुलाय	च० २४०
पुव्वपधोग	तृ० ४.
पुव्वपधोगपच्चइय	तृ० १०४.
पुव्वसंजम	प्र० २८०.
पोगगल	प्र० ५३, द्वि० ३, ६५, ९५, २७० तृ० १२४, ३४७
पोगगलकरण	च० ९४
पोगगलत्थिकाय	प्र० २००, च० ९९.
पोगगलपरिणाम	द्वि० २४६, तृ० १२०, ३४६.
पोगगलपरियुट्ट	तृ० २७१, च० २३६, ३३७, २३८.
पोगगलि	तृ० १२४.
पोसह	तृ० २५३, २५४.
पोसहोववास	तृ० ८१.
पंकप्पभा	तृ० ३०५
पंचकिरिय	प्र० १९१, तृ० ८७
पंचत्थिकाय	तृ० ३१५
पंचपपसिअ	द्वि० २१४, च० १०४.
पंचमहव्वइय	प्र० २०७.
पंचसुट्टिय	तृ० १७८.
पंचयाम	च० २६३.
पंडिय	च० ३३
पंडियमरण	प्र० २३७, तृ० ३३२, ३३४
पंडियवीरियत्ता	प्र० १३१.

फ

फलिहवडेंसय	द्वि० १३१
फासकरण	च० ९४.
फासिंदिय	तृ० २६०, च० ३
फासिंदियकरण	च० ९४.
फासिंदियचलणा	च० ३६
फासिंदियसवर	च० ३७.
फासिंदियोवउत्त	तृ० ३०२.
फासु-एसणिज्ज	तृ० ३
फासुपविहार	च० ७५, ७६
फोडीकम्म	तृ० ८३.

व

वउस	च० २४०.
वल	च० ९९.
वल्लि	प्र० ११, १२२, च० २६.
वहुजण	च० २७४
वाद(य)र	द्वि० २८२, च० २७४.
वादरअपज्जत्तम	च० १९८
वादरपज्जत्तम	च० १९८
वादर(य)परिणअ	द्वि० २२०, च० १०८

श०	पृ०
वारससमज्जिय	च० १२४
वालपंडिय	च० ३३
वालमरण	तृ० ३३२, ३३३.
वेईदियाअपज्जत्तम	च० १९८
वोहि	तृ० १२८, च० ५४.
बंध	तृ० ३
वधणपच्चइय	तृ० १०२.
वंभचेरवास	तृ० १२९.
वंभलोग-लंतग	च० ६९.

भ

भत्तपच्चक्खाण	च० ३७, २७६, ३३४.
भत्तपच्चक्खाय	तृ० ३५६
भत्तपाणद्वोमोयरिया	च० २७६
भयप्पओस	च० २७४.
भवकरण	च० ९३.
भवणवद्	प्र० २९५.
भवणवासि	प्र० ६९, द्वि० २७, २५२, तृ० ३०७
भवतुल्लय	तृ० ३५५.
भवधारणिज्ज	प्र० ९४९.
भवसिद्धि	द्वि० २८०
भवसिद्धिय	प्र० १६७, द्वि० ३४, २७४
भवसिद्धियनेरइय	च० २८४ तृ० ६४, २५८, ३०२, च० ६, ४६.
भवसिद्धियविरहिय	तृ० २५९.
भवियदव्वअसुरकुमार	च० ७३.
भवियदव्वदेव	तृ० ८८, २८९.
भवियदव्वनेरइय	च० ७२, ७३.
भवियदव्वपुढविकाइय	च० ७३
भवेयणा	च० ३५.
भाडीकम्म	तृ० ८३
भायणपच्चइय	तृ० १०२.
भाव	च० ३९, २६०
भावकरण	च० ९३.
भावट्टाणाउय	द्वि० २२२.
भावतुल्लय	तृ० ३५५
भावदेव	तृ० २८९
भावपरमाणु	च० ११२
भावबंध	च० ५६.
भावलेस्ता	प्र० २०१.
भावविउसग्ग	च० २८२.
भावसच्च	च० ३७
भावादेस	द्वि० २३३
भावियप्प	च० ७४
भावेयणा	च० ३५
भावोमोयरिया	च० २७६
भाविंदिय	प्र० १८१
भासय	द्वि० २८१
भासा	तृ० ३२४
भासाकरण	च० ९४
भासानिच्चत्ति	च० ९१.
भासामणपज्जत्ति	च० १५
भिक्षावरिया	च० २७७.

श०	पृ०
भिक्षुपडिमा	प्र० १४० तृ० १९२.
भीम	द्वि० १२३.
भुअपरिसप्प	तृ० ४३.
भुआणंद	द्वि० १२२.
भोग	च० १९८
म	
मइअच्चाण	तृ० ५९
मइअच्चाणनिच्चत्ति	च० ९२
मइअच्चाणपज्जव	प्र० ३०३.
मइअच्चाणी	द्वि० २८१, तृ० ३०२
मग्गातिर्कत	तृ० ५
मण	तृ० २७९, ३३०, च० ८१
मणकरण	द्वि० २५८, २५९, च० ९४.
मणगुत्त	प्र० २३९
मणजोगचलणा	च० ३६.
मणजोगनिच्चत्ति	च० ९३
मणजोगि	तृ० ३०२ च० ८१.
मण(पो)जोय	च० ३, ३४, ९९
मणहुप्पणिहाण	च० ६५.
मणनिच्चत्ति	च० ११.
मणपज्जत्ति	द्वि० ५७.
मणपज्जवणाण	प्र० ३०९
मणपज्जवनाणि	द्वि० २८१ च० २८९.
मणपज्जवनाणलद्धिय	तृ० ६७
मणप्ययोग	द्वि० २७३.
मणविणय	च० २७८.
मणसमनाहारणया	च० ३७.
मणसुप्पणिहाण	च० ६५.
मणुत्सजातिआसीविस	तृ० ५६.
मणुत्सप्पवेसण	तृ० १५६.
मणुत्सभवत्थ	तृ० ६४
मणुत्सससारचचिट्ठणकाल	प्र० १०५
मणोदव्ववरमणा	द्वि० १८७
मतिअच्चाण	च० ३४
मणुत्सअसज्जिआउय	प्र० १११
मरणकाल	तृ० २३४
मल्लइ	तृ० ३०, ३१.
महह्वीय	तृ० ३४६
महव्वय	प्र० १०९, २४३.
महाकप्पसय	तृ० ३८१.
महाकम्म	द्वि० २७०.
महाकम्मतराय	द्वि० २०५, तृ० ३९
महाकाय	द्वि० १२३
महाकाल	द्वि० ११६, १२३
महाकिरिय	द्वि० २७०, च० ८६
महाकिरियतराय	द्वि० २०५, तृ० ३९
महाघोस	द्वि० ११६, १२३.
महाजुम्म	च० ३३८
महानिच्चर	च० ८६.
महानिच्चरा	द्वि० २५६, २६०.
महानदीभावत्त	द्वि० १२३
महापज्जवणाण	तृ० २५

श०	पृ०	श०	पृ०	श०	पृ०
महापदिमा	प्र० २५५	मूलपगदिव्यं	च० ५७.	वटहरण	द्वि० २५८.
महापुरिस	द्वि० १२३.	मूलारिह	च० २७५.	वटजोय	द्वि० ३५१, च० ३.
महानीम	द्वि० १२३.	मेहुण	तृ० ३०२	वटजोगि	प्र० १५१, तृ० ३०२.
महावेद(व)ग	द्वि० २५६, २७०, २६०, तृ० १८, च० ८६.	मोह	प्र० १२४.	वटपौगलपरिवट	तृ० २७१.
महावेदगताराय	द्वि० २०५, २७०, तृ० १८, ३९, च० ८६.	मोहगिज	च० २८९ प्र० १३१.	वटप्पयोग	द्वि० २७३.
महासत्र	द्वि० २०५, २७० च० ८६	मोहपत्तिज	प्र० २८१.	वटरोसहनाराय	प्र० १५९.
महासत्रतराय	तृ० ३९.	मंडकजाइधार्त्तविच	तृ० ५६.	वटसमसाहरणया	च० ३७.
महासिलकंदय	तृ० ३०, ३१.	सुंदभाव	प्र० २०७.	वटसुप्तिहाण	च० ६५
महासुड	द्वि० १७९, च० ६९	र		वट	च० ८१.
महासुवि	च० १६, १७.	रइयग	द्वि० २०९.	वटगु	द्वि० १३०.
माडेलेच्छादिद्वीदववच	द्वि० १८६, च० १२	रक्ख	द्वि० १९९	वज्जिरिसहनारायसंयवण	प्र० ३३.
मागह	प्र० २३१.	रतिकरपव्वय	च० ५	वज्जि	तृ० ३०, ३१.
मागिमह	द्वि० १२३ (११९).	रत्तणप्पमा	द्वि० १३०, २४०, ३१५, ३२७.	वट	च० २०४, २०७, २०९.
माप्रुत्तरपव्वय	तृ० ११०.	रत्तणवडंसय	द्वि० १३१	वणकम्म	तृ० ८३.
माणोवडन	प्र० १४४.	रत्तकरण	च० ९४	वणपञ्चाव	प्र० २३५
मानामोस	प्र० १९९.	रत्तपरिचाय	च० २७७	वणत्तइकाइय	च० ५८.
मायावत्तिय	प्र० ९२, २३९, द्वि० २०३.	रत्तवागिज	तृ० ३	वट्टिगामत्त	द्वि० २०९.
मायोवत्त	प्र० १४४.	रत्तसुसल	तृ० ३३, ३१, ३२.	वदकरण	च० १४.
मारपंत्तियवद्विवासणया	च० ३७.	रावापिठ	द्वि० २९०	वदगुत्त	प्र० २३९.
मारपंत्तियसमुत्थाय	द्वि० ३१६, च० २५९, च० ४३, ८२.	रायोगह	च० ६	वदयोगिज्वत्ति	च० ९३.
मासखमण	प्र० २४२.	रावीजुम्म	च० ३६०	वदजोगि	च० ८१
माहिंद	द्वि० २१.	रावीजुम्मकडिओग	,, ३६३	वदविणय	च० २७८.
मिच्छतक्रिय	तृ० १६.	रावीजुम्मदावरजुम्म	,, ,,	वरण	द्वि० १०९, १२२, १२४, १३०, १९७. तृ० ३२, ३५.
मिच्छ(च्छा)दिट्ठि	प्र० ९२, १५१, द्वि० ३४ १०१, २८०, च० ८०.	रइ	द्वि० ११६	वरगकाइय	द्वि० ११७
मिच्छा	च० २७५.	रइगिंद	च० २६	वरगडेवकाइय	द्वि० ११७.
मिच्छादिद्वीनेरइय	च० २८४.	रवीअनीवद्व	च० २०१	ववहारपडिणीय	तृ० ३४.
मिच्छादिद्वीनिव्वत्ति	च० ९२.	रुअ	द्वि० १२३	वमत्तरण	प्र० २३७.
मिच्छादंशण	प्र० १५१.	रुअकंत	द्वि० १२३	वाउकाय	द्वि० ८७.
मिच्छादंशणवत्तिआ	प्र० ९२, द्वि० २०३.	रुअप्यम	द्वि० १२३	वाउकुमार	प्र० १४२, द्वि० १२३.
मिच्छादंशणलद्धीअ	तृ० ६८.	रुअंस	द्वि० १२३	वाणमंत	प्र० २९५.
मिच्छादंशणसत्र	प्र० १९९, तृ० ९९, च० ३४, ५८, ८१, ९९	रोइ	च० २८१	वाणमत	प्र० ७५, द्वि० १४, ११९, २२७, २४७ २५२.
मिच्छादंशणसत्रविबेग	तृ० १९, ३९, ७७, च० ३४, ९९.	लक्खवागिज	तृ० ८३	वाणमतरी	द्वि० ११९.
मिच्छादंशणसत्रवेरमण	प्र० १९९, च० ५८.	लव	प्र० ६९, द्वि० ३२१.	वासुडमार	द्वि० ११०. च० ४४.
मिच्छानाण	प्र० १२२.	लवसत्तम	तृ० ३६७.	वासुडुमारो	द्वि० ११०
मिच्छावादि	च० ६.	लाट	तृ० ३८७.	वादणी	तृ० १८९.
नीसपरिणन	च० ६४.	लेच्छइ	प्र० २४८, तृ० ३०, ३१.	वालु	द्वि० ११६.
नीससापरिणन	तृ० ४१.	लेसणाबंध	तृ० १०३	वालुपणमा	द्वि० २४०, तृ० ३०५.
नीसापरि ल	तृ० ४७, ४८.	लेसा(स्ता)	प्र० ७८, ९५, तृ० ७९, च० ४२	वावहारियणय	च० ६२
नीसाहार	तृ० ३२४.	लेसाकरण	च० १४	विउत्तिय	प्र० १८३, २७१, ३३८.
सुआ	द्वि० १९९.	लेसाद्व	प्र० ३०६.	विउत्तण	प्र० २०६, च० २७८, २८२.
सुआवाय	प्र० १६६ तृ० २७५, च० ३४, ३८, ५८, ८१, ९९.	लोगोवधारविणय	च० २७८, २८०.	विउत्तमणया	च० ३७.
सुहेसिज	प्र० २८१.	लोगपाल	द्वि० ७, २१, १०६, १२९	विउत्तगारिह	च० २७६.
सुहुन	द्वि० ३२१.	लोगतिगविमाण	द्वि० ३११.	विगलेदिय	प्र० १०७.
सुहुणवन्ना	तृ० ८.	लोमकसाधि	तृ० ३०२.	विचित्त	द्वि० १२३.
सुहुणवन्नाधि	तृ० ९	लोनाहार	प्र० ७२.	विचित्तपक्ख	द्वि० १२३.
		लोय	प्र० २१७, तृ० २२८ २३१, २८२, च० २१.	विच्छुजजातिआर्त्तविध	तृ० ५६.
		लोयाकास	प्र० ३९७.	विजय	द्वि० ३१५.
		लोयालोयणमाण	प्र० ३०६.		
		लंतक	प्र० १०३.		

श०	पृ०
सञ्ज्ञाण	द्वि० ११९.
सञ्चुत्तरगुणपञ्चमरसाणी	तृ० ८.
सञ्चर	प्र० ९९
सहस्सार	प्र० १०९, द्वि० ११
साइयवीसमाबंध	च० ५७
सागरोवम	द्वि० ३२, १५३, २७६, ३२२
सागरोवदत्त	द्वि० २८२, तृ० १३२, ३०२, तृ० ७०, च० ४८, ८१, २६७, २८७
सागार	प्र० १५१
सामारोवधोग	प्र० २०१ च० ३४, ९९.
सागारियदग्गह	च० ६.
साबीकम्म	तृ० ३३
सादीयवीमसाबंध	तृ० १०१
साम	द्वि० ११६
सामाइय	प्र० १२८, तृ० ९
सामाडयकड	तृ० २
सामाडयचरित्तलद्विय	तृ० ६९
सामाडयमाइप्राइ	तृ० १६५
सामाडयसजय	च० २६१, २६२
सामाणिअपरिसोववन्नय	द्वि० ७०
सामाणिय	प्र० ३००, द्वि० ५, ६
सामाणियसाहस्ती	द्वि० ३.
सामायारी	च० २७४
सायावेवणिज्ज	तृ० १९
सारभ	द्वि० ७७, २०५, २२६
सालिभह	द्वि० ११९
सावज्ज	च० ६.
सामय	तृ० ९९, १८१
साहणणावव	तृ० १०३.
साहम्मिडग्गह	च० ६
साहम्मियसुस्सुणया	च० ३७.
साहा(घा)रणसरार	च० ८०, ८३.
साहिकरणि	च० ३
सिणाय	च० २४१.
सिद्धिलवंधुणबंध	च० ५७.
सिद्ध	द्वि० ५, च० ४५, ४७
सीयपरीसह	तृ० ९८.
सीया	तृ० १९१
सीलव्वय	तृ० ११८, प्र० २७७, तृ० ८१
सीसपहेलिया	द्वि० १५३.
सीहगड	द्वि० १२३
सुअ	प्र० ३
सुअणणपज्जव	प्र० ३०९.
सुअ	च० २८१
सुअपन्निस्सय	तृ० ३०२, च० २८६.
सुअलेस	प्र० ७८, ३४, ३९
सुअलेसा	प्र० १५९.
सुत्त	तृ० ४८
सुत्तजागरा	च० १६
सुत्तत्त	तृ० २५९

श०	पृ०
सुत्तपडिणीय	तृ० ९३.
सुत्त	च० १६.
सुदकजुजागरिया	तृ० २५५.
सुद	तृ० ३८८.
सुद्धेयणिय	च० २७७
सुप्पभ	द्वि० १२३.
सुप्पभकंत	द्वि० ९२३.
सुप्पणिहाण	च० ६५.
सुभदीहाउयत्ताय	द्वि० २००.
सुमण	द्वि० १३०, १३१.
सुमणभह	द्वि० ११९.
सुय	प्र० १३२.
सुयअज्ञाण	तृ० ५९
सुयअज्ञाणनिव्वत्ति	च० १२.
सुयअज्ञाणि	द्वि० २८१, तृ० ३०२
सुयणाणि	प्र० १५७, द्वि० २८१.
सुयनाण	तृ० १३०, ३०२.
सुयनाणपज्जव	तृ० १५.
सुयसहायता	च० ३७.
सुयसपन्न	तृ० ११८.
सुरुव	द्वि० १२३.
सुलभवोहि	द्वि० ३४
सुवग्गु	द्वि० ९३०.
सुवण्णकुमार	द्वि० ११९, च० ४२.
सुवण्णकुमारी	द्वि० ११९.
सुविणदंसण	च० १५.
सुममद्दममा	द्वि० ३२३.
सुममसुममा	द्वि० ३२३
सुममा	द्वि० ३२३.
सुम्सुण्णविणय	च० २७९.
सुहम्म	प्र० १४
सुहम्मा	द्वि० ४७, ५९, ७०, च० २६, ३९.
सुहुम	द्वि० २९२, च० २७४.
सुहुमअपज्जत्तग	च० १९८.
सुहुमपज्जत्तग	च० १९८
सुहुमपरिणअ	द्वि० २२०, च० ६३
सुहुमसंपराग	च० २६२.
सूर	द्वि० ११०, १२३, तृ० २८०
सूरिय	द्वि० १४५, तृ० ३६३
सेज्जायरपिट	द्वि० २०९.
सेज्जासयारय	तृ० १८०
सेटि	च० २११, २१३.
सेया	च० २२०.
सेलेत्ति	द्वि० २६०, च० १३५
सेलेत्तिपडिवण्णय	प्र० १९६
सेलेत्तिपडिवन्नग	द्वि० २२०.
सोडदियउवत्त	तृ० ३०२
सोडदियकरण	च० ९३.

श०	पृ०
सोइंदिय	च० ३.
सोइंदियचलगा	च० ३६.
सोइंदियउसट	तृ० २६०.
सोइंदियसंवर	च० ३७.
सोग	च० ५.
सोम	द्वि० १०९, १२३, १२४, १३०.
सोमनाइय	द्वि० ११०.
सोमटेवकाइय	द्वि० ११०.
सोमा	तृ० १८९
सोयविजाणावरण	प्र० १३३.
सोयावरण	प्र० १३३.
सोलसमंघोलमम	प्र० २४१
सोवक्कमाउय	च० १२०.
सोहम्म	द्वि० १७, ५२, तृ० ३०९, च० ४१.
सोहम्मवडिसय	द्वि० ५७, ५९, ११०, द्वि० ११५.
सरुम	प्र० ५५.
संकाणण	प्र० ५४
सत्तवाल	द्वि० १२२.
सत्तेज्जपएण्डिअ	द्वि० २१६, तृ० २६७.
संधपडिणीय	तृ० ९३.
सजमफळ	प्र० २८३.
सजमठाण	च० २६३.
संजम	प्र० ६, द्वि० ११३, तृ० १२९.
संजय	प्र० ७६, द्वि० १८०, २७९, च० २५, च० २६१.
सजयासजय	प्र० १९, द्वि० २७९, तृ० १०.
संजलणलोभ	च० २६७.
संजुह	तृ० ३८६.
संजोयणादोस	तृ० ५.
संजोयणादोसपिप्पसुव	तृ० ६.
सठाण	च० २०४.
सठाणकरण	च० ९३.
संठाणतुल्लय	तृ० ३५६.
संठाणनिव्वत्ति	च० ९२
संपराइय	तृ० ३, ५, २३, ९६.
संपराइयबंध	तृ० ९४.
सभोगपञ्चकसाण	च० ३७.
संसुच्छिम	तृ० ४३.
संसुच्छिमचउप्पयथलयर	तृ० ४४.
समोहय	द्वि० ३४०.
सलेहणा	द्वि० १७, २८, ५५, ५६. तृ० १६५, च० १५, च० ५३.
सवर	तृ० १३१.
संचुड	प्र० २०३, तृ० ७, २३, १९१, च० १६.
संचुडासंचुड	च० १६.
सवेग	च० ३७.
ससारविडसग्ग	च० २८२
सिंवलि	तृ० ३८८.

परिशिष्ट २

देश, नगरी, अने पर्वतादिना नाम.

श०	पृ०	श०	पृ०	श०	पृ०
	अ				
कर्यंगला	प्र० २३१	भारह	द्वि० ५४, ५८, २४, ११५	वाणारखी	द्वि० १०१.
कार्यदी	तृ० १९६	मगह	तृ० ३८७.	वाणियगाम	तृ० १३८, १९६, २३४.
फासी	तृ० ३८३.	मलय	"	विज्ञगिरिपाय	द्वि० ५४.
कुम्मगाम	तृ० ३७३.	महातवोवतीरपभव (स्रवण)	प्र० २८९.	वीतीभय	तृ० ३२६.
कोसबी	तृ० २५६	माहणकुंडगाम	तृ० १६२	वेसाली	तृ० ३२.
कोलक (सन्निवेश)	तृ० ३७१	मिहिला	तृ० १२५	वेमारपन्वय	द्वि० ९२.
खत्तियकुंडगाम	तृ० १६५	मेंडियगाम	तृ० ३९२.	सरवण (सन्निवेश)	तृ० ३६८.
चंपा	द्वि० १४६, २५३, तृ० १७९, ३२६.	मोया	द्वि० २, २३	सावत्थी	प्र० २३१, तृ० १७९.
तामलिती	द्वि० २४.	रायगिह	द्वि० २३,	सिद्धतथगाम	तृ० ३७२.
तुंगिया	प्र० २७६	लाड	तृ० ३८७	सिधुसोवीर	तृ० २५२, ३६७, ३९२, ३३६.
नालंदा	तृ० ३६९.	वच्छ	तृ० ३८७	सुसुमारपुर	द्वि० ५६, ५८, ७०.
चेमेल (सन्निवेश)	द्वि० ५५.	वज्र	"	हत्थिनागपुर	तृ० २२१, २३६.
		वंग	तृ० ३८७.		

परिशिष्ट ३

चैत्य अने उद्यानना नाम.

असोयवणसंघ	द्वि० ५६	पंदण	द्वि० २-२३.	माणिमह	तृ० १२५.
कोट्टय	तृ० ३१२, १७९ २५९, ३६७, ३९२.	द्वतिपलासय	तृ० २३४, १९६, १३८	मियवण	तृ० ३२६.
गुणसिल	प्र० १३, तृ० ३८, ३६, ८९, १९८	पुण्णभद	द्वि० १४५, तृ० १७९, तृ० ३२६	संखवण	तृ० २३४.
चंदोवतरण	तृ० २५४.	पुफवत्तिया	प्र० २८०.	सहसंभवण (उद्यान)	तृ० २२१, २३६.
		बहुसाल	तृ० १६२.		

परिशिष्ट ४

अन्यतीर्थिक अने तापसो.

अग्निवेशायण (गोशालकविष्य)	तृ० ३८८	(कलद गोशालकविष्य)		वेसियायण (बालतपस्वी)	तृ० ३७३.
अच्छिह	" "	कण्णियार	तृ० ३८८	साण (गोशालकविष्य)	तृ० ३८८.
अज्जुणगोमायुपुत्र	" "	कालोदाइ	तृ० ३६, ३८, च० ९६	सेलवाल	तृ० ३६
अज्जवाल	तृ० ३६	गह्माल	द्वि० ५५	सेलोदाई	तृ० ३६, च० ६६.
अज्जउत्थिय	प्र० २०४, द्वि० १६५, ३४३, ३४५, च० ३३, ३४, ६४	गोसाल	३९५.	सुदत्थि	तृ० ३६
अयंपुल (आजीविकोपासक)	तृ० ३९८	नम्म्युदय	तृ० ३६.	सेवालोदाइ	तृ० ३६
उदय	तृ० ३६.	नासुदय	तृ० ३६	सखवाल	तृ० ३६
		पूरण (तापस)	द्वि० ५५	हालाहला (कुंभकारी गोशालाविष्य)	तृ० ३६७.

परिशिष्ट ५

साधु अने साध्वी.

महावीर	प्र० १८	सव्वाणुभूति	तृ० ३८४	मेहिल	प्र० २८०.
अग्निभइ	द्वि० ३, १४	सुणक्खत्त	तृ० ३८४.	कालियपुत्त	प्र० २८०.
इंदभइ (गोयम)	प्र० ३३, द्वि० १०५, १७८	सीह	तृ० ३९२.	केतिसामि	प्र० २७९.
वायुभइ	द्वि० १४, २०	सिच (राजपिं)	तृ० २२१, २३४	पिंगलय	प्र० २३१
मंडियपुत्त	द्वि० ७३.	उसभदत्त	तृ० १६२.	उदायण (राजपिं)	तृ० ३२६.
रोह	प्र० १६०	जमालि	तृ० १६५	अज्जवेवाणंदा	तृ० १६५.
फुरुदत्तपुत्त	द्वि० २१	खंदय	प्र० २३१.	अज्जचंदणा	तृ० १६५.
णारयपुत्त	द्वि० २३१.	आणंदरक्खिय	प्र० २८०.	अइमुत्त	द्वि० १७६.
तीसय	द्वि० १७.	कालासवेसियपुत्त	प्र० २०६.		
नियंठिपुत्त	द्वि० २३१	कासव	प्र० २८०		

परिशिष्ट ६

आवक अने आविका.

श०	पृ०	श०	पृ०	श०	पृ०
इक्षिभद्	तृ० २४९.	रेवती	तृ० ३९२.	कूगिय	तृ० ३०.
संच	तृ० २५२, २५४.	सुदंसण	तृ० २३५.	सहस्माणीय	तृ० २५७.
पोक्खलि	तृ० २५३.	पभावइ (उदायनस्य पट्टराज्ञी)	तृ० २३६.	सयाणीय	”
चेउग	तृ० २५७.	उप्पला	तृ० २५३.	सिवभद्	तृ० २२१.
अभिति (उदायनपुत्र)	तृ० ३२६.	मिगावइ	तृ० २५७.	वल	तृ० २३६.
अम्मट (परिव्राजक)	तृ० ३६७.	जयती	तृ० २५७.	धारिणी	तृ० २३१.
सेणिय (राजा)	प्र० १३.	चिहणा (श्रेणिकस्य पट्टराज्ञी)	तृ० १३.		

परिशिष्ट ७

भगवतीसूत्रमां साक्षीरूपे आवेला ग्रन्थोना नाम.

सयुशोगदार	द्वि० १८३.	जीवाभिगम	प्र० २६५, द्वि० २०८, तृ० १६, १७, २०६, २६१,	रायप्पसेणइज्ज	द्वि० २३, तृ० २७, ५९.
अंतकिरियापयय (प्रज्ञापना)	प्र० १०८.	ठाणपद (प्रज्ञापना)	प्र० २९५.	वक्कतिपय (प्रज्ञापना)	प्र० २२१.
आहारउद्देश (प्रज्ञापना)	प्र० ५३.	पणवण	प्र० ५३, द्वि० ६७, २६१, १३३, १३५, ३३६.	वक्कति	” च० ३३२.
इंदीयउद्देश (प्रज्ञापना)	प्र० २६७.	परियारणापय (पन्नवणा)	प्र० १९९.	वेमाण्डिहस (जीवाभिगम)	प्र० २९५.
चंउद्देशवपत्ति	तृ० १२५.			सिद्धगटिया (जीवाभिगम)	प्र० २९५.



